

६
श्रीगुरुभ्यो नमः

स्मृतिसुक्ताफलस्मृ संमरुती मुक्तापलम्

श्रीवैद्यनाथदीक्षितविरचितम्

पञ्चमो भागः जन्तुम् पाकम्

शास्त्र काण्डः - पूर्वभागः

संरात्त काण्टम् - पुर्वव पाकम्



வெளியிடுபவர் :

வेत्त துர்ம சாஸ்திர பரிபாலன ஸபை
ஸ்ரீ காஞ்சீ காமகோடி பீடம், ஸ்ரீமடம் ஸம்ஸ்தானம்,
காஞ்சீபுரம்



Sri Chandrasekharendra Saraswati
Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetam

శ్రీగురుభ్యో నమః

స్మृతిముక్తాఫలమ्

శ్రీవైఘనాథదీక్షితవిరచితమ्

పంచమా భాగః

శ్రావ్హ కాణడః - పూర్వభాగః

ద్రవిడానువాదయుతమ्

సంముగ్తి ముఖ్తాపలమ்

శ్రీ వైఠయనాత తీఙళితార్ ఇయఱ్రియతు
జీంతామ్ పాకమ్

చర్చాత్మక కాణ్టమ్ - పూర్వ పాకమ్

తమిమురయుటం

తొకుత్తసిప్పవర్ :

వైఠయ S.V. రాతూళిగుండణ చాసుత్తిచి, శ్రీరంగకమ్

వెளియిగ్తపవర్ :

వేత తార్మ చాసుత్తిర పాపిపాలన లపె
(కుంపకోணమ) చార్పిల్

శ్రీ కాఞ్చి కామకోడి పీటమ, శ్రీమటమ లమస్తాణమం

1, చాలైట తెగు, కాఞ్చిపురమ - 631 502

కర్ అ 2011

**SMRITI MUKTAPHALAM - PART - 5
SRADDHA KANDAM - PURVA BHAGA**

With Tamil translation :

Khara 2011 - II Edition

Edited by :

Vaidya S.V. Radhakrishna Sastri, Srirangam

Published on behalf of

Veda Dharma Sastra Paripalana Sabha

Kumbakonam

by

Sri Kanchi Kamakoti Peetam,

Sri Matam Samsthanam

1, Salai Street, Kancheepuram=631 502.

Lasertypeset & Printed at :

V.K.N. Enterprises

164, R.H. Road, Mylapore, Chennai-4, Phone : 98402 17036

Phone : 044-2722115 e:mail:skmkanci@md3.vsnl.net.in
 Fax : 044-27224305, 37290060

Sri Chandramouleeswaraya Namaha:
 Sri Sankara-Bhagavazdpadacharya
 Paramaparagatha Moolamnaya Sarvagnapeeta:
 His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi

JAGADGURU SRI SANKARACHARYA SWAMIGAL
Srimatam Samasthanam
No.1, Salai Street, KANCHEEPURAM - 631 502.



मङ्कृत्वा सत्स्मृतिसागरे सुगहने लब्ध्वा वरं मौक्तिकं
 श्रुत्यम्बागलभूषणं समतनोत् श्रीवैद्यनाथो महान् ।
 भूयस्तद्विडानुवादकनकैस्तन्वन् स्वर्जं सुन्दरीं
 राधाकृष्णसुधीस्सदा विजयतां श्रीचन्द्रमौलीक्षणात् ॥

अक्षैर्मा दीन्येति आम्नायामृताम्बुधिबिन्दुभिः निखिल-
 स्मृतिनिचयेन च प्रभुसम्मिततया, इतिहासपुराणबृन्द-
 माक्षिकधारया सुहृत्सम्मिततया, काव्यरसानुभूतीक्षुसारवर्णैः
 कान्तासम्मिततया च प्रतिपादितः धर्मकलापः सूक्ष्मगतिको
 विलसति । धर्म एव विशिनष्टि समाजं समजात् ।
 मनीषिमनोगोचरस्य तस्य धर्मस्यावगतये परमकारुणिका
 क्रष्णः स्मृतिग्रन्थान् विलिख्य महदुपकारमतानिषुः ।
 धर्मकलापापकलनकलापटौ कलौ मानवानां बोधनाय
 वैद्यनाथदीक्षिताख्यो विद्वदग्रेगण्यः स्मृतिसागारं निर्मथ्य

पीयूषमाचिन्वन् स्मृतिमुक्ताफलाख्यं ग्रन्थमरीरचत् । सोऽयं
 ग्रन्थः वर्णश्रमधर्मकाण्डः, आहिककाण्डः, आशौचकाण्डः,
 श्राद्धकाण्डः, तिथिनिर्णयकाण्डः तथा प्रायश्चित्तकाण्डश्चेति
 काण्डषट्केन निखिलमपि धर्म प्रतिपादयति । यं वै रक्षसि धर्मं
 त्वं धृत्या च नियमेन चे । स वै राधवशार्दूल धर्मस्त्वामभि-
 रक्षत्विति श्रीमद्रामायणवचनेन धर्मो रक्षति रक्षित इति सुष्ठु
 अवगम्यते । लोकानां धारणाद्वर्म इति साधाभिधां बिभ्रतो
 धर्मस्य सेवनं लोकव्यवस्थायाः स्थिरीकरणमिति न
 संशीतिः । सोऽपि धर्मः अनेन ग्रन्थरत्नेन सुष्ठववगम्यते ।
 तस्यैतस्य ग्रन्थस्य वर्णश्रमधर्मकाण्डादिः भागशः वैद्यश्री
 शिवे. राधाकृष्णशास्त्रिभिः द्रविडानुवादेन सह परिष्कृत्य
 वेदधर्मशास्त्रपरिपालनसभाद्वारा प्रकाश्यते इति ज्ञात्वा भृतां
 मोदामहे । सोऽयं यत्नः श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यम्बा-समेत
 श्रीचन्द्रमौलीश्वरकृपया सफलो भवत्विति ग्रन्थ-सम्पादकः
 एवमेव ग्रन्थरत्नानि प्रकाशयन्नैहिकामुष्मिकश्रेयो-विलासैः
 समेधतामिति प्रकाशने साहाय्यकर्तरश्च समस्त-मङ्गलानि
 अवाप्युः पठितारश्च धर्मसेवनेन निखिलश्रेयांस्यधि-
 गच्छन्त्वति चाशास्महे ।

शङ्करसंवत्सरः २५२०

काश्चीपुरम्

नारायणस्मृतिः ।



॥ శ్రీ: ॥

శీరాత్తు కాణ్ణటమ్

తవ తత్త్వం న జానామి తదమేయ ధియా మమ ।

అనీద్శస్త్వం ప్రథితస్తా ద్వారా తెగురో నమః ॥

శ్రద్ధా - భక్తి: - శీరాత్తత్తై - పంచ్తీ

శ్రద్ధా - ఆదరః, గురుశ్రుత్యాయుపదేశేషు విశ్వాసః, స్పృహా, శుష్ఠి:, ప్రత్యయః । శ్రద్ధా - శ్రద్ధయా పిత్రాదిభయః దత్తం, కృతం క్రియమాణం కర్మ । ఛిరాత్తా - ఛిరాత్తత్తై - అక్కరై, కురు వేతమం ముతవియవర్కణిం ఉపతోచత్తత్తీలిం. వయికాట్టవిలిం నమపికుకై, పులప్పటాతతాలిం ఇంటిలిం ఎన్నరు ఎన్నాన్నమిలిం అన్నమిపవత్తాలిం ఉండున్నారవాలిం ఉండుతెనత్తతెలిన్తు అక్కరైయుం ఆర్వముం నమపికుకైయుం కొణ్ణు చెయిలిలిం ఈటుపాటుతలిం, తూయ నమపికుకై. ఇప్పణిపాటుతిని చెయియిప్పాకిని చెయుకై, చెయిమురై ఈరాత్తమం. కురిప్పాక తమం ముండొన్నారకణిం ఉటిలిం ముతవియవర్థనిం అధిషేవ నేరిలిం కణ్ణుమి కేటుటుమి ఉణున్నార్నతుమి అవర్కణి తణకెకెని తని ఉరుకుకొణ్ణు ఇంగుప్పతె ఉణున్నతు నమపి అవర్కణోటు ఆర్వమిత్తుతిని తొటర్పుకొణుతలి. ఇతు ఇంవారు ఉరువావతర్కు అవర్కణిటిమి ఉండు పంచ్తీ ఉత్వకిర్ఱతు. అవర్కణిసిచార్సింతో నమ వాంధు అమెన్తుండుతాక నమపికుకై. అతనులిం ఛిరాత్తా పంచ్తీ అంలుతు పంచ్తీ-ఛిరాత్తతై ఎన్నరు ఇంగుపుకున్నమి ఇంజెత్తైతో కురిప్పిటిపు బెఱ్చుకిన్నఱి.

తాయి, తన్తతై ఎన్నవారు పల నీలికణిలిం ఉయిరి నీంకుమ విరై ఉపశరీకింపుటిరున్త ఉటిలిం, ఉయిరి నీంకియతుమ చసమాకిర్ఱతు. అతనులిం ఉయిరాక ఉలావి వంతిల్లోవణుతనియే పిరిన్తు అంగువిట్టు వెబెర్రు ఉరుపుపెర వెబెలియెరుకిర్ఱని. అపోతు అవణు పిరోతిని - పిరయాజుత్తిలిగుప్పవణు. ఇతు కారుమి ముంబెప్రిగున్త ఉటవిని తొటర్పు వాసనా లమిసుకారమాకిపు పచియుమి

தாகமும் முன்கொண்டிருந்த உறவு உணர்ச்சியும் அவனை பொதுவாக 10-11 நாட்கள் வரை துண்பறுத்துகின்றன. புத்திரன் முதலிய நெருங்கிய உறவினர்கள் நீர் வார்த்து (உதகதானம்) பிண்ட மளித்து முறைப்படி அவனது உடலை எரித்தோ மண்ணுள் புதைத்தோ அதனை ஜம்பூத நிலைக்கு மாற்றி முன் கொண்டிருந்த உடல் - உள்ளத் தொடர்பை நீக்க உதவுகின்றனர். அதுவே ஈமச் சடங்கு - தசாஹ கர்மமாகிறது. அந்த ஜீவனின் பிரேத நிலையை இவ்வாறு நீக்கி அவனது முன்னேர்களான ஸபிண்டர் எனும் பித்ரு பிதாமஹ - ப்ரபிதாமஹக் கூட்டத்துடன் அவனை இணக்கின்றனர். இது ஸபிண்டங்கரணமாகிறது. இந்நிலை இறந்து ஒரு ஆண்டு முடியும் போதுதான் பெற முடியுமெனினும், ஈமச் சடங்கு செய்கிற புத்ரர் முதலானேரின் வாழ்நாள் நீடிப்பது கேள்விக் குறியாகுமாதலால் அதனை 12 நாட்களுக்குள் நிறைவூறுமாறு ஒரு வருஷம் வரை தொடர்ந்து அவ்வப்போது செய்ய வேண்டிய பல சிராத்தங்களை முன்னதாக ஆகர்ஷித்து 12வது நாளில் நிறைவூறுமாறு நடத்தி முடிப்பர். ஆக இந்த ஈமச் சடங்கு 12 நாட்களில் ஓரளவு நிறைவூற்ற போதிலும், ஓராண்டுவரை உரிய காலத்தில் மாலிகம் முதலிய அந்தந்தச் சடங்குகளை முறைப்படி செய்து முதலாண்டின் முடிவில் நிறைவூறச் செய்வர். அதன் பின் ஆண்டிற் கொருமுறை பிரதி வருஷம் மரண திதியில் (பிரத்யாப்திக) சிராத்தம் செய்வர்.

முதலாண்டு முடியும் வரை வீட்டில் பும்ஸவளம் ஸீமந்தம் முதலிய சுபகர்மங்கள் செய்ய நேரிடும். ஈமச் சடங்கு செய்தவனுக்கு அதற்கான தூய்மை இராது. சுபகர்மங்களில் மறைந்த பிதா முதலிய முன்னேர்களும் பித்ரு தேவர்களாக ஆசி வழங்க வருவர். அவர்களை வரவேற்று அவர்களது ஆசியைப் பெற நாந்தீமுக சிராத்தம் செய்வர். நாந்தீ என்ற மங்களப் பொருளை ஏந்தி பித்ரு தேவர்கள் வருவதால் நாந்தீமுக பித்ருக்கள் என அவர்களைத் தனித்துக் குறிப்பிடுவர். ஆப்திக - பிரத்யாப்திக

சிராத்தங்களில் மறைந்த தந்தை வஸாவடிவில் முதலில் இடம் பெறுவார். தந்தையின் தந்தை ருத்ரராகவும் அவரது தந்தை ஆதித்யராகவும் இடம் பெறுவார். தாய், தந்தையின் தாய், தந்தையின் பாட்டி இவர்களும் வஸாருத்ர ஆதித்யர்களாக வருவார். வஸாவின் பின் வருபவர் ருத்ரர், அவருக்குப்பின் ஆதித்யர் என வரிசை ஸபிண்ணகரணத்தால் ஏற்பட்ட பித்ர தேவ நிலை. சுபகர்மங்களிலோ நாந்திமுக தேவர்களாக அவர்கள் வரும்போது ஆதித்யர் முதலில், அவரை தொடர்ந்து ருத்ரர், அவருக்குப் பின் வஸா என வரிசை. தந்தை தன் பாட்டனாருக்கு முன்னிடம் தந்து தனது தந்தையை ஒட்டி அவரது பின்வருவது ஆசி வழங்குவதில் அவர் காட்டும் பண்பெனக் கொள்ளலாம்.

நாந்திமுக பித்ருக்களை வரவேற்கத்தக்க தூய்மை முதலாண்டு முடிவுவரை கர்த்தாவிற்கு மாலிகம் முதலியவை செய்ய நேர்வதால் இல்லை எனக் கொண்டு முதல் ஆண்டின் இறுதிக்குள் செய்ய வேண்டிய மாலிக ஊநமாலிகாதிகளை ஆகர்ஷித்து சுபகர்ம நாளஞ்சியமுன் செய்வார்.

மறைந்தவரின் மேனிலைக்கு உதவவும், தனது முன்னேர்கள் சவமாகவோ பிரேதமாகவோ இருந்து சுத்தி இல்லாத நிலை நீடிக்காதிருக்கவும் பிரேத கர்மங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. தந்தைக்குப் புத்திரன், கணவனுக்கு மனைவி, ஜயேஷ்டனுக்குக் கணிஷ்டன் என்ற வாறு கர்த்தாக்கள் மாறுவார். பல.தாரமணத்திற்கு சாஸ்திரம் இடம் தருவதால் மனைவியரின் மூத்தவருக்குப் பிறந்த மூத்தவன் முக்யமாகிறான். மூத்தாளுக்குப் பிள்ளைகளில்லாவிடில் பல மனைவியரில் முதலில் பிறந்த பிள்ளை ஜயேஷ்டனுகிறான். மக்கட் பேறு இல்லாதவருக்கு உற்றார் உறவினர் கூடப் பிறந்தவர் தந்தை எனக் கர்த்தா மாறலாம். ஆதவால் கர்த்தா யார் என்றசிந்தை முக்கிய இடம் பெறுகிறது

தந்தையோ தாயோ தேசாந்தரத்தில் மரித்தாலோ மரித்த செய்தி தாமதமாகக் கிடைத்தாலோ மரித்ததே தெரியாவிட்டாலோ கருமம் செய்வதில் சங்கடங்கள் நேரும்.

முத்தவன் அருகில் இல்லாதபோது இனையவனுக்கு அப்பொறுப்பு நேரும் புத்ரர்களே இல்லாதபோது உற்றிருறவினருக்கோ ஊராருக்கோ அந்தப் பொறுப்புண்டு. சவம் ஊருக்குள் இருந்தால் ஊருக்கும் சுத்திக் குறைவுண்டு. இந்த நெருக்கடிகள் என்னற்றவை. இவையளைத்திற்கும் தக்க பரிஹாரத்தை முன்னேர்கள். பல வகையில் சிந்தித்து வழிகாட்ட முனைந்ததால் மரணத்தைத் தொடர்ந்த பன்னிருநாட்கள் அல்லது ஓராண்டிற்கான நடைமுறை விளக்கம் மிகவும் விரிவு பெற்றதால் ஸ்மருதி முக்தாபலத்தின் சிராத்தகாண்ட பூர்வபாகம் மற்ற ஏழு பாகங்களைவிட மிகவும் விரிவடைந்துள்ளது.

கர்த்தாவின் ஆத்ம கேஷம் மட்டுமின்றி அவனது வம்ச கேஷமும் தேச கேஷமும் இந்த அபர கர்மங்களின் அடிப்படை நோக்கமாகிறது. தனி மனிதனின் நல வாழ்வும் தூய்மையும் தேசத்தின் நலனுக்கும் தூய்மைக்கும் பெரிதும் உதவுகின்றது.

ஸ்மருதி முக்தாபலத்தின் மறுபதிப்பை வெளிக்கொணர ஸ்ரீ காஞ்சீ காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்ரீ ஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ சரணர்களும் ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ சரணர்களும் தம் குருநாதர்களான ஸ்ரீ மஹா பெரியவாள் பூஜ்யஸ்ரீ சந்திர சேகரேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ சரணர்கள் பெருமுயற்சியால் உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து முக்கியப் பணியாகக் கொண்டு வெளியிட்ட தென்ற சிரத்தாபக்கியுடன் வேததர்ம சாஸ்திர பரிபாலன ஸபையின் சார்பில் ஸ்ரீ மடத்தின் வெளியீடாக வெளிக்கொணர - அருள் புரிந்தார்கள். அதனைச் செயல் வடிவில் கொணர இவனுக்கு வாய்ப்பு அளித்தார்கள். அது அந்தப் பேரருளால் நிறைவூறுகிறது. இதனை பரம பூஜ்ய ஸ்ரீ சரணர்களின் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பித்து நிறைவூறுகிறேன்.

ஸ்ரீரங்கம் வைத்ய எஸ்.வி.

ராதாகிருஷ்ணசாஸ்தீரி

முகவரை

(முதல் பதிப்பில்(1953) உள்ள முகவரையின் சுருக்கம் இது)

நமது தலைவர் பாரத தேசத்தில் ஸப்ரஸித்தமாக விளங்கி வருகிற வைத்யநாத தீக்ஷிதியமென்கிற ஸ்ம்ருதி முக்தாபல நிபந்தன க்ரந்தத்தின் ச்ராத்த காண்ட மென்கிற பெரிய முக்ய பாகமானது தார்மிக ஸழுஹ உபகாரார்த்தமாகத் தமிழில் வெளியிடப்படுகிறது. தற்காலம் நமது தேசத்தில் காலச் சீர்கேடு காரணமாக நமது தர்மங்களும் ஆசாரங்களும் அனுஷ்டானங்களும் மறைந்தும் குறைந்தும் போய்விட்ட துரதுர்ஷ்ட நிலைமையில் ச்ராத்த தர்மம் ஒன்றுதான் எப்படியோ சிறிது உயிர் தரித்து நிற்கிறது. அதற்கு வலிவுட்டி நல்ல நிலைமையில் நீடித்து வாழச் செய்யும் கைங்கர்யத்தில் வேத தர்மசாஸ்திர பரிபாலன ஸபையானது தனது உயரிய கடமையை இதன் மூலம் செய்திருப்பது ஆஸ்திக ஸழுஹத்தினரால் நன்றியுடன் வரவேற்கப்படும்.

தீக்ஷிதியத்தின் உயர்வும் உபகாரமும்

நிபந்தன க்ரந்தங்கள் எந்த நோக்கத்துடன் ஏற்பட்டனவோ அந்தக் கார்யத்தைத் தீக்ஷிதியமானது வெகு திறமையுடன் நிறைவேற்றியிருக்கிறது. அதனாலேயே இந்த நிபந்தனத்துக்கும் நம் தேசத்தில் மிகுந்த மதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. வைதுகி மதத்தில் நிபந்தன க்ரந்தங்கள் அத்யந்தம் அபேக்ஷிதங்கள். நிபந்தன க்ரந்தங்கள் தோன்றுவிடில் தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தைகளையும், அனுஷ்டான நியமங்களையும் தார்மிகர்கள் யதாவத்தாக அறிந்து அனுஷ்டிக்க முடியாது. குழப்பமே ஏற்படும். ஸ்ம்ருதிகள் தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தைகளைச் செய்திருந்தபோதிலும் ஸ்ம்ருதிகளை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அனுஷ்டான நிர்ணயம் செய்வது ஸாத்யமாகாது.

ஸ்ம்ருதிகள் பலவிதங்கள். ஒவ்வொன்றும் குறிப்பாக ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் ப்ரஸ்தாபித்து நின்றுவிட்டன. பூர்ணேபதேசம் காணப்படவில்லை. வைதிக மதத்தில் இருக்கிற ஸகல ஸ்ம்ருதிகளையும் பார்த்து ஸந்த்யா, ச்ராத்தாதி ப்ரயோகங்களை க்ரோஹகரித்து ஸ்வரூபப்படுத்துவது நிபந்தன க்ரந்தங்களின் கார்யமாகும். பரஸ்பரம் விருத்தம் போல் தோன்றும் ஸ்ம்ருதி வசனங்களுக்கும், கால - தேச - அதிகாரி பேதமாக விஷய வ்யவஸ்தை செய்து விரோதங்களைப் பரிஹரித்து அநுஷ்டானத்தை நிர்ணயிப்பதும் நிபந்தனங்களின் மிகப் பெரிய பொறுப்பாயிருக்கிறது. வர்ண தர்மங்கள், நான்கு ஆச்சரம தர்மங்கள், அபர ஸம்ஸ்காரம், ஆசௌசம், ச்ராத்தம், ப்ராயச்சித்தம், ஸத்ரி தர்மம், தாயபாகம், த்ரவ்ய சுத்தி போன்ற ஸகல வைதிக தர்மங்களையும் ஒன்று விடாமல் ஸகல ஸ்ம்ருதிகளையும் பார்த்து வரிசைப்படுத்தி நிர்ணயிக்கும் நிபந்தனம்தான் பூர்ண நிபந்தனமாகும். திக்ஷிதியமானது, ஆப்ததமமான ப்ரமாண கோடியில் சேர்ந்த நிபந்தனங்களுள் ஒன்றுக்க் கடைசியில் அவதரித்தது.

திக்ஷிதியத்திற்கு இந்த ஏற்றமிருப்பதால்தான் தகவினை தேச வைதிக ஸமூஹத்தினரால் ஸம்ப்ரதாய பேதமின்றி இது அனுஷ்டாபக ப்ரமாண க்ரந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா ஸம்ப்ரதாயஸ்தர்களும் திக்ஷிதிய நிர்ணயங்களைப் புறக்கணிக்க முடியாமல் த்ருப்தியுடன் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். சாஸ்த்ரம் விகல்பித்துக் கூறுமிடங்களில் “தேசாசாரப்படி வ்யவஸ்தை” “உசிதம் போல் க்ரஹிக்கவும்” “சிஷ்டாசாரப்படி இதில் வ்யவஸ்தை” என்று சொல்வதை எங்கும் காணலாம்.

புருஷாஹூதி ஸம்ஸ்காரம் :— இந்த ச்ராத்த காண்டத்தில் இரண்டு பாகங்கள் உண்டு. முதல் பாகத்தில் அபர கார்யங்கள் என்கிற சரீர ஸம்ஸ்கார விதிகள்,



கர்த்ருக்ரமம், அக்நி நிர்ணயம் போன்ற பற்பல முக்ய விஷயங்கள் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகின்றன. இரண்டாவது பாகத்தில் பற்பலவித நித்ய நைமித்திக காம்ய ச்ராத்தங்கள் முதலியவைகளும் விரிவாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

வைதுக மதத்தில் ஜாதகர்ம, நாமகரண, சௌள, உபநயநாதி ஸம்ஸ்காரங்களைப் போல் அபர கார்யமும் ஓர் சரீர ஸம்ஸ்கார தர்மமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிறவி முதல் தர்ம ஸாதனமாயிருந்து தேவ பித்ர கார்யங்களையும் பகவத் பக்தியையும் செய்து தெய்வத் தன்மையடைந்த இந்தப் புனித மனித சரீரத்தை வெறும் உடலென்று அவக்ஷயமாக எறிந்துவிடமுடியாது. ஆகையால் அதைச் சாஸ்த்ர விதிப்படி ப்ரயோக திட்டங்களையும் வகுத்துக் கொடுத்திருக்கிறது. ஸம்ஸ்காரங்களை “நிவேஷகாதி-தஹநா(ச்மசாநா) ந்தங்கள்” என்று நமது சாஸ்த்ரங்கள் அபர ஸம்ஸ்காரத்தையும் சேர்த்தே வ்யவஹரிக்கின்றன.

ப்ராம்ஹணதிகளுக்கு ஏற்பட்ட சாஸ்த்ரீய சரீர ஸம்ஸ்காரங்களில் அபர ஸம்ஸ்காரம் கடைசியான ஸம்ஸ்காரம். இதைத் தெய்வ ஸம்ஸ்காரமென்று தீக்ஷிதர் நிருபித்து, இதனால் தேவர்களுடைய ஸாம்யத்தையும் ஸாயுஜ்யத்தையும் இறந்தவன் பெறுகிறுள்ளனரு காட்டியுள்ளார். “க்ருஹஸ்தனுக்குக் கடைசியாகச் சொல்லப்படுகிற ச்மசான கர்மம் என்கிற அபர கர்மாவானது, யாவஜ்ஜீவம் அக்நி ஹோத்ர ஓளபாஸன யஜ்ஞாதி நாநாவித கர்மங்களைச் செய்தபின் கடைசியான புருஷ ஸம்ஸ்காரமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புருஷ ஸம்ஸ்காரத்திற்கு பிறகு எல்லையற்ற புண்யமும் ஸவர்க்க சப்தத்தால் சொல்லப்படுகிற மோக்ஷ பலனும் கிடைப்பதாக ச்ருதிகளில் காணப்படுகிறது” என்கிறுர் தீக்ஷிதர்.

ப்ரஹ்மஸாயுஜ்யம் - மோக்ஷம் :— இந்த புருஷ ஸம்ஸ்காரத்தில் ப்ரஹ்மமேதம், பித்ரு மேதம் என்ற இரண்டு பிரிவுகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டும் மிகுந்த உத்க்ருஷ்டங்களென்றும், நற்கதிக்கு ஸாதனமென்றும், ஈச்வர ஸாயுஜ்யம் பெற ஹேதுவென்றும் ச்ருதி ஸ்மருதிகள் உபதேசிக்கின்றன. இவ்விரண்டு ஸம்ஸ்காரங்களும் புருஷாத்தமனுள பகவானே அடைவதற்கு ஸாதனமென்று ஸகல யாகங்களையும் விட உயர்ந்த யாகம் இந்தப் புருஷாஹாதி யாகமென்பதைத் தீக்ஷிதியம் நிறுபிக்கிறது.

ச்ருதிகல்பஸுத்ர விவுதிதம் :— இவ்வாரூக தஹன ஸம்ஸ்காரமானது மிக உத்க்ருஷ்டமான தென்றும், யாகங்களுள் உத்தமமான யாகமென்றும், பரமாத்ம ஸாயுஜ்யமாகிற மோக்ஷ ஹேதுவென்றும் உத்கோஷிப்பதை வைதிக மதஸ்தர்களில் பலர் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். “ப்ரேத கார்யம்” என்ற அலக்ஷ்யப் போக்கு காரணமாக இதன் மஹிமை அறியப்படாமல் ஒதுக்கித் தள்ளி விடப்பட்டு விட்டது. இதனால் புரோஹிதர்கள் என்கிற யாஜகர்களும் பலர் இந்தப் புருஷாஹாதி ப்ரஹ்மமேத ப்ரயோகத்தை யதாவத்தாக அறிந்து அனுஷ்டானம் செய்துவைக்க முடியவில்லை. ஆகையால் க்ருஹஸ்தர்களின் ஆச்ரம ஸம்ஸ்காரங்களில் கடைசியானதும் முக்யமானதும் ழர்த்திகரமானதுமான இந்த அபர ஸம்ஸ்காரத்தை இனியாவது ஆஸ்திகர்கள் ச்ரத்தையுடன் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதற்காகவே அதன் மஹிமையை தீக்ஷிதியம் விவரித்துக் கூறுகிறது.

இந்தப் புருஷாஹாதி ஸம்ஸ்காரமானது ப்ரத்யக்ஷ ச்ருதி விவுதமாயிருப்பதுடன் தைத்திரிய ஆரண்யகத்தில் அதற்கான மந்த்ரங்களும் படிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்பஸுத்ரகாரர்களான ஆபஸ்தம்ப, போதாயன, பாரத்வாஜாதி மஹர்ஷிகள் பித்ருமேத ஸுத்ரமென்கிற

கல்ப ஸுத்ரங்களைச் செய்து அபர ப்ரயோகத்தைப் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார்கள். இறந்த சரிரத்தின் ஸம்ஸ்கார விஷயத்திலும் வைதிக ஸம்பந்தமும் தெய்வத்தன்மையும் பூரணமாயிருக்கும்படி செய்திருப்பது உலகத்தில் நமது வைதிகமதமொன்றில்தான் காணக் கூடியது.

உலக மதங்கள் யாவற்றிலும் உண்டு மரணத்திற்குப் பிறகும் ஜீவயாத்தர உண்டென்றும் மறு ஜன்மம் உண்டென்றும் உலக ஆஸ்திக மதங்கள் யாவும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக ஒப்புக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகையால்தான் இறந்தவரின் சரிர அடக்க கார்யத்தில் உலகிலுள்ள ஸகல ஆஸ்திக மதங்களும் ஒவ்வொரு விதமான மத ஸம்பந்த முறையை ஆசரித்தே வருகின்றன. மத ஸம்பந்த கார்யம் செய்யாமல் சரிரத்தைக் கட்டை, கல்போல் ஏறிந்து விடுவதில்லை. ஆனால் மத ஸம்பந்த ப்ரயோக முறையில் ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு வழியைப் பின்பற்றிச் செய்கின்றது. இதற்கு அந்தந்த மதங்களின் வேதவிதிகளும் குருமார்களின் கட்டளையுமே காரணமாகும்.

அபரகர்மாவினால்	ஜஹிக	கேஷம் :-
அபரகர்மாவிலுள்ள	மந்த்ரங்கள்	அச்சீலங்கள்
(அச்சானியங்கள்)	என்று எவரும் நினைத்துவிடக் கூடாது.	
அந்த மந்த்ரங்கள் அதிகம்பீரமானவை.	இறந்தவனுக்கு ப்ரம்ஹ ஸாயுத்யாதி ச்ரேயஸ்களைக் கொடுக்கும்படி ப்ரார்த்திப்பவை அநேக மந்த்ரங்கள். க்ராமத்திற்கும், பசு முதலிய ப்ராணிக்கும் கேஷமத்தையும், சாந்தியையும், ஆனந்தத்தையும் பெரும்பாலும் ப்ரார்த்திக்கின்றன. அபரகர்மாக்களைத் தனது கேஷமத்திற்காகவும் குடும்ப கேஷமார்த்தமாகவும், க்ராம நகர கேஷமார்த்தமாகவும் விதிப்படி நன்கு அனுஷ்டிக்க வேண்டியது கடமையாகும்.	

அபரகர்மாவும் குடும்ப ஸொத்து பாத்யமும் :- மனு யாண்வல்க்யாதி தர்ம சாஸ்தரிகளும், சுக்ர, காமந்தகாதி ராஜந்தி சாஸ்தரிகளும் குடும்பஸொத்து பாகபாத்யத்திற்கும், அபரகர்மாவுக்கும் சட்டப்படி ஸம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திவிட்டார்கள். குடும்ப ஸொத்து பாத்யத்திற்கு முக்யமான நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸொத்து பாகம் அடைகிறவர்கள், முன்னேர்களுக்கு ச்ராத்தாதி கர்மாக்களைச் செய்து தீர வேண்டும். அந்தக் குடும்பத்தினரின், ஜாதி குல தர்மங்களையும் ஆசரிக்க வேண்டும். முன்னேர்கள் செய்துவந்த தர்ம கார்யங்களையும் செய்துவர வேண்டும். இந்த நிபந்தனை மீதுதான் குடும்பஸொத்து பாத்யம் ஏற்படுவதாக வைதுகமதம் நிர்ணயித்தது. ‘ஸோடஶாஹ: ஸ பிண்டாபி’ அந்தந்த ஜாதி, குல, குடும்ப தர்மங்களைக் கைவிட்டவர்களுக்கும் ச்ராத்தாதி அபர கர்மாக்களைச் செய்யாதவர்களுக்கும் குடும்ப ஸொத்து பாத்யம் இல்லையென்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘காஶம் து மரணாந்முக்தி: அथவா புத்ரஸ்நி஧ௌ’ என்பதாதிகளால் மரண காலத்தில் புத்ரன் ஸான்னித்யமிருப்பது அவச்யம் என்றும், முக்குலேதுவென்றும் வற்புறுத்தப் பட்டிருக்கிறது.

அபரகர்மாவில் சிகாதாரணம் அவச்யம் :- நமது வைதுக கர்மாக்களுக்குச் சிகாதாரணம் ஓர் முக்ய அங்கமாக விதிக்கப்படுகிறது. அதிலும் அபரகர்மாக்களில் சிகையின் ஸம்பந்தம் விசேஷமாக வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. யஜ்ஞோபவீதம் எப்படி ப்ராஹ்மணனுக்கு முக்யமோ, கர்மாக்களுக்கு அங்கமோ, அதுபோல் சிகையும் சிகாதாரணமும் அங்கமாகிறது. யஜ்ஞோபவீதமில்லாமல் கர்மா நிறைவேருதென்பதை நாம் அறிந்திருப்பதுபோல், சிகையில்லாமல் போன்றும் கர்மா ஸபவமாகிறதில்லையென்பதை ஆஸ்திகர்கள் அறிய வேண்டும். கார்யங்களுக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்ட

சிரோவபனம் ஸர்வாங்கவபனம் இவை கவனத்திற்குரியவை. 'ஆசௌசம் கேசேஷாலீயதே' என்று சாஸ்த்ரமானது, சாஸ்தரிய கேஷளரம் செய்துகொள்ளா விட்டால் ஆசௌசமானது அந்தக் கேசங்களில் மறைந்துநின்று அசுத்தியை உண்டாக்குமென்று சொல்லப்படுகிறது.

ச்ராத்தப் பிரிவுகள் :- ப்ரத்யாப்திகம், தர்சம், மஹாளயம், ஸங்க்ரமணம், அஷ்டகாந்வஷ்டகை போன்ற நித்யங்களான ச்ராத்தங்களும், மன்வாதி யுகாதி ச்ராத்தங்களும், அப்யுதயமென்கிற நாந்தி ச்ராத்தம் முதலியவைகளும் விசேஷித்துச் சொல்லப்படுகின்றன. அன்னம், ஹிரண்யம், ஆமம் ஆகிய த்ரவ்யங்களைக் கொண்டு அந்தந்த ச்ராத்தங்களுக்கு நியமமும் காணப்படுகிறது.

எதைச் செய்யாவிட்டால் தோஷமும், ப்ராயச்சித்தமும் ஏற்படுகிறதோ அது நித்யமென்று சொல்லப்படுகிறது. இதில் மாதா பிதாக்கள் இறந்த தினத்தில் செய்ய வேண்டிய ச்ராத்தமானது நித்யமாகையால் அதைக் கட்டாயமாகச் செய்து தீரவேண்டியதென்றும், இல்லையேல் 'ஸूताह் ஸமतிக்ரம்ய சண்டாலः கௌடிஜ்ஞமஸு' இத்யாதிகளால் மிக ப்ரபலமான தோஷம் கூறப்படுகிறதென்றும், ச்ராத்தம் செய்யாதவன் பாபியாவதுடன் அவனுடன் எவ்வித ஸம்ஸர்க்கமும் செய்யக் கூடாதென்றும், அவன் வைதிக மதத்திலிருந்து பதிதனவான் என்றும் தீக்கிதியம் சாஸ்தர வசனங்களைக் கொண்டு நிருபித்துள்ளது. மேலும் பித்ருதேவர்களுடைய சாபங்களும் ஏற்பட்டுக் குடும்ப கேஷமக் குறைவுகள் ஏற்படுமென்பதையும் சாஸ்தரம் வற்புறுத்துகிறது.

வைதிக மதத்தின் அடிப்படை கொள்கை :— "மனிதர்கள் தங்களுடைய புண்ய பாப கர்ம வசத்தினால் ஸ்வர்க்க நரகாதி பற்பல லோகங்களில் வளிக்க நேரலாம்.

அவ்வளவு தூர லோகாந்தரத்தில் இருக்கும் அவர்கள், புத்ராதிகள் இங்கு ஸமரப்பிக்கும் அன்ன பானுதிகளைப் புஜிக்கமுடியாது. அதனால் த்ருப்பதியும் அடையமுடியாது. த்ருப்பதியடைந்தாலும் அவர்கள் புத்ராதிகளுக்கு உத்தம போகங்களை அளிக்கச் சக்தியோ, அதிகாரமோ ஏது? அவர்கள் மனிதர்கள்தானே ? தேவதைகளல்லவே ?

இவ்வாறு ஒரு ஆசங்கையைத் தீக்ஷிதர் கிளப்பிக் கொண்டு யாஜ்ஞவல்க்யர் விஜ்ஞானேச்வரர் கூறியுள்ள வித்தாந்தத்தை வெளியிட்டு, ஸந்தேஹ சாந்தி செய்திருக்கிறார். அதாவது :- பித்ரு, பிதாமஹ, ப்ரபிதாமஹாதிகள் பரலோகத்தில் தனித்து நிற்பதில்லை. வஸா, ருத்ர, ஆதித்யர் என்கிற தேவர்களுடன் ஒன்றுக் ஜக்யமாகி விடுகின்றனர். ஒருவனைத் தேவதத்தனென்று கூறும்போது அவனது சரீரம், ஆத்மா இரண்டும் சேர்ந்தே வ்யவஹரிக்கப்படுகிறது. பிரிந்து நிற்பதில்லை. அதுபோல் பித்ருக்கள் என்று சொன்னால் வஸாருத்ராதி தேவர்களும் சேர்ந்தேயிருக்கும். பிரிந்து நிற்காது. அந்த வஸாருத்ராதி தேவர்கள் ச்ராத்தாதிகளால் ப்ரிதியடைந்து புத்ராதிகளுக்கு உத்தம லோகாதி கேஷமங்களையும் கொடுக்கிறார்கள். வஸ்வாதி தேவகணங்களில் நமது பித்ருக்கள் பிரிய முடியாமல் கலந்து தேவர்களாகிவிடுவர்.' மேலும் இங்குப் புத்ராதிகள் கொடுக்கும் ஹவிஸ்களை மந்த்ர சக்தியானது பித்ருக்களிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறது என்று வ்யாஸருடைய வசனத்தை தீக்ஷிதியம் வெளியிடுகிறது. 'எவ் ஶாக்தஸமுடிஷ் மந்திஃ பிரயதே பிதூந்' என்று.

மேலும் நாமம், கோத்ரம் முதலியவைகளுடன் கொடுக்கப்படும் ஹவிஸ் பித்ருக்கள் கர்ம வசத்தால் வெவ்வேறுவித ஜந்மங்களைப் பெற்றவர்களாயிருந்தாலும் அவர்களிடம் போய்ச் சேருகிறது. நமது பித்ருக்கள் தேவர்களாயிருந்தால் நாம் கொடுக்கும் ஹவிஸ் அம்ருத ரூபமாகப் பரிணமித்து அவர்களிடம் போய்ச் சேருகிறது.

கர்ம வசத்தால், பசு பக்ஷி ஜந்மம் பெற்றிருந்தால், புல், ஜலம் முதலிய ரூபமாக ஹவில் பரிணமித்து அவர்களிடம் போகிறது. இன்னும் இம்மாதிரி அவர்கள் எந்தெந்த ஜந்மமாக மாறியிருந்தபோதிலும் அததற்கு ஏற்ற ஆஹாரமாக மாறி ச்ராத்த ஹவில் த்ருப்தி செய்துவைப்பதாகப் பல வசனங்களைக் காட்டி தீக்கிதியம் உபாதிக்கிறது.

நாம் செய்யும் எந்த கர்மாவிலும், அக்நி, இந்த்ராதி தேவர்களையும், வஸரூத்ராதி பித்ரு தேவர்களையும் உத்தேசித்து ஹோம, பிண்டாதிகள் செய்தபோதிலும், அவைகளால் அக்நிந்த்ராதி தேவர்கள் மூலமாகவும், வஸரூத்ராதி பித்ருக்கள் மூலமாகவும் ஸர்வாந்தராத்மாவான ஸாக்ஷாத் பகவானே த்ருப்தியடைந்து, அந்தந்த தேவதைகள் மூலமாகப் பலன்களையும் அளிக்கிறார் என்கிற விஷயம் கிடையில் வெகு தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

ச்ராத்த ஹோம பலன் :— ச்ராத்தத்தில், ஹோமம், ப்ராஹ்மண போஜனம், பிண்டானம் ஆகிய மூன்றும் ப்ரதான அங்கங்கள். வைதுகமத ஸித்தாந்தத்தின்படி அக்நியில் நாம் செய்யும் ஹோமங்களை அந்தந்தத் தேவர்களிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பது அக்நியின் கார்யமாகும். இதனால் அக்னிக்கு “ஹவ்யவாஹனன்” என்ற காரணப் பெயர் ச்ருதிகளால் ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது. பித்ரு தேவர்களுக்கான ஹவில்களுக்கு “கவ்யம்” என்ற பெயர் உண்டு. ச்ராத்த ஹவில்களை ஸுக்ஷம ரூபமாகப் பித்ருக்களிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பதால் அக்நிக்கு “கவ்யவாஹனன்” என்ற பெயரும் ச்ருதியில் காணப்படுகிறது. பொதுவாகவே நமது மதத்தில், நாம் செய்யும் ஹோமங்கள் ஸுக்ஷமரூபமாக ஸுர்யனிடம் போய்ச் சேருவதாக மனு முதலியவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

அஸ்தோ பிராஸ்தாதுதி: ஸம்யாதித்யமுபதிஷ்டதே । என மூலீ ஆநந்தகிரி ஆசார்யரும் ஒரு ச்ருதியை காட்டியுள்ளார்.

ஸ்ருஷ்டி கர்த்தாவாகிய பகவான் பூலோகத்தில் தர்மங்களைக் கண்காணித்துப் பாதுகாக்க ப்ராஹ்மணர்களைத் தெய்வாம்சம் கொடுத்து ஸ்ருஷ்டித்ததாக நமது மன்வாதிகள் கூறுகின்றனர். “தர்மமென்கிற பொக்கிஷ்ததை ரக்ஷிப்பதற்காக ப்ராம்ஹணன் ஸகல ப்ராணிகளுக்கும் ஈச்வரனாக ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டான்” என்று மனு கூறினார். ச்ருதி கூறுகிறது.

பரोக்ஷ் வா அந்யே ஦ேவா இஜ்யந்தே । பித்யக்ஷமந்யே । எதே வை ஦ேவா: பித்யக்ஷம् । யத்ராஹ்ணா: ॥

நாம் செய்யும் கர்மாக்களில், கண்ணுக்குப் புலப்படாத சில தேவதைகள் பூஜிக்கப்படுகிறார்கள். கண்ணுக்குப் புலப்படும் சில தேவதைகளும் பூஜிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த ப்ரத்யக்ஷ தேவர்கள் யார்? ப்ராஹ்மணர்கள்தான்.

஬्रாஹ்ண வை ஸ்வா தேவதா: ப்ராஹ்மணன் ஸகல தேவதா ஸ்வரூபியாவான். யாவதிரை தேவதாஸ்வா வேதவி஦ி ஬்ராஹ்ண வசந்த தேவலோகத்தில் எவ்வளவு தேவதைகள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் யாவரும் வேதவித்தான் ப்ராஹ்மணனிடம் வளிக்கிறார்கள். இத்யாதி ச்ருதிகளை அனுஸரித்து ஸகல ஸ்மருதிகளும், ஸகல புராணங்களும் ப்ராஹ்மணர்களைப் பூலோக தேவர்களென்று ஒருமுகமாகக் கூறுகின்றன.

புராணதுகளில் ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, மஹேஸ்வராதி தேவர்களே ப்ராஹ்மணர்களின் மஹிமையைக் கூறி முக்யமாகப் பித்ருகார்யங்களில் தேவதாஸ்வராபிகளாயும், தேவதைகளின் ப்ரதிநிதிகளாயுமுள்ள ப்ராஹ்மணர்களைப் போஜனம் செய்துவைக்க வேண்டியதை வற்புறுத்தியுள்ளதைப் பார்க்கவும். ப்ராஹ்மண போஜனமும் அக்நி ஹோமம் போல் ஹோமமாகவே கூறப்படுகிறது.

இக்காலத்தில் ப்ராஹ்மண ஸமூஹத்தினருக்கே, நிமந்த்ரித ப்ராஹ்மணர்களிடத்தில் மனிதன் என்ற அலக்ஷ்யபுத்தி ஏற்பட்டு வருவதால் அவர்கள் சாஸ்தர உண்மைகளை அறியவேண்டி இவ்வளவுதாரம் நிருபிக்க நேர்ந்தது. இக்காலத்தில் முன்போல் உயர்ந்த ப்ராஹ்மணர்களும் வேதாத்யயன ஸம்பந்நர்களும் ச்ராத்தத்திற்கு கிடைக்காமல் போனாலும் காயத்ரீ மாத்ர ஶித்திபெற்றவர்கள் போதுமென்று மந்வாதிகள் சொல்லும் ஸமாதானத்தைத் தீவிதியம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ச்ராத்த கர்ம மஹிமை :- “ச்ராத்த கர்மாவைவிட மனிதனுக்கு ச்ரேயஸ்கரமான உயர்ந்த கர்மா வேறு கிடையாது. ஆகையால் ஸர்வவித முயற்சியாலும் ச்ராத்தத்தைச் செய்து தீரவேண்டும்.

ஆரோக்யம், தீர்க்காயுஸ், புதர் பெளத்ராதி ஸந்ததி, தனதான்யாதி ஸம்ருத்தி இவைகள் ச்ராத்த கர்த்தாவுக்கு ஏற்படுகின்றன. பரலோகத்திலும் பல உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் கிடைக்கின்றன. பித்ருக்களைப் பூஜிப்பதால் ஆயுஸ், புத்ரன், ஸ்வர்க்கம், புஷ்டி, பலம், ஸ்தரீ, பச, ஸாகம், தனதான்யாதிகள் ஏற்படுகின்றன. “இவ்வளவு மஹிமையுள்ள ச்ராத்தத்தைச் செய்வதால் அம்ருதவத்தை அடைகிறுன்”.

ச்ராத்த கர்மாவைச் செய்யாவிட்டால், குலஸந்ததி வருத்தியாகாது. ஆரோக்யம், தீர்க்காயுஸ் ஏற்படாது. வேறு பலவித ச்ரேயஸ்களும் கிடைக்காது. பித்ர தேவதைகளின் சாபமும் ஏற்படும். “பித்ர பிதாமஹாதி தேவர்கள் கிடையாதென்ற நாஸ்திக எண்ணத்தால் ச்ராத்தத்தை த்யஜித்தவனுடைய ரக்தத்தை அவர்கள் பானம் செய்கிறார்கள். நாமம் கோத்ரம் உச்சித்துப் பித்ருக்களுக்கு பிண்டதானம் செய்வதால் இருவரும் சாக்வதமான பரப்ரஹ்மத்தின் ஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறார்கள்.

கட்டாயமாக அனுஷ்டிக்க வேண்டியவை :— இறந்த தினத்தில் செய்யப்படுகிற ச்ராத்தம் ப்ரத்யாப்திகம். அது ம்ருதாஹ ச்ராத்தமாகும். இதை எவ்வளவு ச்ரமம் இருந்தபோதிலும் முக்ய கல்பமாகவே, அதாவது அந்ந ரூபமாகவே செய்ய வேண்டும். ப்ரதிநிதியில் செய்யக் கூடாதென்று தீக்ஷிதீயத்தில் காண்கிறது. தர்சம், மஹாளியம், ஸங்க்ரமணம், அஷ்டகை, போன்ற மற்ற நித்ய ச்ராத்தங்களை ஹிரண்யம், ஆமம், தர்ப்பணம் ஆகிய ப்ரதிநிதிகளில் ஏதாவது ஒன்றை அனுஸரித்தும் கௌணமாகச் செய்யத் தீக்ஷிதீயத்தில் அனுமதி காண்கிறது. ஸௌகர்யமிருந்தால் இவைகளையும் முக்ய கல்பமாக அந்ந ரூபமாகச் செய்வது ச்ரேஷ்டமாகும்.

அஷ்டகாந்வஷ்டகை ச்ராத்தமானது நித்யமாகவும், செய்யாவிடில் தோஷ மேற்படுவதாயும் சாஸ்த்ர விதி காண்கிறது. ஆஸ்திரக்கள் கூடப் பலர் இந்த விதியை அறியாமல் அஷ்டகையை த்யஜித்து விடுகிறார்கள். தீக்ஷிதீயத்தை நன்கு பார்த்து யாவரும் இந்த நித்ய கர்மாவை விடாமல் செய்து ச்ரேயஸ் பெற வேண்டும். அப்யுதயமென்கிற நாந்தி ச்ராத்தத்தைப் பற்றியும் தீக்ஷிதீயத்தில் விவரித்துக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. வைதிக கர்மாவில் எல்லாவித சுபகர்மாக்களிலும் பித்ர பூஜையை ஆரம்பத்திலோ கடைசியிலோ செய்து தீரவேண்டும். இதைத்தான் நாந்தீயென்றும், அப்யுதய ச்ராத்தமென்றும் கூறப்படுகிறது. இன்னும் இது போல் மந்வாதி யுகாதி போன்ற நைமித்திக காம்ய ச்ராத்தங்கள் பலவற்றையும் தீக்ஷிதீயம் கூறியுள்ளது. யதாஸௌகர்யம், யதாஸம்ப்ரதாயம் இவைகளையும் ஈச்வர பரீதிக்காக அனுஷ்டிக்கலாம்.

மாதா பிதாக்களுடைய உபகார ஸ்ம்ருதியாக ச்ராத்த தினத்தைக் கொண்டாடலாம். மாதா பிதாக்கள் செய்துள்ள உபகாரமோ எல்லையற்றது. வாய்விட்டுச் சொல்ல முடியாது. தர்ம ஸாதனமான சரீரத்தை உத்பத்தி

செய்வதுடன், சிகப் பருவம் முதல் யெளவனம் ஆகும் வரையில் அவர்கள் புத்ரனுக்குச் செய்யும் ஊழியங்களையும் உபசாரங்களையும், அபிமானத்தையும் அளவிட்டுச் சொல்லமுடியுமா? மாதா பிதாக்கள் கவனிக்கவிட்டால் குழந்தைகளின் கதி என்ன?

யथாக்ஷித பிரதானேந ஸ்வாபநாஞ்சாதைந ச ।

ந ஸுப்ரதிகர் தசு மாதா பிதா ச யத்குதம् ॥

என்று மாதா பிதாக்களுடைய உபகாரத்திற்கு ப்ரதியுபகாரம் செய்வதென்பது அஸாத்யமென்றே கூறப்பட்டது. ஓவ்வொருவரும் இதைச் சிந்தித்துப் பார்க்கலாம், மாதா பிதாக்களைப் ப்ரதான ஆசார்யர்களாக மதிக்கும்படி மஹர்ஷிகளும் கட்டளையிட்டனர். ஆகலால் அந்த மஹோபகாரிகளை, நமது சாஸ்த்ரம் வகுத்த முறையில் நாம் த்ருப்தி செய்துவைத்து நமது கடளை, கடமையைத் தீர்த்து த்ருப்தியடைய ச்ராத்த கர்மாவானது மிக்க அவச்யமாகும்.

பரலோகமிருப்பதில் ஸந்தேஹம் ஏற்பட்ட போதிலும் புத்திமானை மனிதன் அந்தத் தைர்யத்தால் தப்பு கார்யங்களைச் செய்துவிடக் கூடாது. தர்மங்களைவிடக் கூடாது. பரலோகமிருப்பதாகவே நினைத்து தர்மங்களைச் செய்துவிடுவது நல்லது. உண்மையில் பரலோகமில்லை யானால் நாம் செய்த தர்மத்தால் நமக்குக் கெடுதியொன்றும் ஏற்பட்டு விடாது. பரலோகமிருந்துவிட்டாலோ தர்மத்யாகம் செய்த நாஸ்திகன், ஆயுதமில்லாமல் துஷ்ட ப்ராணியிடம் அகப்பட்டுக் கொண்ட மனிதன் போல் வதைக்கப்படுவான். ஆகையால் ச்ராத்தாதிகளை எல்லோரும் அனுஷ்டித்து விடுவது நல்லது.

அக்நிமஹாத்ரம்
கோபால தேசிகாசார்யர்

ಶ್ರಾವ್ಯಕಾಪಡಃ - ಪೂರ್ವಭಾಗಃ - ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ
ಕೀರಾತ್ತ ಕಾಣ್ಟಾಮ್ - ಪೂರ್ವವಪಾಕಮ್ - ಬೆಪಾರುಣಾಟಕ್ಕಮ್
ಪಕ್ಕಮ್ ಎಂ

ಸುಮೂರ್ಖಾಃ ಆತುರಸ್ಯ ಸ್ವಾನವಿಧಿಃ ।

ಮರಣಾತ್ ತಗ್ರುವಾಯಿಲ್ ಸಂನಾಣವಿತ್ತಿ	1
ಪುಣ್ಡವಿಧಿಃ - ಪಣಾಂತಿರವಿತ್ತಿ	3
ಸರ್ವಪ್ರಾಯಶ್ರಿತಮ् - ಉರ್ವವಪಿರಾಯಕ್ಷಿತ್ತತಮ್	5
ಕೃಚ್ಛ್ರಂ ತತ್ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ - ಕ್ರುಂಕರಮ್ - ಪಿರತಿನಿತಿ	5
ಪ್ರಾಯಶ್ರಿತಕರ್ತಾ - ಪಿರಾಯಕ್ಷಿತ್ತಹಕಾರತ್ತಹಾ	9
ಭಗವಭಾಮಕಿರ್ತನೆ - ಪಕವಂನ್ರಾಮ ಕೀರತ್ತನಾಮ	12
ದಾನಾನಿ - ಥಾಣಾಂಗಕಳಂ	13
ಕರ್ಣಮನ್ತ್ರಜಪಃ - ಕರ್ಣಮಂಂತ್ರಿರ ಇಪಂ	17
ಮರಣದಿನಗುಣದೋಷಾಃ - ಮರಣಾತ್ನಿನಾ ಕುಣಾಂತೋಷಂ	19
ಅಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಯಶ್ರಿತಮ् - ಅಕ್ಷತ್ತಿ ಪಿರಾಯಕ್ಷಿತ್ತತಮ್	23
ದುರ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾಯಶ್ರಿತಮ् - ತುರ್ಮಾರಣ ಪಿರಾಯಕ್ಷಿತ್ತತಮ್	25
ಕರ್ತೃಕ್ರಮಃ - ಕಾರತ್ತಾ ವರಿಷೆ	35
ಪದ್ಮಿ ರಜಸ್ವಲಾ - ಮैನಾವಿ ವೀಟ್ಟು ವಿಲಕ್ಕು	70
ಅಗ್ನಿ ನಿರ್ಣಯಿಃ - ಅಕ್ಷತ್ತಿ ನಿರಣಾಯಮ್	87
ಪ್ರೇತಾಗ್ನಿಸಂಧಾನಮ् - ಏರೋತಾಕಣಿಷಂತ್ಥಾನಾಮ್	125

उपवीत-निवीत नियमः - उपवीत निवीत नियमम्	137
प्रेतनिर्हरणम् - प्रियोत्तत्त्वे वेवलीयेरूपत्वे	147
दहन देशः - क्रमश्च तत्त्वाणि इटम् - मुखे	154
वपनम् - वपनाम्	169
केशधारणादिनियमः - केशतारणाम् मुतलीय नियमम्	202
नग्नप्रच्छादन श्राद्धं - नक्षन्परक्षात्तना शिरात्तम्	215
उदकदानं एकोत्तर वृद्धिः -	
उत्क ताणाम् - ऋकोत्तर विग्रुहत्ति	219
पिण्डदानं - प्रिञ्जन्त ताणाम्	235
प्रेतशरीरोत्पत्तिः - प्रियोत्त उटल तेऽरूपम्	251
आतुराश्वासनम् - तुक्तक्तत्त्वे विशारीत्ततुत्त तेऽरूपत्वे	252
एकोत्तरवृद्धि-नवश्राद्धक्रमः -	
ऋकोत्तर विग्रुहत्ति नवशिरात्तंत्वंक्षणं	256
आशौचिनियमः - आशौचशिक्षणीन् नियमम्	261
अस्थिसञ्चयनम् - अस्थिलसञ्चयणाम्	264
प्रभूत बलिः - प्रियाप्तुष्ठ पलि	284
मध्ये दशादिसंभवे - नुविल तार्सम नेर्नन्त्वाल	287
पाषाणोत्थापनं - पाषाणा उत्तापनाम्	302
मुख्यगौणकर्त्त्व्यवस्था - मुक्य केळाणा कार्त्त्वा निलै	305
मुख्यकर्त्त्यसन्निहिते - मुक्य कार्त्त्वा अरुक्षिल इलै	307

मृते पुनर्जीविति - इறन्तवனं प्रिमेत्तेतमुन्तालं	320
पुनर्दाहविधिः - पुनर्तत्वानाम्	353
पुनः संस्कारः - मृग्यपति शम्पल्कारम्	371
मृति कालाज्ञाने - मरणं नेरम् अन्तिमपटावीष्टिं	382
मातापित्रोः दशदिनान्तरे मरणे	
तायुम् तन्त्रतयुम् पत्तु नाट्काणुं मरित्तलं ...	398
दम्पत्योः सहमृतौ - तम्पति चेरन्तु मरित्तलं	405
सञ्चातमरणे - पलर् चेरन्तु मरित्तलं	410
पत्न्या: सहचित्यारोहे - मैलावी कृटं शित्येनिङ्गुलं	428
वृषभोत्सर्जनम् - विरुष्टपोत्त्वरज्जुनाम्	441
एकोदिष्टक्रमः - एकोत्तीष्टत मुरै	449
आवृत्ताघमासिकम् - आवृत्ताघमासिकम्	466
षोडश श्राद्धानि - 16 शिरात्तंत्रकलं	475
मासिकादिषु आशौचप्रसक्तौ -	
मासिकम् मृतवीयतीनि इतेष्ये वेरु	
आवृत्ताघमासिकम् नेरन्त्तालं	483
सापिण्ड्य-मासिक-कालनिर्णयः	
बप्रिण्डाकरणाम् मासिकम् - काल निर्णयम् ...	492
मासिक श्राद्धस्य एकोदिष्टत्वपार्वणत्वनिर्णयः	
मासिकम् पार्वणमाक	
एकोत्तीष्टत्वमाक आवतु	505
प्रत्याब्दिकश्राद्धे पार्वणविधिः	

பிரத்யாப்திகத்தில் பார்வண முறை	506
भगिन्यादीनां मासिकविधिः -	
கோத்தி முதலானவர்க்கு மாஸிக முறை	517
सापिण्ड्यमनु एकोद्दिष्टे देववरणम् -	
ஸபிண்மயை ஒட்டிய ஏகோத்திஷ்டத்தில் விச்வே தேவர்கள்	519
महालये चतुर्दश्यां शस्त्रहतानां श्राद्धम् -	
மஹாநாய சதுர்த்தசியில் ஆயுதமரணமடைந்த வருக்கு சிராத்தம்	521
यतीनां पार्वणम् - तृष्णवीकरुक्कுप परार्वणाम்	526
सपिण्डीकरणविधिः - सपிண्डகரणமுறை	532
सपिण्डीकरणं विना कर्तुः शुभेऽनधिकारः -	
ஸபிண்மகரணம் செய்யாமல் சுபங்களில் கர்த்தாவிற்கு அதிகாரமின்மை	553
सपिण्डीकरणे अधिकारिणः तदहर्षश -	
ஸபிண்மகரணத்தில் அதிகாரி, அதைப் பெறத் தகுதி	555
सपिण्डीकरणप्रकारः - सपिण्डकरणमुறை	577
मातृसापिण्ड्यविधिः - मातृगूलापिण्टय वிதि	595
मातुः सापिण्ड्यम् - तायीன् सपिण्डकरणाम்	601
सोदकुम्भश्राद्धम् - लோதகும்ப சிராத்தம்	652
मातापित्रोः मृतिवत्सरे दर्शश्राद्धादिः	
-மாதா பிதாக்களின் மரண ஆண்டில் தர்ச சிராத்தம் முதலியவை	668

मातापितृश्राद्धसन्निपाते -

தாய்-தந்தையரின் சிராத்தம் ஒரே நாளிலானால் 678
அனேகஶ்ராஷ் ஸனிபாதே - அநேக சிராத்தங்கள் சேர்ந்தால் .. 681
ஸபிண்டஶ்ராஷ் ஸனிபாதே -



श्रीगुरुभ्यो नमः

स्मृतिमुक्ताफलम्

आद्वकाण्डः पूर्वभागः

संमंगुतीमुक्तापलम्

पंचरात्त काण्टम् - पूर्ववपा कम्

श्रितरामपदाब्जेन वैद्यनाथविपश्चिता ।

स्मृतीनां सारमालोच्य आद्वकाण्डो वितन्यते ॥

पूर्वरामणीनं पातारवीन्तत्तत्त अन्नात्य वैवत्यनात
रे नुम् वित्वा अग्ने लं संमंगुतीकर्णीनं लारत्त आरायन्तु
संरात्त काण्टम् इयन्त्रप्प बेरुकिरतु.

मुमूर्षोरातुरस्य स्नानविधिः ।

स्नात्वा कर्मणि कुर्वीत इति स्मरणात् स्नातस्यैव
प्रायश्चित्तकर्मण्यधिकारात् वारुणस्नाने अशक्तो मुमूर्षः
ब्राह्मादिस्नानमाचरेत् ।

अनुत्तरणीनं संनानविती

(अ) न्त काण्टत्तिल आस्तिकर्कर्णालं पित्तरुक्कर्णाल
उत्तेशित्तु चिरत्त युटनं अनुष्टिक्कप्प बेरुम् चिरात्तत्तिनं
पेतन्कर्ण, अवर्नर्निन कालम्, विति, नियमम् मुत्तवियवै
विलक्कप्प बेरुकिन्नरन. मरणम् मुत्तल मुत्तल ओरु वरुषम्
मुष्टिय पुत्रन मुत्तवियवर्कर्णालं अवशियम् चेय्यप्प बुकिर
कर्मन्कर्ण, पिन ओवं वेवारु वरुषत्तिलुम् चेय्य वेण्टिय
आप्तिकम्, प्ररत्याप्तिकम्, तर्चम्, लंकिरमणम्, अष्टका,
मन्वाति, यकाति, महाराज्यम्, विरुत्त चिरात्तत्तम्, मुत्तवियवै
पर्नरि विरीवान विलक्कम् तरप्प बुकिरतु. मरणत्तरुवायिल
अवनवन चेय्य वेण्टिय सर्व प्ररायस्चित्तम् चेय्य
नीरात्तुकिरमुरै मुत्तविल इटम् बेरुकिरतु.

‘सन्नानम् चेचय्तु पिरंकु कर्मण्कलैकं चेचय्यवुम्’ एन्ऱू
स्मंग्रुति इरुप्पत्तालं सन्नानम् चेचय्तवनुक्तेऽप्रायस्चित्तमः
मुतविय कर्मण्कलीनं अनुष्टानत्तिलं अतिकारमानत्तालं,
मुक्यमान वारुणसन्नानत्तिलः (नीरीलः मुमुक्षुवत्तिलः).
असक्तगुणमुमुर्षा वाम्हविल इरुत्तिक्कट्टत्तिल उल्लावनं.
(केळाणमान) प्राम्भौति सन्नानत्तत्तेत्तचेचय्यवुम्.

तदाह योगयाजवलक्ष्यः :- असामर्थ्याच्छरीरस्य वैषम्यादेश-
कालयोः । स्नानान्येतानि तुल्यानि मान्त्रादीनि यथाबलम् इति । स
एव—मान्त्रं भौमं तथाऽऽग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च । मानसं
यौगिकं चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात् । आपोहिष्ठादिभिर्मान्त्रं
मृदालम्भस्तु पार्थिवम् । आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः
स्मृतम् । यत्तु सातपवर्षेण दिव्यं तत् स्नानमुच्यते । मानसं
ह्यात्मचिन्ता स्यात् यौगिकं विष्णुचिन्तनम् इति ॥

अतेतच चेऽल्लुकिरुर्योक्याज्ञवल्क्यरः :-
सर्वरक्षकं त्वयिल्लामलुम्, तेऽकालंकलीनं ऋन्त्रूमय
यिल्लामलुम् इरुन्ताल, इन्तं मन्त्रं त्वयिवेकगुणम्
मुतवियवेकगुणम् वारुणसन्नानत्तिरंकुचं समण्क
लाकुम्, अवरवरं सक्तिये अनुसरीत्ततु. योक्याज्ञवल्क्यरोः:-
मान्त्रं त्वयिम्, बेलामम्, आक्षेन्यम्,
वायव्यम्, तिव्यम्, मानसम्, येलकिकम् एन्ऱू
सन्नानंकलै एम्. कर्ममायं ‘आपोहिष्ठादिभिर्मान्त्रं’ मुतविय
मन्त्रं त्वयिवेकगुणल चेचय्यप्पटुम् त्वयिवेकगुणम्, ‘मान्त्रं’.
मन्त्रं त्वयिवेकगुणल चेचय्यप्पटुवतु ‘आक्षेन्यसन्नानम्’.
विष्णुत्तियिण्णल चेचय्यप्पटुवतु ‘आक्षेन्यसन्नानम्’.
पश्विलं कालं त्वयिवेकगुणल चेचय्यप्पटुवतु
‘वायव्यसन्नानम्’. वेवयिलुटनं चेरन्तं ममेयिण्णल
चेचय्यप्पटुवतु ‘तिव्यसन्नानम्’ एनप्पटुकिरतु.
आत्मावेव त्याणीत्तत्तलं ‘मानससन्नानम्’ विष्णुवेव
त्याणीत्तत्तलं ‘येलकिक सन्नानम्’ एनप्पटुकिरतु.
(विस्तारत्तत्त आवृणीक काण्णटत्तिलं काण्णक)

புடினி஧ி:

தத ஊர்புண்டு நிபுண்டு வா உமயமபி வா யथா ஸ்வாசார் வி஭ுயாத் ॥ யதா ஹ மரீசி: — ஸ்ரீ ஹஸ்தா யதா லோகே ஦ர்஦ா மயவிஹலா: । ஊர்புண்டாகித் தத்து கம்பன்தே யமகிங்கரா: । விஷ்ணுரபி — ஊர்புண்டாகித் தத்து கம்பன்தே யமகிங்கரா: । ஶபாகோऽபி விமானஸ்தோ மம லோகே மஹியதே ॥ ததா பாஷே ஬்ரஹ்மருடஸ்வாடே — யஸ்யாந்தகாலே ஖ங் ஗ோபிச்சந்஦ன ஬ாஹோல்லாடே ஹுதி மஸ்தகே ச । பியாதி லோக் கமலாஸ்஖ஸ்ய ஗ோபால஘ாதி யதி ஬்ரஹ்மா மவேத் இதி । ஸ்காந்஦ே — மஸ்மருடாக்ஷாதாரி து யஶாபி மியதே யதி । ஸோऽபி ருட்ளமாபோதி கிஂ புனர்மாநுஷாதய: ॥ துலஸी஧ாரணாந்மத்யோ விஷ்ணுலோகே மஹியதே இதி ।

புண்டர விதி

சக்தியை அனுஸரித்து ஸ்நானம் செய்த பிறகு, ஊர்த்வபுண்டரத்தை, அல்லது தரிபுண்டரத்தை, அல்லது இரண்டையும், அவரவர் ஆசாரப்படி தரிக்கவும். அதைப்பற்றி, மீசி:- உலகில், ஸர்ப்பத்தைக் கண்டால் தவளைகள் எப்படி பயத்தால் நடுங்குகின்றனவோ, அப்படியே ஊர்த்வபுண்டரம் தரித்தவளைக் கண்டால் யமகிங்கரர்கள் நடுங்குகின்றனர். விஷ்ணுவும்:- ஊர்த்வ புண்டரம் தரித்த மனிதன் எந்த ப்ரதேசத்தில் மரித்தாலும், அவன் ச்வபாகனுயினும் (நாயின் மாம்ஸத்தைப் புஜிப்பவனுயினும்) விமானத்திலிருப்பவனுயின் எனது லோகத்தில் (வைகுண்டத்தில்) சிறப்புறுகிறான். அவ்விதமே, பாத்மபுராணத்தில் ப்ரம்ஹகருட ஸம்வாதத்தில்:- ஓ கருட! எவனது அந்த்ய காலத்தில், கைகளிலும், நெற்றியிலும், மார்பிலும், தலையிலும் கோபீசந்தனம் காணப்படுகிறதோ, அவன் லக்ஷ்மீபதியின் உலகத்தை அடைகிறான், அவன் கோவதம், பாலவதம், ப்ராம்ஹணவதம் இவைகளைச் செய்தவனுயிருக்கக்கட்டும்.

ஸ்காந்தத்தில்:- எந்த ப்ராணியாயினும் விபூதி ருத்ராக்ஷங் களளத் தரித்து மரித்தால் அதுவும் ருத்ரத்தன்மையை அடைகின்றது. மனிதர் முதலியவர்களைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமா? துளஸியைத் தரிப்பவன் விஷ்ணு லோகத்தில் சிறப்புறுகிறுன்.

भगवतीर्थनिवेषणम् ।

तुलसीदलसंभिश्रतीर्थपानं च कुर्यात् । तथा च स्मृतिचन्द्रिकायाम् — अन्त्यकालेऽपि यस्यास्ये दीयते पादयोर्जलम् । सोऽपि सद्गतिमाप्नोति यश्चाचारबहिष्कृतः इति । विष्णुपादयोरित्यर्थः । नारदीये – हरिपादोदकं यस्मान्मयि त्वं सिक्तवान्मुने । प्रापितोऽहं त्वया तस्मात् तद्विष्णोः परमं पदम् । तुलसीदलसंभिश्रमपि सर्षपमात्रकम् । गङ्गाजलं पुनात्येव कुलानामेकविंशतिम् इति । सिक्तवानिति वचनाच्छरीरे तीर्थसेचनमपि पावनमित्यवगम्यते ।

பகவத்தீர்த்த நிவேஷவணம்.

பிறகு, துளஸீதளத்துடன் கூடிய தீர்த்தத்தைப் பருகவேண்டும். அவ்விதமே, ஸ்ம்ருதி சந்திரிகையில்:- அந்த காலத்தில் எவனது வாயில் பாதஜலம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவன் ஸதாசாரங்களைப் புறக்கணித்தவனுயினும். நற்கதியை அடைகிறுன், இங்கு, ‘பாத ஜலம்’ என்பதற்கு விஷ்ணுபாதஜலம் என்று பொருள். நாரதீயத்தில்:- ஒ முனே! நீர் எக்காரணத்தால் விஷ்ணுபாதோதகத்தால் நனைத்தீரோ அதனால், உம்மால் நான் விஷ்ணுவின் அந்தப் பரமபதத்தை அடைவிக்கப் பட்டேன். துளஸீதளத்துடன் கூடிய கங்காஜலம் கடுகளவாயினும், (பருகினவனின்) இருபத்தொரு குலங்களைப் பரிசுத்தமாக்குகின்றது. இங்கு, ‘ஸிக்தவான்’ என்று சொல்லியதால், சரீரத்தைத் தீர்த்தத்தால் நனைப்பதும் பரிசுத்திகரம் எனத் தெரிகிறது.

ஸ்வப்ராயஶித்தம्

ததः பரிஷदனுஜாபூர்வக் ஷாதா஬்஦கृच்஛ரूபं ஷட்஬दகृच்஛ரूபं
த்ரஷ்டைகா஬்஦கृச்஛ரूபं வா ஸ்வப்ராயஶித்த யथாஶகித் ஸ்வபாபாநுஸரெ
குர்யாத् । ததா சா ஸ்மர்யதே — ஸ்வஜந்மார்ஜிதாநீஹ
भूणहत्यादिकान्यपि । ஸ்வபாபானி நஶயन்த கृच्छैद्रदिशवாஷிகைः ॥
जन्मप्रमृति यत्किञ्चित् पातकं चोपपातकम् । अर्वाक्तु
ब्रह्महत्यायाः षष्ठदानशयति ध्रुवम् । यद्यप्यसकृदभ्यस्तं
बुद्धिपूर्वमधं महत् । தச்஛ுத்ரத்யஷ்டகृச்஛ிண மஹதः பாதகாட்டே இதி ।
त्रिंशत् கृच्छா அவ்஦ஸंजகாः ।

ஸ்வப்ராயஸ்சித்தம்

பிறகு, பரிஷத்தின் அனுஜ்ஞங்கைய முன்னிட்டு,
12-அப்தக்ருச்ர ரூபமாகவோ, 6-அப்தக்ருச்ர ரூபமாகவோ,
2; அல்லது ஒரு அப்தக்ருச்ர ரூபமாகவோ,
ஸ்வப்ராயஸ்சித்தத்தை, சக்தியை அனுஸரித்து,
பாபத்திற்கனுகுணமாய்ச் செய்யவும். அவ்விதமே,
ஸ்மருதியில்:- ஸகல ஜன்மங்களிலும் இவ்வுலகில்
ஸம்பாதிக்கப்பட்ட ப்ரம்ஹவுத்யாதி ஸகல பாபங்களும்,
12-அப்தக்ருச்ரங்களால் நிசிக்கின்றன. பிறந்தது முதல்
செய்த பாபமும் உபபாதகமும், ப்ரம்ஹவுத்திக்குக்
கீழ்ப்பட்ட பாபமும் ஆறு அப்த க்ருச்ரங்களால்
நிசிக்கின்றன. நிச்சயம். புத்தி பூர்வகமாய் அடிக்கடி
செய்யப்பட்ட மிகுந்த பாபமும், மஹாபாதகம் தவிர,
அப்தக்ருச்ரத்தால் நிசிக்கின்றது. முப்பது க்ருச்ரங்களுக்கு
'அப்தம்' என்று ஸம்ஜ்ஞங்கொம்.

கृच्छ தत्प्रतिनिधिस्वरूपम् ।

கृच्छोऽत्र ப்ராஜாப்தயः । தத்ஸ்வரूபமுக்த மனுநா – த்யஹ் ப்ராத-
ஸ்த்யஹ் ஸாய் த்யஹமாதயாசிதம् । த்யஹ் ந கிஞ்சி஦நியாத्

प्राजापत्यं चरन् द्विजः इति । तस्य स्वरूपतोऽनुष्ठानाशक्तौ प्रतिनिधिरेवानुष्टेयः, 'कृच्छूप्रतिनिधिं कुर्यात् गोभिरेव सवत्सकैः । गवामभावे निष्कं स्यात् तदर्थं पादमेव वा । पादहीनं न कर्तव्यं इति शातातपोऽब्रवीत् इति स्मरणात् । विष्णुः-प्राजापत्यक्रियाशक्तौ धेनुं दद्याद्विचक्षणः । धेनोरभावे तन्मूल्यं दातव्यं नात्र संशयः । धेनोरभावे निष्कं स्यात् तदर्थं पादमेव वा । पादहीनं न कर्तव्यमिति वेदविदो विदुः इति ।

कंगुचरम्, अथनं प्रतीनिति इवेवकलीनं संवरुपम्

இங்கு கருசரம் என்றது ப்ராஜாபத்ய கருசரமாம். அதன் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறோம், மனு - ப்ராஜாபத்ய கருசரத்தை அனுஷ்டிக்கும் ப்ராம்ஹணன், மூன்று நாள் பகவில் மட்டும், மூன்று நாள் இரவில் மட்டும், மூன்று நாள் யாசிக்காமல் கிடைத்ததை மட்டும் புஜிக்கவும். மூன்று நாள் உபவாஸமிருக்கவேண்டும். இவ்விதம் 12-நாள் அனுஷ்டிக்கும் வரதம் ப்ராஜாபத்ய கருசரமாம். அதைச் சொல்லியபடி அனுஷ்டிக்கச் சக்தியில்லாவிடில் ப்ரதிநிதியை (பதிலை) அனுஷ்டிக்கவேண்டும். "கருசரத்திற்கு ப்ரதி நிதியை கன்றுடன்கூடிய பசுமாடுகளாலேயே செய்யவேண்டும். (அவைகளைத் தானம் செய்யவேண்டும்). பசுக்களில்லாவிடில் ஒரு பசுவின் ஸ்தானத்தில் ஒரு நிஷ்கம் ப்ரதிநிதி. அல்லது, அதன் பாதி, அல்லது அதன்பாதி. கால்நிஷ்கத்திற்குக் குறைந்து செய்யக்கூடாதென்று சாதாபர் சொன்னார்" என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். விஷ்ணுः- ப்ராஜாபத்ய கருசரத்தை அனுஷ்டிக்கச் சக்தியில்லாவிடில், அறிஞன், பசுவைக் கொடுக்கவேண்டும். பசு இல்லாவிடில் அதன் மூல்யத்தைக் (விலையை) கொடுக்கவேண்டும். அதற்கும் சக்தியில்லாவிடில் ஒரு நிஷ்கம் கொடுக்கவேண்டும். அல்லது அதன் பாதி, அல்லது அதன்பாதி கொடுக்கப்படவேண்டும். கால் நிஷ்கத்திற்குக் குறைந்து கூடாதென்று வேதமுனைர்ந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர்.

प्रतिनिध्यन्तरमुक्तं हेमाद्रौ - कृच्छ्रोऽयुतं तु गायत्रा
विप्रद्वादशभोजनम् । तिलहोमसहस्रं वा सममेतत् चतुष्टयम् इति ।
स्मृत्यन्तरे - कृच्छ्रो देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम् ।
तिलहोमसहस्रं च वेदपारायणं तथा । षष्ठिश्रुतिर्विशतिर्वा भोज्या
द्वादश वा द्विजाः । तावद्वोजनपर्यासं धान्यं तन्मूल्यमेव वा ।
तत्समृद्ध्यसमृद्धिभ्यां सङ्घचावैषम्यभाषणम् इति ।

வேறு ப்ரதிநிதி சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஹோமாத்ரியில் - விதிப்படி அனுஷ்டிக்கப்பட்ட க்ருச்ரம், காயத்ரியைப் பதினையிரம் முறை ஐபிப்பது, பன்னிரண்டு ப்ராம் ஹனர்களைப் புஜிப்பிப்பது, ஆயிரம் முறை திலஹோமம் செய்வது இந்நான்கும் ஸமமாகும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:- ஒரு ப்ராஜாபத்ய க்ருச்ரம், 10000 முறை காயத்ரீஜபம், 200 முறை ப்ராணாயாமம், 1000 முறை திலஹோமம், வேதபாராயணம், அறுபது, அல்லது 24, அல்லது 12-ப்ராம் ஹனர்களுக்குப் போஜனம் செய்விப்பது, அல்லது ப்ராம் ஹன போஜனத்திற்குப் போதுமான தான்யத்தைக் கொடுப்பது, அல்லது தான்யத்தின் மூல்யத்தைக் கொடுப்பது இவைகள் ஸமங்களாம். இங்கு ப்ராம் ஹன போஜனத்தின் கணக்கை நிறைவு குறைவுடன் சொல்லியது தாதாவின் தனிலம்பத்தி, தனக்குறைவு இவைகளை அனுஸரித்ததாகும்.

तथा विज्ञानेश्वरीये-कृच्छ्रे पञ्चातिकृच्छ्रे त्रिगुणमहरह
स्त्रिंशदेवं तृतीये चत्वारिंशत्र्व तसे त्रिगुणनगुणिता विंशतिः स्यात्
पराके । कृच्छ्रे सान्तापनाख्ये भवति षडधिका विंशतिः सैव हीना
द्वाभ्यां चान्द्रायणे स्यात् तपसि कृशबलो भोजयैद्विप्रमुख्यान् इति ।
अहरहरिति सर्वत्र संबध्यते । तृतीयः-कृच्छ्रातिकृच्छ्रः । अत्र
प्राजापत्यदिवसकलनया विद्वद्विप्राणां ४ष्टिभोजनानि भवन्ति । एव
मतिकृच्छ्रादावूहनीयम् ।

விஜ்ஞாநேச்வரியத்தில்:- தபஸ் செய்யச் சர்பலமில்லாதவன், ப்ராம்ஹண போஜனம் செய்விக்க வேண்டும். ப்ராஜாபத்ய க்ருச்ரத்தில் ஒவ்வொருநாளும் ஐந்து ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் போஜனமளிக்க வேண்டும். மொத்தம் 60 ப்ராம்ஹணர்களுக்கு. அதிக்ருச்ரத்தில் ஒவ்வொருநாளும் 15 ப்ராம்ஹணர் களுக்கும், மூன்றுவதான க்ருச்ராதிக்ருச்ரத்தில் ப்ரதிதினம் 30 ப்ராம்ஹணர்களுக்கும், தப்தக்ருச்ரத்தில் ப்ரதிதினம் 40 ப்ராம்ஹணர்களுக்கும், பராகக்ருச்ரத்தில் ப்ரதிதினம் 60 ப்ராம்ஹணர்களுக்கும், ஸாந்தபனக்ருச்ரத்தில் ப்ரதிதினம் 26 ப்ராம்ஹணர்களுக்கும், சாந்த்ராயணத்தில் ப்ரதிதினம் 24 ப்ராம்ஹணர்களுக்கும் போஜனம் செய்விக்கவேண்டும். விதவத் ப்ராம்ஹணர்களுக்கே போஜனம்.

स्मृत्यन्तरेऽपि — कृच्छ्रादिकरणाशक्तौ प्रत्याम्नायान्
समाचरेत् । प्राजापत्ये तु गमेकां दद्यात् सान्तपने द्वयम् ।
कृच्छ्रोऽयुतं तु गायत्र्या उपवासस्तथैव च । समुद्रगानदीस्नानं
सममेतच्चतुष्टम् इति । नदीस्नानं मृत्तिकास्नानविधिर्पूर्कम् । पराशरः
— पुण्यतीर्थेऽनार्द्धशिरः स्नानं द्वादशसप्तश्चया । द्वियोजनं तीर्थयात्रा
प्राजापत्यसमं स्मृतम् इति ।

மற்கிருந்தும் செய்யச் செய்யக்கூடியவைகளைச் செய்யக் கருத்தில் பிரதிநிதிகளைச் செய்யவும். ப்ராஜாபத்யக்ருச்ரத்தில் ப்ரதிநிதியாக ஒரு பசுவைக்கொடுக்கவும். ஸாந்தபனத்தில் ப்ரதிநிதியாக இரண்டு பசுக்களைக் கொடுக்கவும். க்ருச்ரம், 10000 முறை காயத்ரீஜபம், உபவாஸம், ஸமுத்ரத்தில் சேரும் நதியில் ஸ்நானம் இந்நான்கும் ஸமமாகும். இங்கு நதீஸ்நான மென்றதை ம்ருத்திகாஸ்நான பூர்வகமாய்ச் செய்யவேண்டும். (ம்ருத்திகாஸ்நானத்தை ஆஹ்னிக காண்டத்தில் காண்க) பராசரர்:- புண்ய தீர்த்தத்தில் 12 முறை ஈரமில்லாத சிரஸ்ஸாடன் ஸ்நானம் செய்தலும், இரண்டு யோஜனை தூரத்திலுள்ள புண்ய தீர்த்த யாத்ரை செய்தலும் ப்ராஜாபத்யக்ருச்ரத்திற்குச் சமமாம்.

ଆபदि கற்ந்தரவரணாடி

ଆபத்காலே விதம் சுயம் கர்து மஶக்தஷ்வேத் ததா ஬்ராஹ்மை: காரயேடித்யாஹ— பராஶரः - வ்யாதிவ்யஸனினி ஶாந்தே துர்மிக்ஷே ஡ாமரே ததா | உபவாஸோ விதம் ஹோமோ ஦்விஜை: ஸம்பாடிதானி வா இதி | வ்யாதிவ்யஸனீ-ரோග஗்ரஸ்தः | ஡ாமரः - பரராஜாத்யுபந்திஃ | அத்யந்தா-படம்஭ிப்ரேत்ய பக்ஷாந்தரமாஹ ஸ ஏவ— அதே வா ஬்ராஹ்மணாஸ்துஷ்டா: ஸர்வ குர்வந்த்யநுநாஹ | ஸவாந் காமாநவாப்ளோதி ஦்விஜஸம்பாடிதைரிஹ இதி | மஹாபுருஷவசநமாத்ரஸம்பாடிதைராஜிவிஞ்சை: அஶோககாமப்ராஸிர்வாதி | ததா பாபக்ஷயோ மஹதீதி கோ விஸ்மயः |

ஆபத் காலத்தில் வேறு காந்தாவை வரித்தல்

ஆபத் காலத்தில் நியமத்தைத் தான் செய்ய அசக்தனுயிருந்தால் அப்பொழுது, ப்ராமஹணர்களால் செய்விக்கலாம் என்கிறார் பராசரர்: வ்யாதியால் பீடிக்கப்பட்ட காலத்திலும், ச்ரமமுள்ள காலத்திலும், தூர்ப்பிழைத்திலும், சத்ரு ராஜாக்கள் முதலியவரின் உபத்ரவத்திலும், உபவாஸம், வரதம், தேவாமம் இவைகளை ப்ராமஹணர்களாலாவது செய்விக்கலாம். அதிக ஆபத்தை அபிப்ராயத்தில் வைத்து வேறு பக்ஷம் சொல்லுகிறார், பராசரரே:- அல்லது ஸந்தோஷமுற்ற ப்ராமஹணர்களே எல்லா அனுக்ரஹத்தையும் செய்கின்றனர். ப்ராமஹணர்களால் செய்யப்பட்ட ஆசிர்வசனங்களாலேயே ஸகல மநோரதங்களையு மடைகிறுன். மஹா புருஷர்களின் வாக்யத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட ஆசிர்விசேஷங்களால் ஸகல காமங்களின் ப்ராப்தியமுண்டாகிறது. அதில் பாபக்ஷய முண்டாகின்ற தென்பதில் ஆச்சர்யமென்ன?

மஹாபுருஷஸங்கல்பமாதாதே காமப்ராஸிராத்ரவே ஶ्रூதே – ய ய
லோகம் மனसா ஸ்வி஭ாதி விஶுஷ்ணுஸ்தவः காமயதே யாங்க காமாந् | த த

लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मजां हृचर्येभूतिकामः इति ।
महदनुग्रहविषयं दर्शयति देवलः - प्रायश्चित्तं यथोदिष्टमशक्यं
दुर्बलादिषु । इष्यतेऽनुग्रहस्तेषां लोकसञ्चाहकारणात् इति ।

महा पुरुषर्कளीन् संकल्पपत्तालेये काम
प्ररापत्ति उन्नटाकिञ्चित्तेन्पतु आत्मवेणत्तिलं
(मुण्णटकोपनिषत्त) केतकपंपाकिरतु. क्लेशसंक
लान्नवग्नेन 'निर्मलान्तःकरणग्नेन आत्मज्ज्ञानं',
मनुष्णिलं पीत्तरुलोकम् मुतविय एन्त एन्त लोकत्तेतत्त
तनक्को प्रिन्नरुक्कको संकल्पपीक्किञ्चिरुग्नेन, एन्तेतन्त
पोकंकण्कणा विरुम्पुकिञ्चिरुग्नेन, अन्तन्त
लोकत्तेतयुम्, अन्तन्त लोकंकण्कणायुम् अटेकिरुन्.
प्ररम्भज्ज्ञानं सत्यसंकल्पग्नेकयाल्. आत्मज्ज्ञानेन,
ज्ञानवर्यत्तेत विरुम्पुकिञ्चिरुवन्नं पात प्रकृतालानम्,
संक्षरुषेषु, नमस्कारम् इवेकणाल्ल पूज्यिक्कवेण्टुम्.
(सांकरपाष्यम्) महा अन्नकण्कणीन् अनुकरलृतिर्त्तु
विषयमानवेणत्त तेत्रीविक्किञ्चिरुर्, तेवलरः -
सांस्त्ररत्तिलं चेष्टलियपाति प्रायसंक्षित्तत्तेतप
पलमिल्लातवर्त मुतवियवर्त चेष्यमुष्टियातु. आकेयाल
लोकानुकरलृतिर्त्तुकाक, अवर्कणुक्कु महा अन्नकण्कण
अनुकरलृम् चेष्यवेण्टुम्.

पराशरोऽपि - दुर्बलेऽनुग्रहः प्रोक्तः तथा वै बालवृद्धयोः ।
ततोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः इति । ततोऽन्यथा -
प्रबलानुग्रह इत्यर्थः । दुर्बलस्य महदनुग्रहाच्छुद्धिं विशदयति स एव
- ब्राह्मणा जड्मं तीर्थं तीर्थभूता हि साधवः । तेषां बाक्योदकेनैव
शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः । ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि
देवताः । सर्वदैवमयो विप्रो न तद्वचनमन्यथा इति ।

प्राचरारुम्ः:- तुर्पलन्न, पालन्न, वरुत्तेन्न इवर्कण
विषयत्तिलं अनुकरलृम् चेष्यत्तकुन्तततु. इवर्कणेत्त
तविर्त्तु प्रपलग्नेयुलावणीत्तिलं अनुकरलृम्

செய்வது தோஷாவஹம். ஆகையால் வரதானு ஷ்டானத்தில் சக்தியளவனிடத்தில் அனுக்ரஹம் கூடாது. தூர்பலனுக்கு மஹான்களின் அனுக்ரஹத்தால் சுத்தியைத் தெரிவிக்கின்றார்ப்ராசரரே:- ப்ராம்ஹணர்கள் ஜங்கமமான தீர்த்தமாவர். ஸாதுக்கள் தீர்த்தமாயுள்ளவர்கள் எல்லவா? அவர்களின் வாக்யமாகிய ஜலத்தினுலேயே மலினரான (அழுக்குள்ள, பாபமுள்ள) ஜனங்கள் சுத்தராகின்றனர். ப்ராம்ஹணர்கள் எவைகளைச் சொல்லுகிறார்களோ அவைகளைத் தேவர்கள் அனுமதிக்கிறார்கள். ப்ராம்ஹணன் ஸர்வதேவ ஸ்வரூபங்கிருக்கின்றனர். அவனது வசனம் வேறு விதமாயாவதில்லை.

அனு஗्रஹயஸ்ய ஦ுர்஬லஸ்ய நியமवி஧ானேऽபி பிரत்யவாய இத்யாह
स एव— शरीरस्यात्यये प्रासे बदन्ति नियमांस्तु ये ।
महत्कार्योपरोधेन तत्पापं तेषु गच्छति । न स्वस्थस्य कदाचन इति ।
शरीरस्यात्ययः - मुमूर्षोभूम्यां शयनम् । तस्मिन् प्रासे सति तेन
कर्तुमशक्यं प्राजापत्यादिनियमं कर्तव्यत्वेन ये बदन्ति, तेषु तत् पापं
गच्छति । तत्र हेतुः महत्कार्योपरोधेनेति । महतां देवतोपासकानां
कार्यं महत्कार्यम् । अन्त्यकाले देवतास्मरणकीर्तनादि । तस्य
उपरोधः प्रतिबन्धः । मुमूर्षुः परिसरबर्तिभिः आसैबोधितो देवान्
स्मर्तुं उद्युक्ते । तदानीमेतद्वितस्य कर्तव्यतां श्रुत्वा कर्तुमशक्ववन्
व्याकुलचित्तः पूर्वमुक्तां देवतास्मृतिमपि परित्यजति । सोऽयं
पुरुषार्थप्रतिबन्धः । स्वस्थशरीரस्य तु पूर्वोक्तः कार्योपरोधः
कदाचिदपि நாஸ்த, ‘ஸ்வஸ்஥ஸ்ய மூढாः குர்வन्ति வदந்த்யனியம் து யே ।
தே தस्य வி஘்கர்தாரः பதன்தி நரகேऽஶுಚை இதி ஸ்மரணாத् ॥

அனுக்ரஹத்திற்கு யோக்யங்கு தூர்பலனுக்கு,
நியமத்தை விதிப்பதிலும் தோஷமுண்டென்கிறார்
ப்ராசரரே - சர்ராயாஸ் ஸமயத்தில் எவர்கள் நியமங்களைச்

சொல்லுகின்றனரோ, அவர்களிடத்தில் சிறந்தவரின் கார்யத்திற்கு இடையறு செய்ததாலுண்டாகும் பாபம் சேருகிறது. ஸ்வஸ்தனுக்கு நியமத்தைச் சொல்வதால் ஒரு காலும் தோஷமில்லை. முழுர்ஷாவானவன் பூமியில் படுத்திருக்கும்போது, அவனுல் செய்யமுடியாத ப்ராஜாபத்யாதி வ்ரதநியமத்தைச் செய்யத் தகுந்ததாய் எவர்கள் உபதேசிக்கின்றனரோ அவர்களிடம் அந்தப் பாபம் சேருகிறது. அதன் காரணம் 'மஹத்கார்யோபரோதம்' என்பது. மஹான்கள்-தேவதோபாஸகர்கள். அவர்களின் கார்யம்- அந்தக் காலத்தில் தேவதாஸ்மரணம் கீர்த்தனம் முதலியவை மஹத்கார்யம். அதற்கு உபரோதம்= ப்ரதிபந்தம். முழுர்ஷாவானவன் ஸமீபத்திலுள்ள ஆப்தர்களால் போதிக்கப்பட்டு, தேவர்களை ஸமரிக்க முயற்சிக் கின்றன். அக்காலத்தில் இந்த வ்ரதத்தைச் செய்யவேண்டுமெனக் கேட்டுச் செய்வதற்குச் சக்தியற்றவனுதலால் சித்தம் கலங்கி, முன் சொல்லப் பட்ட தேவதாஸ்மரணத்தையும் விட்டுவிடுகிறுன். இதுதான் புருஷார்த்த ப்ரதிபந்தம். ஸ்வஸ்த சர்ரஞ்சியளவனுக்கு முன் சொல்லிய மஹத்கார்யோபரோதம் என்பது ஒரு காலுமில்லை. (ஸ்வஸ்தஞ்சிருப்பவனுக்கு நியமாபாவத்தை எந்த மூடர்கள் சொல்லுகின்றனரோ, அவ்விதம் அனுக்ரஹிக்கின்றனரோ, அவர்கள் நியமத்திற்கு விக்னம் செய்தவர்களாகையால் அசுத்தமான நரகத்தில் விழுகின்றனர், என்று ஸ்மருது உள்ளது.

அந்தகாலே ஭गவநாமகிரිதநம् ।

அந்தகாலே ஹரிஹரநாமகிரිதநாடி஫லं ஸ்மர்தே—
யथாக஥ञ்சி஦ோவிந்஦ே கிரிதே வா ஶ्रுதேऽபி வா । பாபினோऽபி விஶுஞ்சா:
ஸ்யुः ஶுஞ்சா மோக்ஷமாபூர்யுः ॥ ஶிவ ஶிவ ஶிவ சேतி வ்யாஹரந் வை திவார்
த்யஜதி நிஜதனும் யஸ்த்வாயுஷோऽந்த்யக்ஷணேऽஸ்மிந् । ஭வதி ஭வமயானா

छेदकः पूर्वशब्दो न भवत इतरौ द्वौ कल्पितात्मोपकारौ ॥ यं यं भावं स्मरन् योगी त्यजत्यन्ते कलेबरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्वावभावितः इति । महदवलोकनं च कार्यम् । महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः । परं पदं प्रयात्येव महद्विवलोकितः इति स्मरणात् ।

அந்த்ய காலத்தில் பகவந்நாமத்தைச் சொல்லுதல்

அந்த்யகாலத்தில் ஹரிஹரர்களின் நாமகீர்த்தனத்திற்குப் பலம் ஸ்மருதியில் :- எவ்விதமாகவாவது கோவிந்த நாமத்தைச் சொன்னாலும், கேட்டாலும் பாபிகளும் சுத்தராவர். சுத்தர்கள் மோகஷுத்தை அடைவார்கள். எவன் தனது ஆயுளின் முடிவு கூண்ததில், சிவ சிவ சிவ என்று மூன்று தடவை உச்சரித்துத் தனது சரீரத்தை விடுகின்றானே அவனுக்கு முதலில் உச்சரிக்கப்பட்ட சிவ சப்தமே ஸாம்ஸாரிக பயங்களைச் சேதுப்பதாக ஆகிறது. மற்ற இரண்டு சப்தங்கள் ஒருவித உபகாரமும் செய்தவைகளாய் ஆவதில்லை. ஒ அர்ஜுன ! யோகியானவன் அந்த்ய காலத்தில் எந்தெந்த தேவதா விசேஷத்தை நினைத்துக் கொண்டு சரீரத்தை விடுகின்றானே, அந்தந்தத் தேவதா விசேஷத்தின் பாவனையை அப்யளித்தவனுய். மஹத் தர்சனமும் செய்ய வேண்டும். “மஹாபாபங்களுடன் கூடியவனுயினும், ஸகல பாபங்களுடன் கூடியவனுயினும், மஹான்களால் பார்க்கப்பட்டவன் பரமபதத்தை அடைகிறுன், நிச்சயம்” என்று ஸ்மருதி உள்ளது.

முழுஷோர்஦்வானவி஧ி:

மும்ருः பரலோகாर்஥ யथாஶக்தி஦ான் குர்யத் । இதः ப்ரदான ஹமுஸ்மிந் லோக ப்ரஜா உபஜீவன்தி இதி ஶ्रுதேः । தथா ச மஹாமாரதே - வி஦्यா ப்ரவசஸ்தோ ஦ான் மிதிஂ மரிஷ்யதः ॥ ஷட்ஶரிதி ஸஹஸ்ராணி

योजनानां युधिष्ठिर । मानुषस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरम् । न तत्र वृक्षच्छाया वा न वाप्यो न च दीर्घिकाः । न ग्रामो नाश्रमो वाऽपि नोद्यानं काननानि च । न किञ्चिद्दिश्रमस्थानं पथि तस्मिन् युधिष्ठिर । कण्टकाकीर्णमार्गेण तस्वालुकपांसुना । दद्यमानास्तु गच्छन्ति नरा दानविवर्जिताः । तस्माद्वानं तु कर्तव्यं मृतिकाले कथञ्चन इति ।

मुमुर्षु चेय्यवेण्टिय ताणंकरीन् विती

मुमुर्षुवानवन्परलोकत्तिर्काक यतासक्ति ताणम् चेय्यवेण्टिय । “स्वरक्तत्तत्त अटेन्त्त प्ररज्जेकाल, इन्तप्पुलोकत्तिल अनुष्टिकप्पट्ट कर्मन्कराल सम्पातिक्कप्पट्ट अन्नत्तत्तये स्वरक्तलोकत्तिल पुज्जिक्किन्नरनार” एन्ऱु चरुति उल्लातु. अव्वितमें, महापारत्तत्तिलः- अयल तेचम् चेल्पवनुक्कु वित्तये मित्तराम्. वीट्टिलिरुप्पवनुक्कु (करुलुस्तास्त्रमिक्कु) पार्ये मित्तराम्. यातिस्तास्त्रमिक्कु वेवत्तये मित्तराम्. मुमुर्षुवक्कुत्त ताणम् मित्तराम्. ओ युतिष्टिर! मनुष्य लोकत्तिर्कुम्, यमलोकत्तिर्कुम् नुविलुलाल इटेवेली 86000-योज्जने तुरमाम्. अन्त वழीयिल मरत्तिन्न निम्मलावतु, नटेवापीकरालावतु. ओ टेकरालावतु किटेयातु. करामम्, आस्त्रमम्, उत्त्याणम्, काटुकाल, इलाप्पारुमिट्ट इवेकरील एतावतु ओन्ऱुम् इल्लै. तपिक्किन्नर मनाल पुमुक्किलायुटेय मुट्काल निरेन्त वழीयाल बेक्ककप्पट्टवर्कराकस्त्र चेल्लुकिन्नरनार ताणम् चेय्यात मनीतर्कराल. आकेयाल मरणे कालत्तिल एव्वितमाकवावतु ताणत्तत्तस्त्र चेय्यवेण्टिय ।

**दानविशेषमाह शातातपः - अन्नपानाश्वगोवस्त्र-
भूशाय्याश्वासनानि च । प्रेतलोके प्रशस्तानि दानान्यष्टौ विशेषतः ।
तिलाः पापहरा नित्यं तद्वानं तु प्रशस्यते । यो हिरण्यं ददात्यन्ते**

ஹஸ்தத்து மஜெத் ஸ: இதி । முமுக்ஷூாஂ ஬்ரஹ்மிவி஦ாமபி
஗ृहस्थानामीश्वरप्रीत्यर्थं देयमेव । दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते
मोक्षकाङ्क्षिभिः इति स्मरणात् । संज्ञाहानौ मरणेऽपि वा हितैषी
पुत्रादिर्दिव्यात् । आतुरो वाऽथ पुत्रो वा दद्वारासञ्चबान्धवाः इति
व्यासस्मरणात् ।

தான பேதங்களைச் சொல்லுகிறோர் : சாதாதுபர்:-
அன்னம், ஜலம், குதிரை, பசு, வஸ்தரம், பூமி, படுக்கை,
ஆஸனம் என்ற எட்டுத் தானங்களும் பரலோகத்தில் மிகக்
சிறந்தவைகளாம். திலங்கள் பாபத்தைப் போக்குகின்றன.
அவற்றின் தானம் நித்யமும் புகழப்படுகிறது. அந்தய
காலத்தில் எவன் ஸ்வர்ணத்தைக் கொடுக்கின்றாலே
அவன் மோக்ஷத்தை அடைகிறான். மோக்ஷச்சை
யுள்ளவர்களாயும், ப்ரம்ஹவித்துக்களாயும் ஸ்ரீ
க்ருஹஸ்தர்களும் அவச்யம் தானம் செய்யவேண்டும்.
'மோக்ஷத்தை விரும்பியவர்களால், பலவிதமான தான
கார்யங்களும் செய்யப்படுகின்றன' என்ற ஸ்மருதி.
ப்ரஜ்ஞான தவறினாலும், மரணமேற்பட்டாலும், ஹிதத்தை
விரும்பும் புத்ரன் முதலிய யாராவது தானத்தைச் செய்ய
வேண்டும். 'ஆதுரானைவது, புத்ரானைவது, ஸமீப
பந்துக்களாவது தானத்தைச் செய்யவேண்டும்' என்று
வ்யாஸஸ்மருதி

ஸ்முதிரத்தே�பி – உத்காந்திவைதரண்யௌ ச ஦ஶாநானி சைவ ஹி ।
ப்ரேதேபி கृत्वा தं ப்ரேतं ஶவधर्मे நियोஜयेत् இதி । ப்ரचோதா: -
गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि ச । ரௌப்யं லவணமித्यாஹு-
दशாநானி படிஷ்டா: । எதானி ஦ஶாநானி நராணாஂ மृत्यுஜன்மனா: ।
குர்யாदம்யுदயார்஥ ச ப்ரேதேபி ஹி பரத ச । ஭ூமிரோஜிநபர்யஸா
஦்ரோணங்காமிதாஸ்திலா: । நிஷ்கந்திய ஸுவர்ண ஸ்யாதாஜ்ய ப்ரஸ்தாந்துஷ்யம् ॥
ஸூக்ஷ்மவஞ்சலாங்காந்தி ஸார்த்தாரிகமுத்தை । ஗ுங் ஷடிபல் சைவ ரௌப்ய
நிஷ்கந்துஷ்யம் । லவண ஸார்த்தாரிகம் ஦ஶாநான் ப்ரமாணத: இதி ।

संमंगुती रथनात्तीलुम्:- मुमुर्षुवानवान्, ताणंकणेच सेयवत्तरं कु मुनि इरन्तुविट्टालुम्, पुत्रान्मुतलियवन्, उत्कर्णान्ति ताणम्, वेवत्रणीताणम्, तचताणंकण इवेकणेच सेयतु, पिरहुताण इरन्तवणेच सवतर्मत्तिलं चेरक्कवेण्टुम्. प्रशेत्तस्ल पक्ष, पूमि, एन्स, बेपाण्स, नेयं, वस्त्रम्, ताणंयम्, वेल्लम्, वेळंसी, उप्पु एन्ऱ पत्तु त्रव्यंकणीं ताणंकण तचताणंकणेलाप्पटुम्. इवेकणेला मनितरिण पिरप्पिलुम्, इरप्पिलुम् मुरेये नन्मेक्कावुम्, परलोकत्तिर्हकाकवुम् सेय वेण्टुम्. पूमि एन्पतु छुरुवनुक्कुप्प पोज्जनत्तिर्हकुप्प पोतुमाण नेलं विणायक्कृष्यताम्. एन्स इरण्टु त्रोणाम् (4-मरक्काल) अलावूलातु. बेपाण्स मुन्ऱ निष्कम्म एटेयूलातु. नेयं नाणंकुपदि अलावूलातु. वस्त्रम् मेल्लियताय इरण्टु. ताणंयम् 1 1/2-कार्ण (पुट्टि) अलावूलातु. वेल्लम् अरुपतु पलमुलातु. वेळंसी नाणंकु निष्कमेटेयूलातु. उप्पु 1 1/2-कार्ण (पुट्टि) अलावूलातु. इव तचताणंकणीं प्रमाणंकणाम्. (निष्क परिमाणत्तेत वेऱु करन्तत्तिलं पारक्कवुम्).

महाभारते – यो मृत्युकाले सम्प्रासे गां ददाति पयस्विनीम्। गवा दर्शितमार्गस्तु ब्रह्मलोके महीयते । चतुःसागरपर्यन्तां सशैलवनकाननाम् । दत्ता यत्कलमाप्नोति सालग्रामात् तदशनुते । ब्रह्माण्डकोटिदानेन यत् फलं भवति प्रभो । तत् फलं समवाप्नोति शिवलिङ्गप्रदानतः । हिरण्यं भूमिदानं च तिलान् शक्त्या च दापयेत् । कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय तपस्विने । यदानं दीयते तस्मै तदानं स्वर्गसाधनम् । गृहीतदानपाथेयाः प्रयान्ति त्रिदिवं नराः । भ्रातरो वाऽथ पुत्रो वा दद्युरासन्बान्धवाः इति । दशदानमन्त्रा दानप्रकरणे अभिहिताः । उत्क्रान्ति गोदाने तु मन्त्रः – अत्युत्क्रान्तौ प्रवृत्तस्य सुखोत्क्रमणसिद्धये । तुम्यं सम्प्रददे धेनुमिमामुत्क्रान्तिसंज्ञिकाम् इति ।

மஹாபாரதத்தில் :- எவன் மரண ஸமயத்தில் பாலுள்ள பசுவைக் கொடுக்கின்றானே அவன், பசுவினால் காட்டப்பட்ட வழியடையவனும் ப்ரம்ஹலோகத்தில் சிறப்புறுகிறான். நான்கு ஸமுத்ரங்களுக்குட்பட்டதும், மலைகளுடனும், காடுகளுடனும் கூடியதுமான பூமியைக் கொடுத்தால் எந்தப் பலனையடைவானே அந்தப் பலனை ஸாளக்ராமதானத்தால் அடைவான். கோடி ப்ரம்ஹாண்டங்களைத்தானம் செய்வதால் எந்தப் பலனே அந்தப் பலனைச் சிவலிங்க தானத்தால் அடைவான். பொன், பூமி, என் இவைகளைச் சக்திக்குத் தக்கபடி கொடுக்கவேண்டும். குடும்பியாயும், தரித்ரனையும், ச்ரோதரியனையும், தபஸ்வியாயும் உள்ளவனுக்கு எந்தத் தானம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்தத் தானம் தாதாவுக்கு ஸ்வர்க்க ஸாதனமாகும். தானமெனும் பாதேயத்தை (வழிச்சோறு) க்ரஹி த்துள்ள மனிதர் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகின்றனர். ப்ராதாக்களாவது, புத்ரனைவது, ஸமீப பந்துக்களாவது தானம் செய்யலாம். தசதான மந்தரங்கள் தான ப்ரகரணத்தில் (வர்ணாச்ரமதார்ம காண்டத்தில்) சொல்லப்பட்டன. உத்க்ராந்தி கோதானத்திலோ இது மந்தரம்-‘அத்யுத்க்ராந்தெளி + ஸமஜ்ஞிகாம்’ என்பது.

அன்யகாலே ஜப்யமன்றா:

அன்யகாலே ஜப்யமன்ற மாஹ ஶौனக: - நானானமிதி ஸுக்தं து ஹன்யகாலே ஜபேत् ஸகृத् । லஷ்வா சைவ பர் ஸ்஥ானமஸृதत்வं ச ஗च்஛தி இதி । விஷ்ணு: - ஶ்ராவயேத् புண்யஸூக்தானி புண்யமன்றாக்ஷராणி ச । ஦ிவிஸ்ய ஦க்ஷிணே கர்ண புத்ராदி: ப்ராணஸங்கை இதி । ஸமூத்யந்தரே - கர்ண ஜபேதீஶவாக்யம் ஶாஸ்வாடிமிருදீரிதம் இதி । ஶுचிநிணியே எதாங்கால்யாதம், ஈஶவாக்யம், பஶ்வாக்ஷரி, அஷாக்ஷரி, ராமஷங்காரி, ப்ரணவ:, உபனிஷத்கால்யானி ச இதி ।

அந்த்ய காலத்தில் ஜபிக்கவேண்டிய மந்த்ரங்கள்

அந்த்ய காலத்தில் ஜபிக்கவேண்டிய மந்த்ரத்தைச் சொல்லுகிறார் சௌனகரா:- அந்தய காலத்தில் 'நாநாகம்' என்னும் ஸாக்தத்தை ஒரு முறை ஜபித்தால் சிறந்த உலகத்தை அடைந்து, மோக்ஷத்தையும் அடைவான்.விஷ்ணு:-ப்ராண ஸம்சய காலத்தில், புத்ரன் முதலியவன் ப்ராம்ஹணனின் வலது காதில் புண்ய ஸாக்தங்களையும், புண்ய மந்த்ரங்களையும் ஜபிக்கவேண்டும். மற்றொரு ஸம்ருதியில்:- சாஸ்த்ரம் முதலியவைகளால் சொல்லப்பட்டுள்ள சசவாக்யத்தைக் காதில் ஜபிக்கவேண்டும். சுசிநிர்ணயமென்னும் க்ரந்தத்தில் இதற்கு வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சசவாக்யம்- பஞ்சாக்ஷரி, அஷ்டாக்ஷரி, ராமஷ்டக்ஷரி, ப்ரணவம், உபநிஷத் வாக்யங்கள் என்று.

ஆபஸ்தம: - ஬்ரஹ்மி஦ாப்லோதி பர, மூர்வீ வாருணிரித்யெதாவனு-வாகை ஬்ரஹ்மி஦ோ ஦க்ஷிணே கர்ண ஜபத்யாயுஷः பிராணः ஸந்தந்விதி ச ॥ மரணஸமீபகாலே ஶுஞ்சமூர்வீ ஦க்ஷிணாயேஷு ஦ம்஭ேஷு ஦க்ஷிணாசிரஸ் ஸஂவேஶய முமூர்ஷீ஬்ரஹ்மி஦ோ ஦க்ஷிணே கர்ண ஬்ரஹ்மி஦ாப்லோதி, மூர்வீ வாருணிரித்யெதாவாக்ஷய, இதரஸ்ய கர்ண ஆயுஷः பிராணமித்யெதாக்ஸமிஹிதபுத்ராதிஃ கஷ்தி ஜபேதித்யர்஥ः । தथா ச ஬ோधாயனः - மூர்வீ ஦ம்஭ஸ்துதாயாஂ தா ஶாயயேந்மூதிஸ்தங்ஶயே । ஜபேந்து ஦க்ஷிணே கர்ண ஆயுஷः பிராணமித்யபி இதி ।

‘ஆபஸ்தம்பர் ‘ப்ரம்ஹவிதாப்நோதி, ப்ரகுர்வை வாருணி:’ என்ற இந்த இரண்டு அனுவாகங்களை ப்ரம்ஹவித்தினுடைய வலது காதில் ஜபிக்கவும். ‘ஆயுஷः ப்ராணம் என்ற அனுவாகத்தையும்’என்றார். மரணம் ஸமீபித்த காலத்தில், சுத்தமான ஸ்தலத்தில், தெற்கில் சிரஸ்ஸ-ள்ளபடி முழுர்ஷாவைச் சயனிக்கச் செய்து, அவன் ப்ரம்ஹவித்தாகில் அவனது காதில் ‘ப்ரம்ஹவிதாப்நோதி,

ப்ரகுர்வைவாருணி:’ என்ற இரண்டு அனுவாகங்களையும், மற்றவனின் காதில் ‘ஆயுஷ:ப்ராணம்’என்ற அனுவாகத்தையும், ஸமீபத்திலுள்ள புத்ரன் முதலியவன் ஜபிக்கவேண்டுமென்று பொருள். அவ்விதமே, போதாயனர்:- மரண ஸம்சய காலத்தில், தர்ப்பங்களால் பரப்பப்பட்ட பூமியில் படுக்க வைக்கவும். வலது காதில் ‘ஆயுஷ: - ப்ராணம்’ என்பதையும் ஜபிக்கவும்.

காத்யாயன: - ஦ுர்஬ல் ஸ்வாபித்வா ச ஶுஷ்சேலாभிஸங்வृதம् । ஦க்ஷிணாஜிரஸ் ஭ூமௌ ஬ஹிஷ்மத்யாஂ நிவேஶயேத् । முமூர்஦்விக்ஷிணே கர்ணே ஬்ரஹ்மந்திராந् ஜபேத் ஸுதः இதி । வசிஷ்டோ விஶேஷமாஹ - பிதுர்மரணகாலே து புத்ரஸ்து கிரணமோசனாத् । மஸ்தக் து ஸமாධாய ஦க்ஷிணஸ்ய து ஜானுனி । ஶாவயேத் புண்யஸ்குதானி புண்யமந்திராக்ஷராணி ச । ததஸ்து நிர்஗்தே வாயௌ குஶாஶ்ரே விநிக்ஷிபேத் இதி ।

காத்யாயனர்:- துர்ப்பலனை (முழுர்ஷாவை) ஸ்நானம் செய்வித்து, சுத்த வஸ்த்ரத்தைத் தரிக்கக்செய்து, தர்ப்பங்களுள்ள பூமியில் படுக்கசெய்யவும். அவனது வலது காதில், புத்ரன் வேதமந்த்ரங்களை ஜபிக்கவும். வளிஷ்டர் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்:- புத்ரஞ்சியவன் பிதாவின் மரண காலத்தில் ருணத்தை விடுவிப்பதற்காக, தனது வலது முழங்காவில் பிதாவின் தலையை வைத்துக்கொண்டு, புண்ய ஸாஂக்தங்களையும் ஜபிக்கவேண்டும். பிறகு ப்ராணவாயு வெளியிற் சென்ற உடன் தர்ப்பங்களின் நுனிகளில் தலையை வைக்கவேண்டும்.

மரணத்தினாலும் வாயு

஗ௌதம: - ஦ிவோத்தராயणே ஶுங்க பக்ஷே ச மரண ஶுமம் । மாதே திரிபதனக்ஷத்ரே மூங்கஜாரங்காக்ஷத்ரை । மரண ஦க்ஷன் சாபி ஸஸ்வயம் திரிபுரீ மாதே । மாதே து மூமி஦ான ஸ்யாத் திரிபத்ரே ஹிரண்யகம் । வாரே வாராதிநாதான் பூஜன் மூத்யுநாதானம் । திலை: பிரதிகृதி கூத்வா

दहेद्वोषोपशान्तये इति । मार्कण्डेयः - उत्तरायणे सूर्य उत्तमा गतिरुच्यते । शुक्लपक्षे मृतिस्तत्र श्रेष्ठा वह्निमृतिस्तथा । श्रेष्ठा तत्रापि मध्याह्ने उभयोः पक्षयोरपि । एकादश्यां मृतिः श्रेष्ठा मोक्षदा सर्वकामदा । वह्निमृतिः - तृतीयायां मरणम् ।

मरणा तीनात्तुनिं कुण्डेत्रोषिङ्करणं

केळातुमरः - पकविलुम्, उत्तरायणत्तिलुम्, सक्लबपक्षत्तिलुम् मरणमाणेल् अतु सपकरमाकुम्. पत्तरतित्तिलुम्, त्रिपात नक्षत्रत्तिलुम्, सक्तरन्, अन्कारकन्, प्रग्रहैल्पति इवर्कनीन् वारन्कनीलुम् एर्पटुम् मरणम्, तह्ननम्, लग्नस्यनम् इवै मून्नरु मटन्काकुम् (असपमेन्पत्ताम्). अत्रहकाप्प पत्तरतित्ति विषयत्तिल् प्रमितानम् चेय्यवम्. वार विषयत्तिल् अन्तन्त वारत्तिर्कु नातनेन कर्हैत्तेतप्प प्रज्ञिक्कवुम्. इवंवितम् चेय्यवतु मंगुत्यवैप्प पोक्कुवत्ताकुम्. तेऽष्टान्तिक्काक ऎल्लाल् प्रतिक्कुत्तियेच (मनीत उरुवम्) चेय्यतु तह्नीक्कवुम्. मार्कक्कन्टेयरः उत्तरायणत्तिल् इरन्तवनुक्कुस चिरन्त कति चेऽल्लप्पटुकिरतु. अतिलुम् सक्लबपक्षत्तिल् इरप्पतु चिरन्तततु. अतिलुम् त्तरुत्तिययील् इरप्पतु चिरन्तततु. इरन्तु पक्षन्कनीलुम् एकात्तियील् इरप्पतु मोक्षत्तेतयुम् लकल कामन्कलेयुम् केाटुप्पत्ताकुम्.

महाभारतेऽपि - स्यादुत्तरायणे यस्य मृतिस्तस्योत्तमा गतिः । शुक्लपक्षे हि मध्याह्ने कृष्णेऽप्येकादशीदिने इति । गार्यः - भद्रेभूमिप्रदानं स्यात् त्रिपदक्षेहिरण्यकम् । अङ्गारकेत्वन्दूवाहं गुरौ वस्तु दक्षिणा । शुक्रे रजतदानं स्यात् तत्र द्रव्यप्रदस्सुखी । वारे वाराधिदेवत्यं द्रव्यं दत्त्वा न दोषभाक् इति ।

मल्लापारात्तत्तिलुम्:- उत्तरायणत्तिल् एवनुक्कु मंगुत्तियेऽपि अवनुक्कुस चिरन्त कति युन्टाकुम्. सक्लबपक्षमाकिन्नुम्, करुञ्जनपक्षमाकिन्नुम् एकात्तियील्,

மத்யாஹ்னத்தில் மரணம் நற்கதியைக் கொடுக்கும். கார்க்யர் - பத்ரதிதியிலானால் பூமிதானமும், தரிபாத நக்ஷத்ரத்திலானால் ஸ்வர்ணதானமும், பெளமவாரத்திலானால் காளையின் தானமும், குருவாரத்திலானால் வஸ்த்ரதானமும், சுக்ரவாரத்திலானால் வெள்ளியின் தானமும் கொடுப்பவனுக்கு ஸ்கத்தையளிப்பதாகும். வாரநாதனின் த்ரவ்யத்தைத் தானம் செய்தால் வாரதோஷத்தை அடையமாட்டான்.

एवं स्मृतिषूक्तो वारादिनिषेधः कालातिक्रमविषयः । प्रत्यक्षमरणे तिथ्यादिदोषाभावः । प्रत्यक्षमरणे तु न दोष इत्याह लोकाक्षिः । प्रत्यक्षे न किञ्चित् सूक्ष्मतः परोक्षे तु सूक्ष्मतः पश्येत् इति । स्मृत्यन्तरे - प्रत्यक्षमरणे पित्रोर्न पश्येत्तिथिवारभम् । नैव दोषावहं प्रोक्तमन्येषामपि सर्वदा । परोक्षे सूक्ष्मतः पश्येन्मृतौ तु तिथिवारभम् इति । बृहस्पतिः - मातापित्रोमृतिप्राप्तौ पुत्रैर्दृहादिकर्म च । प्राप्तकाले तु कर्तव्यं तिथ्यादिर्न तु दोषकृत् इति ।

இவ்விதம் ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட வாரம் முதலியவையின் நிஷேதம் காலாதிக்ரம விஷயமாகும். ப்ரத்யக்ஷ மரணத்தில் திதி முதலியவையின் தோஷமில்லை. ப்ரத்யக்ஷ மரணத்தில் தோஷமில்லை என்கிறார் லோகாக்ஷி: ப்ரத்யக்ஷ மரணத்தில் ஒன்றையும் ஸ்மக்ஷமமாய்க் கவனிக்கவேண்டாம். பரோக்ஷ மரணத்தில் ஸ்மக்ஷமமாய்க்கவனிக்கவேண்டும். மற்றுமொரு ஸ்ம்ருதியில்: மாதாபிதாக்களின் ப்ரத்யக்ஷமரணத்தில் திதி வார நக்ஷத்ரங்களைப் பார்க்கவேண்டாம். அவை தோஷாவஹங்களைச் சொல்லப்படவில்லை. பிறர் விஷயத்திலும் தோஷாவஹமில்லை. பரோக்ஷ மரணவிஷயத்தில் திதிவார நக்ஷத்ரங்களைக் கவனித்துப் பார்க்கவேண்டும். ப்ரஹஸ்பதி மாதாபிதாக்களின் ம்ருதி ஏற்பட்டால் புத்ரர்கள் தஹநாதிக்ரியைகளை அப்பொழுதே செய்யவேண்டும். திதி முதலியவை தோஷாவஹங்களில்லை.

वसिष्ठश्च - वैधे कर्मणि तु प्राप्ते कालदोषं न चिन्तयेत् । सद्यः क्षौरं प्रकुर्वीति सद्यः श्राद्धादिकर्म च इति । एवं प्रत्यक्षमरणे यद्यपि वारादिदोषो नास्ति तथाऽपि शङ्कालेशापनुज्ञये मनःप्रीतये च ब्राह्मणेभ्यः शक्तितः किञ्चिद्वित्वा अनुज्ञाप्य शङ्कितं दोषं नाशयेत् । तदाह हारीतः - कुर्वीति सर्वकर्मणि ब्राह्मणाना मनुज्ञया । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञानात् दोषा नश्यत्यसंशयमिति ।

वलीष्टं टारुमः - सास्त्रं त्रवीहरीतमाणं कर्ममं प्रराप्तमाणेलं काल तेऽवृत्ततेऽस्त्रं चिन्तिक्कक्षं कृटात् । उटेणे केषु लारत्तं तेऽस्त्रं चेय्यतु केालं लावुम् । चरात्तं तम् मुत्तविय कर्मत्तं तेऽस्त्रं चेय्यवुम् । इवं वित्तम् प्ररत्यक्षम् मरणत्तिलं वारात्तितेऽवृत्तमिलं लालयेयन्त्रिरुन् ता॒लुम्, लं वल्पं पचन्तके यावत्तिरुक्तुमायिन् अतेऽयकर्त्तृव तर्तुम्, मनुत्तिन् पर्तिक्कुम् यत्तासक्ति प्ररामं लृणार्कुलाक्तुम् केालुत्तु अनुज्जंगेनुभेपर्त्तृ, संकिक्कप्पत्तृ तेऽवृत्ततेऽप्तं पोक्कवेण्टुम् । अतेऽप्पत्तृरु, लृणार्ताः-लं लाक्तुम् कर्मान्तकैलायुम् प्ररामं लृणार्कृलिन् अनुज्जंगेन्नयिनेलं चेय्यवेण्टुम् । प्ररामं लृणार्कृलिन् अनुज्जंगेन्नयालं तेऽवृत्तम् नक्षिकिन्तरतु, लम्चयमिलं लाल ।

स्मृत्यन्तरेऽपि - ब्राह्मणानां विना वाक्यैः क्रियाः स्युर्निष्फलास्ततः । कर्तव्या ब्राह्मणानुज्ञा कर्मणां परिपूर्त्ये इति । महदनुग्रहश्च यथाशक्ति दक्षिणादानेनैव कारयितव्यः, 'दाने सर्वं प्रतिष्ठितमिति श्रुतेः, दानेन निर्दोषो भवति इत्यापस्तम्बस्मरणात्, ब्राह्मणान् सम्यगभ्यर्च्य पृच्छेत् कनकभूषणैः इति भारद्वाज-स्मरणाच्च ।

मन्त्रिशुरु लं मं रुतीयिलं प्ररामं लृणार्कृलिन् अनुज्जंगेन्नयिलं लालवीटिलं कर्मान्तकृलं निष्पलन्तकृला किन्तरन् । कर्मान्तकृलं लपलन्तकृलावत्तर्तृकाक प्ररामं लृणार्कृलिन् अनुज्जंगेन्नयेप्तं भेप्र वेण्टुम् । अनंतं महत्तनुकर्त्तृलमुम् यत्तासक्ति तक्षिलेन्नयेक

கொடுப்பதாலேயே செய்விக்கப்பட வேண்டும். ‘ஸகலமும் தானத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று ச்ருதி யிருக்கிறது. ‘தானத்தால் தோஷமற்றவ னகிருன்’ என்று ஆபஸ்தம்பரும், ‘பொன் ஆபரணம் இவைகளால் ப்ராம்ஹணர்களை நன்கு பூஜித்துக் கேட்கவேண்டும்’ என்று பாரத்வாஜரும் சொல்லியுள்ளார்.

एतच्च स्नात्वा आद्रिवासाः कुर्यात्, स्नात्वा स्वशक्तया द्रविणं
दत्वा सभ्यान् प्रदक्षिणम् । परीत्य तैस्नुज्ञातः कर्म सङ्कल्पयेत्ततः
इति स्मरणात् । स्मृत्यन्तरेऽपि – आद्रिवसो बहिः स्नातो नियतो
वाग्यतः श्रुचिः । शक्तया दत्वाऽभ्यनुज्ञातः कुर्यात्सङ्कल्पमादितः
इति ।

இக்கார்யத்தை ஸ்நானம் செய்த ஈரவஸ்தர முடையவனுய்க் கொடுத்து, ஸபையிலுள்ளோரை வலம் வந்து, அவர்களால் ஒன்றுமதிக்கப்பட்டுப் பிறகு கர்மத்தை ஸங்கல்ப்பிக்கவேண்டும்’ என்று ஸ்மருதி உள்ளது. மற்றொரு ஸ்மருதியிலும் வெளியில் ஸ்நானம் செய்தவனுய், ஈரவஸ்தரமுடையவனுய், நியமமுடைய வனுய், மெளனியாய், சத்தனுய், யதாசக்திதானம் செய்து, அனுஜ்ஞாயைப் பெற்று ஆதியில் ஸங்கல்பத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

कर्तुः संस्कारयोग्यतासिद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तम् ।

चन्द्रिकायाम् – கர்துः ஸंஸ்காரயோग்யதாஸி஦்஧்யர்஥ ப்ராயஶ்சித்த- முக்த சன்஦ிகாயாம் – கதாடி஧ிகாரஸி஦்஧்யர்஥ த்ரீந் கृच்஛ாந் பञ்ச ஸப வா । சரே஘ா து ஦ானாஹை: பைதுமே஧ிகமாசரேத் இதி । அது கृच்஛ப்ரதிநி஧ி: ஗வாடி஦ானம் । தथா ச ஸ்மृத்யந்தரே – ஗வாமமாவே நிஷ்க் ஸ்யாத்தத்தீர்஧ பாடமேவ வா । பாதஹீன் ந கர்த்து பிரஹ்மாப்பாட் மனிஷி஭ி: இதி । மृதாஹ்஦ானே வைஶிஷ்ட்யமுக்த சன்஦ிகாயாம் –

उपरागसहस्राणि व्यतीपातायुतानि च । अमालक्षं तु द्वादश्याः कलां
नार्हन्ति षोडशीम् । एवंविधाया द्वादश्याः तिसः कोट्यर्धकोट्यः ।
मातापित्रोर्मृताहस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इति ।

**கார்த்தாவுக்கு ஸம்ஸ்கார யோக்யதை
வித்திப்பதற்கு ப்ராயஸ்சித்தும்**

கர்த்தாவுக்கு ஸம்ஸ்கார யோக்யதா வித்திக்கான ப்ரராயஸ் சித்தம்-சொல்லப்பட்டுள்ளது சந்தரிகையில் - கர்த்தா, அதிகாரம் வித்திப்பதற்காக மூன்று, அல்லது ஐந்து, ஏழு க்ருச்ரங்களை அனுஷ்டிக்கவும், அல்லது தானம் முதலியவைகளால் க்ருச்ரங்களைச் செய்து, பித்ருக்ரி யையை அனுஷ்டிக்கவும்.இங்கு க்ருச்ரத்திற்கு ப்ரதிநிதி(பதில்) கோ முதலியவற்றின் தானமாகும். அவ்விதமே,. மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் - கோக்கள் இல்லாவிடில் ஒரு நிஷ்கம் பதிலாகும். (அந்த எடையுள்ள தங்கத்தைத் தானம் செய்யவும்) அல்லது அதன் பாதி, அல்லது அதன் கால்பாகம் பதிலாகும். ப்ரம்ஹதண்டத்தை அறிந்தவர்கள் அதற்குக் குறைந்து செய்யக்கூடாது. (ப்ரம்ஹதண்டம் = ப்ராம்ஹணர்க்குக்குக் கொடுக்கும் தரவ்யம்) மரணதினத்தில் செய்யும் தானம் சிறந்ததென்பது சொல்லப்பட்டுள்ளது, சந்தரிகையில் - ஆயிரம் க்ரஹணங்களும், பதினூயிரம் வ்யதிபாதங்களும், லக்ஷம் அமாவாஸ்யைகளும் ஒரு த்வாதசியின் கலைக்குச் (16-ல் ஒரு பாகம்) சமமாகா. இவ்விதமான த்வாதசியின் 3 1/2 -கோடிகள், மாதா பிதாக்களின் மரணதினத்தின் 16-ல் ஒரு பாகத்திற்குச் சமமாவதில்லை.

ऊर्ध्वोच्छिष्टादिप्रायश्चित्तम् ।

मरणकालोपहते: प्रायश्चित्तमाह पराशरः - ऊर्ध्वोच्छिष्टम-
धोच्छिष्टमन्तरिक्षमृतौ तथा । कृच्छ्रत्रयं प्रकुर्वीत साशौचमरणे तथा
इति । मरणकाले वान्तादिकमूर्ध्वोच्छिष्टम् । मूत्रादिकमधस्तनो-
च्छिष्टम् । तयोरन्यतरत् यदा सम्पद्यते तदा संस्कर्ता पुत्रादि:

஘னாடிநா ப்ரत்யாமாயேந கृच்஛ுத்ரயं குர்யத் । மஞ்சாடை
மரணமந்தரிக்ஷமृதி: । ரஜஸ்வலாஸूதிகாடிமரணமாஶௌச-மரணம் ।

ஊர்த்தோச்சிஷ்டாதி ப்ராயஸ்சித்தும்

மரணகாலத்திலுண்டாகும் அசத்திக்கு ப்ராயஸ்
சித்தத்தைச் சொல்லுகிறீர். பராசரர்:- ஊர்த்தோச்சிஷ்டாதம்
(வாந்தி முதலியது), அதோச்சிஷ்டாதம்(மல மூத்ராதி),
அந்தரிக்ஷமரணம்(கட்டில் முதலியதில் இறப்பது),
ஸாசெளச மரணம் (தீண்டாமையுடன் மரித்தல்).
இவைகளில் மும்மூன்று க்ருச்ரங்களை
அனுஷ்டிக்கவேண்டும். மரணகாலத்தில் ஸம்பவிக்கும்
வாந்தி முதலியது ஊர்த்தோச்சிஷ்டமாம். மூத்ரம்
முதலியது அதோச்சிஷ்டமாம். இவைகளுள்
ஏதாவதொன்று ஏற்பட்டால், புத்ரன் முதலிய
ஸம்ஸ்கர்த்தா தனதானம் முதலிய ப்ரதிநிதியால் மூன்று
க்ருச்ரங்களைச் செய்யவேண்டும். கட்டில் முதலியதில்
இறப்பது அந்தரிக்ஷமரணம். ரஜஸ்வலையாயாவது,
ஸாதிகையாயாவது மரித்தல் ஸாசெளச மரணம்.

गौतमः - सूत्या नारी मृता पश्चादशाहाभ्यन्तरे यदि । न
तस्या यमलोकादै निष्कृतिर्बहुवत्सरे ॥ तदोषपरिहारार्थं चत्वार
ऋत्विजः पृथक् । एक एव द्विजो वाऽपि वारुणान् कलशान् क्षिपेत् ।
पूर्वादिदिक्षु सर्वत्र जलेनापूर्य यत्रतः । वरुणं पूजयेत्तत्र
ऋत्विगेकश्चतुर्ष्वपि ॥ कलशान् पाणिभिः स्पृष्टा मन्त्रानेतानु-
दीरयेत् । नमकं चमकं चैव पुरुषसूक्तं च वैष्णवम् । पवमानानुवाकं
च हिरण्यशूङ्गमिति क्रमात् । शान्तिभिर्दशभिश्चैव कलशानभि-
मन्त्रयेत् । अन्येन वाससाऽच्छाद्य सूतिकां कृतशौचिकाम् ।
माजयेद्वत्विजस्तोयैः कलशस्थैः पवित्रजैः । आपोहिष्ठादिभि-
र्मन्त्रैर्देवस्यत्वेति माजयेत् । ततः शवं बहिर्देशे स्थापयित्वाऽथ
देशिकः । शातकुम्भोदकैः प्रोक्ष्य नूतनैव वाससा । आच्छाद्य कुणपं
पश्चादहे दौपासनाग्निना इति ।

கொளுமர்: ப்ரலவவித்த ஸ்தரீ பத்து நாட்களுக்குள் இறந்தால் அவனுக்கு வெகு நாட்கள் வரையில் யமலோகத்திலிருந்து மீட்சி இல்லை. அந்தத் தோழிம் பரிஹரிக்கப்படுவதற்காக, நான்கு ருத்விக்குகள், அல்லது ஒரு ப்ராம்ஹணன், நான்கு கலசங்களைக் கிழக்கு முதலாக நான்கு திக்குகளிலும் வைத்து, அவைகளை ஜலத்தால் நிரப்பி, அவைகளில் வருணனைப்பூஜிக்கவேண்டும். ஒருவனே. அக்கலசங்களைக் கைகளால் ஸ்பர்சித்துக்கொண்டு இனிவரும் மந்த்ரங்களைப் படிக்க வேண்டும். நமகம், சமகம், புருஷஸுக்தம், விஷணு ஸுக்தம், பவமான: எனுமனுவாகம், ஹிரண்யச்சூங்க மென்பது, தசசாந்திகள், இவைகளால் கலசங்களை அபிமந்திரிக்கவும். ஸதிகையைச் சுத்தையாக்கி வேறு வஸ்தரத்தால் மறைத்த பிறகு, ருத்விக்குகள் பவித்ரத்துடன் கலசஜலங்களால், ஆபோஹிஷ்ட, தேவஸ்யத்வா முதலிய மந்த்ரங்களால் ப்ரோக்ஷிக்கவும். பிறகு சவுத்தை வெளியிற் சேர்த்து, ஆசார்யன் ஸ்வர்ணத்துடன் கூடிய ஜலங்களால் ப்ரோக்ஷித்து, புது வஸ்தரத்தால் போர்த்திப் பிறகு ஊபாஸகைக்னியால் தஹிக்கவேண்டும்.

रजस्वलामरणेऽप्येवमिति हेमाद्रौ – यदा पुष्पवती नारी
 दैवाद्यदि विपद्यते । तस्यास्तु निष्कृतिनार्सित रक्तकुण्डाद्यक्षरात्
 इति । तथा च त्रिकाण्डी – प्रत्यक्षे चाप्रतिहतौ संस्कारेण च
 शोधनम् । कुर्यात्त्राधरोच्छिष्टे प्राजापत्यत्रयं चरेत् ।
 ऊर्ध्वोच्छिष्टेऽपि च तथा प्राजापत्यत्रयं चरेत् इति । चन्द्रिकायाम् –
 अस्पृश्यस्पृष्टमरणे कृच्छ्रान् षड्गौतमोऽब्रवीत् । पराशरस्तु त्रीन्
 प्राह भूगः पञ्च षड्जिराः इति । अस्पृश्याः -
 चण्डालसूतिकोदक्यादयः । तैः स्पृष्टस्य अस्नातस्य मरणे
 शक्तयनुसारेण षट्कृच्छ्रादिकमित्यर्थः ।

ரஜஸ்வலையின் மரணத்திலும் இவ்விதமென்று, வோமாத்திரியில்:- 'ரஜஸ்வலையான ஸ்த்ரி கைவவசத்தால்

இறந்தால் அவனுக்குப் பயங்கரமான ரக்தகுண்டமெனும் நரகத்தினின்றும் மீட்சி இல்லை. அவ்விமே தூரிகாண்ட-ப்ரத்யஷ மரணத்திலும் அசுத்தியினால் ப்ராய பங்கித்தத்தால் சுத்தி செய்யவும். அதில் அதோச்சிஷ்டத்தில் மூன்று க்ருச்ரங்களை அனுஷ்டிக்கவும். ஊர்த்தோச்சிஷ்டத்திலும் அவ்விதமே மூன்று ப்ராஜாபத்யங்களை அனுஷ்டிக்கவும். சந்தரிகையில் அஸ்ப்ருச்யர்களால் தொடப்பட்டிருந்தவனின் மரணத்தில் ஆறுக்ருச்ரங்களை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று கொதமர் சொன்னார். பராசரரோ மூன்று என்றார். ப்ருகு ஜந்து என்றார். அங்கிரஸ் ஆறு என்றார். அஸ்ப்ருச்யர்கள் - சண்டாளன், ஸஹிதைக, ரஜஸ்வலை முதலியவர்கள். அவர்களால் தொடப்பட்டவன் ஸ்நானம் செய்யாமல் மரித்தால் சக்திக்கு இயன்றபடி ஆறு முதலிய க்ருச்ரங்களை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று பொருள்.

खद्वादिमरणे प्रायश्चित्तमाह विष्णुः - मण्डपे गोपुरे
खद्वाप्रासादहर्म्यभित्तिषु । अकामतो मृतानां तु दापयेदैन्दवद्वयम् ।
प्राजापत्यं चरेत् कृच्छ्रं पराकेण विशुद्ध्यति इति । खद्वादावकामतो
मरणे चान्द्रायणद्वयम् । कामतस्तु प्राजापत्यं पराकं च कुर्यात्
इत्यर्थः । तत्प्रतिनिधिः चतुर्विशतिमते दर्शितः - प्राजापत्ये तु
गामेकां दधात् सान्तपने द्वयम् । पराकतस्तुच्छ्रातिकृच्छ्रे तिस्सस्तु
गा: स्मृताः । अष्टौ चान्द्रायणे देयास्तिस्रो वा शक्त्यपेक्षया इति ।
स्मृत्यन्तरे - चान्द्रायणं त्रयः कृच्छ्राः गायत्र्या अयुतत्रयम् ।
आष्टावनं महानद्यां तुल्यमेतच्चतुष्टयम् इति ।

கட்டில் முதலியதில் மரித்தால் ப்ராயபங்கித்தத்தைச் சொல்லுகிறார், விஷ்ணு:- மண்டபம், கோபுரம், கட்டில், ப்ராஸாதம் (தேவாலயம்), ஹர்ம்யம் (உப்பரிகை), சுவர் இவைகளில் இச்சை யில்லாமல் மரித்தவர்களுக்கு இரண்டு சாந்தராயணங்களைக் கொடுக்கவேண்டும். ஒரு ப்ராஜாபத்யமும் ஒரு பராகமும் கொடுத்தால்

सत्तंतगेकिरुन्. कट्टिलं मुतवियति॒ अन्निच्चेचया॒ चयं
मरीत्तहा॒ ल् इरण्णु॒ चान्तरायण्मुम्, इच्चेचया॒ ल्
मरीत्तहा॒ ल्, प्रराज्ञापत्यमुम्, पराकमुम् चेय्यप्पत्त
वेण्णु॒ मं एनरु॒ बेपारु॒ अवेकण्कु॒ प्ररतिनिति॒
(पति॒) चतुर्विम्चत्तिमत्तही॒ चेल्ल॒ पट्टु॒ ल॒ ल॒ तु॒ :-
प्रराज्ञापत्यत्तही॒ ओरु॒ पक्षवेयुम्, लोन्तपन्त्तही॒ ल॒
इरण्णु॒ पक्षक्कल॒ युम्, पराकम्, तप्तक्करुचरम्,
अतिक्करुचरम् इवेकली॒ ल॒ ल॒ ल॒ ल॒ ल॒ ल॒ ल॒ ल॒ ल॒
चान्तिरायण्त्तही॒ एट्टु॒ पक्षक्कल॒ युम् अल्लतु॒ ल॒ ल॒
पक्षक्कल॒ युम् चक्त्यनु॒ लोरमा॒ यक्के॒ केक्कव॒ मं.
मर्त्तेन्नु॒ ल॒
प्रराज्ञापत्य क्करुचरंकल॒, मुप्पत्तिन्नियरम् कायत्तर्ही॒ ज्ञपम्,
मल्लान्तिस्तन्नानम्, इन्त नान्कु॒ मं ल॒ मम्मा॒ कियता॒ मं.

चतुर्विशतिमते - यस्य धान्यस्मृद्धिः सः कृच्छादिवतानि॒
ब्राह्मण भोजने॒ न संपादयेदिति॒ । ब्राह्मणभोजन संख्या चोक्ता कृच्छे॒
पञ्चात्कृच्छे॒ त्रिगुणमहरह इति॒ । शुद्धिनिष्ठे॒ - ऊर्ध्वोच्छिष्ठा॒-
धोच्छिष्ठे॒ खद्वादिमरणाशुचिस्पर्शं॒ नियमलोपाख्यानि॒ पञ्च
निमित्तानि॒ । एकैकनिमित्तस्य त्रीणि॒ कृच्छाण्यैकैकं॒ वा कृत्पा॒
संस्कृत्यात्॒ इति॒ ।

चतुर्विम्चत्तिमत्तही॒ :- एवनुक्कुत्त ताणीयम्
निरैन्तु॒ ल॒ तेऽत्त अवेणि॒ क्करुचरम् मुतविय विरतंकल॒
प्रराम्ल॒ ल॒ ण॒ पोपोज्ञ॒ नत्तही॒ ल॒ ल॒ ये॒ चेय्यवेण्णु॒ मं.
प्रराम्ल॒ ल॒ ण॒ पोपोज्ञ॒ नत्तही॒ ल॒ क्कणक्कु॒ चेल्ल॒ पट्टु॒ ल॒ ल॒ ल॒
क्करुचरो॒ पञ्चात्तु॒ क्करुचरो॒ ल॒ क्कृत्तिन्निर्णयत्तही॒
ज्ञार्त्तवेवाच्चिष्टम्. अतेऽच्चिष्टम् कट्टिली॒ मरणम्,
अक्षिस्तपर्सम्. नियमलोपम्, एन्ऱ ज्ञन्तुम् प्रिरायच्चित्त
निमित्ततंकल॒. ओव्वेवारु॒ निमित्ततंत्तिरु॒ ल॒ ल॒
क्करुचरंकल॒ - अल्लतु॒ ओव्वेवारु॒ क्करुचरत्ततेत्तच॒ चेय्यतु॒
प्रिरु॒ ल॒ मम्मा॒ कियता॒ मं.

पर्युषितप्रायश्चित्तम्

पर्युषितप्रायश्चित्तमाह गर्वः । पञ्चविंशतैः पूर्वं दिवा
प्रेतस्य संस्कृतिः । दिवा वा यदि वा रात्रौ शबस्तिष्ठति कर्हिंचित् ।
तत्पर्युषितमित्याहुर्दहने तस्य का गतिः । ब्राह्मणोभ्यो विधिं लब्ध्वा
कृच्छ्रत्रयमथाचरेत् । पञ्चगव्येन संस्नाप्य पावमान्याऽभिमन्त्य च ।
जलेन स्नापयित्वा च विधिवद्दहनं चरेत् । अन्यथा दहने तस्य सर्वं
तन्निष्कलं भवेत् इति ।

පර්යිෂිතපිරායස්සිත්තම්

கார்க்யர்-இறந்தது முதல் 25 நாழிகைக்குள் பகவில் சவத்திற்கு ஸம் ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். பகவிலாவது இரவிலாவது சவம் ஸம் ஸ்காரமில்லா திருந்தால் அதைப் பர்யுஷிதம் என்பர். அதைத் தஹிப்பதில் உள்ள விதி-ப்ராம் ஹணர்களிடமிருந்து விதியை அறிந்து, மூன்று க்ருசரங்களைக் கொடுத்து, பஞ்சகவ்யத்தால் ஸ்நானம் செய்வித்து, பாவமானுவாகத்தால் அபிமந்திரித்து, ஜலத்தால் ஸ்நானம் செய்வித்து, விதிப்படி தஹனம் செய்யவும். இவ்விதமின்றி தஹனம் செய்தால் அவனுக்குச் செய்த ஸகலமும் நிஷ்பலமாகும்.

कात्यायनस्तु – प्रत्यक्षशब्दसंस्कारे दिनं नैव विशोधयेत् ।
 निर्दिष्टकालवीक्षायां शबः पर्युषितो भवेत् । दग्धः पर्युषितो यैस्तु
 पुत्रमित्रैश्च बन्धुभिः । महाभयप्रदस्तेषां तिथ्यादीनैव शोधयेत् ।
 पञ्चगव्येन संस्नाप्य प्राजापत्यं समाचरेत् । पूतिगन्धे तथा क्लिन्ने
 स्नाप्य गोमयवारिणा । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः ततः कृच्छ्रं समाचरेत् ।
 कृभिरुत्पद्यते यस्य शकाकैश्चापि दूषिते ॥ कृत्वा तु पूर्ववत् स्नानं
 सर्पिषा मधुना ततः । पुण्याद्विरभिषिच्याथ सेचयेद्वन्धवारिणा । गां
 दत्वा द्विजमुख्याय तस्मैकृच्छ्रं समाचरेदिति ।

कात्त्यायनरोबेवनीलः- प्रत्यक्षमायं सवत्तिर्कु
समंस्कारम् चेय्ता॑ल, तिन्ततेऽच्च चोत्तिक्कवेण्टा॑म.
विहीत कालत्तेत प्रत्तिक्षीत्ता॑ल सवम् पर्युषितमाकुम्.
अव्वितमान सवत्ततेत्त त्वहीत्तवरान् पुत्रर, मित्रर,
पन्तुक्कल॒ एल्लेलारुक्कुम् महापयत्तेत्तक॒ केवाटुप्प
ताकुम्. आकेयाल॒ तिति मुत्तवियवेकण॒
चोत्तिक्कक्षटा॑तु. पञ्चकव्यत्ता॑ल॒ सन्नान॒म् चेय्वित्तु,
प्रराज्ञापत्य क्रुचरत्तेत अनुष्टुक्कवुम्. तुर्क्कन्त
मुन्नटा॑गेलुम्, अमुकिप॒ पोगेलुम् केवामय ज्वलत्ता॑ल॒
सन्नान॒म् चेय्वित्तु, प्रराम्भणानुज्जग्नयेयप्पेपर्न्ऱु,
प्रराज्ञापत्य क्रुचरम् चेय्यवुम्. एन्तस॒ सवत्तिल॒ पुमु
उन्नटा॑कियत्तो, एतु नाय॒ काक्कै मुत्तवियत्ता॑ल॒
तेवाटप्पट्टत्तो अतन्तु मुन्पोल॒ सन्नान॒म्
चेय्वित्तु, नेय॒, तेण॒, पुण्य ज्वलन्कण॒ इवेकण॒ल॒
ननेत्तु, कन्त ज्वलत्तालुम् ननेत्तु, सिरन्त
प्रराम्भणानुक्कुक॒ केवात्तान॒म् चेय्तु, तप्त क्रुचरमुम्
चेय्य वेण्टुम्. तप्त क्रुचरत्तिर्कुप्पत्तिल॒ मुन्ऱु
माटुकल॒. “प्राकम्, तप्तम्, अति क्रुचरम् इवेकण॒ल॒
मुन्ऱु” पक्ककल॒ प्रतिनिधियाय॒ वित्तिक्कप्पट्टुल॒न॒”
एन्ऱु सम्मरुति इरुप्पत्ताल॒.

वसिष्ठः - नासाग्रवर्तिना दोषैवर्युना मृतवत् स्थितः ।
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् पितृमेधमुपक्रमेत् । पथि कर्मविसानाद्वा
इमशाने यदि जीवति । घृतकुम्भे निमज्जैनं जातकर्मादि कारयेत् ।
यामं यामद्वयं तस्य मृतिं निश्चित्य नान्यथा । ब्रह्महत्यामवाप्नोति
कर्ता भवति निन्दितः इति । स्मृत्यन्तरे - ब्राह्मान्मुहूर्ताद्यः पूर्वमृतः
पर्युषितो भवेत् । वैखानसोदितं कार्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।
याम्यपैतृकमन्त्राभ्यां वैश्वदेवेन वै तिलान् । व्यस्ताभिश्च
समस्ताभिर्हृत्वा व्याहतिभिर्देहेत् इति । वैखानसोदिता श्रुतिः -
यमो दाधार पृथिवीम् उशन्तस्त्वा निधीमहि, विश्वेदेवस्य नेतुर्मर्तो
वृणीत इति ।

வளிஷ்டர் தோஷங்களால் வாயு மூக்கின் நுனியிலிருந்தால் சரீரம் இறந்ததுபோல் இருக்கும். இதை அறிந்தோ அறியாமலோ ப்ரேதகார்யத்தை ஆரம்பித்தால், வீட்டில் செய்யும் கர்மங்கள் முடிந்ததும் சவம் ஜீவித்தால், ஆயுஷ்மதி என்ற ருக்கை ஜபிக்கவும். வழியில் செய்யும் கர்மங்கள் செய்த பிறகோ, ச்மசானத்திலோ பிழைத்தால், அவனை நெய்க்குடத்தில் முழுக்கி, ஜாதகர்மம் முதலியவைகளைச் செய்விக்கவும். ஒரு யாமம், அல்லது இரண்டு யாமம் வரையில் தாமதித்து அவனது மரணத்தை நிச்சயித்த பிறகே செய்யவேண்டும். வேறு விதமாய்ச் செய்தால், கர்த்தா ப்ரம் ஹஹத்தையை அடைவான். நிந்தைக்குப் பாத்ரனுவான். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் ப்ராம்ஹ முஹார்த்தத்திற்கு முன் இறந்த சவம் பர்யுஷிதமாகும். அதனது சுத்திக்காக வைகாநஸத்தில் சொல்லிய ப்ராயஸ்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். யாம்ய மந்த்ரம், பைத்ருக மந்த்ரம், வைச்வதேவ மந்த்ரம், பிரிக்கப்பட்ட வ்யாஹ்ருதிகள், சேர்க்கப்பட்ட வ்யாஹ்ருதிகள் இவைகளால் திலங்களை ஹோமம் செய்து, பிறகு தஹிக்கவும், வைகாநஸத்தில் சொல்லிய மந்த்ரங்கள், ‘ய மோதாதாரப்ருதிவீம், உசந்தஸ்த்வா நிதீமஹி, விச்வேதேவஸ்யநேது:’ என்பவைகள்.

व्यासस्तु – रवेरस्तमयात् प्राकृतु योग्यकाले तु दुर्लभे । शः
प्रातरिष्टं दाहादि न हविस्तेन दुष्यति इति । अत्र व्यवस्थामाह
बोधायनः – रात्रौ यदि मृतः कश्चित् प्रमादात् कालपर्यात् ।
नवनाडीष्वधस्ताचेद्वह्नौ तु जुहुयाच्छवम् ॥ ऊर्ध्वं श्वः प्रातरेव स्यान्न
रात्रौ तु कदाचन इति । शवस्योपहतौ प्रायश्चित्तमुक्तं वैखानससूत्रे –
शब्देऽन्याशौचयुक्ते च कुक्कुटसूतिकारजस्वलाद्य-स्पृश्यस्पर्शने च
मृतं पञ्चगव्यैः कुशतोयैश्च स्नापयित्वा प्रोक्षणैः प्रोक्ष्य विधिवद्वहनं
करोति इति । स्मृत्यन्तरे तु – श्वसूकरसृगालाद्यैर्ग्राम्यसूकरकुक्कौटैः ।
शबास्थिभस्मदेहानां स्पर्शनं चेत् प्रमादतः ॥ गव्यैः प्रक्षाल्य
कृच्छ्राणां त्रितयं च समाचरेत् इति ।

36. व्याख्यासारः:- सूर्यास्तमयत्तिर्त्तिर्त्तु मूळं योक्यमाण कालम् तुर्पलपमाणेषु, मरुनां कालेयिल् तह्नम् चेय्यलाम्. अतगुणं सवम् पर्युषितमाकाशु. इव्विष्यत्तिल् व्यवस्थेयस्ते चेष्टलुकिरुर्, पोतायनारः:- रात्रीयिल् ओरुवन् इरन्ताल्, कवनमिन्मेयाल् कालमतिकर्मित्ताल्, ओन्पतु नाम्मिकेकक्कुल् तह्नम् चेय्यवेण्टुम्. अतर्तु मेन्पट्टाल् मरुनां कालेयिलेये तह्निक्कवम्. ओरु कालुम् रात्रीयिल् कृटातु. सवत्तिर्त्तिर्त्तु असत्ति एन्पट्टमाकिल्, प्रायस्चित्तम् चेष्टलप्पट्टुलान्तु, वेवकान्तल् लौत्तरत्तिलः- सवम् वेव्रु आचेषाचत्तुटान्त सम्पन्तित्तिर्त्तिर्त्तुलाम्, कोम्मि, प्ररसवित्तवाल्, रज्जुल्लवले मुत्तविय अस्प्पर्गुच्यराल् तेऽप्पट्टिर्त्तुलाम्, सवत्तेत पञ्चकव्यन्कलालुम् कुचलुन्कलालुम् सन्नानम् चेय्वित्तु, प्रोक्षण मन्त्तरन्कलाल् प्रोक्षित्तु, वित्तिप्पटि तह्नम् चेय्यवम्. मन्त्तिरुरु स्मिरुत्तियिलोबेवनीलः:- नाय, पन्नरि, नरि मुत्तवियवेकलालावतु, ऊर्प्पन्नरि, कोम्मि मुत्तवियवेकलालावतु, सवम्, अस्ति, पस्मम् इवेकलुक्कु, कवनमिन्मेयाल् स्पर्शम् एन्पट्टाल्, पञ्चकव्यन्कलाल् अलम्पि, मून्नरु क्रुचरन्कलायम् अनुष्ठित्कवेण्टुम्.

निशादिमरणप्रायश्चित्तम्

निशादिमरणे प्रायश्चित्तमुक्तं बोधायनीये – निशि कृष्णे च पक्षे च मरणे दक्षिणायने । ता सूर्या इति वै षड्भिर्हृत्वा स्यात् संस्क्रिया ततः ॥ जले मृतस्य जुहुयादिम् मे वरुणेत्यृचा । सर्पेण चेन्मो अस्तु त्रिभिर्हृत्वाऽथ संस्क्रिया इति । स्मृत्यन्तरे – निशायां कृष्णपक्षे च दक्षिणे चायने मृतः । ता सूर्येत्यादिष्पमन्त्रैः जुहुयाच्च पृथक् पृथक् ॥ चतुर्गृहीतेनाज्येन दाहकस्तु समाहितः ॥ पितृमेधविधानेन दद्यते यः सुतादिभिः । ता सूर्येत्यादि तस्यैव प्रायश्चित्तमुदीरितम् । एकचर्चविधिना दाहे प्रायश्चित्तं तु नेष्यते इति ।

ராத்ரி மரணாதி ப்ராயஸ்சித்தம்

ராத்ரி முதலிய காலத்தில் மரித்த விஷயத்தில் ப்ராயஸ்சித்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது போதாயநீயத்தில்:- ராத்ரியிலும், க்ருஷ்ண பக්ஷத்திலும், தகவினாயனத்திலும் மரித்தால், 'தாஸ மர்யா' என்பது முதலாகிய ஆறு ருக்குகளால் ஹோமம் செய்து, பிறகு ஸம்ஸ்காரம் செய்யவும். ஐலத்தில் மரித்தவனுக்கு 'இமம் மேவருண' என்ற ருக்கினால் ஹோமம் செய்யவும். ஸர்ப்பத்தினால் மரித்தால், 'நமோ அஸ்து' முதலிய மூன்று ருக்குகளால் ஹோமம் செய்து பிறகு ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட வேண்டும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:- ராத்ரியிலாவது, க்ருஷ்ண பக්ஷத்திலாவது, தகவினாயனத்திலாவது இறந்தால், 'தாஸமர்யா' என்பது முதலிய ஆறு மந்த்ரங்களால் தனித்தனியாக, நான்கு தடவை க்ரஹிக்கப்பட்ட ஆஜ்யத்தினால் தலைனம் செய்பவன் கவனமுடையவனுய் ஹோமம் செய்யவேண்டும். எவன், புத்ரன் முதலியவர்களால் பித்ரு மேத விதானத்தால் தலைக்கப்படுகின்றாலே அவன் விஷயத்தில்தான் ப்ராயஸ்சித்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஏகர்ச்சவிதியால் செய்யப்படும் தாலு விஷயத்தில் ப்ராயஸ் சித்தம் விதிக்கப்படவில்லை.

ஸ்ரீகிருதஸ்ய விஜானேஶ்ரீயே விஶேஷः - 'ஸுவர்ணத்தாரனிஷ்வந் நாಗ் கृत्वा தथैव ஗ாம् । வ்யாசாய ஦त்வा வி஧ிவत् பிதுராநூண்யமாபூயாத् ॥ இதி । வ்யாசாய - வேदவி஦ இதி யாவத् । அஶந்யாடி஦ுர்மரணே ப்ராயஶ்சித்தமாह ஆபஸ்தம்஭ः - யதாஹிதாगிரவானிஹதோ மியேத தஸ்ய ப்ராயஶ்சித்தம் மூர்஧ன் ஦ிவோ அரதி பூதிவ்யா இதி சதுர்஗்ரீதேநாஜ்யேந ஜுஹுயாதேதேவாஸ்ய ப்ராயஶ்சித்தம் ஭வதீதி விஜாயதே । யதாஹிதாகிர- விர்ஷதோ மியேத தஸ்ய ப்ராயஶ்சித்தம் நமோ அஸ்து ஸ்ரீம்யः இதி திஸूமிஶ்வதுர்஗்ரீதைஜ்யாஹுதீர்ஜுஹுயாத् । யதாஹிதாகிரப்ஸு மியேத தஸ்ய ப்ராயஶ்சித்தம் இம் மே வருண், தத்வாயாமி இதி ஦ீ சதுர்஗்ரீதே ஜுஹுயாத् ।

यद्याहिताग्निर्दृष्टिभ्यो म्रियेत तस्य प्रायश्चित्तं दण्डाभ्यां मलिम्लून् इति
द्वे चतुर्गृहीते जुहुया देतदेवास्य प्रायश्चित्तं भवतीति विज्ञायते ।
यद्याहिताग्निः पञ्चम्यो म्रियेत तस्य प्रायश्चित्तं आगावो अग्मन् इति
द्वे चतुर्गृहीते जुहुयात् इति । अत्र निमित्तस्य तुल्यत्वादेकाग्रेरपि
तदुक्तं प्रायश्चित्तं भवत्येव ।

ஸர்ப்பத்தால் தீண்டப்பட்டவனுக்கு விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது விக்ஞாநேச்வரியத்தில்:- ஸ்வர்ணம், அல்லது வெள்ளியால் ஸர்ப்பத்தையும் பசுவையும் செய்து, வேதமறிந்த ப்ராம் ஹணனுக்குக் கொடுத்தால், பிதாவுக்குக் கடனற்றவனைவான். இடமுதலியவைகளால் ஏற்படும் துர்மரணத்தில் ப்ராயஸ் சித்தத்தைச் சொல்லுகிறூர் ஆபஸ்தம்யர் - ஆஹிதாக்னி, இடியினால் அடிக்கப்பட்டு மரித்தால் அவனுக்கு ப்ராயஸ்சித்தம் - 'மூர்த்தாநம்திவே: என்ற மந்த்ரத்தால், நாலுதடவை க்ரஹிக்கப்பட்ட ஆஜ்யத்தினால் ஹோமம் செய்யவும். இதுவே இவனுக்கு ப்ராயஸ்சித்தம் எனத்தெரிகிறது. ஆஹிதாக்னி, விஷத்தால் கொல்லப்பட்டு மரித்தால் 'நமோ அஸ்து' என்பது முதலாகிய மூன்று ருக்குகளால், நான்குதடவை க்ரஹிக்கப்பட்ட ஆஜ்யத்தால் ஆஹா-திகளைச் செய்யவும். ஆஹிதாக்னி, ஜலத்தில் மரித்தால் 'இமம்மேவருண, தத்வாயாமி' என்ற இரண்டு ருக்குகளால், நான்கு தடவை க்ரஹித்த ஆஜ்யத்தால் ஹோமம் செய்யவும். ஆஹிதாக்னி, பல்லுள்ள புவி முதலியவைகளால் இறந்தால் 'தம்ஷ்ட்ராப்யாம்' முதலான இரண்டு ருக்குகளால் நான்கு தடவை க்ரஹிக்கப்பட்ட ஆஜ்யத்தால் இரண்டு ஆஹா-திகளைச் செய்யவும். இதுவே இவனுக்கு ப்ராயஸ்சித்தமெனத் தெரிகிறது. ஆஹிதாக்னி பக்ககளினால் மரித்தால் 'ஆகாவோ அக்மன்' என்பது முதலான இரண்டு ஆஹா-திகளைச் செய்யவும். இங்கு நிமித்தம் ஸமானமாகியதால், ஆஹிதாக்னிக்குச் சொல்லிய ப்ராயஸ்சித்தமே அநாஹிதாக்னிக்கும் விவரிதமாகிறது.

கர்த்துக்ரம:

दाहादिप्रेतकार्यकर्तारमाह सुमन्तुः – मातुः पितुश्च कुर्वीत
 मृतयोरौरसः सुतः । पैतृमेधिकसंस्कारं मन्त्रपूर्वकमादृतः इति ।
 पुत्रस्य प्रेतकार्यकरणाशक्तौ तत्प्रकारमाह जमदग्निः – पितुः पुत्रेण
 कर्तव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः । अशक्तोऽप्यग्निदः पुत्रः शेषमन्यः
 समापयेत् सति । औरसपुत्राणां समवाये ज्येष्ठ एव पितुरौध्वैदैहिकं
 कुर्यात्, सर्वैरनुमतिं कृत्वा ज्येष्ठैव तु यत् कृतम् । द्रव्येण
 चाविभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत् इति वचनात् ॥

கார்த்தருக்ரமம்

தாஹம் முதலிய ப்ரேதகார்யங்களைச் செய்வதற்குரியவனைச் சொல்லுகிறார் : - ஸ்மந்து :-
 இறந்த மாதாவுக்கும், பிதாவுக்கும், ஒளரஸ புத்ரன்
 ஆதரவுள்ளவனுய்ப் பித்ருமேத ஸம்ஸ்காரத்தை
 மந்த்ரபூர்வமாகச் செய்யவேண்டும். புத்ரனுக்கு, ப்ரேத
 கார்யங்களைச் செய்ய சக்தியில்லாவிடில் செய்ய
 வேண்டிய ப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார், ஜமதுக்னி : -
 புத்ரன், பிதாவுக்கு பிண்டதானம், உதகதானம்
 இவைகளைச் செய்யவேண்டும். அவன் அசக்தனாகில்,
 புத்ரன் அக்னிப்ரதானத்தைச் செய்யவேண்டும். மற்றக்
 கார்யத்தை வேறொருவன் முடிக்கவேண்டும்.
 ஒளரஸபுத்ரர்கள் பலரிருந்தால், ஜேயேஷ்ட புத்ரனே
 பிதாவுக்கு அபரக்ரியையைச் செய்யவேண்டும். “எல்லா
 ப்ராதாக்களும் அனுமதிக்க, பொதுவான
 தனத்தைக்கொண்டு ஜேயேஷ்டனைலேயே செய்யப்பட்ட
 அபரக்ரியை, எல்லோராலுமே செய்யப்பட்டதாகிறது”
 என்று வசனமுள்ளது.

स्मृत्यन्तरेऽपि – नवश्राद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश ।
 एकेनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि इति । चन्द्रिकायाम् –
 प्रेतस्य पुत्रो दाहादि दद्यादेवौरसः सुतः । बहुत्वेऽपि गुणी दद्यात्

समे तु ज्येष्ठ एव तु इति । ऋद्यशृङ्गस्तु - पुत्राणां मध्यमो वाऽपि कनिष्ठो ज्येष्ठ एव वा । पितुर्यस्तु प्रियतमः सर्वं तेनैव कारयेत् । पुत्राः सर्वे पितुः प्रेष्ठाः पत्नी भ्राता सखाऽपि वा । अग्निदानादिकर्माणि कुर्यात् पुत्रादयः पितुः इति । जमदग्निः - ज्येष्ठपुत्रेण कर्तव्या दाहपिण्डोदकक्रियाः । यदि कर्तुमशक्तः स्यात् सर्वमन्येन कारयेत् इति ।

मर्त्तिरुरु संमर्त्तियिलुमः:- प्ररात्ताक्कलं पलर्स इरुन्तालुम, अवर्कलं विपक्तर्कलायिरुन्तालुम, नवचरार्त्तम, लपिण्णम्करणम, शेषाट्च सर्वात्तन्कलं इवेकला ज्येष्ठं तेनरुवेण चेय्यवेण्णुम्. **सन्तरिक्षयिलः:-** इरन्तवनुक्तु, उलरसपुत्ररेण तहरनम् मुतवियतेत्तच चेय्यवेण्णुम्. उलरसपुत्ररकलं अनेकर इरुन्तालं अवर्कलूलं शिरन्त तुन्मुलूलवेण चेय्यलाम्. ऎल्लेलारुम् सममायिरुन्तालं ज्येष्ठं तेन चेय्यवेण्णुम्. **रुक्ष्यक्षरुक्षरोवेणीलः:-** अनेकम् पुत्ररकलूलं, मत्यमेण, कनिष्ठं तेन, ज्येष्ठं तेन, एवं प्रितावुक्तु अतिक परियतेन, अवन्तेलेये एल्ला कर्मियकलायुम्. चेय्यविक्कवेण्णुम्. पुत्ररकलं एल्लेलारुमे प्रितावुक्तु अतिक परियर्कलायिरुन्तालं ज्येष्ठं तेन लेये चेय्यपप्तवेण्णुम्. पुत्रलिल्लातवनुक्तु, पत्नी, प्ररात्ता, लका, बेण्ण मुतवियवर्कलं इवर्कलूलं रुवर चेय्यवेण्णुम्. **ज्ञमतुक्तिः :-** तहरनम्, पिण्णतानम्, उतकतानम् इन्त कर्मियकला ज्येष्ठं तेनपुत्रं चेय्यवेण्णुम्. अवन्त चेय्वतर्त्तु असक्तत्तुकिल, अन्यतुल एल्लावर्त्तरेयुम् चेय्विक्कवेण्णुम्.

सर्वज्येष्ठस्याशक्तावसन्धिधाने वा अवस्थितेषु पुत्रेषु मध्ये जन्मज्येष्ठैनैव कारयेत्, जन्मज्येष्ठः पितुः कुर्यात् इति स्मरणात् । जन्मज्येष्ठ इत्यस्यार्थान्तरमप्याहुः - भिन्नमातृकाणां पुत्राणां समवाये यो जन्मतो ज्येष्ठः स एव पितुः कुर्यात्, न मातृतो ज्येष्ठः,

ஸ்வற் ஜன்மஜயேष்டஸ்யை ஗ிரணாத् இதி । தथா ச மனு: - ஸட்ஶஸ்திஷு
ஜாதாநா் புத்ராணாமவிஶேஷதः । ந மாதுதோ ஜ்யேஷ்சமஸ்த ஜன்மதோ
ஜ்யேஷ்சமுச்சயதே । ஜன்மஜயேஷ்சேந சாக்ஷாந் ஸுங்காப்பாஸ்வபி ஸ்மृதம்
இதி ।

ஸர்வஜ்யேஷ்டன் அசக்தனையிருந்தாலும், ஸமீபத்திலில்லாமலிருந்தாலும், ஸமீபத்திலுள்ள பல புத்ரர்களுள் எவன் பிறப்பால் பெரியவரே அவனுலேயே செய்விக்கவேண்டும். ‘ஜன்ம ஜ்யேஷ்டனே பிதாவுக்குச் செய்யவேண்டும்’ என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ‘ஜன்மஜ்யேஷ்டன்’ என்பதற்கு வேறு அர்த்தமும் சொல்லுகின்றனர்- “மாத்ருபேதமுள்ள பல புத்ரர்களிருந்தால், அவர்களுள் எவன் பிறப்பினால் முத்தவரே அவனே பிதாவுக்குச் செய்யவேண்டும். மாதாவினால் ஜ்யேஷ்டன் செய்யக்கூடாது. எல்லாவற்றிலும் ஜன்மஜ்யேஷ்டனையே க்ரஹிப்பதால்” என்று. அவ்விதமே, மனு:- ஸவர்ணைகளான பல ஸ்த்ரீகளிடம் உண்டாகிய புத்ரர்களுக்கு விசேஷ மில்லாததால், மாதாவை அனுஸரித்து ஜ்யேஷ்டத்வ மில்லை, பிறப்பினாலேயே ஜ்யேஷ்டத்வம். யாகங்களில் செய்யப்படும் ஸப்ரம்ஹண்யாஹ்வானமும் ஜன்ம ஜ்யேஷ்டயத்தைக் கொண்டே செய்யப்படவேண்டும்.

யतு ஸ்மृத்யந்தரே - ஜ்யேஷோ வாடபி கனிஷோ வா ஜ்யேஷ்஭ார்யாஸுதோ
தாதெ । அதிகார்யப்ர்஧ாநத்வாத् ஜ்யேஷ்஭ார்யாஸுதோऽங்ரஜः இதி । அந்யச் -
ஏககர்த்த ஦्वி஭ார்யஶேதுभயो: புத்ரஸம்஭வே । பிதுர்மரணகாலே து
ஜ்யேஷ்஭ார்யாஸுதோऽங்ரஜः இதி । அது ஜ்யேஷ்஭ார்யாஸுத இதி ஶ்ரேஷ்஭ார்யாஸுத
இத்யर्थः । ஸவர்ணஸ்திதி மனுவநவிராதோபத்தே: । தथா ச ஸவர்ணமார்யோத்பந்தஸ்யை
பிதுக்ரஷ்மோதன ஹதுத்வமுக்த ஬ோधாயனேந - ப்ரஜாஸுத்பாதயேதுக்த: ஸ்வே
ஸ்வே வர்ணே ஜிதேந்஦ிரயः । ஸ்வாத்யாயேந க்ரஷ்ணபூஜ்ய ஸோமேந ச புரந்஦ரம் ।
ப்ரஜயா ச பிதுந் பூர்வநிந்தனோ ஦ிவி மோடதே இதி ॥

ஆனால் மற்றெனு ஸம்ருதியில் - “வயதால் பெரியவனுயினும், சிறியவனுயினும், ஜ்யேஷ்டபார்யையின் புத்ரனே தஹனம் செய்யவேண்டும். அக்னிகார்யம் ப்ரதானமானதால், ஜ்யேஷ்டபார்யையின் புத்ரனே ஜ்யேஷ்டங்கிறான்” என்றும், மற்றும் “இருவனுக்கு இரண்டு பார்யைகளிருந்து, இருவருக்கும் பிள்ளைகளிருந்தால், பிதாவின் மரண காலத்தில் ஜ்யேஷ்டபார்யையின் புத்ரனே தஹநம் செய்யவேண்டும்” என்றும் வசனம் காணப்படுகிறதே எனில், இங்குள்ள ஜ்யேஷ்டபார்யாலைதன் என்பதற்கு ச்ரேஷ்டபார்யையின் புத்ரன் என்று பொருள். அதாவது வெவர்ண ஸ்த்ரீயினிடமுன்டானவென்பதேயாம். இவ்விதம் சொல்லாவிடில் ‘ஸத்ருச ஸ்த்ரீஷாஜாதாநாம்’ என்று முன்சொல்லிய மனு வசனத்திற்கு விரோதம் நேரிடும். அவ்விதமே வெவர்ண பார்யையினிடம் பிறந்த புத்ரனுக்கே, பிதரு ருணத்தினின்றும் விடுவிப்பதற்குக் காரண த்வம் சொல்லப்பட்டுள்ளது போதாயனரால் : - ‘க்ருஹஸ்தன், நியதனைய், ஜிதேந்தரியனைய், தன் தன் வெவர்ண ஸ்த்ரீயினிடத்தில் புத்ரனை உத்பத்தி செய்யவேண்டும். வேதாத்யயனத்தால் ருஷிகளையும், யாகத்தால் இந்த்ரனையும், புத்ரனை முன்னேர்களான பிதருக்களையும் பூஜித்து ருண மற்றவனைய் ஸ்வர்க்கத்தில் வெந்தோஷிக்கிறான்’ என்று.

४३. ज्येष्ठः पद्मन्तरपुत्रः पितुरेव कुर्यादौरसत्वात् न सप्तनीमातुः भिनोदरोत्पन्नत्वात् ॥ कनिष्ठोऽपि स्वमातुः स्वयमेव कुर्यात् विदध्यादौरसः क्षेत्रो जनन्या औध्वदैहिकम् । तदभावे सप्तनीजः इति स्मरणात् ।

ஜ்யேஷ்டன் ஒளரஸனுகியதால். பிதாவுக்கு மட்டில் செய்யலாம், பின்னேதரத்தில் உண்டாகியவனதால் ஸபத்நீ மாதாவுக்குச் செய்யக் கூடாது. பின்னேதரத்தில் உண்டாகிய சிறியவனுக்கும் தன் மாதாவுக்கு அவனே

செய்யவேண்டும் “ஓளரவன், அவ்வது கோத்ரஜன் தன் மாதாவுக்கு அபரக்ரி யையைச் செய்யவேண்டும். அவர்களில்லாவிடில் ஸபத்னீபுத்ரன் செய்யவேண்டும்” என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது.

யமலயோஜ்யேஷ்கநிஷ்டத்வநிர்ணயः

யமலவிஷயே மனு: – யமயோஶைக஗மே து ஜந்மதோ ஜ்யேஷ்தா ஸ்மृதா இதி । ஸ்மृத்யந்தரேடபி – யமயோஜ்ர்தியோஜ்யேஷோ ஜந்மநா ப்ரோச்யதே ஬ு஧ை: । ர்மீஸ்ய கஸ்யசிலோகே சிராஜநநர்வாநாத் இதி । அந்யத்ராபி – யமயோஜ்நநாத் ஜ்யேஷ்சமா஧ானம் சேஷ்யதே ஬ு஧ை: இதி । எத்து ஸம்஭ா஗ஸ்஥஗்ர்மவிஷயம் । பார்ஷ்யோ: ஸ்ஸித்தௌ ஗மை தயோர்ய: பூர்ஜ: ஸ து । ஜ்யேஷ்த இத்யுச்யதே ஸங்கிர்ஜ்ஞத்காடிஷு கர்மஸு இதி ஬ார்஦ாயண- ஸ்மரணாத் ।

யமளர்களுள்(இரட்டைப்பிள்ளைகளுள்)பொரியவன் யார் என்பதன் நிர்ணயம்:

யமள விஷயத்தில், மனு ஒரே கர்ப்பத்தில் உண்டாகிய இரட்டைப்பிள்ளைகளுக்கு, பிறப்பினால் ஜ்யேஷ்டத்வம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. முதற் பிறந்தவன் ஜ்யேஷ்டனென்பதாம். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் இரட்டையாய்ப் பிறந்தவர்களுள் முதலில் பிறந்தவனே ஜ்யேஷ்டனென அறிந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர். உலகில் ஒரு கர்ப்பம் சில காலம் தாமதித்தும் பிறப்பதைக் காண்கிறோம். மற்றொரு த்திலும்:- இரட்டைப் பிள்ளைகளுள், பிறப்பினால் ஜ்யேஷ்டத்வமும் ஆதானமும் அறிந்தவர்களால் விதிக்கப்படுகிறது. இவ்விதம் சொல்லியது, ஸம்பாகத்திலுள்ள கர்ப்பங்களைப் பற்றியது. “இருபாகங்களிலும் இரண்டு கர்ப்பங்களிருந்தால், அவைகளுள் எது முதலில் பிறந்ததோ அதையே ஜாதகர்மம் முதலிய கர்மங்களில் ஜ்யேஷ்டனென ஸாதுக்கள் சொல்லுகின்றனர்” என்று பாதரராயனர் சொல்கிறார்.

अत एवोपर्यधोभागस्थगर्भविषये स्मृत्यन्तरम् -

यमलौ चैकगर्भे तु खी वा पुरुष एव वा । कनिष्ठ आद्यजातः स्यात् पश्चात् जातोऽग्रजः स्मृतः इति । स्थलविशेषापरिज्ञाने तु शिष्टाचारात् कनिष्ठ आद्यजातः स्यात् इति वचनार्थो ग्राह्यः । तथा च भागवते - प्रजापतिनामि तयोरकार्षीयः प्राक् स्वदेहाद्यमयो रजायत । तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साऽग्रतः इति । श्रीधरीये व्याख्यातमिदम् - यदा गर्भधानसमये योनिपुष्पं विशद्वीर्यं द्वेधा विभक्तं सत् आदिपश्चाद्दावेन प्रविशति, तदा यमौ भवतः । तयोश्च पितृतः प्रवेशक्रमविपर्ययेण मातृतः प्रसूतिः । यदा विशद्विधाभूतं वीर्यं पुष्पं परिक्षरत् । द्वौ तदा भवतो गर्भौ सूतिर्वेशविपर्ययात् इति पिण्डसिद्धिस्मरणात् । अतः स्वदेहात् पूर्वं यो जातः तस्य हिरण्यकशिपुरिति, दितेः प्रथमं प्रसूतस्य हिरण्याक्ष इति नाम कृतवान् इति ।

ஆகையால்தான் மேலும் கீழ்மாக உள்ள கர்ப்பங்கள் விஷயத்தில், மற்றிரு ஸ்ம்ருதி:- “ஓரு கர்ப்பத்திலுள்ள இரட்டைக் குழந்தைகள் ஆணாகிலும் பெண்ணாகிலும் முதலில் பிறந்தது கணிஷ்டன், பிறகு பிறந்தது ஜ்யேஷ்டன்” என்கிறது. ஸ்தலவிசேஷம் தெரியாவிடில், சிஷ்டாசாரத்தால் ‘முதலில் பிறந்தது சிறியது’ என்ற வசனத்தின் அர்த்தத்தை க்ரஹிக்க வேண்டும். அவ்விதமே, பாகவத்தில்:- ‘ப்ரராஜாபதிர்நாம +ஸாக்ரதः’ என்று. மூலீயத்தில் இதற்கு வ்யாக்யானம் - ‘எப்பொழுது, கர்ப்பாதான ஸமயத்தில் கர்ப்பாசயத்தில் ப்ரவேசிக்கும் வீர்யம் இரண்டு பாகமாய்ப் பிரிந்து முன் பின்னை ப்ரவேசிக்கின்றதோ அப்பொழுது இரண்டு கர்ப்பங்கள் உண்டாகின்றன. அவைகளுக்கு, பிதாவினிடமிருந்து ப்ரவேசித்த க்ரமத்திற்க மாறுதலாய் மாதாவினிடமிருந்து ப்ரஸவம். ‘எப்பொழுது சுக்லம் இரண்டாகப் பிரிந்து

கர்ப்பாசயத்தில் ப்ரவேசிக்கின்ற தோ, அப்பொழுது இரண்டு கர்ப்பங்கள் உண்டாகின்றன. அவைகளுக்கு ப்ரவேச க்ரமத்திற்கு மாறுதலாய் ப்ரஸவம்' என்று பிண்ட வித்தியில் சொல்லியுள்ளது. ஆகையால், தன் தேஹத்திலிருந்து முதலில் எவன் உண்டானாலே நே அவனுக்கு ஹிரண்யகசிபு என்றும், திதி யினிடமிரந்து எவன் முதலில் பிறந்தானாலே அவனுக்கு ஹிரண்யாகூ என்றும் பெயரைச் செய்தார் கச்யபர்' என்று.

पुत्रप्रतिग्रहानन्तरमौरसे जाते कनिष्ठोऽप्यौरस एव
पितुर्दाहादि सर्वं कुर्यात् । औरसे तु समुत्पन्ने पुत्रस्य ग्रहणादनु ।
औरसस्तु पितुः कुर्यात्तदा दत्तो विसर्जयेत् । औरसे तु समुत्पन्ने दत्तो
ज्येष्ठो न चेष्टते इति स्मरणात् । जनयितुः पुत्रपौत्रप्रपौत्राभावे दत्त
एव कुर्यात्, पूर्वभ्रातुः पितुश्चार्तौ कृत्यं स्वत्वं च दत्तके ।
आबिदकाराघ्यिलं श्राव्यं कृत्वा रिक्थमवाप्नुयात् । दत्तस्य जनकापत्ये
मृतेऽथ जनकेऽपि वा । संस्काराघ्यिलं कृत्वा दत्तो रिक्थमवाप्नुयात्
इत्यादिस्मरणात् ।

புத்ரனை ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்டபிறகு, ஒளரஸன் பிறந்தால், கனிஷ்டனைலும் ஒளரஸனே பிதாவுக்குத் தஹநம் முதலிய எல்லாவற்றையும் செய்யவேண்டும். ‘புத்ர ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்ட பிறகு, ஒளரஸன் உண்டாகிவிட்டால், ஒளரஸனே பிதாவுக்குச் செய்யவேண்டும் தத்தன் விட்டுவிட வேண்டும். ஒளரஸன் உண்டாகி விட்டால் ஸ்வீகருதன் ஜ்யேஷ்டனனப்படுவதில்லை’ என்ற ஸ்மருதி உள்ளது. ஜநகனுக்குப் புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன் ஒருவருமில்லாவிடில், தத்தனே செய்யவேண்டும். ‘ஜநகப்ராதாவும் ஜநகபிதாவும் மரித்தால், ஸம்ஸ்காரம் முதலிய ச்ராத்தம் எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு, அவன் தனத்தை அடையவேண்டும். தத்தனின் ஜநகப்ராதாவோ, ஜநகபிதாவோ இறந்தால், ஸம்ஸ்காரம் முதலிய

एवंलावर्हं न रथ्यम् चेष्यंतु तत्त्वाणि त्राणात्तेत
अट्टयेवेण्टुम्” इन्यातु मुहूर्वीय एम्मरुचि उग्नातु.

ऋग्यशूङ्गः - पुत्रेषु विद्यमानेषु नार्यं वै कासयेत् स्वधाम्।
पितरो हिंसितास्तेन यस्त्वेवं कुरुते नरः ॥ स्वधां - प्रेतकर्म ।
गर्भवानपि पित्रादीन् संस्कुर्यात् । अन्यत्र न कुर्यात् । तथा च
वृद्धमनुः - वपनं दहनं वाऽपि प्रेतस्यान्यस्य गर्भवान् । न कुर्यादुभयं
तत्र कुर्यादिव पितुः सदा । ज्येष्ठस्य चानपत्यस्य मातुलस्यासुतस्य च
इति । बृद्धवसिष्ठश्च - गर्भवता ज्येष्ठेन दाह्यः पिता माता चानपत्यो
मातुलश्च इति । अत्र मातुलग्रहणं मातामहादेरप्युपलक्षणम् । अत
एव मातामहादिसंस्कारे गर्भवतो वपनं विहितम् ।
मातामहपितृव्याणां मातुलाग्रजयोर्मृतौ । शशुराच्चार्ययोरेषां पत्नीनां
च पितृष्वसुः ॥ मातृष्वसुर्भगिन्याश्च गर्भवानपि वापयेत् । सपिण्डो
वाऽसपिण्डो वा संस्कर्ता वापयेद् द्विजः इति । गौतमोऽपि -
ज्येष्ठस्य चानपत्यस्य मातुलस्यासुतस्य च । अश्रिदानं तु यः कुर्यात्
स केशान् वापयेत् बुधः इति । स एव - अपुत्रस्य पितृव्यस्य
ज्येष्ठस्याप्यसुतस्य च । अन्तर्वान् दहनं कुर्यात् केशश्चशूणि वापयेत्
इति ।

गुच्छयक्तरुणकरः:- पुत्ररारकलीरुक्कुम्पेपामुतु
अन्यानुलं प्रेरेतकर्मतत्तेत्तेच चेय्यवीक्कक्कटातु. एवान्
छिव्वितमं चेय्यकिन्नरु तेऽनु अवानुलं प्रित्तरुक्कलं
लिम्लिक्कप्पत्तवराकिन्नरार. कर्पपवानुयिरुन्ततालुमं
प्रितामुतवीयवर्करुक्कुलम्लिक्कारमं चेय्यवेण्टुम्.
अन्यारक्कुक्कुच चेय्यक्कटातु. अव्वितमे�,
वरुत्तमनुः- कर्पपमुत्तयवेण्ट, वपनमं तहनमं
छिव्वकला अन्यानुक्कुच चेय्यक्कटातु. प्रितावुक्कु
एप्पेपामुतुमं चेय्यवेव वेण्टुम्. पुत्रनील्लात
ज्ञेयेष्टप्ररातावुक्कुम्प, पुत्रनील्लात अम्मानुक्कुम्प

செய்யவேண்டும். வருத்தவளிஷ்டரும்: - கர்ப்பவானேன் ஜ்யேஷ்டன், பிதா, மாதா, அபுத்ரனேன மாதுலன் இவர்களை ஸம்ஸ்கரிக்கலாம். இங்கு மாதுலனைச் சொல்லியது மாதாமலஹன் முதலியவர்க்கும் உபலக்ஷணம். ஆகையாலேயே மாதாமலஹன் முதலியவர்களின் ஸம்ஸ்காரத்தில் கர்ப்பவானுக்கு வபனம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. “மாதாமலஹன், பித்ருவ்யன், மாதுலன், தமையன், மாமனீர், ஆசார்யன், இவர்களின் பத்னிகள், அத்தை, மாத்ருபகினீ, பகினீ இவர்களின் ம்ருதியில் ஸம்ஸ்கர்த்தா கர்ப்பவானையிருந்தாலும், ஸபிண்டானாலும், அஸபிண்டானாலும் வபனம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.” கெளாதமரும் - புத்ரனில்லாத ஜ்யேஷ்டனுக்கும், புத்ரனில்லாத மாதுலனுக்கும் அக்னி தானம் செய்தவன் வபனம் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

ब्रह्मचारिणः संस्काराधिकारः

ब्रह्मचार्यपि पित्रादीन् संस्कुर्यात् । यदाह सुमन्तुः - मातुः
पितुः प्रकुर्वीत संस्थितस्यौरसः सुतः । ब्रतस्थो वा ब्रतस्थो वा एक
एव भवेद्यदि इति । ब्रतस्थः - उपनीतः । स्मृत्यन्तरेऽपि - पित्रोश्वैवं
पितुः पित्रोरौरसस्याग्र-जन्मनः । संस्कारादिक्रियां कुर्यात्
ब्रह्मचारी गुरोरपि इति । अन्यत्रापि - दहनादि सपिण्डचन्तं
ब्रह्मचारी करोति चेत् । अन्यत्र मातापित्रोः स्यादुपनीय पुनर्व्रती
इति । अतः प्रेतकृत्यैकदेशकरणे न ब्रह्मचर्यहानिः । कृच्छाचरणमेव ।
सपिण्डीकरणमात्रकरणे न पुनरुपनयनम् । दाहादिसापिण्डचान्त-
करणे पुनरुपनयनमित्यर्थः ।

ப்ரம்ஹசாரிக்கு ஸம்ஸ்காரத்தில் அதிகாரம்

ப்ரம்ஹசாரியாயினும், பிதா முதலியவர்க்கு
ஸம்ஸ்காரம் செய்யலாம். அதைச் சொல்லகிறூர்,
ஸமந்து: ஒளரஸ புத்ரன் ஒருவனுக்கேவ இருந்தால்,

उपनीतगुणेषुम् अनुपनीतगुणेषुम्, मातावुक्कुम्, पितावुक्कुम् लेम्स्कारत्तेताच्च चेष्यलाम्. मन्त्रेणुरु स्मंग्रुतीयिलुम् :- प्ररम्भस्तप्ररातावुक्कुम्, माता पिताक्करुक्कुम्, पिताविन्स माता पिताक्करुक्कुम्, इलारेषगुणे ज्येष्ठटप्ररातावुक्कुम्, कुरुवुक्कुम् लेम्स्कारम् मुतविय कर्तियेष चेष्यलाम्. मन्त्रेणुरीटत्तिलः:- प्ररम्भस्तमसारीयानवन्स, माता पिताक्करुक्कुम् तविर्तत्तु मन्त्रवर्क्कुत्त तहुनम् मुतल्ल सपिण्णमकरुनम् मुष्टियुम् वरेयिल चेष्यताल्ल मन्त्रपदि उपन्यानत्तिर्त्तु अर्हगुणेवान्. इववितमिरुप्पत्ताल्ल प्ररोत कार्यत्तिन्स लिल पाकत्तेताच्च चेष्यताल्ल प्ररम्भसर्यत्तिर्त्तु ह्राणीयिल्लै. पुनरुपन्यनम् वेण्णष्टियत्तिल्लै, करुक्करासरुन्मेम पोतुमानत्तु. तहुनम् मुतल्ल सपिण्णमकरुनम् मुष्टिय उल्ल कर्तियेकरुक्कुम् चेष्यताल्ल पुनरुपन्यनम् चेष्य वेण्णुमेन्पत्तु बेपारुन्स.

अत्र मातापितृग्रहणमाचायादिरुपलक्षणम् । तथा च वसिष्ठबोधायनौ - ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो व्रतान्विवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच्च इति । याज्ञवल्क्यश्च - आचार्यपित्रुपाध्याया निर्हृत्यापि व्रती व्रती । सङ्कटान्म च नाशनीयान्म च तैः सह संक्षेत्र इति । सङ्कटान्म - आशौचान्म । तैः - आशौचिभिः । मनुरपि - आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु व्रती प्रेतं न व्रतेन वियुज्यते इति । भूगः - मातामहं मातुलं च तत्पत्न्यौ चानपत्यके । व्रती संस्कुरुते यस्तु व्रतलोपो न तस्य हि इति । स्मृत्यन्तरे - मातापित्रोर्वती कुर्यात् पितृमेधं सदैव हि । ज्येष्ठभ्रातुस्तथैव स्यादन्येषां न कदाचन इति ।

इन्कु माता पिताक्करुक्कुम् करुव्यित्तत्तु, आसार्यात्तिकरुक्कुम् उपलक्ष्मेणमाकुम्. अव्वितमेम, वलीष्टटरुम्, पोतायनरुमः:- माता पिताक्करुक्कुम्,

ஆசார்யன் இவர்களைத் தவிர மற்றவருக்கு ப்ரேதகர்மம் செய்தால், ப்ரம்ஹசாரிக்கு ப்ரம்ஹசர்யத்தினின்றும் நிவருத்தி. (புநருபநயனம் செய்யவேண்டும்) யாஜ்ஞவல்க்யரும்:- ஆசார்யன், மாதா, பிதா, உபாத்யாயன் இவர்களுக்குச் சவக்ரியையைச் செய்தாலும், ப்ரம்ஹசாரிக்கு ப்ரம்ஹசர்யலோபமில்லை. ஆனால் ஆசௌசிகளின் அன்னத்தைப் புஜிக்கலாகாது. ஆசௌசிகளுடன் சேர்ந்து வளிக்கக்கூடாது. மனுவும்:- தனது ஆசார்யன், உபாத்யாயன், பிதா, மாதா, குரு இவர்களுக்கு ப்ரேத க்ரியை செய்தாலும், ப்ரம்ஹசாரீ வரதத்தால் விடுபடுவதில்லை. (ப்ரம்ஹசர்யத்திற்கு ஹானி இல்லை) ப்ரநுகு - மாதாமஹன், மாதுவன், புத்ரனில்லாத மாதாமஹீ, மாதுவீ இவர்களை ஸம்ஸ்கரித்த ப்ரம்ஹசாரிக்கு ப்ரம்ஹசர்ய வரதலோபமில்லை. மற்றொரு ஸ்மருதியில்:- ப்ரம்ஹசாரீ, மாதா பிதாக்களுக்கும், ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவுக்கும் அபரக்ரியையைச் செய்யலாம், மற்றவர்க்குச் செய்யக்கூடாது.

அன்தாபி - மாதாபித்ரூபா஧்யாயாசார்யோரைஈர்வைதிகம் |
 குர்வ்மாதாமஹஸ்யாபி விதி ஭்ரஸ்யேநா ஹிவ்ரதாத்தீதி | புராணேபி - யथா விதஸ்஥ோபி சுத: பிது: குர்வ்மாது கிரியா நூப | உடகா஧ா மஹாவாஹே ஦ௌஹித்ரோபி ததாத்தீதி இதி | உடாஹுதேஷு வசநேஷு பிதுந்யாடே: கண்஠ோக்த்யமாவேபி ஗ுருத்வாத் தத்ஸ்ங்காரே ச ந விதிநோ விதஹானிரித்யாஹ: |

மற்றொரு ஸ்மருதியிலும்:- ப்ரம்ஹசாரீ, மாதா பிதாக்கள், உபாத்யாயன், ஆசார்யன், மாதாமஹன் இவர்களுக்கு அபரக்ரியையைச் செய்தாலும் ப்ரம்ஹசர்யத்தினின்றும் நழுவுவதில்லை. புராணத்திலும் :- புத்ரன் ப்ரம்ஹசாரியாயினும் பிதாவுக்கு உதகதானம் முதலிய க்ரியைகளைச் செய்வதுபோல், தெளவித்ரன் ப்ரம்ஹசாரியாயினும் மாதாமஹனுக்குச் செய்யவேண்டும். முன் சொல்லப்பட்ட வசனங்களில் பித்ருவ்யன்

मुत्तव्यवैवरे संपञ्चमायं च शोलावीष्टिनुम्,
अवर्कणुम् कुरुवान्ताल् अवर्कणुक्तु लम्स्कारम्
चेष्यताल्, प्ररम्भशोरीक्तु प्ररम्भशोरीयलोपमिल्लल
येणकिंनृनार.

अनुपनीतस्यापि पितृसंस्काराधिकारः

अनुपनीतोऽपि पुत्रः पित्रोः संस्कारादि मन्त्रवदेव कुर्यात् ।
तथा च मनुः - न ह्यस्मिन् विद्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिबन्धनात् ।
नाभिव्याहारयेद्वह्नि स्वधानिनयनादते इति । स्वधानिनयनशब्देन
दाहादिसपिण्डीकरणान्तं प्रेतकर्म लक्ष्यते । ब्रह्म-वेदः । अन्यत्र न
वाचयेत् । पितृकृत्ये तूच्चारयेत् । न तत्र दोष इति व्याख्यातम् ।
स्मृत्यन्तरेऽपि - पुत्रस्त्वनुपनीतोऽपि पित्रोः संस्कारमहीति ।
अन्योऽप्युच्चारयेन्मन्त्रान् तेन कर्माणि कारयेत् इति । अन्यः -
उपाध्यायादिः अनुपनीतं वाचयेत् तेनैव कर्माणि कारयेत्, न स्वयं
कुर्यादित्यर्थः ।

**उपन्यानमाकातवनुक्तुम्, मातापित्राक्कर्णिनं
सम्स्कारार्थत्तिलं अतीकारम्**

उपन्यानमाकातवनुयिनुम्, पुत्ररन्तं माता
पित्राक्कर्णुक्तुम् सम्स्कारम् मुत्तव्यते
मन्तरत्तुत्तेनोये चेष्यवेण्टुम्. अव्वितमे, मनुः-
अनुपनीतनीटत्तिलं, उपन्यानमाकुम् वरयिलं ओरु
कर्मावुम् किटेयातु. अवैन वेत मन्तरत्तेत
उच्चरीक्तुम्पदि चेष्यकूटातु. प्रेरेत कर्मावैवत्त
तविर्त्तु, 'स्वतान्निनयनम्' एन्पतालं तालुम् मुत्तलं
सपिण्डेकरणम् मुटियुम् वरयिलुलौ कर्मम्
शोललप्पटुकिरतु. अन्तक्तं कर्मत्तिलं मट्टिलं उच्चरीक्तुम्
पदि चेष्यलाम्. अतील तेऽप्यमिल्लल. मर्त्रकं कर्मत्तिलं
कूटातु. मर्त्रेणुरु सम्ग्रुतीयिलुम् - पुत्ररन्तं
अनुपनीतगुलुम् माता पित्राक्कर्णिनं सम्स्कारार्थत्तिलं

அர்ஹனுகிறுன். மற்றெல்லாவன் உபாத்யாயன் முதலியவன் அவனை மந்த்ரங்களை உச்சரிக்கச் செய்யவேண்டும். அவனைக்கொண்டே கர்மங்களைச் செய்விக்கவேண்டும். தான் செய்யக்கூடாது.

ஸுமந்துரபி – நாமிவ்யாஹாரயேஷ்வர யாவந்மௌஜி ந ப஧்யதே । மந்தானநுபநீதோऽபி ப்ரேதகृत्ये வदेत् பிதுः இதி । வदेदैவैக ஏவ ஹி இதி பாठாந்தரம् । தत्र பிதृப்ரேத கृत्यே இत्यध்யாஹ்ர்வ்யம् । வृஷ்மநுரபி – குர்யாதிநுபநீதோऽபி ஶாஷ்மேகோ ஹி யः ஸுதः । பிதृயज்ஞாஹுதिं பாணை ஜுஹுயாந்த்ரபூர்வகம् இதி । ஶாஷ்ம் - ஸபிண்஡ிகரணாடி । விஶ்வாமித்ரः – பித்ரேநுபநீதோऽபி வி஦்யாந்த்ரவத् ஸுதः । ஔஷ்வர்தீகமன்யே து ஸஂஸ்கृதாः ஶாஷ்காரிணः இதி । அந்யே - ஭ாத்ராத்யः, உபநीதா: ஶாஷ்காரிணः ஸுயः, கர்மஶூதः ஸ்மृதோ விப்ரோ யாவந்மௌஜி ந ப஧்யதே । தடூஷ் மந்த்ரபூதேஷு கர்மஸ்வப்யாதிகார்யஸௌ இதி ஸுமந்துஸ்மரணாத् ।

ஸாமந்துவும் :- உபநயனம் ஆகும் வரையில் வேதமந்த்ரங்களை உச்சரிக்கும்படி செய்யக்கூடாது. அனுபநீதனும் பிதாவின் ப்ரேத க்ருத்யத்தில் மட்டில் மந்த்ரங்களை உச்சரிக்கலாம். வ்ருத்தமனுவும்: அனுபநீதனுள்ளும் ஒரே புதரனுயிருந்தால் ஸபின்ம கரணத்தைச் செய்யலாம். ஹோமத்தை மந்த்ரத்துடன் ப்ராம்ஹணனின் கையில் செய்யவேண்டும். விச்வாமித்ரர் :– புதரன் அனுபநீதனுயினும், மாதா பிதாக்களின் ப்ரேத க்ருத்யத்தை மந்த்ரத்துடனேயே செய்யவேண்டும். மற்றவர்கள் ப்ராதா முதலியவர்கள் உபநீதர்களாயிருந்தால் மட்டில் ச்ராத்தார்ஹர்களாயாகின்றனர். “ப்ராம்ஹணன் உபநயனமாகும். வரையில் கர்மகுத்ரன் (அனர்ஹன்) எனப்படுகிறுன். இவன் உபநயநத்திற்குப் பிறகே மந்த்ரங்களால் சுத்தமான கர்மங்களில் அதிகாரமுள்ளவ ஞகிறுன்” என்று ஸாமந்து வசனமுள்ளது.

यत् - असंस्कृतेन पद्या च ह्यग्रिदानं समन्वकम् । कर्तव्यमितरत् सर्वं कारयेदन्यमेव तु इति कात्यायन वचनम्, तत् मन्त्रोच्चारणाशक्तविषयम् ॥ एतदेवाभिप्रेत्य, व्याघ्रपादः - नवश्राव्ये मासिके च सपिण्डीकरणे तथा । ऋत्विकिष्ट्यादिभिः कार्यं ब्राह्मणं वा नियोजयेत् इति । शक्तः सर्वं प्रेतकर्म मन्त्रवदेव कुर्यात् । अशक्तस्तु दाहमात्रं मन्त्रवदेव कुर्यात् । अन्यत् सर्वं प्रत्यासचेन कर्त्रन्तरेण दर्भप्रदानानुज्ञाया कारयेत् ।

आगुल, “अनुपनीतनुम्, पठनीयम् अक्नीतान्तत्तेत मट्टिलं मन्त्रत्तंतुटनं चेय्यलाम् । मन्त्रहक्क कार्यमेल्लावर्हरेयम् इतरणेनकं केाण्टेते चेय्विक्कवेण्टुम्” ऎन्ऱ कात्यायन वचनमूलैतेयेनील, अतु मन्त्रोच्चारणत्तिलं सक्ति यिल्लातवणेनप्प पर्हरियतु । इन्त अपिप्रायत्तेतकं केाण्टेते, व्याकरपातुः - “नवचरात्तम्, मालिकम्, लपिण्णाकरणम् इवेवकणे गुत्तविक, चिष्यन्मुतवियवर्कलालं चेय्विक्कलाम् । वेऱु प्रराम लूणगुलालतु चेय्विक्कलाम्” ऎन्ऱुर । अनुपनीतनं मन्त्रोच्चारणत्तिलं सक्तंतुकिल, प्रेरतकर्मम् मुमुवतेयम् ताणुकवे चेय्यवुम् । असक्तंतुकिल तवूनत्तेत मट्टिलं लमन्त्रमाककं चेय्तु, मन्त्रतेत लमपमायूला मन्त्र ग्रुरु कर्त्तावेवकं केाण्टु, तरप्पत्तेतकं केाण्टुत्तु, अनुज्ज्ञाने चेय्तु, चेय्विक्कवेण्टुम् ।

अयं च मन्त्रोच्चारणाधिकारः त्रिवर्षकृतचूडस्य त्रिवर्षस्य वा । तथा च सुमन्तुः - अनुपेतोऽपि कुर्वति मन्त्रवत् पैतृमेधिकम् । यद्यसौ कृतचौलः स्याद्यदि वा स्यात्विवत्सरः इति । स्मृत्यन्तरे - पुत्रस्त्वकृतचौलोऽपि पित्रोः संस्कारमर्हति । चौलं ह्यविधिना कुर्यात् पश्चाच्चौलं यथाविधि इति । पश्चात् - सपिण्डीकरणानन्तरम् ।

இவ்விதம் சொல்லிய மந்த்ரோச்சாரனைதிகாரம், மூன்றுவது வயதில் செளளஸம்ஸ்காரம் செய்யப் பட்டவனுக்கும், அல்லது மூன்று வயதானவனுக்கும். அவ்விதமே, ஸாமந்து:- அனுபநீதனஞ்ஜெலும், செளள மாகியவனுயிருந்தால், அல்லது மூன்று வர்ஷமாகியவனு யிருந்தால் மந்த்ரத்துடன் ப்ரேதகர்மத்தைச் செய்யலாம். மற்றெரு ஸம்ருதியில்:- புத்ரன் செளளமாகாதவனுயினும் மாதாபிதாக்களின் ஸம்ஸ்காரத்தில் அர்ஹனஞ்சிருன். அக்காலத்தில் மந்த்ரமில்லாமல் செளளத்தைச் செய்யவும். பிறகு (ஸபின்டைகரணத்திற்குப் பிறகு) விதிப்படி செளளத்தைச் செய்யவும்.

यत्तु व्याघ्रवचनम् - कृतचौलस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च ।
स्वधाकारं प्रयुज्जीत वेदोच्चारं न कारयेत् इति । यदपि
स्मृत्यन्तरवचनम् - कृतचूडोऽनुपेतस्तु पित्रोः श्राङ्गं समाचरेत् ।
उदाहरेत् स्वधाकारं न तु वेदाक्षराण्यसौ इति । एतयोः
पूर्वोक्तमन्वादिवचनानां च विकल्प इति चन्द्रिकायामुक्तम् ।
एतद्वचनद्वयं प्रथमवर्षकृतचूडविषयमिति कालादर्शटीकादौ ।

ஆனால், “செளளமானவனே உதகபிண்ட தானங்களைச் செய்யலாம். ஸ்வதா சப்தத்தை உச்சரிக்கலாம். ஆனால் வேதமந்த்ரத்தை உச்சரிக்கக்கூடாது” என்ற வ்யாக்ரரின் வசனமும், மற்றெரு ஸம்ருதியில்- “செளளமாகியவன் அனுபநீதஞ்ஜெலும் மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தத்தைச் செய்யலாம், இவன் ஸ்வதா சப்தம் தவிர வேதாக்ஷரங்களை உச்சரிக்கக்கூடாது” என்ற வசனமும் உள்ளதேயெனில், இவ்விரண்டு வசனங்களுக்கும், முன் சொல்லிய மந்வாதி வசனங்களுக்கும் விகல்பம் என்பது சந்தர்த்தையில் சொல்லப் பட்டுள்ளது. ‘இந்த இரண்டு வசனமும் முதல் வர்ஷத்திலேயே செளளனம் செய்யப்பட்டவனின் விஷயமாகியது’ என்று காலா தர்சங்கை முதலியதிலுள்ளது.

अत्रिवर्षस्य अकृतचौलस्य वपननिषेधोऽपि स्मर्यते ।
 पुत्रस्त्वकृतचौलोऽपि पित्रोः संस्कारमर्हति । न तस्य वपनं कुर्यात्तेन
 कर्मणि कारयेत् इति । प्रथमवत्सरे तु संस्काराधिकारी न
 भवतीत्याह सुमन्तुः । पुत्रः स्वोत्पत्तिमात्रेण संस्कुर्याद्विषा-
 मोचनात् । पितरावाब्दिकाचौलात् पैतृमेधेन कर्मणा । चौलं
 यदाब्दिकादवर्णाङ्कुर्यात्पैतृमेधिकम् । तृतीयवत्सरादूर्ध्वं मन्त्रवत्तत्
 समापयेत् इति । प्रथमवत्सरात् प्रथमवष्ठाचौलाद्वा परमृणमोच-
 नाद्वेतोः पितरौ संस्कुर्यात् । अब्दपरिसमाप्तेः प्रथमवर्ष चौलाद्वा
 पूर्वं पैतृमेधिकं न कुर्यात् । दर्भदानेनान्य एव कुर्यात् । तृतीयवत्सरा-
 चौलाद्वा परं मन्त्रवदेव पैतृमेधिकं समापयेदित्यर्थः ।

मुन्नरु वयताकातवनुकंकुसं चेसलंसम्स्कार
 माकाविष्टिलं अवनुकंकु वपनमं निषेष्टिकंकप्पाटुकिरतु
 संमंगुत्तियिलं - 'चेसलमाकाविष्टिनुम् पुत्रं
 मातापिताकंक्कलीनं समंस्कारत्तिरंकु अर्हत्तु किरुनं.
 अवनुकंकु वपनमं कुटातु. अवज्ञेनकेकाण्डेते
 कर्मंगकलासं चेय्यविक्क वेण्णुम्' ऎन्नरु. मुतलं
 वर्षश्वत्तिलं समंस्कारत्तिरंकु अतिकारीयावतिलंल
 ऎन्किरुर् सामन्तुः:- पुत्रं ताणं पिरन्तततु
 मुतरंकेकाण्डेते रुणत्तेतत्त तीर्प्पतरंकाक मातापि
 ताकंक्कलुकंकुप्प पित्रुमेत वित्तियालं समंस्कारमं
 चेय्यवेण्णुम्. पिरन्तु ओरु वर्षश्वत्तिरंकुप्प पिरकुम्, ओरु
 वर्षश्वत्तिरंकुलं चेसलम् चेय्यप्पताविष्टिलं
 तर्प्पताणत्तालं अन्यज्ञेनकेकाण्डु चेय्यविक्क
 वेण्णुम्. चेसलत्तिरंकुप्प पिरकुम्, मुन्नरुवतु
 वयतिरंकुप्प पिरकुम् मन्त्रतत्तुत्तेनेये
 वेपत्रुमेतिकत्तेत मुटिक्कवेण्णुम्.

दीक्षामध्ये मातापितृसंस्काराधिकारः ।

दीक्षितस्य दीक्षामध्ये मातापितृमरणविषये कौण्डन्यः ।
 दीक्षितोऽप्येकपुत्रश्वेनमातापित्रोमृतिर्यादि । संस्कृत्य शाला मागत्य

யஜஶேஷ் ஸமாபயேத் இதி । ஶாபில்லோப்பி - ஦ீக்ஷிதோப்யேக-
புத்ரஶ்நேமாதாபித்ரோமூர்திர்யெடி । ஦ீக்ஷாரூப் நி஧ாயாத் ஸஸ்குர்யாநோடக-
ஸ்லவः । (வாப) பாவயேஹ்ரபுஜீலைதீக்ஷாரூப் யதாவி஧ி இதி । எக புத்ர
இதி விஶேஷோபாடாநாத் புத்ராந்தரஸஸ்லாவே ஸ ஏவ குர்த்த । நோடகஸ்லவः -
உடக்காநமபி நாஸ்தி । ஸ்நானமாத்ரமஸ்தி । ஸதி: ஶாவச்ஸ்யாக்தத்வாத் ।

தீக்ஷாயின் மத்தியிலும், மாதாபிதாக்களின்
ஸம்ஸ்காரத்தில் அதிகாரம்

யாகத்தில் தீக்ஷாயடைந்தவனுக்கும், தீக்ஷாயின்
நடுவில் மாதா பிதாக்களின் மரணம் ஸம்பவித்தால்,
கெளன்றின்யர் - தீக்ஷிதன் ஒரே புத்ரனுயிருந்தால் தீக்ஷா
மத்யத்தில் மாதா அல்லது பிதாவுக்கு மரணம் நேர்ந்தால்,
ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்துவிட்டு யாகசாலைக்கு வந்து
யாகத்தின் மீதியை ஸமாப்தி செய்யவேண்டும்.
சாண்டில்யரும்- தீக்ஷிதனுயினும், ஏகபுத்ரனுயின்,
மாதாவுக்கோ, பிதாவுக்கோ மரணமாயின். தீக்ஷாரூபத்தை
யாகசாலையில் வைத்துவிட்டு, ஸம்ஸ்காரத்தைச்
செய்யவேண்டும். உதகதானம் செய்யவேண்டியதில்லை.
ஸ்நானம் மட்டில் உண்டு. ஸத்யஸ்ஸெரளாசம்
சொல்லப்பட்டிருப்பதால். பிறகு தீக்ஷாரூபத்தைத்
தரப்புபுஞ்ஜீலங்களால் விதிப்படி பாவனம்
செய்யவேண்டும். இங்கு 'ஏகபுத்ரன்' என்ற விசேஷண
மிருப்பதால், வேறு புத்ரனிருந்தால் அவனே
செய்யவேண்டும். தீக்ஷிதன் செய்யக்கூடாது.

ஸ்முத்யந்தரே - ஜ்யேஷ்ஸ் து க்ரதோர்ம்யே மாதாபித்ரோமூர்திர்யெடி ।
ஸ்ஸ்கृத் ஶாலாமாகத் யஜஶேஷ் ஸமாபயேத் இதி । அத்
ஜ்யேஷ்ஶா஬்஦ோப்யேகபுத்ரபரः । அந்தா - ஦ீக்ஷிதோப்யேகபுத்ரஶ்நேத் இதி
வசனவிரोධாபத்தே: । விவாஹாடிகர்மம்யே பித்ரோமூர்தௌ விஶேஷ: ஸ்மர்தை
- மாதாபித்ரோமூர்திப்ராஸ்தௌ விவாஹாடிஷு கர்மஸு । திலபிண்஡ து
கர்த்துமன்யச்஛ாஞ்ச் து வர்ஜேத் இதி । ஦க்னம் திலமிஶ்ரபிண்஡ாநம் ச
கர்த்தும் । அந்த ஶாஞ்ச நவஶாஞ்சாடிக் வர்ஜேதித்யர்஥: ।

क्रमेण प्रेतकार्यकर्तृनाह मरीचिः - पुत्रः पौत्रश्च तज्जश्च
पुत्रिकापुत्र एव च । पत्नी भ्राता च तज्जश्च पिता माता सुषा तथा ।
भगिनी भागिनेयश्च सपिष्ठो धनहार्यपि । पूर्वपूर्वविनाशे
स्युरुत्तरोत्तरपिण्डाः इति । पराशरोऽपि - पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा
तद्वद्वा भ्रातृ सन्ततिः इति । कालादर्शेऽपि - दाहादि मन्त्रवत्
पित्रोर्विदध्यादौरसः सुतः । तदभावे तु पौत्रश्च प्रपौत्रः
पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजो दत्तिमः क्रीतः कृत्रिमो दत्त एव च ।
अपविद्धश्च पत्नी च गृह्णः कन्यकासुतः । पौनर्भवः सहोद्रोत्थो
नन्दनश्च सुतीकृतः । दौहित्रो धनहारी च भ्राता तत्पुत्र एव च । पिता
माता सुषा चैव स्वसा तत्पुत्र एव च । सपिष्ठः सोदको मातुः
सपिष्ठश्च सहोदरः । स्त्री च शिष्यत्विर्गाचार्या जामाता च सखाऽपि
वा । उत्सन्नबन्धो रिक्थेन कारयेदवनीपतिः इति । गर्भिण्यां
परिणीतायां ततो जातः सहोद्रोत्थः । सुतीकृतः - मातामहेन
पुत्रत्वेन स्वीकृतः ।

கார்த்திரமாய்ச் சொல்லுகிறார், மரீசி -புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன், புத்ரிகாபுத்ரன், பத்நீ, ப்ராதா, ப்ராத்ருபுத்ரன், பிதா, மாதா, நாட்டுப்பெண், பகினீ, பாகினேயன், ஸபிண்டன், தனஹாரீ என்ற இவர்களுள் முந்தியவன் இல்லாவிடில் பிந்தியவன் பிண்டதானத்திற்கு அதிகாரியாவான். பராசரரும்:- புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன், அது போல் ப்ராதாவின் ஸந்ததி இவர்கள் அதிகாரிகள். காலாதூர்ச்சுத்திலும்,- மாதா பிதாக்களுக்கு ஒளரஸ புத்ரன் தலைநம் முதலியதை விதிப்படி செய்யவும். அவனில்லாவிடில், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன், கேஷ்தரஜன், தத்திமன், க்ரீதன், க்ருத்ரிமன், தத்தன், அபவித்தன், பத்னீ, கூடஜன், கந்யகாபுத்ரன், பெளனர்பவன், ஸஹோடோத்தன், நந்தனன், ஸாதீக்ருதன், தனஹாரீ தெள்ளுவித்ரன், ப்ராதா, ப்ராத்ருபுத்ரன், பிதா, மாதா; நாட்டுப்பெண், பகினீ, பகினீபுத்ரன், ஸபிண்டன், ஸமாஞ்ஞைதகன், மாத்ருஸபிண்டன், அவளின் ஸஹோதரன், ஸ்தரீ, சிஷ்யன், ருத்விக், ஆசார்யன், ஜாமாதா, ஸகா இவர்கள் கர்த்தாக்கள். பந்துக்களிலொருவருமில்லாதவனுக்கு, அவன் தனத்தினால் அரசன் செய்விக்கவேண்டும். கர்ப்பினியா யிருப்பவளை விவாஹம் செய்துகொண்டபின் அவளிடம் பிறந்தவன் ஸஹோடோத்தன். ஸாதீக்ருதன் = மாதர மஹஞால் புத்ரஞ்ய ஸ்வீகரிக்கப்பட்டவன்.

ஓர்ஸாதிலக்ஷணம्

ஓர்ஸாदிநாங் லக்ஷணமநுக்ரம் சாஹ யாஜவல்க்ய: – ஓர்ஸோ ஧ர்மபத்ரீஜஸ்தத்ஸம: புத்ரிகாஸுத: | க்ஷேத்ரஜ: க்ஷேத்ரஜாதஸ்து ஸ஗ோத்ரேணத்ரேண வா | யூதே பிரச்஛ந் உத்பந்தோ யூத்ஜஸ்து ஸுத: | ஸ்மृத: | காநீன: கன்யகாஜாதோ மாதாமஹஸுதோ மத: | அக்ஷதாயாஂ க்ஷதாயாஂ வா ஜாத: பௌந்ர்வ: ஸுத: | ஦த்யாந்மாதா பிதா வா ய் ஸபுத்ரோ ஦த்தகோ

भवेत् । क्रीतस्तु ताम्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात् स्वयं कृतः । दत्तिमस्तु स्वयं दत्तो गर्भे विनः सहोदजः । उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत् सुतः । पिण्डदोऽशहरश्चैषां पूर्वभावे परः परः इति ।

ஓளரஸாத்திகளின் லக்ஷணம்

ஓளரஸன் முதலியவர்களின் லக்ஷணத்தையும், க்ரமத்தையும் சொல்லுகிறார், யாஜ்ஞவெல்க்யர் : - தர்மபத்னியினிடம் பிறந்தவன் ஓளரஸன்; புத்ரிகாபுத்ரன் அவனுக்குச் சமமானவன். ஸகோத்ரனுலாவது, அஸகோத்ரனுலாவது பத்னியிடம் பிறந்தவன் கேஷத்ரஜன்.க்ருஹத்திலேயே மறைவாய் உண்டானவன் கூடஜன் எனப்படுகிறன். விவாஹமாகாதவளிடம் பிறந்தவன் காந்னன் எனப்படுவான். இவன் மாதாமஹனின் பிள்ளையாவான். விவாஹமான பிறகு அக்ஷதையாகவோ, க்ஷதையாகவோ பிறங்கல் விவாஹத்தையடைந்தவளிடம் பிறந்தவன் பெளநர்பவன் எனப்படுவான். மாதாவே, பிதாவே, இருவருமோ எவனைக் கொடுத்தார்களோ அவன் தத்தபுத்ரன் எனப்படுவான். மாதா பிதாக்களால் விக்ரயம் செய்யப்பட்டவன் க்ரீதன் எனப்படுவான். அபுத்ரங்கல் பணம் முதலியவைகளைக் காண்பிவித்து ஆசையுண்டாக்கி புத்ரங்கீச் செய்துகொள்ளப்பட்டவன் க்ருத்ரிமன் எனப்படுவான். தாங்கைவே அபுத்ரனை வந்து அடைந்தவன் ஸ்வயம் தத்தன், தத்திமன் எனப்படுவான். கர்ப்பமுள்ளவளை விவாஹம் செய்துகொண்டு பிறகு அவளிடம் பிறந்தவன் ஸஹோடஜன் எனப்படுவான். மாதா பிதாக்களால் கைவிடப் பட்டவனுகிய எவன் க்ரஹிக்கப்படுகிறானே அவன் அபவித்தனம். இந்தப் பண்ணிரண்டு புத்ரர்களுள் முந்தியவனில்லாவிடில் பிந்தியவன் பிண்டதானத்திற்கும், தனத்திற்கும் அதிகாரியாவான்.

बृहस्पतिरपि – प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः श्राद्धं देयं प्रयत्नतः।
 ज्ञातिबन्धुसुहृच्छिष्यैः क्रत्विभृत्यपुरोहितैः इति । अत्र पुत्रैरिति
 बहुवचनादुक्ता औरसादि द्वादशविधपुत्रा गृह्णन्ते । तदाह मनुः –
 क्षेत्रजादिसुतानेतानेकादशा यथोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः
 क्रियालोपान्मनीषिणः इति । एतत् गौणपुत्रपरिग्रहवचनं
 सुगान्तरविषयम् । चन्द्रिकास्मृत्यर्थसारादौ – दत्तौरसेतरेषां च
 पुत्रत्वेन परिग्रहः इति कलियुगवर्ज्यधर्ममध्ये परिगणनात् ।
 पुत्रिकापुत्रस्तु न निषिध्यते । पुत्रिकायां कृतायां तु यदि
 पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्यात् ज्यैष्ठचं तत्र न विद्यते ।
 रिक्षे च पिण्डदाने च समानौ परिकीर्तितौ । औरसो
 धर्मपद्मीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । पुत्रास्तु द्वादश प्रोक्ता मनुना
 येऽनुपूर्वकाः । सन्तानकारणं तेषामौरसः पुत्रिकासुतः । आज्यं विना
 यथा तैलं सर्पिः प्रतिनिधिः स्मृतम् । तथैकादशपुत्रास्तु
 पुत्रिकौरसयोर्विना इति मनुयाज्ञवल्क्यादिभिरौरससाम्य स्मरणा-
 दित्याहुः ।

புரூஹஸ்பதியும்:- இறந்த பிதாவுக்கு, புத்ரர்கள் அவச்யம், அபரக்ரியையைச் செய்யவேண்டும். ஐஞாதி, பந்து, மித்ரன், சிங்யன், ருத்விக், ப்ருத்யன், புரோஹிதன் இவர்களாவது செய்யவேண்டும். இங்கு ‘புத்ரர்கள்’ என்று பஹ~வசநத்தால் முன் சொல்லப்பட்ட பன்னிரண்டு விதமான புத்ரர்கள் க்ரஹிக்கப்படுகின்றனர்.

அதைச் சொல்லுகிறீர் மனு:- முன் சொல்லப்பட்ட இந்தப் பதினெட்டு விதமான கேஷத்ரஜன் முதலான புத்ரர்களையும் புத்ரனுக்கு ப்ரதியாகவே அறிந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர். புத்ரோத்பாதன விதிலோபமும், புத்ரன் செய்யவேண்டிய ச்ராத்தாதி லோபமும் ஏற்படாமலிருப்ப தற்காக. இவ்விதம் கெளனைபுத்ரர்களை ப்ரதிக்ரஹிக்கலா

மென்ற வசனம் மற்ற யுகங்களைப் பற்றியது, சந்தரிகை, ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரம் முதலியவைகளில் “தத்தன், ஒளரஸன் இவர்களைத்தவிர மற்றவர்களைப் புத்ரனுய் பரிக்ரஹி ப்பது (கூடாது) ” என்று கலியுகத்தில் தள்ளக் கூடிய தர்மங்களின் நடுவில் எண்ணப்பட்டுள்ளது. புத்ரிகா புத்ரனேவெனில் நிவேஷத்திக்கப்படவில்லை. “புத்ரிகையை ஏற்படுத்திக்கொண்ட பிறகு, புத்ரன் பிறந்தால், அங்கு பாகம் ஸமமாகும். அவர்களுள் மூத்தவனெனும் தன்மை கிடையாது. அவ்விருவரும் பணத்திலும், பிண்ட தானத்திலும் ஸமானர்களாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளனர். தர்மபத்னியினிடத்தில் பிறந்தவன் ஒளரஸன். புத்ரிகா புத்ரனும் அவனுக்கு ஸமஞானவன். மனுவரிசையாக எந்தப் பண்ணிரண்டு புத்ரர்களைச் சொன்னாரோ அவர்களுள் ஒளரஸன், புத்ரிகாபுத்ரன் என்ற இருவரே ஸந்தாநத்திற்கு (வம்சவ்ருத்திக்கு)க் காரணம். நெய் இல்லாவிடில் தைலத்தை நெய்க்கு ப்ரதிநிதியாக எப்படிச் சொல்லப்படுகிறதோ அவ்விதமே பதினெட்டு புத்ரர்களும் புத்ரிகா புத்ரன் ஒளரஸன் இவ்விருவருமில்லாவிடில் ப்ரதிநிதிகள், என்று மனு யாஜ்ஞவல்க்யர் முதலியவர்களால் ஒளரஸனுக்கு ஸமமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் என்கின்றனர்.

एवश्च पुत्रपौत्रप्रपौत्राभावे पुत्रिकापुत्रस्य सत्वे स एव संस्काराधिकारी भवति, यश्चार्थहरः स पिण्डदायी इति विष्णु-स्मरणात् । पौत्रादेः सत्वे तु तस्यैव प्राथम्यम्, न पुत्रिकापुत्रादेः । पुत्रेषु सत्सु पौत्रेषु नान्यं वै कारयेत् स्वधाम् इति निषेधात् । तथा च क्रमं दर्शयति मरीचिः – पुत्रः पौत्रश्च तज्ज्ञ पुत्रिकापुत्र एव च इति । तथैव स्मृतिरत्नकालादशदौ निर्णीतम् ।

இவ்விதமிருப்பதால் புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன் இவர்களில்லாவிடில், புத்ரிகா புத்ரனிருந்தால் அவனே ஸம்ஸ்காரத்திலகுகாரியாக ஆகிறான். ‘பணத்தை அடைபவன் பிண்டதானம் செய்ய

உரிமையுடையவன்', என்று விஷ்ணு ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். பெளத்ரன் முதலியவர் இருந்தால் அவருக்கே முதன்மை, புத்ரிகாபுத்ரன் முதலியவர்க்கல்ல. 'புத்ரர்களோ பெளத்ரர்களோ இருந்தால் அன்யனைக் கொண்டு ப்ரேதக்ரியையைச் செய்விக்கக் கூடாது' என்று நினேஷதமிருப்பதால். அவ்விதமே கர்மத்தைக் காண்பிவிக்கின்றார், மார்சி:- 'புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன், புத்ரிகாபுத்ரன்' என்று அவ்விதமே, ஸ்ம்ருதிரத்னம், காலாதர்சம் முதலியதில் நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளது.

அத ஏவ புதிகாபுறஸ்ய பௌத்ரஸாம்யமுக்தம் வூஹஸ்பதிநா - பௌத்ர புதிகாபுறः ஸ்வர்஗ப்ராஸிகராவுமௌ । ரிக்஥ே ச பிண்஡ானே ச ஸமானை பரிகிர்தீட்டை இதி । தத்ஸமः புதிகாஸுதः இத்யௌரஸஸாம்ய- வசனமௌரஸ ஸந்தத்யமாவே புதிகாஸுதஸ்ய ஸமநந்தராதிகாரித்வ- ப்ரதிபாடனபரம् । நைத்தபைநே கர்த்தங் புத்ரங்கேதிப்தாமஹः இதி வசன் முற்யஸந்தானவிஷயம் । அதः புதிகாபுறदத்தாபேக்ஷயா பௌத் ஏவ முற்யः । புதிகாபுறஸ்யோமயஸம்஬ந்஧ोऽபி ஸமர்தை ஦ேவலேன - ஦ிசாமுஸ்யாயணகா ஦த்துஞ்சம்யா பிண்஡ோடகே பृथக் இதி ।

ஆகையாலேயே புத்ரிகா புத்ரனுக்குப் பெளத்ர ஸாம்யத்தைச் சொன்னார் ப்ரகுஹஸ்பதி 'பெளத்ரன், புத்ரிகாபுத்ரன் என்ற இருவரும் ஸ்வர்க்க ப்ராப்தியைச் செய்பவர்கள். தனத்திலும், பிண்ட தானத்திலும் ஸமானர்களாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளனர்' என்று. 'ஓளரஸனுக்கு ஸமன் புத்ரிகா புத்ரன்' என்று ஓளரஸனுக்கு ஸமத்வத்தைச் சொல்லும் வசனம்; ஓளரஸனின் ஸந்ததியில்லாவிடில் புத்ரிகாபுத்ரன் அடுத்த அதிகாரீ என்பதைச் சொல்வதில் தாத்பர்யமுடையது. 'பிதாமஹன் புத்ரவானையிருந்தால், பெளத்ரன் ப்ரேத க்ரியையைச் செய்யக்கூடாது.' என்ற வசனம் முக்ய ஸந்தானத்தைக் குறித்தது. ஆகையால், புத்ரிகாபுத்ரன், தத்தன் இவர்களை

अपेक्षित्तुप बेळत्रेने मुक्यं पुत्रीका पुत्रानुक्तु
இருவரुடन் सम्पन्तमुम् चेऽल्लप्पदुकिरतु
तेवलरालः - तव्यामृष्याणकर्कर्क (இருவரुक्तुम्
उरीयवर्कर्क) இருவरुक्तुम् पिण्टेतकन्कणेत्
तनीत्तनीये केाटुक्कवेण्टुम्, ऎन्ऱु.

स्मृत्यन्तरेऽपि - यस्मादुभयसम्बन्धः पुत्रिकायाः सुतो
ह्यसौ । पूर्व मातामहश्राद्धं पश्चात्पैतृकमाचरेदिति । अभ्रातृकां
प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्घताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स नौ
पुत्रो भवेदिति प्रदान समयेऽभिधाने मातामहस्य जनकस्य च
संस्कारेऽधिकारी । स मे पुत्र इत्युक्त्वा दाने तु मातामहैव
संबन्धः । तथा चन्द्रिकायाम् - द्विविधो हि पुत्रिकापुत्रः, एको
मातामहेन सम्बद्धः, अपरः पितृमातामहाभ्याम् । तत्र प्रथमो
मातामहस्य कुर्यात् पितुरिच्छया । य उभयसम्बन्धः स उभयोरपि
इति ।

मन्त्रिरुद्र लम्गुतीयिलुमः - इन्तप्प वृत्रीकापृत्रनं
இருவரुटन् सम्पन्तमुल्लवण्णकेयाल्, मुत्तलिलं
मातामहैर्चरात्तत्तत्तेतयुम्, पिऱकु पित्तरु चरात्तत्तत्तेतयुम्
चेय्यवेण्टुम् ऎन्ऱुल्लातु. “प्रराता இல்லாதவளும्,
அலங்காரமுल्लவण्णமான இन्तप्प वैपेण्णண உனக्कुक்
केाटुक्कிறேன். இவளीटत्तिल் எन्तप्प वृत्रनं
பிறக்கின्ऱுगै அவன் நम्मிருவरुक्तुम् वृत्रानुक्तुक
கடवன्” என्ऱு கन्याताळ ஸमयत्तिलं
चेऽल्लियிருन्तாल, அन्तप्प वृत्रनं माता महैनुक्तुम्
ஐநகனुக्तुम् सम्स्कारत्तिल अதிகारीयाकிறேன். ‘ஸ मே
वृत्रः’ என்று மந்த்ரत्तेतச्चैचेऽल्लி, தானம் चेय्तिरுन्तால்
मातामहैर्गै उमट्टிலं सम्पन्तम्. அவ்விதமே,
सन्तरीकेयिलः - वृत्रीकापृत्रनं इரண्टुवितमानवन्स
ஓருவन्स मातामहैनुடन्स सम्पन्तमुल्लवन्स.
मन्त्रिरुद्रवन्स, पிதावृत्तनुम्, मातामहैनुடनुम्
सम्पन्तमुल्लवन्स. मुत्तलंवन्स मातामहैनुक्तु

க்ரியையச் செய்யவேண்டும். இச்சையிருந்தால் பிதாவுக்கும் செய்யலாம். இரண்டாமவன் இருவருக்கும் க்ரியையச் செய்யவேண்டும்.

புதிகாபுறாமாவே ஦த: கர்தா, கஸ்மிஂஶித்ப்ரதி஗ृஹீதே யத்யௌரஸ உத்பூதே ஸ சதுர்஥ாஶ்஭ாக் இதி வசிஷ்ட ஸ்மரணே ஔரஸ்சதுர்஥ாஶ்஭ாஜோ ஦த்ஸ்ய வ்யவஹிதத்வே ஸ மாஂஶ்஭ாஜ: புதிகாபுறஸ்யை ப்ராதம்யம் । ஦த்஭ாவே ஧நஹரீ ஦ௌஹித: கர்தா । தந் விஷ்ணு: - அபுறபுறஸந்தானே ஦ௌஹிதா ஧நமாபூயு: । பூர்வைந்து ஸ்வ஧ாகாரே புறத்தௌஹிதகா மாதா: இதி அபுறபுறஸந்தானே - ஗ௌணமுற்யரூபோமயவி஧ புறபௌறத்ஸந்தத்யமாவே இத்யர்஥: । ஸ்மृத்யந்தரே²பி - புறஶ ஦ுஹிதா சைவ துல்யஸந்தானகாரகை இதி । புதிகாபுறாமாவே ஦த: கர்தா, கஸ்மிஂஶித்ப்ரதி஗ृஹீதே யத்யௌரஸ உத்பூதே ஸ சதுர்஥ாஶ்஭ாக், இதி வசிஷ்ட ஸ்மரணே ஔரஸ- சதுர்஥ாஶ்஭ாஜோ ஦த்ஸ்ய வ்யவஹிதத்வே ஸ மாஂஶ்஭ாஜ: புதிகாபுறஸ்யை ப்ராதம்யம் । ஦த்தாமாவே ஧நஹரீ ஦ௌஹித: கர்தா । தந் விஷ்ணு: - அபுறபுறஸந்தானே ஦ௌஹிதா ஧நமாபூயு: । பூர்வைந்து ஸ்வ஧ாகாரே புறத்தௌஹிதகா மாதா: இதி । அபுறபுறஸந்தானே - ஗ௌணமுற்யரூபோமய- வி஧புறபௌறத்ஸந்தத்யமாவே இத்யர்஥: । ஸ்மृத்யந்தரே²பி - புறஶ ஦ுஹிதா சைவ துல்யஸந்தானகாரகை இதி ।

புத்ரிகாபுத்ரனில்லாவிடில் தத்தன் (ஸ்வீக்ருதன்) கர்த்தா. “இருவனை ஸ்வீகாரம் செய்துகொண்ட பிறகு ஒளரஸன் உண்டானால், அவன் (ஸ்வீக்ருதன்) நாவிலொரு பாகத்தை அடைய உரியவன்” என்ற வளிஷ்ட ஸ்ம்ருதியினால், ஒளரஸனுடைய தனத்தில் நாவிலொரு பாகத்தையடையும் ஸ்வீக்ருதன் வ்யவஹரிதன யிருப்பதால், பாது பாகத்தையடையும் புத்ரிகாபுத்ரனே முதல்வனுகிறுன். தத்தன் (ஸ்வீக்ருதன்) இல்லாவிடில், தனஹாரியான (பணத்தை அடைபவனை) தெளவித்ரன் கர்த்தா. அவ்விஷயத்தில், விஷ்ணு:- புத்ர பெளத்ர

ஸந்தானமில்லாதவன் விஷயத்தில், தெளவுறித்ரர்கள் தனத்தை அடையவேண்டும். முன்னேர்களுக்கு க்ரியை செய்யும் விஷயத்தில், தெளவுறித்ரர்கள் பெள்றர்களாக மதுக்கப்பட்டுள்ளனர். ‘அபுத்ரபெள்ற ஸந்தானே’ என்பதற்குக் கொண் முக்யரூபமாய் இருவிதமான புத்ரன் பெள்றரன் அவன் ஸந்ததி இவை இல்லாவிடில் என்பது பொருள். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- புத்ரனும் பெண்ணும் ஸமானமான ஸந்ததிக்குக் காரணமாகியவர்கள்.

मनुरपि - पुत्रदौहित्रयोलोके विशेषो नास्ति धर्मतः ।
दौहित्रो ह्यखिलं रिकथमपुत्रस्य पितुर्हरेत् । स एव दद्यादद्वौ पिण्डौ
पित्रे मातामहाय च इति । स्मृत्यन्तरेऽपि - श्राद्धं मातामहानां च
अवश्यं धनहारिणा । दौहित्रेण विधिज्ञेन कर्तव्यं पूर्वमुत्तरम् इति ।
धनग्रहणाभावेऽपि दौहित्रोऽधिकारी । तथा भविष्यत्पुराणे - यथा
ब्रतस्थोऽपि सुतः कुर्यात् प्रेतक्रियां नृप । मातामहस्य दाहाद्यां
दौहित्रोऽपि तथाऽर्हति इति । गृह्यपरिशिष्टे - पितामहस्य तत्पत्न्या
मातामह्योस्तथैव च । पिण्डदानादिकं सर्वं मातापित्रोः समं विदुः
इति । पराशरः - पूर्वाः क्रिया मध्यमाश्र तथा चैवोत्तराः क्रियाः ।
आद्यादाद्यादशाहाच्च मध्ये याः स्युः क्रिया मताः । ताः पूर्वं मध्यमा
मासि मास्येकोदिष्टसंज्ञिताः । प्रेते पितृत्वमापने सपिण्डी-
करणादनु । क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्याः प्रोच्यन्ते तास्तथोत्तराः ।
पितृमातृसपिण्डैस्तु समानसलिलैस्तथा । तत्सङ्खातगतैश्चापि राजा
वा धनहारिणा । आद्या मध्याः क्रियाः कार्याः पुत्राद्यैरपि चोत्तराः ।
दौहित्रैर्वा तथा कार्याः सर्वास्तत्तनयैस्तथा इति । एकोदिष्टान्ता:
सापिण्डचान्तास्तदुत्तराश्र त्रिविधा इत्यर्थः ।

மனு:- உலகில் பெள்தறநுக்கும், தெளவுறித்ரநுக்கும் பேதமில்லை. புத்ரனில்லாதவனின் தனம் முழுவதையும் தெளவுறித்ரன் அடையவேண்டும். அவனே பிதாவுக்கும்,

மாதாமஹனுக்கும் இரண்டு பிண்டங்களைக் கொடுக்கவேண்டும். மற்றெழுநுஸ்மருதியில் தனஹாரியான தெளஹித்ரன் விதியை அறிந்து, மாதாமஹனுக்குப் பூர்வம் உத்தரம் என்ற க்ரியைகளை அவச்யம் செய்யவேண்டும். தனத்தை க்ரஹிக்காவிட்டனும் தெளஹித்ரன் க்ரியாதிகாரீ. அவ்விதம், பவிஷ்டியத் புராணத்தில்:- ஒ அரசனே! ப்ரம்ஹஶாரியாயினும் புத்ரன் பிதாவுக்கு ப்ரேதக்ரியையை எப்படிச் செய்யவேண்டுமோ அப்படியே தெளஹித்ரனும் மாதாமஹனுடைய தாஹாதிகளைச் செய்ய அர்ஹனுகிறுன். க்ருஹ்ய பரிசிஷ்டத்தில்:- பிதாமஹன், பிதாமஹீ, மாதா மஹன், மாதாமஹீ இவர்களுக்குப் பிண்டதானம் முதலியதெல்லாம் மாதா பிதாக்களுக்குச் செய்வதுபோல் செய்யவேண்டுமென்கிறார்கள்.

பராஶரः – பூர்வா: கியா மध்யமாஶ தथா சைவோத்ரா: கியா: । ஆயாடாஷாதஶாஹாஞ் மध்யே யா: ஸ்யு: கியா மதா: । தா: பூர்வ மத்யமா மாசி மாஸ்யேகோதிஷ்டஸ்திதா: । ப்ரேதே பிதுவ்மாபநே ஸபிண்டி-கரணாடனு । கியந்தே யா: கியா: பித்யா: ப்ரோச்யந்தே தாஸ்தாத்ரா: । பிதுமாதஸ்பிண்டைஸ்து ஸமானஸலிலைஸ்த஥ா । தத்ஸஜாத஗தைஶாபி ராஜா வா ஧நஹாரிணா । ஆயா மத்யா: கியா: கார்யா: புத்ராவைபி சோத்ரா: । ஦ௌஹிதைவா ததா கார்யா: ஸ்வர்த்தனயைஸ்த஥ா இதி । ஏகோதிஷாந்தா: ஸாபிண்ட்யாந்தாஸ்ததுத்ராஶ திவி஧ா இத்யர்஥: ।

பராசரர்:- க்ரியைகள், பூர்வங்கள் என்றும், மத்யமங்கள் என்றும், உத்தரங்கள் என்றும் மூன்று விதங்கள். முதல் நாள் முதல் 11-ஆவதுநாள் முடியும் வரையிலுள்ள க்ரியைகள் பூர்வக்ரியைகள். பிறகு ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஏகோத்திஷ்ட மெனப்படும் மாளிகங்கள் மத்யமக்ரியைகள். ஸபிண்டாக்ரணமான பிறகு செய்யப்படும் க்ரியைகள் உத்தரக்ரியைகள் எனப்படும். பிதாவின் ஸபிண்டர்கள், மாதாவின் ஸபிண்டர்கள், ஸமாஞ்ஞேதகர்கள், அவர்கள் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்,

தனஹாரியான அரசன் இவர்கள் பூர்வக்ரியைகள், மத்யக்ரியைகள் இவைகளைச் செய்யவேண்டும். புத்ரன் முதலிய கர்த்தாக்களோ உத்தரக்ரியைகளையும் செய்ய வேண்டும். தொலூரித்ரரகஞம் அவர்களின் புத்ரர்களும் உத்தர க்ரியைகளைச் செய்யவேண்டும். ஏகோத்திஷ்டம் வரையிலுள்ளவைகளும், ஸாபின்ட்யம் வரையிலுள்ளவைகளும், அதற்கு மேலுள்ளவைகளுமாக மூன்று விதம் க்ரியைகள் என்பது பொருள்.

अहां दशानां मध्ये याः क्रिया दाहादिकाः स्मृताः । ताः पूर्वा मध्यमा मासि इति पाठमाश्रित्य कालादर्शकारेण सङ्घीतम् – दाहादशाहपर्यन्ताः सापिण्ड्यान्ता अथ क्रियाः । तदूर्ध्वाश्र क्रमात् पूर्वा मध्यमाश्रोत्तराः स्मृताः । पुत्रैश्च भ्रातृतपुत्रैः पद्या शिष्येण वाऽखिलाः । क्रियाः कार्याः समादिष्टाः ज्ञेषैः पूर्वाश्र मध्यमाः इति ।

இங்கு “அஹ்நாம் தசாநாம் + மாஸி” என்ற பாடபேதத்தை ஆச்சரியித்து காலாதர்ச்காரர் மேல் வருமாறு ஸங்க்ரவித்துள்ளார். அதாவது “தாஹம் முதல் தசாஹம் வரையுள்ள க்ரியைகளும், அதற்குமேல் ஸபின்டகரணம் வரையுள்ள க்ரியைகளும், அதற்குமேலுள்ள க்ரியைகளும், முறையே பூர்வக்ரியைகள், மத்யம க்ரியைகள், உத்தர க்ரியைகள் எனப்படுகின்றன. புத்ரர்கள், பிராதாக்கள், ப்ராத்ருபுத்ரர்கள், பத்னீ, சிஷ்யன் இவர்கள் மூன்று விதமான எல்லா க்ரியைகளையும் செய்யவேண்டும். மற்றவர்கள் பூர்வக்ரியைகள், மத்யம க்ரியைகள் இவைகளை மட்டும் செய்யவேண்டும்” என்று.

अपुत्रस्य मातामहस्य मरणे धनहारिणा दौहित्रेण त्रिविधा
 अपि क्रिया: कार्याः – मलमेतन्मनुष्याणां द्रविणं यत् प्रकीर्तितम् ।
 तद्वृङ्गल् मलमादत्ते दुर्जरं ज्ञानिनामपि । ऋषिभिस्तस्य निर्दिष्टा
 निष्कृतिः पावनी परा । आदेहपतनात्तस्य कुर्यात् पिण्डोदक-
 क्रियाम् इति स्मरणात् ।

அபுத்ரனை மாதாமஹனின் மரணத்தில், தனஹாரியான தெளவித்ரன் மூன்றுவிதமான க்ரியைகளையும் செய்யவேண்டும். தனமென்பது மனிதர்களின் மலம்(பாபம்) எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தனத்தை அடைபவன், ஞானிகளாலும் அழிக்க முடியாத பாபத்தையே க்ரஹித்துக்கொள்ளுகிறோன். அவனுக்கு மிகப் பரிசுத்திகரமான ப்ராயஸ்சித்தத்தை முனிவர்கள் சொல்லியுள்ளனர். ‘தன் தேஹமழியும் வரையில் இறந்தவனுக்கு பிண்டோதகதானத்தைச் செய்ய வேண்டும்’ என்று.

धनग्रहणाभावेऽपि कर्त्तन्तराभावे त्रिविधा अपि क्रियाः
कार्याः – अप्यदायहरोऽपुत्रीकृतोऽपि दुहितुः सुतः । मातामहस्य
विधिवत् कुयदिवोत्तराः क्रियाः इति स्मरणात् । पूर्वमध्यक्रिया-
करणाभावे अवश्यकर्तव्याया उत्तरक्रियायाः कर्तुमयुक्तत्वात् ।
कर्त्तन्तरसञ्चावे तु धनहरणयोग्यतारहितेन दौहित्रेणाद्यादिक्रिया न
कार्याः । तत्राबिद्कव्यतिरिक्त महालयादयस्तु कर्तव्याः –
पितृन्मातामहांश्चैव द्विजः श्राद्धेन तप्येत् । अनृणी स्यात् पितृणां तु
ब्रह्मलोकं च गच्छति । पार्वणं कुरुते यस्तु केवलं पितृहेतुतः ।
मातामहे न कुरुते पितृहा स प्रजायते इति व्यासस्मरणात् ।
कर्षूसमन्वितं मुक्तवा तथाऽऽद्यश्राद्धषोडशम् । प्रत्याबिदकं च शेषेषु
पिण्डाः स्युष्णिति स्थितिः इति कात्यायनस्मरणाच्च ।
कर्षूसमन्वितं - कुण्डान्वितम्, सपिण्डीகரणமिति யாவத् । ஶேஷே
மஹாலயமந்வாதாதிஷு, வர்ங்கியபிதृநுதிஶ்ய மோஜன் ஷட்பிண்஡ாஶ
மஹந்தீத்யर்஥ः ।

தனத்தை அடையா விடினும், வேறு கர்த்தா இல்லாவிடில் மூன்று விதமான க்ரியைகளையும் செய்யவேண்டும். “பணத்தை அடையாதவனு யினும் புத்ரங்கீயச் செய்யப்பட்ட தெளவித்ரன், மாதாஹனுக்கு

उत्तरकर्तियेकणां वित्तिप्पति चेष्यवेवे वेण्टुम्” एन्ऱु स्मृतिरुद्धि इग्रुप्पतालं. पूर्व भृत्यकर्तियेकणां चेष्याविष्टिल, अवस्थयं चेष्यवेण्टिय उत्तर कर्तियेकणां चेष्यवतु युक्तमाकातानताल. वेवृ कर्त्त्वा इग्रुन्तताल, तनत्तेत अटेवतर्कु येऽक्यतेय यिल्लात तेलाहीतरन्सं पूर्ववकर्तियेय मुतलियवेकणां चेष्यवेण्टियतिल्लै. अवेकणूलं प्ररत्याप्तिकम तविर मर्त्र महालायम् मुतलियवेकणां चेष्य वेण्टुम्. “प्रराम्भैरण्सं प्रित्तरुक्कणायुम्, माता महारकणायुम् चरात्तत्त्वाल् तरप्पिक्कवेण्टुम्. इतलैल प्रित्तरुक्कणकु रुण्मर्त्रवण्मुकिरुन्. प्ररम्भै लेवात्तत्त्वायुमतेकिरुन्. एवं प्रितावुक्कु मट्टुम् पार्वणत्तेतकं चेष्यकिन्नरुलेयो. अवं प्रित्तरुहृत्येय चेष्यतवण्मुकिरुन्” एन्ऱु व्यासस्मृतियालुम्, “लपिण्णाकरणम्, आत्य चरात्तम्, शेषाट्स चरात्तम्, प्ररत्याप्तिकम् इव तविर मर्त्र चरात्तन्कणील आरु पिण्णान्कणूलं एन्ऱु एन्पतु निर्णयम्” एन्ऱु कात्यायण स्मृतियालुम्. मूलत्तिलुलां ‘कर्षलमन्वितम्’ एन्पतर्कु लपिण्णाकरणम् एन्पतु बेपारुलं. ‘चेष्येष्य’ एन्पतर्कु महालाय मन्वात्यातिकणील एन्ऱु बेपारुलं. इवेकणील वर्ककत्वय प्रित्तरुक्कणां उत्तेचित्तुप्प बोज्जनमुम्, आरु पिण्णान्कणूम् उन्ऱु एन्पतु बेपारुलं.

मातामहस्य भ्रात्रादिसद्भावे संसृष्टस्य तस्य धनग्रहणरहितो दौहित्रोऽनधिकारी, योऽशहरः स पिण्डदायी इति स्मरणात् । अविभक्तभ्रात्रादिरेवाधिकारीति केचिदाहुः । यथा व्रतस्थोऽपि सुतः कुर्यात् प्रेतक्रियां नृप । मातामहस्य दाहादौ दौहित्रोऽपि तथाऽर्हति इति भविष्यत्पुराणादिवचनात् पुत्रसमत्वेनाविभक्त-भ्रात्रादेः सत्वे धनग्रहणरहितोऽपि दौहित्र एव प्रेतक्रियायामधि-कारीत्यन्ये । यथोचितमत्र ग्राह्यम् ।

மாதாமஹனுக்கு ப்ராதா முதலியவர் இருந்து, பாகமாகாமல் சேர்ந்திருந்து, அவனுடைய தனத்தையடையாமலிருக்கும் தெளவுறித்ரன் அதிகாரியல்ல. 'எவன் தனஹாரியோ அவன் க்ரியாதிகாரீ' என்று ஸ்மிருதியிருப்பதால். விபாகமாகாமலிருக்கும் ப்ராதா முதலியவனே க்ரியாதிகாரீ, என்கின்றனர் சிலர். 'யதாவ்ரதஸ்தோ+ததார்ஹதி' என்ற பவிஷ்யத்புராணாதி வசனங்களால் புத்ரனுக்குச் சமானங்களால் விபாகமாகாத ப்ராதா முதலானவரிருப்பதால் தனக்ரஹண மில்லாதவனு யினும், தெளவுறித்ரனே மாதாமஹனின் ப்ரேதக்ரியையில் அதிகாரீ என்கின்றனர் மற்றவர். இவ்விஷயத்தில் எது உசிதமோ அதை க்ரஹுக்கவும்.

दौहित्राभावे पद्म्या अधिकारः ।

अत्र वृद्धमनुः – अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता ।
पद्म्येव दद्यात्तत्पिण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च इति । सुमन्तुरपि – अपुत्रे संस्थिते कर्ता न भवेच्छ्राद्धकर्मणि । तत्र पद्म्यपि कुर्वीत सापिण्डचं पार्वणं तथा इति । कर्ता न भवेत् - पौत्रादिदौहित्रान्तः कर्ता यदि न भवेदित्यर्थः ।

தெளவுறித்ரனில்லாவிடில் பத்நிக்கு அதிகாரம்.

இவ்விஷயத்தில், வருத்தமனு பர்த்தாவின் சயனத்தைப் பரிபாலிப்பவனும் பதிவ்ரதையுமான பத்னீ புத்ரனில்லாதவளாகில் அவளே பர்த்தாவுக்கு க்ரியையைச் செய்யவேண்டும். பர்த்தாவின் தனம் முழுவதையும் அவளே அடையவேண்டும். ஸமந்துவும்:- புத்ரனில்லாதவனிறந்தால், உத்தர க்ரியைக்குக் கர்த்தா இல்லாவிடில், அவன் விஷயத்தில் பத்னியும் ஸாபின்ட்யம் ச்ராத்தம் இவைகளைச் செய்யலாம். கர்த்தா இல்லாவிடில் என்பதற்குப் பெளத்ரன் முதல் தெளவுறித்ரன் வரையுள்ள கர்த்தா இல்லாவிடில் என்பது பொருள்.

दौहित्रापेक्षया पत्न्याः प्राथम्यमाह, सङ्ग्रहकारः – पुत्रः कुर्यात् पितुः श्राद्धं पत्नी च तदसनिधौ । धनहार्यथ दौहित्रस्ततो भ्राता च तत्सुतः इति । तथा च शङ्खः – पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभावे तु पत्नी स्यात् पत्न्यमावे तु सोदरः इति । चन्द्रिकायामिदं व्याख्यातम् – पुत्रग्रहणेनात्र गौणा मुख्याश्च गृह्यन्ते तदपि पौत्राभावविषयम् । तदपि दायहरत्वाभावविषयम् । अन्यथा तु यो दायहरः स एव दद्यात् । अत एव विष्वापस्तम्बौ – यश्चार्थहरः स पिण्डदायी । पुत्रः पितृविज्ञाभावेऽपि पिण्डं दद्यात् इति ।

तेणाह्वीत्तरणेनवीटप्पत्तिकुरु मुतन्नमययेच
सेवाल्लुकिरुर्संकरहूकाराराः- पितावक्कुप्पुत्तरन्न
कर्मयेच चेय्यवेण्णुम् । अवन्नं सेन्ननीह्वीत्तरण
यिल्लावीटिल्लपत्तिन्नेचेय्यवेण्णुम् । अवन्निल्लावीटिल्ल
तन्नहारीयान्न तेणाह्वीत्तरण, पिरुकुप्राता, पिरुकुप्रातरु
पुत्तरन्न चेय्यवेण्णुम् । अव्वित्तमेचांकाराः-
पितावक्कुप्पुत्तरन्न पिण्डेतोत्तकतान्न कर्मयेच
चेय्यवेण्णुम् । पुत्तरन्निल्लावीटिल्लपत्तिन्न,
अवन्निल्लावीटिल्ल, सेवेहातरण चेय्यवेण्णुम् ।
सन्त्तरिकेयिल्ल इतन्नकुव्याक्यान्नमेचेय्यपपत्तुन्नातु-
“पुत्तरणेनन्नताल्ल इन्कुक्केकाण्णपुत्तररक्कुरुम
मुक्यपुत्तररक्कुरुम करव्वीक्कप्पाटुकिन्नन्नर । अतुवुम
पेणात्तरन्निल्लात वीष्यम् । अतुवुम तन्त्तत्त
अटेपवन्निल्लात वीष्यम् । मन्न वीष्यत्तिल्ल एवन्नं
तन्नहारीयो अवनेकर्मयातिकारी । आकेयाल्ल तान्न
वीष्णुवुम, आपस्तम्परुमः- ‘एवन्नं तन्नहारीयो
अवनेपिण्डतागतिकारी, पुत्तरन्न पिताविन्न तन्त्तत्त
अटेयावीटिन्नमेचिण्डतान्नमेचेय्यवेण्णुम्’
एन्नन्नर ।

अत एव याज्ञवल्क्येनापि – पिण्डदोऽशहरश्चैषां पूर्वभावे
परः परः इति पिण्डदत्त्वांशहरत्वयोरैकाधिकरण्यमुक्तम् । एवं

සොදෙටපි දෙශව්‍යමිති । අනෙනැගාමිප්‍රායේණ ගැතමෝටපි –
ප්‍රාමාභාවේටස්‍ය බාන්ධවා: සපිණ්ඩා: පිණ් මාතුසපිණ්ඩා: ගිජ්‍යාංශ
දදුස්තදමාව ක්‍රත්වගාචාරී ඇති ।

ஆகையால்தான் பாஜ்ஞவல்க்யராலும், 'இவர்களுள்
க்ரியையைச் செய்பவனும், தனத்தை அடைபவனும்,
முந்தியவன் இல்லாவிடில் பிந்தியவன்' என்று
பிண்டதத்வமும், தனஹாரித்வமும் ஒரே
இடத்திலுள்ளதெனச் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதம்
ஸஹோதர விஷயத்திலும் காணவேண்டும் என்று. இந்த
அபிப்ராயத்தைக் கொண்டே, கெளதுமரும்:-
புத்ரனில்லாவிடில், இவனின் பந்துக்கள், ஸபிண்டர்கள்,
மாத்ரு ஸபிண்டர்கள், சிஷ்யர்கள் பிண்டத்தைக்
கொடுக்கவேண்டும். அவர்களில்லாவிடில், ருத்விக்,
ஆசார்யன் இவர்கள் கொடுக்கவேண்டும்.

அங்ஶஹரத்வே ஭්‍ரාதாදிஸபිණ்டானா் பத்யாத்யபேக්‍ஷயாத்ம්‍යहිतत்வமாह
மார்க்ண்டேயோபி– ப්‍රාமාභා ஸபිණ்டாஸ்து தத்மாவே து ஸோடகா: । மாது:
ஸபිණ்டா யே வா ஸ்யுரே வா மாதுஶ ஸோடகா: இதி । மாது: ஸபිණ்டா: -
மாதுலாடய: । மார்க்ண்டேயபுராணேටපි – புத்ர ஭්‍ராதா ச தத்புத்ர: பத்ரி
மாதா பிதா ததா । வித்தாභාவේටපි ஶிஷ்யஶ குர්ராநைஷ்வைஹிகம्
இதி ।

தனஹாரித்வமிருந்தால் ப்ராதா முதலிய
ஸபிண்டர்களுக்கு பத்னியைவிட ஸாமீப்யத்தைச்
சொல்லுகிறூர் மார்க்கண்டேயரும்:- புத்ரனில்லாவிடில்
ஸபிண்டர்கள், அவர்கள் இல்லாவிடில் ஸமாஞ்சேதகர்கள்,
மாத்ருஸபிண்டர்கள், மாத்ருஸமாஞ்சேதகர்கள்
அதிகாரிகள். மாத்ருஸபிண்டர்கள் - மாதுலாதிகள்.
மார்க்கண்டேய புராணத்திலும் :- பணமில்லாவிடினும்,
புத்ரன், ப்ராதா, ப்ராத்ரு புத்ரன், பத்னீ, மாதா, பிதா,
சிஷ்யன் இவர்கள் அபரக்ரியையைச் செய்யவேண்டும்.

अंशहरत्वे तु पद्म्याः प्राथम्यमाह कात्यायनः । - अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता भ्राता तत्पुत्र एव च इति । एतच्च ब्राह्मादिविवाहोऽविषयम् । तस्या यज्ञान्वितत्वेन तत्रैव पत्नीशब्दप्रयोगात् । इतरत्र तु - क्रयक्रीता तु या नारी न सा पद्म्यभिधीयते । न सा दैवे न सा पित्र्ये दासीं तां कवयो विदुः इति पत्नीत्वाभावात् ।

तन्नहारीत्वमिरुक्कुम् पक्षुत्तिलं पत्तिनिक्कु मुतन्नमेयस्च चेऽल्लुकिरुर् । कात्यायनार् - पुत्रनील्लातवनुक्कु नर्कुलत्तिलं पिऱ्नंत पत्तिं, अल्लतु वेण्कंकाळं, अवर्कणील्लावीष्टिलं पिता, माता, पराता, प्ररात्तरु पुत्रं इवर्कणं कर्मातिकारीकाळं । पत्तिनियस्च चेऽल्लियतु प्रराम्लुर्नाति विवाहूत्तालं मणक्कप्पट्टवलीनं विषयम् । अवलं यज्ञं गुत्तिलं चेर्नंतिरुप्पत्तालं अवलीत्तिलेये 'पत्तिं' चप्तमं प्रयोक्किक्कप्पट्टुकिरुतु । मर्त्र पत्तिं विषयत्तिलेवा 'कर्यत्तालं वाङ्कक्कप्पट्टवलेवलो अवलं 'पत्तिं' ऎनप्पट्टुवत्तिलंले । अवलं तेव कर्मत्तिलुम् योक्कययल्लाळं, अवलं पित्तरु कर्मत्तिलुम् योक्कययल्लाळं । अवलो 'वेलेक्कारी ऎन्किन्नर्ननार् अर्निन्तवर्कणः पत्तिनित्त तन्नमेये इल्लात्तालं ।

अत एवासुरादिविवाहोऽविषये विष्णुपुराणे पराशरः । पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्वद्वा भ्रातृसन्ततिः । सपिण्डसन्ततिवर्णापि क्रियार्हा नृप जायते । तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपक्षस्य पिण्डेन सम्बद्धा ये ज(कु)लेन वा । कुलद्वयेऽपि चोत्सन्ने स्त्रीभिः कार्या क्रिया नृप । उत्सन्नबन्धो रिक्थेन कारयेदवनीपतिः इति । मार्कपडेयोऽपि - सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभृणाममन्त्रकम् । तदभावे च नृपतिः कारयेत् स्वकुद्मिनाम् । तज्जातीयैनरैः सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः । सर्वेषामेव वर्णनां

஬ாந்஧வோ நृபतிர்யதः இதி । ஸ்வமர்தூணமன்றகமிதி சா஧ர்ம-
விவாஹோடாவிஷயம् । ஬ிவாஹோடா து மன்றவைகு குர்யாத், யஜேஷு
மன்றவக்ரம் பத்தி குர்யாத்தாவிஷயி । ததைஷ்வைதைகே ஸா ஹி மன்றாஹா
஧ர்மஸ்ஸ்கृதா இதி ஸ்மரணாத् ।

ஆகையால்தான், ஆஸ்ராதி விவாஹத்தால்
மணக்கப்பட்டவள் விஷயத்தில், விஷ்ணு புராணத்தில்,
பராசரர்:- புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன், அதுபோல்
ப்ராதாவின் ஸந்ததி, ஸபின்டனின் ஸந்ததி இவர்கள்
க்ரியைக்கு அர்ஹராகின்றனர். அவரெல்லோரு
மில்லாவிடில் ஸமாநேதக ஸந்ததி, மாத்ரு ஸபின்டர்கள்,
மாத்ரு குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் அதிகாரிகள்.
இருகுலத்திலுமொருவரு மில்லாவிடில் ஸ்த்ரீகள்
க்ரியையைச் செய்யவேண்டும். அவருமில்லாவிடில்
பந்துகளில்லாதவனின் பணத்தைக்கொண்டு அரசன்
செய்விக்கவேண்டும். மார்க்கண்டேயரும்:- எல்லோரு
மில்லாவிடில் ஸ்த்ரீகள் தன் பர்த்தாக்கஞ்சு மந்தர
மில்லாமல் செய்யவேண்டும். அவர்களுமில்லாவிடில்
அரசன் தன் குடும்பத்து விருப்பவரும் இறந்தவனுக்கு
ஸஜாதீயர்களுமான மனிதர்களைக் கொண்டு, தாஹம்
முதலிய ஸகலக்ரியைகளையும் நன்றாகச் செய்விக்க
வேண்டும். எல்லா வர்ணங்களுக்குமே அரசன் பந்து. 'தம்
பர்த்தாக்கஞ்சு மந்த்ரமில்லாமல் செய்யவேண்டும்'
என்றது அதர்ம விவாஹத்தால் மணக்கப்பட்டவளின்
விஷயம். ப்ராம்ஹாதி விவாஹத்தால் மணக்கப்
பட்டவளோ மந்த்ரத்துடனேயே செய்யவும்.
'யஜ்ஞங்களில் பத்ரீ மந்த்ரத்துடன் விதிப்படி கர்மத்தைச்
செய்யவேண்டும். மந்த்ரத்தால் ஸம்ஸ்காரமடைந்த
அவள், பர்த்தாவின் அபரக்ரியையிலும் மந்த்ரத்திற்கு
அர்ஹயாகிறாள்ளன்று ஸ்மர்துதியிருப்பதால்.

रजोमध्ये पतिमरणे सङ्ख्रहकारः - रजोमध्ये तु भार्या दैवात् भर्तुर्मृतिर्यदि । पुत्रहीनस्य कर्तव्यं न तया दहनादिकम् । अन्यैस्तदनुमत्या च न कार्यं प्रेतकर्म हि । तूष्णीं दग्धवा चतुर्थेऽहिं पुनः स्थानं विधाय च ॥ प्रेतकर्म तया कार्यं मथवा पञ्चमेऽहनि । रजोमध्ये तु यः कश्चिद्व्याशापरिमोहितः । कुर्याच्चेत् प्रेतकृत्यं तु कर्ता चैव प्रमीयते । अधोगतिं प्रयात्येव कुलहानिभवेदधुवम् इति । मरणदिने तूष्णीं दाहयित्वा चतुर्थे पञ्चमे वा तया पुनर्दहनं कार्यमित्यर्थः ।

रजेजा मत्यत्तिलं, पठ्यिणि मरणात्तिलं

रजः काल मत्यत्तिलं पठ्यिणि मरणमेन्पट्टालं, लाङ्करूरूरुकारारः- पारंस्येयिणि रजः काल मत्यत्तिलं तेवा त्रिनमायप्पं परत्ताविणि मरणमेन्पट्टालं, अवन्नं पुत्ररनीलं लातवणेकिलं पारंस्य तह्वनमं मुतवियतेत्तसं चेय्यक्कूटातु. अवन्नं अनुज्ञेनुयिणेलं पिऱ्ठुम् चेय्यक्कूटातु. मंगुति त्रिनत्तिलं मन्त्ररमिलं लामलं तह्वनमं चेय्तु; नानंकावतु नानीलं पारंस्य मरुपटि लंनानमं चेय्तु प्परेत्तकर्मतेत्तसं चेय्यलाम्. अलंकतु ज्ञन्तरावतु नानीलं चेय्यलाम्. वेऱु ऎव गुवतु पणत्ताशेयालं मयंकि प्परेत् क्षरुत्यतेत्तसं चेय्तालं अन्तकं कर्त्तरा मरीप्पाणि. नरकत्तेत् यटेवाणि. कुलत्तिन्ऱ्कु लूराणीवरुम्. निच्चयम्. मरण त्रिनत्तिलं मन्त्ररमिलं लामलं तवित्ततु नानंकावतु नानीलं, अलंकतु ज्ञन्तरावतु नानीलं, पारंस्ययिणेलं तह्वनमं चेय्यप्पटवेण्णुमेन्पतु बेपारुलं,

सङ्ख्रहान्तरे - प्राजापत्यं तीर्थकृच्छ्रं वारुणं च समाचरेत् । ब्राह्मणानां च वाक्येन गृहीत्वा तत्करात् कुशम् । विधिवद्वहनं कुर्यात् पिता भ्राताऽथवा परः इति । रजस्वलास्तानप्रकारेणोऽनुतोयेन स्वापयित्वा तद्वस्तात् कुशमादाय कुर्यादित्यर्थः ।

மற்றெனு ஸங்கரஹத்தில்:- ப்ராஜாபத்யம், தீர்த்தக்ருசர்ம், வாருணம் இவைகளைச் செய்யவும். ப்ராம்-ஹணர்களின் அனுஜ்ஞாயினை அவளின் கையிலிருந்து தர்ப்பையை க்ரஹி-த்து, பிதா அல்லது ப்ராதா, அன்யன் விதிப்படி தஹனம் செய்யவும். 'ரஜஸ்வலாஸ்நானப்ரகாரம் உத்தரதஜலத்தால் ஸ்நானம் செய்வித்து, அவள் கையிலிருந்து தர்ப்பத்தை க்ரஹி-த்துச் செய்யவேண்டுமென்பது பொருள்.

पुत्रादिदौहित्रान्तराभावे पद्म्याः पतिः कुर्यात् । तथा च
कात्यायनः – तेषामभावे तु पतिस्तदभावे सपिण्डकाः । अपुत्रायाः
पतिर्दिघात् सपुत्राया न तु क्वचित् । सद्ग्रहे – भार्यापिण्डं पतिर्दिघात्
भर्तृभार्ये परस्परमिति ।

பெளத்ரன் முதல் தெளவிறித்ரன் வரையிலுள்ளவர்கள் இல்லாவிடில், பத்னிக்குப் பதி செய்யவேண்டும். அவ்விதமே, காத்யாயனர்:- அவர்களில்லாவிடில் பதி, அவனில்லாவிடில் ஸபின்டர்கள். புத்ரனில்லாதவருக்கே பதி செய்யவேண்டும். புத்ரனுடையவருக்குப் பதி ஒருகாலும் செய்யக்கூடாது. ஸங்கரஹுத்தில்:- பார்யைக்குப் பிண்டத்தைப் பதி கொடுக்கவேண்டும். பரத்தாவும் பார்யையும் பரஸ்பரம் கர்த்தாக்களாவர்.

तथा च स्मृतिरक्षे – अप्रजायामतीतायां भरुरेव तदिष्यते । पतिरेव क्रियां कुर्यादपुत्राया मृतखियाः इति । तत् - पत्नीधनम् । सपत्नीपुत्रसद्वावेऽपि भर्त्रैव दाहादिकं कार्यमित्यर्थः । तत्रैव — एकभर्तृकं पत्नीनामपुत्रा निधनं गता । अन्यस्याः पुत्रवत्त्वेऽपि कर्ता भर्तैव तत्र तु । पत्यभावे तु सापद्वयः पुत्र एव नियुज्यते । तदभावे तु तत्पुत्र आसन्नोऽन्यस्ततः परम् इति । एतच्च सपत्नीपुत्रापेक्षया भर्तृरम्यहितत्ववचनं स्त्रीधनग्रहणविषयम् । अन्यथा सपत्नीपुत्र एव कर्तृत्याहः ।

सम्मुक्तिरुत्तीर्थालिंगः - प्ररज्जयिल्लात पार्त्येय
इरन्ताल अवलीनं तनम् पर्त्ताविनुष्टेयते
एनप्पटुकिरतु. पुत्रनील्लामल इरन्त लस्तर्ककुप्पत्तिये
कर्त्तव्ययेष्च चेष्यवेण्टुम्. इरन्तवलीनं
लपत्तिककुप्प उत्रनीरुन्तालुम् पर्त्तावेव ताहम
मुतवियवेकलास्च चेष्यवेण्टुमेनस्च शोल्लप्प
पट्टुलातु. संक्षरहुत्तिलेयेः - “ऋवनुक्तुप्प
पत्तिकलान पल लस्तर्कगुल उत्रनील्लात ॒ ऋरुत्ति
इरन्ताल, मर्त्तेरुत्तिककुप्प उत्रनीरुन्तालुम्
पर्त्तावेव कर्त्तवाक आवान्. पर्त्ता इल्लाविधिल
लपत्तिपुत्रनं कर्त्तवा. अवलील्लाविधिल, अवनुष्टेय
पुत्रनं. अवलील्लाविधिल लम्पपन्तु कर्त्तवा” इव्वितम्
लपत्तिपुत्रनेविटप्प पर्त्तवुक्तु प्ररातम्यम
शोल्लियतु, इरन्तवलीनं तनत्तेत अष्टवत्तेतप्प
पर्त्तव्यतु. इल्लाविधिल लपत्तिपुत्रने कर्त्तवा
एनकिंचन्नर.

धनग्रहणविषये मनुराह - ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु
यद्दनम् । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते इति ।
याज्ञवल्क्योऽपि - अप्रजस्त्रीधनं भर्तुर्ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वपि । दुहितूणां
प्रसूता चेच्छेषु पितृगामि तत् इति ।

तनत्तेत अष्टव्यम् विषयत्तिल शोल्लुकिरुर्मनु
- प्रराम्भहम्, तत्वम्, आरूपम्, कान्तर्ववम्, प्रराज्ञापत्यम्
एन्नर विवाहून्कगुलेनान्नरुल कर्त्तव्यिक्कप्पट्ट पत्तिं
प्ररज्जयिल्लामल मरीत्ताल अवगुष्टेय तनम्
पर्त्तावेये चेरन्तत्ताकुम्. याङ्गुवल्क्यगुमः-
प्रराम्भहम् मुतविय नान्नकु विवाहून्कगुल
कर्त्तव्यिक्कप्पट्ट पत्तिं प्ररज्जयिल्लामल इरन्ताल
अवगुष्टेय तनम् पर्त्ताविनुष्टेयते. बेण्णेण्युष्टेयवलागुल बेण्णेनुष्टेयतु. मर्त्त
विवाहून्कगुल विषयत्तिल अवगुष्टेय तनम् पितृवेष्च
चेरन्तत्तु.

आसुरादिषु धनग्रहणाभावे तु सपत्नीपुत्रस्य प्राथम्यमाह,
कात्यायनः – विदध्यादौरसक्षेत्र्यो जनन्या और्ध्वदैहिकम् ।
तदभावे सपत्नीजः क्षेत्रजाधास्तथा मताः । तेषामभावे तु पति
स्तदभावे सपिण्डकाः इति । औरसक्षेत्र्यः स्वीयसन्तानः ।
स्मृत्यन्तरेऽपि – अपुत्रायाः सपत्नीजः क्षेत्रजाधाः पतिस्तथा ।
पूर्वभावे परः कुर्यात् विधिवत् पैतृमेधिकम् इति । मनुरपि –
बह्वीनामेकपत्नीनामेका चेत् पुत्रिणी भवेत् । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण
प्राह पुत्रवतीर्मनुः इति । बृहस्पतिश्च – बह्वीनामेकपत्नीनामेक
एष विधिः स्मृतः । एका चेत् पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु
सः इति ।

ஆஸ்ராதிவிவாஹங்களில் தனக்குறைணமில்லாவிடில், ஸபத்னீபுத்ரனுக்கு முதன்மையைச் சொல்லுகிறார், காத்யாயனர்:- மாதாவுக்கு, ஒளரல் புத்ரன் உத்தரக்ரியையைச் செய்யவேண்டும். அவனில்லாவிடில் ஸபத்னீபுத்ரன் செய்யவும். அவனில்லாவிடில் கோஷ்த்ரஜன் முதலியவர் கர்த்தாக்கள். அவர்களில்லாவிடில் பதி கர்த்தா. அவனில்லாவிடில் ஸபிண்டர்கள் கர்த்தாக்கள். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:- புத்ரனில்லாதவருக்கு ஸபத்னீபுத்ரன் கர்த்தா, பிறகு கோஷ்த்ரஜன் முதலியவர், பிறகு பதி. முந்தியவனில்லாவிடில் பிந்தியவன் கர்த்தா. மனு:- ஒருவனுக்குப் பத்னிகளான அநேகருள், ஒருத்திக்குப்புத்ரனிருந்தால், அவர்கள் எல்லோரையும் புத்ரவதிகளாகச் சொன்னார் மனு. ப்ரஹஸ்பதி யும்:- ஒருவனுக்குப் பத்னிகளான பலருக்கும் இது ஒரே விதி சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவர்களுள் ஒருத்திக்குப் புத்ரனிருந்தால் அவனே மற்ற எல்லோருக்கும் கர்த்தாவாக ஆகவேண்டும்.

गौतमोऽपि – पितृपद्यः सर्वा मातरः इति । केचिदाहुः – अन्यस्याः पुत्रवन्त्वेषि कर्ता भर्तैव तत्र तु इत्यादिवचन-मसर्वर्णस्त्रीविषयम्, विदध्यादौरसक्षेत्र्यः इत्यादिवचनं सपत्नी-पुत्रस्य प्राथम्यप्रतिपादकं सर्वर्णस्त्रीविषयम् इति । अन्ये तु अत्र प्रमाणाभावात् योऽशहर इति बचनेनांशग्रहणग्रहणप्रयुक्ता व्यवस्था युक्तेत्याहुः । अत्र केचित् पौत्रदौहित्राद्यपेक्षया सपत्नीपुत्रस्य प्राथम्यमाहुः । अपरे तु अपुत्रायाः सपत्नीजः इत्यादेः स्वसन्तानाभावविषयत्वात् योऽशहरः स पिण्डादी इति स्मरणादंशहरेषु पौत्रादिषु सत्सुदं कथं सापद्यस्य प्राथम्यमिति वदन्तस्तत्र क्षमन्ते ।

केळात्मरुमः पिताविऩं पत्तिकालं एव लोकारुमं माताक्कालं. इन्कु चिलर्म इव वितमं चेषाल्लुकिन्ऱनरः- 'मर्गेरुरुत्तिक्कुप्प पिण्णलायिरुन्तालुमं पर्त्ततावेव कर्त्तता ऎन्पतु मुत्तविय वचनमं असवर्णस्तर्म विषयम्. ऒलारसनील्लावीटिलं लपत्तिं पुत्ररन्त कर्त्तता ऎन्पतु मुत्तविय वचनमं लवर्णस्तर्म विषयम्' ऎन्ऱ. मर्गरवरोवेनीलं, "इव वितमं चेषाल्लवतिलं प्ररमाणमिल्लात्ततालं 'येऋम्चल्लरः' ऎन्ऱ वचनप्पटि, तन्तत्त अटेवतु, अटेयामलिरुप्पतु इवेकालेपं पर्न्त्रियतु व्यवस्तेत" ऎन्किन्ऱनर. (पन्तत्त अटेन्तवेने कर्त्तता ऎन्पताम) इतिलं चिलर्म, लेलत्तरन्त तेलाहीत्तरन्त इवर्कलावीट लपत्तिं पुत्रनुक्कु मुत्तन्ममयेष्च चेषाल्लुकिन्ऱनर. मर्गरवर 'अपुत्रायासं लपत्तिंः' ऎन्पतु मुत्तविय वचनंकालं तन्तु लेन्ततानमिल्लात विषयत्तेतपं पर्न्त्रियतालं 'तन्तत्त यटेन्तवेन्त पिण्टत्तेतकं केकाटुक्कवेण्टुम्' ऎन्ऱ स्मरुत्तियिरुप्पतालं तन्तत्त यटेयम् लेलत्तरात्तिकालं इरुक्कुम्पेऊतु, लपत्तिं पुत्रनुक्कु लप्पटि मुत्तन्मम उन्नु ऎन्ऱ चेषाल्लुकिन्ऱ वर्कलाय अते ओप्पुवतिलंले.

तदुक्तं स्मृत्यन्तरे – सपद्व्याः पुत्रवत्तेऽपि ह्यपुत्रायाः क्रियां
पतिः । दौहित्रपत्यभावे तु सपत्नीपुत्र इष्यते इति । धनग्राहिणोः
पतिदौहित्रयोरभावे सपत्नीपुत्रः कर्तैत्यर्थः । एतच्च विभक्त-
विषयम् । अविभागे तु दौहित्रापेक्षया सपत्नीपुत्र एव प्रथमः ।
पुत्रादेः पत्यन्तस्याभावे दुहिता कर्त्री । अत्र शङ्खः – पुत्राभावे तु
कुर्यातां भर्तृभार्ये परस्परम् । अपुत्रस्य तु या पुत्री सैव पिण्डप्रदा
भवेत् इति ।

அது சொல்லப்பட்டது, மற்றொரு ஸ்மிருதியில் :-
'ஸபத்னீக்குப் புத்ரனிருந்தாலும், புத்ரனில்லாதவருக்கு
க்கிளையையப் பதியே செய்யவேண்டும். தெளவுறித்ரன், பதி
ஒருவருமில்லாவிடில் ஸபத்னீ புத்ரனே கர்த்தாவெனப்
படுகிறுன்' என்று. தனஹாரிகளான பதி, தெளவுறித்ரன்
இவர்களில்லாவில் ஸபத்னீ புத்ரன் கர்த்தா என்பது
பொருள். இதுவும் விபக்தனின் விஷயம்.
விபாகமில்லாவிடில், தெளவுறித்ராதிகளாவிட ஸபத்னீ
புத்ரனே முந்தியவன். புத்ரன் முதல் பதி வரையுள்ளவர்
இல்லாவிடில், பெண் கர்த்ரீ, இதில், சங்கர்:-
புத்ரனில்லாவிடில், பர்த்தாவுக்குப் பார்ஷையும்,
பார்ஷைக்குப் பர்த்தாவும் செய்யவேண்டும்.
அபுத்ரனுக்குப் புத்ரியிருந்தால், அவளே பிண்டத்தைக்
கொடுப்பவளாக வேண்டும்.

भर्त्रभावे दुहिता मातुः कुर्यात्, पद्व्यभावे पितुश्चेत्यर्थः ।
पितृधनभाक्त्वं च तस्याः स्मर्यते देवलेन – अपुत्रकस्य स्वं कन्या
धर्मजा पुत्रवद्वरेत् इति । कन्या - जडा अनूडा च । स्मृत्यन्तरेऽपि –
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां
कथमन्यो धनं हरेत् इति । अत्र केचित् – पुत्रः कुर्यात् पितुः श्राद्धं
पत्नी च तदसन्निधौ । धनहार्यथ दौहित्रस्ततो भ्राता च तत्सुतः इति
स्मरणात् पत्नी दुहितरश्वैव पितरौ भ्रातरस्तथा इति धनग्रहणे

क्रमस्मरणाच्च पद्म्या दुहितुश्च दौहित्रात् पूर्वभावित्वमाहुः । पौत्रा
दौहित्रका मता इति विष्णुस्मरणात् शिष्टाचाराच्च पद्मीदुहित्र पेक्षया
दौहित्रस्यैव प्राथम्यमपरे बदन्ति ।

परंत्ता इल्लावीष्टिलं बेण्णं मातावुक्तुक्तु
सेय्यवेण्णुम्. पत्नीं इल्लावीष्टिलं पीतावुक्तुक्तु
सेय्यवेण्णुम् एन्पतु बेपारुन्. पितृं तन्तत्त
अट्टयुम् अतिकारमुम् अवरुक्तुक्तु सेवाल्लप
पट्टुलालु, तेवलराल्ल 'पुत्ररनील्लातवनीन् तन्तत्त
तर्मज्जयानकन्यय पुत्ररनेप्पेपोलं अट्टयवेण्णुम्
एन्ऱु. कन्यय = बेण्ण-विवाहमाक्षियनुम्,
आकातवनुम्. मर्त्तिरुरु लम्गुतीयिलः तन्नेनेप्पेपोलं
पुत्ररन्. पुत्ररनुक्तुक्तु सममानवन् बेण्ण. आत्मावाना
बेण्ण इरुक्तुक्तु बेपामुतु पिरन् एप्पटित् तन्तत्त
अट्टयलाम्? इन्कुक्तु किलरः- “ पीतावुक्तुक्तु करीययय
पुत्ररन् सेय्यवेण्णुम्. अवनील्लावीष्टिलं पत्नीं, पिरु
तन्हारीयान तेलाहीत्ररन्, पिरु प्राता, पिरु प्रातरु
पुत्ररन्” एन्ऱु लम्गुतीयालुम्, “ पत्नीं, बेण्णकन्,
मातापीताक्कन्, प्राताक्कन्” एन्ऱु तन्तत्तयतेवतिलं
करमम् सेवाल्लप्पट्टिरुप्पत्तालुम्, पत्नीक्तुक्तु
बेण्णनुक्तुक्तु तेलाहीत्ररनेक करट्टिलुम्, मुन्पु
इरुप्पेपसं सेवाल्लुकिन्नरनर. मर्त्तवरोवेवनीलं
‘तेलाहीत्ररक्कन् बेण्णतररक्कलाक मत्तिक्कप्पट्टिकिन्नरनर’
एन्ऱुविष्णु वसनमिरुप्पत्तालुम्, किष्टाचारत्तालुम्,
पत्नीं, बेण्ण इवर्कला वीटत् तेलाहीत्रनुक्तेके
मुत्तन्मेयसं सेवाल्लुकिन्नरनर.

दुहितुभावे भ्रात्रादिः कर्ता । भ्रातुः सहोदरो भ्राता
कुर्याद्दाहादि तत्सुतः । ततस्त्वसोदरो भ्राता तदभावे तु तत्सुतः
इति स्मरणात् । स्मृत्यन्तरेऽपि – पत्नी भ्राता च तज्ज्ञ पिता माता
सुषा तथा । भगिनी भागिनेयश्च सपिष्ठः सोदकस्तथा । असनिधाने
पूर्वेषा मुत्तरे पिष्ठदाः स्मृताः इति । विष्णुपुराणेऽपि – पुत्रो भ्राता

च तत्पुत्रः पत्नी माता तथा पिता । विज्ञभावेऽपि शिष्यश्च
कुर्वारन्बौध्वदैहिकम् इति ।

‘பெண் இல்லாவிடில், ப்ராதா முதலியவன் கர்த்தா.
 ‘ப்ராதாவுக்கு ஸஹோதர ப்ராதா தாஹம் முதலியதைச்
 செய்யவும். பிறகு அவனின் புத்ரன், பிறகு பின்னேதர
 ப்ராதா, அவனில்லாவிடில் அவனது புத்ரன்’ என்று
 ஸ்ம்ருதியிருப்பதால். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- பத்னி,
 ப்ராதா, ப்ராத்ருபுத்ரன், பிதா மாதா, நாட்டுப்பெண்,
 பகினி, பாகிநேயன், ஸபிண்டன், ஸமாநேதகன் என்ற
 இவர்களுள் முந்தியவர் இல்லாவிடில் பிந்தியவர்
 க்ரியாதிகாரிகள்.விஷ்ணு புராணத்திலும்:- புத்ரன், ப்ராதா,
 ப்ராத்ருபுத்ரன், பத்னி, மாதா, பிதா, சிஷ்யன் இவர்கள்
 பணமில்லாவிடினும் அபரக்கியையைச் செய்யவேண்டும்.

यत्तु मनुवचनम् — भ्रातृणमेकजातानामेकश्चेत् पुत्रवान्
भवेत् । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् इति, तत् भ्रात्रपेक्ष्या
भ्रातृपुत्रस्य नाभ्यर्हितत्वप्रतिपादनपरम्, किन्तु भ्रातृपुत्रपरिग्रह-
संभवे अन्यं न परिगृह्णीयादित्येवं परमिति विज्ञानेश्वरादिभि-
व्याख्यातम् ॥ अत्र केचिदाहुः — अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी
दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिः इति
कात्यायनस्मरणात्, पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा इति
धनग्रहणे क्रमस्मरणाच्च पित्रोः प्राथम्यं भ्रात्रादेस्तु ततो विप्रकर्ष
इति ।

ஆனால் : - “ஸஹோதரர்களான ப்ராதாக்களுள் ஒருவன் புத்ரனுடையவருகில், அந்தப் புத்ரனால் எல்லா ப்ராதாக்களும் புத்ரனுடையவர்கள் என்றார் மனு” என்ற மனுவசனம் உள்ளதே எனில், அந்த வசனம், ப்ராதாவைவிட ப்ராத்ருபுத்ரன் முந்தியவன் என்று சொல்வதில் தாத்பர்யமுள்ளதல்ல. ஆனால், ‘ப்ராதாவின் புத்ரனை ஸ்வீகாரம் செய்து கொள்ளும்படியிருந்தால்,

मन्त्रवणेन षष्ठीकारीकक्कूटात् एन्पति लं तात्पर्यमुल्लात् एन्ऱु विज्ञुन्नानेच्चवरर मुत्तवियवर्कलालं व्याक्कियानम् चेष्यप्पट्टुलालात्. इन्कु शिलर इव्वितम् चेऽल्लुकिन्ऱनरः:- ‘अपुत्तरनुक्कु, नर्त्तुलत्तिलुत्त पत्तनै, बेण्कलै इवर्कलील्लाविष्टिलं पिता, माता, प्रराता, प्ररात्तरुपुत्तररकलै एन्ऱु कात्यायनवचनत्तालुम्, ‘पत्तनै, बेण्कलै, माता प्रिता कक्कूल, प्रराताक्कूलै’ एन्ऱु तनत्तत्त अटेवति लं किरमम् चेऽल्लप्पट्टिरुप्पत्तालुम्, माता प्रिता कक्कूलुक्कु मुत्तन्मयुम्, प्रराता मुत्तवियवर्क्कु अवर्कलै विट्ट तुरत्तन्मयुम् एन्ऱु

अन्ये तु — पत्ती भ्राता च तत्पुत्रः पिता माता इति पूर्वोक्त वचननिचयबलात् भ्रात्रादेः प्राथम्यमिति वदन्ति । यत्तु बोधायनवचनम् — न च माता न च पिता कुर्यात् पुत्रस्य पैतृकम् । नाग्रजश्च तथा भ्राता भ्रातृणां च कनीयसाम् इति, यदपि कात्यायनवचनम् — पित्रा श्राद्धं न कर्तव्यं पुत्राणां च कथञ्चन । भ्रात्राऽग्रजेन कर्तव्यं न भ्रातृणां यवीयसाम् इति, यदपि स्मृत्यन्तरम् — ‘न पुत्रस्य पिता कुर्यान्नानुजस्य तथाऽग्रजः इति, तत्सर्व मुख्याधिकारिपुत्रकनिष्ठभ्रात्रादिसञ्चावविषयं, स्लेहविहीनविषयं वा । तथा देवलबोधायनौ — संस्कार्यश्च पिता पुत्रैभ्रातिरश्च कनीयसा ॥ मातुलस्याप्यपुत्रस्य स्वसीया अपि वा मताः । न पुत्रस्य पिता कुर्यान्नानुजस्य तथाऽग्रजः । यदि स्लेहेन कुर्यातां सपिण्डीकरणं विना इति ।

मन्त्रवरोदेवणीलं, ‘पत्तनै, प्रराता, प्ररात्तरुपुत्तरनै, प्रिता, माता’ एन्ऱु मुन्न चेऽल्लविय वचनंकलीनं पलत्ततालं प्रराता मुत्तवियवर्क्कु मुत्तन्मयेन्किन्ऱनरः. आलुलं, पोतायनर चेऽल्लविय ‘पुत्तरनुक्कु माता, प्रिता इवर्कलै अपरक्कीयययेच्च चेष्यक्कूटात्. तमेयं तमपीक्कुक्कुम् चेष्यक्कूटात्’ एन्ऱ वचनमुम्,

காத்யாயனர் சொல்லிய “பிதா புத்ரனுக்கு ச்ராத்தத்தை எவ்விதத்திலும் செய்யக்கூடாது. தமையன் தம்பிக்குச் செய்யக்கூடாது” என்ற வசனமும், மற்றொரு ஸ்மிருதியில் உள்ள “புத்ரனுக்குப் பிதா செய்யக்கூடாது. தமயன் தம்பிக்குச் செய்யக்கூடாது” என்ற வசனமும் உள்ளதே எனில், அவை எல்லாம், முக்யாதிகாரிகளான புத்ரன் கனிஷ்ட ப்ராதா முதலியவர் இருக்கும் விஷயத்தைப் பற்றியது, அல்லது ஸ்நேஹமில்லாதவனின் விஷயத்தைப்பற்றியதாம். அவ்விதமே, தேவைரும், போதாயனரும்:- புத்ரர்கள் பிதாவை ஸம்ஸ்கரிக்க வேண்டும். தம்பி, தமயனை ஸம்ஸ்கரிக்க வேண்டும். புத்ரனில்லாத அம்மானை மருமான்கள் ஸம்ஸ்கரித்தாலும் ஸம்ஸ்கரிக்கலாம். புத்ரனுக்குப் பிதாவும், தம்பிக்குத் தமயனும் செய்யக்கூடாது. ஸ்நேகத்தால் இருவரும் செய்தால், ஸபிண்மைகரணம் தவிர மற்றதைச் செய்யலாம்.

கஞ்சிதாமாவே தத்பி கார்யமித்யாஹ ஸங்காரः —
அன்யாமாவே பிதா மாதா ஜ்யேஷ்டோ வாடபி ஸபிண்஡னம् ।
குர்யஜிவந்தமாக்மய பிண்஡மாங் நியோஜயேத் இதி । ஆக்மய =
அதிக்மயேत்ர्थः । ஸ்மृத்யந்தரேऽபி — ஸர்வமாவே பிதா வாடபி குர்யத்
஭்ராதாத்வாதாத்யாஜः । ஗யாயாஂ ச விஶேஷேண ஜ்யாயாநபி ஸமாசரேத் இதி ।
அகரणே பித்யவாயஶ ஸ்மृதிஸாரஸமுஞ்சயே ஦ர்ஶிதः : — உத்ஸங்஬ாந்஧வं ப்ரேத
பிதா ஭்ராதா தத்தாதாத்யாஜः । ஜனநீ வாடபி ஸஂஸ்குர்யாந்மஹதேநோऽந்யதா
஭வேத் இதி । பித்யாத்யாஜः : ஸமவாயே பித்யாஸங்ந்த்வாத் பிதைவ குர்யத்,
தத்தமாவே ஜ்யேஷ்ட இதி க்ரமோऽபி லக்ஷ்யதே । கனிஷ்டாதஸமவாயே அனந்தர
எவ கனிஷ்டோ ஜ்யேஷ்டஸ்ய குர்யத், ந வ்யவஹிதோனுஜः, அனந்தரः
ஸபிண்஡ோ யः க்ரமேண தனயஸ்தயोः இதி மஞ்சாதிஸ்மரணாத् ।

வேறு கர்த்தா இல்லாவிடில் ஸபிண்மைகரணத்தையும்
செய்யவேண்டுமென்கிறோர் ஸங்க்ரஹகாரர்:-
அன்யனில்லாவிடில், பிதா, மாதா, ஜ்யேஷ்டன் யாராவது

सपिण्टनं तत्त्वात् चेष्यवुम्. जीवित्तिरुप्पवणे अतिक्रमित्तु, पिण्टयाकत्तत्वात् चेरक्कवुम्. मर्त्तिरुप्प संमरुत्तियिलुम् :- ओरुवरुमिल्लावीटिल्, पिता, अल्लतु तमयन्, सम्लकरीक्कवुम्. काययिलुम्, विचेष्माकत्त तमयनुम् तम्पिक्कुस् चेष्यलाम्. चेष्यावीटिल् तेवाष्म, संमरुत्तिसारलमुक्षयत्तील् चेऽलप्प पट्टु० ऊतु. “मुक्षयकर्त्ता इल्लातवण्य इरन्तवणेप्प पिता, ज्येष्ठपराता, माता, यारावतु सम्लकरीक्कवेण्टुम्. इल्लावीटिल् अतिक पापम् सम्पविक्कुम्” ऎन्ऱु. पितावुम्, तमयनुम् इरुन्ताल्, सामीप्यमिरुप्पताल् पितावे चेष्यवेण्टुम्, पिता इल्लावीटिल् ज्येष्ठतन् ऎन्ऱु करममुम् काणप्पटुकिरतु. कनिष्ठपराताक्कल् अनेकर इरुन्ताल् अट्टत कनिष्ठेने ज्येष्ठतनुक्कुस् चेष्यवेण्टुम्. मर्त्तवणे चेष्यक्कृतातु. ‘अट्टत कनिष्ठतन् एव नेत्रे अवेने ज्येष्ठतनुक्कुक्कर्त्ता’ ऎन्ऱु मन्वाति वचनमिरुप्पताल्.

जीवति पितरि भ्रात्रादेरन्येन कारयित्वमित्युक्तं स्मृतिरत्ते — प्रेतश्राद्धं सपिण्डन्तं प्रत्यबदं श्राद्धमेव च । भ्रात्रादेः कार्यमन्येन स्वपिता यदि जीवति इति । एवं भ्रातृतत्पुत्रयोरभावे पिता, माता, मातापित्रोरभावे सुषा, तदभावे स्वसा अनुजाऽग्रजावा, तदभावे तत्सुतः, सोदरस्वसभावे असोदरस्वसा, ततस्तसुतः, ततः सपिण्डः, ततः समानोदकः, ततो मातृसपिण्डः, मातृसमानोदकः, तदभावे सगोत्रः, ततः शिष्टः, तदभावे क्रत्विक्, तत आचार्यः तदभावे जामाता, तदभावे सखेति क्रमः ।

पिता जीवित्तिरुन्ताल् पराता मुत्तवियवारक्कु, अन्यणेनक् लेकाण्टु चेष्यवीक्कवेण्टुम् ऎन्ऱु चेऽलप्पपट्टु० ऊतु, संमरुत्ति रत्तनत्तीलः- सपिण्णाकरणम् मुष्टियुम् वरेरयिलु० ऊतु प्रेरत

ச்ராத்தத்தையும், ப்ரத்யாப்திக ச்ராத்தத்தையும் ப்ராதா முதலியவர்க்கு, அன்யனைக்கொண்டு செய்விக்க வேண்டும், தன் பிதா ஜீவிதத்திருந்தால் என்று, இவ்விதம், ப்ராதாவும், ப்ராத்ரு புத்ரனு மில்லாவிடில் பிதா, மாதா, மாதாபிதாக்களில்லாவிடில் நாட்டுபெண், அவளில்லாவிடில் பகினீ, தமக்கையாவது தங்கையாவது, அவளில்லாவிடில் அவளின் புத்ரன், ஸஹாதரபகினீ இல்லாவிடில் பின்னேதரபகினீ, பிறகு அவளின் பிள்ளை, பிறகு ஸபிண்டன், பிறகு ஸமாநேதகன், பிறகு மாத்ருஸபிண்டன், மாத்ருஸமாநேதகன், அவனில்லாவிடில் ருத்விக், பிறகு ஆசார்யன், அவனில்லாவிடில் மாப்பிள்ளை, அவனில்லாவிடில் ஸகா என்பது க்ரமம்.

தथா ச ஸ்மृதிஸारே — பத்நி஭்ராதா ச தஜஞ் பிதா மாதா ஸுஷா த஥ா । ஭ரிநி ஭ாగிநேயஶ ஸபிண்டः ஸோதகஸ்த஥ா । அஸநி஧ானே பூர்வாமுத்தரே பிண்஡ாः ஸ்மृதாः இதி । காத்யாயநः :— அனுஜா வாடங்ரஜா வாடபி ஭ாதுः குர்ச்ச ஸ்திரயாம् । தத்ஸ்த்வஸோதரா த஛்த् க்ரமேண தனயஸ்தயोः இதி । சந்திரகாயாம् – புதிராமாவே ஸபிண்டாஸ்து தद்஭ாவே து ஸோதகாः । மாதுः ஸபிண்டா யே வா ஸ்யுரே வா மாதுஶ ஸோதகாः । குருரேந் வி஧ிஂ ஸம்ய஗புத்ரஸ்ய ஸுதாः ஸ்மृதாः இதி । மாதுः ஸபிண்டாः மாதாமஹத்ஸுதா ஦ிபங்காபுருஷபர்யந்தாः । பञ்சபுருஷாடா஧்வீ திபுருஷபர்யந்தா மாதுஸமாநோதகாः ।

ஸ்மிருதிஸாரத்தில்:- பத்னீ, ப்ராதா, ப்ராத்ரு புத்ரன், பிதா, மாதா, நாட்டுப் பெண், பகினீ, பாகிநேயன், ஸபிண்டன், ஸமாநோதகன். இவர்களுள் முந்தியவன் ஸன்னிதியில்லாவிடில் பிந்தியவர் பிண்டத்தைக் கொடுப்பவர்கள் ஆகவேண்டும். காத்யாயனர்:- தங்கையாயினும் தமக்கையாயினும் ப்ராதாவுக்கு ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். பிறகு பின்னோதரபகினீ,

पिऱ्कु अवर्कणीं पुत्रन्। सन्त्तरीषेषयिलः-
पुत्रणील्लावीषिलं लपिण्टर्कणं, अवर्कणील्लावीषिलं
समागेनेतकर्कणं, मात्तरु लपिण्टर्कणं, मात्तरु
समागेनेतकर्कणं, पुत्रणील्लातवनुक्तु अपर
कर्णिययेयसं चेष्यवुम्। मात्तरु लपिण्टर्कणं
एन्पवर्कणं, मात्तामूरुन् अवन् पीलंणा मुत्तलाक ज्ञन्तु
तत्त्वलमुरेव वरेयिलुणावर्कणं। ज्ञन्तु तत्त्वलमुरेक्तु
मेलं मुन्नरु तत्त्वलमुरेव वरेयिलुणावर्कणं मात्तरु
समागेनेतकर्कणाम्।

पराश्रः — अभावे तु सपिष्ठानां समानोदकसन्ततिः ।
मातृपक्षस्य पिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा इति । बृहस्पतिः -
प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः श्राव्यं देयं प्रयत्नतः । ज्ञातिबन्धुसुहच्छष्टैः
ऋत्विभृत्यपुरोहितैः इति । कात्यायनोऽपि — पुत्रः शिष्योऽथवा
पत्नी पिता माताऽथवा गुरुः । स्त्रीहारी धनहारी च कुर्युः
पिण्डोदकक्रियाम् इति । स्त्रीहारी - रागतः कलन्त्रहारी ।

प्राचरारां :- लपिण्टर्कणील्लावीषिलं समागेनेतकर्णिं
सन्त्तति, अतिल्लावीषिलं मात्तरु लपिण्टर्कणं,
अवरील्लावीषिलं मात्तरु समागेनेतकर्कणं.
पंगुहृण्णलंपत्तिः- इरन्त पितावक्तु, पुत्ररकणं चरात्ततम्
चेष्यवेण्णुम्. ज्ञन्तु, पन्तु, लाहृरुत, चिष्यन्,
रुत्तवीक, पंगुत्यन्, पुरोहितन् इवर्कणावतु
चेष्यवेण्णुम्. कात्त्यायनरुमः- पुत्रन्, चिष्यन्,
अल्लतु पत्तन्, पिता, माता, अल्लतु तुरु,
संत्तरीहूरा॑, तनहूरा॑ इवर्कणं पिण्टेतो तकन्कणाक
केकाणुक्कवेण्णुम्. संत्तरीहूरा॑= आशेषयालं कणत्तरत्तेत
अपराहनीत्तवन्.

धनहारिणस्तु मनुना दर्शिताः - अनन्तरः सपिष्ठो यस्तस्य
तस्म धनं हरेत् । अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ।
सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः शुचयो
दान्तास्तथा धर्मो न हीयते । अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राजा नित्यमिति

ஸ்஥ितिः இதி । மார்க்ஷேயः - ஸख்யுருत்ஸங்கந்஧ோஶ ஸக்ஷாத்பி
ஶஶுரஸ்ய ச । ஜாமாதா ஸேஹதः குர்ய்஦ி஖ில் பைதூமே஧ிகம् ॥ ஸவ்஭ாவே
து நृபதிஃ கார்யேத்ஸ்ய ரிக்஥தः । தஜ்ஜாதீயைநை: ஸம்யங்஦ாஹாதா:
ஸக்ளா: கிரியா: இதி । வூஷ்ஶாதாதபோத்பி — மாதுலோ ஭ாगிநேயஸ்ய
ஸ்வஸ்தியோ மாதுலஸ்ய ச । ஶஶுரஸ்ய ஗ுரோஶை ஸக்யுமாதிமஹஸ்ய ச ।
எதேஷாஂ சைவ ஭ார்யாயா: ஸ்வஸுமாது: பித்தஸ்ஸு: । மூதௌ ஦ாஹாடிக்
கார்யமிதி வெடவி஦ாஂ ஸ்஥ிதிஃ இதி । ஸ்மृத்யந்தரேத்பி — மாது:
பித்ரோமாதுலஸ்ய மாதுலாந்யா மூதாஶபி ॥ ஦ௌஹித: பிரதம் கர்த்தா ஜாதிஃ
ஸ்யாத்தாதநந்தரம் । இதி ।

தனஹாரிகளையனு சொல்லுகிறோர்:- இறந்தவனுக்கு
ஸந்திலுதன் எவ்னே அவன் அவனின் தனத்தை
அடையவேண்டும். அதற்குமேல் ஸகுல்யன், ஆசார்யன்,
சிஷ்யனுவது. ஒருவருமில்லாவிடில், மூன்று
வேதங்களையறிந்தவரும், சுத்தரும், ஜிதேந்தரியருமான
ப்ராமஹணர்கள் தனபாகிகளாகலாம். அவ்விதமாகில்
தர்மம் குறையாது. ப்ராம்ஹணரின் த்ரவ்யத்தை அரசன்
எப்பொழுதும் அடையக்கூடாது என்பது நிர்ணயம்.
மார்க்கண்டேயர்:- பந்துக்களில்லாத மித்ரனுக்கு,
மித்ரனும், மாமனுக்கு ஜாமாதாவும் ஸகல
க்ரியையையும் செய்யவும். ஒருவருமில்லாவிடில், அரசன்,
அவனுடைய தனத்தைக்கொண்டு இறந்தவனின் ஸமான
ஜாதியர்களால் எல்லாவற் றையும் செய்விக்கவும்.
வ்ருத்தசாதாதுபரும்:- அம்மான் மருமானுக்கும், மருமான்
மாதுலனுக்கும், மாமனை, குரு, மித்ரன், மாதாமஹன்,
இவர்களின் பார்யைகள், மாத்ருபகினீ, பித்ருபகினீ
இவர்களின் மருதியிலும் தலைனம் முதலியதைச்
செய்யவேண்டும் என்பது நிர்ணயம். மற்றொரு
ஸ்மருதியிலும்:- மாதாமஹன், மாதாமஹீ, மாதுலன்,
மாதுலபதனீ, இவர்களின் மருதியில்தெளவித்ரன் முதலில்
கர்த்தா, ஜஞாதி பிறகு கர்த்தா.

विष्णुरपि — श्वश्रवादीनां तथा पिण्डं पत्नी दद्यात् सुसंयता
इति । धनहारित्वादिनिमित्ताभावेऽपि दाहादिके कृतेऽभ्युदय
इत्याह वृद्धशतातपः । प्रीत्या श्राद्धं तु कर्तव्यं सर्वेषां
वर्णलिङ्गिनाम् । एवं कुर्वन्निरः सम्यग्वहर्तीं श्रियमापुयात् इति ।
लिङ्गिनः । आश्रमिणः । ब्राह्मेऽपि — अनाथं ब्राह्मणं दग्धवा क्षत्रियं
बैश्यमेव वा । पितृमेधमहायज्ञफलं प्राप्नोति मानवः इति । एतच्च
सवर्णभिप्रायम्, अन्यथा दोषश्रवणात् ॥ तथा च मरीचिः ।
ब्राह्मणो ह्यसवर्णस्य यः कुर्यादौध्वदैहिकम् । तद्वर्णत्वमसौ याति इह
लोके परत्र च इति ।

वीक्ष्णुवुमः:- मामियारं मुत्तियवर्कंकु,
पुत्ररनुष्टेय पत्नीं नियममुष्टेयवलायं कंग्रुत्यमय
सेय्यवेण्णुम् । पणत्तेत अष्टेवतु मुत्तिय नियित्त
मिल्लावीष्टिणुम् तालूम् मुत्तियतेत्सेय्यतालं क्षेरेयस्स
उण्णेटेण्णिरुरं व्यग्रुत्तत्त्वात्तात्तपारः । पन्तुक्कलील्लात
एल्ला वर्णास्चरमिकण्णकंकुमं परीत्युटनं स्त्रात्तमं
सेय्यवेण्णुम् । इवंवित्तमेय्यमनीत्तनं अतिकमाण
सेम्पत्तेत अष्टेवाण् । **प्रराम्भृत्तिलुमः:-**
अनात्तण्णियवलं प्रराम्भृण्णनं, क्षुत्तरीयनं, वेवस्यनं
यारायिणुम्, अवणेत्त तत्त्वित्ततालं, प्रित्तरुमेत
महायज्ञंत्तिण्णनं पलत्तेत मनीत्तनं अष्टेवाण् । इतु
सेवर्णविष्यम्, मन्त्र विष्यत्तिलं तेऽवाष्मं केट्कप
प्रावत्तालं । अवंवित्तमेय, मर्चिः । एन्त प्रराम्भृण्णनं,
असेवर्णनुकंकु (क्षुत्तरीयनं मुत्तियवलनुकंकु) अपरक्तरीययेयसेय्यवाग्नेय अवण्ण इत्तवणीनं
वर्णत्तनंमये । इन्त ज्ञनंमत्तिलुम्, मरुज्ञनंमत्तिलुम्,
मरुज्ञनंमत्तिलुम् तेवाण् ।

पारस्करोऽपि — न ब्राह्मणे कर्तव्यं शूद्रस्य
त्वौध्वदैहिकम् । शूद्रेण वा ब्राह्मणस्य विना पारशवात् क्वचित् इति ।
ब्राह्मणे शूद्रायामुत्पादितः पारशवः । कालादर्शोऽपि —

ஸ்நேஹாடிப்ராदிகை: ஸ்வீர்ணலிங்஗ாஷ்வாதைக்ம் । கர்த்யங் நைவ விப்ரேண
ஶந்஦ஸ்யானேன தஸ்ய ச இதி । விப்ராதிநா ஶந்஦ாதேரித்யர்஥: ।

பாரஸ்கராரும்: ப்ராம் ஹணன் குத்ரனுக்கு
அபரக்ரியயையச் செய்யக்கூடாது. குத்ரனும்
ப்ராம் ஹணனுக்குச் செய்யக்கூடாது. பாரசவனைத்
தவிர்த்து. ப்ராம் ஹணனால் குத்ரஸ்தரீயினிடம் உண்டு
பண்ணப்பட்டவன் பாரசவன். காலாதார்சத்திலும்:-
ப்ராம் ஹணன் முதலிய வர்ணத்தார்கள் ஸ்நேஹத்தினால்
செய்தால் அந்த வர்ணாச்சரமிகளுக்கே அபரக்ரியயையச்
செய்யவேண்டும். ப்ராம் ஹணன் குத்ரனுக்கும், குத்ரன்
ப்ராம் ஹணனுக்கும் செய்யக்கூடாது. ப்ராம் ஹணன்
முதலியவர் குத்ரன் முதலியவர்க்கு என்பது பொருள்.

ஸபிண்டான் மध்யே கேषாஞ்சி஦ாஹா஘ாதிகாரனிஷே஧மாஹ வृஷ்மனு: -
- ளி஬ா஧ா நோடக் ஦த்ய: ஸ்தேநந்வாத்யா வி஧ர்மிண: । ர்஭ம்ர்த்துஹஶைவ
ஸுராப்யஶைவ யோஷித: । ந வித்தாரிண: குருஷுடக் பதிதா ந ச இதி ।
ளி஬: - ஸோ஧வீர: । ஆடிசஷ்டாத் குட்டாலகாதய: । ஸ்தேநா: -
பரஸ்வாபஹாரிண: । வித்தா: - ஸ்ஸ்காரஹிநா: । வி஧ர்மிண: -
ப்ரஞ்சுதஸ்வ஧ர்ம: । ர்஭த்துஹ: - ர்஭஧ாதிந்ய: । ர்஭த்துஹ: -
மர்த்துவிநாஶிந்ய: । உடக்கிரஹணமந்யேன ஦ாஹே குதேப்யுடக்காதான-
நிஷே஧ார்஥ம் । அதே ஦ாஹனிஷே஧: கைமுத்யஸிஜ்ஞ: । ஸ்வஸபிண்டமரணே
ளி஬ா஧ா ஦ாஹாடிக் ந குருரித்யர்஥: । வித்தாரிணஸ்து ஦ாஹனிஷே஧:
பித்ராடிவ்யதிரிக்தவிஷய: । தथா பித்ராபாதிதம஧ஸ்தாத் ।

ஸபிண்டார்களுள், சிலருக்குத் தாஹும் முதலியதில்
அதிகார நிலேஷ்தத்தைச் சொல்லுகிறார் வ்ருத்தமனு: நபும்ஸகன் முதலியவரும், ஸ்தேநர்கள்
ஸம்ஸ்காரமற்றவர், விதர்மிகள், கர்ப்பம், பர்த்தா
இவர்களுக்குத் த்ரோஹும் செய்தவர்களும், கட்குடிக்கும்
ஸ்தரீகளும், ப்ரம்ஹாசாரிகளும், பதிதர்களும் உதகதானம்

चेय्य अर्हराल्लर्ग. आति चप्तत्तालं कुण्ठाकोलाकाति कगुक्कु कर्हण्णम्. स्वेतनार्कालं परस्वत्तते अपहरीक्किन्नरवर्कालं. वितर्मिकालं-तालं तर्मत्तिनीन्नरुम् नमुवियवर्कालं. उत्तक सप्तत्ततेत्तच चेल्लियतु, अन्यालं तालूम् चेय्यतालूम् उत्तकतालं चेय्यक्कूटा तेन्पत्तर्कु. आकेयालं तालूम् चेय्यक्कूटातु एन्पतु, केमुत्यन्यायत्तालं लित्तित्तततु. तालतु लपिण्ठारीं मरणत्तिलं नपुम्लकालं मुत्तलियवर्कालं तवृणालं मुत्तलियतेत्तच चेय्यक्कूटातेन्पतु बेपारुलं. प्ररम्भासारीं तवृणत्तिकालास चेय्यक्कूटातेन्नरतु, अवनतु पिता मुत्तलियवरेत्त तविर्त्तवर्कालाप धर्नीयतु. अव्वितम् मुन्पु चेल्ललप्पत्तुलातु.

अत्रायं क्रमः - औरसपुत्रः, पौत्रः, तत्पुसन्ततिः, पुत्रिकापुत्रः, तत्सन्ततिः, दत्तः, तत्सन्तानः, धनहारी दौहित्रः, दौहित्रः, पत्नी, पतिः सपत्नीपुत्रः, दुहिता, भ्राता, तत्पुत्रः, असोदरभ्राता, तत्पुत्रः, पिता, माता, सुषा, पौत्री, दौहित्री, पौत्रस्य पत्नी, तत्पुत्री, दत्तस्य पत्नी, भगिनी, भागिनेयः, सपिण्डः, सोदकः, मातृसपिण्डः, तत्समानोदकः, सगोत्रः शिष्यः ऋत्विक्, भृत्यः, गुरुः, आचार्यः, सहाध्यायी, जामाता, सखा, स्त्रीहारी, धनहारी, राजा इति ।

इंकु इव्वितम् कर्मम्;- उलरसपुत्तरान्, पुत्तरान्, अवनुउट्टय पुरुषस्वन्तति, पुत्तरिकापुत्तरान्, अवनतु लन्तति, तत्तरान् (स्वैक्करुतान्) अवनतु लन्तति, तालवारी तेलाल्लित्तरान्, तेलाल्लित्तरान्, पत्तर्णी, पत्ति, लपत्तर्णीपुत्तरान्, लेपन्न, प्ररात्ता, प्ररात्तरुपुत्तरान्, पिण्डेनेत्तरप्ररात्ता, अवनतु पुत्तरान्, पिता, माता, नाट्टुप्पेपन्न, लेपलात्तरी, तेलाल्लित्तरी, लेपलात्तरानीन् पत्तर्णी, लेपलात्तरानीन् पुत्तरी, स्वैक्करुतानीन् पत्तर्णी, पक्कीनी, पाकीनेयान्, लपिण्ठान्, लमालेनेत्तरान्, मात्तरुलपिण्ठान्, मात्तरुलमालेनेत्तरान्, लकेकात्तरान्, चिष्यान्, गुत्तवीक्, प्रगुत्तयान्, गुरु, आसार्यान्,

ஸஹாத்யாயீ, ஜாமாதா, ஸகா, ஸ்த்ரீஹாரீ, தனஹாரீ, ராஜா என்று.

அறிநிர்ணய:

அதாறிநிர்ணய: । தत्र வृத்தமனுயாஜவல்க்யௌ — ஆஹிதாறிர்஥ாந்யாய் ஦ர்஘வ்யத்திலிருக்கிறது. அநாஹிதாறிர்கேன லௌகிகேநேரே ஜநா: இதி । ஏகென - ஔபாஸனேன । தथா திரிகாண்டி — அநாஹிதாறிர்ஸ்த்வேகேன ய: பூர்வ பதி஭ார்யயோ: இதி । வசிஷ்ட: — அநாஹிதாறிர்ய: பூர்வ பத்ரீभ्य: பிரமிதிஂ ஗த: । ஔபாஸனாஶிநா தஸ்ய ஸ்ங்கார: பைதூமேதிக: । பஞ்சாந்மூதஸ்ய குர்வன்த கேந்திருத்தபநாஶிநா । பஞ்சாந்மூதானா பத்ரீனாந் பதிவத்திலிஸ்ங்ரஹ: இதி ।

அக்னி நிர்ணயம்

இனி அக்னி நிர்ணயம் சொல்லப்படுகிறது. அதில், வ்ருத்தமனுவும், யாஜ்ஞவல்க்யரும்:- ஆஹிதாக்னியை மூன்று அக்னிகளால் சாஸ்த்ரப்படி தஹிக்கவேண்டும். அநாஹிதாக்னியை ஒளபாஸநாக்னியால் தஹிக்கவேண்டும். மற்றவர்களை வெளக்கிகாக்னியால் தஹிக்கவும். அவ்விதமே, தரிகாண்ட: பதி, பார்ஷை இவர்களுள் முந்தி இறந்த வரை ஒளபாஸஞக்னியால் தஹிக்கவும். வஸிஷ்டர்:- பத்ரீகளுக்கு முன் இறந்த அநாஹிதாக்னிக்கு, ஒளபாஸஞக்னியால் பைத்ருமேதிக ஸம்ல்காரம். பத்ரீகளுக்குப் பின் இறந்தவனுக்குச் சிலர் உத்தபநாக்னியால் செய்கின்றனர். பதிக்குப் பிறகு இறந்த பத்ரீகளுக்கும் பதிக்குப்போல் அக்னியை க்ரஹிக்கவும்.

யம: — அस்஥ிஸஸ்யநாத்வர்஗ம்ரு: பத்ரீ மூதா யதி । தஸ்மிந்நோவானலே ஦ாஹா யதி சாஸ்திர் ஶாம்யதி ॥ ஶாந்தேஸ்தூ புனரேவாஸ்யா: பூத்திவிச்த்யாடி காரயேத் இதி । ஸ்மூத்யந்தரே — பூர்வமேவ மூதா மாதா ஘டிகானந்தர் பிதா । ஗ூஹாஶி: பூர்வதோ ஗ஞ்சேஷபரோ

विधुरानलः इति । मातृमरणानन्तरं पितृमरण इत्यर्थः । जमदग्निरपि
- दीक्षितस्याहिताग्नेश दाहः स्वैस्त्रभिरग्निभिः । अनाहिताग्नेः
संस्कारः स्वेनौपासनबहिना । इतरेषां लौकिकेन दाह
उत्तपनाग्निना । चण्डालाग्निरमेध्याग्निः सूतकाग्निश्च कर्हिचित् ।
पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचितः । शूद्रविट्क्षत्रविप्राग्निः
श्रोत्रियस्य गृहानलः । पर्वताग्निररण्याग्निर्दारुनिर्मथनानलः ।
उपर्युपरिजः श्रेष्ठो लौकिकाग्निपरिग्रहे । ब्रतियत्योः कपालाग्निस्तु-
षाग्निबालिकन्ययोः । विधुरं विधवां चैव दहेदुत्पनाग्निना इति ।
यतिः - परमहंसव्यरिक्तः ।

यमां परंतता इरन्तु तव्हनमाकियपिन्,
अस्त्रिलंकारयनत्तिन्त्रिं कु मुन् पत्तेन्न इरन्तताल्, अन्त
अक्णीयिलेये अवलेत्त तव्हीक्कवुम्, अक्णी
अजेणयामविरुन्तताल्. अक्णी सान्तमाग्नेल्, इवगुक्कुत्त
तनीयाक्षं सितेत मुतवियतेत्तं चेय्यवुम्. मन्त्रिरुरु
स्लंगुत्तीयिलः:- माता मुतविल् इरन्तताल्. ओरु
नाम्मिकेक्कुप्प पिरकु पिता इरन्ततार्. ओलपालग्नेक्णी मुन्
पोक वेण्णुम्. वितुराक्णी पिन् पोकवेण्णुम्.
मात्तरु मरणत्तिन्त्रिं कुप्प पिरकु पित्तरुमरणमाग्नेल् एन्पतु
पेारुल्. ज्ञमत्तक्णीयुमः:- तीक्ष्णितनुक्कुम्,
आहृताक्णीक्कुम् अवलेतु मुन्नरु अक्णीक्णीला तव्हनम्
चेय्यप्पत्तवेण्णुम्. अन्नाहृताक्णीक्कु अवलेतु
ओलपालग्नेक्णीयाल् सम्लकारम्. मन्त्रवर्कग्नेक्कु
लेलकिमाल उत्तप्तग्नेक्णीयाल तव्हनम्,
चण्टालाक्णी, अस्त्रतताक्णी, लूलुतकाक्णी, पतिताक्णी,
सिताक्णी इवेकल्, सिष्टर्कल् कर्हिप्पत्तरु
अर्हमल्लातव. कुत्तरन्, वेवस्यन्, कृतरीयन्,
प्रराम्भलेणन् इवर्कलीन् अक्णी, क्षरोत्तरीयनीन्
कर्गुह्याक्णी, पर्वतताक्णी, अरण्याक्णी, कट्टेटयेकं
कट्टेन्तेत्तुत्त अक्णी इवेक्णुल केमुलातेत विट
मेलुलातु चरोष्टम्, लेलकिमाक्णीयप

பரிக்ரஹி க்கும் விஷயத்தில். ப்ரம்ஹசாரிக்கும், யதிக்கும் கபாலாக்னி. பாலனுக்கும், கன்யகைக்கும் துஷாக்னி. விதுரணயும், விதவையையும் உத்தபநாக்னியால் தஹிக்கவும். யதி-பரமஹம்ஸனைத் தவிர்த்தவன்.

ஸ்மृत்யन்தரே — கன்யாமனுபநிதாஂ ச அஸ்மாத்ஸ்வமிதி மந்திரः । லௌகிகேந ஦ஹேதாகுத்ஸெநாதாத்஗ிர்நா இதி । வृஷ்வஸிஷ்டः । துஷாத்஗ிர்நா ஦ஹேத கன்யா வ்ரிஹி஭ிர்வா யவேந வா । அத்வாத்தபநியேந காபாலேநாநலேந வா । யதிஂ ச வர்ணிந் சைவ ஦ஹேத் காபாலவத்திநா । அத்வாத்தபநியேந துஷேஷைவாபரே விடு: । ஦ர்஭ேஷ்டாங்கிற் ஸமாரோப்ய புநர்஦ர்஭ேஷு ஸ்திரிய । புநர்஦ர்த்தூயேஷு வத்திருத்தபந: ஸ்மृத: । க்பாலமங்கை நிக்ஷிப்ய தஸே சைவ துஷாஂ க்ஷிபேத् । கரீஷாஂ வா ஸமுஞ்சூதஸ்துஷே து துஷபாக: । யாவத் தஸகபாலேந கேவலேநாத்஗ிர்ஸம்஭வ: । தாவத்கபாலஸம்஭ूத: பாவக: பரிகிரிதிஃ: இதி ।

மற்றெருகு ஸ்ம்ருதியில் கன்யை, அனுபந்தன் இவர்களை, அஸ்மாத் தவம்' என்ற மந்த்ரத்தால், வெளக்கிகாக்னியாலாவது, உத்தபஞக்னியாலாவது தஹிக்கவும். வருத்தவளிஷ்டார்:- கன்யையை, துஷாக்னி, வரீஹ்யக்னி, யவாக்னி, உத்தபஞக்னி, கபாலாக்னி, இவைகளுள் ஒன்றினால் தஹிக்கவும். யதியையும், ப்ரம்ஹசாரியையும் கபாலாக்னியால், அல்லது உத்தபநாக்னியால் தஹிக்கவும். துஷாக்னியால் தான் என்று சிலர். தர்ப்பங்களில் அக்னியை ஏற்றி, அதைவேறு தர்ப்பங்களிலேற்றி, அதை மூன்றாவது தர்ப்பங்களிலேற்றினால் அது உத்தபனமெனப்படும். கபாலத்தை அக்னியில் வைத்து, காய்ந்த கபாலத்தில் துஷக்னை - உமியைப் போடவும். அல்லது காய்ந்த கோமயத்தைப் போடவும். உமியில் உண்டாகியது துஷாக்னி எனப்படும். கபாலத்தை அக்னியில் வைத்து, தப்தமான கபாலத்தினின்றும் உண்டாகியது கபாலாக்னியாம்.

जगदग्निरपि — दर्भमुष्टिं प्रदीप्याग्नौ लौकिके तत्र चापरम् ।
तत्राप्यग्निस्तृतीयस्थो वहिरुत्तपनः स्मृतः । कपालमग्नौ निक्षिप्य
तमादाय तुषे क्षिपेत् । तुषेण दर्भसंभूतः कपालज इति स्मृतः इति ।
स्मृत्यन्तरे च — कपालोत्थः कपालाग्निस्तुषाग्निस्तु तुषोद्भवः ।
दर्भमुष्टितृतीयोत्थो भवेदुत्तपनाह्यः इति । बोधायनः —
आहिताग्निमग्निभिर्दहति यज्ञपात्रैश्च गृहस्थमौपासनाग्निना
ब्रह्मचारिणं कपालाग्निनाऽन्यानुत्तपनाग्निना इति । आपस्तम्बः —
ओपासनेनानाहिताग्निं दहति निर्मन्ध्येन पत्नीमुत्तपनेनेतरान् इति ।
अत्र यथास्वगृह्यं यथाचारं वा व्यवस्था ।

ஜூமதுக்னியும்:- வெளகிகாக்னியில் தர்ப்பமுஷ்டியைக் கொளுத்தி, அதில் மற்றொரு தர்ப்ப முஷ்டியைக் கொளுத்தி, அதில் மற்றொரு தர்ப்ப முஷ்டியைக் கொளுத்தினால் மூன்றுவது அக்னி உத்தபநம் எனப்படுகிறது. கபாலத்தை அக்னியில் வைத்துக்காய்ச்சி அதை உழியின்மேல் வைக்கவும். அந்த உழியால் தர்ப்பத்தில் உண்டாகிய அக்னி கபாலாக்னி எனப்படுகிறது. மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- கபாலத்தில் உண்டாகியது கபாலாக்னி. துஷ்டதிலுண்டாகியது துஷாக்னி, மூன்றுவது தர்ப்ப முஷ்டியிலுண்டாகியது உத்தபநமெனப் பெயருடையதாம். போதாயனர் : - ஆஹிதாக்னியை அக்னிகளால் யஜ்ஞபாத்ரங்களுடன் தஹிக்கவும். க்ருஹஸ்தனை ஒளபாஸநாக்னியாலும், ப்ரமஹசாரியைக் கபாலாக்னியாலும், மற்றவர்களை உத்தபஞக்னியாலும் தஹிக்கவும். ஆபஸ்தம்பர் : - அநாஹிதாக்னியை ஒளபாஸநத்தாலும் நிர்மந்த்யத்தினால் பத்னியையும், உத்தபஞக்னியால் மற்றவர்களையும் தஹிக்கவும். இங்கு அவரவர் க்ருஹ்யப்படியும், ஆசாரப்படியும் வ்யவஸ்தையை அறியவும்.

कृतसमावर्तनस्याकृतविवाहस्य ब्रह्मचारित्वा भावाद्ब्रह्मस्थित्वा-
भावाच्च कपालश्यौपासनाश्योः प्रसक्त्यभावात् अन्यानुत्तपनेन इति

बोधायनवचनात्, उत्तपनेनेतरान् इत्यापस्तम्बवचनाच्च
उत्तपनाग्निरेव । कृतविवाहस्यौपासनोपक्रमात् पूर्वं मरणे तदानीमेव
शेषहोमान्तं कर्म समाप्य औपासनेन दहेत् - विवाहशेषमध्ये तु
दम्पत्योर्मरणं यदि । कर्मशेषं समाप्यैव दहेदौपासनाग्निना इति
स्मरणात् ।

ஸமாவர்த்தனம் ஆன பிறகு விவாஹத்திற்குள்
இறந்தவனுக்கு, ப்ரம்ஹசாரித்வமுமில்லை,
க்ருஹஸ்தவமுமில்லையாதலால், கபாலாக்னி
ஓளபாஸ்நாக்னி இவைகளின் ப்ரஸக்தி இல்லாததால்
போதாயன வசனத்தாலும், ஆபஸ்தம்ப வசனத்தாலும்
உத்தபநாக்னியே. விவாஹமாகியவனுக்கு
ஓளபாஸ்நாம்பத்திற்கு முன் மரணமானால்,
அப்பொழுதே சேஷஹோமம் முடிய உள்ள கார்யத்தை
முடித்து, ஓளபாஸனத்தினால் தவிக்கவேண்டும்.-
“விவாஹ சேஷஹோம மத்தியில், தம்பதிகளுக்கு
மரணமானால், மீதியுள்ள கர்மத்தை முடித்து
ஓளபாஸ்நாக்னியால் தவிக்கவும்” என்று ஸ்மருதியால்.

अनाहिताग्नेर्भार्याद्वयसम्बन्धे अग्निद्वयसंसर्गात् पूर्वं मरणे
तदैवाग्निद्वयस्य संसर्गं कृत्वा तेनैव दहेत् । संसर्गादिनन्तरं मरणे
संसृष्टाग्निवै दहेत् । यतेः पूर्वश्रिमभार्यामरणेऽपि उत्तपनाग्निवै,
अन्यान्तुपनेनेति बोधायनस्मरणात् इति केचित् । अन्ये तु -
प्रेताग्निसन्धानं कृत्वा तेनैव दाहः, प्रभीतायां तु भार्यायां साग्नौ
दूरं गते धवे । सन्धायाग्निं दहेदेनां पुत्रो वा यदि वेतरः इति स्मरणात्
यतिरूपस्य भर्तुः समारोपिताग्नेर्दूरतोऽवस्थानात् इत्याहुः ।

அநாஹி தாக்னிக்கு இரண்டு பார்ணயகளிருந்தால்,
இரண்டு அக்னிகளுக்கும் ஸம்ஸர்க்கம் ஆவதற்கு முன்
அவன் இறந்தால் அப்பொழுதே இரண்டு அக்னிகளுக்கும்
ஸம்ஸர்க்கத்தைச் செய்து, ஸம்ஸ்ருஷ்டாக்னியினால்

ತಾಖುಮ் ಚೆಯ್ಯವುಮ್. ಸಮೀಕ್ಷಾಕ್ರಮಾನ ಪಿರಹ್ ಇರಂತ್ತಾಲ್ ಅಥಗ್ನಾಲೈಯೇ ತಬ್ರಿಕ್ಕವುಮ್. ಸಂಯಾಸಿ ಇರಂಪತರ್ ಕ್ರಮಾನ್ ಅವನ್ತು ಪೂರ್ವಾಕ್ರಮ ಪಾರ್ಷವೆ ಇರಂತ್ತಾಖುಮ್, ಉತ್ತಪನಾಕ್ಣಿಯಿನ್ನಾಲೈಯೇ ತಾಖುಮ್. “ಇತರರ್ಕಳಾ ಉತ್ತಪನಾಕ್ಣಿಯಾಲ್” ಎನ್ನು ಪೋತಾಯಾನ ವಸನತ್ತಾಲ್, ಎನ್ನು ಶಿಲಾರ್. ಮರ್ಖವರೋಬೆವನಿಲ್, ಪ್ರೇರತಾಕ್ಣಿಷಂತ್ತಾಣಾಮ ಚೆಯ್ತು, ಅಥಗ್ನಾಲೈಯೇ ತಾಖುಮ್, - “ಸಾಕ್ಣಿಯಾನ ಪರ್ತತಾ ತೂರತ್ತೇಕ್ಷಮ ಕೆಂಂರಿಗ್ರಂತೆಕಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಷವೆ ಮರಿತ್ತಾಲ್ ಅಕ್ಣಿಷಂತ್ತಾಣಾಮ ಚೆಯ್ತು ಇವಳಾಪ್ ಪುರಗ್ನಾವತ್ತು ಅಂಯಾವೆತ್ತು ತಬ್ರಿಕ್ಕವುಮ್” ಎನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿತಿಗ್ರಂತೆಪತ್ತಾಲ್, ಯತ್ತಿಂದುಗ್ನಾನ ಪರ್ತತಾ ಸಮಾರೋಪಿತಾಕ್ಣಿಯಾಪ್ತಾರತ್ತಿಲಿಗ್ರಂತೆಪತ್ತಾಲ್, ಎನ್ಕಿಂತಾನಾರ್.

ತथಾ ಚ ಪಾರಿಜಾತೆ — ಪರಿಬ್ರಾಜಕಪತ್ನಿ ಚೆನ್ಮೃತಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ವಿಃ । ಔಪಾಸನಾಗ್ರಿಂ ಸಂಧಾಯ ದಹೇತು ವಿಧಿವತ್ ಸುತಃ ಇತಿ । ತಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ವಿಃ - ಪರಿಬ್ರಾಜಕಮರಣಾತ್ ಪೂರ್ಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಉತ್ಪನಾಗ್ರೇಃ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಹ ಶೌನಕಃ - ಅಗ್ರಿಮುತ್ತಪನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಾಶ್ಚೇ ಪ್ರೇತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ । ಸಮುಳ್ಳ ಸಂಪರಿಸ್ತೀರ್ಯ ಪರ್ಯುಷ್ಯ ಚ ಯಥಾಕ್ರಮಮ् । ಆಜ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಸ್ವಾಬೇಣ ಜುಹ್ಯಾತ್ತತಃ । ಅಯಾಶ್ವೇತ್ಯೈಕಯಾ�ಽಹೃತ್ಯಾ ವ್ಯಾಹೃತೀಭಿಸ್ತತಃ ಪರಮ್ ಇತಿ । ಬೋಧಾಯನಸ್ತು - ವಿಧುರಸ್ಯ ನಿಧಾಯಾಗ್ರಿಂ ಸ್ಮರನ್ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಕಮ् । ಜುಹ್ಯಾದ್ವಾದಶಾಜ್ಯೇನ ವಿಧಾಯಾಸತ್ವಯಂ ಕ್ರಮಃ ಇತಿ । ಅಯಮುತ್ತಪನಾಗ್ರಿ- ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ತುಷಾಗ್ರಿಕಪಾಲಾಗ್ರಿಮಧಿತಾಶ್ರೀನಾಮಪಿ ಸಮಾನಃ ।

ಪಾರಿಜ್ಞಾತತ್ತ್ವಿಲ್: - ಸಂಯಾಸಿಯಿಂ ಪತಂಣಿ, ಅವನ್ತು ಮರಣತ್ತಿರ್ಹು ಮುನಿ ಮರಿತ್ತಾಲ್, ಓಂಪಾಬಾಣಾಕ್ಣಿ ಷಂತ್ತಾಣಾಮ ಚೆಯ್ತು ವಿತಿಪಪ್ತಿ ಪುರಗಂ ತಬ್ರಿಕ್ಕವುಮ್. ಉತ್ತಪನಾಕ್ಣಿಕ್ಕು ಸಮೀಕಾರತ್ತತಹಸ್ ಕೊಳ್ಳುಕಿಗ್ರಾರ್, ಕೆಳಾನಾಕಾರಃ: ಉತ್ತಪನಾಕ್ಣಿಯ ಪ್ರೇರತಾಣಿಂ ವಲತ್ತು ಪಕ್ಕತ್ತತಿಲ್ ವೆವತ್ತು, ಸಂಗ್ರಹಣಾಮ್, ಪರಿಂತರಣಾಮ್, ಪರ್ಯಂತಣಾಮ ಇವೆಕಳಾಕರಮಪಪ್ತಿ ಚೆಯ್ತು ಆಜ್ಞಾಯಂಸಮೀಕಾರಮ ಚೆಯ್ತು, ಸಂಗ್ರಹತ್ತಿನ್ನಾಲ್ ಮಂತರತ್ತಿನ್ನಾಲ್ ‘ಅಯಾಕ್ಷ’ ಎನ್ಪತಿಗ್ನಾಲುಮ್, ವಯಾಹಂಗ್ರಹಿತಿಕಾಣಾಲುಮ್ ಹೊಮಮ್ ಚೆಯ್ಯವುಮ್.

போதாயனரோவெனில் :- விதுரனின் அக்னியை வைத்து, புருஷஸ உக்தத்தை ஸ்மரித்து, தவாதச க்ருஹ்தாஜ்யத்தினால் ஹோமம் செய்யவும். விதவையின் அக்னிக்கும் இதே க்ரமம். இந்த உத்தபநாக்னி ஸம்ஸ்காரம் துஷாக்னி, கபாலாக்னி, மதிதாக்னி இவைகளுக்கும் ஸமானமே.

பூர்மூதா பத்ரீமா ஹிதா ஗ிராதிரோதே ஦ஹெத் । அநாஹிதா ஗ிஃ ஸ்மார்த்திர்஧ேந ஦ஹெத்தியா ஹாஶ்வலாயனः - ஸ்மார்த்திர்஧ேநா ஗ிரமிர்஦ர்஧ா மூதா பத்ரீ ச தாா சி஭ி: । சிஷ்டா ர்஧ேநோ ஹைத்தாந்யா புநஶ்வை஬ா ஗ிரமாந् யஜெத் । பிராந்துங்கா ஹாஞ்ச சிஷ்டா ர்஧ேந ஸ்மார்த்தா ஸ்யா யேர்யா விதி । சுஶ்வை பத்ரீக இஷ் (இஷ்) குர்யா ச்ச வா நாவா । ஸாய் பிராதஹீமார்ம மார்மா சிரபி ஸஞ்சேத் இதி । அது திரமிர்஗ிரமிர்஗ிரமாந் யஜெத்தியா ஹிதா ஗ிரவிஷயம் । அநாஹிதா ஗ிரரைபாஸநார்஧ேந ஦ர்஧ா சிஷ்டா ர்஧ே ஸாய் பிராதர்ஜுங்கத் ஸ்஥ாலீபாக் ச குர்வந்து ஹெத் । அஶக்தோடபி யாவ்ஜீவ் ஹோம் குர்யா ஦ித்யர்஥: ।

ஆஹி தாக்னி, தனக்கு முன் மரித்த பத்னியை அக்னிஹோத்ராக்னியால் தஹிக்கவும். அநாஹி தாக்னி, ஸ்மார்த்தாக்னியின் பாதியால் தஹிக்கவேண்டும் என்கிறார் ஆச்வலாயனர்:- ஆஹி தாக்னி, ஸ்மார்த்தாக்னியின் அர்த்தத்தாலும், ச்செரளதாக்னிகள் மூன்றினாலும் பத்னியைத் தஹித்து, மீதியுள்ள பாதி அக்னியால் மற்றொருத்தியை விவாஹம் செய்து கொண்டு மறுபடி ச்செரளதாக்ந்யாதானம் செய்து கொண்டு யாகங்களைச் செய்யவும். விவாஹத்திற்கு முன்பும் ஸ்மார்த்தாக்னியின் பாதியை உபாஸிக்கவும். இஷ்டியைச் செய்தாலும் செய்யலாம். செய்யாமலுமிருக்கலாம். மாலை காலைகளில் ஹோமத்தை அர்த்தாக்னியிலும் செய்யவேண்டும். இங்கு மூன்று அக்னிகளால் என்றது ஆஹி தாக்னி விஷயம். அநாஹி தாக்னியானவன் ஸ்மார்த்தாக்னியின் பாதியால் தஹித்து, மீதியுள்ள

அக்னியில் மாலையிலும் காலையிலும் ஹோமம் செய்து கொண்டு, ஸ்தாலீபாகமும் செய்து கொண்டு, மற்றொருத்தியை மனக்கலாம். அசக்தனும் ஜீவனுள்ள வரையில் காலையிலும் மாலையிலும் ஹோமம் செய்து கொண்டிருக்கவும் என்பது பொருள்.

याज्ञवल्क्यः - दाहयित्वा अग्निहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवर्तीं पतिः ।
 आहरे द्विधिवद्वारानग्नीश्चैवाविलम्बयन् । इति । एतच्छक्यविवाह-
 विषयम् अशक्यविवाहस्तु निर्मन्थयेन दाहयित्वा यावज्जीवं
 अग्निहोत्रं जुहुयात् । अत्र कपर्दी — आहिताग्निः पूर्वमृतां
 स्वाग्निभिर्दाहयेत् स्त्रियम् । शक्ये विवाहेऽथाशक्ये निर्मन्थयेनैव
 दाहयेत् इति । तथा चापस्तम्बभरद्वाजौ - निर्मन्थयेन
 पत्नीमुत्तपनेनेतराम् ।

யാക്കുവല്ക്കയർ:- പര്ത്തതാ സാത്വിയാൻ പത്തനിയൈ അക്നി ഹോത്രത്താല് തഹിത്തു, വിതിപ്പട്ട വിവാഹമ് ചെയ്തു കൊள്ളാവേണ്ടുമ്. താമതിക്കാതവനും ആതാനമുമ് ചെയ്തുകൊള്ളാ വേണ്ടുമ്. ഇതു വിവാഹമ് ചെയ്തുകൊള്ളാൾ സക്തിയുണ്ടാവൻ വിഷയമ്. ചക്രതിയില്ലാതവൻ, നിർമന്ത്യാക്കന്നിയാല് തഹിത്തു യാവജ്ഞീവമ് അക്കന്നിഹോത്രമ് ചെയ്യവുമ്. ഇവബിഷയത്തില്, കപാർത്തി:- ആഖിതാക്കനി, തനക്കുമുൻ ഇരന്ത പത്തനിയൈത് തൻ അക്കന്നികണാല് തഹിക്കലാമ്, മനുപട്ട വിവാഹമ് ചക്യമാനുല്. അചക്യമാനുല് നിർമന്ത്യത്തിനും ലേയേ തഹിക്കവുമ്. അവബിതമേ, ആപസ്ത്രമ്പരുമ് പരത്വാജനുരുമ്പി:- നിർമന്ത്യാക്കന്നിയിനുല് പത്തനിയൈത് തഹിക്കവുമ് മനുവരക്കണാ ഉത്തപനാക്കന്നിയാല് തഹിക്കവുമ്.

स्मृत्यन्तरेऽपि — दारकर्मण्यज्ञकतशेत्पत्नी च निधनं गता ।
श्रौतस्मार्ताग्निना दाहः पद्म्या नैव तदा भवेत् । निर्मन्थयेनैव तां

दरध्वा निदध्यादग्निमात्मनि । अग्निहोत्रं पूर्णमासं दर्शं चाग्रयणं
तथा । अपत्रीकोऽपि कुर्वीत तस्मिन्बान्यत् कथञ्चन ।
विच्छिन्नवह्नेः सन्धानं पुनरेव विधीयते । दारकर्मणि शक्तश्चेह है
दौपासनाग्निना इति । पूर्वं पत्रीमरणे दारकर्मणि
शक्तोऽनाहिताग्निरौपासनेन दहेत्, आहिताग्निरग्निहोत्रेषेत्यर्थ ।

மற்றெரு ஸ்ம்ருதியிலும்;-- மறுபடி விவாஹத்தில்
சக்தி யில்லாதவன் பத்னீமரணத்தில், ச்ரெளத
ஸ்மார்த்தாக்னிகளால் பத்னிக்குத் தாஹம் செய்யக்கூடாது.
அவளை நிர்மந்த்யாக்னியினு லேயே தஹிக்கவும்.
அக்னியைத் தனக்காக வைத்துக் கொள்ளவும்.
அபத்நீகனு யினும் அக்னிஹோத்ரம், தர்பாஸ்பூர்ண
மாஸங்கள், ஆக்ரயணம் இவைகளை அந்த அக்னியில்
செய்யவும். மற்றெருஞ்றையும் செய்யக்கூடாது. அக்னி
விச்சின்னமானால் புனஸ்ஸந்தானம் விதிக்கப்படுகிறது.
விவாஹத்தில் சக்தனுஞல் ஒளபாஸனாக்னியில்
தஹிக்கவும். முதல் பத்னீ மரித்தால் விவாஹத்தில்
சக்தியிடைய அநாஹிதாக்னி, ஒளபாஸநாக்னியால்
தஹிக்கவும். ஆஹிதாக்னி அக்னிஹோத்ரத்தால்
தஹிக்கவும் என்பது பொருள்.

सर्वाधाने पूर्वं यजमानस्य मरणे अग्नित्रेतायां पितृमेधः,
पद्म्यास्तु पश्चान्मरणे प्रेताधानमिति चन्द्रिकायाम् । अत्र
कात्यायनोऽपि — पूर्वं मृतस्य दम्पत्योः प्रेताधानं परस्य तु । पूर्वं
मृतस्याग्निसंस्कारः, पश्चान्मृतस्य दम्पत्योरन्यतरस्य प्रेताधान-
मित्यर्थः । कल्पपरिशिष्टेऽपि — मृताहिताग्नेभर्यायाः प्रेताया
विधिरुच्यते । संस्करिष्य इमां पत्रीं निर्मध्येन कुशाग्निना । इति
सङ्कल्प्य संपाद्य निर्मन्थ्याग्नि ममुं त्रिधा । विभज्य दक्षिणाग्नौ तु
चरुपाकोऽपरानले । आमिक्षा सुक्षुबावत्र वारूणौ भवतस्ततः ।
वपनं पात्रचयनं विनाऽन्यत् सर्वमाचरेत् इति । पुनर्दारग्रहणा-

समर्थस्य पद्मीदाहविनियुक्ताग्निहोत्रस्य विधुरस्योत्सृष्टाग्ने-
र्विच्छिन्नाग्निर्बा मरणे प्रेताधानमेव ।

सर्ववातान वीष्यत्तिल, मुतविलं यज्ञमानान्
मरीत्तालं रून्नु अक्णीकणीलुम् प्रित्तरुमेतम्. पत्तेन
प्रिरुमरीत्तालं अवगुक्कु प्रेरेतातानम् एन्नु
सन्तरीकेयीलं उल्लतु. इति ल, कात्यायनरुम्
‘तम्पत्तिकरुन्न मुन्न इरन्तवरुक्कु अक्णी लम्स्कारम्,
पिण्ण इरन्तवरुक्कु प्रेरेतातानम् एन्नुर, र
कल्पपरीक्षिष्टत्तिलुम्; - आह्वीताक्णी इरन्तप्रिरु,
वित्वेवयान पार्यायीन मंगुतीयीलं विति
सेवालंप्पटुकिरतु. इन्त आह्वीताक्णी पत्तेन्निये
निर्मन्त्यत्तिगुलं कुसाक्णीयीलुलं लम्स्कारिक्किरेण
एन्नु लंकलंप्पित्तु, निर्मन्त्याक्णीये लम्पातित्तु,
इतेत रून्नरुप्प प्रिरित्तु, तक्षिणाक्णीयीलं सरुपाकमुम्,
मेन्तकिलुलं अक्णीयीलं आमिक्षयायुम् चेय्यवुम्.
संगुक्कुम् संगुवमुम् इन्कु वरुण वंगुक्षत्ति
नुट्टयवेक्णायीरुक्कवेण्टुम्. वपनम्,
पात्रशयनम्, तवीर मन्त्र ललवावर्त्तन्नयुम् चेय्यवुम्.
मरुपटि वीवाह्वम् चेय्तुकेकालासं सक्ति
यील्लातवगुयुम् पत्तेताहृत्तिलं अक्णीहृत्तरत्तेत
वीनियोकम् चेय्तवन्मान वित्तरन् अक्णीकणाल
वीट्टिरुन्तालुम्, अक्णीकण विक्षिण्णनंकणायीरुन्तालुम्
अवन्न मरणत्तिलं प्रेरेतातानमेव.

तथा चापस्तम्बः - यद्याहिताग्निरुत्सृष्टाग्निर्विच्छिन्नाग्नि-
र्विधुराग्निर्बा प्रमीयेत न तमन्येन प्रेताग्निभ्यो दहन्तीति विज्ञायते
आधानप्रभृति यजमान एवाग्नयो भवन्ति, अथापि ब्राह्मणम्
तमसो वा एष तमः प्रविशति सह तेन य आहिताग्निमन्येन
त्रेताग्निभ्यो दहति इति । भाष्यकारः - यद्याहिताग्नि-
रुत्सृष्टाग्निर्विच्छिन्नाग्निर्विधुराग्निर्बा प्रमीयेत न तमन्येन त्रेताग्निभ्यो
दहन्ति इति । तस्य प्राचीनावीत्यग्न्यायतनान्युद्धत्यावोक्ष्य

யஜமானாயதனே ப்ரேत நி஧ாய ஗ார்ஹபத்யாயதனே அரணி நி஧ாய மந்திதி யேऽஸ்யாய்யோऽஜுஹதோ மாங்ஸகாமா: சங்கலபயந்தே யஜமான் மாங்ஸ ஜானந்து தே ஹவிஷே ஸாடிதாய ஸ்வர্গ லோகமிமீ ப்ரேத நயந்திதி பூர்யித்வா தூண்ணி ஹுத்வா ப்ரேதேऽமாத்யா இத்யாடி கர்ம ப்ரதிபத்யதே இதி ।

ஆபஸ்தம்பர்:- ஆஹிதாக்னி, உத்ஸ்ரங்டாக்னி யாகவோ, விச்சிந்நாக்னியாகவோ, விதுராக்னியாகவோ மரித்தால் அவனை த்ரேதாக்னியைத் தவிர்த்த அக்னியால் தஹிக்கக் கூடாதெனத் தெரிகிறது. ஆதானமுதல் யஜமானனிடத்திலேயே அக்னிகள் இருக்கின்றன. தவிர, ச்ருதியுமுள்ளது. “எவன் ஆஹிதாக்னியை, த்ரேதாக்னியைத் தவிர்த்த அக்னியால் தஹிக்கின்றானே அவன் இருளிலிருந்து இருளை அடைகிறான் தஹிக்கப்பட்டவனுடன்” என்று. பாஷ்யகாரர்:- ‘யத்யாஹிதாக்னி+தஹந்தி’. ப்ராசீஞாவீதியாய் அக்னிகளின் ஆயதனங்களைக் கிளறி, அவோகஷித்து யஜமானனின் ஆயதநத்தில் ப்ரேதத்தை வைத்து கார்ஹபத்யாயதனத்தில் அரணிகளை வைத்து, கடையவேண்டும். ‘யேஸ்யா + நயந்து’ என்று. மந்த்ரமில்லாமல் விஹரணம் செய்து தவாதசக்ரஹீதமான ஆஜ்யத்தால் ஸ்ருக்கை நிரப்பி, தூஷ்ணீமாக ஹோமம் செய்து ‘ப்ரேதே மாத்யா:’ என்பது முதலாகக் கர்மத்தை ஆரம்பிக்கவும். என்று.

ஸ்மृத்யந்தரே — அथானு஗தவஹிஸ்து யஜமானோ மூதோ யதி । ப்ரேதா஧ான் தथா குர்யாடிபஸ்தம்஬ஸய ஭ாஷிதம் இதி । ஏவ் சாஹிதாயேவி஧ுரஸ்யாயித்ரயமுத்பாடு வி஧ிவொஹ: கார்ய: । அநாஹிதாயேஸ்து உத்தபனேதெதி மேத: । ப்ரேதேமாத்யா இத்யாடி ஸமானமுभயோ: । நனு ஆஹிதாயேரயித்ரயமுத்பாடு வதநவதநாஹிதாயேரபி வி஧ுரஸ்யைபாஸநாயிமுத்பாடு தேநைவ ஦ாஹ: கார்ய இதி சேந, ஆ஧ானப்ரமூதி யஜமான எவாய்யோ மஹந்தித்யாபஸ்தம்஬ேந

हेतूपन्यासात्, न तमन्येन त्रेताग्निभ्यो वहन्तीति इतराग्निना
दाहनिषेधाच्च, यथा योगिनः स्वान् देहान् परित्यज्य
परकायमनुप्रविश्य पुनः स्वान् देहान् प्रविशन्ति न च तेन दुष्यन्त्येव
मग्नयोऽपि पत्नीं संस्कृत्य यजमानमेवाभ्यावर्तन्ते इति
भारद्वाजवचनाच्च तस्य प्रेताधानं युक्तम् । विधुरस्यानाहिताग्नेस्तु
तथा विध्यभावात् उत्तपनाग्निविधानाच्च न प्रेतौपासनसन्धानम् ।
तथा विधवाया अनाहिताग्नेभार्याया मृताकुत्पनाग्निनैव दाहः ।
आहिताग्निपद्म्यास्तु पश्चान्मरणे प्रागुक्तकात्यायनादि-
वचनानुसारेण प्रेताधानं निर्मन्ध्येनेति भाष्यकारः । पूर्वं मरणे
वृत्तवत्यास्तस्या दारकर्मणि शक्तश्चेदग्नित्रयेण दाहं कुर्यात् । तस्याः
सदृत्यभावे, स्वस्य दारग्रहणशक्त्यभावे च निर्मन्ध्यनैव तां दहेत् ।

वेरु लंमं रुठि यिलुमः - “यज्ञमानन्
अनुकृताक्णीयाय मरीत्तालं प्रेरेतातानमं
सेय्य वेण्टु मेन्पतु आपस्तम्परिन् मतम्”.
இவ்விதமிருப्पதால், விதுரனை ஆஹிதாக்ணிக்கு மூன்று
அக்ணிகளையும் உத்பாதனம் செய்து விதிப்படி தஹநம்
செய்ய வேண்டும். அநாஹிதாக்ணிக்கோ உத்தபநத்தினு
லென்பது பேதம். ‘ப்ரேதேமாத்யா’ என்பது முதல்
இருவருக்கும் ஸமாநம். “ஓ ! ஆஹிதாக்ணிக்கு மூன்று
அக்ணிகளை உண்டுபண்ணுவது போல்,
அநாஹிதாக்ணியான விதுரனுக்கும் ஒளபாஸனக்ணியை
உண்டு பண்ணி அதனுலேயே தஹநம் செய்யவேண்டும்”
எனில், அது இல்லை. ‘ஆதானம் முதல்
யஜ்மானனிடத்திலேயே அக்ணிகள் இருக்கின்றன’என்று
ஆபஸ்தம்பர் காரணம் சொல்லுவதாலும்,
ஆஹிதாக்ணியை, ச்செரளதாக்ணிகளைத் தவிர்த்து மற்ற
அக்ணியால் தஹிக்கக் கூடாது’ என்று இதராக்ணியால்
தஹநத்திற்கு நினேஷ்தமிருப்பதாலும், ‘யோகிகள் எப்படித்
தமது தேஹங்களை விட்டுப் பிறனின் தேஹத்தினுட்

புகுந்து, பிறகு தமது தேவைங்களிலேயே ப்ரவேசிக்கின்றனரோ, அதனால் அவர்கள் தோழுத்தை அடைவதில்லையோ, இவ்விதம் அக்னிகளும் பத்னியை ஸம்ல்கரித்து யஜமாநனையே திரும்பி அடைகின்றன’ என்று பாரத்வாஜரின் வசனத்தாலும், அவனுக்கு ப்ரேதாதாநம் யுக்தம். விதூரனை அநாஹிதாக்னிக்கு அவ்விதம் விதி இல்லாததாலும், உத்தநபநாக்னியை விதித்திருப்பதாலும் ப்ரேதளபாஸந ஸந்தானம் இல்லை.அவ்விதம், விதவையான அநாஹிதாக்னி பார்யையின் ம்ருதியில் உத்தபநாக்னியாலேயே தலைநம். ஆஹிதாக்னி பத்னீ பிறகு இறந்தால், முன் சொல்லப்பட்ட காத்யாயநாதி வசனங்களை அனுஸரித்து ப்ரேதாதானம் நிர்மந்த்யாக்னியினால் என்றார் பாஷ்யகாரர். முன்மரித்தால் ஸாத்வியான அவனுக்கு, மறுபடி விவாஹத்தில் சக்தனுகில் மூன்று அக்னிகளாலும் தலைநம் செய்யவும். அவள் ஸாத்வியாயில்லாவிடினும், தனக்கு மறு விவாஹத்தில் சக்தியில்லாவிடினும் நிர்மந்த்யாக்னியினாலேயே அவளைத் தலைக்கவும்.

அனைவ விஷய விஷ்ணு: — மृतायामपि भार्यायां वैदिकाग्निं न
तु त्यजेत् । उपाधिनाऽपि तत् कर्म यावज्जीवं समाचरेत् इति ।
उपाधिः - प्रतिकृतिः । एतदेवाभिप्रेत्य भारद्वाजः -
यजमानस्यैवाग्नित्रयम् इति । मैत्रायणी श्रुतिरपि - यस्तु
स्वैरग्निभिर्भायां संस्करोति कथञ्चन ॥। அஸौ மृतः ஸ்த्रி ஭वति ஸ்த्री
चैवास्य பुमान् ஭वेदिति । स्वैरिति श्रवणात् पद्म्या अङ्गतापक्षेऽयं
निषेधः, ந ஸहाधिकारपक्षे இதि கேचித् । विच्छिन्नाग्नेरुत्सृष्टाग्रेवा
யजमानस्य மृतेः பूर्वं पद्मीमरणे புनर्दरिग्रहणशक्तावशक्तौ ச
निर्मन्थ्याग्निनैव दाहः, ந தु प्रेताधानाहितत्रेताग्निभिः ।

விளக்கணு:— பார்யை இறந்தாலும் வைதிகாக்னியை த்யஜிக்கக்கூடாது.ப்ரதிக்ருதியையாவது வைத்துக் கொண்டு யாவஜ்ஜீவம் அந்தக் கர்மத்தைச் செய்ய

वेण्णुम् । इवंवितमपि प्रायत्तु टेन्योः - पारत्त्वाज्ञारः :- यज्ञमाननुष्टयवेक्षणा मूर्णरु अक्षिक्षुम्, यमत्त्रायणे चरुतीयुम् :- “एवं तत्तु अक्षिक्षाल वार्ययय सम्लक्षीक्षिण्णु तेऽनु अवन् इरन्तु लक्षीयाप्य प्रिहप्पाण् । लक्षीयुम् पुरुषाणुप्य प्रिहप्पाण्” इन्कु, ‘तत्तु’ एन्नरिगुप्पताल, पत्तिक्षिक्षु अन्कत्त्वत्तेत अन्किक्षीक्षिण्णुम् पक्षित्तिल इन्त निषेषतम् । लहातिकार पक्षित्तिल इन्त निषेषतम् इल्लै एन्किण्णरनार सिलर्. विच्छिन्नाक्षिण्णियाक्षेवो, उत्स्वरुष्टाक्षिण्णियाक्षेवो उल्ला यज्ञमाननीन् मरणत्तिरुक्तुमन् पत्तिम् मरणत्तिल, मरुविवाहत्तिल चक्षियिरुन्तालुम् इल्लाविष्टिनुम् निर्मन्त्याक्षिण्णियिणु लेये तालुम् । प्रेरतातान वित्तियाल उत्पातिताक्षिण्णियाल त्रेरताक्षिण्णियालल्ल.

तथा च कपर्दी — नष्टोत्सृष्टानलसहचरीदाहकृत्येन कुर्यात् प्रेताधानं मधितदहनस्तक्षियायां प्रकल्प्यः । अन्योपेतानुपन्यनकोपोषणे लौकिको वा कापालो वा भवति दहनश्चाथ सन्तापनो वा इति । विदेशस्थानग्रेः पत्तीमरणे प्रेताधानमुक्तं स्मृत्यन्तरे — दूरे पिताऽनग्निरितः स्वमाता मृता यदि स्यात् सुत औरसश्रेत् । आधाय बहिं विदधीत सर्वमन्त्येष्टिमात्मा स इति श्रुतिर्हि इति ॥ अनग्निः - अनाहिताग्निः । एवं च विच्छिन्नौपासनस्य पत्तीमरणे प्रेताग्निसन्धानम् । पूर्वोक्तकपर्दि-वचनेन न्याय-साम्यान्मधिताग्निरित्यके ॥

कपर्दीः - नष्टाक्षिण्णि, अल्लतु
उत्स्वरुष्टाक्षिण्णियाल यज्ञमाननीन् पत्तियिण्णित्तु नकारयत्तिल, प्रेरतातानम् कृटातु । अतिल मतिताक्षिण्णिय करवलीक्क वेण्णुम् । अन्यकामि नियानवाल, अनुपन्तेन इवर्कलीन तत्त्वानत्तिल लेलकिकाक्षिण्णियावतु, कपालाक्षिण्णियावतु, उत्तपनाक्षिण्णियावतु करालृयम् । वित्तेचत्तिल पत्ति इरुक्तुम् पेपातु, अनाहिताक्षिण्णियिण्णित्तु मरीत्ताल, प्रेरतातानम्

சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்றெரு ஸ்மிருதியில்:- அநாஹிதாக்னியான பிதா தூர தேசத்திலிருக்கும் போது, மாதா மரித்தால், ஒளரஸ்புத்ரன், அக்னியை ஸந்தாநம் செய்து ஒளர்த்வதைஹிககர்மம் முழுவதையும் செய்யவேண்டும். 'ஆத்மாவை புத்ரநாமா' என்று ச்ருதி இருக்கின்றதல்வா? இவ்விதமிருப்பதால் விச்சின்னெளபாஸ்நஞன அநாஹிதாக்னிக்குப் பத்னீ மரணத்தில் ப்ரேதாக்னிஸ்ந்தானம், முன்சொல்லிய கபர்திவசனநந்யாயம் ஸமமாகியதால் மதிதாக்னியென்று சிலர்.

बहुपत्रीकस्य पत्नीमरणोऽग्निर्णयः

बहुपत्रीकस्य पत्नीमरणे वृद्धमनुः - बहुपत्रीकपक्षे तु ज्येष्ठा
चेत् पूर्वमारिणी । तां दहेदग्निहोत्रेण पुनराधानमन्यया इति ॥
(निर्मन्ध्येन तथेतरा इति पाठान्तरम्) अयं न्यायो
द्विपत्रीकविषयेऽपि समानः । तथा समृत्यन्तरे - ज्येष्ठा भार्या मृता
पूर्वं पुत्रखेताग्निना दहेत् । आधानं च पुनः कुर्यात् सह पद्म्या
द्वितीयया ॥ द्वितीया यदि चेद्भार्या पूर्वं मरणमाप्यात् । जीवन्त्यां
प्रथमायां तु दहेन्निर्मिथिताग्निना इति ।

பஹாபத்னீகனுக்குப் பத்னீ மரணத்தில்
அக்னிநிர்ணயம்.

அநேக பத்நீகனுக்கு, பத்னீமரணத்தில், வ்ருத்த
மனு:- பஹாபத்நீகனு யஜமாநனுக்கு, ஜ்யேஷ்ட பத்னீ
முதவில் இறந்தால் அவளை அக்னிஹோத்ரத்தால்
தஹிக்கவும். மற்றப் பத்னியுடன் புநராதானம் செய்யவும்.
(பாடாந்தரம் நிர்மந்த்யத்தால் மற்றவர்களைத்
தஹிக்கவும்.) இந்த ந்யாயம் இரண்டு பத்னிகளை
யுடையவன் விஷயத்திலும் ஸமானம். அவ்விதம். மற்றெரு ஸ்மிருதியில்: ஜ்யேஷ்ட பார்ஷை முன் இறந்தால் அவளைப்
புத்ரன் ச்ரெளதாக்னியால் தஹிக்கவும். பிதா இரண்டாவது

पार्ययेष्टनं मरुपदि आतानाम् चेयंतु केऽन्नावुम्।
मुत्तां जीवित्तिरुक्तुम् पोतु त्वित्तिये इरन्त्तालं
अवला निर्मतिताक्षीयितुलं तत्त्वीक्तवुम्।

द्वितीयाया अग्निहोत्रदाहनिषेधमाह देवलः - द्वितीयां वै तु
यो भार्या दहेद्वैतानिकाग्निभिः । तिष्ठन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं
हि तत् इति । तिष्ठन्त्यां प्रथमायाभिति विशेषणात्तन्मरणादूर्ध्वं
विद्यमानासु ज्येष्ठाया मरणेऽपि अग्निदानमनुमतमेव ।
एतदेवाभिप्रेत्य स्मृत्यन्तरम् - मृतायां तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं
समुत्सृजेत् । ब्रह्मोज्ञां तं विजानीयात् यश्च कामात् समुत्सृजेत् ।
इति । एतदाधानाधिकृतस्त्रीविषयभिति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् ।
तद्विषयत्वाप्रतीतेः तदुक्तमयुक्तमित्यन्ये ।

இண்டாவது பார்யைக்கு, அக்னி ஹோத்ராக்னி
தாஹந்தை நிவேஷத்திக்கிரூர் தேவலர் - எவன் ஜயேஷ்ட
பார்யை ஜீவித்திருக்கும் போது இரண்டாவதுபார்யையை
ச்செரளதாக்னிகளால் தறிக்கின்றானே, அவனுக்கு அது
மத்யபானத்திற்குச் சமமாகும். ஜயேஷ்டை இருக்கும்
போது என்றதால், ஜயேஷ்டையின் மரணத்திற்குப் பிறகு
இருக்கின்றவர்களுள் மூத்தவளின் மரணத்தில் அவளுக்கு
அக்னிதானம் அனுமதிக்கப்பட்டதே. இதை
அபிப்ராயப்பட்டே, மற்றொரு ஸ்ம்ருதி :- “இரண்டாவது
பார்யை இரந்தால், அவளை எவன்
அக்னி ஹோத்ராக்னியால் தறிக்கின்றானே அவனை,
ப்ரம்ஹோச்சன் என்றறியவும். எவன் இஷ்டப்படி
அக்னியைக் கைவிடுகிறானே, அவனையும் அப்படி
அறியவும். என்கிறது. இவ்விதம் சொல்லியது
ஆதானத்தில் அதிகாரமில்லாத ஸ்திரீயைப் பற்றியது என்று
விழ்ஞானேச்வர் சொல்லியது அயுக்தம் என்று மற்றவர்
சொல்லுகின்றனர்.

द्विभार्याहिताग्निविषये स्मृत्यन्तरम् - पद्मोरेका यदि मृता
तां दहेत्स्मार्तविहिना । आदधीतान्यया सार्धमाधानविधिना गृही

இதி । பத்வோர்ம்யே ஏகா - முख்யா । ஜ்யேஷ்டே யாவத् । ஸா மृதா யடி தாஂ ஸஂஸුஷ ஸ்மார்த்தவிஹிநா ஦ாஹயித்வா, புனரந்தியா கனிஷ்டா ஸஹ புன: ஸந்஧ானவி஧ிநா ஸந்஦ார்த்தேத்வர்த: । தथா ஶௌநக: । ‘அதாஶ்யோ- ர்வீஷ்யோர்஗மஹ் வக்ஷ்யாமி ஶௌநக: । ஸஹாதிகாரஸிச்சாத்வர்த் ஸப்ளீமேஜாதயோ:’ இத்யாடினாத்பிரிவ்யஸ்ஸஂஸர்஗முக்த்வா ஜ்யேஷ்டாயா: ஸஂஸුஷவிஹிநா ஦ாஹமாஹ- தயோரேகா யடி மृதா தாஂ ஦ாஶ்வா தேன வக்ஷிநா । ஆடார்த்தாந்தியா ஸார்த்தமா஧ானவி஧ிநா ஗ூஹி இதி । யது ஭ாஸ்யகாரவசனம் - யடி த்வனேகமார்யஸ்ய காஞ்சித் பத்வி மृதா ததா । நிர்மந்த்யேநைவ ஸா ஦ாஹ்யா ததங்நி ஧ாரயேத் பதி: இதி, தச்஛ை நகாடிவசனவிருஷ்ட்வாடுபேக்ஷனியம் । பத்வா அஜ்ஞத்வபக்ஷே வா ஸமர்஥நீயம் । கனிஷ்டாவிஷயே து ஸ்மृத்யந்தரம் - கனிஷ்டாயாஂ மृதாயாஂ து விமஜ்யாங்நி ப்ரதாஹயேத் । ஶமயித்வாத்தியமாங் து ஸமாத்தாத் புன: ஶுசி: இதி ।

இரண்டு பார்யைகளுடைய அநாஹுதாக்னியின் விஷயத்தில் மற்றொரு ஸ்மிருதி:- இரண்டு பத்னிகளுக்குள் ஒருவள் இறந்தால் அவளை ஸ்மார்த்தாக்னியால் தஹிக்கவும். மற்ற பத்னியுடன் கூட ஆதான விதிப்படி கிருஹஸ்தன் அக்னி ஸந்தானம் செய்யவும். இங்கு ஏகா என்பதற்கு முக்கை அதாவது ‘ஜ்யேஷ்டை’ என்று பொருள். அவள் இறந்தால் அவளை ஸ்மஸர்க்கம் செய்யப்பட்ட ஸ்மார்த்தாக்னியால் தஹித்து, மறுபடி மற்றவளான சிறியவளுடன் மறுபடி விதியுடன் ஸந்தானம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என்று பொருள். அவ்விதமே செளனகர் - இனி இரண்டு ஒள்பாஸ்நாக்னிகளுக்கு ஸ்மஸர்க்கத்தை நான் (செளனகர்) சொல்லப்போகிறேன். இரண்டு ஸபத்னீகளின் பேதத்தால் உண்டாகிய இரண்டுக்கும் சேர்ந்து அதிகாரம் ஸித்திப்பதற்காக என்பது முதலானதால் இரண்டு அக்னிகளுக்கும் ஸ்மஸர்க்கத்தைச் சொல்லி, முத்தவளுக்கு ஸ்மஸ்ருஷ்ட அக்னியால்

तहूनत्तेतच्च चेऽल्लुकिरुर् । “अवर्कर्णुं ओरुत्ति
(ज्येष्ठेट) इरन्तालं अवलो सम्स्कृष्टाक्णीयालं
तहृत्तु, कणीष्ठेटयुटनं आतान वित्तिपपटि अक्णी
सन्तानमं चेय्तु केाल्लवुम्” एन्ऱु. आग्नेल “अनेक
पार्येयकलायुटेय ओरुवनुक्कु, ओरु पत्तें इरन्तालं,
अप्पेबामुतु निर्मन्त्याक्णीयिणु लेये अवलोत्त
तहृक्कवुम्. पति अवलोतु अक्णीयेत तरीक्कवुम्”
एन्ऱुला पार्येयकार वचन मेंबेवनील, चेळानकाति
वचनंकर्णुटनं विरुत्तमायिरुप्पत्तालं उपेक्षिक्क
वेण्णुम्. कणीष्ठाविष्यत्तिलेवा, मर्गेणुरु स्मरुतीः-
इरन्टावतु पत्तें इरन्तालं अक्णीयेप्प विरित्तु ओरु
पाकत्तालं तहूनमं चेय्यवुम्. अन्यपाकत्तेत
अणेत्तु, सक्ताणेकिय पिऱ्हु, मर्गेणुरुत्तियुटनंमरुपपटि
सन्तानमं चेय्यवुम्.

अत्र विशेषः सञ्चहे निरूपितः - ज्येष्ठाविवाहवहौ चेत्
कनीयस्याः करग्रहे । होमस्तयोमृतैका चेत् सर्वेणौपासनाग्निना ।
दध्वा तामन्यया साकं पुनः सन्धानमाचरेत् । कनीयस्या विवाहे तु
होमश्वेलौकिकानले । मृतां दहेत्तदंशेन शिष्टे होमं समाचरेत् ।
तत्तदंशेन दाहस्याद्युगपन्मरणे तयोः इति ।

इति ल वीचेष्म चेऽल्लप्पत्तुलालु ।
संकरहृत्तिलः ज्येष्ठेटयिनं विवाहूर्हाक्णीयिलं
कणीष्ठेटयिनं विवाहूर्होर्हाममं चेय्यप्पत्तिरुन्तु,
अव्विरुवर्कलीलं ओरुत्ति इरन्तालं, अवलो मुमु
अक्णीयालुमं तहृत्तु, मर्ग्गवनुटनं अक्णीसन्तानमं
चेय्तु केाल्लवुम्. कणीष्ठेटयिनं विवाहूर्होर्हाममं
लेलकिकाक्णीयिलं चेय्यप्पत्तिरुन्तालं, मरीत्तवलो
अवलीनं पाकमाण अक्णीयालं तहृक्कवुम्. मेत्तियुलाला
पाकत्तिलं र्होर्हाममं चेय्यवुम्. ओरे समयत्तिलं
इरुवरुमं मरीत्तालं अवरवरीनं अम्चत्तालं अवरवरेत
तहृक्कवुम्.

සමුටිරත්කල්පකාරික්‍යෝරුක්ම - ලොකාග්‍යාවිතරොදාහේ කුතා
සංසුද්ධවහිමාන් । තස්යැකස්‍යා මුතායා තු විභාගොඳග්‍රෙමුනීරිත: ।
විජ්‍ය බඳින් ප්‍රත්‍යක්ෂ මාගයෝස්තු පුථකු පුථකු । පුරාහුත්‍යා
විවිච්‍යාංග්‍රිමිභා බාගැ විනිරිදිශේත් ॥ ප්‍රාග්‍රැස්‍යා දක්ෂීණ
මාගමිතරස්‍යා තත්ත්‍රම । යා තු තස්‍යා මුතා මාරා තත්ත්‍රාග
විනියෝජයේත් । පූර්වීපාසනවහු තු යස්‍යොදාහ: ප්‍රාග: කුත: ।
තස්යැකපත්තීමරණ කුත්සාග්‍රිවිනියුජ්‍යතේ ॥ තත්සත්ස්‍යා: ක්‍රියාන්තේ තු
ස්ථිතයා සහ මාර්යා । ප්‍රත්‍යමොදාහුම් තු කුතා ප්‍රාග්‍රැදාචරේත් । අඛ
විජාය ය: කුරාත්තරත්තාහ ස සංසුඩ්‍යා । අන්‍යතා ත්වග්‍රිසාක්‍රියාත්
පතත්‍යැවෙති නිශ්චය: ඇති ।

ස්ම්‍රිත්‍යුත්‍යුරත්නම්, කල්පකාරීනෙක: - ඉවෙකඩිල්
ඩ්‍රිව්‍යිත්ම රොල්ලප්පට් ගුණ්‍යාතු.. “ බෙලකිකාක්නියිල්
කනිඡ්‍යැංඩයින් ඩිවාහු ලොමත්ත්‍රාත් රොමත්ත්‍රාත් අක්නි
ස්ම්‍රිල්ලර්ක්කම් රොමත්ත්‍රා කොණ්ඩවන්, ඉරු පාර්‍යාය
ඩ්‍රින්තාල, අක්නියා ඩිපාකම් රොමත්ත්‍රාවෙන්ගුම් .
ඩිපාකම් මුණික්කාල රොල්ලප්පට් ගුණ්‍යාතු.
පරත්‍යක්ෂමාන අක්නියායප පිරිත්තු, ඉරණ්‍ය
පාකන්කඩිලුම ඩිවිසි ගන්නුමක්නියා පුර්ණාහු-තියාල්
යඳුත්තු, බෙලතු පාකත්තාත මුත්ත්වගුක්කුම්, ඉටතු
පාකත්තාත කනිඡ්‍යැංඩක්කුමෙන්‍රා නිර්ත්තේසිත්තු ඉරන්ත
පාර්‍යායයින් පාකත්තාත අවගුක්කු ඩිනියෝකික්කවුම්.
ජ්‍යෙංඩයින් ඉංපාලනාක්නියිල් කනිඡ්‍යැ
ඩිවාහු ලොමම රොමත්ත්වගුක්කු, ඉරුවරුල ඉරුත්තියින්
මරණමාගුල, අක්නි මුමුවත්තයුම ඉපයොකිත්තුත
තහුළික්කවුම්. කරියායෙල්ලාම මුදින්තපින්
ජ්‍යෙංඩත්තිගුක්කුම පාර්‍යායයුතන් ඩිවාහු පරතාන
ලොමත්තාත් රොමත්ත්‍රාත් රොමත්ත්‍රාත්, මුණ්පොල පෙන්තානම
රොමත්ත්‍රාත් රොමත්ත්‍රාත් රොමත්ත්‍රාත් රොමත්ත්‍රාත් රොමත්ත්‍රාත්
අවන් ස්ම්‍රිල්ලරත්තාත් තාණ්‍යා කිරුන්. ඉල්ලාවියිල්
අක්නිකඩින් කළප්පිගුල්-පතිතගුකවේ ආකිරුන්. නිස්සයම්.

पद्मीनां युगपन्मरणे संसृष्टस्य गृह्याग्रेविभागमाह
सद्ग्रहकारः— औपासनाग्नौ संसृष्टे समिधौ द्वे प्रतापयेत् । अयं ते
योनिरु क्रत्विय इत्येवं युगपत्ततः ॥ सप्तते अग्न इति तु हुत्वा
पूर्णाहुतिं ततः । अच्छागिरो मतय इति विभज्याग्निं ततः पुनः ॥
आजुह्वानेति समिधं प्रतिष्ठाप्य ततो हुनेत् । अयाश्च व्याहृतीश्वैव घृतं
हुत्वा ततः पुनः ॥ एवं विभज्य चैकेन स्मार्तकर्म समाचरेत् इति ।
अधीधाने तु एकभार्यस्य यजमानस्य पूर्वं मरणे तस्याग्नित्रेतायां
पितृमेधः । पद्म्यास्त्वौपासनेन ।

पत्तिकिळं अनेकारु ओरे लमयत्तिलं इरन्तालं,
लमंसंगुञ्जटमानं ओलपालं नुक्किंकु विपाकत्तेतासं
सेवालंलुकिरुरु लंकंकरलुकारारः । लमंसंगुञ्जटमानं
अक्कियिलं इरण्णु लमित्तुकला ओरे लमयत्तिलं
कायंकसवुमं, 'अयम् तेयेनानि: एन्न लमन्तरत्तालं, पिरकु
'लप्ततेऽक्केन' एन्न लमन्तरत्तालं पुर्णालु-कु
लेहाममं चेयंतु, 'अस्कारिरः' एन्न लमन्तरत्तालं
अक्कियेय इरण्णु पाकमायंपिरित्तु, 'आज्ञालुवानः'
एन्न लमन्तरत्तालं लमित्तेत अक्कियिलं लवेत्तु, पिरकु,
'अयास्स' व्यालु-किळं इवेकलालं आज्ञय लेहाममं
चेयंयवुमं. इववितमं पिरित्तु, ओन्न लवेत्तु
मर्त्तेगुन्नरिलं लमार्त्तकर्मत्तेतासं चेयंयवुमं.
अर्त्ततातानत्तिलेवनीलं, ओरे पार्त्तयेयुतेय
यज्ञमानन्न मुनं मरीत्तालं अवलुक्कु चेरेलताक्किकलीलं
पितृमेतमं, पत्तिकिंकु ओलपालन्तत्तालं तल्लनमं.

तदाहापस्तम्बः — तयोर्यः पूर्वो म्रियेत तस्याग्नित्रेतायां
पितृमेधः सम्पद्यते यः पश्चात्तस्यौपासनेन इति । स्त्री चैवं भर्तीरप्रेत
इति भारद्वाजवचनानुसारेण भर्तृमरणादूर्ध्वमप्यौपासनाग्नि-
परिचयायां सत्यामौपासनेन दाहः, अन्यथा प्रेताग्निसन्धानम्,
निर्मन्येनेति केचित् ।

ஆபஸ்தம்பர்: தம்பதிகளுள் முந்தி இறந்தவருக்கு ச்செரளதாக்னியில் பித்ருமேதம், பிந்தியிறந்தவருக்கு ஒளபாஸநத்தினால் தாஹம் என்று. ‘‘பர்த்தா இறந்த பிறகு ஸ்த்ரீயும் இவ்விதம் அக்னிபரிசர்யை செய்யலாம்’’ என்று பாரத்வாஜ வசனத்தை அனுஸரித்து, பர்த்ரு மரணத்திற்குப் பிறகும் ஒளபாஸநாக்னிபரிசர்யை செய்யும் பகுத்தில் ஒளபாஸநத்தால் தாஹம், இல்லாவிடில் ப்ரேதாக்னி ஸந்தானம், நிர்மந்த்யத்தால் தாஹமென்று சிலர்.

एकभार्यस्य पूर्वं पत्नीमरणे अग्निहोत्रेणौपासनेन च दग्धवा
पुनः परिणीय तथा सहाधानम् । अथैनमुपोषतीत्यारभ्य पुरस्तात्
सभ्यावसत्थ्याभ्यामौपासनेन चेत्यापस्तम्बेन औपासनस्य
प्रतिपत्तिविधानात् । विवाहासामर्थ्यनिश्चये पत्न्याखेतायां
पितृमेधः, यजमानस्य त्वौपासनेन, यः पश्चात्स्यौपासनेन इति
स्मरणात् । अर्धाधाने त्वनेकभार्यस्य यजमानस्य पूर्वं मरणे
तस्याग्नित्रेतायां पितृमेधः, पत्नीनां तु स्वैः स्वैरौपासनांशैः । उक्तं
च भाष्य - अथ चेद्वहुपत्नीको व्यधिधानी विपद्यते । त्रेताग्निमिस्तु
दाह्यस्स्यात् पत्न्यस्त्वौपासनानलैः । प्रत्यक्षाग्निं विभज्यै
यथावदनुपूर्वशः इति ।

இரு பார்யையுடையவனுக்கு முந்தி பத்னீ மரித்தால், அக்னி ஹோத்ரத்தாலும் ஒளபாஸநத்தாலும் தஹித்து மறுபடி விவாஹம் செய்து கொண்டு அவளுடன் ஆதானம். ‘‘அதைநமு போஷ்தி’’ என்றாரம்பித்து, ‘‘புரஸ்தாத் + ஒளபாஸநேநங்சு’’ என்று ஒளபாஸநாக்னிக்கு ப்ரதிபத்தியை ஆபஸ்தம்பர் விதித்திருப்பதால். விவாஹம் செய்யமுடியாதென்று நிச்சயமிருந்தால் பத்னிக்கு மூன்றக்னிகளில் பித்ருமேதம், யஜமானனுக்கோ ஒளபாஸனத்தால் தஹநம். பிந்தி இறந்தவருக்கு ஒளபாஸநத்தினால் என்ற வசனத்தால். அர்த்தா தானத்தில், அனேகபார்யனை யஜமாநன் முந்திமரித்தால் அவனுக்கு

चरेणताकंनीकणालं समस्कारम्, पत्नीकुरुक्तु
अवरवर्कणीलं औपासनाम्चनंकणालं. पाष्ठ्यत्तिलुम
सेवलप्पट्टुंगांतुः - 'अ नेक पत्नीकणायृतेय
अर्त्ततात्तानि मारित्ततालं त्तरेताकंनीकणालं त्तव्यिक्कप्पत
वेण्टुम्. पत्नीकणां औपासनाकुरुक्तीकणालं
त्तव्यिक्कप्पत वेण्टुम्. प्रर्त्यक्षाकंनीय वित्तिप्पति
पूर्ववक्रममाय विपाकम् चेय्तु त्तव्यिक्कवुम्' एन्ऱु.

अत्र केचित् - पूर्वमृतपद्याखेताग्निभिर्दहनविधानं,
पश्चान्मृताया औपासनाग्निना दहनविधानं च सहाधिकारपक्षे । न
त्वज्जतापक्षे । अत एवोक्तं भाष्यकारेण । सूत्रे हि पूर्व मृतस्य
यजमानस्य वैतानिकैरौपासनेन च दहनमनुक्रान्तम्, पद्यास्तु
निर्मन्थेन दहनं वक्ष्यते निर्मन्थेन पद्यीमिति । तत्र कथं
पश्चान्मृतायाः पद्या औपासनसद्भावः । तस्मादौपासनवत्
आहिताग्नेवैतानिकैरौपासनेन च दहनम्, पद्यास्तु निर्मन्थेन
इति । तत्राङ्गतापक्षे सर्वधानेऽधधाने वा पूर्वमृतां पत्नीं निर्मन्थेन
दाहयित्वा विधिवदग्निनुत्सृज्य दारसञ्चहणं कृत्वा
ब्रह्मौदनपचनानन्तरमौपासनाग्निमरण्योः समारोप्य मथित्वा
विधिवदग्न्याधानं कुर्यात् इत्यङ्गत्वपक्षानुसारिण आहुः । यच्चात्र
वक्तव्यं तत्सर्वं यजमानप्रकरणे निरूपितम् ।

இங்கு சிலர்:- 'முந்தி இறந்த பத்னீக்கு
சரெனதாக்னிகளால் தஹநம் விதித்ததும், பிந்தி இறந்தால்
ஒளபாஸநாக்னியால் தஹநம் விதித்ததும் ஸஹாதிகார
பக்ஷத்தில்; அங்கத்வபக்ஷத்திலல்ல. ஆகையாலேயே
பாஷ்யகாரரால் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
ஸமதரத்திலோ முந்தி இறந்த யஜமானனுக்கு
சரெனதாக்னிகளாலும் ஒளபாஸநத்தாலும் தஹநம்
துவக்கப்பட்டது. பத்னீக்கோநிர்மந்த்யாக்னியால் தஹநம்
சொல்லப்படப்போகிறது. "நிர்மந்த்யேந பத்னீம்"
என்பதால். அதில், பிந்தி இறந்த பத்னீக்கு ஒளபாஸநத்தின்

இருப்பு எப்படி? ஆகையால் ஒளபாஸநமுள்ள ஆஹிதாக்னிக்கு ச்ரெளதாக்னிகளாலும் ஒளபாஸநத் தாலும் தஹநம். பத்னிக்கு நிர்மந்த்யத்தினால். அதில் அங்கத்வ பக்ஷத்தில். 'ஸர்வாதான பக்ஷத்திலும் அர்த்தாதான பக்ஷத்திலும், முந்தி இறந்த பத்னியை நிர்மந்த்யத்தினால் தஹித்து விதிப்படி அக்னிகளை உத்ஸர்ஜிநம் செய்து, விவாஹம் செய்து கொண்டு, ப்ரம்ஹேளுதன பாகத்திற்குப் பிறகு ஒளபாஸநாக்னியை அரணிகளில் ஸமாரோபணம் செய்து, மதனம் செய்து விதிப்படி ஆதானம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என்று அங்கத்வபக்ஷத்தை அனுஸரிப்பவர்கள் சொல்லுகின்றனர். இது விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டியதெத்துவோ அது முழுவதும் யஜமான ப்ரகரணத்தில் (வர்ணாச்சரம தர்ம காண்டத்தில்) சொல்லப்பட்டுள்ளது.

दारसञ्जहणानन्तरं अश्याधानात् पूर्वं यजमानमरणे
सञ्जहकारः— यज्ञा मृतस्त्रीक उदुव्या भार्यामग्नीननाधाय मृतो यदि
स्यात् । औपासने तन्तुमतीमयाश्च हृत्वा समारोप्य हृतारणौ तम् ।
प्रेताधानं तु कर्तव्यं तत्पश्चात् पैतृमेधिकम् इति ।

விவாஹம் செய்து கொண்ட பிறகு, ஆதாநத்திற்கு முன் யஜமானன் மரித்தால், ஸங்க்ரஹகாரர்:- யஜமாநன் பத்னியையிழந்து மறுவிவாஹம் செய்துகொண்டு ஆதாநம் செய்வதற்குள் இறந்தால், ஒளபாஸநாக்னியில் தந்துமதி, அயாஸ்ச, இந்த மந்த்ரங்களால் ஹோமம் செய்து, கொண்டுவரப்பட்ட அரணிகளில் ஒளபாஸநாக்னியை ஸமாரோபணம் செய்து, ப்ரேதாதானம் செய்யவும். அதற்குப் பிறகு பைத்ருமேதிகத்தைச் செய்யவும்.

अत्र अरण्याहरणमाह त्रिकाण्डी – नष्टेष्वग्निष्वथारण्योनर्शो
स्वामी म्रियेत चेत् । आहरेदरणिद्वन्द्वमाधानोक्तविधानतः ।
ततोऽग्निशून्यप्रेतोक्तमन्थनादि प्रपद्यते इति । आत्मारूढानल-
मृतिविषये आपस्तम्बः – आत्मारूढेष्वग्निषु यजमानो म्रियेत

लौकिकाग्निमुपसमाधाय प्रेतस्य दक्षिणं पाणिमभिनिधाय तत्पुत्रो
भ्राता वाऽन्यो वा प्रत्यासन्बन्धुः उपावरोहेत्युपावरोहयेत्
पुनस्त्वादित्या इत्यग्निमभिसमिन्धादेवं सर्वेष्वग्न्युपघातेषु इति ॥
भूर्भुवस्सुवः इति सर्वप्रायश्चित्तानि चेति ।

இங்கு அரண்யாஹரணப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது
தீரிகாண்டு “அக்னிகள் நஷ்டங்களான பிறகு, அரணிகளும்
நாசங்களாகி, யஜமானன் மரித்தால், ஆதானத்தில்
சொல்லிய விதிப்படி இரண்டு அரணிகளை
ஸம்பாதிக்கவும். பிறகு நஷ்டாக்னியாய் இறந்த
யஜமாநனுக்குச் சொல்லியபடி மதனம் முதலிய
கர்மத்தைத் துவக்க வேண்டும்” என்று. அக்னிகளை
ஆத்மஸமாரோபணம் செய்து கொண்ட யஜமாநனின்
ம்ருதிவிஷயத்தில், ஆபஸ்தம்பர் - அக்னிகள் ஆத்ம
ஸமாரோபணம் செய்யப்பட்டிருக்கும் பொழுது
யஜமாநன் மரித்தால், லெளகிகாக்னியை உபஸமாதானம்
செய்து, ப்ரேதனின் வலது கையைப் பிடித்துப் புத்ரன்,
ப்ராதா, வேறு ஸமீபபந்து யாராவது “உபாவரோஹ”
என்ற மந்த்ரத்தால் உபாவரோஹணம் செய்வித்து,
“புனஸ்த்வாதித்யா:” என்று ஜ்வலிக்கச் செய்யவும்.
இவ்விதம் அக்னியினுபகாதங்களெல்லா வற்றிலும்.
‘பூர்புவஸ்ஸ-வ:’ என்று ஸர்வப்ராயஸ் சித்தங்களு
முண்டு.

अनेनैव न्यायेनात्मसमारूढौपासनाग्नेः कालद्वयौपासनाति-
क्रमात् पूर्व मृतस्य दक्षिणहस्तेऽग्निमवस्थाप्योपावरोह्य व्याहृत्या
ऽनाज्ञातत्रयेण च चतुर्गृहीतमाज्यं जुहुयात् । एवश्वौपासनोत्पत्तिः
कालद्वयातिक्रमे प्रेताग्निसन्धानेनैव ।

இதே ந்யாயத்தால், ஒளபாஸநாக்னியை
ஆத்மஸமாரோபணம் செய்து கொண்டவனுக்கும்,
இரண்டு கால ஹோமம் அதிக்ரமிப்பதற்குள் மரணத்தில்.
அவனது வலதுகையில் அக்னியை அவஸ்தாபித்து,

உபாவரோஹணம் செய்வித்து, வ்யாஹ்ருதி யாஹும் அநாஜ்ஞாதாதி மூன்று மந்த்ரங்களாஹும் சதுர்க்ரஹீதமான ஆஜ்யத்தை ஹோமம் செய்யவும். இவ்விதமிருப்பதால் ஒளபால் நோத்பத்தியை இரண்டு காலங்களுக்ரமித்தால் ப்ரேதாக்னி ஸந்தானத்தாலேயே செய்யவேண்டும்.

அ ரணிஸமாரோபிதாஸ்மிதிவிஷயே�பி ஭ாரதாஜः -

யद्यात्मन्यरण्योर्बा ஸமாரूଢेष्वग्रिषु யजமானो ஸ்ரியेत ஆயதனாதி கல்பயித்வா யஜமானாயதனே ப்ரேतं நி஧ாய ஗ார்ஹப்த்யாயதனே லௌகிகாஸி-முபஸமா஧ாய ப்ரேதஸ்ய ஦க்ஷிண் பாணிமமிஸஜ்ஜஸ் தட்புத்ரோ ஸ்ராதா வா�ந்யோ வா ப்ரத்யாஸங்கங்நு: உபாவரோஹ ஜாதவேத இம் த் ஸ்வர்஗ாயி லோகாய நய ப்ரஜாநங்நாயு: ப்ரஜாஂ ரயிமஸ்மாஸு ஘ேஹஜஸோ ஦ி஦ிஹி நோ டுராண இதி லௌகிகாஸாக்ராவரோஹயத்ரண்யோர்வா உபாவரோஹ- மந்தேடிதி ।

அரணிஸமாரோபணம் செய்யப்பட்ட அக்னிகளை யுடைய யஜமாநனின் ம்ருதி விஷயத்திலும். பாரத்வாஜர்:- ஆத்மாவிலோ அரணிகளிலோ அக்னிகள் ஸமாரோபிக்கப் பட்டிருக்கையில் யஜமாநன் மரித்தால், ஆயதனங்களைக் கல்பித்து, யஜமாநாயதநத்தில் ப்ரேதனை வைத்து, கார்ஹபத்யாயதநத்தில் லெளகிகாக்னியை ப்ரதிஷ்டை செய்து, ப்ரேதனது வலது கையைப்பிடித்து, அவனது புத்ரங்குவது, ப்ராதாவாவது, ஸமீப பந்துவாவது ‘உபாவரோஹ + துரோணே’ என்ற மந்த்ரத்தால் லெளகிகாக்னியில் உபாவரோஹணம் செய்யவும். அரணிகளிலாவது உபாவரோஹணம் செய்து மதனம் செய்யவும். அரணிகளில் ஸமாருடமானால் அக்னி உத்பத்தி ஸமயத்தில் ப்ரேதனுக்கு அந்வாரம்பம் செய்வித்து இந்த மந்த்ரத்தை ஐபிக்கவும். விஹரணம் முதலியது ஸமானம் என்று. அங்கு “அரண்யோர்வா+மந்தேத்” என்பது வரை ஆத்ம ஸமாரோபண விஷயம். மற்றது அரணி ஸமாரோபண விஷயம். ஆதி யில் சொல்லிய கார்யம் ப்ரேதனை வைப்பது வரையில் இரண்டிலும் ஸமாநம்.

एवमनाहिताग्रेः समित्समारोपणे सति तन्मरणे मृतस्य दक्षिणं पाणिमन्वारभ्य लौकिकाग्रावुपावरोह्य द्वादशगृहीतेनाज्येन तूष्णीं हुत्वा तत्कालहोमं च कृत्वा संस्कुर्यात् । कालद्वयानतिक्रमे न द्वादशगृहीतेन होमः, किन्तु व्याहृत्याऽनाज्ञातत्रयेण च पूर्ववज्ञहुयात् । समारूढौपासनाग्रेभर्यिया मरणे लौकिकाग्रावुपाव रोह्य दाहयेत् ।

இவ்விதம் அநாஹுதாக்னிக்கு ஸமித்ஸமாரோபண மேற்பட்டு அவன் மரித்தால், ம்ருதனது வலது கையை ஸ்பர்சித்து லெளகிகாக்னியில் உபாவரோஹணம் செய்து, த்வாதசக்ருஹீதாஜ்யத்தால் மந்த்ரமில்லாமல் ஹோமம் செய்து, அந்தக் காலத்திய ஹோமத்தையும் செய்து ஸம்ஸ்காரம் செய்யவும். இரண்டு கால மதிக்ரமிக்காவிடில் த்வாதசக்ருஹீத ஹோமம் வேண்டியதில்லை. ஆனால், வ்யாஹ்ருதியாலும், அநாஜ்ஞாதாதி மூன்று மந்த்ரங்களாலும் முன் போல் ஹோமம் செய்யவும். ஒளபாஸநாக்னியை ஸமாரோபணம் செய்துள்ளவனின் பார்யைக்கு மரணமாகில் லெளகிகாக்னியில் உபாவரோஹணம் செய்து தஹிக்கச் செய்யவும்.

आहिताग्रेदेशान्तरमरणे ।

आहिताग्रेदेशान्तरमरणविषये चन्द्रिकायामुक्तम् -
यस्मिन्देशो स्थितो बहिस्ततोऽन्यत्र मृतो यदि । वैताने पाथिका कार्या पूर्णाहुति रथापि वा इति । अग्निहोत्रार्थमृत्विजं परिकल्प्य कार्यवशादेशान्तरं ग्रामान्तरं वा गतस्य तत्र दैवान्मृतस्य लौकिकाग्निना दधस्यास्थीनि त्रेताग्निसमीपं नीत्वा तस्मिन् वैतानिके पाथिकृतीभिष्टं पूर्णाहुतिं वा कृत्वा प्रेतास्थिसंस्कारं कुर्यादित्यर्थः ।

ஆஹிதாக்னி தேசாந்தரத்தில் மரித்தால்

ஆஹிதாக்னி தேசாந்தரத்தில் மரணமடைந்த விஷயத்தில், சந்தரிகையில்:- “எந்தத் தேசத்தில் அக்னி இருக்கின்றதோ அந்தத் தேசத்திற்கு வேறான தேசத்தில் மரித்தால், ச்ரெளதாக்னியில் பாதிக்ருதியையாவது, பூர்ணாஹுதியையாவது செய்யவும்” “அக்னிஹோத்ரத் திற்காக ருத்விக்கைக் கல்பித்து, தன் கார்ய வசத்தால் தேசாந்தரத்திற்கோ, க்ராமாந்தரத்திற்கோ சென்ற ஆஹிதாக்னி அங்கே தைவவசத்தால் மரித்தால், அவனை வெளகிகாக்னியால் தலைத்து, அஸ்திகளை ச்ரெளதாக்னிகளிருக்குமிடத்திற்குக் கொண்டு வந்து, ச்ரெளதாக்னியில் ‘பாதிக்ருதி’ இஷ்டியை, அல்லது பூர்ணாஹுதியைச் செய்து ப்ரேதனுக்கு அஸ்தி ஸம்ஸ்காரம் செய்யவேண்டும்” என்பது பொருள்.

கேचி஦த्र — சரு: பथிகृதः கार्यः பूण्डुतिरथापि वा इति पठित्वा व्याचक्षते । औपासने गृहे विघमाने देशान्तरे लौकिकाग्निना दधस्यानाहिताग्नेरस्थीन्यादाय औपासने शूतेन चरुणा अग्रये पथिकृते स्वाहेति जुहुयात् पूण्डुतिं चेति । पुनः संस्कारपर्यन्तमग्निहोत्रं जुहुयात् । अथ यद्याहिताग्निरन्यत्र प्रेयात् दीप्यमानैर्हृयमानैरग्निभिरासीरन् यावदेवास्याग्निभिः समागमयेरन् आसंस्कारादग्निं जुहुयादग्निसंरक्षणार्थम् । इति बोधायनापस्तम्ब-स्मरणात् ।

இங்கே சிலர்- ‘சரு: பதிக்ருதः கார்யः’ என்று படித்து அதற்கு வ்யாக்யானம் செய்கின்றனர்;- ‘ஓளபாஸநாக்னி க்ருஹத்திலிருக்கும் பொழுது தேசாந்தரத்தில் மரித்த அநாஹிதாக்னியை வெளகிகாக்னியில் தலைத்து, அஸ்திகளை அக்னி ஸமீபத்திற்குக் கொண்டு வந்து, ஓளபாஸநாக்னியில் பக்வமான சருவினால் ‘அக்னைய பதிக்ருதே ஸ்வாஹா’ என்று ஹோமம் செய்யவும். பூர்ணாஹுதியையாவது செய்யவும்’ என்று.

पुनस्संसम्बल्कारम् वरयील अक्णी हेहोत्तरं हेहोमम्
चेय्यवेण्टुम्. “अ॒उ॒हि॒ता॒क्णी॑ तेचा॒न्तरत्ति॑ल
मारी॒त्ता॒ल अ॒क्णी॒कण॑ लम्रक्षी॒त्तु॑ हेहोमम् चेय्यतु॑
केकाण्टिरुक्कं वेण्टुम्. अ॒संत्रिकण॑ अ॒क्णी॑
लम्प॒त्ति॒त्र॒न्त्र॒चेरक्कु॒म वरयील. लम्स्लकारम् वरयील
अ॒क्णी॑ हेहोत्तरं हेहोमम् चेय्यवु॑म, अ॒क्णी॒कण॑
लम्रक्षी॒प्पत्त॒रका॒क” एन्ऱु पोता॒यग्न॒पल्लतम् प
वक्णान्कण॑ला॒ल.

अत्र होमद्रव्यमुक्तं स्मृत्यन्तरे — अन्यदीयेन वत्सेन या गौः
स्नुतपयोधरा । आशारीराहुतेस्तस्याः पयसा होम इष्यते । अन्यस्या
अपि होतव्यं पयसा तदभावतः इति । पारिजाते तु — दूरे साग्निः
पतिः पत्नी मृता स्यादुत साग्निका । दूरे पतिर्मृतस्तत्राप्युत्कर्षः सति
चातजे इति ॥ साग्निरौपासनसहितः पिता दूरस्थः, माता मृता,
अथवा साग्निका माता स्थिता, दूरे पिता मृतः, तदा
औरसपुत्रोऽस्थ्यानयनपर्यन्तं संस्कारं न कुर्यात्
तदसंभवेऽस्थ्यानयन (हुति) पर्यन्तं न संस्कुर्यादित्यर्थः ।
अस्थ्याहरणासम्बवे गृहे विद्यमानेन अग्निहोत्रेण प्रतिकृतिदाहमाह
बोधायनः — अस्थीनि यद्यलब्धानि पर्णैस्तत्पुरुषाकृतिम् । कृत्वा
तद्रुतदिग्भागे दहेयुः पितृमेधतः इति ।

इति॒ल हेहोमत्तरवल्यम् चेत्तल॒प्प पट्टु॒ल॒ल॒तु॑.
मर्त्तिरुरु॒ल॒म्रुती॒यिलः- वेरु॒ कन्न॒रु॒ल॒ ऊट्टप्पट्टु॑
एन्तप्प पक्ष॒ कृषक्किण्न॒ तेहो॑ अप्पक्षवी॒नं पा॒ला॒ल॒ करी॒
लम्स्लकारम् वरयील॒ हेहोमम् चेय्यवेण्टुम्.
अव्वीतमान॒ पा॒ल॒ कृष्ट॒क्का॒वी॒ट॒ल॒ वेरु॒ पक्षवी॒नं
पा॒ला॒ल॒ हेहोमम् चेय्यवु॑म. पा॒रिज्ञा॒त्त॒त्ति॒लो॒वेणी॒लः-
ऽ॒ल॒पा॒ल॒न॒त्त॒त्त॒ल॒ षुट्टि॒य पति॒ तु॒रा॒तेचत्त॒त्ति॑ल॒
इ॒रुक्कु॒म॒पो॒तु॒ पत्त॒न॒ इ॒रुन॒ता॒लु॒म, अ॒ल॒ल॒तु॑ अ॒क्णी॒य॒ट॒ल॒
षुट्टि॒य॒ मा॒ता॒ वी॒ट॒ट॒ल॒रुक्कु॒म॒पो॒तु॒ तु॒रा॒तेचत्त॒त्ति॑ल॒ पि॒ता॒
इ॒रुन॒ता॒लु॒म, ऽ॒ल॒र॒ल॒पु॒त्र॒र॒ल॒ अ॒क्णी॒य॒य॒या॒वतु॑

स्मृत्यन्तरेऽपि –देशान्तरे प्रमीतस्य नरस्यास्थि पुनर्दहेत् ।
 अस्थ्यभावे पलाशोत्थैर्वृत्तैः प्रतिकृतिं दहेत् । तदभावे कुशस्तेषां
 षष्ठ्या च त्रिशतैरपि । चत्वारिंशाच्छ्वरः क्षुसौ दश कण्ठेऽथ बक्षसि ।
 विंशतिस्त्रिंशदुदरे शतार्धं भुजयोः पृथक् । ऊरुद्धये सप्ततिश्च पृथक्
 पृथगुदीरिताः । बाह्यञ्जलीषु च तथा दश पादाञ्जलीषु च । मेद्रेद्वादश
 शिश्नेऽष्टौ ऊर्णासूक्ष्मेण बन्धनम् इति ।

மற்றெரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- தேசாந்தரத்தில் மரித்த மனிதனின் அஸ்தியை மறுபடி தஹிக்கவும். அஸ்தி இல்லாவிடில் பலாச வருகூத்தின் வருந்தங்களால் செய்த ப்ரதிக்ருதியை தஹிக்கவும். வருந்தங்களுமில்லாவிடில் முந்நூற்றற்றுபது குசங்களால் ப்ரதிக்ருதி செய்து அதைத் தஹிக்கவும். 40-சிரஸ்லில், 10-கழுத்தில், 20-மார்பில், 30-வயிற்றில், 50-50 இரண்டு கைகளிலும், 70-70. இரண்டு துடைகளிலும், கைகளிலுள்ளவைகளால் 10- கைவிரல்களில், கால்களிலுள்ளவைகளால் 10- கால்விரல்களில், 12-வருஷனத்தில், 8-சிச்னத்தில் ஆட்டு மயிர்க்கயிற்றிலை சுற்ற வேண்டும்.

आपस्तम्बः – यद्याहिताग्निः प्रोषितः प्रमीतो न ज्ञायते यां
दिशमभिप्रस्थितः स्यात्तामस्याग्निभिः कक्षं दहेयुरपि वा त्रीणि
षष्ठिः शतानि पलाशवृन्तानां तैः कृष्णाजिने पुरुषाकृतिं कुर्वन्ति
पलाशवल्कैः कुशैर्वा सन्धिषु संबेष्ट्य चत्वारिंशता दिरः

प्रकल्पयते दशभिग्रीवां विंशत्योरेत्विंशतोदरं पञ्चाशता पञ्चाशतैकैकं बाहुं ताम्यामेव पञ्चभिः पञ्चमिरञ्जुलीरूपकल्पयते सप्तत्या सप्तत्यैकैकं पादं ताम्यामेव पञ्चभिः पञ्चमिरञ्जुलीरूपकल्पयतेऽषाभिः शिश्रं छादशामिवृष्णम् इति ।

अूपसंपत्तम्पराः- आह्विताक्षी त्रारतेशम् चेन्ऱु इरन्तु अर्नियप्पत्तामविरुन्ताल्, अवन्न एन्तत्त तिक्कै नेऊक्किस्चेचन्ऱुतेऽन्तत्त तिक्कैल, इवन्नुतेटय अक्षीकलाल्ल कक्षैत्तेत्त (चेष्टिकलाटार्न्त चूतरे) तव्रीक्कवुम्. अल्लतु 360-पलाच वरुन्तंतंकलाल्ल करुष्णाज्ञीन्तत्तिल पुरुषाकर्तुत्येष्च चेष्यवुम्. पलाच वल्कक्कंकलालावतु, कुचन्तकलालावतु लन्तत्तिक्षील सर्न्नवुम्. 40-आल्ल चिरस्त, 10-आल्ल कमुत्तु, 20-आल्ल मार्पि, 30-आल्ल वयिरु, 50-50, आल्ल ओंवेवारु कैकल्ल, अवेवक्षीविरुन्त तेऽन्त 5-5कलाल्ल विरल्कैल, 70, 70कलाल्ल ओंवेवारु पातंकल्ल, अवेवक्षीलुल्ल वेवकलालेये 5-5कलाल्ल विरल्कैल, 8-कलाल्ल चिंन्नम्, 12-कलाल्ल वरुष्णाम् एन्ऱु कणक्किट्टु प्रतिकर्त्तियेष्च चेष्यवुम्.

जयन्तकारिकायम् — शारीराणि न विन्देरन् देशान्तरमृतस्य चेत् । दद्याच्छिरस्यशीत्यर्थं ग्रीवायां तु दशैव तु ॥ उरसि त्रिंशतं दद्या द्विंशतिं जठरे तथा । बाहोर्द्धयोः शतं दद्याद दश बाहञ्जुलीषु च । छादशार्धं वृष्णयोरषार्धं जानुजञ्जयोः । दशा पादाञ्जुलीषु स्युरुणासूत्रेण बन्धयेत् । स्खाप्यालङ्घत्य तद्रूपं कुर्याः तस्याभिमर्शनम् इति ।

ज्येन्तकारिकायिल तेशान्तरत्तिल इरन्तवण्णील अस्त्रिकला अटेयाविष्टिल, तरप्पन्कलाल्ल प्रतिकर्त्तियेष्च चेष्यवुम्. अतिल लन्तक्कये:- चिरस्तलील 40, कमुत्तिल 10, मार्पिल, 30 वयिर्न्निल 20, इरण्णु कैकलीलुम् 100, अवेवक्षीविरुन्त तेऽन्त विरल्कैल 10, वरुष्णान्कलील 6-6, चिंन्नत्तिल 4, इरण्णु

තුනැ�කளිලුම் 100, මුදුන්කාල්කள් අතන් කීම්පාකම් මූල්‍යවකளිල් 30, කාල් බිරල්කාලිල් 10, නෙනු කණකකිට්ටු, ඇට්ටු මයිර් කයිර්ගුල් සුර්ති ස්නානම් ජේයවිත්තු අලංකාරම් ජේයත්තු අභ්‍යන්තර ප්‍රෝග්‍රැම් ප්‍රෙතෙනු අපිමර්සික්කවුම්.

ඡැනක: - කුණාජිනේ තු පාලාජාවුත්තූ: කුතා නරාකුතිමු । ඡ්‍යාච්චාරින් ග්‍රීබා ද්‍යා විං්චාත්‍යුර්ස්‍යපි । පඛ්චත්වාරින් දාහ්‍යා: පඛ්ච පඛ්චමිරජුලැ । ත්‍රිං්චාත්සංඛ්‍යාදෝදේ එශනබීජේඩැ දාද්‍යා ක්‍රමාත् । පඛ්චාසිද්ධේ පදයෝරජුලැ පඛ්ච පඛ්චමි: । ත්‍රිං්චාතානි පැඩිඡ්‍රා පාලාජා චුන්තමාහෙතු । අලාමේ යජ්ඝවුක්ෂාණා චුන්තාන්‍යපි සමාහෙතු ඇති । සමුත්‍යන්තරේඩපි - තාභඳි: පාලාජාවර්ණ: ජාරීරාකුතිරිත්‍යාකේ । කුඩාරිත්‍යන්යේ । පර්ජාරැරිත්‍යපරේ ඇති ।

ජෙඬානකාරී:- ක්‍රුණ්ණාජුන්ත්තිල් පළාස ව්‍යුන්තන්කාලාල් පුරුණාකාරත්තෙත් ජේයයවුම්. ඕර්ස්ලිල් 40, කුමුත්තිල් 10, මාර්පිල් 20, කොක්කාලිල් 45, බිරල්කාලිල් 5-5, බයිර්ත්තිල් 30, සිස්නත්තිල් 8, පේජ්ත්තිල් 12, කාල්කාලිල් 65-65, බිරල්කාලිල් තනිත්තනි 5, මූල්‍යවිතම් 360 පළාස ව්‍යුන්තන්කාලාක ගොජුවරවුම්. පළාස ව්‍යුන්ත්තින් ව්‍යුන්තන්කාල් කිනෙන්ක්කාවිඩ්ල්, යංගුරාරහු ව්‍යුන්ත්ත්තාන්කාලින් ව්‍යුන්තන්ත්තාක ගොජුවරලාම්. මත් ගිරුරු ස්ම්රුතියිලුම්:- අව්වෙලව පළාස මූල්‍යකාලාල් සරීරාකාරම් ජේයයොශන්ගු මෙනු සිලර්, ගුස්කාලාල් ගන්න සිලර්, මූල්‍යකාලාල් නාණ්ඩකාලුම් ගනු සිලර්.

පරාජාරොඩපි - ආහිතාග්‍රිද්ජා: ක්‍රිත් ප්‍රවසනු කාලච්‍යාදිත: । දෙහනාජාමනුප්‍රාසස්ථාග්‍රිවර්ති ගුහේ । ප්‍රෙතාග්‍රි රොත්සස්කාර: ත්‍රුයාමුජිප්පාවා: । කුණාජින් සමාස්තීර් කුඩාස්තු පුරුණාකුතිමු । ජ්‍යාච්චාරින් ජාත් ත්‍යාව පාලාජානා ත් චුන්ත: । ඡ්‍යාච්චාරින් ග්‍රීබා ද්‍යාච්චාත් කණ් තු බිං්සේතු ॥ බාහුජ්‍යා ජාතක ද්‍යාදජුලිශා ද්‍යාව ත් । ජාත් තු පාලාජානා ද්‍යාච්චාත් ග්‍රීබා ද්‍යාව ත් ।

दद्यादष्टौ वृषणयोः पञ्च मेहे तु विन्यसेत् । एकविंशतिमूरभ्यां द्विशतं जानु जञ्चयोः । पादाङ्गुलीषु षट् दद्यादज्ञपात्रं ततो न्यसेत् । शम्यां शिश्ने विनिक्षिप्य अरणी मुष्कयोरपि । जुहूं तु दक्षिणे हस्ते वामे तूपभृतं न्यसेत् । पृष्ठे तूलूखलं दद्यात् पृष्ठे च मुसलं न्यसेत् । उरसि क्षिप्य दृष्टदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे । श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्या दाज्यस्थार्लों च चक्षुषोः । कर्णे नेत्रे मुखे घ्राणे हिरण्यशकलं न्यसेत् । अग्निहोत्रोपकरणमशेषं तत्र निक्षिपेत् । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्येकाहुतिं सकृत् । दद्यात् पुत्रोऽथवा भ्राताऽप्यन्यो वाऽपि च बान्धवः । यथा दहनसंस्कारस्तथा कार्यं विचक्षणैः । ईदृशं तु विधिं कुर्यात् ब्रह्मलोकगतिर्ध्रुवा । दहन्ति ये द्विजास्तं तु ते यान्ति परमां गतिम् । अन्यथा कुर्वते कर्म त्वात्मबुद्ध्या प्रचोदिताः । भवन्त्यल्पायुषस्तेन पतन्ति नरकेऽशुचौ इति ।

पराचरामः- आहूतिताकंनीयाणां प्ररामं लृणां तेचान्तरामं चेन्नरिगुन्तं बेपामृतुं कालवसत्तालं मरणमटेन्तु अवलतु अकंनी कंगुलृत्तिविगुन्तालं, अवनुकंकुं प्रेरेताकंनीलौरात्तरं समंस्कारत्तेतकं केणुन्कलां, ऐ मुनी चिरेष्टर्कलोः कंगुष्ठज्ञाज्ञीनृत्तेतै विरीत्तु, अतां मेलं कुसंकलाल, 700 पलाच वंगुन्ततंकलालं पुरुषाकंगुत्तियेषं चेय्यवम्. तलेयिलं 40, कमुत्तिलं 100, केकलील 100, विरलंकलीलं तनीत्तनी 10-10, मुतुकिलं 100, वयिन्नरिलं 20, वंगुष्ठज्ञत्तिलं 8, चिंनत्तिलं 5, तुटेकलील 21, ज्ञानुकंकलां, ज्ञंकेककलां इवेकलील 200, कालविरलंकलीलं तनीत्तनी 6, इवंवितमं सरीराकंगुत्तियेषं चेय्यतु, अतांमेलं यज्ञंगुपात्तरंकलाला सातानामं चेय्यवम्. चम्ययेयेषं चिंनत्तिलुम्, अरणीकलालं वंगुष्ठज्ञंकलीलुम्, ज्ञ-लृ लैव वलतु केयिलुम्, उपपंगुत्तेतै इटतु केयिलुम्, मुतुकिलं उरलेयम्, उलकंकेयेयम्, मार्पीलं कललेयम्, वायीलं अरीचि नेयं त्तिलमं इवेकलायमं वैक्कवम्.

காதில் ப்ரோக்ஷணியையும், கண்களில் ஆஜ்ய ஸ்தாலியையும், காது, வாய், மூக்கு இவைகளில் ஸ்வர்ண சகலத்தையும் வைக்கவும்.அக்னிஹோத்ரோபகரணங்கள் எல்லாவற்றையும் அங்கு வைத்து, ‘அவைள் ஸ்வர்க்காய லோகாய ஸ்வாஹா’ என்று ஒரு ஆஹ-தியைச் செய்யவும். புத்ரன் அல்லது ப்ராதா, அல்லது வேறு பந்து இவ்விதம் செய்யவும். தஹந ஸம் ஸ்காரத்தை விதிப்படி அறிந்தவர்கள் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் செய்தால் சாச்வத ப்ரம்ஹலோக ப்ராப்தியுண்டு. தஹித்தவர் சிறந்த கதியை அடைகின்றனர். தம் புத்திக்குத் தோன்றியபடி விதியை மாறிச் செய்பவர்கள் அல்பாயுஸ்ஸ-களாய் இறந்து அசுத்த நரகத்தில் விழுவார்கள்.

யदा ப्रोषित ஆहிதாஶிர்஦ேஶாந்தரே மியதே அயிஶ ஸ்வ஗ृஹே
வஸதி தदாநீமாஸ்தீரீ கृணாஜினே பாலாஶவृத்தீர்஦ேஹாகृதிஂ
குஶ஬ந்஧ாநிர்மாய தத்வயவேஷு யஜபாत்ராণி நிகிஷ்ய அஸௌ ஸ்வர்஗ய
லோகாய ஸ்வாஹா இத்யாஹுதிஂ ஜுஹாத்தத: கல்பஸூநோக்ப்ரகாரேண குத்து
ஸ்ஸ்கார் ஸமாபயேது, தது ஸ்ஸ்கார்யஸ்யாஹிதாஹே: ஭்ரஹலோகப்ராஸிஃ:,
ஸ்ஸ்கர்து: பரமா ஗திஃ:, அயத்஥ோக்காரிண: பஷ்டித்மன்யஸ்ய
நரகப்ராஸிரித்யர்஥: |

தேசாந்தரம் சென்ற ஆஹிதாக்னி தேசாந்தரத்திலேயே
மரித்தால் அக்னி க்ருஹத்திலிருந்தால், அப்பொழுது,
பரப்பப்பட்ட க்ருஷ்ணாஜிநத்தில், பலாச பர்ணங்களால்
தேஹாக்ருதியைக் குசங்களைக் கட்டுவதால் செய்து,
அதனவயங்களில் யாக பாத்ரங்களை வைத்து, ‘அவைள்
ஸ்வர்க்காய லோகாய ஸ்வாஹா’ என்று ஆஹ-தியைச்
செய்யவும். பிறகு கல்ப ஸமத்ரத்திற் சொல்லிய படி
ஸம் ஸ்காரம் முழுவதையும் முடிக்கவும். அதில்
ஸம் ஸ்கரிக்கப்பட்ட ஆஹிதாக்னிக்கு ப்ரம்ஹ லோக
ப்ராப்தி உண்டாகிறது. ஸம் ஸ்கரிப்பவனுக்குச் சிறந்த
உலகம் கிடைக்கும். இவ்விதம் செய்யாது, பண்டிதங்கள்

तन्नेजा न्निजेन्त्तु इष्टप्पति चेय्तवनुक्तु नरक प्रराप्ति उज्जटाक्षिरतु नन्पतु बिपारुण्.

आपस्तम्बस्तु - आहिताग्निं विजने प्रमीतं तैलद्रोण्या-मवधाय शकटेनाहरन्ति तानि ग्राममर्यादायां प्रतिष्ठाप्याग्नीन् पितृमेधभाण्डं च निर्हरन्ति इति । गृहेऽग्न्यभावे देशान्तरे आहिताग्निमरणे प्रेताधानं कृत्वा दहेत् । प्रेताधानासम्भवे लौकिकाग्निना दग्धस्याहिताग्नेः प्रेताधानाहिताग्नित्रयेण पुनर्दर्हः, न तमन्येन व्रेताग्निभ्यो दहन्तीति नियमात् । एवं विच्छिन्नौपासनस्यानाहिताग्नेमरणे प्रेताग्नि सन्धानम् । देशान्तरे तस्य मरणे लौकिकाग्निना विधिवद्गृहस्यापि प्रेताग्निसन्धानेन पुनर्दर्हः, औपासनेनानाहिताग्निं दहेदिति नियमात् । औपासनेन विनाकृतस्याकिञ्चित्करत्वात् । गृहे सत्यसति वा औपासने प्रेताग्निसन्धानेन औपासनमुत्पाद्य तेन दाहे कृते सति न पुनर्दर्हः, अग्नेदेशान्तरप्रासिर्दूरस्थोऽपि च पुत्रकः । अग्निमुत्पाद्य कर्तव्यं दाहकर्म स्वबन्धुभिः इति स्मरणात् ।

आपस्तम्बप्परोबेवनीलिः- तेचान्तरतत्त्विलं मरीत्त आ॒उ॒ल्ली॒ता॒क॒नी॒ये॒ ऎ॒न्न॒जेन्न॒य॒क॒ क॒टा॒क॒त्ति॒लं व॒व॒त्तु॒ व॒ज्ज॒न्ति॒य॒न्न॒लं क॒का॒न्न॒ु॒ व॒र॒व॒ेव॒न्न॒ु॒म् । अ॒व॒व॒क॒ज॒ल॒ क॒र्क॒रा॒म॒त्ति॒न॒ ऎ॒ल॒ल॒य॒ल॒ व॒व॒त्तु॒, अ॒क॒न॒न॒क॒ज॒ल॒य॒म् । पी॒त्त॒रु॒म॒ेत॒त्त॒त्त॒रु॒ व॒ेव॒न्न॒य॒ त॒र॒व॒य॒न॒क॒ज॒ल॒य॒म् । अ॒न॒क॒ु॒ क॒का॒न्न॒ु॒ प॒पो॒क॒ व॒व॒ेव॒न्न॒ु॒म् । वै॒त्त॒ट॒ल॒ अ॒क॒न॒न॒ि॒ इ॒ल॒ल॒व॒वी॒ट॒ल॒, तेचान्तरतत्त्विलं मरीत्त आ॒उ॒ल्ली॒ता॒क॒नी॒ये॒, प॒रे॒ता॒ता॒न॒म् । चेय्तु अत्तन्न॒लं त॒ह॒री॒क॒क॒व॒म् । प॒रे॒ता॒ता॒न॒म् । ल॒म॒प॒व॒ी॒क॒क॒क॒ता॒ता॒ल॒ ल॒ल॒क॒क॒क॒न॒य॒या॒ल॒ त॒ह॒री॒क॒क॒प॒प॒ट॒ आ॒उ॒ल्ली॒ता॒क॒नी॒क॒ु॒, प॒रे॒ता॒ता॒न॒म् । चेय्तु म॒ु॒न॒रु॒ अ॒क॒न॒न॒क॒ज॒ल॒ च॒र॒र॒ता॒क॒नी॒क॒ल॒ त॒व॒ी॒र॒त्त॒ म॒न॒र॒ अ॒क॒न॒न॒य॒या॒ल॒ त॒ह॒री॒क॒क॒क॒ क॒क॒टा॒तु॒ ए॒न॒रु॒ न॒य॒म॒म॒रु॒प॒प॒ता॒ल॒ । इ॒व॒वी॒त॒ म॒ो॒

விச்சின்னெளபாஸநானை அநாஹிதாக்னியின் மரணத்தில் ப்ரேதாக்னி ஸந்தாநம். தேசாந்தரத்தில் மரித்த அவனுக்கு வெளகிகாக்நியால் விதிப்படி தஹநம் செய்யப் பட்டிருந்தாலும் ப்ரேதாக்னி.ஸந்தாநம் செய்து அதனால் புனர்தஹநம் செய்யவேண்டும். 'ஓளபாஸநாக்னியால் அநாஹிதாக்நியைத் தஹிக்கவேண்டும்' என்ற நியமத்தால். ஓளபாஸநாந்ததால் செய்யாமல் மற்றதால் செய்யப்பட்டது பயனற்றது. வீட்டில் ஓளபாஸநாக்னி இருந்தாலும் இல்லாவிடினும் ப்ரேதாக்னி ஸந்தாந்ததால் ஓளபாஸநாந்ததை உண்டு பண்ணி அதனால் தஹநம் செய்யப்பட்டால் புநர்தாஹம் வேண்டியதில்லை. "அக்னி தூரதேசத்திலிருந்து, புதரனும் தூரதேசத்திலிருந்தால், இறந்தவனின் பந்துக்கள் ஓளபாஸநாக்னியை உத்பாதநம் செய்து தஹந கர்மத்தைச் செய்யவும்" என்று ஸ்மருதி உள்ளது.

गृहे अग्नौ विद्यमाने सति देशान्तरे मृतस्य तस्य
लौकिकाग्निना दग्धस्यास्थीन्याहृत्य पुनरौपासनाग्निना दाहः,
अस्थ्यसंभवे प्रतिकृतिदाहः । निकटदेशो मृतस्य गृहे
विद्यमानमौपासनं नीत्वा तेन दाहः कर्तव्यः । औपासना-
नयनासम्भवे लौकिकाग्निना दग्धा औपासनेन पुनर्दहेत् ।
अस्थिसंस्कारपर्यन्तमन्यदीयेन द्रव्येणौपासनं हावयेत् ।
विच्छिन्नौपासनस्य देशान्तरमरणे पुत्रासन्निधानविषये लौकिकग्निं
केचिदिच्छन्ति ।

வீட்டில் அக்னி இருக்கும் பொழுது தேசாந்தரத்தில் மரித்தவன் வெளகிகாக்னியால் தஹிக்கப்பட்டால், அவனது அஸ்திகளைக் கொண்டு வந்து, ஓளபாஸநாக்னியால் மறுபடி தஹநம் செய்யப்பட வேண்டும். அஸ்தி கிடைக்காவிடில் ப்ரதிக்ருதி தாஹம். ஸமீபதேசத்தில் இறந்தவனுக்கு, வீட்டிலுள்ள ஓளபாஸநாக்னியைக் கொண்டு சென்று அதனால் தாஹம்

चेय्यवुम्. ओ॒ला॒पा॒लन॒त्त॒त्त॒क॑ क॒का॒ञ्जि॒ं॒ व॒ग्रु॒वतु॒
स॒म्प॒वी॒क्का॒वी॒षि॒ल॑ ल॒ल॒ल॒का॒क्क॒नि॒या॒ल॑ त॒ह॒री॒त्त॒तु॒
ओ॒ला॒पा॒लन॒ना॒क्क॒नि॒या॒ल॑ प॒न॒र्ता॒ल॒र॑ म॒च॒य्य॒वुम्.
अ॒स्ति॒स॒म्ब॒ल्का॒रम॑ व॒रे॒र्यि॒ल॑ अ॒न्य॒नु॒त्त॒य॒त्त॒रव्य॒त्त॒ता॒ल॑
ल॒रो॒माम॑ च॒य्य॒वी॒क्क॒वुम्. व॒ी॒क्षि॒न॒न॒ला॒पा॒लन॒न॒
त॒ेश॒न॒न॒त्त॒रत्ति॒ल॑ म॒री॒त्त॒ता॒ल॑, प॒त्त॒रा॒ल॒न॒न॒त्ति॒यि॒ल॑
ल॒ल॒का॒क्क॒नि॒या॒ल॑ च॒य्य॒ला॒म॒ेन॒स॑ छ॒ल॒र॑
अ॒पि॒प्रा॒यप्प॒टुक्क॒र॒क॑.

तथा च पारिजाते – पुत्रो दूरगतः पित्रोर्मृतिरत्र भवेद्यदि ।
लौकिकाग्निभवेदत्र केचिदाहुर्मनीषिणः इति । पूर्वमौपासनाग्निना
दाहे केनापि निमित्तेन पुनर्दहिप्राप्तौ प्रेताग्निसन्धानम् ।
पुनर्दहनिमित्तमग्रे वक्ष्यते ॥ यत्त्वच्यते – अग्नौ सति स्यादथ
देहक्षुसिरस्थ्यस्ति चेदग्निरपेक्षणीयः । अनस्थिकस्याप्यशारीरकस्य
विनष्टव्येषु दक्षिणैव इति, अस्यार्थं केचिदाहुः – अग्नौ गृहे
विद्यमाने सति देशान्तरमृतस्य लौकिकाग्निना दग्धस्यास्थिसम्भवे
गृहे विद्यमानैनौपासनेन पुनरस्थिदाहः । अस्थ्यसम्भवे
प्रतिकृतिकल्पनेन पुनर्दाहः । विनष्टव्येः – विच्छिन्नाग्नेस्तु देशान्तरे
मृतस्य प्रेताग्निसन्धानाहितौपासनेन दग्धस्य अत एवानस्थिकस्य
अस्थिसंस्काररहितस्य, अशारीरकस्य प्रतिकृतिशारीरसंस्कार-
रहितस्य केवलमुदकक्रियैवेति ।

पारीज्ञातृत्तिलः- पुत्ररन्त तुरारतेचत्तिलिरुक्कुम
पोतु, माता, अल्लतु पितावुक्कु इङ्कु मंगुति
ग्रंपट्टाल, इङ्कुलेल॒का॒क्क॒नि॒क॒रा॒व॒र्य॒मा॒कुम्. ऎन्ऱु
छिल पुत्तिमान्क॑न्क॑ च॒का॒ल्लु॒कि॒न्ऱ॒नर॑; मृतव॑ल॑
ओ॒ला॒पा॒लन॒ना॒क्क॒नि॒या॒ल॑ त॒ह॒री॒क्क॒प्प॒ट्ट॒व॒नु॒क्क॒ ए॒ता॒वतु॒ ओ॒रु॒
का॒रण॒त्त॒ता॒ल॑ प॒न॒र्ता॒ल॒र॑ ने॒र॒न॒त्त॒ता॒ल॑, प॒रे॒ता॒क्क॒नि॒
ल॒न॒त्त॒ता॒नम॑ च॒य्य॒वुम्. प॒न॒र्ता॒ल॑ नि॒मि॒त्त॒तम॑ मेल॒
च॒का॒ल्ल॒प्प॒ट्ट॑ प॒ो॒कि॒र॒तु. आ॒न॒ल॑, “अ॒क्क॒न॒ल॑
स॒ति॒+उ॒त्त॒क्क॒री॒य॒व” ऎन्ऱु छ॒ल॒ो॒क॑म॑ क॒ेट॒क॒प्प॒टुकि॒र॒तु.

இந்த ச்லோத்திற்குச் சிலர் இவ்விதம் அர்த்தம் சொல்லுகின்றனர்- ‘அக்னி க்ருஹத்திலிருக்கும் பொழுது, தேசாந்தரத்தில் மரித்து வெளகிகாக்நியால் தலைக்கப்பட்டவனுக்கு அஸ்தி ஸம்பவித்தால் க்ருஹத்திலுள்ள ஒளபாஸனங்களியால் மறுபடி அஸ்திதாஹம். அஸ்தி ஸம்பவிக்காவிடில் ப்ரதிக்ருதியைக் கல்பித்து புநர்தஹநம். விச்சிந்நாக்னியானவன் தேசாந்தரத்தில் மரித்து ப்ரேதாக்னிஸ்ந்தாநம் செய்யப்பட்ட ஒளபாஸநாக்னியால் தலைக்கப்பட்டால், அவனுக்கு அஸ்தி ஸம்ஸ்காரமும் ப்ரதிக்ருதி ஸம்ஸ்காரமும் இல்லையாதலால் உதகக்ரியை மட்டுமே’’ என்று.

அன்யே த்வिम் ஶ்லோகமந்யथா வ்யாචக்ஷதே -

ப்ரேषிதஸ்யானங்ரேலஷ்வாஸ்஥ிகஸ்ய கேவலோடக்கானமாत்ரं ந பிரதிகृதி஦ாஹ: | அங்ந்யஸ்஥ிஶரீராணமந்யதமஸ்ய ஸஸ்தாவ ஏவ ஦ாஹ இதி, தத் அஸ்஥ீனி ய஘லஷ்வானி பரீஸ்தத்புருஷாகृதிம् | குத்வா தத்துதி஦ி஭ாగே ஦ஹேயு: பிதுமே஧த: இதி பூர்வீக்கோ஧ாயநாடி வழுஸ்மृதிவிரோධாத் அனாகர்ணிதவார்த்தஸ்ய பித்ராடே: ப்ரேषிதஸ்ய பஞ்ச஦ஶ ஢ாதஶ- வஷாநிந்தரமஜஸ்஥ிஶரீராஸம்வேऽபி குத்வா தத்ப்ரதிரூபகம् இதி பிரதிகृதி஦ாஹவி஧ானாத्, புருஷாகுதிஹர்ச்ய பியதமா மृதஸ்ஸ்காரணாமுஞ் லோகமभிஜயதीதி ஦க்ஷஸ்யாநஶ்யகர்த்தியத்வ- ஸ்மரணாஞ்சோபேக்ஷ மித்யாஹு: | யதோचிதமந் ஗்ராஹம् | அதோऽஞ்சித்ரோதா- ங்ரேஸ்த்யலாமே ப்ரேதாநேன பிரதிகृதி஦ாஹ: | அநாஹிதாஶே: ப்ரேதாஶி ஸந்஧ாநேன தத்தாஹ: |

மற்றும் சிலரோவெனில் இந்த ச்லோகத்திற்கு வேறு விதமாக வ்யாக்யாநம் செய்கின்றனர்- “தேசாந்தரம் சென்றவன் அநக்னிகளையிருந்து அஸ்தியும் கிடைக்காவிடில், அவனுக்கு உதகதானம் மட்டில், ப்ரதிக்ருதி தாஹமில்லை. அக்னி, அஸ்தி, சரீரம்

‘इवेत्तु गुणं इन्द्रु इगुन्तालं ताणं तहनम्’ एन्ऱु. इवं वितम् चेऽलं वतु, ‘अस्ति कृष्ण किटेक्कावीटिल इलेकलालं पुरुषाकरुद्धियेष्यस्तु अवनं चेन्न तिक्किनं पाकत्तिलं पित्तरुमेत वित्तियालं तहवीक्कवुम्’ एन्ऱु मुनं चेऽलं विय पोतायनाति पहुःस्मं गुरुद्धिकरुक्कु विरोधिप्पतालुम्, तेचान्तरम् चेन्न पिता मुतवियवनीनं वार्तत्तेतये केटकप्पतामविरुन्तालं. अवनुक्कु 15-12 वर्षं उक्कुप्पत्तिलं पित्तरु, अक्कनि, अस्ति, चारीम् इन्द्रुम् इल्लावीटिनुम् ‘प्रतिकरुद्धिचेयतु’ एन्ऱु प्रतिकरुद्धि तहनम् वित्तिकप्पत्तिरुप्पतालुम्, ‘पुरुषाहुःति अक्कनि क्कु मिकप्परीयमाक्कियतु. मंगुठ सम्स्कारत्तालं मंगुठनं प्ररेलोकत्तेत अटेक्किरुन्’ एन्ऱु तहनम् अवस्यम् चेय्यप्पुत्तेवेण्टुमेन्ऱु सम्गुठि इगुप्पतालुम् उपेक्षीक्कत तकुन्त तेन्किन्नर अर्निन्तवर्कृष्ण. इवं विषयत्तिलं उसितमानं पक्षत्तेत करुद्धिक्कवुम्. आकेयालं विच्छिन्नाक्कनि करुन्न आहुरीताक्कनि क्कु अस्ति किटेक्कावीटिलं प्रेरेतातान्ततालं प्रतिकरुद्धितालुम्. अनाहुरीताक्कनि क्कु प्रेरेताक्कनि लन्तान्ततालं प्रतिकरुद्धि तहनम्.

प्रेताग्निसन्धानविधिः

तत्र प्रेताधानस्वरूपमाह गृह्यसञ्जहकारः - अथातः प्रेताधानविधिं व्याख्यास्यामो विच्छिन्नाश्यादिमरणे प्राचीनावीत्यग्न्यायतनान्युद्धत्यावोक्ष्य विहारं कल्पयित्वा प्रेतस्य दक्षिणं हस्तमरण्योरन्वारम्भयित्वा येऽस्याग्रयोऽजुह्वतो मांसकामाः सङ्कल्पयन्ते यजमानं मांसं जानन्तु ते हविषे सादिताय स्वर्गं लोकमिमं प्रेतं नयन्तु इति मथित्वा गार्हपत्यायतने निधाय तूष्णीं विहृत्य दक्षिणाग्निं ततः आहवनीयं प्रणीय द्वादशगृहीतेन स्तुवं पूरयित्वा प्रजापतिं मनसा ध्यायन्नाहवनीये जुहुयात् ततः संस्कारोपक्रमः ।

ப்ரேதாக்னி ஸந்தாநம்

அதில் ப்ரேதா தானஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறார், க்ருஹ்ய ஸங்க்ரஹகாரர்:- இனி ப்ரேதாதான விதியைச் சொல்லுகிறோம். விச்சின்னுக்ந்யாதி மரணத்தில், ப்ராசீனேதியாய் அக்ந்யாயதநங்களைக் கல்லி, அவோகஷித்து, விஹாரத்தைக் கல்பித்து, ப்ரேதனின் வலதுகையை அரணிகளில் அந்வாரம்பம் செய்வித்து, ‘யேஸ்யாக்னயோ + நயந்து’ என்று மதநம் செய்து, கார்ஹாபத்யாயதநத்தில் வைத்து, தூஷ்ணீமாக விஹாரம் செய்து, தகவினாக்னியையும் ஆஹவநீயத்தையும் ப்ரணயநம் செய்து, த்வாதச க்ருஹீதத்தால் ஸ்ருக்கைப் பூரணம் செய்து ப்ரஜாபதியை மனஸால் த்யானித்து, ஆஹவநீயத்தில் ஹோமம் செய்யவும். பிறகு ஸம்ஸ்காரோபக்ரமம்.

आत्मारूढेष्वग्निषु दक्षिणं पाणिं लौकिकेऽग्नौ निधायाध्वर्युः
उपावरोह इत्युपावरोहयेत् तं त्रेधाकृत्वा दाहयेत् । अरण्यास्त्वदेत् तु
मृतस्य दक्षिणेन पाणिनाऽरणिं स्पशीयित्वा मथित्वाऽवरोहयेत्,
आत्मसमारूढेष्वग्निषु पञ्चीमरणे स्वयमेवावरोहयेत्, तं त्रेधा कृत्वा
दाहयेत् । शरीरनान्तो पलाशपर्णैः समूलैः कृष्णाजिने शरीराकृतिं
कुशैर्वेष्टयित्वा विधिवद्वहेत् देशान्तरमरणं श्रवणे आसंस्कारादग्नि-
संरक्षणार्थमग्निहोत्रं जुहुयात् । मृतिश्रवणानन्तरं पाथिकृतीभिष्ठिं
पूणाहुतिं वा जुहुयात् । तदर्थं विहृत्याजस्मान् कुर्यात् । या
गौर्मृतवत्सा वत्सान्तरेण दुह्यते तां दोहयित्वा, प्राचीनावीती
परिस्तरणदभन्, प्रागग्रान् दक्षिणाग्रांस्तृण्यात् । गार्हपत्यस्य
दक्षिणार्थे शीते भस्मन्यधिश्रित्य दक्षिणत उद्वास्य सकृदेव सर्व
परिषेचनादिवर्ज तूष्णीं जुहुयात् । प्रेतं तैलद्रोण्यामवधाय शकटेन
ग्राममर्यादामानयेन्निर्मन्थ्येन वा दग्ध्वाऽस्थीनि कृष्णाजिने सन्बह्य
ब्रह्मचारी नियतभोज्यधः शायी नयेत्तत्राग्रीन् नीत्वा दहेत् इति ।

அக்னிகள் ஆத்மாரூடங்களா யிருக்கும் போது மரித்தால், வலது கையை வெளகிகாக்னியில் வைத்து அத்வர்யு 'உபாவரோஹ' என்ற மந்த்ரத்தால் உபாவரோஹணம் செய்து, அதை மூன்றுக்குச் செய்து தஹிக்கச்செய்யவும். அக்னி அரண்யாரூடமாகயிருந்தால் ம்ருதனுடைய வலது கையினால் அரணியை ஸ்பர்சிக்கச்செய்து மதநம் செய்து அவரோஹணம் செய்விக்கவும். அக்னிகள் ஆத்மாரூடங்களாயிருக்கும் பொழுது பத்நீ மரித்தால் தானாகவே அவரோஹணம் செய்விக்கவும். அதை மூன்றுக்குச் செய்து தஹிக்கச்செய்யவும். சரீரம் காணப்படாவிடில் மூலத்துடன் கூடிய பலாசபர்ணங்களால் க்ருஷ்ணாஜிநத்தில் சரீராக்ருதியைச் செய்து குசங்களால் அதைச் சுற்றி விதிப்படி தஹிக்கவும். தேசாந்தரத்தில் மரணமாகியதாகக் கேட்டால், ஸம்ஸ்காரம் வரையில் அக்னி ஸம்ரகஷணத்திற்காக அக்னி ஹோத்ர ஹோமம் செய்யவேண்டும். ம்ருதி ச்ரவணத்திற்குப் பிறகு பாதிக்ருதிஷ்டயையாவது பூர்ணாஹாதி ஹோமத்தையாவது செய்யவும். அதற்காக விஹரணம் செய்து அஜஸ்ரங்களாய்ச் செய்யவும். எந்தப் பசு கன்று இறந்த பிறகு வேறுகண்றின் உதவியால் கறக்கப்படுகின்றதோ அந்தப் பசுவைக் கறந்து, ப்ராசிநாவிதியாய், பரிஸ்தரண தர்ப்பங்களைக் கிழக்கு நுனியாகவும் தெற்கு நுனியாகவும் பரப்பவும். கார்ஹபத்யத்தின் தகவினபாகத்தில் சிதமான பஸ்மத்தில் அதிசரயணம் செய்து தெற்கிலிறக்கி, ஒரே தடவையாக முழுவதையும் பரிசேஷநம் முதலியதில்லாமல் மந்த்ரமில்லாமல் ஹோமம் செய்யவும். சவத்தை எண்ணெய்க் கடாஹத்தில் வைத்து வண்டியினால் க்ராமத்தின் எல்லைக்குக் கொண்டு வரவும். அல்லது நிர்மந்த்யத்தினால் தஹித்து அஸ்திகளை க்ருஷ்ணாஜிநத்தில் வைத்துக்கட்டி, ப்ரமஹசாரியாக, நியமத்துடன் புஜிப்பவனாக, பூமியில் படுப்பவனாகத் கொண்டு வரவும். அங்கு அக்னிகளைக் கொண்டு போய் தஹிக்கவும்.

ப்ரேतாगிரிஸந்஧ானமாஹாபஸ்தம்஬ः - இந்தாதையே சூचன
பூரித்வா தூண்டி ஹுத்வா ப்ரேதேஸ்தம்த்வா இத்யாடி கர்ம பிரதிபெற்றே இதி ।
தத்தியாக்ஷானே து இந்தாதையே சூதித்வா அதை வ்யாஹ்திமிரயாஶ்வேதி
மஞ்சோனாஜாத்திரயேண சாகிரிஸிங்கி:, மூர்வு: சூதிரிதி
சர்வப்ராயஶ்சித்தம், தத்திர் சர்வப்ராயஶ்சித்தம் சர்வத்திரயே
இதி ச, அநாஜாத்திரயேதி திஸோனாஜாதை ஜுஹுயாடிதி
சாபஸ்தம்஬ேநோக்த்வாடிதி । அஸ்தீ நடை திரய: குஞ்சா: கர்த்துவா வத்ஸரம்
பிரதி இத்யுக்தகுஞ்சாவரண் ச தத்திரத்திரகாலானுஞ்சுன் கார்யம் ।

ப்ரேதாக்னி ஸந்தாநத்தைச் சொல்லுகிறூர்,
ஆபஸ்தம்பர் - த்வாதசக்ருஹீதாஜ்யத்தினால் ஸ்ருக்கைப்
பூரணம் செய்து தூஷ்ணீம் ஹோமம் செய்து
“ப்ரேதேமாத்தயா:” என்பது முதல் கர்மத்தை
ஆரம்பிக்கவும். வ்யாக்யானத்திலோவெனில்:
சதுர்க்கருஹீதாஜ்யத்தினால், வ்யாஹ்ருதிகளாலும்,
‘அயாச்ச’ மந்த்ரத்தாலும், ‘அநாஜ்ஞாதாதி’ மூன்று
மந்த்ரங்களாலும் அக்னிலித்தி. ‘பூர்ப்புவஸ்ஸ-வ:’ என்று
ஸர்வப்ராயஶ்சித்தம். இந்த ஸர்வ ப்ராயஶ்சித்தம்
எல்லாவிடத்திலும் செய்யப்படுகிறது. என்று ‘ஆச்மரத்தயர்’
என்றும், ‘அநுகதமானால் அயாச்ச மந்த்ரத்தால்
ஹோமமாவது செய்யவும்’ என்றும், ‘அநாஜ்ஞாதம்
முதலிய மூன்று ருக்குகளால் அநாஜ்ஞாத விஷயத்தில்
ஹோமம் செய்யவும்’ என்றும் ஆபஸ்தம்பர்
சொல்லியிருப்பதால்’ என்றுள்ளது. ‘அக்னி நஷ்டமானால்
வர்ஷமொன்றுக்கு மூன்று க்ருசரங்கள்’ என்று
சொல்லப்பட்டுள்ள க்ருசராசரணமும், அதித
காலத்திற்கனுகுணமாகச் செய்யப்படவேண்டும்.

बोधायनस्तु - अथ यदि गृहस्थस्यौपासनं विच्छिद्येत
तत्प्राणेषूक्रान्तेषु श्रोत्रियवचनादुद्भरेत् । श्रोत्रियागारा-
द्वाऽहृत्याग्नि मुपसमाधाय संपरिस्तीयज्यं विलाप्योत्पूय

सुक्षम्यौ निष्टप्य संमृज्य सुचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा सप्तते अग्रे इति सप्तव्याहृतिभिश्च हुत्वा पूर्व देवा अपरेण, प्राणापानौ इति द्वाभ्यां मात्वा वृक्षौ संबाधिष्ठाम्, मात्वा वृक्षौ संबाधेथाम् इति च द्वाभ्यां अग्रेऽभ्यावर्तिन्, अग्रे अङ्गिरः (इति द्वाभ्यां एकैकं प्रतिचतुर्गृहीतं गृहीत्वा जुहोति । न ब्रह्मा न प्रणीता न चरुर्न स्विष्टकृतः) पुनरुर्जी सहरथ्या इति चतस्रोऽभ्यावर्तिनीश्च हुत्वा तत ऊर्ध्वं पैतृमेधिककर्म प्रतिपद्यते इति ।

पोतायनरोद्वेषीलः : कंगुरुहूस्तनिनं ओलापासनम् वीच्चिन्नमाणुलं, प्रराणेणात्कर्मणत्तिर्गुप्तं पिऱ्कु चरोत्तरीय वसनत्ताल्लुत्तराणम् चेय्यवुम्. अल्लतु चरोत्तरीय कंगुरुहूत्तिविरुन्तु अकन्तियेकं केऽन्नं उवन्तु उपलमात्वाणम्, परिस्तराणम्, आज्ञ्यविलापनम्, उत्पवनम्, लंगुकं लंगुवं लम्लंकारम् इवेकलासं चेय्तु, लंगुक्किलं सतुर्कंगुरुहौत्ताज्ञ्यत्तालं, 'लप्ततेऽक्केन' ऎन्पत्तालुम्, लप्तते व्याहर्गुतिकलालुम् लेहामम् चेय्तु, 'पुरवम्तेवा:, प्रराणापानेन' ऎन्न इरण्णं उ मन्तरन्कलालुम्, 'मात्वा व्युक्षेण लम्पातिष्टाम्, मात्वा व्युक्षेण लम्पाता तेत्ताम्' ऎन्न इरण्णं उ मन्तरन्कलालुम्, 'अक्केनप्यावर्त्तिन्, अक्केन अन्किरः' ऎन्न इरण्णं उ मन्तरन्कलालुम् (तनीत्तनी सतुर्कंगुरुहौत्तन्कलालं लेहामम् चेय्यवुम्. प्ररम्हर्हा इल्लल, प्ररण्तेता इल्लल, सरु इल्लल, लंविष्टक्करुत् इल्लल) पुनरुर्ज्ञा, लव्हरय्या' ऎन्न रु नान्कु अप्यावर्त्तिनेकलालुम् लेहामम् चेय्तु पिऱ्कु षेपत्तरुमेतिक कर्मत्तेतत् तुवक्कवुम्.

आश्वलायनीयकारिकायां तु — अनाहिताग्रेः प्रेतस्य संस्कारविधिरुच्यते । स्नातः पवित्रपाणिः सञ्चुपविश्य यथाविधि । प्राणानायम्य संस्कर्ता प्राचीनावीत्यनन्तरम् । प्रेतनाम तुष्ट्योक्त्वा विच्छिन्नोपासनस्य तु ॥ करोमि सन्धानमिति होमद्रव्यं

பிரதாய ச | ஆகூரோஜிலி஖்ய யாம்யாந்தமவோக்ஷயாங்நி஧ாய ச | விபரீதம் பரிஸ்தீர்ய ஦க்ஷிணே பான்தாடனம் | ஦ம்஭ேஷு ஦க்ஷிணா஗்ரேஷு ஸாதயேதேகஶ: க்ரமாத் | ப்ரோக்ஷண் ஸுக் ஸுவௌ சைவமாஜ்யஸ்தால்லீ யதாக்ரமம் | உத்பூ ப்ரோக்ஷண் ப்ரோக்ஷய பானானி ச தத:பரம் | ஸஂஸ்கृதம் தூண்மீமாஜ்ய ச ஸம்முஜ்ய ஸுக்ஸுவௌ தத: | ப்ரஸந்யம் பரிஷிச்யாத ஜுஹுயாஜ்வைதேதேஸி | | சத்ரு஗்ரீதேநாஜ்யேந ஹ்யாஶ்ரேத்யநயா க்ராஞ்சா | அதோ ஦ேவா இதி ஦்ராம்யா மனாஜ்யோதிரக்ராஞ்சா தத: | ஸுவேணாத வ்யாஹ்தமிர்ஜுஹுயாஞ்ச பூதக் பூதக் | ததோபஸந்யம் பருக்ஷய நமஸ்கृதம் ஹுதாஶனம் | ஔபாஸநாஹுதி: ஸாயம் ப்ராதஶ ஜுஹுயாங்கூதை: | ப்ரேதஸ்ய ஗ோத்ரநாமாடி ஹிதியாந்தமுரீதேத் | பிதுமே஧ேந வி஧ினா தஷைவைபாஸநாஶினா | ஸக்ளப்ய ஸஂஸ்கரிஷ்யாமீத்யத தம் ஸ்நாபயேஞ்ச்சவம் | கேவலம் வி஘மானாஞ்சை ஸ்நாத்வா ஸக்ளபயேங்குது: | அஸ்தி சேதஹுத: காலே தம் ஹுத்வையாగுரம் வதேத் இதி |

ஆக்வலாயநீயர்களுக்கோவெனில் : சொந்தகர் சொல்லிய ப்ரகாரத்தால், “அயாச்ச” முதலிய ஐந்து மந்த்ரங்களால் அக்னிலித்தி. ஆக்வலாயநீய காரிகையிலோவெனில்:- ம்ருதனான அனுஹிதாக்னியின் ஸம்ஸ்காரவிதி சொல்லப்படுகிறது. ஸம்ஸ்கரத்தா ஸ்நானம் செய்து, பவித்ரபாணியாய், விதிப்படி உட்கார்ந்து, ப்ராணாயாமம் செய்து, ப்ராசினேவிதியாய், ப்ரேதனின் நாம தேயத்தை ஷஷ்டியால் சொல்லி, விச்சிந்நெளபாலநத்திற்கு ஸந்தாநத்தைச் செய்கிறேன், என்று ஸங்கல்பபித்து ஹோமத்ரவ்யதாநம் செய்து, ஸங்கல்பபித்து, தெற்கில் முடியும்படி உல்லேகநம் செய்து, அவோகஷித்து, அக்னியை வைத்து, விபரத்மாய்ப் பரிஸ்தரணம் செய்து, தெற்கில், தெற்கு நுனியாயுள்ள தர்ப்பங்களில், தனித் தனியாய்ப் பாத்ரங்களை ஸாதநம் செய்யவும். ப்ரோகஷனீ, ஸ்ருக், ஸ்ருவம், ஆஜ்யஸ்தாவீ இவைகளை க்ரமமாய் வைக்கவும். ப்ரோகஷனீயை

உத்பவநம் செய்து, பாத்ரங்களை ப்ரோக்ஷித்து, தூஷ்ணீமாய் ஆஜ்ய ஸம்ஸ்காரம் செய்து, ஸ்ருக் ஸ்ருவ ஸம்மார்ஜனம் செய்து, அப்ரதக்ஷினமாய்ப் பரிவேஷநம் செய்து, சதுர்க்ருஹீத ஆஜ்யத்தினால் அக்னியில் ஹோமம் செய்யவும். “அயாச்சு” “அதோதேவா:” என்ற இரண்டு ருக்குகள், மனோஜ் யோதி: என்றருக்கு இவைகளால் ஹோமம் செய்து, ஸ்ருவத்தினால் வ்யாஹ்ருதிகளால் தனித்தனியே ஹோமம் செய்யவும். பிறகு அப்ரதக்ஷினமாய்ப் பரிவேஷநம் செய்து, அக்னியை நமஸ்கரித்து, ஸாயம் ப்ராத: ஒளபாஸநாஹுதிகளை ஆஜ்யத்தால் செய்யவும். ப்ரேதனின் கோத்ரம் நாமம் முதலியவைகளை த்விதீயாந்தமாய்ச் சொல்லி, பித்ர மேதவிதியால் ஒளபாஸநாக்னியால் ஸம்ஸ்கரிக்கின்றேன். என்று ஸங்கல்பபித்து, சவத்தை ஸ்நானம் செய்விக்கவும். அக்னி இருந்தால் கர்த்தா ஸ்நானம் செய்து ஸங்கல்பபிக்கவும். காலத்தில் ஹோமம் செய்யப்படாமலிருந்தால் ஹோமத்தைச் செய்து பிறகு ஸங்கல்பபிக்கவும்.

अत्र पद्यसन्निधाने प्रतिनिधिमाह त्रिकाण्डी – या तु भार्या
विदूरस्था पतिता व्याधिताऽपि वा । अनिच्छुः प्रतिकूला वा तस्याः
प्रतिनिधौ क्रियाः इति । दर्भादिना भार्याप्रतिनिधिं कृत्वा
पूर्वोक्तक्रमेणाग्निं सन्धाय प्रेतेऽमात्या इत्यादि कुर्यात् । असन्निधाने
विशेष उक्तः पितृमेधसारे – दूरभार्ये प्रेते प्रोषितमर्तृकायां
वाऽतीतायां चतुर्गृहीतेनाज्येन सप्त ते अग्ने, सप्त व्याहृतयः, पूर्व
देवा अपरेण, प्राणापानौ, मात्वा वृक्षौ सम्बाधिष्ठाम्, मात्वा वृक्षौ
सम्बाधेथाम्, अग्नेऽभ्यावर्तिन्, अग्ने अङ्गिरः, पुनरूर्जा, सहरस्या
इत्येतैः षोडशाहृतीर्जुहृयात् इति ।

இங்குப் பத்னீ ஸந்திதி யிலில்லாவிடல்,
ப்ரதிநிதியைச் சொல்லுகிறது, த்ரிகாணம்:- 'எந்தப்
பார்யை தூரதேசத்திலிருக்கின்றனரோ, அல்லது

பதிதையோ, வ்யாதியுள்ளவரோ, இச்சை யில்லாதவரோ, ப்ரதிகூலவரோ, அவனுக்கு ப்ரதிநிதியை வைத்து கரிமையைச் செய்யவும்' என்று. தர்ப்பம் முதலியதால் பார்யைக்கு ப்ரதிநிதியைச் செய்து, முன் சொல்லிய க்ரமப்படி அக்னிலந்தாநம் செய்து, "ப்ரேதேமாத்யா" என்பது முதலாகியதைச் செய்யவும். அஸந்நிதி விஷயத்தில் விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. பித்ருமேத ஸாரத்தில்:- பார்யை தூரதேசத்தி விருக்கும் போது புருஷன் இறந்தாலும், பர்த்தாதூரதேசத்திலிருக்கும் போது பார்யை இறந்தாலும், சதுர்க்குறிதமான ஆஜ்யத்தினால் "ஸப்ததே அக்னே. ஏழு வ்யாஹ்ருதிகள், பூர்வம் தேவா:, ப்ராணாபாநெள, மாத்வாவ்ருக்ஷங்கள் ஸம்பாதிஷ்டாம், மாத்வாவ்ருக்ஷங்கள் ஸம்பாதோம். அக்னேப்யாவர்த்தின், அக்னே அங்கிர:, புநரூர்ஜா, ஸஹரய்யா" என்ற மந்தரங்களால் பதினாறு ஆஹ்திகளை வோமம் செய்யவும்.

रजस्वलादिभर्तुमरणे

रजस्वलाद्यग्रिसन्धानमाह बोधायनः - प्रियमाणस्य
 चेद्भार्या सूतिकर्तुमती तु वा । दुर्गा मनस्वर्ती हुत्वा
 ततस्तन्तुमतीमृचम् । उद्धृध्यस्वत्रयखिंशद्वच्याहृत्या च समस्तया ।
 व्याहृत्या त्रिरनाङ्गातमहाव्याहृतिभिस्तथा । हुत्वा चतुर्गृहीतेन
 सर्पिषाऽथास्य संस्क्रिया इति । दुर्गा-जातवेदसे सुनवाम
 सोममित्यृक्, मनस्वती-मनो ज्योतिर्जुषतामित्यृक्, तन्तुमती-
 तन्तुं तन्वन्निति, उद्धृध्यस्व, त्रयखिंशतन्तव इति, महाव्याहृतयः
 - भूरग्रये च पृथिव्यै चेत्याद्याश्रतसः अत्र जुहुयात् । तद्यमो द्वाभ्यां
 वरं दत्वाऽथ संस्क्रियेति केचित् पठन्ति । तत्पक्षे तद्यमो राजा
 भगवान् यस्मिन्नेनमिति द्वाभ्यां च हुत्वा वरं धेनुं दत्वा संस्क्रिया
 कार्या ।

रजुस्वलेल मुतलीयवारिनं पर्त्तुताविनं मरणत्तीलं

रजुस्वलेल मुतलीयवारिनं अकन्नी लन्त्तानत्तेतच्च
चेऽल्लुकिरुर्, पोतायनारः इरन्तवनीनं पारंये
लाक्षिके, अल्लतु रजुस्वलेलयाय इरुन्ताल, तुर्का,
मनस्वति, तन्तुमति, उत्पुत्तयस्व, तरय स्तरीमंसत्,
समस्तव्याहरुति, व्याहरुतिकाळं भून्त्रु,
अनाज्ञातन्तकाळं, महाव्याहरुतिकाळं, इवेकाळा,
सतुर्कंग्रहीताज्ञयत्तिगुलं लेहाममं चेयतु, पिरकु
मंग्रुतनुक्तु समस्कारमं चेययवम्. तुर्का-ज्ञातवेत्तेले
एन्नं रुक्. मनस्वति- तन्तुमंतन्वन्त, एन्पतु,
उत्पुत्तयस्व, तरयस्तरीमंसत्, महाव्याहरुतिकाळं-
पूरक्णयेच मुतलीय नांकु मन्त्रनंकाळं. इवेकाळालं
लेहाममं चेययवम्. इंकु, “तत्यमेमात्वाप्यामं वरम्
तत्वात् समस्करीया” एन्नु चिलंपटिक्किन्नरनार. अन्तप
पक्षुत्तीलं “तत्यमेमाराज्ञापकवानं, यस्मिन्नेनमं एन्नं
इरण्टु मन्त्रनंकाळालुमं लेहाममं चेयतु वरण-
पक्षवेक्केकाटुत्तु समस्कारत्तेतच्च चेयय
वेण्टुमेन्पतु बेपारुलं.

ननु— बह्ल्यं वाऽपि यत् कर्म स्वगृहे प्रतिपादितम् ।
तावन्मात्रे कृते सर्वशास्त्रस्यार्थः कृतो भवेत् इति स्मरणात् स्वगृहे
यावदुक्तं तावदेवानुष्टेयम्, अतो बोधायनीयानामेवैतदनुष्ठानं
नान्येषामिति चेत्, न । स्वगृहानुक्तौ गृह्यान्तरोक्तमपेक्षितम-
विरुद्धमनुष्टेयमेव, सर्वशास्त्राप्रत्ययन्यायेन साकाङ्क्षाणामाकाङ्क्षा-
पूरणस्य कर्तुमुचितत्वात्, सर्वश्रुत्युपसंहाराच्छ्रौतेषूक्तौ यथा
विधिः । सर्वस्मृत्युपसंहारात् स्मार्तेषूक्तस्तथा विधिः इति तथैव
स्मरणात् । अतः न जातु परशास्त्रोक्तं बुधः कर्म समाचरेत्
इत्यादिनिषेधः स्वकल्पसूत्रोक्तानुष्ठानेन परसूत्रोक्तानुष्ठान-
विषयः ।

“அதிகமாயினும் அல்பமாயினும் எந்தக்கர்மம் தனது க்ருஹ்யத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு மட்டில் செய்யப்பட்டால் ஸர்வ சாஸ்த்ரார்த்தமும் செய்யப்பட்டதாகும்” என்று ஸ்மிருதி யிருப்பதால், தனது க்ருஹ்யத்தில் எவ்வளவு சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவே அனுஷ்டிக்கத் தகுந்தது. ஆகையால் போதாயநீயர்களுக்கே இந்த அனுஷ்டாநம், மற்றவருக்கில்லை, எனில், அது இல்லை. ஸ்வக்ருஹ்யத்தில் சொல்லாவிடில், வேறு க்ருஹ்யத்தில் சொல்லப்பட்டதும், அபேக்ஷிதமும், அவிருத்தமாகில், அனுஷ்டிக்கத்தகுந்ததே. ஸர்வசாகாப்ரத்யந்யாயத்தால், ஸாகாங்கஷங்களுக்கு ஆகாங்கஷாபூரணம் செய்வது உசிதமானதால் “ச்செரளதகர்மங்களில் ஸர்வச்சுருதிகளையும் உபலம்ஹரித்து எப்படி விதி சொல்லப்பட்டுள்ளதோ, அவ்விதமே ஸர்வஸ்மிருதிகளையும் உபலம்ஹரித்து ஸ்மார்த்தங்களிலும் விதி சொல்லப்பட்டுள்ளது, என்று ஸ்மிருதி உள்ளது. ஆகையால் ‘‘வித்வான் ஒரு காலும் அந்யசாகையில் சொல்லப்பட்ட கர்மத்தை அனுஷ்டிக்கக் கூடாது’’ என்பது முதலிய நிலேஷதம், தமது கல்பஸ உத்ரத்தில் சொல்லியதை அனுஷ்டிக்காமல், அன்யஸ உத்ரத்திற் சொல்லியதை அனுஷ்டிக்கும் விஷயத்தைப் பற்றியது.

யदாஹ காத்யாயன: — ஸ்வஶாக்வாவி஧ிமுத்ஸுஜ்ய பரஶாக்வாஶ்ரயं ச யத् । கர்த்துமிச்஛தி ஦ுர்மீ஧ா மோஷ தஸ்ய து தத் ஫லம் । யநாமாத் ஸ்வஶாக்வாயாஂ யதோக்தமவிரோධி ச । வி஦்வாஸ்ததனுஷேயமगிஹோநாடி-கர்மவத् இதி । அத ஏவோபனிஷ்க்ரமணமுபநீதாநாமுபவீதधாரண முபாக்ர்மணி ஬்ரஹ்மாரிணாஂ க்ஷௌரமுபவீதধாரண் ஸந்஧்யாவந்஦நாயந்திர-ஜபாடிநி ஆபஸ்தம்஬ாத்துக்கானி ஬ோധாயநாடிமிருக்கானி ஸர்வ ஶிஷா ஆசரன்தி ।

காத்யாயனர்:- தனது சாகையில் சொல்லிய விதியை விட்டு அந்ய சாகையிற் சொல்லியதைச் செய்ய விரும்பும்

துர்ப்புத்தி எவ்வேநு அவனது கர்மபலன் வீணாக ஆகும். எது தனது சாகையில் சொல்லப்படவில்லையோ, பரசாகையில் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ, விரோத மில்லாமலுமிருக்கின்றதோ அதை வித்வான்கள் அனுஷ்டிக்கலாம், அக்னி ஹோத்ராதி கர்மங்களில் போல். ஆகையாலேயே உபநிஷ்க்ரமணம், உபநயநம் செய்யப்பட்டவருக்கு உபவீததாரணம், உபாகர்மத்தில் ப்ரம்ஹசாரிகஞுக்கு கௌஷரம், உபவீததாரணம், ஸந்த்யாவந்தநம், காயத்ரீ ஜபம் முதலியவைகள், ஆபஸ்தம்பர் முதலியவர்களால் சொல்லப்படாவிட்டுனும், போதாயனர் முதலியவர்களால் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவைகளைச் சிஷ்டர்கள் அனுஷ்டிக்கின்றனர்.

स्वसूत्राभावे परसूत्रेण दाहादि ।

स्वसूत्रोक्ता अपि दाहाद्येकोहिष्टपर्यन्ताः । पूर्वाः क्रिया
 अनुष्ठापकस्वसूत्रविदलाभे परसूत्रेणापि कर्तव्याः । तदाह भरद्वाजः
 – अलब्धात्मीयसूत्रस्य श्राद्धान्तं परसूत्रतः । कुर्यात् सपिण्डीकरणं
 स्वसूत्रेणैव नान्यतः इति । अङ्गिरा अपि – सूत्रान्तरेण यद्ग्रधं प्रेतं
 तस्योक्तराः क्रियाः । स्वसूत्रेणैव कर्तव्याः सपिण्डी तु विशेषतः
 इति । उत्तराः - दाहाद्येकोहिष्टपर्यन्ताभ्यः क्रियाभ्यः परा इत्यर्थः ।

ஸ்வஸுத்ரம் கிடைக்காவிடில், அன்யஸுத்ரத்தால்
தழுநம் முதலியவை

தனது ஸால்லப்பட்டுள்ள தாஹம் முதல் ஏகோத்திஷ்டம் வரையிலுள்ளதுமானக்ரியைகளை, செய்விப்பவனை ஸ்வஸுத்ர மறிந்தவன் கிடைக்காவிடில் அன்யஸுத்ரத்தினாலும் செய்யலாம். அதைச் சொல்லுகிறார்.பரத்வாஜர்:- ஸ்வஸுத்ரம் கிடைக்காதவனுக்கு ஏகோத்திஷ்டம் முடியும் வரையில் அன்யஸுத்ரத்தால் செய்யவும். ஸபிண்மகரணத்தை ஸ்வஸுத்ரத்தாலேயே செய்யவேண்டும். அன்யஸுத்ரத்தால் செய்யக்கூடாது. அங்கிரஸ்ஸும் :-

அன்யஸுத்ரத்தால் தஹிக்கப்பட்ட ப்ரேதனின் உத்தரக்ரியைகளை ஸ்வஸுத்ரத்தாலேயே செய்ய வேண்டும். ஸபின்மைகரணமும் அவச்யம் ஸ்வஸுத்ரத்தாலேயே செய்யப்படவேண்டும். உத்தரக்ரியைகள்-தாஹும் முதல் ஏகோத்திஷ்டம் வரையுள்ள க்ரியைகளுக்கு மேற்பட்ட க்ரியைகள் என்று பொருள்.

யாஜுஷிகாண் ஸ்வஶாखாவிஷய஬ோधாயனஸூத்ரஸம்வே ததேவ ஗்ராஹம् । தथாऽஹாஜிரா: - ஸ்வஸ்திரவிஷயமானே து பரஸ்திரேண வர்த்தே । ஬ோதாயனமத் கृதா ஸ்வஸ்திரபலமாகவேத् இதி । எவ் ஸ்வஸ்வஶாகாவிஷயஸூத்ராந்தரஸம்வே ததேவ ஗்ராஹம् । அன்யதா ய: ஸ்வஶாகாா பரித்யज்யேதி பூர்வீக்கடோஷப்ரஸ்ங்காத् ।

யஜுஷ்சாகிகளுக்கு ஸ்வசார்க்கையைச் சேர்ந்த போதாயன ஸுத்ரம் கிடைக்கும் பகுதித்தில் அதையே க்ரஹிக்கவும். அவ்விதமே சொல்லுகிறோர் - அங்கிரஸ் ஸ்வஸுத்ரமில்லாவிடில் அன்யஸுத்ரத்தால் அனுஷ்டிக்கவும். போதாயன ஸுத்ரத்தால் அனுஷ்டித்தால் ஸ்வஸுத்ரானுஷ்டான பலத்தை அடைவான். இவ்விதமே அன்ய சாகிகளும் அவரவர் சாகாவிஷயமன வேறு ஸுத்ரம் கிடைத்தால் அதையே க்ரஹிக்க வேண்டும். அன்யசாகாவிஷய ஸுத்ரத்தை க்ரஹித்தால், “ய: ஸ்வசாகாம் பரித்யஜ்ய” என்று முன் சொல்லிய தோழம் நேரிடும்.

ஸ்வஶாகாவிஷயஸூத்ராலமே ஧ர்மிலோபா஦ிராம் ஧ர்மலோப இதி ந்யாயாஞ்சாகாாந்தரேணாபி ஦ஹந் கார்யம் । அது விஶேஷமாக ஭ாரதாஜ: - யஸ்மிந் ஸ்த्रே விவாஹ: ஸ்யாத்தே ப்ரேதஸ்ய ச கிரியா । பிண்஡ஸ்ஸர்ஜநாத்வாக்கி ஸபிண்டி து ஸ்வஸ்திர: இதி விவாஹஸமயே ஸ்வஸ்திராலமே யென ஸ்த்ரேண விவாஹ: கृத:, தெநைவ ஸ்த்ரேண ஸ்வஸ்திராலமேபி ஸபிண்டிகரணாத்வாக்கி ப்ரேதகிரியா கார்யேதி

कैश्चिद्वचाख्यातम् । शशुरसूत्रेण दाहादिश्राद्धान्तकमणि
कार्यणीति पितृमेधसारे व्याख्यातम् । यथोचितमन्त्र ग्राह्यम् ।

ஸ்வசாகா விஷயமான ஸ-த்ரம் கிடைக்காவிடில் “தர்மிலோபத்தைவிடத் தர்மலோபம் இஷ்டமானது” என்ற ந்யாயத்தால் வேறு சாகையினொவது தஹநம் செய்யத் தகுந்தது. இதில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார், பாரத்வாஜர் எந்த ஸ-த்ரத்தில் விவாஹம் நடந்ததோ அந்த ஸ-த்ரத்தால், ப்ரேதக்ரியையையும் செய்யவும். ஸபின்மகரணத்திற்கு முன் வரையில். ஸபின்மகரணத்தை ஸ்வஸ-த்ரத்தாலேயே செய்யவேண்டும். விவாஹ காலத்தில் ஸ்வஸ-த்ரமறிந்தவன் கிடைக்காததால் வேறு எந்த ஸ-த்ரத்தால் விவாஹம் செய்யப்பட்டதோ அந்த ஸ-த்ரத்தாலேயே, ஸ்வஸ-த்ரம் கிடைத்தாலும் ஸபின்மகரணத்திற்கு முன்னுள்ள ப்ரேதக்ரியையைச் செய்யவேண்டுமென்று சிலரின் வ்யாக்யாநம். மாமஞரின் ஸ-த்ரத்தால் தாஹம் முதல் ச்ராத்தாந்த கர்மங்களைச் செய்யவேண்டுமென்று பித்ருமேத ஸாரத்தில் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு உசிதமான பகுத்தை க்ரஹிக்கவும்.

उपात्ते तु प्रतिनिधौ मुख्यार्थो यत्र लभ्यते । तत्र
मुख्यमनादत्य गौणेनैव समापयेत् इति स्मृत्यर्थसारवचनार्थ-
स्यात्रापि तुल्यत्वेन अन्यसूत्रेण दाहे कृते न मध्ये
स्वसूत्रप्रक्रियावकाशः । यत्तु कात्यायनवचनम् - (अक्रिया)
प्रक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वन्द्विः कार्यकारिभिः । अक्रिया च
परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया । प्रधानस्याक्रियायां तु साङ्गं तत्
क्रियते पुनः । तदज्जकरणे कुर्यात् प्रायश्चित्तं न कर्म तत् इति, तत्
प्रतिपदविहितव्यतिरिक्तविषयम् । यत्तु चन्द्रिकायां परसूत्रेण दाहे
पुनर्दहनमुक्तम् - अनात्मीयेन शास्त्रेण यो दग्धस्तं तु शाखतः
इति, तत् पूर्वोक्तानेकस्मृतिविरोधाच्छिष्टाचारविरोधाच्चोपेक्ष्यम् ।

கெளன்றதை க்ரஹித்து நடத்தும் பொழுது முக்யம் கிடைத்தாலும், அந்த இடத்தில் முக்யத்தை க்ரஹிக்காமல் கெளன்றத்தாலேயே ஸமாப்தி செய்யவும்' என்ற ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரவசனத்தின் அர்த்தம் இங்கும் ஸமாநமானதால், அன்யஸுத்ரத்தால், தஹுநம் செய்தபிறகு ஸ்வஸுத்ரம் கிடைத்தாலும் நடுவில் அதற்கு அவகாசமில்லை. ஆனால், காத்யாயனர் 'கார்யத்தை அனுஷ்டிக்கும் விதவான்கள் கர்ணையை மூன்று விதமாகச் சொல்லுகின்சறனர். அக்ரீயை என்றும், பரோக்தா என்றும், அயதாக்ரீயை என்றும். ப்ரதானத்தைச் செய்யாவிடில் அந்தக் கர்மத்தை மறுபடி ஸாங்கமாகச் செய்யவும். அங்கத்தைச் செய்யாவிடில் ப்ராயஸ்சித்தத்தை மட்டில் செய்யவும். அந்தக் கர்மாவைச் செய்ய வேண்டியதில்லை' என்று சொல்லியிருக்கிறாரே எனில், அது அதற்கென விதிக்கப்பட்டதைத் தவிர்த்த மற்றதைப் பற்றியதாம். ஆனால் சந்தர்கையில், பரஸுத்ரத்தால் தஹித்த விஷயத்தில் புநர்தஹுநம் சொல்லப்பட்டுள்ளதே, 'தனது ஸுத்ரமல்லாத ஸுத்ரத்தால் தஹிக்கப் பட்டவனை ஸ்வஸுத்ரத்தால் தஹிக்கவும்' எனில், முன்சொல்லிய அநேக ஸ்ம்ருதிகளுக்கு விருத்தமா யிருப்பதாலும், சிஷ்டாகார விரோதத்தாலும், உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது.

ஸக்லபாத् பிராக் ஶுஞ்சி: உபவीதா ஦ிநியமஞ் ।

கர்துர்ந்யேषாஂ ச ஸந்஧்யாக்மர்஦ிஷு ஦ஹநஸக்லபாத् பிராக் ஸ்நாநாஞ்சுஞ்சி: - ஆரம்஭ாத் ப்ராய்஦ி ஸாயாத்ஸ்ய ஶுஞ்சிர்மீவிஷ்யதி । ஆரஷே து ச ஸ்ஸ்காரே ஶுஞ்சிஸ்து ஦ஹநாத் பரம் இதி ஸ்மரணாத் । ஸாநாசமனப்ரदக்ஷிணனமஸ்காரப்ராணாயாமானுபவிதி குர்யாத், ப்ராணாயாமே நமஸ்காரே ஸானே சைவ ப்ரதக்ஷிணே । பைதூகே ப்ரேதகृத்யேபி ஹுபவிதம் வி஧ியதே இதி ஸ்மரணாத் ।

संक्षेपपत्तिर्कु मुनि कृति उपवीताति नियमम्

कर्त्तव्यावक्तुम्, अन्यरक्तुम्, तथैव
संक्षेपपत्तिर्कु मुनि सनान्ततालं सन्त्यावन्तनाति
कर्मन्तकलिलं कृति. 'आरम्पत्तिर्कु मुनि सनान्तम् चेयतालं
अवनुक्तुस्तुति उन्टाकुम्. सम्स्कारत्तते आरम्पित्तु
विट्टालं तवन्ततिर्कुप्पि पिऱ्के कृति' एन्ऱु सम्ग्रहति
वचनत्ततालं. सनान्तम्, आसमन्तम्, प्रतक्षिणाम्,
नमस्कारम्, प्राणायामम् इवेवकला उपवीतियाक्षं
चेययवम्. 'पितर्य कर्मत्तिलुम्, प्रोत कर्त्तव्यत्तिलुम्,
प्राणायायम्, नमस्कारम्, सनान्तम्, प्रतक्षिणाम्
इवेवकलिलं उपवीतम् वित्तिक्कप्पटिलुम्' एन्ऱु सम्ग्रहति
इरुप्पतालं.

प्रेतकर्मदौ शुद्ध्यर्थमाचमनप्राणायामावश्यं कार्यौ ।
कर्मविसाने कर्मदौ मृतावाचमनं पुनः । कुर्यात् स्वकर्मसिध्यर्थं
सर्वदा सर्वकर्मसु । ततोऽभ्यन्तर शुद्ध्यर्थं प्राणायामान् समाचरेत्
इति भारद्वाजस्मरणात् । सङ्कल्पप्रभृति दशाहोमात् प्राचीनेषु
कर्मसु कर्ता प्राचीनावीती दक्षिणामुखश्च भवेत् । तथा शुनःपुच्छः
- प्रेतकृत्येषु पित्र्येषु प्राचीनावीतमिष्यते । दक्षिणाग्राश्च दर्माः स्युः
स च वै दक्षिणामुखः इति । मनुरपि - प्राचीनावीतिना सर्वमपसव्य
मतन्द्रिणा । पित्र्यमानिधनात् कार्यं विधिवद्वर्त्पाणिना इति ।
आनिधनात् - मरणमारम्बेत्यर्थः । तथा च बोधायनेन
श्रुत्यर्थोऽभिहितः - प्राचीनावीतं पितृणामिति मृतानामेवेदमुक्तं
भवतीति ।

प्रोतकर्मत्तिनि आत्मियिलं कृतिक्काक आसमन्तम्,
प्राणायामम् इवेवकला अवस्यम् चेययवेण्टुम्.
प्रोतकर्माविनि आत्मियिलुम्, मुष्टिविलुम् आसमन्तम्
चेययवेण्टुम्. 'एप्पेपामृतुम् एल्लाक कर्मन्तकलिलुम्
आत्मयन्तनकलिलं आसमन्तम् चेययवेण्टुम्. पिऱ्कु आन्तर
कृतिक्काक प्राणायामन्तकलास्च चेययवेण्टुम्. एन्ऱु

பாரதவாஜ ஸ்மருதி யிருப்பதால். ஸங்கல்பம் முதல் தசாஹத்தில் செய்யும் ஹோமத்திற்கு முன் உள்ள கர்மங்களில் கர்த்தா ப்ராசினீவீதியாயும் தெற்கு நோக்கியவனுயுமிருக்கவேண்டும். அவ்விதமே, சுனாஃபுச்சர்:- ப்ரேத க்ருத்யங்களிலும், பித்ர க்ருத்யங்களிலும் ப்ராசினீவீதம் விதிக்கப்படுகிறது. தர்ப்பங்கள் தெற்கு நுனியுள்ளவைகளாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தாவும் தக்ஷிணாபிமுகனுயிருக்க வேண்டும். மநுவும் கர்த்தா ப்ராசினீவீதியாய், தர்ப்ப பாணியாய், அப்ரதக்ஷிணமாய், கவனத்துடன், மரணம் முதற்கொண்டு ஸகல பித்ர கர்மத்தையும் விதிப்படி செய்யவேண்டும். அவ்விதமே போதாயனரால் வேதார்த்தம் சொல்லப்பட்டது - ‘ப்ராசினீவீதம் பித்ரணாமிதி ம்ருதாநாமேவேதமுக்தம் பவதி, என.

ஒரு஧ாயனீயே — பிராசிநாவிதிநா கார்ய பிரேதகர்ம ச பைதூகம् । நிவிதிநோ வஹேயஸ்தே ஜாதிநோऽந்யே ச வாஹகா: இதி । ஸக்லபப்ரமூதி பிராசிநாவிதம் கார்யமிதி தத்துஞ்சாக்ஷானேऽமிஹிதம् । ஸக்லபாடை நியம: ஸமृத்யர்஥ஸரேऽமிஹித: - ஆவாஹனேऽ஧்ய ஸக்லபே பிண்஡ானே திலோடகே । அக்ஷ(யா) தாஸனயோ: பாதே ஗ோत்ர நாம ச கிரீதீயேத் இதி । ஸமृத்யந்தரே — ஸ்த்ரை ஸ்வஶக்த்ய ஦ிவிண் ஦த்வா ஸம்யாந பிரத்கிணம் । பரீத்ய தைநுஜாத: கர்ம ஸக்லபயேத்த: இதி । பிதுமேதஸரே ஸக்லபப்ரகாரோऽமிஹித:— அமுகா஗ோத்ரமஸ்முகஶமர்ண் பிரேத, அமுகா஗ோத்ரமஸ்முகநாஸ்ரி பிரேதமிதி வா அமுகாங்கா பைதூமேதிகேந விதிநா ஸ்ஸ்கரிஷ்யாமிதி, ஬்ரஹ்மேதே து ஬்ரஹ்மேத விதிநா இதி ।

போதாயநீயத்தில் :- ப்ரேதகர்ம, பித்ருகர்ம இவை ப்ராசினீ வீதியால் செய்யப்பட வேண்டும். ப்ரேத கர்மத்தில் வாஹகர்கள் ஜ்ஞாதிகளாயினும் அந்யர்களாயினும் நிவீதிகளாய் வஹிக்கவேண்டும். “ஸங்கல்பம் முதல் ப்ராசினீவீதம்

“सेय्यप्पत्तेवेण्टुम्” एन्नरु अथां व्याक्यान्तत्त्विलं
सेवाल्लप्पत्तेवेण्टुम् एवं कल्पम् मुत्तव्यतिलं नियमम्
सेवाल्लप्पत्तेवेण्टुम् एवं कल्पम् यत्त्वान्तत्त्विलः -
आवाहनम्, अर्क्यम्, संकल्पम्, पिण्ठतानम्,
तुलोत्तमम्, अकृष्यम्, आसनम्, पात्यम् इव वक्तव्यिल
कोत्तरम्, नाम इव वक्तव्यां सेवाल्लप्पत्तेवेण्टुम्. मर्त्त्वेभुरु
संमरुत्तीयिलः - संनानम् चेय्तु, यत्तासक्ति तन्तत्त्वक
केकाटुत्तु, लघपयील्लांवर्काणां वलम् वन्त्तु,
अवर्काणालं अनुज्ञातगुण्यप्प धीरकु कर्मसंकल्पत्तत्त्वां
चेय्यवेण्टुम्. संकल्पत्तत्त्वां प्रकारम् सेवाल्लप्प
पत्तेवेण्टुम्. पित्तरुमेता लार्त्तत्त्विलः - इन्तकं कोत्तरमुम्
इन्तकं सर्माव्युमुट्टेय प्रेताणां अल्लतु इन्तकं
कोत्तरमुम् नामाव्युमुट्टेय प्रेतात्तय, अक्कनीयिण्णां
पेत्तरुमेतिक वित्तियालं सम्स्कारिक्कप प्रोक्षिण्णेण्ण
एन्नरु. प्रम्हमेतत्तिलाण्णां प्रम्हमेत वित्तियालं
एन्नरु.

ब्रह्मेधसंस्कारो मोक्षकाङ्क्षिणां श्रोत्रियाणामेव । तथा
चापस्तम्बः - उत्तरं पितृमेधं व्याख्यास्यामो यं ब्रह्मेध इत्याचक्षते
अथाप्युदाहरन्ति - द्विजातीनामपवर्गर्थोऽर्थतस्तत्त्वदर्शिभिः ।
ऋषिभिस्तपसो योगाद्वेष्टितुं पुरुषोत्तमम् । होतृश्च पितृमेधं च
संसृज्य विधिरुत्तरः । होतृश्च पितृमेधं च संसृज्य विधिरुत्तरः ।
विहितस्तु समासेन क्रतूनामुत्तमः क्रतुः इति । अत्र कपर्दिभाष्यम् -
ब्रह्मविद्वचः कर्तव्य इति ब्रह्मेध इत्याचक्षते । अथवा
ब्रह्मनिष्ठानाभिति केचित्, ब्रह्मविद्विर्धीयते इति ।
अथाप्युदाहरन्ति श्रुतिम् । द्विजातीनाभित्यारभ्य क्रतूनामुत्तमः
क्रतुरित्यन्ता श्रुतिरानीयते । द्विजातयो ब्राह्मणा एव इह ।
तेषामपवर्गो मोक्षः । न पुनर्जन्म, एतद्विधानं येभ्यः प्रयुज्यते ।
केचिदपवर्गः स्वर्ग इति वदन्ति, तदयुक्तम्, पूर्वोनैव स्वर्गसिष्ठेः ।
कैदृष्टभिति सन्दिग्धे उच्यते, अर्थतस्तत्त्वदर्शिभिरिति ।

கேனோபாயேநேதி செது, தபஸோ யோगாது । கிமர்஥மேதத்திலைநமிதி செது, வேஷ்டிதும் । வேஷன் - ப்ரவேஶனம், ப்ராஸி: ஸாயுஜ்யமித்யநர்தாந்தரம் । கிஂ வேஷ்டிதுமிதி செது, புருஷோத்தம் - புருஷாணமுத்தம் நாராயணம், தத்ப்ராஸ்யர்஥ம் । தற பிண்டிதார்஥ உச்சதே - திஜாதினா மோக்ஷார்஥ வேதஶாஸ்திரத்திலை: க்ரஷிமிஸ்தபஸ: ப்ரா஧ாந்யாதெதத்திலையித இதி । கிஂ ததிதி செது, ஹோதூந் பிதுமே஧ ச ஸங்ஸ்கிரிய வி஧ியித இதி ।

ப்ரம்ஹமேத ஸம்ஸ்காரம், மோக்ஷத்தை விரும்பிய ச்ரோதரியர்களுக்கே. அவ்விதமே, ஆபஸ்தம்பர்:- மேலான பித்ருமேதமெத்தைச் சொல்வோம். எதை ப்ரம்ஹமேதமென்கிறார்களோ. இங்கு ச்ருதியைக் கொல்லுகின்றனர்;- 'தவிஜாதீநா + க்ரது:' என்று இங்கு கபர்திபாஷ்யம் - ப்ரம்ஹவித்துக்களுக்குச் செய்யத் தகுந்ததாகியதால், 'ப்ரம்ஹமேதம்' எனப்படுகிறது. ப்ரம்ஹநிஷ்டர்களுக்கு என்று சிலர். ப்ரம்ஹவித்துக்களால் விதிக்கப்படுகிறது என்று. இது விஷயத்தில் ச்ருதியையும் கொல்லுகிறார்கள். 'தவிஜாதீநாம்' என்பது முதல் 'க்ரது:' என்பது முடிய உள்ள ச்ருதி உதாஹரிக்கப்படுகிறது. தவிஜாதிகள் ப்ராம்ஹணர்கள் மட்டுமே இங்கு அவர்கட்கு அபவர்கம்=மோக்ஷம், அதற்காக இந்த விதானம் எவர்கட்குச் செய்யப்படுகிறதோ அவர்கட்கு மறுபிறப்பில்லை. சிலர் அபவர்கம் ஸவர்க்கம் என்கின்றனர். அது யுக்தமல்ல. பித்ருமேதத்தாலேயே ஸவர்க்கம் வித்திப்பதால். எவர்களால் காணப்பட்டது என்ற ஹந்தேஹரத்தில் சொல்லப்படுகிறது 'அர்த்தத: தத்வதர்ச்சிபி:' என்று. எந்த உபாயத்தினால் என்றால் 'தபஸோயோகாத்' என்பது. எதற்காக இந்த விதானமெனில், 'வேஷ்டிதும்' என்பதாம். வேஷ்டநம், ப்ரவேசம், ப்ராப்தி, ஸாயுஜ்யம் இவை ஒரே பொருள்ளன பதங்கள். எதை அடைவதற்கெனில், 'புருஷாத்தமம் = புருஷர்களுள் உத்தமங்கள் நாராயணனை' என்றது. அவனை அடைவதற்காம். இதில் சேர்ந்த அர்த்தம்,

चेऽल्लप्पत्तिरहतु. 'प्रराम्भैर्णार्कगुक्कु मेषोक्षुष्ठि तिन्हकाक, वेता चास्तरार्त्त तत्वमन्तर्निन्त गुणिकालं तपस्लीनं प्ररातान्यत्तालं इतु वित्तिकप्पत्तिरहतु' एन्ऱु. अतु एतुवेवनील. 'हेतात्तरुन्त + वित्तियत्ते' एन्ऱु.

भाष्यान्तरे तु — ब्रह्मशब्देन चतुर्होतार उच्यन्ते, ब्रह्म वै चतुर्होतारः । एतद्वै देवानां परमं गुह्यं ब्रह्म । यच्चतुर्होतारः इत्यादिश्रुतेः । मेधो यज्ञः । ब्रह्मसंयुक्तो मेधः, चतुर्होत्संयुक्तो दहनकल्प इति यावत् । तत्रापूर्वमन्ते स्यादिति न्यायेन होतृपितृमेधसमावेशो होतृकाण्डोऽन्ततो भवति, स एष विधिः क्रतूनां मध्ये उत्तमः - श्रेष्ठः । क्रतुरिति गौणनिर्देशः । अश्वमेधादिवद्विशिष्टपारलौकिकफलसाधक इत्यर्थः ।

मन्त्र ग्रन्तु पाष्यत्तिलेवावेवनील - 'प्रराम्भै च स्पत्तत्तालं चतुर्हेताकक्कलं चेऽल्लप्पत्तिरहतु. 'प्रराम्भै वेव + हेतात्तरारः' इतु मुत्तवियस्त्रुतिकालं. मेतम् = याकम्. प्रराम्भै लैसम्युक्तमान मेतम्, चतुर्हेताकक्कलं चैत्रिय तत्त्वाल्लप्पम् एन्पतु बेपारुलं एन्ऱुलातु. अतिल 'पुत्तियतेपि पिंपु चेऽल्ल वेण्णुम्' एन्ऱ न्यायत्तालं, हेतात्तरुमन्तरं रञ्जकालायुम् पित्तरुमेत मन्तरं रञ्जकालायुम् चेस्त्रुक्कुम् बेपामुतु, हेतात्तरुकाण्डम् पिंपु आकिरहतु. अव्वितमाकिय इन्त वित्ति, करतुक्कगुलं उत्तमः = श्रेष्ठमान करतुवाकियतु, एन्ऱु केलानन्तिर्त्तेचम्. अस्वमेतात्तिकालाप्पेपालं चिन्त पारलेलाकिकपलत्तेत्तसं चातिप्पतु एन्पतु बेपारुलं.

पितृमेधेनापि प्रेतस्य पारलौकिसुखावासिमाह आपस्तम्बः - यत्तु श्मशानमुच्यते नानाकर्मणामेषोऽन्ते पुरुषसंस्कारो विधीयते ततः पर मनन्त्यं फलं स्वर्गशब्दं श्रूयते इति । श्रुतिरपि - स एष यज्ञायुधी यजमानोऽसा स्वर्गं लोकमेति इति । बोधायनोऽपि - मृतसंस्कारेणामुं लोकम् इति । संग्रहे - खननं दहनं त्याग इति या

त्रिविधोच्यते । शरीर संस्क्रिया साऽस्य परलोकजयावहा । विधि:
इमशानसंयुक्तो योऽन्यः सञ्चयनादिकः । कर्मोपयुक्त देहस्य
प्रतिपत्त्यर्थ एव सः इति ।

பித்ருமேதத்தினாலும் ப்ரேதனுக்குப் பாரவெளகிக
ஸாக ப்ராப்தியைச் சொல்லுகிறார், ஆபஸ்தம்பர்
:- “யத்துச்மசாந + ச்ரூயதே” என்று. இதன் பொருள்:-
“க்ருஹஸ்தர்கள் சமசாநத்தை அடைந்தனர்.
என்பதோவெனில், அது, அக்னிஹாத்ராதி கர்மங்
களுக்குப் பிறகு, பித்ருமேதமென்கிற புருஷஸம்ஸ்காரம்
விதிக்கப்படுகிறது. பிசாசங்களாகி சமசாநத்திலிருக்க
கிறார்கள் என்ற பொருள்ளை. சமசாநகர்மத்திற்குப் பிறகு
அபரிமிதமான ஸ்வர்க்கமெனும் பெரும் பலன்
கேட்கப்படுகிறது” என்று. ச்ருதியும் இந்த யஜமாநன்
யஜ்ஞாயுதங்களுடன் ஸாகமாக ஸ்வர்க்கத்தை
அடைகிறுன். போதாயனரும்:- பைத்ருமேதிக
ஸம்ஸ்காரத்தால் ஸ்வர்க்க லோகத்தை அடைகிறுன்.
ஸங்க்ரஹத்தில் கநநம், தஹநம், த்யாகம் என்று மூன்று
விதமாயுள்ள எந்தச் சரீரஸம்ஸ்காரம் விதிக்கப்படுகிறதோ
அது ப்ரேதனுக்குப் பரலோகத்தை அடைவிப்பதாகும்.
ஸஞ்சயநம் முதலிய மற்ற க்ரியை, கர்மங்களில்
உபயோகிக்கப்பட்ட தேஹத்திற்கு ப்ரதிபத்தி
கர்மத்திற்காகவேயாம்.

मनुरपि — वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषेकाद्यैद्विजन्मनाम् ।
 कार्यः शरीरसंस्कारः फलवान् प्रेत्य चेह च इति । निषेकाद्यैः -
 श्मशानपर्यन्तैरित्यर्थः । हारीतोऽपि- द्विविध एव संस्कारो भवति
 ब्राह्मो दैवश्च । गर्भधानादिः स्मार्तो ब्राह्मः, पाकयज्ञा हर्वियज्ञाः
 सोमयज्ञाश्चेति दैवः । ब्राह्मसंस्कारसंस्कृतः ऋषीणां समानतां
 सायुज्यं गच्छति, दैवेनोत्तरेण संस्कृतो देवानां समानतां सायुज्यं
 गच्छति इति । एवं च संस्कारस्य मृतातिशयाधायकतया

संस्कारफलस्य संस्कृतैर्गमित्वाभावात् संस्करिष्यामीति
परस्मैपदप्रयोग एवात्र साधुरित्याहुः ।

மனுவும்:- வேத விஹ்நிதங்களாயும், புண்யங்களாயும், நிலேஷகம் முதல் சம்சானம் வரையிலுள்ளவையுமான கர்மங்களால் தவிஜீர்க்குக் கு இஹலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் பலத்தை யளிக்கக் கூடிய சரீரஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட வேண்டும். ஹாரிதரும்:- ப்ராம்ஹம், தைவம் என இரண்டு விதமாயுள்ளது ஸம்ஸ்காரம், கர்ப்பாதாநம் முதல் ஸ்மர்த்யுக்தமாயாகியது ப்ராம்ஹம், பாகயஜ்ஞங்கள், ஹவிர்யஜ்ஞங்கள், ஸோம யஜ்ஞங்கள். என்பவை தைவஸம்ஸ்காரம். ப்ராம்ஹஸம்ஸ்காரத்தால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்டவன் ருஷிகளின் ஸாம்யத்தையும் ஸாயுஜ்யத்தையுமடைகிறுன். தைவமெனும் உத்தரஸம்ஸ்காரத்தால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்டவன் தேவர்களின் ஸாம்யத்தையும், ஸாயுஜ்யத்தையுமடைகிறுன். இவ்விதம், ஸம்ஸ்காரம் ம்ருதனுக்கு அதிசீயத்தைக் கொடுப்பதாகியதால், ஸம்ஸ்கார பலம் கர்த்தாவை அடையாததால், 'ஸம்ஸ்கரிஷ்யாமி' என்று பரஸ்மைபதத்தை ப்ரயோகிப்பதே இங்கு உசிதமாகியது என்கின்றனர்.

प्रेतालङ्करणम्

पुत्रादयः प्रेतं संस्नाप्य वस्त्रगन्धमाल्यादैरलङ्घुर्युः । तथा च कात्यायनः - घृतेनाभ्यक्तमासुत्य सवस्त्रं चोपवीतिनम् । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिश्च भूषयेत् इति । प्रचेताः - स्थानं प्रेतस्य पुत्रादैर्वस्त्रादैः पूजनं ततः । प्रेतं दहेच्छुभैर्गन्धैश्चर्चितं संग्रिभूषितम् इति । स्मृत्यन्तरेऽपि - पुण्यैस्तु गन्धमाल्यादै-र्माधिवाङ्गिसमर्पितौ । यदि प्रेतमलङ्घुर्यात् स याति परमां गतिम् इति ।

ப்ரேதாலங்கரணம்

புத்ரன் முதலியவர்கள் ப்ரேதத்தை ஸ்நானம் செய்வித்து, வஸ்த்ரம், சந்தனம், மாலை முதலியவை களால் அலங்கரிக்கவேண்டும். அலங்கரிக்கவேண்டும். அவ்விதமே, காத்யாயனர்:- ப்ரேதத்தை நெய்யினால் பூசி, ஸ்நானம் செய்வித்து, வஸ்த்ரமும், உபவீதமும் தரிக்கச் செய்து தேஹம் முழுவதிலும் சந்தனத்தைப் பூசி, பிஷ்பங்களாலும் அலங்கரிக்கவேண்டும். ப்ரசேதஸ்:- புரேதத்தைப் புத்ரன் முதலியவர்கள் ஸ்நாநம் செய்வித்து, வஸ்த்ரம் முதலியவைகளால் பூஜிக்கவும். பிறகு நல்ல சந்தனங்களால் பூசப்பட்டதும், புஷ்பமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டதுமான ப்ரேதத்தைத் தஹிக்க வேண்டும். மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும்:- விஷ்ணுபாதத்தில் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்ட புண்யங்களான சந்தனம் மாலை முதலியவைகளால் ப்ரேதத்தை அலங்கரித்தால் அவன் சிறந்த உலகத்தை அடைகிறுன்.

**गौतमः — स्नापयित्वा अलङ्घत्य च दक्षिणाग्रान् दर्मन्
संस्तीर्य तेषु यज्ञैः काष्ठैर्दक्षिणाग्रैर्दर्शचितिं चित्वा प्रेतस्य
केशाश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा स्नापयित्वा च इति । आपस्तम्बः
— अथास्य दक्षिणे विहारं परिश्रिते प्रेतस्य केशाश्मश्रुलोमनखानि
वापयित्वा स्नापयित्वा ग्राम्येणालङ्घारेणालङ्घत्य इति ।
बोधायनेनापि प्रेताहुत्यनन्तरं वपनमुक्तम् ।**

கௌதமர்:- ஸ்நாநம் செய்வித்து, அலங்காரம் செய்து, தெற்கு நுனியாயுள்ள தர்ப்பங்களைப் பரப்பி, அவைகளின் மேல் தெற்கு நுனியுள்ளதும் யஜ்ஞார்ஹங்களுமான காஷ்டங்களால் சிதையைக் கல்பித்து, ப்ரேதத்திற்குக் கேசங்கள், மீசை, ரோமங்கள், நகங்கள் இவைகளை வபநம் செய்வித்து, ஸ்நாநத்தையும் செய்விக்கவும். ஆபஸ்தம்பர்:- ‘பிறகு விஹாரத்திற்குத் தெற்கில் மறைவுள்ள இடத்தில் ப்ரேதனுக்குக் கேசச்மச்ரு

लेला म नकन्कगुंकुं वपनम् चेय्वीत्तु, संनानम्
चेय्वीत्तु, कराम्यमान अलंकारत्ताल अलंकारीत्तु,
एन्ऱुर. पोतायनरालुम् प्रेरताह्नाति कंकुप् पीरुकु
वपनम् चेऽलप्पट्टतु.

अत्र केचिदाहुः - आहिताग्निसंस्कारस्योपक्रमादाहिताग्नेरेव
वपनम्, अनाहिताग्ने: प्रेतस्य वपनं नैव विद्यते । अस्वर्ग्या ह्याहुतिः
सा स्याच्छूदस्पर्शनदूषिता इति शूदस्पृष्टस्य शवहविषो
दुष्टत्वस्मरणात् इति । अपरे तु - सोऽयमेवं विहित एवानाहिताग्ने:
पात्रचयनेष्टकावर्ज इत्यापस्तम्बादिभिरनाहिताग्ने: प्रेतस्य
पात्रचयनेष्टकावर्जितस्य संभावितस्य कर्मजातस्यातिदेशात्
शूदस्पृष्टशवहविषो दुष्टत्वस्मरणस्य विहितव्यतिरिक्तविषयत्वा-
द्वपनानन्तरं स्नानेन तच्छुद्धेश्वानाहिताग्नेरपि वपनमावश्यकमिति
वदन्ति । तथा च गोपालभाष्ये - औपासनं हि
सर्वस्यानाहिताग्नेर्गृहमेधिनो भवति, दक्षिणतोऽग्ने: परिश्रिते देशो
केशरमश्रुवपनादि समानम् इति । अत्र शिष्टाचारानुसारेण
यथोचितं ग्राह्यम् ।

‘इन्कुचं चिलर् इवं वीतम् चेऽल्लुकिन्ऱनरः: -
“आहृताकंनी सम्स्कारत्तते आरम्पित्तु
सूत्तरमिरुप्पतालं आहृताकंनीकुं मट्टिल वपनम्.
अनाहृताकंनीयान प्रेरतत्तिन्कु वपनमिल्लै. ‘कुत्रं
संपर्सित्तालं तुष्टमाक्ये प्रेरतत्तिन्नै खेलामम
संवर्कक्केहेतुवाकातु’ एन्ऱु कुत्रं संपर्गुष्टमान
सववृवीलं साक्कुत्रं तेहोष्मं चेऽल्लुप्पट्टिरुप्पतालं”
एन्ऱु . मर्त्रुम चिलरोबेवनील ‘लेलायमेवम् + वर्ज्ञम्’
एन्ऱु आपस्तम्पर मुतवियवर्कं अनाहृताकंनीयान
प्रेरतनुक्कुप् पात्ररचयनम् इष्टके तवीर्त्तु,
चेय्यक्षेत्र्य मर्त्रकं कर्मन्कलेयेल्लाम अति तेशम
चेय्तिरुप्पतालुम्, कुत्रं संपर्गुष्टवृवीर्तुष्टमेन्ऱ
वसनम् विहृतमान विषयम् तवीर्त्त मर्त्र विषयत्तेप

பற்றியதால், வபநத்திற்குப் பிறகு ஸ்நானத்தால் ப்ரேதனுக்குச் சுத்தியாவதாலும் அநாஹிதாக்னிக்கும் வபநம் ஆவச்யகம்' என்கின்றனர். அவ்விதமே கோபால பாஷ்யத்தில்:- 'அநாஹிதாக்னியான எல்லோருக்கும் ஒளபாலநம் விஹிதம், அக்னிக்குத் தென் புறத்தில் மறையுள்ள இடத்தில் கேச ச்மச்சு வபநம் முதலியது ஸமாநம்'என்றுள்ளது. இவ்விஷயத்தில் சிஷ்டாசாரத்தை அனுஸரித்து உசிதமாகியதை க்ரஹிக்கவும்.

ப்ரெதநிர்ஹரணப்ரகார:

அஹதேன வாஸ்ஸா முखாஞ்சாடனமாஹ காத்யாயனः - முகே வகு
வி஧ாயைந் நிஹரீயுः ஸுதாदயः இதி । ஶாக்஖ாமேதேன ஶாக்஖ாடன-
வகுமாஹ மனுः - ஬ஹுசः ஖ண்டவகுண ஶவं ப்ரஞ்சாடயேநரः ।
அக்ஷப்பிடதேன வகுண யஜுः ஶாக்஖ி ஶவं தथா இதி । ஸ்மृத்யந்தரே து -
பாடமாந்மவஞ்சாட்ய மூலதோஹதவாஸ்ஸா । கர்தா தடேகடேஶாஂ து
குர்யாங்காஸ்ததோத்தரம् இதி । ஆபஸ்தம்஭ः - ஔதும்஬ர்யமிஸந்வாஂ
கृஷ்ணாஜின் ஦க்ஷிணாய்ரிக்ம஧ரலோமாஸ்தீர்ய தஸ்மிந்நேநமுத்தாந் நிபாத்ய
பத்தோடாக்காதேன வாஸ்ஸா ப்ரோண்டோதி இதி । பத்தः - பாடப்ரேஶா, ஦ஶா -
அவசாந் ஸமாஸி஦ேஶா யஸ்ய வாஸ்ஸः தத்பத்தோடஶம्, தேநேत்யர்஥ः । அந்த
கृஷ்ண ஜிநமாஹிதாய்ரிவிஷயம् । அந்யஸ்யாஸந்஦ீமாந்மேவ ।
ஆதும்஬ர்யமிஸந்வாஂ ஦க்ஷிணாய்ரிதாஸமுத்தாந் ஸ்வேஶ்யோடங்காந வாஸ்ஸா
ப்ரஞ்சாட்யேதி ஸ்மரணாத् - ஆசாராஞ் । ஆஸந்வலாமே ஬ோ஧ாயனः -
ଆஸந்வா தல்பேன கடேன வா ஸ்வேஷ்ச ஦ாஸாः ப்ரவயஸா வா வஹேயுரிதி । தே
ஜ நிவீதினோ வஹேயுரிதி ச । ததா ச ஸ ஏவ - அ஥ நிவீதிகார்யாணி
வ்யவாயः, ஸ்ரீப்ரஜாஸஂஸ்காரः, ப்ரேதோஞ்சநமந்யானி மனுஷ்யகார்யாணிதி ।

പ്രേതനിർഹരണ മുദ്ര :-

புதிதான வஸ்தரத்தால் முகத்தை மூடுவதைச் சொல்லுகிறார், காத்யாயனர்:- முகத்தை வஸ்தரத்தால் மறைத்து ப்ரேதனைப் புத்ரர் முதலியவர்கள் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். சாகாபேதத்தால் வஸ்தரபேதத்தைச் சொல்லுகிறார், மனு-ருக்வேதியாகிய மனிதன் துண்டித்த வஸ்தரத்தால் சுவத்தை மூடவேண்டும். யஜ-ச்சாகியாகியவன் துண்டிக்காத வஸ்தரத்தால் மூடவும். மற்றெருநூல்மூலத்தில்:- கர்த்தா, ப்ரேதத்தின் பாதங்களை மட்டும் அடியில் புது வஸ்தரத்தால் போர்த்தி, அந்த வஸ்தரத்தின் ஒரு பாகத்தை க்ரஹி த்து உத்தரீயமாகச் செய்துகொள்ளவும். ஆபஸ்தம்பர்:- அத்திமரத்தாலாகிய ஆஸந்தியில், தெற்குத் திக்கில் கழுத்தின் பாகமுள்ளதும், அடியில் மயிருள்ள பக்கமுள்ளதுமான க்ரஷ்ணாஜிநத்தைப் பரப்பி, அதன்மேல் ப்ரேதனை மல்லாந்தவனுக வைத்து, பாதப்ரதேசத்தில் முடிவுள்ளதரன புதிதான வஸ்தரத்தால் போர்த்தவும். இங்கு, க்ரஷ்ணாஜிநம் ஆஹிதாக்னியைப் பற்றியது. அநாஹிதாக்னிக்கு ஆஸந்திமட்டும். “அத்திமரத்தாலாகிய ஆஸந்தியில் தெற்கு சிரஸ்ஸாள்ளவனுய, மல்லாந்தவனுய் ப்ரேதனை வைத்து வடக்கில் தலைப்புள்ள வஸ்தரத்தால் போர்த்தி, என்று ஸ்ம்ருதி யிருப்பதாலும், ஆசாரமிருப்பதாலும். ஆஸந்திகிடைக்கா விடில், போதாயனர்:- ஆஸந்தியாலாவது, தல்பத்தாலாவது, பாயினாலாவது சற்றி, தாஸர்களாவது, வருத்தர்களாவது வஹிக்கவேண்டும். அவர்கள் நிவீதிகளாக வஹிக்கவேண்டும். அவ்விதமே, போதாயனர்:- இனி நிவீதியாகச் செய்ய வேண்டிய கர்மங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவை மைதுனம், ஸ்திரீ ப்ரஜையின் ஸம்ஸ்காரம், ப்ரேதத்தை வஹித்தல், மற்ற மநுஷ்ய கார்யங்களுமாம்.

आश्वलायनोऽपि – अन्वश्वोऽमात्या अधोनिवीताः
प्रमुक्तशिखा ज्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्याः प्राप्यैकं भूमिभागं

கர்தோ஦கேன ஶமीಶாக்யயா திஃ பிரஸ்வ்யமாயதனந் பரிமுஜந् ப்ரோக்ஷத்யபேத
வித விச ஸ்ர்ப்தாத இதி । ஸ்மृத்யந்தரே - நிவிதினோ வஹேயுஸ்தே
ஐதயோऽந்யே ச வாக்கா: இதி । வசிஷ்ட: - ஔடும்஬ர்யமி஥ாஸன்யா
வஹேதூ஧்வமுக்குங் ஶக்ம. । ந ஗்ராமாமிமுக்குங் நா஧ோ நயேயுர்யம்யஶிர்க்கம் ।
வழா: ப்ரேதஸ்ய பரத: ஞியோ பாலாஶ பூஷ்ட: । அ஧: குதோத்ரீயா: ஸ்யு:
ப்ரவிமுக்கஶிரோருஹா: । ஗ஞ்சேயுர்வாந்தா: பஶாநாங்ரே: ப்ரேதஸ்ய சாந்தரா
இதி ।

ஆச்வலாயனரும் : - பந்துக்கள் நிவீதிகளாய் அவிழ்ந்த சிகை யுள்ளவர்களாய், ஜெயேஷ்டன் முன்னும் கநிஷ்டன் பின்னுமாகச் செல்ல வேண்டும். ஒரு ஸ்தலத்தையடைந்து கர்த்தா, அந்த ஸ்தலத்தை வன்னிக்கிணையுடன் ஜெலத்தினால் மூன்று தடவைதுடைத்து, 'அபேத-' என்ற மந்தரத்தால் ப்ரோக்ஷிக்கவும். ஸ்ம்ருத்யந்தரத்தில் : - ஜஞாதிக்களும், அவரல்லாதவரும், வாஹுகர்களானால் நிவீதிகளாக வறிக்க வேண்டும். வலிஷ்டர் : - அத்திக் கட்டையாலாகிய ஆஸந்தியில், மேல் நோக்கிய சவத்தை வறிக்கவும். க்ராமாபிமுகமாயும், கீழ் நோக்கியதுமாய் வறிக்கக் கூடாது. தெற்கில் சிரஸ்ஸ-ள்ளதாய் வறிக்கவும். வயதிற் பெரியோர்கள் ப்ரேதத்தின் முன் செல்ல-வேண்டும். ஸ்தரீகளும், சிறுவர்களும் பின் செல்ல வேண்டும். எல்லோரும் உத்தரீயத்தைக் கீழே தரித்தவராயும், கட்டப்படாத மயிருடையவர்களாயும் பந்துக்கள் பின் செல்ல வேண்டும். அக்னிக்கும் ப்ரேதத்திற்கும் நடுவில் போகக் கூடாது.

போதாயனவி஘ௌ து - க்ஷீர் ஦धித்யுபக்ரம்ய புரஸ்தாதஸ்திரி ஸ்ஸ்கர்த்தி
முக்கஶி஖ோ மத்யத: ஶக்ம. இதி । அயிஶாக்யோர்மத்யே கர்த்த
஗ஞ்சேடித்யர்஥: । ஸ்மृத்யந்தரே - ப்ரேதஸ்ய பாஷ்யோரங்ரே ந ஗ஞ்சேயு:
கடாசன । யஸ்மாதங்ரே து ஗ந்தூணாமாயு: க்ஷீண் படே படே இதி । அங்ரே து

संभारा नेतव्याः । तथाचापस्तम्बः - अग्नीनग्निभाण्ड-
मग्निहोत्रोच्छेषणं येन चान्येनार्थीभवति न हीनमन्वाहरेयुरथ
तमाददते इति । हीनं कर्मण्यनुपयुक्तं न किञ्चिदप्यन्वाहरेयुः, किन्तु
येन साधनेन कर्मण्यर्थी भवति तदेवान्वाहरेयुरित्यर्थः ।

पोतायन् वीतीयिलो - 'पालं तयीर' ऎன्ऱु
आरम्पित्तु, मुन्ऩेल अक्णी, लम्स्करीप्पवनं (कर्त्ता)
मयिरायविमृत्तवल्लयं सवत्तिनं नुवीलं' ऎन्ऱुलंतु.
अक्णीक्कुमं सवत्तिर्कुमं नुवीलं कर्त्ता चेल्ल
वेण्णुमं ऎन्पतु बेपारुलं. मर्त्तिर्ग्रुरु लम्ग्रुतीयिलः :-
प्परेतत्तिनं पक्कंकंकलीलुमं, मुन्नीलुमं ओरुकालुमं
पोकक्कुटातु. मुन्नं चेल्लपवर्कलीनं आयुलं छव्वेवारु
अष्टियिलुमं कुरेन्त्तु पोकुमं. लम्पपारंकली मुन्नपे
केान्नु पोक वेण्णुमं. अव्वितमें, आपस्त्तमंपारः :-
अक्णीकलं, अक्णी पाण्णटमं, अक्णी त्रेत्तात्तरोक्क
सेष्णेमं, तविर आवस्यकमाक्यवेकलायुमं एत्तत्तुसं
चेल्लवुमं. उपयोकमर्त्तते एत्तत्तुसं चेल्लक्कुटातु.
उपयोकारंहमायुलंतात्तये एत्तत्तुसं चेल्लवुमं.
पिऱ्कु प्परेतत्तते एत्तत्तुसं चेल्लवुमं.

बोधायनीये - अथाग्नोऽथ पात्राणि दध्याज्यं दर्भा राजगवी
यज्ञान्यदप्येवं युक्तं इति । आश्वलायनीये - अथैतां दिशमग्नीन्यन्ति
यज्ञपात्राणि चान्वच्चं प्रेतमयुजोऽमिथुनाः प्रवयसः पीठचक्रेण
गोयुक्तेनेत्येके इति । पितृमेधसारे - अग्रेऽग्निमथ
संभारांस्तिलांस्तप्तुलांश्चरुं पलाशाखां हिरण्यशकलानाज्यं
पात्राणि दर्भाश्मसिकताश्च प्रस्थाप्याथ प्रेतं हरेयुर्न ग्रामाभिमुखं प्रेतं
निहरियुः इति । अत्र हारीतः - न ग्रामाभिमुखं प्रेतं निहरियुः
कथञ्चन । निहरि शवदृष्ट्या तु ग्रामो नश्यति वीक्षितः इति ।

पोतायन्तीयत्तिलः :- पिऱ्कु अक्णीकलं, पिऱ्कु
पात्रंरंकलं, तयीर, नेय, तर्पपंकलं, राज्जकवी

இதுபோன்ற மற்றவையும். ஆக்வலாயநீயத்தில் :- பிறகு இந்தத் திக்கை நோக்கி அக்னிகளைக் கொண்டு செல்லவும். யஜ்ஞ பாத்ரங்களையும், பிறகு ப்ரேதத்தையும் ஒற்றைப் படையான வருத்தர்கள் பீட சக்ரத்தால் கொண்டு செல்லவும். காளைகள் கட்டிய வாஹநத்தால் என்று சிலர். பித்ருமேதஸாரத்தில் :- முதலில் அக்னி, பிறகு ஸம்பாரங்கள், எள், அரிசி, சரு, பலாச்சாகை, ஹிரண்ய சகலங்கள், ஆஜ்யம், பாத்ரங்கள், தர்ப்பங்கள், கல், மணல் இவைகளை அனுப்பி, பிறகு ப்ரேதத்தை எடுத்துச் செல்லவும். க்ராமத்தை நோக்கியதாக ப்ரேதத்தை எடுத்துச் செல்லக் கூடாது. இதில் ஹார்தீர் : - ப்ரேதத்தை க்ராமத்தை நோக்கியதாகக் கடத்தக் கூடாது. அவ்விதம் செய்தால் சவத்தால் பார்க்கப்பட்ட க்ராமம் அழியும்.

மனு : — ஦க्षिणே மூத் ஶந்த புரதாரே நிஹரெ ।
பஞ்சமோத்தரபூர்வீஸ்து யथாஸ்தூர் இதி । புர஗்ரஹாந யாமே
நியம : । நிஹரே ஶதுநிஷே஧ : ஸமயதே – ந விப்ர ஸ்வேஷ திஷ்டுஸு மூத்
ஶதுநே ஹாரயேத் । அஸ்வர்ய ஹாஹுதி : ஸா ஸ்யாஞ்சூதஸஸ்பஶ்சாஷிதா
இதி । விஜானேஶ்வரியே – யஸ்யாநயதி ஶத்ரோ஽ஸ்திரி தூண் காஷ் ஹர்வாஷி ச ।
ப்ரேதத்து ஹி ஸ்தா தஸ்ய ஸ சா஧மேண லிப்யதே இதி ।

மனு : - சூத்ரசவத்தை பட்டனத்தின் தெற்கு வாயில் வழியாகக் கடத்தவும். ப்ராஹ்மண சவத்தை மேற்கு வாயிலாலும், கஷ்தரிய சவத்தை வடக்கு வாயிலாலும், வைச்ய சவத்தைக் கிழக்கு வாயிலாலும் வெளியேற்ற வேண்டும். இங்கு ‘புரம்’ என்றிருப்பதால் க்ராமத்தில் இந்த நியமமில்லை. கடத்துவதிலும் சூத்ரனின் நிஷேதம் ஸ்ம்ருதியிலுள்ளது — “ப்ராஹ்மண சவத்தை, பந்துக்களிருக்கும் பொழுது சூத்ரங்கள் கடத்தக் கூடாது. சூத்ர ஸ்பர்சத்தால் துஷ்டமான அந்தச் சவாஹாதி, ஸ்வர்க்கத்தை அளிப்பதற்கு யோக்யமாகாது” என்று. விஜ்ஞாநேச்வரியத்தில் - எந்த ப்ரேதத்திற்கு, சூத்ரன்

अक्षिणी, चूलं, कट्टलं लग्नीं स्त्रीकां इवेवकौनकं
केकाण्डु वरुकिरेणुते, अवनुक्तु प्रेरेतत्वम्
नप्पेपामुतुम् उल्लातु. अन्त प्रेरेतनं पापत्तुटनुम्
क्षेरुकिरुनं.

आतुरव्यञ्जनम्

आतुरव्यञ्जनप्रकारमाह बोधायनः — अथास्य भार्या:
कनिष्ठप्रथमा: प्रकीर्णकेशो व्रजेयुः पांसूनावपमानाः इति । स एव
— तस्मिन् कालेऽस्यामात्यास्तिसृभिरङ्गुलीभिरुपहत्यं पांसूनं
सेष्वावपन्ते इति । अमात्याः - ज्ञातयः । आपस्तम्बश्च — यदि प्रैति
प्रेतेऽमात्याः प्राचीनावीतिनः केशान् प्रकीर्ण पांसूनावपन्ते इति ।
पांसूनामावपनस्थानमुक्तं भाष्यकारेण — स्वमूर्धस्वंसेषु वा इति ।

तुक्कमुन्नवणीं अटेयाओं

आतुरनीं अटेयाओत्तत्त्वसं चेषाल्लुकिरुर्,
पोतायानाः :- प्रिरु, इरन्तवणीं पार्ययेकांचिन्नियवान्
मुतलाकवुम्, तलै मयिरे विरीत्तवर्कलायुम्, पुमुतिकौनत्त
तन्मेलं त्रुवियवर्कलायुम् चेल्ल वेण्णुम्.
पोतायानाः :- अक्कालत्तिलं प्रेरेतनीं ञुग्नातिकां
मून्नरु विरल्कलालं युमुतियय ऎटुत्तुत्त तेहांकणीलं
पोट्टुकं केाल्लावुम्. अुपस्तम्परुम् :-
इरन्तानुकिलं, इरन्त प्रिरु, अमात्यर्कां, (पन्तुक्कां)
प्रराचिनावीतिकलायं मयिरे विरीत्तुकं केाण्डु पुमुतियय
पोट्टुकं केाल्लावुम्. पुमुतिययपं पोट्टुपं
केाल्लामिटमं पाष्यकाररालं चेषाल्लपंपट्टुलातु.
तन्कां तलैकणीलावतु, तेहांकणीलावतु ऎन्नरु.

पथिबलिविधिः

अनन्तरं कर्तव्यमाह कात्यायनः — आमपात्रेऽनमादाय
प्रेतमग्निपुरस्सरम् । एकोऽनुगच्छस्तस्यर्धिर्घर्षं पर्युत्सृजेद्द्विः ।

अर्धमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । सव्यञ्जान्वाच्य शनकैः
सतिलं पिण्डानवत् इति । पिण्डानविधिना आदहनं
इमशानपर्यन्तं, स्वगृह्योक्तविधिनाऽनं प्रक्षिपेदित्यर्थः ।

வழியில் பலிபோடும் விதி

பிறகு செய்ய வேண்டியதைச் சொல்லுகிறார் - காத்யாயனர் : - குளையில் சுடப்படாத மண்பாத்ரத்தில் அன்னத்தை வைத்து எடுத்துக் கொண்டு அக்னியை முன்னிட்டுக் கொண்டு ஒருவருக்கத் தொடர்ந்து செல்லவும். அந்த அன்னத்தைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுமசாநம் வரையில் சில இடங்களில் தெற்குமுகமாக உட்கார்ந்து முழங்காலை மடக்கி என்னுடன் பிண்டதாந விதிப்படி பூமியில், க்ருஹ்யத்தில் சொல்லிய விதிப்படி போட வேண்டும்.

शवाग्निपतनप्रायश्चित्तम् ।

अत्र शवाग्निपतने प्रायश्चित्तमुक्तं सङ्ग्रहे ।
ग्रामश्मशानयोर्मध्ये पतिते तु शवानले । पुनः कर्म प्रकुर्वीत
प्रेताहुतिपुरस्सरम् इति । (प्रायश्चित्तपुरस्सरमिति पाठान्तरम्) तदा
प्रायश्चित्तं - कृच्छ्रद्वयं दत्त्वा प्रेताहुतिपूर्वकं कर्म कुर्यात् । इदं च
कृत्स्नाग्निपतने, प्रणीतार्ध्यसोमस्कन्नादौ दृष्टन्यायस्यात्रापि
तुल्यत्वात् । एकदेशपतने तु तदुद्घृत्य संयोजयेत् ।

சவாக்னி விழுந்தால் ப்ராயச்சித்தும்

சவாக்னி விழுந்தால் ப்ராய்ச்சித்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸங்க்ரஹத்தில் :- க்ராமத்திற்கும் ச்மசாநத்திற்கும் நடுவில் சவாக்னி விழுந்துவிட்டால், ப்ரேதாஹாதி முதலாகக் கர்மத்தை மறுபடி செய்யவும். ‘ப்ராய்ச்சித்த புரஸ்ஸரம்’, என்றெரு பாடமுண்டு. அதற்கு, கருசர த்ரவ்யதாநம் செய்து, ப்ரேதாஹாதி

हेहोमम् मुतलाक कर्मम् चेय्य वेण्णुमेन्ऱु
पेपारुन्. इवंवितम् चेऽल्लियतु, अक्णि मुमुवतुम्
विमुन्त विषयत्तिल्. प्ररणीतेत, अर्क्यम्, लोमम्
इन्वक्ळं संकन्नमावतु मुतलियतिल् काणप्पाटुम्
न्यायम् इन्कुम् समममाक्यताल्. संवल्प पाकम्
विमुन्ताल् अतेत एतुत्तुच्चेऽर्त्तुक्केकाळंलावुम्.

दहनदेशनिरूपणम्।

दहनदेशमाह गौतमः – आग्नेयां वाऽथ नैरकृत्यां दाहदेशं
प्रकल्पयेत् । उद्भास्य कण्टकान् वृक्षान् वानस्पत्यौषधीरपि ।
जर्घवाहुमितं याम्यं खातं प्रागदक्षिणायनम् । पञ्चारत्नमितं
कुर्यादधस्ताद् द्वादशाङ्गुलम् । दक्षिणाग्रान् कुशांस्तीर्यं तिलान्
क्षिस्ताऽथ याज्ञिकैः । काष्ठैरुर्धर्ममुखं दद्यान्न नग्नं तु यथाहविः इति ।
आग्नेयां नैरकृत्यामिति ग्रामापेक्षयाऽभिहितम् । आश्वलायनः –
भूमिभागं खानयेदक्षिणापूर्वस्यां दिशि दक्षिणापरस्यां वा
दक्षिणाप्रवणं प्रागदक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यगदक्षिणाप्रवणमित्येके ।
यावानुद्भाहुकः पुरुषस्तावदायामं व्याममात्रं तिर्यग्वितस्त्यवा-
गभित आकाशं इमशानम् इति ।

तहन तेच निरूपणम्

तहनिप्पतरं कुरीय तेचत्तेतक्सं चेऽल्लुकिर्गार.
केकात्तमारः :- कर्रामत्तिरं कु आक्णेय तिक्किलावतु, नीर्गुति
तिक्किलावतु तहन तेचत्तेतक्सं कल्पपीक्कवुम्. अन्कुलां
मुट्क्ळं, मरंक्ळं, चेटिक्ळं, केकाटिक्ळं इवरं रेयकर्त्त्र,
केकयेटुप्पु अलावुलातुम्, तेत्रं कुत तिक्किलुलातुम्,
अक्णि तिक्किलं नीन्नं ततुम्, ऐन्तु मुमु प्ररमाणमुलातुम्,
अटियिलं 12- अन्कुलमुलातुम् आक्य कुमिययेवट्टि,
अतिल् तेत्रं कु नुनीयाकत्तं तर्पपन्क्ळैलाप्प परप्पि,
तिलंक्ळैलाप्प पोपट्टु, यज्ञं गुर्लूमाण कट्टेटक्ळैलाप्प
पोपट्टु, प्रेरतत्तेत मेल् मुकमाक वैवत्तुत

தஹிக்கவும். நக்னமாய் தஹிக்கக் கூடாது. ஹவில்ஸஸப்போல். ஆச்வலாயன் :- தென் கிழக்கிலாவது, தென் மேற்கிலாவது, தெற்கில் தாழ்ந்ததாக அல்லது தென்கிழக்கில் தாழ்ந்ததாகப் பூமி பாகத்தை வெட்ட வேண்டும். தென் மேற்கில் தாழ்ந்துள்ளதாக என்று சிலர். மனிதனின் கையெடுப்பு உயரமுள்ள விஸ்தார முடையதும், ஒரு மார்ப அகலமுள்ளதும், குறுக்கில் ஒரு சான்றுள்ளதும், நான்கு புறங்களிலும் அவகாசமுள்ளதாயும் இருக்க வேண்டும் ச்மசாநம்.

आपस्तम्बः :- दहनदेशं जोषयते दक्षिणाप्रत्यकूप्रवणं
 मनिरिणमसुषिरमनूषरमभञ्जुरमनुपहतमविस्तग्दार्यमनुपच्छिभप्रवणं
 यस्मादक्षिणाप्रतीच्य आपो निस्सृत्योदीच्य एत्य महानदीमवेत्य
 प्राच्यः संपद्यन्ते समं वा सुभूमिं बहुलौषधिं यस्मादारात् क्षीरिणो
 वृक्षाः कण्टकिनश्च इति । यत्र तृणानि नोत्पद्यन्ते तदिरिणम्,
 ततोऽन्यदनिरिणम् । यत्र मूषिकादिकृतसुषिरं न विद्यते तदसुषिरम् ।
 ऊष(र)ाः = मृद्विशेषाः, ते यत्र न विद्यन्ते तदनूषरम् । शैथिल्य-
 रहितमभञ्जुरम् । यत् पुरुषान्तरदहन चण्डालनिवासादिभिरुपहतं न
 भवति तदनुपहतम् । यत्र विविधं दरणं प्रदरादिकं न विद्यते
 तदविस्तग्दार्यम् । एवंलक्षणं देशं दहनाय परिगृहीयात् ।
 यस्मादेशादापो दक्षिणा प्रतीच्यो निस्सरन्ति, दक्षिणाप्रत्यकू-
 प्रवणत्वादेशस्य, तास्तथा निस्सृत्य उदगत्वा महानदीमनुपविश्य
 तदुदकेन सह प्राणामिन्यो भवन्ति, तथाभूतं वा देशं गृहीयात् ।
 समं वा देशं जोषयते । शोभना भूमिर्यस्य स सुभूमिः । समं
 वेत्यत्रापरं विशेषणं बहुलौषधिमिति । आரादिति दूरार्थमव्ययम् ।
 यतो देशाहूரे क्षीरिणः - वटोदुम्बरादयो वृक्षाः कण्टकिनः -
 खदिरादयः । क्षीरिणः कण्टकिनश्च समीपे यस्य न सन्ति तं देशं
 परिगृहीयादित्यर्थः ।

आपसंतपम्पर : - इनी चेष्टालप्पाटुम् लक्ष्मणामूर्तीताकिय स्मरण तेचत्तेत करव्हीक्कवुम्. तेन मेन्हीकिल् ताम्नंततुम्, इरिणमल्लाततुम् (पुल्मूलोकक्क कृष्णयतुम्), एवि वैरा मुतलीय तिल्लाततुम्, किंवा मन्ननील्लाततुम्, इष्टि पाष्ठिल्लाततुम्, पिरिणीन् तहव्हन्त्तालावतु, सन्नटालातु वासत्तालावतु असत्तमिल्लाततुम्, पर्णलाङ्कलील्लाततुम्, स्वपावत्तालेये करममाय्यत् ताम्नंततुम् आकिय तहव्हन्तेचत्तेतप् परीकरव्हीक्कवुम्. अल्लतु, एन्त प्रतेचत्तिल् विमुन्त ज्ञलंकर्ण तेनमेन्हीकिल् चेन्ऱु, पिरकु वटक्किल् चेन्ऱु महान्तियिल् चेर्न्तु, अतनुटन् किमुक्कु नेंद्रक्किच चेल्लुकिन्ऱन्वेवा अव्वितमान प्रतेचत्तेत करव्हीक्कवुम्. अल्लतु, लम्मायुम्, नल्ल पूमियुलातुम्, अतिक छेत्तिकर्णलातुमाकिय प्रतेचत्तेत करव्हीक्कवुम्. एन्त प्रतेचत्तिर्कुत् तुरप्रतेचत्तिल् पालुलाल आल्, अत्ति मुतलीय वर्गक्षुन्कर्णुम्, मुलालुला करुन्काली मुतलीय वर्गक्षुन्कर्णुमूलालन्वेवा अन्त प्रतेचत्तेतप् परीकरव्हीक्कवुम्.

आश्वलायनस्तु तद्रहितदेशालाभे तेषां समूलोद्धारेण देशाक्षुसिमाह - कण्टकिक्षीरणस्तु इत्यादिना । पितृमेधसारे - उद्धत्यावोक्ष्य हिरण्यशकलमवधाय दर्भान् संस्तीर्य दक्षिणाग्रैर्याज्ञिकैः काष्ठैखंशकैयैस्तुर्णैर्वा इति ज्ञापनात्तैर्वा ब्राह्मणानीतैस्तुलसीकाष्ठयुक्तां दक्षिणाप्राचीं चितिं कुर्यात् इति । बोधायनः - दारुचितिं कुर्वन्ति दक्षिणाप्राचीमेषा हि पितृणां प्राची दिगिति विज्ञायते, वायव्यामौपासनं पुरस्ताद्वा इति ।

अृच्वलायनरोबेवेनील : - मरन्कलील्लात प्रतेचम् किटेक्कालीटिल्, मरन्कलौ वेवन्टुन् वेवट्टि एन्तुत्तुवीट्टु, तहव्हन् तेचत्तेतक् कल्पपीक्क वेवन्टुमेन्किरुर् 'कन्नटकिक्षीरिणस्तु' एन्पतु मुतलीय लात्तरत्ताल. पितृनुमेत्तलारत्तिल : - तहव्हन्

தேசத்தைக் கொத்திவிட்டு, அவோக்ஷனம் செய்து, ஸ்வர்ணத்துணுக்கைப் போட்டு, தர்ப்பங்களைப் பரப்பி, தெற்கு நுனியுள்ள (ப்ராஹ்மணர்களால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள) யஜ்ஞார்ஹமான காஷ்டங்களால், அல்லது த்ருணங்களால் துளை காஷ்டங்களுடன் கூடியதாயும், தென் கிழக்கு நோக்கியதாயும் சிதையைக் கல்பிக்கவும். போதாயனர் : - காஷ்டங்களாலாகிய சிதையைத் தென்கிழக்கு நோக்கிதாய்ச் செய்யவும். இந்தத் திக்கு, பித்ருக்களுக்குக் கிழக்கென்று அறியப்படுகிறது. ஒளபாஸநத்தை வாயுதிக்கில், அல்லது, கிழக்குத் திக்கில் வைக்கவும்.

துலसीகாஷப்ரशংসா தனிந்஦ா ச ।

துலஸීகாஷப்ரशংসா கृता प्रङ्गादसंहितायाम् – ஶரீரं ஦த்தே யस्य துலसීகாஷவह்நி । நரो யத் குருதே பாப் தஸ்மாத் பாபாத் ப்ரமுच்யதே । தீர்஥ யदி ந ஸ்ப்ராஸ் ஸ்மரண் கிர்தன் ஹரே: । துலஸීகாஷ- ஦஗்஧ஸ்ய நரஸ்ய ந புனர்ஜ்ஜனி: । யदி தத்துலஸීகாஷ- மத்யே வாடபி சிதை கृதम् । ஦ாக்காலே ஭வேந்முக்தி: பாபகோடிக்குத்தத்தா । துலஸීகாஷ- மிஶ்ர து யாவத் ப்ரஜ்வலிதா சிதி: । ஦த்தந்தே தஸ்ய பாபானி கல்பகோடிக்குத்தாந்யபி இதி । தந்த ப்ரோக்த்வாடேதத்தாந்திகவிஷயம், ந து வைதிகவிஷயம், ந ஦த்தாத் குணப் பிப்ரஸ்துலஸීகாஷவह்நி । யதி ஦த்தாத்திரோஹேன ஸ விஷ்ணோர்஦ாக்கோ ஭வேத் இதி விஷ்ணு஧ர்மோத்தரே நிஷித்த்வாடித்யாஹு: ।

துளைக்காஷ்ட ப்ரசம்லையும், கூடாதென்பதும்

துளை காஷ்ட ப்ரசம்லை சொல்லப்பட்டுள்ளது ப்ரஹ்லாத ஸம்ஹிதையில் : - “எவனது சரீரம், துளை காஷ்டத்தின் நெருப்பினால் தஹிக்கப்படுகிறதோ, அவன் எவ்வளவு பாபம் செய்தானே அதனின்றும் விடுபடுகிறான். பகவத்பாத தீர்த்தம் கிடைக்காவிடினும்,

பகவத் ஸ்மரணம் செய்யப்படாவிட்டனும், பகவந்நாம கீர்த்தனம் செய்யப்படாவிட்டனும், துளஸீ காஷ்டங்களால் தலைக்கப்பட்டவனுக்கு மறு பிறப்பில்லை. துளஸீ காஷ்டத்தைச் சிதையின் நடுவில் தலைந காலத்தில் போட்டாலும், கோடி பாபம் செய்தவனுக்கும் முக்கியுண்டாகும். துளஸீ காஷ்டத்துடன் கூடிய சிதையானது எப்பொழுது எரிகின்றதோ அப்பொழுதே கோடி கல்ப்பங்களில் செய்த பாபங்களும் பொசுக்கப்படுகின்றன’’ என்று. இது தந்தரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதால் தாந்தரிகர்களைப் பற்றியது. வைதிகர்களைப்பற்றியதல்ல. ‘‘ப்ராஹ்மணன், சவத்தைத் துளஸீ காஷ்டாக்னியால் தலைக்கக் கூடாது. அறியாமையால் தலைத்தால், அவன் விஷ்ணுவைவத் தலைத்தவனுவான்’’ என்று விஷ்ணு தர்மோத்தரத்தில் நிவிததமாயிருப்பதால், எனகின்றனர்.

दहनप्रकारः

व्याघ्रपादः - नाधोमुखं न नग्रं च दहेरन्मलदूषितम् ।
 अयज्ञीयसमिन्द्रिश्च चण्डालपतिताहृतैः । कृमिकीटादिदुष्टैश्च न
 दहेत्तु चिरन्तनैः । वस्त्रं परित्यजेदर्धमर्थं तु परिधापयेत् इति ।
 प्रचेताश्च - न नग्रं तु दहेद्वस्त्रं किञ्चिद्देयं परित्यजेत् इति । अत्र
 चन्द्रिकाकारः - अर्धं तु इमशानवासिनो देयं परित्यजेदित्यर्थः
 इति । एवमेव विज्ञानेश्वरः । स्मृतिरत्ने तु व्याख्यातम् किञ्चिद्देयम्
 इति प्रेताच्छादनवस्त्रादुत्कृत्तं किञ्चिद्वस्त्रखण्डं म्लेच्छचण्डालादिभ्यो
 दद्यादित्यर्थं इति ।

தலைந ப்ரகாரம்

வ்யாக்ரபாதுர் :- கீழ் நோக்கியதான் சவத்தைத் தலைக்கக் கூடாது. வஸ்தரமில்லாததும், அழுக்குடையதுமாகிய சவத்தைத் தலைக்கக் கூடாது. யாகத்திற்கு அர்வமல்லாதவையும், சண்டாளன், பதிதன் இவர்களால்

கொண்டு வரப்பட்டவையும், பூச்சி புழு முதலியதால் கெடுக்கப்பட்டவையும், வெகுநாளாகியவையுமான காஷ்டங்களால் தலுக்கக் கூடாது. சவத்தின் வஸ்தரத்தின் பாதியை ஏறிந்துவிட்டு, பாதி வஸ்தரத்தைச் சவத்திற்கு கட்ட வேண்டும். ப்ரசேதஸ்ஸாம் :- ‘சவத்தை வஸ்தரமில்லாததாய்த் தலுக்கக் கூடாது. சவ வஸ்தரத்தின் ஸ்வல்ப பாகத்தை ஏறிய வேண்டும்’, என்றார். இவ்விடத்தில், சந்தர்ரிகாகாரர் : ‘பாதி வஸ்தரத்தை ச்மசாநத்தில் வளிப்பவனுக்குக் கொடுக்க வேண்டியதற்காக விட வேண்டும் என்று பொருள்’ என்றார். இவ்விதமே விஜ்ஞாநேச்வரரும் சொல்லியுள்ளார். ஸ்மருதிரத்னத்திலோவனில் :- இவ்விதம் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘கிஞ்சித் தேயம் என்பதற்குச் சவத்தின் ஆச்சாதந வஸ்தரத்திலிருந்து கிழித்தெடுத்த சிறிய வஸ்தரத்துண்டை, ம் லேச்ச சண்டாளாதிகருக்குக் கொடுக்கவும் என்று பொருள்’ என்று.

ஆபஸ்தம्बः – அथैनं சிதாவுபर्यध్யஹत्यथास्य ப्राणायतनेषु
हिरण्यशकलान् प्रत्यस्यत्याज्यविन्दून् वा इति । गौतमोऽपि –
आस्ये चक्षुषोनासिकयोः श्रोत्रयोश्च सस हिरण्यशकलानाज्य-
विन्दून् वा सस व्याहृतीर्मनसा ध्यायन्निरस्यति इति । कात्यायनः –
दक्षिणाशिरसं चित्यामुत्तानं तं निवेशयेत् । हिरण्यशकलान्यस्य
क्षिपेच्छिद्रेषु सससु इति । बोधायनीये – दध्याज्यतिलतण्डूलान्
प्रेतस्यास्ये तु निक्षिपेत् इति ।

ஆபஸ்தம்பர : -பிறகு சவத்தைச் சினதயின் மேல் வைக்கவும். பிறகு சவத்தின் இந்தரிய ஸ்தாநங்களில் ஸ்வர்ணத் துண்டுகளையாவது, ஆஜ்ய பிந்துக்களையாவது சேர்க்க வேண்டும். கொதுமரும் : வாய், கண்கள், மூக்குகள், காதுகள் என்ற ஏழு ஸ்தாநங்களிலும், ஏழு ஸ்வர்ணத் துண்டுகளையாவது, ஆஜ்ய பிந்துக்களையாவது

ऐमु व्याहूर्गुति कैलायुम् मनतालं त्याणीप्पवगुय्च
चेरक्कवुम्. कात्यायणारः :- प्रेरतैनत् तेन्त्रकिलं
तैलयूलवगुय्प चित्तयिलं वैवक्कवुम्. प्रेरतैनिं ऐमु
त्वारान्कणिलुम् स्वर्णत् तुण्टुकैला वैवक्कवुम्.
पोतायन्यत्तीलः :- तयीर, नेय, एं, अरीचि इवैवकैला
प्रेरतैनिं वायिलं प्रोट वेण्टुम्.

आश्वलायनीये - सतिलं तण्डुलं चास्ये वक्षस्यग्निं निधाय च
इति । पितृमेधसारे - आदित्याभिमुखः स्थित्वा
ज्वलदुलमुकेनोरसि दहेत् इति । वैखानसस्त्रे - अग्निर्यजुर्भिः
सेनेन्द्रस्येति द्वाभ्यामुज्ज्वलितं प्राङ्गुखस्तस्य वक्षसि निक्षिपेत् इति ।
स्मृत्यन्तरे - पश्चिमाभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा त्वनलं बुधः ।
तत्तन्मन्त्रं समुच्चार्य शब्दवक्षसि विन्यसेत् इति । दिवारात्रमपि
समानम् ।

अुच्चवलायन्यत्तीलः :- एंगुटां कौटिय अरीचिये
वायिलुम्, अक्णिये मार्पिलुम् प्रोट वेण्टुम्.
पीत्तरुमेत्तौरात्तीलः :- शर्मर्यनुक्कु एतिराक निन्ऱु
ज्ञवलीक्कु मक्णियालं मार्पिलं तव्वीक्कवुम्. वैवकान्तै
लैउत्तरत्तीलः :- 'अक्णिर्यज्ञार्पिः लेन्नेन्तर्तरस्य' एंर
इरण्टु अन्नवाकंकणालं, ज्ञवलीक्कुमक्णिये, किमुक्कु
मुकमायीरुन्तु, प्रेरतैनिं मार्पिलं वैवक्कवुम्. औरु
संमंगुशीयिलः :- "मेरंकु मुकण्ये इरुन्तु, अक्णिये
एटुत्तु, उरीय मन्त्रत्तरत्तेत्तक्ष चेशाल्ली, चवत्तिनि मार्पिलं
वैवक्कवुम्" एंरु. इतु पकलिलुम्, इरवीलुम् समानम्.

आपस्तम्बः - अथैनमुपोषति मैनमग्ने विदह इति
पुरस्तादाहवनीयेन शृतं यदेति पश्चाद्वार्हपत्येन तूणी
दक्षिणतोऽन्वाहार्यपचनेन पुरस्तात्सम्यावसत्थ्याभ्यामौपासनेन च
इति । अत्र कपर्दिभाष्यम् - अथैनमुपोषति - दहति चितेः
पुरस्तादाहवनीयेन मैनमग्ने विदह इति पश्चाद्वार्हपत्येन शृतं यदेति

तृष्णीं दक्षिणतोऽन्वाहार्यपचनेन इति । गोपालभाष्येऽपि –
उपोषणं - दहनम्, दारुचितेरेवात्र साक्षादग्निसंयोगः कार्यः इति ।
स्मृतिसारसुधानिधौ – अग्निभिर्बाऽग्निना वाऽपि शब्दत्यां चितौ
दहेत् । शबे चेद्दहनं तस्य गतिर्नेत्यब्रवीन्मनुः इति । बसिष्ठश्च –
अग्निक्षेपो नाधिशब्दं श्रुतावाहुतिदर्शनात् । आहुत्युपरि
विक्षेपात्तत्कर्म विफलं भवेत् इति ।

ஆபஸ்தம்பர் :- பிறகு, சவத்தை, ‘மைநமக்ஞே’ என்ற மந்த்ரத்தால் கிழக்கில் ஆஹவநீயத்தாலும், ‘ச்ருதம் யதா’ என்பதால் மேற்கில் கார்ஹபத்யத்தாலும், மந்த்ர மில்லாமல் தெற்கில் தக்ஷிணைக்னியாலும், கிழக்கில் ஸப்யம், ஆவஸ்தயம், ஒளபாஸநாக்னி இவைகளாலும் தஹிக்கவும். இங்கு, கபர்தி பாஷ்யம் :- சிதைக்குக் கிழக்கில் ஆஹவநீயத்தால் ‘மைநமக்ஞே’ என்பதாலும், மேற்கில் கார்ஹபத்யத்தால் ‘ச்ருதம் யதா’ என்பதாலும், தெற்கில் தக்ஷிணைக்னியால் மந்த்ரமில்லாமலும் (தஹிக்கவும்). கோபால பாஷ்யத்திலும் :- பல அக்நிகளாலோ, ஒரு அக்நியினாலோ, சவம் வைக்கப் பாட்டுள்ள சிதையிலேயே தஹிக்கவும். சவத்தின்மேல் தஹநம் செய்தால், ப்ரேதனுக்கு நற்கதியில்லையென்றாமனு. வளிஷ்டரும் : சவத்தின்மேல் அக்னியைப் போடக் கூடாது. வேதத்தில் சவத்தை ஆஹாதி த்ரவ்யமாய்ச் சொல்லியிருப்பதால். ஆஹாதி த்ரவ்யத்தின் மேல் அக்னியைப் போடுவதானால் அந்தக் கர்மம் பலமற்றதாகும்.

शातातपः – चितौ दहनमेतेषां द्विजानां सर्वसूत्रिणाम् ।
लद्धशाद्दहनं लब्ध्वा मृता ब्रह्म समाप्तयुः इति । अत्र
शिष्टाचाराद्वचवस्था । आदित्याभिमुख एव स्थित्वा दहेत्,
सावित्र्यादि क्रियाः सर्वा आदित्याभिमुखश्चरेत् इति सर्वकर्म-
साधास्येनादित्याभिमुखत्वस्मते । स्थितिराचारासिद्धाऽर्थसिद्धा

च । सूर्यं ते चक्षुः इत्युपस्थानं प्रेताभिमुखः कुर्यात् । अपरेण चितिं प्राञ्छुखः स्थित्वा यः एतस्य पथः इत्यादिभिर्जुहुयात् प्रेतस्यापे स्थित्वा इति बोधायनीयादौ दर्शनात् । एवं मन्त्रवद्धव्यानि निरवशेषमग्निं चितौ प्रागादि क्रमेण प्रक्षिपेत् । तथा च बोधायनः — सर्वते एवं सहसा प्रज्वलयेत् ब्रह्मलोकमजैषीदित्येन जानीयादिति ।

सात्तात्यार्दः :- एन्ते लाभात्तरत्तेते अनुलाप्पव रागेन्नुम् प्रराह्मणार्कगेलाल्लोरुक्कुम् चितेयिलेयेतहनुम् केयप्पते वेण्णुम्. चितेयिन् वसमाय्त तहनुत्तेते अटेन्त्तु प्रेरेतर्कर्कं प्ररह्मत्तेते अटेवार्कर्कं. इव्विष्यत्तिलं चिष्टासारत्तेतकं केाण्णु व्यवस्तेतये अर्नियवुम्. लार्यापि मुकगुकवे निन्ऱु तहनीक्कवुम्. 'लावीतर्की ज्ञपम् मुतवीय कार्यंकगेलाल्लावर्नरेयुम् लार्यापि मुकगुय्येचेय्य वेण्णुम्' एन्ऱु ऎल्लाकं कर्मन्तकगुक्कुमः बेपातुवाक, लार्यापि मुकत्वम् चेऽल्लप्पट्टिरुप्यतालं. नीन्पतेन्पतु आसारत्तालुम्, कार्यवस्तुत्तालुम् लीत्तमाकियतु. 'लार्यम् तेते चक्षुः' एन्पतालं उपस्तानुत्तेते प्रेरतापि मुकगुय्येचेय्यवुम्. चितेतक्कु मेन्त्रिलं किमुक्कु मुकमाय्निन्ऱु 'य एतस्यपतः' एन्पतु मुतलानि मन्त्ररंकगोलालं लेहामम् चेय्यवुम्. 'प्रेरतनीनि मेन्त्रिलं निन्ऱु' एन्ऱु पोतायन्त्यम् मुतवीयतिलं काणप्पावतालं. इव्वितम् मन्त्ररत्तुटनि तहनीत्तु, मैत्रियिल्लामलं अक्कनीयेच चितेयिलं किमुक्कु मुतलाकप पोतावुम्. अव्वितमै. पोतायनारः :- चितेये ऎल्लाप्पुन्नकलीलुम् केागुत्तवुम्. प्रेरतनि प्ररह्म लोकत्तेते ज्ञयित्तानि एन्ऱु अर्नियवुम्' एन्ऱुर्.

चिताग्निनाशप्रायश्चित्तम् ।

वृष्ट्यादिना चिताग्निनाशो यमः — यजमाने चितास्त्वेपात्रन्यासे तथा कृते । वर्षाद्यभिहते चायौततः पृच्छन्ति याज्ञिकाः । शोषं दग्धवाऽर्धदग्धेन निर्मन्त्यं तत्र कारयेत् । शोषालाभे तदा

குரைஷித்தேஷஸ்ய வா புனः । அப்ஸு ப்ராஸ்யதி ஶேஷ் தடாஶ்ரேய்யஸ்தா: ஸ்மृதா
஬ுதை: இதி । ஆஶ்ரேயத்வம்பா வாயோர்஗ிஃ அஶ்ரேராப: இதி ஶ்ருத்யாத்வ-
஗ம்யதே । ஸ்மृத்யர்஥ஸாரேஷி - ஦ஹ்மானே ஶவே வஹிர்ணஷே வஷாஷ்வேஷ்வதி ।
சிதி காஷ்டு நிர்மந்தீ தேந ப்ரேத் புனர்஦ீதே । அமாவே சிதிகாஷ்டானாஂ ஶேஷ்
வாத்பஸு வினிக்ஷிபேத் இதி । (ப்ராயஶ்சித்தே கூத்துஷித்தே பாதாந்தரம்)
ப்ராயஶ்சித்தமனுகதப்ராயஶ்சித்தம், தத்து வாடஶாகுஹீதேந சுஞ்
பூர்யித்வேத்யாபஸ்தம்வோக்தமித்யாது: ।

சிதாக்னி நாச ப்ராயச்சித்தம்

மழை முதலியதால் சிதாக்னி நாசமடைந்தால், யமன் :- ‘யாகம் செய்தவனின் சவத்தைச் சிதையிலேற்றிப் பாத்ரசயநமும் செய்து அக்னிதாநம் செய்த பிறகு, பாதியில் மழை முதலியதால் அக்னி அனைந்துவிட்டால் என்ன செய்வதென்று ருத்விக்குகள் கேட்டால், பாதி தஹநமாகிய பிறகு அனைந்தால், மீதியுள்ள காஷ்டத்தால் நிர்மந்தயாக்நியை உத்பத்திசெய்து அதனால் தஹிக்கவும். சேஷமான கட்டையே கிடைக்காவிட்டால், தக்தமான ப்ரேதத்தின் சேஷத்தை ஜலத்தில் போட்டுவிடவும். அப்புகள் (ஜலங்கள்) ஆகநேயிகள் எனப்படுவதால்’ என்றார். ஜலங்களுக்கு அக்னி ஸம்பந்தம் ‘வாயுவினிடமிருந்து அக்னி உண்டாயிற்று. அக்னியிடமிருந்து ஜலங்களுண்டாயின’ என்ற சுருதியால் அறியப்படுகிறது. ஸம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலும் :- ‘சவம் தஹிக்கப்படும்போது, மழையினால் அக்னி நஷ்டமானால், சிதையிலுள்ள கட்டையைக் கடைந்து அந்த அக்னியால் ப்ரேதனை மறுபடி தஹிக்கவும். காஷ்டங்களில்லாவிடில், மீதியுள்ளதை ஜலத்தில் போடவும்’ என்றுள்ளது. இங்கு, ‘ப்ராயச்சித்தே க்ருதேக்நிநா’ என்று ஒரு பாடமுண்டு. அதில், ப்ராயச்சித்தம் - அநுகதப்ராயச்சித்தம். அது ‘பன்னிரண்டு முறை க்ரஹித்த ஆஜ்யத்தினால் ஸ்ருக்கை நிரப்பி’ என்று ஆபஸ்தம்பர் சொல்லியது என்கின்றனர்.

दहनानन्तरकृत्यमाह कात्यायनः – वस्त्रं संशोधयेदादौ ततः
 स्नानं समाचरेत् । सचेलस्तु पुनः स्नात्वा शुचिः प्रयत्नानसः इति ।
 ज्ञात्यादिविषयेऽपि स एव – अथानवेक्षमेत्यापः सर्वं एव
 शब्दस्पृशः । स्नात्वा सचेलमाचम्य दद्युरस्योदकं स्थले इति ।
 आश्वलायनः – अनवेक्षमाणा यत्रोदकमवहं भवति तत् प्राप्य इति ।
 अवहं - प्रवाहरहितम्, स्थिरमिति यावत् । आपस्तम्बोऽपि –
 अनवेक्षमाणा अपोऽवगाहन्ते धाता पुनातु सविता पुनातु इति
 केशान् प्रकीर्य पांसुनोप्य इति ।

தலைநுத்திற்குப் பிறகான கார்யம்

தஹநத்திற்குப் பிறகு செய்ய வேண்டியதைச் சோல்லுகிறார். காத்யாயனர் :- முதலில் வஸ்தரத்தைச் சோதனம் செய்யவும். பிறகு ஸ்நாநம் செய்யவும். மறுபடி ஸ்ரேல ஸ்நாநம் செய்து சுத்தனைய், சுத்தமனமுடையவனைய் ஆக வேண்டும். ஜ்ஞாதிகள் விஷயத்திலும் காத்யாயனரே :- பிறகு, திரும்பிப் பாராமல் ஜலத்திற்கு வந்து, சவத்தைத் தொட்ட எல்லோரும் ஸ்ரேல ஸ்நாநம் செய்து, ஆசமனம் செய்து, ப்ரேதனைத்தேசித்து ஸ்தலத்தில் உதகதானம் செய்யவும். ஆச்வலாயனர் :- திரும்பிப் பாராதவர்களாய், எவ்விடத்தில் ஜலம் ஓடாமல் ஸ்திரமாயுள்ளதோ அதையடைவர். ஆபஸ்தம்பரும் :- திரும்பிப் பாராதவர்களாய் ஜலத்தில் மூழ்க வேண்டும். 'தாதாபுநாது ஸவிதா புநாது' என்று. மயிர்களை விரித்துக் கொண்டு, புழுதியைப் போட்டுக் கொள்ளவும்.

अत्र क्रममाह बोधायनः ।— यवीयान् यवीयान् पूर्वं पूर्वं सज्जाहन्ते इति । आपस्तम्भः ।— धून्वनेऽन्वारभणे सज्जाहने संसर्पणं उदकोपस्पर्शन इति सर्वत्र कनिष्ठप्रथमा अनुपूर्वा इतरे स्थियोऽग्रे

இதி । ஧ूந்வனம् = ஸிஞ்சிரமி஧வனம्, அந்வார்஭ண் ராஜவ்யா: । ஸஜ்ஞாஹன் கர்ஷணம्, ஸஂஸர்ண் ஶாखாவृதயமधயேந, உடகோபஸ்பஶன் - ஧ாதா புனாது ஸவிதா புனாது இதி ஸ்வானம्, ஏதேஷு பञ்சஸு கர்மஸு கனிஷ்டப்ரथமா: ஸ்யு: கனிஷ்ட: ஸர்வே஭்யோऽவரவயா: ஸ ப்ரதமோ யேஷாஂ தே தத்஥ோக்தா: । இதரே - தஸ்மாடன்யே ஸகுல்யா:, அனுபூர்வா: - ததாநுபூர்வவந்த: ஸ்யு: । ப்ரதமாபேக்ஷயா வृத்தவृத்தரவृத்தமாநுபூர்வீண ஸ்யுரித்யர்஥: । ஸ்தியோऽந்தி இதி - மூதஸ்ய குல்யாநாஂ ச ஭ார்யா ஗ृஹாந்தே, மூதஸ்யை ஭ார்யா இத்யபரே । தாஸாமபி கனிஷ்டப்ராதம்ய் வெடிதவ்யம், அதாஸ்ய ஭ார்யா: கனிஷ்டப்ரதமா: இதி ஬ோधாயனஸ்மரணாத् ।

இதில் கிரமத்தைச் சொல்லுகிறீர். போதாயனர் :- 'துந்வநே + ஸ்த்ரியோக்ரே தூந்வநம் - வஸ்த்ரத்தின் நுனிகளால் விசிறுவது. அன்வாரம்பணம் = ராஜ கவியைத் தொடுவது. ஸங்காஹுநம் = கர்ஷக்களில் முழுகுவது. உதகோபஸ்பர்சநம் = 'தாதாபுநாது ஸவிதாபுநாது' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸ்நாநம். இந்த ஜந்து கர்மங்களிலம், வயதால் சிறியவன் முந்தியிருக்க வேண்டும். மற்றவர்களும் வயதால் சிறியவன் முந்தி, மற்றவர் பிந்தி என்று வரிசையாயிருக்க வேண்டும். ஸ்த்ரீகள் முந்தியிருக்க வேண்டும். ஸ்த்ரீகள் என்றதால், ம்ருதனுடையவும், ஜஞாதிகஞாடையவும் பார்யைகள் சொல்லப்படுகின்றனர். 'ம்ருதனுடைய பார்யைகள் மட்டும்' என்று சிலர். அவர்களுக்கும், வயதால் சிறியவள் முந்தி என்ற நியமமுண்டு என்றறியவும், 'ம்ருதனின் பார்யைகள் கநிஷ்ட ப்ரதமைகளாய்' என்று போதாயன வசனம்.

பிதுமே஧ஸாரே து : - அனுபூர்வ யதாவृத்தம् இதி ஭ாஸ்யானுஸாரேண வ்யாக்ஷாதம्, ஧ूந்வாடிஷு ஸர்வத் கனிஷ்டப்ரதமம्, இதரே கனிஷ்டவ்யதிரிக்த யதாவृத்தங் கர்த்த பஶ்சாத் இதி । அஸ்யார்஥: - கனிஷ்ட: ப்ரதமம், ஜ்யேஷ்டோ வா கனிஷ்டோ வா கர்த்த ஸர்வேஷாஂ பஶ்சாத் தயோர்மத்ய

ज्येष्ठानुक्रमेण ज्ञातयः कल्प्या इति । आश्वलायनस्तु -
ज्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्या इति सर्वं तुरीयाध्वं गमने तथा
प्रविशेयुः कनिष्ठप्रथमा ज्येष्ठजघन्या इति ग्रामप्रवेश इति ।

पितृग्रुमेत्सारत्त्वलोबेवनीलः :- 'अनुपूर्ववा
यत्तावं ग्रुत्तम्' एन्ऱु पाष्ठ्यानुसारमायं व्याक्यानुम
सेय्यप्पत्तिलोत्तु. 'त्रान्वनम् मुत्तलिय कारयन्कान्ति
एल्लावर्त्तिलुम् चिन्तियवन्ति मुन्ति, मन्त्रवर्तकान्ति
चिन्तियवन्तित्त तविरत्तवर्तकान्ति व्यरममायं, करत्तता
पिन्ति' एन्ऱु. इतन्ति पेपारुलः :- वयत्तिल चिन्तियवन्ति मुन्ति,
वयत्तिल बेपरीयवण्णयिनुम् चिन्तियवण्णयिलुम्, करत्तता
एल्लोलारुक्कुम् पिन्ति, अव्विरुवर्तकान्तकुम् नुविल
ज्ञेयेष्ट करममायं ज्ञानात्तिकालैक कल्पिक्कवुम्, एन्ऱु.
अुक्ष्वलायनरोबेवनीलः :- 'ज्ञेयेष्टन्ति मुन्ति,
कनीष्टन्ति कटैचियिल एन्पतेलाम् नाविलेलारु
पाकमानवधि चेल्वत्तिल, कनीष्टन्ति मुन्ति, ज्ञेयेष्टन्ति
कटैचियिल एन्पतु करामत्तिरुक्कुल नुमेयुम्पोत्तु'
एन्ऱु.

बृहद्विष्णुः — संस्कृत्य वहौ पितरं दृष्ट्वा ज्योतिस्ततो
रविम् । स्त्रीबालान् स्वपुरः कृत्वा वृद्धो गच्छेजलाशयम् इति ।
स्मृत्यन्तरे - शब्दं दग्ध्वा यथान्यायं दृष्ट्वा ज्योतिर्दिशः क्रमात् ।
बालान् दारान् पुरस्कृत्य गच्छेत् प्रेतमनीक्षक इति । यथास्वगृह्यं
यथाचारमत्र व्यवस्था । अत्र असपिण्डाश्च वस्त्रसंशोधनपूर्वकं
त्रयोदश निमज्जनं कुर्युः, अस्पृश्यस्पर्शनै चैव त्रयोदशनिमज्ज्य च ।
आचम्य प्रयतः पश्चात् स्नानं विधिवदाचरेत् इति भरद्वाजस्मरणात् ।
उशाना - अनुगम्य मृतं प्रेतं ज्ञातीनप्यनुसृत्य च । स्नात्वा घृतं च
भक्षित्वा पुनः स्नानं समाचरेत् इति ।

पंगुलूत्तविष्ट्णुः :- “पितावेव अक्षिणीयिल
सम्लिङ्गकरित्ततु, पिऱकु लार्यन्ति तर्सित्ततु, पत्तिकालैयुम्,

பாலர்களையும் முன்னிட்டுக் கொண்டு, வயதில் பெரியவன் ஜலாசயத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்” என்று. ஒரு ஸ்ம்ருதியில் “சாஸ்த்ரப்படி சவத்தைத் தஹித்து, ஜ்யோதிஸ், திக்குகள் இவைகளைப் பார்த்து, க்ரமமாய் ஸ்தர்கள், பாலர்கள் இவர்களை முன்னிட்டுக் கொண்டு, ப்ரேதனைத் திரும்பிப் பாராமல் போக வேண்டும்”. இவ்விஷயத்தில் அவரவர் கருந்யப்படிக்கும் ஆசாரப்படிக்கும் வ்யவஸ்தை அறியத்தக்கது. இங்கு, ஜ்ஞாதியல்லாதவர்களும், வஸ்தர் சோதநம் செய்து கொண்டு, பதின்மூன்று தடவை மூழ்க வேண்டும். ‘தீண்டாதவனைத் தீண்டினால் 13 தடவை மூழ்கி, ஆசமநம் செய்து சுத்தஞ்சிப்பிறகு விதிப்படி ஸ்நாநம் செய்யவும்’ என்று பரத்வாஜ வசநம் உள்ளது. உசநா: - இறந்தவனைத் தொடர்ந்து சென்றாலும், ஜ்ஞாதிகளை அனுஸரித்துச் சென்றாலும், ஸ்நாநம் செய்து, ஆஜ்ய ப்ராசநம் செய்து, மறுபடி ஸ்நாநம் செய்யவும்.

ஸ்மृத்யந்தரே - ஶவாநுगமனே க்ஷௌரே புநःஸ்நாநं வி஧ியतே । ஆர்வங்கம் பரித்யज्य ஶුष्कங்கேண மஜனம् । ஸஸ்வாதாஹதं வகும் ஶුஷ்கவத் பிதிபாடிதம் । ஆர்வாடபி ஦்விஜாதிநாமாடத் தாதமாடி஭ி: । நித்யஂ நைமித்திக் காம்ய திவி஧ம் ஸ்நாநமுच்யதே । தர்பணம் திவி஧ஸ்யாபி ஹங்க்வேன பிரகிரித்தம் இதி । அது க்விசி஦பவாத-ஶந்திகாயாமுக்த: - அஜீர்ணம்யுடிதே வாந்தே த்வஶ்வுபாதே க்ஷுரே ஭வेत् । ஸ்நாநம் நைமித்திக் பிரோக்ட் ஦ேவர்ஷிபிதுவர்ஜிதம் இதி ।

மற்றெனுரு ஸ்ம்ருதியில் :- சவத்தைப் பின் தொடர்ந்து செல்லுதல், கெஷளரம் இவைகளில் மறுபடி ஸ்நாநம் விதிக்கப்படுகிறது. ஸரவஸ்தரத்தை விட்டுவிட்டு, உலர்ந்த வஸ்தரத்துடன் முழுகுவது ‘புந: ஸ்நாநமாம். உலர்ந்த வஸ்தரமில்லாவிடல் ஸரவஸ்தரத்தையே ஏழு தடவை காற்றினால் சோதித்தால் அது உலர்ந்த வஸ்தரம் போன்றது. இது ப்ராஹ்மணர்களுக்கு உரியதெனக் கொதமர்

मृतवियवर्कणालं आत्मीकप्पट्टतु. नित्यम्, नेनमित्तिकम्, काम्यम् एन्ऱु चेऽल्लप्पट्ट ऐन्ऱु स्नानंकण्कुम् अंकमाकिय तर्प्पणम् वित्तिकप्पट्टिरहु. इव्विषयत्तिल, चिल विटंकणील मरुप्पुक्षेऽल्लप्पट्टिलातु. कन्तरीकेयिल :- 'अज्ञीर्णन्तत्तिर्हकर्किय स्नानत्तिलुम्, अप्युत्तिस्नानत्तिलुम्, वान्ति निमित्त स्नानत्तिलुम्, अमुकेनिमित्त स्नानत्तिलुम्, केष्ठलर निमित्त स्नानत्तिलुम् चेय्युम् नेनमित्तिक स्नानत्तिल तेवरुषी पित्तरु तर्प्पणमिलै' एन्ऱु.

पुनःस्नाने तु तर्पणमुक्तं स्मृत्यर्थसारे – अस्पृश्यस्पर्शनस्नाने नाघर्मणितर्पणे । अज्ञीर्णभ्युदिते क्षौरे पुनः स्नाने तु ते स्मृते इति । पितृमेधसारे तु – योषित्सु स्नात्वा ग्रामं प्रविष्टासु ज्ञातयोऽन्ये च त्रयोदशवारं निमज्ज्याग्निं स्पृष्ट्वा घृतं प्राश्य पुनः स्नायुः इति । अत्र कवषः – प्रवेशनादिकं कार्यं दाहकेनैव न कचित् । अनुगन्त्रा च बोद्धा च पुनः स्नात्वा च योषिताम् । अनुगम्य शब्दं बुद्ध्या स्नात्वा स्पृष्ट्वा हुताशनम् । सर्पिः प्राश्य पुनः स्नात्वा प्राणायामैर्विशृध्यति इति ।

पुनः स्नानत्तिलोवेवणील तर्प्पणम् चेऽल्लप्पट्टिलातु. संमरुत्यारत्तलारत्तिल - त्रिण्टातवर्कणीति त्रिण्टियतर्तकाण स्नानत्तिल, अकमर्षणाम् तर्प्पणाम् इवेवकणीलै. अज्ञीर्णन्म, अप्युत्तितम्, केष्ठलर मिवेवकणीलै. पुनः स्नानत्तिल अवै इरण्टुमुण्टु. पित्तरुमेतलारत्तिलोवेवणील - संतर्कणं स्नानम् चेय्तु कर्मामत्तिल नुमेन्तत पिररु, ज्ञातिकणम्, मर्हवर्कणम्, 13 मुरेऽमृक्षी, अक्णीयत्तेताट्टु, नेय्येयप्परुक्षी, मरुपटि स्नानम् चेय्यवेण्टुम्. इव्विषयत्तिल कववाहाः :- प्रवेशनम् मृतवियतेतत तल्लनम् चेय्तवन्त ओरु कालुम् चेय्यकं

கூடாது. அனுகமநம் செய்தவன், வஹநம் செய்தவன், ஸ்தரீகள் இவர்கள் புந: ஸ்நாநம் செய்து ப்ரவேசிக்கலாம். புத்தி பூர்வமாய் சவாநுகமநம் செய்தால், ஸ்நானம் செய்து, அக்னியை ஸ்பர்சித்து, நெய்யைப் பருகி, மறுபடி ஸ்நாநம் செய்து, ப்ராணையாமங்களைச் செய்தால் சுத்தங்களை வான்.

கத்சிஞ்சிஷ்டாத்யஸம்஭வे – அத்யமாவே ஘ृதாமாவே ஸ்தோ
ஸ்நானமாசரேத் । அபிமந்து து ஗ாயந்தா ஦ஶகृத்வோ யथாவி஧ி ।
அர்஧ஞ்சிலிமப: பீத்வா ஸ்ர்பாபை: ப்ரமுந்தே । வஜ்யேத்தத்தோராத்வ
ஜபஹோமார்ச்நாடிகம் இதி ஸ்மृத்யந்தரோக்த ஦ிஷ்டவ்யம் । அஸ்நாத்வா ஗்ராம் ந
ப்ரவிஶேயு: , அஸ்நாத்வா சேஷ்டிஶேஷ ஗்ராம் இமஶாநாத்துஷ்டிபூர்வகம் ।
நிராத்ரேஷை ஶுஷ்டி: ஸ்யாத்மத்யாத்தா விஶு஧்யதி இதி ஸ்மரணாத் ।

எவ்விதத்திலும், நெய் முதலியது கிடைக்காவிடில் — “அக்னி இல்லாவிடில், நெய் இல்லாவிடில், ஸ்தோ
ஸ்நாநம் செய்யவும். காயத்ரியால் விதிப்படி 10 முறை
அபிமந்தரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை, அரை அஞ்ஜலியளவு
பானம் செய்தால் ஸ்தோ பாபங்களாலும் விடுபடுவான்.
அந்தக் தினம் முழுவதும், ஜபம், ஹோமம், அர்ச்சனம்
முதலியதை வர்ஜிக்க வேண்டும்” என்று மற்று ரூரு
ஸ்ம்ருதியில் சொல்லியதை அறியவும். ஸ்நாநம்
செய்யாமல் க்ராமத்தினுள் ப்ரவேசிக்கக் கூடாது.
'ச்மசாநத்திலிருந்து ஸ்நாநம் செய்யாமல், க்ராமத்தில்
நுழைந்தால் மூன்று நாளா செளசம். இது புத்தி பூர்வ
விஷயம். அபுத்தி பூர்வகமானால் ஒரு நாளாசெளசம்’’
என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது.

ஜாதிவபனவி஧ி:

शुद्धयर्थं स्नानानन्तरं ज्ञातीनां वपनं विदधाति बोधायनः –
स्त्रेला दक्षिणाभिमुखाः समृत्तिका आष्टवन्ते, एतस्मिन्
कालेऽस्यामात्याः केशऽमश्रूणि वापयन्ते इति । अत्र स्नानानन्तरं

वपनविधानात्, अशुद्धान् स्वयमप्येतानशुद्धस्तु यदि स्पृशेत् ।
विशुद्धचत्युपवासेन तथा कृच्छ्रेण वा पुनः इति अशुद्धस्य
शूद्रादिस्पर्शे प्रायश्चित्तस्मरणाच्च न स्नानात् पूर्वं वपनं कुर्यात् ।
आपस्तम्बः - तेषु चोदकोपस्पर्शनं तावन्तं कालमनुभाविनां च
परिवापनम् इति । काशयपः - सन्त्यज्य विधिवत् प्रेतं यज्ञेषु तु
हविर्यथा । केशमश्रवादिवपनं कुर्युत्रानुभाविनः इति ।

ज्ञातीकरणिन् वपनविधि

सुत्तिकक्काक सन्नान्ततिर्थकुप पिऱकु, ज्ञातीकरणकुप
वपनत्तेत वित्तिकिण्ठुर पोतायनरः : तेत्रंकु
नेनाक्कियवर्कणाय, मंगुत्तिकेयुटनं लेचेल लन्नानम्
सेय्य वेण्ठुम्. इप्पेपामुतु, प्प्रेतनिन्ज्ञातीकरण
वपनम् सेय्तु केकाळावेण्ठुम्. इतिल, लन्नान्ततिर्थकुप
पिऱकु वपनम् वित्तिकप्पट्टिरुपपतालुम्, “ताओं
असुत्तनुयिनुम्, असुत्तरकणों लपर्सित्तताल, उपवासम्,
अल्लतु कंगुरुस्रत्ततालं सुत्तनुवर्णन्” एन्ऱु, असुत्तनुकुक्कु
कुत्तरणं मुत्तवियवरिन्ज लपर्सत्तिलं प्ररायसित्ततम्
वित्तिकप्पट्टिरुपपतालुम्, लन्नान्ततिर्थकु मुन्ज वपनम्
सेय्तु केकाळाक्क कूटातु. आपलंतम्पर - मातार, पितार,
आचार्यन्ज इवर्कण विषयत्तिल, आचेलासमुल्ला
वरेयिलं प्ररत्तितिनम् लन्नानम् सेय्य वेण्ठुम्.
मंगुत्तनुकुक्कु सिन्नियवर्कण वपनम् सेय्तु केकाळावुम्
वेण्ठुम्. काशयपरः : याकन्कणिलं लृविल्लै
अक्कन्नियिलं चेरप्पतु पोल, प्प्रेतिन वित्तिप्पटि
अक्कन्नियिलं चेरत्ततु, अनुपाविकण इप्पेपामुतु वपनम्
सेय्तु केकाळावेण्ठुम्.

स्मृतिरद्वामाधवीयादौ व्याख्यातम् - अनु पश्चाद्वन्ति
जायन्त इति पुत्राः कनिष्ठभ्रातरश्च । अथवा अनुभाविन इति पुत्रा
एव निर्दिश्यन्ते - गयायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोरुरोर्मृतौ ।
आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम् इति स्मरणात् ।

గृह्यपरिशिष्टेऽपि - एतद्वयनं संस्कर्तव्यतिरिक्तज्ञात्यादीनाम-
नित्यम् इति । विज्ञानेश्वरस्तु अनुभाविशब्दार्थमाह - अनु
पश्चाज्जायन्ते, शब्दुःखमनुभवन्तीति वा अनुभाविनः
कनिष्ठम्रातरः, सपिण्डाश्च इति ।

ஸ்ம்ருதிரத்நம் மாதவீயம் முதலியதில் இவ்விதம்
வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அநு - பிறகு, பவந்தி -
பிறக்கின்றனர் என்பதால், புத்ரர்களும், தம் பிகளும்
அநுபாவிகளெனப்படுகின்றனர். அல்லது
அநுபாவிகளென்று புத்ரர்களே சொல்லப்படுகின்றனர்.
“கயை, பாஸ்கர கேஷத்ரம், மாத்ரு ம்ருதி, பித்ரும்ருதி, குரு
ம்ருதி, ஆதானம், ஸோமயாகம் என்ற இந்த ஏழிலும்
வபநம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று ஸ்ம்ருதி
யிருப்பதால், என்று. க்ருஹ்யபரிசிஷ்டத்திலும் - இந்த
வபநம் ஸம்லக்கர்த்தாவைத் தவிர்த்த மற்ற ஜ்ஞாதி
முதலியவருக்கு நித்யமல்ல. (விகல்பம்)
விக்ஞாநேச்வரரோவெனில் : - அநுபாவி சப்தத்திற்கு,
இவ்விதம் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறார் - பிறகு
பிறந்தவர்கள், அல்லது சவதுக்கத்தை அநுபவிக்கின்றவர்
என்பதால், அநுபாவிகள் கநிஷ்ட ப்ராதாக்களும்,
ஸபிண்டர்களும் என்று.

तथा च स्मृत्यन्तरे - ज्येष्ठानां तु सपिण्डानां
शश्रूशशुरयोस्तथा । ज्येष्ठस्वसुश्च तद्भर्तुर्विपनं मरणे भवेत् इति ।
प्रथमगर्भजाता स्वसा तच्छब्देनोच्यते । तद्भर्तुमरणे वपनं भवेत्,
इतरत्र नेति व्याख्यातारः । अन्यत्रापि - कनिष्ठो ज्ञातिराघाहे
केशश्मशूणि वापयेत् । सनखानि सरोमाणि दशमेऽहनि वापयेत्
इति । सञ्च्रहेऽपि - भ्रातरस्त्वनुजाः पुत्राः ज्ञातयश्च सपिण्डकाः ।
विद्यया सह जाताश्च वापयेयुः परस्परम् इति ।

ऐरु सम्ग्रुहीयिलः : मुत्तवर्कलान् ज्ञानातीकलं, मामियार्प, मामार्प, ज्ञेयेष्टटयान् तमक्के, अवलीनं पुरुषेण इवर्कलीनं मरणत्तिलं वपनम् वितीक्कप्पत्तिलं प्रिन्त पकिन्दे चोललप्पत्तिकिरुन्. अवलीनं पर्त्ताविनं मरणत्तिलं तान् वपनमुण्डु. मन्त्र ज्ञेयेष्ट पकिन्देपति यिनं मरणत्तिलं वपनमिल्लै ऎन्किण्ऱनर्वं व्याक्यानकारर्कलं. मन्त्रेणुरु सम्ग्रुहीयिलुम् - किरीयवग्नेन ज्ञानाति, मुत्तलं नालीलं केस चम्चरुक्कलै मट्टिलं वपनम् चेयतुकेकालौ वेण्डुम्. नकरोमन्कलुटनं केस चम्चरु वपनत्तेतप् पत्ताववतु नालीलं चेयतुकेकालौ वेण्डुम्. लंकरूपत्तिलुम् :- कनिष्ट प्रराताक्कलं, पुत्रर्कलं, लपिण्टरान् ज्ञानातीकलं, वित्तययिणुलं कूटप् प्रिन्तवर्कलं इवर्कलं मंग्रुहीयिलं परस्परम् वपनम् चेयतुकेकालौवम्.

अत्र केचिदाहुः - वपनं द्विविधं दहनाङ्गं शुद्धचर्थं च, दहनाङ्गं दाहकस्यैव प्रथमदिने भवति, दाहदिने वपनविधानं च संस्कर्तृज्ञात्यादिविषयम् । शुद्धचर्थं तु सर्वसाधारणं दशमदिन एव ज्ञातीनां कर्तुश्च भवति । तथा च - नापितकर्मणि च कारयन्त एष प्रथमोऽलङ्कारः इति दशमेऽहन्येवापस्तम्बेन ज्ञातीनां वपनमुक्तमिति । अन्ये तु - यावदाशौचमुदकम् इति विष्णुस्मरणात्, क्षुरकर्मपूर्वकत्वाचोदकक्रियायाः, एतस्मिन् कालेऽस्यामात्याः केशशमशूणि वापयन्ते इति बोधायनेन दहनकालोत्तरस्तानानन्तरमेव मृतज्ञातीनां वपनविधानात्, प्रथमदिनेऽपि सर्वज्ञातीनां क्षुरकर्मत्याहुः । अत्र यथा स्वगृहं यथादेशाचारं व्यवस्था ।

ऐन्कु चिलर् इववितम् चोललुकिण्ऱनर्वः :- वपनमेन्पतु इरण्डु वितम्. तत्त्वान्कमेन्ऱुम्, क्षत्यार्त्तमेन्ऱुम्. तत्त्वान्कमेन्पतु तात्त्वकनुक्के�,

முதல் நாளில் வருவது. சுத்யர்த்தமோவெனில் எல்லோருக்கும் ஸாதாரணம். 10-து நாளிலேயே கர்த்தாவுக்கும் ஜ்ஞாதிகளுக்கும் வருகிறது. அவ்விதமே ஆபஸ்தம்பர் : - “வபநம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இது முதலாவதான அலங்காரம்” என்று 10-ஆவது நாளிலேயே ஜ்ஞாதிகளுக்கு வபநத்தைச் சொல்லியுள்ளார் என்று. மற்றும் சிலரோவெனில் - “ஆசௌசமுள்ளவரையில் உதக தாநம் செய்ய வேண்டும்” என்று விஷ்ணு ஸ்மர்த்தியிருப்பதால், உதகதான க்ரியையை கேழளரம் செய்துகொண்ட பிறகே செய்ய வேண்டியதால், ‘இக்காலத்தில் ப்ரேதனின் அமாத்யர்கள் வபநம் செய்து கொள்ளவேண்டும்’ என்று போதாயநரால் தஹந காலத்திற்குப் பிறகு செய்யப்படும் ஸ்நாநத்திற்கு உடனேயே ம்ருதனின் ஜ்ஞாதிகளுக்கு வபநம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால், முதல் நாளிலும் ஜ்ஞாதிகளெல்லோருக்கும் வபநமுண்டு என்கின்றனர். இவ்விஷயத்தில் அவரவர் க்ருஹ்யத்தையும், தேசாசாரத்தையும் மனுஸரித்து வ்யவஸ்தையை அறியவும்.

चन्द्रिकायां - पौत्राभावे प्रपौत्रो वा तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ।
 केशानां वपनं कृत्वा पैतृमेधिकमाचरेत् इति । एतदुदक-
 क्रियाद्यौधवदैहिकोपलक्षणम् । अकृत्वा वपनं मूढः प्रेतकर्म प्रवर्तते ।
 उदकं पिण्डदानं च श्राद्धं चैव हि निष्फलम् । वपनं दहनात् पूर्वं
 कुर्याच्चेत्पितृघातुकः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वपनं दहनात् परम् इति
 स्मरणात् । श्रीधराये - रात्रावपि दाहान्तं कृत्वा चैबोदकक्रियाः ।
 श्रोभूते वपनं कार्यं मेष धर्मस्सनातनः इति ।

சந்த்ரிகையில் : பெளத்ரனில்லாவிடில் ப்ரபெளத்ரன், அல்லது அவனது புத்ரன், அல்லது புத்ரிகாபுத்ரன், வபநம் செய்து கொண்டு ப்ரேதகர்மத்தைச் செய்ய வேண்டும்’ என்றுள்ளது. இது உதக க்ரியை முதலிய ஒளர்த்வத்தை ஹரிக க்ரியைக்கு. உபலக்ஷணம்.

वपनमिल्लामलं प्प्रेरेतकर्मत्तेताच्च चेय्य आरम्पित्तालं उत्तकम्, पिण्णटतानाम्, कर्त्तात्त विवेवयेल्लाम् निष्पलमाकुम्. वपनत्तेतत् तह्वनत्तिर्त्तु मुनं चेय्तुकेकाण्णटालं, प्रित्तरुक्कैलाक् केकाण्ण तेऽवृत्तेतयटेवाण्. एवंवित्तत्तालुम् तह्वनत्तिर्त्तुकुप् प्रिरुप् वपनम् चेय्तुकेकाळौ वेण्णुम् एन्ऱु स्मरुति उल्लातु. प्रृथीर्तीयत्तीलः : रात्तरीयिलुम् तह्वनत्तेता मुष्टित्तु उत्तक कर्त्तीय चेय्तु, मरुनालीलं वपनत्तेताच्च चेय्तुकेकाळौ वेण्णुम्. इतु पुरातनमान तर्मम्.

गाम्योऽपि – शौक्रे वारे निशायां च प्रेतक्षौरं विवर्जयेत् इति । स्मृत्यन्तरेऽपि – बीजानां वापनं क्षौरं वास्तुकर्म कृष्णं तथा । रात्रौ तु न प्रकुर्वीत कुर्वन् क्षिप्रं विनश्यति । वपनं नेष्यते रात्रौ शः कार्या वपनक्रिया इति । चन्द्रिकायाम् – दग्धा रात्रौ तु पिण्डान्तं कुर्याद्वपनवर्जितम् । अदाहकानामन्येषां शोभूते वपनं भवेत् इति । सन्नहेऽपि – भ्राता वा भ्रातुपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा । कनिष्ठो दहनं कुर्वन् केशश्वरूपी वापयेत् । रात्रावपि च दग्धानां कार्या चैवोदकक्रिया । वपनं नेष्यते रात्रौ शस्तदा वपनक्रिया इति ।

कार्क्कयाम् :- कक्षरवारत्तिलुम्, रात्तरीयिलुम्, मरण निषित्तमान केष्ठलारत्तेता वर्ज्जीक्कवुम्. ओरु स्मरुतीयिलः :- वित्तेता वित्तेप्पतु, केष्ठलारम्, वास्तु कर्म, कर्त्तुषी, इवेकैला इरविलं चेय्यकं कृटातु. चेय्पवनं चिक्रमधीवाण्. रात्तरीयिलं वपनम् कृटातु. मरुनालीलं चेय्तुकेकाळौवुम्. सन्त्तरीकैयिलः - रात्तरीयिलं तह्वनम् चेय्तालं पिण्णटतानाम् वररयिलं चेय्यवुम्. वपनत्तेता वर्ज्जीक्कवुम्. तह्वनम् चेय्यात मर्त्तवर्करुक्कुम् मरुनालीलं वपनम् वित्तिकप्पतुकिरतु. संक्रहृत्तिलुम् - प्ररातावायिलुम्, प्ररात्तरु पुत्तराण्णयिलुम्, सपिण्णटाण्णयिलुम्, चिष्याण्णयिलुम्, वयतिलं चिन्नियवनं तह्वनत्तेताच्च चेय्तालं वपनम् चेय्तुकेकाळौ वेण्णुम्. रात्तरीयिलं तह्वीक्कप्पत्तवर्करुक्कुम् अप्पेपामुदेते

உதகதானமும் செய்யப்பட வேண்டும். ராத்ரியில் வபநம் விதிக்கப்படுவதில்லை. அவ்விஷயத்தில் மறுநாளில் வபநம் விதிக்கப்படுகிறது.

बृहस्पतिः - शुक्रवर्गा विवर्ज्याः स्युस्तस्य लग्नगृहेक्षणाः ।
 காலஹோராடி ஶுக்ரஸ்ய ஶாவே^१வशயं விவர்ஜயே^२த் இதி । பக்ஷதௌ - ஶ்ராஷ்டை ச
 ஶாவக்ஷௌரை ச ஶுभா: காலா அஸோமனா: । வர்ஜயே^३चௌக்ரஜநமானி ஶ்ராஷ்டை
 ஸ்திஸுதயோரपி இதி । இத்யாदிநி ஶுக்ரவரே ராத்ரை ச வபனநிஷே஘பராணி
 வசனானி புத்ரநிதிரிக்தஸ்ஸ்கர்த்துநிஷயாணி, ஜாதிநிஷயாணி ச,
 மாதாபித்ரார்஗ுரோஶ்வ ஦ாக்ஸ்ய விஶேஷதः । தடைவ வபன் கார்ய ராத்ரவபி
 வி஧ேர்வலாத் இதி ஸ்மரணாத् ।

ப்ரஹஸ்பதி - சுக்ரனின் வர்க்கம், லக்னம், க்ருஹம், பார்வை, காலம், ஹோரை முதலியவையையும் சாவத்தில் அவச்யம் தவிர்க்கவும். பத்தத்தியில் - ச்ராத்தத்திலும், சாவகேஷனரத்திலும், சுப காலங்கள் அசுபகாலங்களாம். சுக்ரனுடையதுகளையும், தனது, பத்னீ புத்ரர்களின் ஜன்ம நகஷ்தரங்களையும், ச்ராத்தத்தில் தவிர்க்கவும். இது முதலிய, சுக்ரவாரத்திலும் ராத்ரியிலும் வபநத்தை நிஷேஷத்தில் புத்ரரைத் தவிர்த்த தாஹுகளைப் பற்றியதும், ஜ்ஞாதியைப் பற்றியதுமாம். “மாதா பிதாக்கள், குரு இவர்களைத் தஹித்தவனுக்கு, ராத்ரியிலானாலும் அப்பொழுதே வபநம் செய்யப்பட வேண்டும், வசந பலத்தால்” என்று ஸ்மருதி உள்ளது.

पुत्रस्य रात्रौ वपनविधिः ।

ஸ்மृத்யந்தரே - ஶுக்ரவரே ச ராத்ரை ச ஶாவே ச ஦க்ஷமே ஦ிநே । ராத்ரி஦ாஹே ததா குர்யாத் க்ஷௌர் பிண்டோடக்கியாம் । மாதாபித்ரோ ரथாந்யேஷாஂ ஶ்஬ோமூதே வபன் ஭வே^३த் இதி । அந்யத்ராபி - ராத்ரை ஦க்ஷா ப்ரமிதானாஂ வபன் ந கடாந்சன । ராத்ரவபி ச கர்த்தவும் மாதாபித்ரார்஗ுரோமூதை । ததா -

शुक्रवारे च रात्रौ च दर्जे संक्रमणे तथा । क्षौरं कुर्वीति पुत्रस्तु ज्ञातीनामपरेऽहनि । तथा - शौक्रे च वारे निशि वा मृतिस्स्यात् क्षौरं न कुर्यात्तनयस्तु कुर्यात् । कुरुः सपिण्डाश्च तथा परेद्युर्यद्वा तृतीये दिवसे च सप्तमे ॥ अन्यत्रापि - शौक्रे वा निशि वा दाहे पुत्रस्यैव तु वापनम् । सपिण्डानां परेद्युर्बातृतीये सप्तमेऽहिं वा इति ।

पुत्रनुक्तु रात्तरीयिलुम् वपन विति

कुरु संमंग्रुतीयिल् - सा व विषयत्तिल्, सक्त्रवारमाग्नेलुम्, रात्तरीयाग्नेलुम्, पत्तावतु नाशीलुम्, रात्तरीयिल् तल्लनम् चेयत्तालं अक्कालत्तिलेयुम् केष्ठलारम्, पिण्डोत्तोत्तकत्तानम् इवेवकलौक्त चेययवुम्. इतु माता प्रिताक्कलीनं विषयत्तिल्. मन्त्रवर्व विषयत्तिलाग्नेल, मरुनाशील वपनम् वित्तिकप्पट्टुकिरतु. वेणुरुरु संमंग्रुतीयिलुम् - इरन्तवर्कलै रात्तरीयिल् तल्लित्तालं ताल्लकन्तुक्तु वपनमिल्लै. माता प्रिताक्कलौ, कुरु इवर्कलीनं मंग्रुतीयिल् रात्तरीयिलुम् वपनम् वित्तिकप्पट्टुकिरतु. अव्वितमें सक्त्रवारत्तिलुम्, रात्तरीयिलुम्, तर्सत्तिलुम्, शन्करमणत्तिलुम्, पुत्रनं केष्ठलारम् चेयत्तुकेलालाम्. ज्ञातिक्कलौक्तु मरुनाशील विषयत्तिला. अव्वितमें — सक्त्रवारत्तिलेला, रात्तरीयिलेला मरणे मेंपट्टालं केष्ठलारम् चेयत्तुकेलालक्त कूटातु. पुत्रनं मट्टिलं चेयत्तुकेलालाम्. पुत्र व्यतिरिक्त कर्त्तताक्कलौम्, शपिण्ठरक्कलौम्, मरुनाशील, अल्लतु 3-वतु नाशील 7-शुवतु नाशील वपनम् चेयत्तु केलालाम्. मन्त्रेणुरु संमंग्रुतीयिलः : सक्त्रवारत्तिलेला, रात्तरीयिलेला तल्लनम् चेयत्तालं पुत्रनुक्तु मट्टिलं वपनम्. ज्ञातिक्कलौ मरुनाशीलेला, 3-वतु नाशीलेला, 7-वतु नाशीलेला चेयत्तुकेलालाम्.

तथा — प्रथमेऽहनि कर्तव्यं क्षुरकर्म प्रयत्नतः । तृतीये पञ्चमे वाऽपि सप्तमे वाऽप्रदानतः इति । आप्रदानतः - एकोद्दिष्टात्

ப்ராගித்யर्थः । ஗ौतமश्च – ப्रथமதृतीयपञ्चमसप்தமनवமेषुदकक्रिया
इति । क्षुरकर्मपूर्वकत्वादुदकक्रियायाः अयुग्मेषु दिनेषु
वपनानन्तरमुदकक्रिया कार्येत्यर्थः । अखण्डादर्शो – अनुसकेशो यः
पूर्वं स द्वितीयतृतीययोः । पञ्चमे सप्तमे वाऽहि दशाहे वाऽपि
वापयेत् इति ।

அவ்விதமே :- கெஷ்ணரத்தை முதல் நாளில்
செய்துகொள்ள வேண்டும். அல்லது மூன்றாவது,
ஐந்தாவது, ஏழாவது நாளில் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
ஏகோத்திஷ்டத்திற்கு முன் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
கொதமரும் :- 'முதல் நாள், மூன்று, ஐந்து, ஏழு,
ஒன்பதாவது நாட்களில் உதகதாந்ததைச் செய்ய வேண்டும்;
என்றார். உதக தானத்தை வபநம் செய்து கொண்டபிறகு
செய்யவேண்டுமாகையால், ஒற்றைப்படை நாட்களில்,
வபநம் செய்துகொண்ட பிறகு உதக க்ரியையைச் செய்ய
வேண்டுமென்பது பொருள். அகண்டாதர்சத்திலும் -
முதல் நாளில் வபநம் செய்து கொள்ளதாவன், 2, 3, 5, 7,
10-வது நாட்களுள் ஒரு நாளில் வபநம் செய்துகொள்ள
வேண்டும்.

एवं च पुत्रस्य शुक्रवारे रात्रावपि वपनम् । इतरेषां तु
संस्कर्तृणां पूर्वपूर्वदिनस्य दुष्टत्वे तत्रालस्यादिनां असम्भवे वा
द्वितीयाद्युक्तदिनेषु वपनपूर्वकमुदकदानम्, संस्कर्तृव्यतिरिक्त
ज्ञातीनां दशमदिनात् पूर्वं वपनमुदकदानं च वैकल्पिकम्, सर्वेषां
दशमदिने नित्यमिति विवेकः ।

இவ்விதமிருப்பதால், தாஹுகன் புத்ரங்களுல்
அவனுக்கு சுக்ரவாரத்திலும், ராத்ரியிலும் வபநம்
விழிதம். மற்றத் தாஹுகர்களுக்கு, முன் உள்ள தினம்
துஷ்டமானங்களும், அல்லது அந்தத் தினத்தில் ஆலஸ்யம்
முதலிய காரணத்தினால் வபநம் ஸம்பவிக்காவிடினும்,
2-ஆவது நாள் முதலிய விழித தினங்களில் வபநம் செய்து

केऽन्नं^६ उत्तकथानम् चेय्यप्पत् वेण्टुम्. ता॒हृकै॒न्तं
थवी॑र्त्तत् ज्ञाति॒कृ॒कृ॒त् तस्मै॒न्त्ति॒र्त् कु॒मु॒न् वपनमु॒म्
उ॒त्तक् ता॒नमु॒म् वैवकल्पि॒कम्. एलं॒लो॒रु॒कृ॒त् मु॒म्
तस्मै॒न्त्ति॒र्त् नी॒त्यम् एन्पतु॒ वी॒लकृ॒कम्.

रात्रौ॒ यामद्वयानन्तरं पुत्रस्यापि वपननिषेधः

पुत्रस्य रात्रौ॒ वपनं॒ यामद्वयमध्ये एव, न तु॒ यामद्वयात्॒ परम्।
तदुक्तं॒ श्रीधरीये – रात्रौ॒ यामद्वयादवाक्॒ कर्तुर्वै॒ वपनं॒ भवेत्। अन्येषां॒
तु॒ सपिष्ठानां॒ श्वोभूते॒ वपनक्रिया॒ इति॒। अत्र॒ कर्तृग्रहणं॒
पुत्रव्यतिरिक्तस्यापि॒ दाहकस्य॒ वपनप्रास्यर्थं॒, न॒ पुत्रान्तर-
व्यावृत्यर्थम्॒ इति॒ पितृमेधसारकृता॒ व्याख्यातम्। तदयुक्तम्॒, शौक्रे॒
च॒ वारे॒ निशि॒ वा॒ मृतिः॒ स्यात्॒ क्षौरं॒ न॒ कुर्यात्तनयस्तु॒ कुर्यात्॒
इत्यादिपूर्वोक्तवचननिचयेन॒ तनयव्यतिरिक्तस्य॒ संस्कर्तुर्निशि॒
वपनस्य॒ कण्ठरवेण॒ निषिद्धत्वात्, रात्रावपि॒ विधेर्बलादिति॒ निशि॒
पुत्रस्य॒ वपनविधानवदितरस्य॒ तद्विधानाभावाच्च॒। यामद्वयमध्ये॒
सर्वपुत्राणां॒ गर्भवतामपि॒ वपनं॒ समानम्। तदूर्ध्वं॒ निषेधोऽपि॒ स्मर्यते॒
- रात्रौ॒ यामद्वयादूर्ध्वं॒ पुत्रोऽपि॒ न॒ वपेत्ततः॒ इति॒।

रा॒त्रीयिलं॒ इरण्णु॒ यामन्कृ॒कु॒मेलं॒

पृ॒त्रनु॒क्तु॒म् वपनम्॒ कृ॒टा॒तु॒

पृ॒त्रनु॒क्तु॒ रा॒त्रीयिलं॒ वपनम्॒ इरण्णु॒
यामत्ति॒र्त् कु॒ल॒ता॒न्. २-यामन्कृ॒कु॒मेलं॒ कृ॒टा॒तु॒.
अव्यवीतम्॒ चेऽलं॒लप्पत्तु॒ल॒तु॒, शौरी॒यत्ति॒लं॒ :
“रा॒त्रीयिलं॒, २-यामत्ति॒र्त् कु॒मु॒न् कर्तृत्ता॒वृक्तु॒ वपनम्॒
विलृतम्॒. मर्त्र॒ ल॒पि॒न्ट॒र्कृ॒कु॒ मरु॒ ना॒ली॒लं॒ वपनम्॒”.
“इन्कु॒ ‘कर्तृत्ता॒’ एन्ऱ॒ चेऽलं॒लियतु॒, पृ॒त्रवृ॒यत्ति॒रीक्त॒त्तान्न॒
ता॒हृकै॒न्तं॒ वपन॒ प्ररा॒प्ति॒क्का॒क; मर्त्र॒प॒ पृ॒त्रर॒कै॒
वृ॒या॒वृ॒त्ति॒ चेय्य॒वृ॒त्ति॒कल्प॒”॒ एन्ऱ॒ प्रित्तर॒मेत
सौरका॒ररा॒लं॒ वृ॒या॒क्या॒नम्॒ चेय्य॒प्पत्तु॒ल॒तु॒. अतु॒
युक्तमल्ल॒. “कृ॒रवृ॒वा॒रत्ति॒ल॒ो, रा॒त्रीयिल॒ोम्॒रुत्ति॒या॒ल॒॒

தாஹுகன் வபநம் செய்து கொள்ளக் கூடாது. புத்ரனாகில் செய்து கொள்ளலாம்’’ என்பது முதலிய, முன் சொல்லப்பட்ட வெகு வசநங்களால், புத்ரனைத் தவிர்த்த ஸம்ஸ்கர்த்தாவுக்கு ராத்ரியில் வபநம் கூடாதென்று ஸ்பஷ்டமாய் நிஷேஷத்திக்கப்பட்டிருப்பதாலும், ‘ராத்ராவயிலிதேர்ப்பாத்’ என்று ராத்ரியில் புத்ரனுக்கு வபநம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல், மற்றவனுக்கு வபநவிதி இல்லாததும் காரணம். இரண்டு யாமங்களுக்குள், புத்ரர்களைல்லோருக்கும் கர்ப்பவான்களாகிலும் வபநம் ஸமாநம். அதற்குமேல் நிஷேஷதமும் ஸ்மிருதியிலுள்ளது — “ராத்ரியில் இரண்டு யாமங்களுக்குமேல் புத்ரனும் வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது” என்று.

शुक्रवारे निशि वा प्रोष्ठिपितृमृतिश्रवणे यामद्वयमध्येऽपि
पुत्रोऽपि वपनमतिक्रान्तप्रेतकृतं च न कुर्यात् । तथा च वृद्धहारीतः—
— शुक्रवारे व्यतिक्रान्ते मातापित्रोस्तथैव च । सन्ध्यारात्र्योस्तथा
क्षौरं प्रेतकार्यं च नाचरेदिति । समृत्यन्तरेऽपि — प्रत्यक्षमरणे पित्रोन
पश्येत्तिथिवारभम् । परोक्षे सूक्ष्मतः पश्येन्मृतौ तु तिथिवारभम्
इति ।

சுக்ரவாரத்திலோ, ராத்ரியிலோ தேசாந்தரத்தில் மரித்த மாதா பித்ரு ம்ருதியைக் கேள்விப்பட்டால், 2-யாமங்களுக்கு முன்பாயிருந்தாலும், புத்ரனாகினும், வபநத்தையும், அதிக்ராந்தமான ப்ரேத க்ருத்யத்தையும் செய்யக் கூடாது. அவ்விதமே, வருத்தஹார்தர் - மாதா பிதாக்களின் அதிக்ராந்த மரணத்தின் ச்ரவண விஷயத்தில், சுக்ரவாரத்திலும், ஸந்த்யா காலத்திலும், ராத்ரியிலும், கெஷளரம், ப்ரேதகார்யம் இவைகளை செய்யக் கூடாது.

ज्ञातीनां सन्निधाने वपनमितरत्र विकल्पः

सन्निधाने सपिण्डमरणे वपनमितरत्र विकल्प इत्याह
बोधायनः — एतस्मिन् कालेऽस्यामात्याः केशशमश्रूणि वापयन्ते ये

सन्निधाने भवन्ति विकल्प इतरेषु वापयेरनिवर्तयैरेन् । इति ।
स्मृत्यन्तरे - सन्निधाने सपिण्डानां (वपनं तु विधीयते) वपनं
स्याद्गुरोर्मृतौ । महागुरौ तु सर्वत्र दाहकस्यागुरावपि इति ।

ज्ञातीकारुकंकु, नेरीलं इरुन्त्तालं वपनम्
प्रेरोक्षत्तीलागुलं वीकल्पम्.

नेरीलं नेरन्त्त ज्ञाती मरणत्तिलं वपनम्, मर्न्ततिलं
वीकल्पम् एन्किरुरं पोतायनारः :- इक्कालत्तिलं,
प्रेरोक्षनीं ज्ञातीकालं मयीरं मीक्षे इवेकलौ वपनम्
सेय्तु केकाळौ वेण्णुम्, नेरीलं इरुप्पवर्कालं.
नेरीलिल्लातवर्कालं वीष्यत्तिलं वीकल्पम्. वपनम्
सेय्तु केकाळौलाम्. अल्लतु वपनम् सेय्तु
केकाळौमलुमिरुक्कलाम्. मर्न्तिरु लंगुरुतीयिलं -
नेरीलुलौ ज्ञातीकारुकंकु वपनम् वीतिक्कप्पटुकिरु.
कुरुविं मंगुतीयिलुमप्पटिये. महाकुरुविं
मंगुतीयिलागुलं, लन्तन्तिति, अलन्तन्तिति इरण्णिलुम्
वपनमुण्णु. कुरुवल्लातवनं वीष्यत्तिलुम्
तालुकारुकंकु वपनमुण्णु.

असन्निधाने निषेधश्च स्मर्यते - सन्निधाने सपिण्डानां वपनं तु
विधीयते । असन्निधाने सर्वत्र वपनं न विधीयते इति । असन्निधाने
- यदा कदाचिद्वूरस्थ ज्ञातिमृतिश्रवणे वपनं न कुर्यात्, किन्तु
तिलोदकमेव कुर्यादिति केचिद्ब्रच्याचक्षते । अन्ये तु, असन्निधाने
निषेधवचनं ज्ञातीनां प्रथमदिनक्षौरविषयम्, दशमदिने तु
क्षौरमस्त्येव, दशमदिनादूर्ध्वं श्रवणेऽपि वपनं, तर्पणं चास्त्येवेति ।
अपरे तु - सन्निधाने दशमदिनक्षौरै वारादिदोषो नास्ति,
असन्निधाने अनिषिद्धे दिने पूर्वत्र कर्तव्यम्, न तु दुष्टे दशमदिन
इत्याहुः । शिष्टाचारादिह व्यवस्था ।

நேரிலில்லாத விஷயத்தில் வபந நிஷேஷதமும் ஸ்ம்ருதியிலுள்ளது - “நேரிலிருந்தால் ஸபிண்டர்களுக்கு வபநம் விதிக்கப்படுகிறது. நேரில்லாவிடில் எல்லா விஷயத்திலும் வபநம் விதிக்கப்படுவதில்லை” என்று. “அஸந்திதாநே - எப்பொழுதாவது, தூர தேசத்தில் மரித்த ஜ்ஞாதியின் மரணத்தைக் கேட்டால், வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது. ஆனால் திலோதக தாநத்தை மட்டில் செய்யவேண்டும்” என்று சிலர் வ்யாக்யாநம் செய்கின்றனர். சிலரோவெனில் — “பரோக்ஷத்தில் வபந நிஷேஷத வசநம், ஜ்ஞாதிகளுக்கு ப்ரதமதினத்தில் விலூரிதமான கௌரத்தைப் பற்றியது. 10-ஆவது தினத்திலோவெனில் கௌரம் அவச்யமுண்டு. 10-ஆவது தினத்திற்கு மேல் கேட்கப்பட்டாலும் வபநமும், தர்ப்பணமும் அவச்யமுண்டு” என்கின்றனர். மற்றும் சிலரோவெனில் — நேரில் 10-ஆவது தின கௌரத்தில் வாரம் முதலியதாலாகிய தோஷமில்லை. பரோக்ஷத்தில் நிஷேஷமில்லாத தினத்தில் முன்பே செய்துகொள்ள வேண்டும். தோஷமுள்ள 10-ஆவது தினத்தில் கூடாது எனகின்றனர். இவ்விஷயத்தில் சிஷ்டாசாரத்தால் வ்யவஸ்தையை அறியவும்.

மாதாபிதृவிஷயே து ஸ்மृத்யந்தரं – ஦ேಶாந்தரே ஸ்஥ிதः புत्रः ஶ्रுत्वा பிதृவிபர்யம् । கृत्वा து வபனं தத்வ ஦शாஹாந்தं திலோடகம् । ஸபிண்டீகரணஶாஞ் குய்஦ிகாடஶோதனி இதி । ஸங்஘ே – ஦ாரகர்மணி மृதௌ ச ஸूதகே யாगदीக்ஷிதவி஧ௌ நृபேष்டः । கந்யகாகடக-
கும்஭ந்வஙே ஭ாஸ்கரேபி வபன் வி஧ியதே । விவாஹ்஦ிக்ஷாம஧யே து ஜ்ஞாதீனா் மரणே ஸதி । திர்ஶத்திலோடகக் கார்ய க்ஷுரகர்ம ந வி஦ியதே இதி । விவாஹ்஦ிக்ஷாம஧யே மாதாபிதுமரணே து வபனமஸ்தி । மாதுர்஦ஶாஹம஧யே பிதृமரணே ஸஂஸ்கர்த்துபன் ந இத்யுக்த ஸ்மृதிரத்தே – பிதுர்஦ஶாஹம஧யே து மாதா ச நி஧ன் ஗தா । தற்கை வபன் கார்ய விபரிதே ந காரயேத் இதி ।

माता पीतंरु विषयत्तिलोवेवनील् औरु संमरुद्धि - 'तुर तेचत्तिलुल्लौ दुत्तरन्, माता पीतंरु मंरुत्तियेकं केलंविप पट्टालं, वपनम् चेयंतु केळाण्णु पत्तुनाल्लौ वरेयिल् तिलोत्तकतानम् चेयंतु, 11-आवतु नालील् सपिण्णमकरणं चरात्तत्तत्तेतच चेय्यवुम्' एन्किरतु. लंकंकरहृत्तिल् - विवाहृत्तिलुम्, मंरुत्तियिलुम्, दुत्तर ज्ञनत्तिलुम्, याकत्तिकेष्यिलुम्, अरचनील् इष्टत्तत्तिर्काकवुम्, कन्या, कटक, गुम्प, तनुर्मालंकलीलुम्, वपनम् वित्तिकप्पटुकिरतु. विवाहृत्तिक्षामत्यत्तिल् ज्ञंगुत्तिकलील् मरणम् नेरन्त्तरालं 30 तिलोत्तक ताणत्तत्तेतच चेय्यवुम्. केष्वराम् वेण्णटियत्तिलैल. विवाहृत्तिक्षामत्यत्तिल् माता पीतंरु मंरुत्तियिलेवनील्, वपनमुण्णु. माताविन्मंरुत्तियिल् 10 नाट्कलुल् पीता इरन्त्तरालं सम्स्करत्तावुक्कु वपनमिलैल एन्ऱु चेलंलप्पट्टुलौतु. संमरुद्धि रत्तनत्तत्तिल 'पीतंरु मंरुत्तियिल 10-नाट्कलुल् माता इरन्त्तरालं वपनम् चेयंतु केळालौ वेण्णुम्. इतरंकु विपरीतमाणं विषयत्तिल वपनम् कूटातु' एन्ऱु. (मातंरु मंरुत्तियिल 10-नाट्कलुलंपीता इरन्त्तरालं वपनमिलैल एन्पत्ताम्).

सद्ग्रहे - पितृदीक्षान्तरे सूनोर्माता यदि विपद्यते । वपनं चापि कुर्वीत मातुः कुर्यात् क्रियां ततः ॥ मातुदीक्षान्तरे चैव पिता मरणमाप्यात् । दहनादि क्रियाः कुर्याद्विपनं नैव कारयेत् इति । अत्र दीक्षान्तरे इत्युक्तत्वाद्वशाहानन्तरमपि पितृमरणे संस्कर्त्तर्वपनं न, मातृमरणे तु वपनमस्तीत्युक्तं भवति । अन्यविषयेऽपि तत्रैवोक्तम् - मातापित्रोर्मृताब्दे तु यद्यन्यो हि विपद्यते । वपनं नैव कुर्वीत तस्य दाहादिकं चरेत् इति ।

लंकंकरहृत्तिल् :- पीताविन्मंरुत्तिक्षामत्यत्तिल् माता इरन्त्तरालं वपनम् चेयंतु केळालौ वेण्णुम्. पीतंरु माताविन्मंरुत्तियेय्यम् चेय्य वेण्णुम्. मातंरु

தீக்ஷாமத்யத்தில் பிதாவுக்கு ம்ருதியானால் தஹநம் முதலிய க்ரியைகளைச் செய்ய வேண்டும். வபநத்தைச் செய்துகொள்ளவே கூடாது, என்றால்தான். இங்கு ‘தீக்ஷாந்தரே’ என்று சொல்லியிருப்பதால், 10-நாட்களுக்குப் பிறகும் பித்ர மரணத்தில் ஸம்லகர்த்தாவுக்கு வபநமில்லை. மாத்ரு மரணத்திலோ வெனில் வபநமுண்டென்று சொல்லியதாயாகிறது. அன்யன் விஷயத்திலும் அங்கேயே (ஸங்க்ரஹத்திலேயே) சொல்லப்பட்டுள்ளது — “மாதா பிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷத்தில் அன்யன் மரித்தால் வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது. அவனுக்கு தஹநம் முதலியதைச் செய்ய வேண்டும்” என்று.

ஸ்மृத்யந்தரே — பிதுரைக்ஷாந்தராலே து மாற்ற வபன் ஭வेत् । மாறந்தரா து பித்ரைமன்யார்஥மपி நாசரேत् இதி । பிதுமேधஸாரே — பித்ரோம்ர்தா஬ே பிதுவ்யாடிமரணே ந வபேத् இதி । யது கைஶி஦ுக்தம् — ஸ்வபுறமரணே சைவ ஸ்வभாயமிரணே தथா । ஸ்வயं யதி ஦ஹெத்ர கேशமஶ್ରूணி வாபயேத् । இதி, தத்துஸ்மृதிவிருஷ்ட்வாஞ்சிஷாந்தர-விரோධாஞ்ச உபேக்ஷணீயம् । யதாஹ வृஷமனுः — ஭ார்யபுறக்கனிஷானாஞ்சிஷாணாஞ்ச யதீயஸாம् । ஸங்கர்த்துபன் நைவ யதி குர்யாத் குலக்ஷயः இதி । காத்யாயனஶ — மூதாவனுபநிதானாஞ்ச வபன் ந கடாசன । மூதாவபி கனிஷானாஞ்ச வபன் ந வி஧ியதே இதி । அனுபநிதானாஞ்ச பிதுவ்யாடிநாமிதி ஶோஷः ।

ஓரு ஸ்ம்ருதியில் - பித்ர தீக்ஷையில் நடுவில் மாத்ரு ம்ருதியானால் வபநமுண்டு. மாத்ரு தீக்ஷையின் நடுவிலோவெனில், பிதாவுக்கும் அன்யனுக்கும் ம்ருதி நேர்ந்தால் வபநமில்லை. பித்ருமேத ஸாரத்தில் - மாதா பிதாக்களின் மரண வர்ஷத்தில் பித்ருவ்யன் முதலியவரின் மரணம் நேர்ந்தால் வபநமில்லை. சிலர் :— “தனது புத்ரனின் மரணத்திலும், தனது பார்யையின்

मरणत्तिलुम्ताणं तावृकगुणेषु वपनम् चेय्युकेकाण्णा
वेण्णुम्” एन्ऱु शोल्लियिरुक्किण्णनरो एणील, अतु,
वेकु लम्गुत्तिकाणुक्कु विरुत्तमायिरुप्पत्तालुम्,
चिष्टाचार विरुत्तमायिरुप्पत्तालुम् उपेष्टिक्कत
तक्कतेयाम्. एजेणील, व्यरुत्तमाणुः :- “पार्यय,
पुत्तरण, कणीष्टाण, चिष्याण, चिरियवर इवर्काणुक्कु
लम्स्कारम् चेय्युवनुक्कु वपनमिल्लै.
चेय्युकेकाण्णटाल् कुलम् क्षिणमाकुम्” एन्पर.
कात्यायणरुम् - “उपन्यामाकात्तवरीन मंगुत्तियिल
छरुकालुम् वपनमिल्लै. चिरियवरीन मंगुत्तियिलुम्
वपनमिल्लै” एन्ऱुर. इन्कु ‘अनुपन्त्तानाम्’ एन्पत्तिल
‘पित्तरुव्यात्तिनाम्’ एन्ऱु शेर्क्कवुम्.

तथाचोपनीतानां तेषां मृतौ वपनं स्मर्यते – यवीयसां
पितृव्याणां संस्कर्तुर्वपनं भवेत् इति । पितृव्यग्रहणं
मातुलश्वरत्तप्तीनामप्युपलक्षणम् । एतच्च पितृव्यादीनां
संस्कर्तुरिव वपनम्, संस्काराभावे तु वयोधिकपितृव्यादिमरणे
वपनम्, तेषां पत्नीनां यवीयसीनामपि मरणे वपनम्, वयोधिक
ज्ञातीनां याः पद्यस्तासां कनीयसीनामपि मरणे वपनम्,
पतिवयसः ख्यिस्स्युः पतीनाभिव वापनम् । पूर्वजाऽपरजा वाऽपि
क्षौरं साधारणं स्मृतम् इति वचनात्, आपस्तम्बेन च पतिवयसः
ख्यिः इति नमस्कारादौ विधानादिति केचिदाहुः ।

अव्यवीतमिरुप्पत्ताल्, उपन्यनमाक्षिय अवर्कणीनं
मंगुत्तियिल वपनम् शोल्लिप्पत्तुकिरुत्तु छरु लम्गुत्तियिल -
चिरुवर्कणाण पित्तरुव्यात्तकणीन मंगुत्तियिलुम्,
लम्स्कर्त्तत्तावुक्कु वपनमुण्णु एन्ऱु. पित्तरुव्य
चप्तत्तत्तत्त करुव्यित्तत्तु, मातुलण, मामणेर, मामियार
इवर्काणुक्कुम् उपलक्ष्माकुम्. इतगुणे,
पित्तरुव्यात्तिकणा लम्स्करीत्तत्तवनुक्केवे वपनम्.
लम्स्करीक्ककावीष्टलेवा, वयत्ताल् वेरीयवराक्षिय

பித்ருவ்யாதி களின் மரணத்தில் வபநம். அவர்களின் பத்னிகள் சிறிய வராயினும் அவர்களின் மரணத்தில் வபநம். வயதால் பெரிய வர்களான ஜ்ஞாதி களின் பத்னிகள் வயதில் சிறிய வர்களானாலும் அவர்களின் மரணத்தில் வபநம் — “ஸ்த்ரீகள் பதியின் வயதிற்குச் சமமான வயதுடைய வராகின்றனர். அவர்களின் பதிகளின் ம்ருதியில்போல், அவர்களின் ம்ருதியிலும் வபநம். அவள் வயதில் பெரிய வளாயினும், சிறிய வளாயினும் வபநம் ஸாதாரண மெனப்பட்டுள்ளது” என்ற வசனத்தாலும், ஆபஸ்தம்பரால் — ‘ஸ்த்ரீகள் பதியின் வயதுடைய வர்கள்’ என்று நமஸ்காராதி களில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், என்று சிலர் சொல்லுகின்றனர்.

அன்யே து — பிதृவ्यாடிமரण வரோධிகானா் வபன் நாஸ்தி, ந்யூனவயஸ்க தத்பனிமரணே^१ பி நாஸ்தி இத்யாஹுः । தடுக்த ப்ரயோகஸாரே — மாதுலஸ்ய பிதृவ्यஸ்ய ஶஹுரஸ்யாகராயுஷः । வபன் நைவ கர்த்து மாஶௌच் து வி஧ியதே இதி । ஬ார்ஹஸ்பத்யே^२ பி — மாதுலானா் பிதृவ்யாணா் ஶஹுராணா் பிதृவ்யஸுः । மாதூணாமனுஜாதானா் ததைவ ஜ்யேஷ்யோஷிதாம् । வபன் நைவ கர்த்து மாஹ பாராஶரோ முனிஃ இதி । ஸமூத்யந்தரே^३ பி — யவீயஸா் பிதृவ்யாணா் ஶஹுராணா் ச தத் ஸ்தியாம் । ந குர்யாத் க்ஷுரக்மர்ணி குர்யாத்தி குலநாஶனம் இதி । எதானி வபனநிஷே஧வசனானி ஸ்ஸக்ர்துவ்யதிரிக்த விஷயாণி — ஜ்யாயானபி பிதுः பத்வா யதி ஸ்ஸகாரமாச்சரேத் । க்ஷுரக்ம் ததா குர்யாத்து விஶேஷஸ்மரணாத் । யதா ஶிஷ்டா சாரமத வ்யவஸ்஥ா ।

மற்றவரோவெனில் — பித்ருவ்யாதி மரணத்தில் வயதால் பெரிய வர்க்கு வபநமில்லை. வயதால் சிறிய வர்களான பித்ருவ்யாதி பத்னீ மரணத்திலும் வபநமில்லை என்கின்றனர். அது சொல்லப்பட்டுள்ளது. ப்ரயோகஸாரத்தில் :— வயதால் சிறிய வனை மாதுவன்,

पितृरुव्ययन्, मामगुरुं इवर्कलीनं मंग्रुतियिलं वपनमं चेष्टुकेकाळौवे कृटातु. आचेसाचमं मट्टिलं वित्तिक्कप्पटुकिरतु. पार्वृहृष्णपत्त्यत्तिलुमः - मातुरुलर्कलं, पितृरुव्ययर्कलं, मामगुरुकलं, अत्ततेत, मातृरुपकिन्तकलं, ज्ञेयेष्टप्तप्रात्तरु पत्तनीकलं इवर्कलीनं मंग्रुतियिलं वपनमं चेष्टुकेकाळौकं कृटातेतन्त्रुरं प्रराशरमुनि. ओरं संमंग्रुतियिलुम् - वयत्रिर्चिन्तियवरानि पितृरुव्ययर्कलं, मामगुरुकलं, मामियार्कलं इवर्कलीनं मंग्रुतियिलं केष्ठलारमं चेष्टुकेकाळौकं कृटातु. चेष्टुकेकाण्टालं कुलमं नचिक्कुम्. इन्त वपनं निषेष्ठ वसनंकलेलंलामं समंस्कर्त्ता अल्लातवर्कलोपं पर्न्त्रियताम्. “वयत्रिलं पेरियवन्तुयिलुम्, पिताविनं पत्तनीक्कु समंस्कारमं चेष्ठाण्णुलं केष्ठलारमं चेष्टुकेकाळौ वेण्णुम्. इल्लाविष्टिलं उतकताण्णतते मट्टिलं चेष्यवुम्” ‘चिन्तियवर्कलानि पितृरुव्ययर्कलौ समंस्करीत्तवन्तुक्कु वपनं मुण्णु’ एन्ऱु विचेष्व वाक्यमिरुप्पतालं. इवविष्यत्तिलं चिष्टाशारप्पति व्यवल्लतये अर्नियवुम्.

गर्भिणीपतिविषये वपनविधिः ।

अन्तर्बद्धिषये यमः - अन्तर्वताऽपि कर्तव्यं पित्रोर्मरण एव तु । नान्येषां वपनं कार्यं भूणहत्यासमं भवेत् इति । पित्रोर्मरणे संस्कर्त्तव्यतिरिक्तेन पुत्रेणान्तर्वताऽपि वपनं कार्यम् । अन्येषां मरणेऽन्तर्वता वपनं न कार्यमित्यर्थः । पित्रोर्मरण एव त्वित्युपलक्षणम् । ग(या)ज्ञायां भास्करक्षेत्रे माता पित्रोर्गुरोर्मृतौ । आधाने सोमयोगे च गर्भिणानपि वापयेत् इति स्मरणात् ।

कर्पपिण्णेपत्ति विष्यत्तिलं वपनं वित्ति

कर्पपिण्णेपत्ति विष्यत्तिलं :- यमनः : “कर्पपिण्णेपत्तियाग्नेलुम् माता पिताक्कलीनं मरणत्तिलं वपनमं चेष्टु केकाळौवेण्णुम्. मर्त्रवर्कलीनं

ம்ருதியில் வபநம் கூடாது. செய்து கொண்டால் கர்ப்பவற்றையக்குச் சமமாகும்” என்றார். ‘மாதா பிதாக்களின் மரணத்தில், ஸம்ஸ்கர்த்தாவல்லாத புத்ரன் கர்ப்பினீபதியாயிருந்தாலும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். மற்றவரின் ம்ருதியில் கர்ப்பினீபதி வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது’ என்பது பொருள். ‘பித்ரோர் மரண ஏவது’ என்பது உபலக்ஷணமாகும் — “கணயயிலும், பாஸ்கர கேஷத்ரத்திலும், மாதா பிதாக்கள், குரு இவர்களின் ம்ருதியிலும், ஆதாநத்திலும், ஸோமயாகத்திலும், கர்ப்பினீ பதியாகினும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும்” என்று ஸ்ம்ருதி வசநம் உள்ளது.

ஸ்மृத்யந்தரே – ஆधானே யஜாதிகாயா மாதாபித்ரோர்மூர்த்தை । ஗ர்஭வான் வபன் குர்யாந்யந்தேதி வ்யவஸ்஥ிதிஃ இதி । ஗ர்஭வதோ மாதாமஹாதீநா ஸங்ஸ்கர்த்த்வே வபனமாஹந்திஃ – மாதாமஹபித்துவ்யாணா மாதுலாயார்யாமூர்த்தை । ஶஶுராசார்யாரேஷா பத்திரீநா ச பித்துவ்யாணா : மாதுவஸுர்மீந்யாஶ ஗ர்஭வானபி வாபயேத் இதி ।

ஓர் ஸ்ம்ருதியில் :— ஆதாநத்திலும், யஜ்ஞ திகைஷயிலும், மாதா, பிதா, குரு இவர்களின் ம்ருதியிலும் கர்ப்பினீபதியும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். மற்றவர் விஷயத்தில் கூடாது, என்பது வ்யவஸ்தை. கர்ப்பினீபதிக்கு, மாதா மஹாதீகளின் ஸம்ஸ்கர்த்தருத்வம் ஏற்பட்டால் வபநத்தை விதிக்கின்றார் அத்ரி :— மாதாமஹன், மாதாமஹீ, பித்தருவ்யன், மாதுவன், ஜ்யேஷ்டன், மாமான், ஆசார்யன், இவர்களின் பத்திரிகள், பித்தருபகிநீ, மாத்தருபகிநீ, பகிநீ, இவர்களுக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்தால், கர்ப்பினீபதியும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

஗ௌதமः – மாதாமஹே ச தத்பத்யா மாதுலே பூர்வஜே மூதே । ஗ுருஶ்ஶுரபத்திஷு ஗ர்஭வானபி வாபயேத் । ஦ாக்கோ வபன் குர்யாந்யந்தேதி வ்யவஸ்஥ிதிஃ இதி । ஸ ஏவ – அபுநஸ்ய பித்துவ்யஸ்ய ஜ்யேஷ்டஸ்யாப்யஸுதஸ்ய

च । अन्तर्वान् दहनं कुर्वन् केशश्मशूणि वापयेत् इति । स्मृत्यन्तरेऽपि - मातामहस्य तत्पद्या मातृणां मरणे सति । पितृष्वसुर्भगिन्याश्च दहने गर्भवान् वपेत् । मातरं पितरं ज्येष्ठ माचार्यं शशूरं विना । न कुर्याद्वपनं तत्र गर्भवान् संस्थितस्य तु इति ।

केळात्मरः :— मातामहून्, मातामहै, मातुलॅन्, तमयॅन्, कुरु, मामानौर, अवरीन् पत्नै इवर्कैनिॅन् मंगुठिय॒ल कर्प्पिणै पत्तिया॒कैनुम् वपनम् चेयंतु केळालॊला॒ वेण्णुम्. ता॒लुकालै किल कर्प्पिणै पत्तिकंकु वपनम्. ता॒लुकालैला॒त कर्प्पिणै पत्तिकंकु वपनमि॒लै, एन्पतु व्यवलैत. **केळात्मरः** :- पुत्ररनी॒लैला॒त पित्तरु व्यनुकंकुम्, पुत्ररनी॒लैला॒त ज्ञयेष्ट॒तनुकंकुम् लम्स्लकारम् चेयंतवैन कर्प्पिणै पत्तिया॒गुलुम् वपनम् चेयंतु केळालॊला॒ वेण्णुम्. वेऱु ल॒स्मंगुठिय॒लुम् :- मातामहून्, मातामहै, माताकैकैनै, पकिनै, इवर्कैनैत तैवित्ता॒ल, कर्प्पिणै पत्तिया॒गुलुम् वपनम् चेयंतु केळालॊला॒ वेण्णुम्. माता॒, पिता॒, ज्ञयेष्ट॒तै, आ॒चार्य॒न, मामानौर इवर्कैनैत तैविर्त्तु मर्नैवर्कैनिॅन मंगुठिय॒ल कर्प्पिणै पत्ति वपनम् चेयंतु केळालॊलकै॒कूटा॒तु.

वृद्धमनुः :- दहनं वपनं वाऽपि प्रेतस्यान्यस्य गर्भवान् । न कुर्यादुभयं तत्र कुर्यादेव पितुः सदा । ज्येष्ठस्य चानपत्यस्य मातुलस्यासुतस्य च इति । मातुलग्रहणं मातामहादेरप्युपलक्षणम् । एवं च मातापित्रोर्मरणेऽन्तर्वतामनन्तर्वतामपि संस्कृतृणाम- संस्कृतृणां च वपनं समानम् । मातामहादिदहने गर्भवतो दौहित्रादेवपनम्, संस्काराकरणे तु गर्भवतो वपनं नास्ति, आशौचमात्रमेव भवति । अनन्तर्वतो दौहित्रादेः मातामहादिसंस्काराकरणेऽपि वपनमस्तीति निर्णयः । अत्र स्मृत्यन्तरम् - ज्येष्ठस्वसृणां जनकस्वसृणां मातृष्वसृणामपि

तत्पतीनाम् । मातामहस्यैव पितामहस्य तदीयपद्व्योर्बपनं च वैधम्
इति । अत्र तत्पतीनामित्येतत् शिष्टसमाचाराभावादुपेक्ष्य-
मित्याहुः ।

வெள்ளுத்தமனு :- கர்ப்பினீபதி, இறந்தவன் விஷயத்தில் தஹநத்தையும், வபநத்தையும் அனுஷ்டிக்கக் கூடாது. பிதா, புத்ரனில்லாத தமயன், புத்ரனில்லாத மாதுலன் இவர்கள் விஷயத்தில் இரண்டையும் செய்யவும். அன்யனின் விஷயத்தில் கூடாது. இங்கு மாதுலனைச் சொல்லியது, மாதாமஹன் முதலியவர்க்கு முபலக்ஞமாகும். இவ்விதமிருப்பதால், மாதாபிதாக்களின் மரணத்தில், கர்ப்பினீபதிகளானாலும், கர்ப்பினீபதிகளல்லாதவரானாலும், ஸம்ஸ்கர்த்தாக்களானாலும், ஸம்ஸ்காரம் செய்யாதவரானாலும், புத்ரர்களுக்கு வபநம் ஸமாநம். மாதாமஹாதிகளின் தஹநத்தில் கர்ப்பினீபதியான தெளவுறித்ரன் முதலியவனுக்கு வபநம். ஸம்ஸ்காரம் செய்யாவிடில், கர்ப்பினீபதிக்கு வபநமில்லை. ஆசௌசம் மட்டிலுண்டு. கர்ப்பினீபதியல்லாத தெளவுறித்ரன் முதலியவனுக்கு, மாதாமஹாதி ஸம்ஸ்காரம் செய்யாவிடினும் வபநமுண்டென்பது நிர்ணயம். இவ்விஷயத்தில், வேறு ஸ்மருதி - “ஜ்யேஷ்டபகிந்கள், பித்ரு பகிந்கள், மாத்ரு பகிந்கள், இவர்களின் பர்த்தாக்கள், மாதாமஹன், பிதாமஹன், இவர்களின் பத்நிகள், இவர்களின் ம்ருதியில் வபநம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது”. இதில் ‘தத்பத்நாம்’ என்றவிஷயம், சிஷ்டாசாரமில்லாததால் ஆதரிக்கத் தகுந்ததல்ல என்கின்றனர்.

अन्यत्रापि तु सपिण्डानां शश्रूश्वशुरयोस्तथा । ज्येष्ठस्वसुश्रू
तद्भर्तुर्मरणे वपनं भवेत् । शश्रूश्वशुरयोनर्नाशे पूर्वं भार्या मृता यदि ।
आशौचं दिनमात्रं स्थाद्वपनं नैव विद्यते । तत्सन्ततिः स्थान्त्रियहं
वपनं च विधीयते इति । तथा – मातामहपितुः पित्रोस्तत्पद्म्योः

ऋत्विजस्तथा । एतेषां वपनं कुर्यानि चेत् स ब्रह्मघातकः इति ।
स्मृत्यन्तरे – भ्रातरः पितरः पुत्रा ज्ञातयश्च सपिण्डकाः । विद्यया
सह जाताश्च वापयेयुः परस्परम् इति ।

मन्त्रबेशुग्रु लंमंग्रुतीयित्वम् :- बेपरीयवर्कलाऩ
ज्ञानात्मिकलं, मामियार्, मामान्नर्, ज्ञेयेष्टपकिन्दि, अवलातु
पर्तक्ता, इवर्कलीनं मरणत्तिलं वपनमुम्नन्तु. पार्त्येय
मुन्पु इरन्तु, पिंपु मामियार् मामान्नर्कलं इरन्तालं
छरुनालं मट्टिला चेलाचम्म, वपनमिल्लै. पार्त्येयक्तु
लन्तत्ति इरुन्तालं, ३-नाला चेलाचम्म, वपनमुम्म
वित्तिक्कप्पटुकिरतु. अप्पटिये, मातामलैनं,
पितामलैनं, अवर्कलीनं पत्तिक्कलं, रुत्तिक्क इवर्कलीनं
मंग्रुतीयिलं वपनम् चेय्तुकेकालंलवुम्. इल्लावीटिलं,
प्ररह्मलैत्तये चेय्तव्वलैवालं, ऎन्ऱुलंलतु. छरु
लंमंग्रुतीयिलं :- प्रराताक्कलं, पित्तरु पुत्तरर्कलं,
लपिण्टर्कलाऩ ज्ञानात्मिकलं वित्तयेयालं प्रराताक्कलं
इवर्कलं मंग्रुतीयिलं परस्परम् वपनम्
चेय्तुकेकालंलवुम्.

दशाहवपनविधिः

प्रसङ्गाद्वाहवपनमुच्यते । तत्र वसिष्ठः – ज्ञातयस्सस-
मादवाक्निष्ठा दशमेऽहनि । वापयेयुश्च ते सर्वे कर्त्ता तु सह सर्वदा
इति । ससमादवाग्नित्युक्त्या तदूर्ध्वभाविनां समानोदकानां
वपनाभावोऽर्थसिद्धः । समानोदकानां संस्कर्तृत्वे तु वपनमस्त्येव,
सपिण्डो वाऽसपिण्डो वा संस्कर्ता वापयेद्विजः इति स्मरणात् ।
देवलः – दशमेऽहनि संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद्वहिभवेत् । तत्र त्याज्यानि
वासांसि केशमश्रुनखानि च इति । शातातपः – शावे च सूतके
चैव द्वितीये दशमेऽहनि । क्षौरं चेन प्रकुर्वीत तस्मात् केशोषु लीयते
इति ।

தசாஹு வபந விதி

ப்ரஸங்கத்தால் 10-ஆவது நாளில் செய்துகொள்ள வேண்டிய வபநம் சொல்லப்படுகிறது. அதில் வளிஷ்டார் :- “ஏழு தலைமுறைக்குட்பட்டவரும், வயதிற் சிறியவருமான ஜ்ஞாதிகள் எல்லோரும், கர்த்தாவோடு, 10 ஆவது நாளில் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றார். இதில் ‘ஸப்தமாதர்வாக்’ என்று சொல்லியதால், ஏழாமவனுக்கு மேற்பட்ட ஸமாநோதகர்களுக்கு வபநமில்லை என்பது அர்த்தத்தால் வித்தமாகியது. ஸமாநோதகர்கள் ஸம் ஸ்கர்த்தாக்களாகில் வபநம் அவச்யமுண்டு. ‘ஸபிண்டாயினும், அஸபிண்டாயினும் (ஸமாநோதகனுயினும்) ஸம் ஸ்கர்த்தாவாகியவன் வபநமும் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்மிருதி உள்ளது. தேவெளர் :- 10வது நாள் வந்ததும் கிராமத்திற்கு வெளியில் ஸ்நானம் செய்யவும். அங்கு வஸ்திரங்களை நீக்கவும். வபனமும் செய்து கொள்ள வேண்டும். சாதாரதுபர் :- சாவாசெளசம், ஜ்ஞாசெளசம் இரண்டிலும், 10-ஆவது நாளில் வபநம் செய்து கொள்ளாவிடில், ஆசெளசம் கேசங்களில் மறைகிறது.

चन्द्रिकायाम् – जनने मरणे चैव वपनं दशमेऽहनि ।
 आतस्मान्नाधिकारी स्यादाशौचं सर्वदा भवेत् इति । जनने
 दशमदिने वपनं पितुरेव, नान्येषाम् । प्रथमेऽहनि कर्तव्यं वपनं
 मृतबन्धुभिः । दशाहे वपनं कार्यं सूतके च तथा पितुः इति
 स्मरणात् । अखण्डादर्शं –दम्पती शिशुना सार्धं सूतके
 दशमेऽहनि । क्षौरं कुरुस्ततः पूताः स्नानदानादिकर्मसु इति । अत्र
 लोके समाचाराभावान् मातुर्वपनम्, नापि शिशोः, किं तु पितुरेव
 वपनं कैमुतिकन्यायेन प्रतिपादितम् ।

சந்த்ரிகையில் :- “ஜ்ஞாசெளசத்திலும் மரணை செளசத்திலும், 10ஆவது நாளில் வபநம் செய்துகொள்ளவும். வபநம் செய்துகொள்ளாத வரையில்

मर्हरक कर्मन्कणील अतिकारीयाकाण्डः । अतुवरेयिल आचेसाचमिरुक्कुम्” । जूननाचेसाचत्तिल 10 आवतु नाणील वपनमं पिता वुक्कु मट्टिल, मर्हरवर्क्किल्लैल । “मंगुतीयिऩ मुतल तिनत्तिल मंगुतणीन जंगुतीकण्ठं वपनमं चेय्तुकेकाळौ वेण्टुम् । जूननत्तिल 10-आवतु नाणील चिक्किण पिता वपनमं चेय्तुकेकाळौ वेण्टुम्” ऎन्ऱु संमंगुतीयिरुप्पत्ताल । अकण्टात्तात्तिल :- “जूननत्तिल, तम्पत्तिकण्ठं चिक्किष्टौ 10 आवतु नाणील वपनमं चेय्तुकेकाळौ वेण्टुम् । पिऱकु अवर्कण्ठं संनान ताणन्कण्ठं मुतलीय कर्मन्कणील सुत्तराकिण्ऱनार्” । इव्विष्यत्तिल, उलकिलासारमिल्लात्ताल मातावुक्कु वपनमिल्लैल । चिक्किष्टौ चिक्किष्टौ वपनमं केकमुतिक न्यायत्ताल चेसाल्लप्पत्ततु ।

व्याघ्रपादः :- वपनं यो न कुरुते सूतके दशमेऽहनि । मृतौ वा पितरस्तस्य मज्जन्ति नरकेऽशुचौ इति । श्रीपतिः :- आज्ञाया नरपतेद्विजन्मनां दारकर्ममृतसूतकेषु च । बन्धमोक्षमखदीक्षणेष्वपि क्षौरमिष्टमखिलेषु चोदुषु इति । स्मृत्यन्तरे - केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति मृतौ सूतौ च किल्बिषाः । तस्मात् सर्वप्रियत्वेन दशाहे वपनं स्मृतम् । सूतके मृतके चैव वपनं दशमेऽहनि । यो न कारयते मोहादनर्हः सर्वकर्मसु । कूले चतुष्पथे बाऽपि महावृक्षस्य सन्धिधौ । केशश्मश्रवादिवपनं कुर्युरत्रानुभाविनः इति ।

व्याघ्रपादः :- एन्त मनीतन्न जूननाचेसाचत्तिलेला मंगुता चेसाचत्तिलेला 10 वतु नाणील वपनमं चेय्तु केकाळौ विल्लैल येऋ, अवनतु पित्तंगुक्कण्ठं अकृत्तमाण नरकत्तिल मुमुक्षुकिण्ऱनार् । **कर्णिपतीः** :- पराहृमणरक्कुनक्कु, अरकणीन आज्जंगु, विवाहम, मरणे चेसाम, जूननाचेसाम, काराक्कु उत्तिलिरुन्तु वेवलीवरुतल, यात्तिकेक्षु एन्ऱ इक्कारणान्कणील, एल्ला नक्षुत्तरान्कणीलुम (निष्ठित्त नक्षुत्तरान्कणीलुम) केक्षुलरम् वित्तिक्कप्पत्तु किऱतु । ओरं संमंगुतीयिल :- मरणे

சௌசத்திலும், ஜநநாசௌசத்திலும், பாபங்கள் மயிர்களை அண்டியிருக்கின்றன. ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் 10வது நாளில் வபநம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எவன் அறியாமையால் வபநம் செய்துகொள்ளவில்லையோ, அவன் எல்லாக் கர்மங்களிலும் அர்ஹனல்லாதவன். நதி குளங்களின் கரையிலாவது, நாற்சந்தியிலாவது, பெரிய வ்ருக்ஷத்தின் எதுரிலாவது, ஜ்ஞாதிகள் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

दशमेऽहन्यानन्दहोममभिधायाहापस्तम्बः

नापितकर्मणि च कारयन्त एष प्रथमोऽलङ्कारः इति । अत्र शान्तिकर्मनिन्तरं वपनविधानेऽपि क्रमस्याविवक्षितत्वात् पूर्वमेव कर्तव्यमित्युक्तम् पितृमेधसारे – वपनस्य शुद्धचर्थत्वाच्छुद्धस्यैव शान्तिकर्मण्यधिकाराच्छान्तिकर्मनिन्तरं भोजनखङ्काशयनोप-
देशाद्युक्तस्य वपननिषेधाद्वोधायनाश्वलायनादिषु तथा दर्शनाच्च
शान्तिकर्मणः प्रागेव वपनं कर्तव्यम् इति – अन्ये तु –
அமி஧ானக்ரமேணாபஸ்தம்பினா் ஶாந்திஹோமகர்மனிந்தரமேவ வபனம्
இत்யாஹு: ।

10-ஆவது நாளில் ஆனந்த ஹோமத்தைச் சொல்லிய பிறகு சொல்லுகின்றார் ஆபஸ்தபம்பர் :- ‘ஜ்ஞாதிகள் வபந்தையும் செய்துகொள்ள வேண்டும். இது முக்யமான அலங்காரம்’ என்று. இங்கே சாந்தி ஹோமத்திற்குப் பிறகு வபநம் விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், க்ரமம் விவகஷித மல்லாததால், முன்பே செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது பித்ருமேதஸாரத்தில் :- “வபநம் சுத்தியர்த்தமானதால், சுத்தனுக்கே சாந்தி கர்மத்தில் அதிகாரமானதாலும், சாந்தி கர்மத்திற்குப் பிறகு போஜநத்தையும், பலகை கட்டில்களில் ஏறுவதை உபதேசித்திருப்பதாலும், போஜநம் செய்தவ னுக்கு வபநம் நிவேதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், போதாயநாச்வலாயநாதி க்ரந்தங்களில் அவ்விதம்

காணப்படுவதாலும், சாந்தி ஹோம் கர்மத்திற்குமுன்பே வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும்' என்று. சிலரோவெனில் :- சொல்லியுள்ள க்ரமப்படி ஆபஸ்தம்பீயர்களுக்கு சாந்தி ஹோம் கர்மத்திற்குப் பிறகுதான் வபநம் என்கின்றனர்.

भाष्यकारेण कपर्दिना व्याख्यातम् ।

अधोभागवपनमलङ्कारः इति । तथा श्रीधरीये – मृताहे केशवपनं
दशाहे शोषवापनम् । अशोभन मनायुष्यं मृताहे शोषवापनम् इति ।
अत्र शुद्धिनिर्णयकारः – इह केचिदनभिज्ञाः दशाहे
अशोषवापनमिति पदच्छेदं कृत्वा सर्वाङ्गिक्षौरं दशमदिने वदन्ति,
तदयुक्तम्, भाष्यकारेण, अधोभागस्य वपनमलङ्कार इत्युक्तत्वात्
इति । तथा च स्मृत्यन्तरम् — प्रथमेऽहनि यः कुर्याच्छिरोवपनमेव
तु । अतीते दशात्रे तु ह्यधोवपनमाचरेत् इति ॥ दशात्रे –
दशरात्रकर्मण्यतीत इत्यर्थः ।

பாஷ்யகாரராகிய கபர்த்தியினால் இவ்விதம் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டுள்ளது. “-அதோபாகத்தின் (கழுத்துக்குக் கீழுள்ள அங்கங்களின்) வபநம் அலங்காரம்” என்று. அவ்விதம் சீதீரீயத்தில் : - ‘‘ம்ருதி தினத்தில் கேசங்களுக்கு வபநம், தசமதினத்தில் மீதியுள்ளவைக்கு வபநம். ம்ருதினத்தில் சேஷ வபநம், அமங்களமும், ஆயர்ஹாநிகரமுமாம்’’ என்றுள்ளது. இதில் சுத்தி நிர்ணயகாரர் : - இங்கு, அறியாத சிலர், ‘தசாஹே அசேஷவபநம்’ என்று பதம்பிரித்து, தசமதினத்தில் ஸர்வாங்க கௌளரம் என்கின்றனர். அது யுக்தமல்ல. பாஷ்யகாரரால் அதோபாக வபநம் அலங்காரம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால், என்கின்றார். அவ்விதமே, ஒரு ஸ்ம்ருதி : - ‘முதல் தினத்தில் வபநம் செய்துகொள்பவன் சிரோவபநத்தை மட்டில் செய்துகொள்ளவும். பத்துநாள் கர்மம் முடிந்த பிறகு சிரஸ்ஸாக்குக் கீழுள்ள அங்கங்களுக்குவபநத்தைச் செய்து கொள்ளவும்’ என்கிறது.

१०. अन्यत्रापि — शावे क्षौरं सपिण्डाना
मुदकामृतपूर्वकम् । कर्तव्यं केशवपनं शोषं स्यादशमेऽहनि इति
दशमेऽहन्येव शोषवपनस्य विधानात्तः पूर्वं विषमदिनेषु
केशश्चमात्रवपनं कर्तव्यम् । यैस्तु ज्ञातिभिः प्रथमाहादिषु
नवमदिनपर्यन्तेषु आलस्यादिना वपनं न कृतम्, तैर्दशाहे
सर्वज्ञवपनं कर्तव्यमिति केचित् ॥ अन्ये तु प्रथमं केशवपनं कृत्वा
स्त्रात्वा तिलोदकं दत्त्वा पश्चात् कर्त्रा सह शोषवापनं कर्तव्यमिति
व्याचक्षते । वर्णविशेषे अङ्गविशेषवपनं समर्यते —
आकण्ठाद्वापयेद्विप्र आनाभे राजवैश्ययोः ॥ इमश्रुमात्रं हि शूद्रस्य
वपनं प्रथमेऽहनि इति ।

மற்றெரு ஸ்ம்ருதி யிலும் :- “சாவத்தில்
ஸ்பிண்டர்களுக்கு ஸ்நாந பூர்வகமாய்க் கேசவபநம்
செய்யத் தகுந்தது. 10-ஆவது நாளில் சேஷாங்க வபநம்
விழிதமாகிறது” என்று. பத்தாவது தினத்திலேயே சேஷ
வபநம் விழிதமாகிறது” என்று. பத்தாவது தினத்திலேயே
சேஷ வபநம் விழிதமாயிருப்பதால், அதற்கு முன்
ஒற்றைப்படை நாட்களில் கேசம் மீசை இவைகளுக்கு
மட்டில் வபநம் செய்யப்பட வேண்டும். எந்த
ஜ்ஞாதிகளால் முதல்நாள் முதல் 9வது நாள் வரையுள்ள
தினங்களில் சோம்பல் முதலிய காரணங்களால் வபநம்
செய்துகொள்ளப்படவில்லையோ, அவர்கள் தசமதினத்தில்
ஸர்வாங்க வபநத்தைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்
என்கின்றனர் சிலர். மற்றும் சிலரோவெனில் :- முதலில்
கேசவபநம் செய்து கொண்டு, திலோதக தாநத்தைச்
செய்து, பிறகு கர்த்தாவுடன் பாக்கி வபநத்தைச்
செய்துகொள்ள வேண்டுமென்கின்றனர். வர்ண பேதத்தில்
அங்கபேத வபநம் ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்படுகிறது.
‘முதல் நாளில், ப்ராஹ்மனர்களுக்குக் கழுத்து வரையில்
வபநம். கஷத்ரிய வைச்யர்களுக்கு நாபிவரையில்.
குத்ரனுக்கு மீசைக்கு மட்டில் வபநம்’ என்று.

११. स्मृत्यन्तरे – कण्ठादूर्ध्वं वपेदाद्ये शोषं तु दशमेऽहनि इति । तथा रात्रौ दग्धा तु पिण्डान्तं कुर्याद्ब्रह्मपनवर्जितम् । श्वस्तदा केशवपनं शेषस्य दशमेऽहनि इति । सर्वज्ञवपनं दशमदिन उक्तं स्मृत्यन्तरे – आशौचान्ते तु सर्वज्ञवपनं श्रुतिचोदितम् । ब्रह्मचारिकुमाराणां कण्ठादूर्ध्वेन शुद्ध्यति । यस्य केशाः शिरोजाता दशमेऽहन्यवापिताः । आशौचं तस्य केशेषु लीयते नात्र संशयः इति । अन्यत्रापि – दशाहेऽश्मानमुत्थाप्य शान्तिहोमं समाचरेत् । सर्वज्ञवपनं चात्र कर्तव्यं स्नानतः परम् इति ।

मन्त्रिर्गुरु ष्मंगुरुतीयिलः :- “मुतलं नालीलं कमुत्तिर्त्तु मेलं वपनम् । 10-वतु नालीलं मैत्रियूलं वपनम्” । अप्पटिये - “रात्रियिलं तहनम् चेय्त्तालं वपनम् चेय्तुकेलालामलं, प्रिण्टतालम् वरेयिलं चेय्यवुम् । अप्पेपामुतु मरुनालीलं केचवपनम् । 10 आवतु नालीलं मैत्रियूलालवक्तु” ऎन्ऱुमूलालतु । लर्वाङ्कव वपनम् पत्तावतु नालीलं चेललप्पट्टुलालतु ओं ष्मंगुरुतीयिलः :- आचेलासत्तुनि मुटिवु तिनत्तुलिं लर्वाङ्कव वपनम् वेतत्तालं चेललप्पट्टुलालतु । प्ररुम्मचारीकलुक्कुम्, कुमाररकलुक्कुम्, कमुत्तुक्कुम् लेलं वपनत्तालं सत्तु । एवनुउटेय केचन्कलं 10 आवतु नालीलं वपनम् चेय्यप्पटवीललैयो, अवनतु केचन्कलीलं आचेलासम् मरेन्त्तिरुक्किरतु । लम्चयमिललै । मन्त्रिर्गुरीत्ततीलः :- 10 आवतु नालीलं पाषाणत्तेत ऎट्टुत्तुविट्टु, चान्ति लेहामत्तेतच चेय्यवुम् । इुंकु ष्मंनानत्तिर्त्तुप लिरु लर्वाङ्कव वपनमुम् चेय्तुकेलाल वेण्णुम् ।

अत्र पुत्रविषये विशेषोऽपि स्मर्यते – कारयेद्ब्रह्मपनं पित्रोर्मृतौ पुत्रः स्वमस्तकम् । दशमेऽहनि सर्वज्ञ मधोवपनमेव वा । कनिष्ठो ज्ञातिराद्याहे केशश्मश्रूणि वापयेत् । सनखानि सरोमाणि दशमेऽहनि वापयेत् इति ॥ तथा – कुर्युः पुत्राः सपिण्डाश्र सर्वज्ञं दशमे दिने । अशुचित्वाच्च पूर्वेच्छुनापिरेच्छुः कथञ्चन इति । एवं च

பிரथமदினே கேशஶமஶ्रுமாறவபனம், ஦ಶமदினே து ஸர்வஜ்ஞவபனம஧ோவபன் வா விகல்பேன ஭வतி ।

இதில், புத்ரவிஷயத்தில் விசேஷமும் ஸ்மருதியில் உள்ளது : - “மாதா பிதாக்களின் ம்ருதியில் புத்ரன் தலையில் மட்டில் வபநம் செய்து கொள்ளவும். பத்தாவது நாளில் ஸர்வாங்க வபநமாவது, சேஷவபநமாவது செய்து கொள்ளவும். வயதிற் சிறியவனை ஜ்ஞாதி, முதல் நாளில் கேசம் மீசை இவைகளுக்கு மட்டில் வபநம் செய்து கொள்ளவும். நகரோமங்களுடன் கூடிய கேச ச்மச்சருக்களை பத்தாவது நாளில் வபநம் செய்துகொள்ளவும்” என்று. அவ்விதம். “புத்ரர்களும் ஸபிண்டர்களும் பத்தாவது நாளில் ஸர்வாங்க வபநம் செய்துகொள்ளவும். அசுத்தரானதால் 9வது நாளில் கூடாது. எவ்விதத்தாலும் 11 ஆவது நாளிலும் கூடாது” என்று முள்ளது. இவ்விதமிருப்பதால் முதல் நாளில் கேச ச்மச்சருக்களுக்கு மட்டில் வபநம். 10ஆவது நாளிலோ ஸர்வாங்க வபநம், அல்லது சேஷ வபநம் என்பது விகல்பமாய் வருகிறது.

दशमदिने वपने कालदोषो न विचारणीयः । दशाहे वपनं कुर्याच्छुद्धचर्थं मृतसूतके । मासक्षतिथिवाराणां दोषो नास्तीति शाकलः इति स्मरणात् । व्याघ्रपादोऽपि – शावे च सूतके चैव दशाहे वपनं स्मृतम् । तिथिवारक्षदोषाणामनवेक्षेति गौतमः इति । वसिष्ठोऽपि– वैधे कर्मणि सम्प्रासे कालदोषं न चिन्तयेत् । सद्यः क्षौरं प्रकुर्वीत मातापित्रोर्मृतौ तथा । जाते सोमे तथा तीर्थे व्रते चान्द्रायणेषु च इति । पितृमेधसारे – मृतिजन्मनोर्दशाहे ज्ञातीनां पुत्रस्य च वपने तत्कालमासक्षतिथिवारादि न किञ्चिच्चिन्त्यम् इति ।

தசம தினத்தில் வபநத்தில், கால தோஷத்தை விசாரிக்கக் கூடாது. “மரணத்திலும், ஐநந்த்திலும் 10ஆவது நாளில் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். மாஸம், நகூத்ரம், திதி, வாரம் இவைகளைப் பற்றிய தோஷமில்லை

एन्नरूरं सोकलर्स्' एन्नरूरं सम्मरुति उल्लातु. व्याकरपात्रातुम् :- “सोवाचेसाचत्तिलुम्, जनना चेसात्तिलुम्, 10 आवतु नालीलं वपनम् वित्तिकप्पट्टुल्लातु. तिति, वारम्, नक्षत्रम् इवेवकलैकं कवणीकं वेण्णियतिल्लै एन्नरूरं केसात्तमर्”. वलिष्ठाटातुम् :- वित्तिकप्पट्ट कर्मम् प्रराप्तमाणेलं कालतेऽवृत्ततेव विचारीकं वेण्णंटाम्. उत्तेन लेष्ठारम् चेय्तुकेकाल्लावुम्. माता पिता कक्षणिं मरुति यिलुम्, पुत्रज्ञनत्तिलुम्, 'सेवामयाकत्तिलुम्, तिर्त्ततत्तिलुम्, वरतत्तिलुम्, सान्त्तरायणत्तिलुम् उत्तेन लेष्ठारम् चेय्तुकेकाल्लावुम्. पित्तरुमेत्तुलारत्तिलं - मरणम् जननम् इवेवकलीलं पत्तावतु तिनत्तिलं ज्ञातिकरुक्कुम् .. पुत्रनुक्कुम् वपनत्तिलं तत्कालत्तिलुल्लाम्, नक्षत्रम्, तिति, वारम् मुत्तवियतेपं पर्नरीकं केकाञ्चुमुम् विचारीकं वेण्णंटाम्.

अत्र केचिदाहुः - दशमदिनक्षौरे ज्ञातीनां शुक्रवारमात्रं वर्ज्यम्, तदा नवमदिने कर्तव्यम्, शुक्रवारदिने क्षौरं शावे चेद्दशमे दिने। कुलक्षयकरं झेयं ततः पूर्वं समाचरेत् इति स्मरणात्। पुत्रस्य शुक्रवारेऽप्यस्ति वपनम्, शुक्रवारे च वपनं कर्तव्यं दशमेऽहनि। मातापित्रोरथान्येषां वपनं स्याद्दिनान्तरे। शुक्रवारे च रात्रौ च दर्शे सङ्क्रमणे तथा। क्षौरं कुर्वीत पुत्रस्तु ज्ञातीनां (पूर्वतो भवेत्) अपरेऽहनि इति स्मरणात्।

इवंविषयत्तिलं लिलं इवंवितम् चेष्टलुकिन्नरनारः :- तसमतिना लेष्ठार विषयत्तिलं ज्ञातिकरुक्कुसं कर्करवारम् मट्टिलं वर्ज्यिक्कत्त तकुन्ततु. अन्नरु सक्करवारमाणेलं 9-आवतु नालीलं वपनम् चेय्यप्पट वेण्णंटुम्. 'सोवत्तिलं 10 वतु नालं सक्करवारमाणेलं अतिलं वपनम् चेय्तुकेकाल्लावतु कुलक्षयकरमाकुम्. आलेक्यालं मुत्तलं नालीलं चेय्तुकेकाल्ला वेण्णंटुम्' एन्नरूरं सम्मरुति उल्लातु. पुत्रनुक्कुसं कर्करवारत्तिलुम् वपनमुन्नंटु. 'माता पित्तरु विषयत्तिलं सक्करवारमाणलुम् 10 आवतु

து நீத்தில் வபநம் செய்து கொள்ளலாம். மற்றவர் விஷயத்தில் முதல் நாளில் செய்து கொள்ளவும். சுக்ரவாரம், ராத்ரி, தர்சம், ஸங்கரமணம் இவைகளிலும் புத்ரன் வபநம் செய்து கொள்ளலாம். ஐஞாதிகள் முதல்நாளில் செய்து கொள்ளவும்' என்று ஸ்மிருதி உள்ளது.

அச்சி஧ானே ஦ஶாஹானந்தரஶ்ரவணே து அதிகாந்தே ஦ஶாஹே து விஷமாஹ: ப்ரஶஸ்யதே இத்யாத்யுக்ரனிஷிஷ்டே காலே கர்த்தும், பரோக்ஷே ஸுக்ஷ்மத: பத்யேந்மூதை து தி஥ிவாரம்஭ம் இதி ஸ்மரணாத் । புத்ரஜனநே பித்ரா ஦ஶாஹாத் ப்ராஇங் ந கார்யம் । தடூ஧்வீ ச ந ஧ார்யம், அஶுசித்வாந பூவேந்ராபிரேஷு: கடாந் । ஦ஶமே஽ஹனி வை க்ஷௌரஂ குருதிவாவிசாரயன் । இதி மாஸதி஥ிவாராத்யவிசாரேண ஦ஶாஹஏவ வபநவி஧ானாத் । யது - பிதுமாஸேஷு சத்ருஷ்ணி பிரஸூதா ஭வேஷ்யதி । வபநந் நைவ குர்வீதி புஞ்சி ஜாதே து வாபனம், இதி, தத் ஜனநே மரண சைவ வபந் ஦ஶமே஽ஹனி இதி பூவோக்தவசநஜாதேந ஜனநமாநாவலம்பநேந ஦ஶாஹே வபநவி஧ானாத் ஶிஷாசாராமாவாச் சுபேஷ்யமித்யாஹ: ।

அருகிலில்லாமல் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு கேட்டால், 'பத்து நாட்கள் தாண்டிய பிறகானால் ஒற்றைப்படை நாள் ப்ரசஸ்தம்' என்பது முதலாகிய வசநமிருப்பதால் அநிஷித்தமான காலத்தில் செய்து கொள்ளவும். பரோக்ஷத்தில் மரண விஷயத்தில் திதி வார நகஷத்ரங்களை நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும்' என்று வசனமுள்ளது. புத்ர ஜிநநத்தில் பிதா 10ஆவது நாளுக்கு முன் வபநம் செய்து கொள்ளக் கூடாது. அதற்குப் பிறகும் தரிக்கக் கூடாது. 'அசுத்தஞ்சியதால் 9ஆவது நாளிலும் கூடாது. எவ்விதத்தாலும் 11ஆவது நாளிலும் கூடாது. 10ஆவது நாளில் ஸந்தேஹமின்றி வபநத்தைச் செய்து கொள்ளவே வேண்டும்' என்று, மாஸதிதி வாராதிகளை விசாரியாமல் 10ஆவது நாளிலேயே வபநம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் : - "நான்கு பித்ரு மாஸங்களில் பெண் பிறந்தால்

वपनम् चेय्युकेकाळौवे कूटातु, पीलौला पिरन्त्तालै
वपनम् चेय्युकेकाळौलाम्” ऎन्ऱ वचनम् उल्लातेह
एनील, अतु, “जननत्तिलुम्, मरणत्तिलुम्, 10 आवतु
नालील वपनम्” एन्ऱ युन्नं चेल्लिय पल वचनंकलालै,
पत्तावतु नालील वपनम् वित्तिकप्पटुवतालुम्,
सिष्टाचार मिल्लाततालुम् उपेक्षीकक्त तहुन्त
तेल्लिन्ऱनर.

गर्भिण्योर्भार्यायोरेकस्याः प्रसवे ।

गर्भिण्योः पद्म्योर्यदेका प्रासविष्ट भर्ता क्षौरं न कुर्यात् ।
जातकर्मादि कुर्यात्, भार्ये यस्य तु गर्भिण्यावेका भार्या प्रसूयते ।
वपनं नैव कुर्वीत जातकर्मादि कारयेत् इति स्मरणात् ।
सवर्णज्येष्ठभार्याप्रसवे तु वपनमुक्तं षड्धमर्मये - गर्भिणीष्वसवणसु
सवर्णा चेत् प्रसूयते । तदा तु वपनं कार्यं न कुर्यच्चित् पतत्यधः । द्वे
यस्य भार्ये गर्भिण्यौ ज्येष्ठा भार्या प्रसूयते । तदा तु वपनं
कार्यमन्यथा भूणहा भवेत् इति । अपराकेऽपि - गर्भिण्यौ यस्य भार्ये
द्वे एका चेत् सम्प्रसूयते । वपनं नैव कुर्वीत कुर्यच्चिद् भूणहा भवेत् ।
इत्येतदसवर्णस्त्रीप्रसूतौ तु विधीयते । सवर्णविषये कुर्यादिन्तवर्णनिपि
वापनम् इति ।

कर्पपीणीकलाऩि इरண्णु पार्येयकलुण्ठं ओरुत्ति
प्ररसवित्तालै

कर्पपीणीकलाऩि इरण्णु पत्तिकलुण्ठं ओरुत्ति
प्ररसवित्तालै, पर्त्ता केङ्गलारम् चेय्युके केकाळौकं
कूटातु. ज्ञातकर्मम् मुतवियतेच चेय्यवुम्. “एवनीनं
कर्पपीणीकलाऩि इरण्णु मैनविकलुण्ठं ओरुत्ति
प्ररसवित्तालौ अवनं वपनम् चेय्युके केकाळौकं कूटातु,
ज्ञातकर्मम् मुतवियतेच चेय्यवुम्” एन्ऱ लंगुरुति
उल्लातु. लवर्जिन्याऩि ज्ञेयेष्ट पार्येययिनं
प्ररसवत्ति लेला वपनम् चेल्लिलप्पटुलौतु.

ஷ்ட்டர்மியத்தில் : - அஸவர்னைகளான பத்னீகள் கர்ப்பினி களாயிருக்கும்போது, ஸவர்னையான பத்னீ ப்ரஸவித்தால்தான் வபநம் செய்து கொள்ளவேண்டும். செய்துகொள்ளவிடில் நரகத்தையடைவான். ஒருவனின் இரண்டு பார்ஷையகள் கர்ப்பினிகளாயிருந்து, ஜ்யேஷ்டை ப்ரஸவித்தால் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும், இல்லாவிடில் கர்ப்பகாதியாய் ஆவான். அபரார்க்கத்திலும் :- எவனின் இரண்டு பார்ஷையகள் கர்ப்பினிகளாயிருந்து ஒருத்தி ப்ரஸவித்தாலோ, அவன் வபநம் செய்துகொள்ளவே கூடாது. செய்துகொண்டால் கர்ப்பகாதியாவான், என்றது, அஸவர்னஸ்தீர் ப்ரஸவ விஷயத்தில் விதிக்கப்படுகிறது. ஸவர்னஸ்தீர் ப்ரஸவ விஷயத்தில் கர்ப்பினீ பதியானாலும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

மாதாபிதூரீக்ஷாம஧ே பத்திப்ரஸவே

மாதாபிதூரீக்ஷாம஧ே பத்திப்ரஸவே வபனம், ததே வத்ஸரஶேஷ் கேஶ஧ாரணங் ஸ்மர்தே, ம஧ே து பிதூரீக்ஷாயா ஗ர்஭ிணி ஸ்ரீ பிரஸூதே । க்ஷௌரக்ரம் ததா குர்யாத் தஞ்சேஷ் கேஶ஧ாரணம் இதி । பஷ்டதௌ ச - மாதாபித்ரோந்திஜः குர்யார்஭வானபி வாபனம் । பஶ்சாத் பிரஸூதௌ பத்திப்ரஸவே தஞ்சேஷ் கேஶ஧ாரணம் இதி । ஸ்முத்யந்தரேஓபி - ஸ்வமாதாபிதூரீக்ஷாயா ம஧ே ஭ார்யா பிரஸூதிகா । ஦शாஹே வபன் குத்வா புநர்஦ீக்ஷாஂ ச காரயேத் இதி । அது கேசிசி஦ாஹு: - ஸபிண்டிகரணானந்தர் ஦ீக்ஷாம஧ே பத்திப்ரஸவே வபனம், தத: பூர்வ பிரஸவே வபன் நாஸ்தி, ஸபிண்டிகரணாடூர்வ பித்ரோ: ஸ்வந்தஸராதா஧: । கர்த்தவும் வபன் புத்ரே ஜாதே ஸ்வந்தஸரேஓபி ச இதி ஸ்மரணாத் இதி ।

மாதா பித்ரா தீக்ஷாமத்யத்தில் பத்னீ ப்ரஸவத்தில்

மாதா பித்ரா தீக்ஷாமத்யத்தில் பத்னீ ப்ரஸவித்தால் வபநமும், பிறகு வர்ஷமுடிவு வரையில் கேசதாரணமும்

ஸ்மருதியிலுள்ளது. “மாதா பித்ரு தீக்கூயின் மத்யத்தில் பத்னீ ப்ரஸவித்தால், அப்பொழுது வபநம் செய்துகொள்ளவும். பிறகு முடியும்வரை கேசதாரணம் செய்யவும்” என்று. பத்ததியிலும் :- கர்ப்பிணீ பதியானாலும் மாதா பித்ரு மரணத்தில் வபநம் செய்துகொள்ளவும். பிறகு பத்னியின் ப்ரஸவத்திலும் வபநம் செய்துகொள்ளவும். பிறகு வர்ஷம் முடியும்வரை கேசதாரணம் செய்துகொள்ளவும். மற்றொரு ஸ்மருதியிலும் - “தனது மாதா பித்ரு தீக்கூயின் மத்யத்தில் பார்ஷை ப்ரஸவித்தால், 10ஆவது நாளில் வபநம் செய்து கொண்டு, மறுபடி தீக்கூயை அடையவும்” என்று. இதில் சிலர் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர் :- ‘ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு தீக்கூமத்யத்தில் பத்னீ ப்ரஸவித்தால் வபநம், அதற்கு முன்பு ப்ரஸவமானால் வபநமில்லை. ‘மாதா பிதாக்களின் ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு வர்ஷத்திற்குள் பிள்ளை பிறந்தால் வபநம் செய்து கொள்ளவேண்டும், வர்ஷமானாலும்’ என்று ஸ்மருதி உள்ளது.

पितृमरणाब्दे केशधारणादिनियमः

पत्नीप्रसवाभावे प्रथमाब्दिकपर्यन्तं पुत्रस्य केशधारणं
 कर्तव्यम् । यदाह व्यासः - षण्मासान् वर्जयेत् क्षौरं
 तैलताम्बूलयोषितः । ज्येष्ठादीनां मृतिप्राप्तौ मातापित्रोस्तु वत्सरम्
 इति । अत्र आदिशब्देन पितृव्यमातामहादयो गुरवश्च गृह्णन्ते ।
 अत्रिः - षोडशोद्धाहगर्भाब्दे पित्रन्त्याब्दे क्षुरं त्यजेत् इति ।
 श्रीधरीयेऽपि - षष्ठाब्दे षोडशाब्दे च विवाहाब्दे तथैव च ।
 मातापित्रोमृताब्दे च वपनं नैव कारयेत् इति ।

**மாதா பித்ரு மரண வர்ஷத்தில் கேசதூரணம்
முதலிய நியமங்கள்**

பத்நி ப்ரஸவமில்லாவிடில் முதலாப்திகம் வரையில் புதரன் கேசதூரணம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

அவ்விதம், வ்யாஸர் :- ஜ்யேஷ்டன் முதலானவர்களின் ம்ருதியில், ஆறு மாதம் வரையில் கௌரம், அப்யஜ்ஞனம், தாம்புலம், ஸ்த்ரீ ஸங்கம் இவைகளை வர்ஜிக்க வேண்டும். மாதா பிதாக்களின் ம்ருதியில் ஒரு வர்ஷம் வரையில் வர்ஜிக்கவும். இங்குள்ள ஆதி சப்தத்தால் பித்ருவ்ய மாதாமஹாதிகஞம், குருக்கஞம் க்ரஹிக்கப் படுகின்றனர். அத்ரி :- 16ஆது வர்ஷம், விவாஹ வர்ஷம், கர்ப்ப வர்ஷம், மாதா பிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷம் இவைகளின் கௌரத்தை வர்ஜிக்கவும். சாந்தீயத்திலும் :- 6-வது வர்ஷத்திலும், 16-வது வர்ஷத்திலும், விவாஹ வர்ஷத்திலும், மாதா பிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷத்திலும் வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது.

स्मृत्यन्तरेऽपि – चौलाब्दे च विवाहाब्दे ह्यौपनायनिके तथा । मातापित्रोर्मृताब्दे च क्षौरं नैव समाचरेत् इति । अन्यत्रापि – मातापित्रोर्मृतिप्राप्तौ बत्सरं केशधारणम् । वापयेद्यदि मूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत् इति । सङ्घ्रहेऽपि – मातापित्रोर्मृताब्दे च विवाहाब्दे तथैव च । न केशवपनं कार्यं गर्भिण्यां च कुलस्त्रियाम् इति । अत्र केचिदाहुः – एतानि मातापित्रोर्मृताब्दे वपननिषेधवचनानि संबत्सरसपिण्डीकरणाभिप्रायाणि, तत्त्वं केशधारणं ब्रह्मचर्यादिनियमेन सह कर्तव्यम्, द्वादशाहादि सापिण्डये तदूर्ध्वं न केशधारणनियमः, अभ्युदयेच्छायां तु नियमेन सह कर्तव्यम् इति ।

ஓரு ஸ்ம்ருதியிலும் :- சளள வர்ஷம், விவாஹ வர்ஷம், உபநயந வர்ஷம், மாதா பிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷம் இவைகளில் வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது. மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும் :- மாதா பிதாக்களின் ம்ருதியானால் ஒரு வர்ஷம் வரையில் கேசங்களைத் தரிக்கவும். அறியாமல் வபநம் செய்துகொண்டால் ரெளரவமெனும் நரகத்தையடைவான். ஸங்க்ரஹத்திலும்

:- मा॒था पि॒था॒क्क॒ली॒न् मं॒गु॒ति॒ वर॑श॒त्ति॒लु॒म्, वि॒वा॒ह॒ वर॑श॒त्ति॒लु॒म्, प॒ठनै॒ का॒र्प॒पि॒ण्णि॒या॒य॒ला॒ का॒ल॒त्ति॒लु॒म् व॒पन॒म् च॒स्य॒तु॒क॒ो॒ला॒क॒क॒टा॒तु॒. इ॒ंक॒ेक॒ सि॒ल॒र् इ॒व्वि॒तम् श॒र्वा॒ल्लु॒कि॒न्न॒रा॒रः - “मा॒था पि॒था॒क्क॒ली॒न् मं॒गु॒ति॒ वर॑श॒त्ति॒लि॒ व॒पन॒त्त॒ते॒ नि॒शेष॒त्ति॒क॒मि॒न्त॒ व॒चन॒न॒क॒ला॒, वर॑शा॒न्त॒त्त॒त्ति॒लि॒ ल॒पि॒ण्ण॒क॒रा॒न्म् च॒स्य॒य॒म् वि॒श्वा॒य॒त्त॒ते॒प् प॒र्न॒र्न॒य॒व॒. अ॒न्त॒क॒ क॒केश्वा॒रा॒न्म् प॒रव॒र्म॒म॒सर॒य॒म् म॒ुत॒व॒लि॒ नि॒यम॒न्त॒क॒र्णु॒त्त॒न् च॒स्य॒य॒प्प॒ते॒ व॒ेण॒न्तु॒म्. १२-अ॒वश्य॒ ना॒ल॒ म॒ुत॒व॒लि॒ का॒ल॒त्ति॒लि॒ ल॒पि॒ण्ण॒क॒रा॒न्म् च॒स्य॒य॒म् वि॒श्वा॒य॒त्ति॒लि॒, पि॒रक॒ क॒केश्वा॒रा॒न्म् म॒ुत॒व॒लि॒ नि॒यम॒मि॒ल॒ल॒. न॒न्म॒म॒यि॒वि॒स्स॒च॒श्चि॒रु॒न्त॒ता॒ल॒ नि॒यम॒त्तु॒त्त॒ने॒य॒ क॒केश्वा॒रा॒न्म॒त्त॒त्त॒स॒ च॒स्य॒य॒ व॒ेण॒न्तु॒म्” ए॒न्न॒रु॒.

२०. तथा च बृहस्पतिः - पित्रोर्मृतौ तदारम्य सपिण्डीकरणात् पुरा । योषितं तैलताम्बूलं क्षौरं च लबणं मधु ॥ कां स्यं पराभ्रमध्वानं वर्जयेद्विन्दधावनम् । कालभोजी च दर्भेषु अधः शास्यप्रतिग्रहः । गन्धपुष्पादिहीनश्च अल्पाशी च व्रतं चरेत् । प्राक् सपिण्डीकृतेर्गच्छेत् स्त्रियं प्रेतस्य दाहकः । रेतसः कर्दमाब्धौ तु पितृन् प्रेतं च मज्जयेत् इति । शुद्धिनिर्णयेऽपि - महागुरुमरणे वत्सरान्तं नित्यं तिलोदकं नियमेन मासिकं च कृत्वा व्रती केशधारणं च संवत्सरान्ते सपिण्डीकरणं कुर्यात् इति ।

पंकुलूलंपत्ति :- मा॒था पि॒था॒क्क॒ली॒न् मं॒गु॒ति॒यि॒लि॒ अ॒तु॒ म॒ुत॒र्न॒क॒ो॒न्न॒ ल॒पि॒ण्ण॒क॒रा॒न्म॒त्त॒त्त॒त्त॒ ति॒र्न॒क॒मु॒न॒ व॒रे॒र्यि॒लि॒, संतरै॒ ल॒न्क॒म्, अ॒प्यज्ञ॒नु॒न्म्, ता॒म्प॒लम्, केष॒ला॒रम्, उ॒प्पु, तेन॒, व॒ेव॒न्क॒ल॒त्ति॒लि॒ प॒रो॒ज॒नम्, प॒रा॒न्न॒ प॒रो॒ज॒नम्, व॒धि॒ न॒ट॒त्त॒त्त॒ल॒, त॒न्त॒त्त॒ता॒व॒न्म् इ॒व॒व॒क॒ज॒न॒ वर॑ज्जी॒क्क॒व॒म्. २-का॒ल॒न्क॒ली॒लि॒ म॒ट्टु॒म् प॒ज्जी॒प्प॒व॒न्न॒य॒म्, प॒र्मि॒यि॒लि॒ ता॒र्प॒प॒न्क॒ली॒म॒ेल॒ प॒टु॒प्प॒व॒न्न॒य॒म्, प॒रति॒क्र॒र॒ह॒मि॒ल॒ला॒त॒व॒न्न॒य॒म्, क॒न्त॒म् प॒ञ्च॒प॒म् म॒ुत॒व॒लि॒ व॒र॑ज्जी॒प्प॒व॒न्न॒य॒म्, अ॒ल्प॒मा॒य॒ प॒ज्जी॒प्प॒व॒न्न॒य॒म् व॒र॑त॒त्त॒त्त॒ अ॒नु॒ष्ट॒ि॒क्क॒ व॒ेण॒न्तु॒म्. ल॒म॒स्स॒क॒र्त्त॒त्त॒ वा॒की॒य॒व॒न्न॒

ஸபின்மகரணத்திற்கு முன் ஸ்த்ரீயைச் சேர்ந்தால், தனது முன்னேரான பித்ருக்களையும் ப்ரேதனையும் நரகத்தில் முழுகச் செய்வான். சுத்தி நிர்ணயத்திலும் :- மஹாகுரு ம்ருதியில் வர்ஷம் முடியும் வரையில் ப்ரதி தினமும் திலோதக தர்ப்பணத்தையும், நியமத்துடன் கேசதாரணமும் செய்து, வர்ஷ முடிவில் ஸபின்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

ஸ்மृத்யந்தரேபி – ஸபிண்டீகரணாடூர்வ ந கேளா ஧ாரயேடு ஦ிஜः । யदि ஧ாரயதே வி஦்வாந् ஬्रह்மचர்யே ஧ாரயेत् । அந்யथா ஹட்யே தேஷா தத்கேஶः ஶக்துவத்வேत् । ரெதாங்ஸி தஸ்ய பித்ராடீந் கேளாந் பித்ராயதே யமः இதி । அத्र ஬்ரஹ்மர்யம् - க்ரதாவப்யगமனம् - மாதாபித்ரோம்தௌ ஸ்தூரவர்க் கும்பத்தொத்தியாதி । மைதுந் து ஸமாஸாது பித்ராபத்ய ஸமாத்யரேத् । யதி ஶக்தாந்தஸ்யோगः குஞ்ச சாந்தாயுண் சரேத् । ஆஹிதோ யதி ஗ர்஭ः ஸ்யாத் ஬்ரஹ்மத்யாக்ராதும் சரேத् இதி ஸ்மரணாத् ।

மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும் :- ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு கேசதாரணம் வேண்டியதில்லை. வித்வானுயள்ளவன் தரித்தால் நியமத்துடன் தரிக்க வேண்டும். நியமமில்லாமல் தரித்தால் அவனது கேசம் பித்ருக்களின் மார்பில் முளைபோல் வருத்துவதாகும். இங்கு ப்ரஹ்மசர்யமென்றது, குது காலத்திலும் சேராமலிருப்பது. :- “மாதா பித்ரு ம்ருதி வர்ஷத்தில், புத்ரன் ஒரு வர்ஷத்திற்குள் ஸ்த்ரீ ஸங்கமம் செய்தால் ப்ராஜாபத்ய க்ருச்சர்த்தை அனுஷ்டிக்கவும். ரேதஸ் ஸேகம் செய்தால் சாந்தராயணத்தைச் செய்யவும். கர்ப்போத்பத்தியானால், ப்ரஹ்ம ஹத்யாவ்ரதத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்” என்று ஸ்மிருதி உள்ளது.

ஸ்மृத்யந்தரேபி – அவர்ஜியிதா தைலாடீந் கேளாமாந் து ஧ாரயேத् । தஸ்ய வைஷ்வதோ ராஜா கேளாந் பித்ராயதே பிதூந் ।

केशधारणमध्ये तु पत्नी गर्भ दधाति चेत् । रेतसा तत्पितृणां तु तृसिर्विति सर्वदा ॥ ब्रतान्ते विधिवत् पित्रोः कृत्वाऽऽब्दिक मथो द्विजः । क्षौरं कुर्याच्छुभे तारे कृत ऊनाब्दिकेऽपि वा इति । अत्रिः - यदि कर्ता ब्रतस्थः स्यादब्दान्ते चाब्दिके कृते । अनुकूले दिने क्षौरं कृत्वा तत्तु विसर्जयेत् इति ।

मर्त्तिर्गुरु लंग्मुर्तीयिलुम् :- तेतलाप्यज्जुनम् मुतवियते वर्जीक्कामलं केचतारणम् मट्टिलं चेय्तवणीन् पित्तरुक्कंकैला यमन् केचन्कैलाप् पुज्जीक्कक्षं चेय्वाणं. केचतारणत्तिन् नुविलं पत्नीं कर्पंपम् तरीत्तालं पित्तरुक्कैले रेतःपानम् चेय्वित्त पापत्तेत अटेवाणं. वीतिप्पटि नियमम् मुष्टिन्त पिऱकु, माता पिताक्कंक्कु आप्तिकत्तेत्तस्च चेय्तु, अल्लतु ऊनाप्तिकम् चेय्तु, पिऱकु सुप नक्षत्रत्तिलं केष्ठलारम् चेय्तु केकाळां वेण्टुम्. **अत्तरी :-** कर्त्ता वरतत्तेत अनुष्टिप्पवणुकिलं वर्षष मुष्टिविलं आप्तिकम् चेय्त पिऱकु, अनुकूलमाण तिनत्तिलं केष्ठलारम् चेय्तु केकाळां वरतत्तेत मुष्टिक्क वेण्टुम्.

स्मृत्यन्तरे - ततः समासे ब्रतबन्धकल्पे कृत्वा तु सांवत्सरिकं यथावत् । ततः सुपुण्ये शुभदे मुहूर्ते क्षौरं यथावद्विद्धीत विद्वान् इति । ब्रह्मचर्यादिनियमेन सह केशधारणं कृत्वा वत्सरान्ते सपिण्डीकरणानन्तरमाब्दिकं कृत्वा अनिषिद्धकाले वापयेत् । द्वादशाहादिसापिण्डचेऽपि सत्यामभ्युदयेच्छायां नियमेन सह केशधारणं कुर्वन् सांवत्सरिकमाब्दिकं यथावत् कृत्वा - पित्रोर्मृत्यब्ददीक्षान्ते त्याज्यं मासचतुष्टयम् । कन्याकटक कुम्भेषु चापे मासि चतुष्टये । केशखण्डं गृहस्थस्य पितृन् प्राशयते यमः इत्याद्युक्तप्रत्यवायरहिते शुभे काले क्षौरं कुर्यादिति व्याचक्षते ॥

छुरु लंग्मुर्तीयिल्ल :- पिऱकु वरतम् मुष्टिन्तत्तुम्, वीतिप्पटि आप्तिकत्तेत्तस्च चेय्तु, पुण्यमाकियतुम्,

சுபமாகியதுமான முஹ உர்த்தத்தில் விதிப்படி கெஷளரத்தைச் செய்து கொள்ளவும் அறிந்தவன். “ப்ரஹ்மசர்யம் முதலிய நியமத்துடன் கேசதாரணம் செய்து கொண்டு, வர்ஷத்தின் முடிவில், ஸபின்மைகரணத்திற்குப் பிறகு ஆப்திகத்தைச் செய்து, அநிஷித்தமான காலத்தில் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். 12ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் ஸாபின்ட்யம் செய்தாலும், ச்ரேயஸ்ஸில் விருப்பமிருந்தால் நியமத்துடன் கேசதாரணம் செய்து கொண்டு, வர்ஷாந்தத்தில் ஆப்திகத்தை விதிப்படி செய்துவிட்டு, ‘மாதா பிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷத்திய தீக்ஷையின் முடிவில் பித்ரு மாஸங்கள் நான்கையும் வர்ஜிக்கவும். கந்யாமாஸம், கடகமாஸம், கும்பமாஸம், தனுர்மாஸம், என்ற நான்கு மாஸங்களில் கெஷளரம் செய்துகொண்ட க்ருஹஸ்தனின் கேச கண்டங்களை, பித்ருக்களைப் பக்ஷிக்கச் செய்கிறுன் யமன் என்பது முதலிய ப்ரத்யவாயம் இல்லாத சுபகாலத்தில் கெஷளரம் செய்துகொள்ள வேண்டும்” என்று வ்யாக்யானம் செய்கின்றனர்.

अन्ये तु – संवत्सरसपिण्डीकरणे ब्रह्मचर्यादिनियमेन सहैव
केशधारणमवश्यं कर्तव्यम्, ततः पूर्वं सापिण्डन्वे
सपिण्डीकरणानन्तरं न ब्रह्मचर्यादिनियम आवश्यकः, सति तु
ब्रह्मचर्यादिवभ्युदयः, केशधारणमात्रं तु आब्दिकपर्यन्तं
कर्तव्यमित्याहुः । तथा स्मृत्यन्तरे – वत्सरान्तेऽथ मध्ये वा
सपिण्डीकरणं यदा । क्षौरं कृत्वा ततः कुर्यात्तिच्छेषं धारयेद्भूधः इति ।
द्वादशाहृष्टिरित्कालेषु क्षौरपूर्वकं सपिण्डीकरणं कृत्वा ततो
वत्सरशेषं केशं धारयेदित्यर्थः । कृते सपिण्डीकरणे तु पित्रोर्न
ब्रह्मचर्यं परिरक्षणीयम् । तदक्षणे चापि महत्फलं स्यान्विवर्तने च न
दोषः’ इति । ब्रह्मचर्यादिनिवर्तने स्खलनेऽपि न दोषः ।
मातापित्रोस्तु वत्सरम् इत्यादि वचनानुसारेण केशधारणमात्रं
कर्तव्यमिति व्याख्यातारः ।

चीलरोबेवनीलः :- “वरंष्टान्तः सपिण्णमकरण
पक्षुत्तिलः प्रवृद्धमसर्यम् मुतविय नियमत्तुम् वेण्णये केच
तारणत्तेत अवश्यम् चेय्य वेण्णुम् अतर्त्तुमुन्
सपिण्णमकरणम् चेय्युम् पक्षुत्तिलः सपिण्णम
करणत्तिन्त्तुप् पिन् प्रवृद्धमसर्याति नियमम्
आवश्यकमिल्लैः नियमत्तेत अनुष्टुत्तालं चेय्येस
उण्णु. केचतारणम् मट्टिल आप्तिकम् वरयिल
चेय्यप्पत् वेण्णुम्” एन्किन्नरनर. अववितमे, ओरु
संमरुत्तियिलः :- “वरंष्टत्तिन् मुटिविलो, वरंष्ट
मत्तियिलो एप्पेपामुतु सपिण्णमकरणम् चेय्तालुम्,
वपनम् चेय्तु केाण्णु प्रिन्तु सपिण्णमकरणम्
चेय्यवुम्. प्रिन्तु वरंष्टम् मुटियम् वरयिल केचतारणम्
चेय्यवम्”. 12-आवतु नालैत तविर्त्त नालील
केष्णरपूर्वमायः सपिण्णमकरणत्तेत्तस् चेय्तु प्रिन्तु
वरंष्ट मुटिवु वरयिल केचतारणम् चेय्तु केाल्लवुम्
एन्ऱु बेपारुल. माता प्रिताक्करुक्कु सपिण्णमकरणम्
चेय्यप्पत् प्रिन्तु प्रवृद्धमसर्यत्तेत रक्षिक्क वेण्णिय
तिल्लै. प्रवृद्धम सर्यत्तेत रक्षित्तालुम् विचेष्माण
पलनुण्णु. प्रवृद्धमसर्याति कौला निवर्त्तिप्पतिलुम्,
संकलनत्तिलुम् तेऽवृष्टम् इल्लै. ‘माता प्रित्रोल्लतु
वत्त्सरम्’ एन्पतु मुतलाक्य वसन्तकौला अनुसरित्तु,
केचतारणम् मट्टिल चेय्यप्पत् वेण्णुम्
एन्किन्नरनर व्याक्याण कर्त्तताक्कौल. इवविष्यत्तिल
प्रित्तरुमेत लारकारर चेऽल्लुवत्तावतु : - ‘माता प्रित्रोः’
एन्ऱु बेत्तुवाक संमरुति चेऽल्लुवत्ताल एल्लोरुम्
पुत्तरक्कौलक्यत्तालुम्, संकेऽकोस वसन्तमिल्लातत्तालुम्,
पुत्तरक्कौल्लोरुक्कुम्, माता प्रित्तरु मरणत्तिल ओरु
वरंष्टम् वरयिल केचतारणमुण्णु एन्ऱु. मर्त्त्रुम्
चीलरोबेवनीलः :- “तम् प्रिक्कौल्लोरुत्तय
अनुमतिय यत्तेन्तु, विपाकमाकात बेपारुलैक
केाण्णु ऊयेष्टत्तेल चेय्यप्पत्ततु एतुवेऽनु
एल्लोरालुम् चेय्यप्पत्तत्तायाकुम्. नवस्त्रात्तम्,
सपिण्णमकरणम्, वेष्टात्तस् चरात्तनकौल इवेकौल,

வியக்தர்களானாலும் ப்ராதாக்கஞக்குள் ஒருவனே செய்ய வேண்டும் என்பது முதலிய வசநங்களால், நவச்ராத்தம் முதல் லோதகும்பச்ராத்தம் வரையில் ஆப்திகதின்திற்கு முதல்நாள் வரையில் செய்ய வேண்டிய கார்யங்களில் ஜ்யேஷ்டனுக்கே கர்த்துத்வம் விதிக்கப்படுவதால், அந்த ந்யாயத்தால் வர்ஷமுடிவு வரையில் கேசதாரணம் முதலிய நியமங்களிலும் அவ்வித நியமமே உசிதமாகுமாதலால், ‘ஆப்திகம் செய்துவிட்டு, கர்த்தா விரதஸ்தனுகில், ஆப்திகத்தை விதிப்படி செய்து’ என்பது முதலிய வசநங்களால் முக்ய கர்த்தாவுக்கே வர்ஷாந்தத்தில் வபநம் விதிக்கப்படுவதாலும், கேசதாரணம் முதலிய நியமமும் ஜ்யேஷ்டனுக்கே’ என்கின்றனர்.

ஆஹிதாஸ்திஷயे ।

आहिताग्रेविशेषमाहापस्तम्बः : – पर्णि केशश्मशूणि वापयतेऽप्यल्पशो लोमानि वापयत इति वाजसनेयकम् इति । स्मृत्यन्तरेऽपि – पित्रोमृताब्दे गभाब्दे सदा पर्णि पर्णि । **आஹिताग्रिविषेत्** केशाभ वपेदितरस्तयोः इति । **आஹिताग्रिः** पर्णि पर्णि वपेत् । इतरः - अनाहिताग्रिः । तयोः - पितृमृताब्द गभाब्दयोः न वपेदित्यर्थः ।

ஆஹிதாக்னி விஷயத்தில்

ஆஹிதாக்னிக்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார் ஆபஸ்தம்பர் :- பர்வ தினத்தில் கேசச்மச்சருக்களை வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். ரோமங்கள் அல்பமா யிருந்தாலும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று வாஜஸனேயகம். ஒரு ஸ்ம்ருதியிலும் :- மாதாபிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷத்திலும், கர்ப்ப வர்ஷத்திலும், எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு பர்வத்திலும், ஆஹிதாக்னி வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அநாஹிதாக்னி அவைகளில் வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது. ஆஹிதாக்னி ஒவ்வொரு பர்வத்திலும் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

अनाहृताकंनि, अवेकणील - माता प्रित्रु मंग्रुति वर्षषम्, कर्पप वर्षषम् इवेकणील वपनम् चेयंतु केकाळांलांकं कृटातेन्पतु बेपारुलाम्.

श्रीधरीयेऽपि – केशान् मासत्रयादूर्ध्वं गर्भवान् धारयेद्विजः । यज्ञा तु पर्वणि क्षौरं कारयेद्विताद्वते इति । आद्विताद्वते - आधानाद्वते, आधाने तु पर्वव्यतिरिक्तकालेऽपि गर्भवान् क्षौरं कारयेदित्यर्थः । केचित्तु - कारयेद्विताद्वते इति पठित्वा व्याचक्षते । विहितं - गर्भनिमित्तकेशधारणम् मातापितृनिमित्त केशधारणं च, तन्मित्तद्वयं विना यज्ञा पर्वणि क्षौरं कारयेदिति । एवं व्याख्याने पूर्वोक्तवचनविरोधः स्यात् । यथोचितं ग्राह्यम् ।

सर्वीतर्वीयत्तिलुम् :- कर्पपिणी पत्रियानवन्स 3-मातत्तिर्वु मेलं केचन्कैत तरीक्क वेण्णन्टुम्. आहृताकंनियोगावेणीलं पर्वत्तिलं केष्ठलारम् चेयंतुकेकाळांलावेण्णन्टुम्. आहृतमं तवीर्तत्तु. (आहृतमं तवीर्तत्तु - आतानमं तवीर). आतानत्तिलान्लं पर्व व्यतीरीक्त कालत्तिलुम्, कर्पपवाणुकिन्नुम् केष्ठलारम् चेयंतुकेकाळालामं एन्पतु बेपारुलं. चिलरोवेणीलं 'कारयेत् विहृतात्तरु ते' एन्ऱु पातित्तु व्याक्यानम् चेयकिन्नरन्स. 'विहृतमं - कर्पपन्निमित्त केशतारणमुम्, माता प्रित्रु मंग्रुति निमित्त केशतारणमुम्, अन्त इरण्णन्टु निमित्तत्तन्कलं तवीर्तत्तु, आहृताकंनि पर्वत्तिलं केष्ठलारम् चेयंतुकेकाळालाम्' एन्ऱु. इववितमं व्याक्यानत्तिलं मुनं चेशालंविय वसनत्तिर्वु विरोतमं एर्पन्टुम्. उचितमाना पक्षत्तत्त कर्हृत्तकवुम्.

सपिण्डीकरणनिमित्तक्षौरम् ।

सपिण्डीकरणनिमित्तक्षौरमुकं स्मृत्यन्तरे - द्वादशाहे यदा पित्रोः सपिण्डीकरणं भवेत् । तत्र क्षौरं न कर्तव्यं त्रिपक्षादिषु कारयेत् इति । त्रिकाण्डवपि - सपिण्डीकरणार्थं च क्षुरकर्म

வி஧ியதே । க්‍රுக்ரம் ந கர்த்து ஦ாदஶாஹஸபிண்டனே । ஦ாடஶாஹத் பு
க்ஷௌர் சூபகாலே ஸமாசரெத் । வத்ஸராந்தேத மध்யே வா ஸபிண்டிகர
யதி । க்ஷௌர் கृதா து தத் குர்யத்திச்஛ேஷ் ஧ாரயேதூதிஜः இதெ ।
பிதாமஹஶ - அகृதா வபன் யஸ்து வத்ஸராந்தே ஸபிண்டனம் । குர்யதி஦ி
புன: கார்யமித்யுவாச பிதாமஹ: இதி ।

ஸபிண்டைகரண நிமித்த கெஷளரம்

ஸபிண்டைகரண நிமித்தமான கெஷளரம்
சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு ஸ்மருதி யில் :- மாதா
பிதாக்கஞ்சு ஸபிண்டைகரணத்தை 12-வது நாளில்
செய்தால் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டியதில்லை.
த்ரிபக்ஷம் முதலிய காலங்களில் செய்தால் வபநம்
செய்துகொள்ள வேண்டும். த்ரிகாண்டியும் :-
ஸபிண்டைகரணத்திற்காகவும் கெஷளரம் விதிக்கப்படுகிறது.
12-ஆவது நாளில் ஸபிண்டைகரணம் செய்யும் விஷயத்தில்
வபநம் வேண்டியதில்லை. 12ஆவது தினத்திற்குப் பிறகு
சுபமான காலத்தில் கெஷளரத்தைச் செய்துகொள்ளவும்.
வர்ஷத்தின் முடிவிலோ, நடுவிலோ ஸபிண்டைகரணம்
செய்வதானால் கெஷளரம் செய்து கொண்டே
ஸபிண்டைகரணத்தைச் செய்யவும். பிறகு மீதியுள்ள
காலத்தில் கேசதாரணத்தைச் செய்யவும். பிதாமஹரும் :-
வர்ஷமுடிவில், வபநம் செய்துகொள்ளாமல்
ஸபிண்டைகரணத்தை எவன் செய்கிறானே அவன் மறுபடி
ஸபிண்டைகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும், என்றார்
பிதாமஹர்.

அது ஗ர்வதே வபனநிஷே஧: ஸமயே - பித்ரோ: ஸங்வத்ஸராத்வாக்கு
ஸபிண்டிகரண் யதி । ஗ர்஭ிண்யா் ந து ஭ார்யா் தஞ்சேஷ் ஧ாயேதூதிஜः
இதி । ஭ார்யா் ஗ர்஭ிண்யா் ஸாபிண்டசனிமித்தக்ஷௌர் ந குர்யது, கிஂ து
ஸாபிண்டச் கृதா வத்ஸரஶேஷ் ஧ாரயேதித்யர்஥: । பிரஸஜாத்

क्षौरविषयेऽन्यदप्युच्यते । पञ्चतौ - षष्ठ्यचष्टमीप्रतिपदस्तिथ्यश्च
रिक्ता बज्यर्थः शशाङ्कगुरुसोमजभार्गवाणाम् । वारांशकोदय-
विलोकनमिष्टमाहुः क्षौरेतु कर्मणि न शौक्रमुशन्ति शावे इति ।

இதில், கர்ப்பினீ பதிக்கு வபந நிவேதம்
ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்படுகிறது :- 'மாதா பிதாக்களுக்கு
வர்ஷத்திற்குள் ஸபின்மைகரணம் செய்வதானால், பார்யை
கர்ப்பினீயாயிருந்தால் வபநம் 'செய்துகொள்ளக் கூடாது'
என்று. பார்யை கர்ப்பினீயாயிருக்கும்பொழுது
ஸபின்மைகரண நிமித்த கெஷளரத்தைச் செய்து கொள்ளக்
கூடாது. ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்துவிட்டு, மீதியுள்ள
காலத்தில் கேசதாரணம் செய்துகொள்ள வேண்டு
மென்பது பொருள். ப்ரஸங்க வசத்தால் கெஷளர
விஷயத்தில் மற்றும் சில விஷயங்கள் சொல்லப்
படுகின்றனபத்ததியில் :- கெஷளரத்தில், ஷஷ்டி, அஷ்டமி,
ப்ரதமா, ரிக்த திதிகள், (சதுரத்தி, நவமி, சதுரத்தசி) இவை
வர்ஜ்யங்கள். சந்தரன், குரு, புதன், சுக்ரன் இவர்களின்
வாரம், அம்சம், உதயம், த்ருஷ்டி, இவைகள்
ப்ரசஸ்தங்களென்கின்றனர். சாவ விஷயமான
கெஷளரத்தில் சுக்ரவாரத்தை நிவேதிக்கின்றனர்.

स्मृत्यन्तरे - श्राव्ये च भान्वर्कसुतारवारे मासाधिके
शुक्रगुरोश्च मौन्द्ये । चन्द्रक्षये विष्टविषोर्दिनान्ते क्षौरं यदि स्यात्
कुलनाशहेतुः इति । प्रातर्मूहूर्तादिवर्ग्यः क्षुरकर्म समाचरेत् । स
पितृन् पातयत्याग्नु नरके रोमदण्डके । आधन्तयोराश्रमिणोर्वपने
सर्वदा विधिः । मध्यमाश्रमिणोर्हेतोर्विना कर्तनमुच्यते ।
यन्मास्येवाब्दिकश्राव्यं यदि पित्रोर्भवेदिह । प्राक्
पिण्डदानात्तन्मासि वपनं न समाचरेत् इत्याश्वलायनः ।

ஓரு ஸ்ம்ருதியில் :- ச்ராத்த தினத்திலும், ஸ-மர்யன்,
சனி, அங்காரகன் இவர்களின் வாரத்திலும், அதிக

மாஸத்திலும், சுக்ர மெளட்யத்திலும், குரு மெளட்யத்திலும், அமையிலும், விஷ்ணுவிலும் (பத்ராகரணம்), விஷாவத்திலும், மாலையிலும் கௌரவர்ம் செய்து கொள்வது குலக்ஷயகாரணமாகும். “காலையில் ஒரு முஹார்த்தத்திற்குள் எவன் கௌரவர்ம் செய்து கொள்ளுகிறானாலே, அவன் தனது பித்ருக்களை ரோம தண்டக மென்னும் நரகத்தில் தள்ளியவனான். ப்ரஹ்மசாரீ, ஸன்யாஸீ இவர்களுக்கு வபநத்தில் எப்பொழுதும் விதியுள்ளது. க்ருஹஸ்தன், வாநப்ரஸ்தன் இவர்களுக்குக் காரணமின்றியும் வபநம் சொல்லப்படுகிறது. மாதர் பிதாக்களின் ப்ரத்யாப்திக ச்ரார்த்தம் எந்த மாஸத்தில் வருகிறதோ அந்த மாஸத்தில் ச்ராத்தத்திற்கு முன்பு வபநம் செய்துகொள்ளக் கூடாது” என்கிறார் ஆக்வலர்யனர்.

ஸஸ்வைபி - மாஸேஷு கந்யாகடக்கும்மாபேஷு வர்ஜயேத் । அஸுமக்ஷே கூடே க்ஷை கிப்ர குர்யத் புநः ஶுமே । ஦ங்஧ாந் கேஶாந் பஞ்சாவ்யக்ஷாலிதாந஥ வாபயேத் । தஈவை வபன் மூடிர்ந் குகலாஸ: பதேஷ்வி । யஸ்மிந् மாஸி மृதாஹ: ஸ்யாத்தந்மாஸ: பக்ஷமேவ வா । க்ஷுரகர்ம ந குர்வித பராந் ச ரதித் த்வஜேத் । வாபயேந கூதோஷாஹே வர்ஷ வஷர்஧மேவ வா । முஜித பார்ண் நைவ ஦ர்வாஷ்வ ச வர்ஜயேத் ॥

ஸங்க்ரஹத்தில் :- கன்யர்மாஸம், கடகமாஸம், கும்பமாஸம், தனுர்மாஸம் இவைகளில் வபநத்தை தவிர்க்கவும். அசுப நக்ஷத்ரத்தில் கௌரவர்ம் செய்துகொண்டால் மறுபடி சீக்ரமாய், சுப நக்ஷத்ரத்தில் செய்துகொள்ள வேண்டும். கேசங்கள் அக்னியால் பொசுக்கப்பட்டால் அவைகளைப் பஞ்சகவ்யத்தால் அலம்பி, பிறகு வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். தலையில் ஒன்றுன் விழுந்தால் வபநம் செய்துகொள்ள வேண்டும். எந்த மாஸத்தில் (மாதா பிதாக்களுக்கு) ச்ராத்தம் வரக் கூடுமேசா அந்த மாதம் முழுவதிலும் அல்லது ஒரு பகுத்தில் வபநம், பரான்னபோஜநம்; ஸ்தரீ ஸங்கம் இவைகளை வர்ஜிக்கவும். விவாஹம்

चेयंतु केकाण्डवनं ओरु वर्षश्च म वरयिलं, अल्लतु 6-मातम् वरयिलं वपनम् चेयंतु केकाळाकं कूटातु. सर्वात्तत्त्विलं पुजीकंककं कूटातु. तर्च सर्वात्तम् चेयंयकं कूटातु.

न विवाहदिने क्षौरं प्रशस्तं निशि काम्यया । अन्तर्वता न कर्तव्यं पूर्वं वा पञ्चमेऽहि वा । एकोदराणां पुत्राणां पितुश्वैकदिने तथा । क्षुरकर्म न कर्तव्यं सहैव श्राद्धभोजनम् ॥ क्षुरकर्म न कुर्वीत चौलादूर्ध्वमूत्रयम् । तथैवोपनयादूर्ध्वं मुपाकर्म विना कचित् । केशान् मासत्रया दूर्ध्वं गर्भान् वापयेद्यदि । गर्भधन्वंसेन तत्तुल्यं ब्रह्महत्यासमं भवेत् । आहिताग्नेद्वयं पर्वद्वादशी च प्रशस्यते । भूप्रकोष्ठौ विना सर्वं केशलोमानि वापयेत् । द्विमुण्डने तु सम्प्रासे कथं क्षौरं विधीयते । मन्त्रेण विधिवत् कुर्यात् पश्चात् क्षौरं समाचरेत् इति ।

विवाहै तिनत्तिलुम्, रात्तरीयिलं लंवेचंसेयालुम्, वपनम् कूटातु. कर्पप्पिणीपति, प्ररसवत्तिन्त्रं कु मुन्पुम्, प्ररसवत्तिन्त्रं कुप्प लिंपु ज्ञन्तावतु तिनत्तिलुम् केषूरम् चेयंतु केकाळाकं कूटातु. ललेहातरारकां ओरु तिनत्तिलं वपनम् चेयंतु केकाळाकं कूटातु. पुत्रानुम् पितावुम् ओरु तिनत्तिलं वपनम् चेयंतु केकाळाकं कूटातु. प्रराताक्कर्णुम्, पितापुत्ररकर्णुम् चेस्नंतु सर्वात्तपोज्जनम् चेयंयकं कूटातु. चेस्नात्तिन्त्रं कुप्प पिऱकु 6-मातम् वरयिलं केषूरम् कूटातु. उपनयनत्तिन्त्रं कुप्प पिऱकु 6-मातम् वरयिलं केषूरम् कूटातु. उपाकर्मत्तिलं केषूर निषेषत्यमिल्लै. कर्पप्पिणीपतियाकियवनं 3-मातत्तिन्त्रं कुप्प पिऱकु वपनम् चेयंतु केकाण्डालं, अतु कर्पप्प लृत्ययक्कुम्, प्ररव्मृत्ययक्कुम् लममाकुम्. आउरीताक्कनीक्कु, इरण्णु परवंकर्णुम् (अमा, पूर्णिमा), त्वात्तशियुम् वपनत्तिन्त्रं कुप्प प्ररसस्तन्कलाम्. बुरुवम्, मुमुक्षके इवेवक्कलात् तवीर्ततु मर्ह अंकन्कलीनं लोमामंक्कलायुम् केसंक्कलायुम् वपनम् चेयंतु केकाळां

வேண்டும். ஒரு தினத்தில் 2-கெஷ்ணரங்கள் ப்ராப்தங்களானால் எப்படிச் செய்வது? முதலில் ப்ராப்தமான கெஷ்ணரத்தை மந்த்ரத்துடன் செய்யவும். பிறகு ப்ராப்தமாகும் கெஷ்ணரத்தை ஸாக்ஷாத்தாகச் செய்யவும்.

நயப்ரच்஛ாதன ஶாஷ்ம

மृतदिने வபனस்தானானந்தர் ஗்ராம் பிரவிஶய ஗ृहங்கரே ஸக்ளப்ய நயப்ரச்஛ாதனஶாஷ்ம் ஦घாத् । தथா ச ஸ்மृத்யந்தரே - ஜாதி஭ிஶார்஦்வாஸாஸிஃ: ஸஹ ஬ாலபுரःஸ்ரை: । நயப்ரச்஛ாதன் கृत्वा ஸப்ரदீபं விஶேஷங்கும் இதி । அக்ஷண்டார்஦்வோऽபி - ஸோதகவாஸஸோ ஗்ராம் பிரவிஶய நயப்ரச்஛ாதனார்஥ காஂஸ்யபாत்ரம் வகுங் ஘ृதம் தண்ணூற்பூர்ணபாத்ரம் ஓாக்ஷனாய ஦ேயঁ இதி ।

நக்ன ப்ரச்சாதந ச்ராத்தம்

ம்ருதி தினத்தில் வபன ஸ்நாநத்திற்குப் பிறகு, க்ராமத்தில் நுழைமுந்து, வீட்டின் வாயிலில் ஸங்கல்பம் செய்து, நக்ன ப்ரச்சாதன ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். அவ்விதமே, ஒரு ஸ்மிருதியில் :- சிறுவர்கள் முந்தியுள்ளவர்களாயும், ஈரவஸ்தரமுள்ளவர்களாயுமுள்ள ஜ்ஞாதிகளுடன், நக்ன ப்ரச்சாதந ச்ராத்தத்தைச் செய்த பிறகு, தீபத்துடன் கூடிய க்ருஹத்தில் ப்ரவேசிக்க வேண்டும். அகண்டாதார்சத்திலும் :- ஈரவஸ்தரமுள்ளவர்களாய், க்ராமத்தில் நுழைமுந்து, நக்ந ப்ரச்சாதநத்திற்காக, வெண்கலப் பாத்ரம், வஸ்த்ரம், நெய், அரிசி நிரம்பிய பாத்ரம், இவைகளை ப்ராஹ்மணனுக்குக் கொடுக்கவும்.

சந்திகாயாம் - நயப்ரச்஛ாதனஶாஷ்ம் ஸ்தானாந்தே து மூதேஹனி । ஘டே தண்ணூற்பூர்ண வாஸஸா பரிவேஷிதே । பி஧ாய காஂஸ்யபாத்ரே தஸ்மிநாஜ்ய விநிக்ஷிபேத । ஹிரண்ய ததி நிக்ஷிப்ய யதாவி஭வஸாரதः ।

कुलीनाय दरिद्राय विष्णुं च मनसा स्मरन् । प्रेतमुद्दिश्य संपूज्य ब्राह्मणं तु विसर्जयेत् इति । व्यासः - वासस्तण्डुलमप्पात्रं प्रदीपं कांस्यभाजनम् । दहनानन्तरं दद्यान्नग्रप्रच्छादनं हि तत् इति ।

सन्त्तुरीकायिलः :- मंगुति तिनत्तिल, संनानत्तिन्त्रिंकुपं पिरंकु नक्कन प्ररक्षातन चरात्ततमं चेय्यप्पत वेण्णुम्. अरिचियाल नीरमंपीय कुटत्तते वेल्तरत्तताल कृत्ति, वेण्णकलप्पात्तरत्तताल शुष्टि, अतिल, नेय्यवेय वेवत्ततु, लवर्णनत्तते नेय्यिलं पोपाट्टु, सक्तिक्कु इयन्त्रपापि, कुल्लेन्नुम् तरीत्तरन्नुमान प्रराह्ममण्णैन विष्णुवेव लमरित्तुपं पूज्यित्तुकं केकाटुत्ततु, प्रराह्ममण्णैन अनुप्प वेण्णुम्. व्यासालः :- वेल्तरम्, अरिचि, ज्ञलपात्तरम्, त्रिपम्, वेण्णकलप्पात्तिरम् इवेवकैन तह्ननत्तिन्त्रिंकुपं पिरंकु केकाटुक्कवुम्. अतुतानं नक्कन प्ररक्षातनमाम्.

शुद्धिनिर्णये - दशदिनपर्याप्तितण्डुलपूरितकुम्भं कांस्यपात्रेण पिधाय तण्डुलार्धपरिमाणतिलमाषमुद्गलवणघृत- व्यञ्जनसहितं सदीपपात्रं हिरण्यनववस्त्रसहितं प्रेतमुद्दिश्य नग्नश्राद्धविधिना सोदकुम्भश्राद्धं कार्यम् इति । स्मृत्यर्थसारे च - वासस्तण्डुलमप्पात्रं कांस्यमुद्दीपनं घृतम् । दहनानन्तरं दद्यात् स तु नग्नपरिच्छदः इति । दहनानन्तरमेव नग्नप्रच्छादनविधानात् तदनन्तरमुदकदानमिति गम्यते । तथा च स्मृत्यन्तरम् - नग्नप्रच्छादनं कर्म कृत्वैवमथ वेश्मनः । प्रवेशानादिकं कुर्यात्तदा गर्त्त गृहाद्विः इति । गर्त्त - जलाशयम्, उदकदानार्थं गच्छेदित्यर्थः ।

सन्त्तुरीन्निर्णयत्तीलः :- 10-नाट्कारुक्कुपं पोतुमान, अरिचियिणुल निरैनन्त कुटत्तते वेण्णकलपं पात्तरत्तताल शुष्टि, अरिचियिनं पाति अलवूला ऎन्न, उरुन्नेतु, पयरु, उप्पु, नेय्य, व्यंग्नंजनमं इवेवकरुटनं कृष्टियतुम्, त्रिप पात्तरम्, लूरिरण्णयम्, पुत्रिय वेल्तरम् इवेवकरुटनं कृष्टियतुमाक, प्रेरतैन उत्तेषित्तु नक्कन चरात्तत वित्तियां

வோதகும்ப ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். ஸ்மிருத்யர்த்த ஸாரத்தில் : - வஸ்தரம், அரிசி, ஜலபாதரம் வெண்கலப் பாதரம், தீபம், நெய் இவைகளைத் தஹநத்திற்குப் பிறகு கொடுக்கவும். அது நக்ந ச்ராத்தமெனப்படும். தஹநத்திற்கு அடுத்தே நக்ந ப்ரச்சாதநத்தை விதிப்பதால், அதற்குப் பிறகே உதகதாநம் செய்ய வேண்டுமெனத் தெரிகிறது. அவ்விதமே, ஒரு ஸ்மிருதி :- இவ்விதம் நக்நப்ரச்சாதநத்தைச் செய்து, பிறகு வீட்டில் நுழைவது முதலியதைச் செய்யவும். பிறகு வீட்டிற்கு வெளியில் (கர்த்தத்தை) குளம் முதலிய ஜலாசயத்தை நோக்கி உதக தானத்திற்காகச் செல்லவும்.

யतு நாரदேன க்ரமவைபரीत्यமுक्तम् – ஸ்நாதா ஦ங்஘ா புனः ஸ்நாதா
தோய் ஦்யாயதோचிதம् । நயப்ரச்஛ாதன் ஦்யாஜ்ஞானேன ஸஹ ஦ிஜः இதி,
ந தथேஹ ஶிஷ்டாசாராஓஸ்தி, ஦ேஶவிஶேஷ ததைாசரந்தி । ஶ்ரீ஧ரீயே –
நயப்ரச்஛ாதன் ஦்யாஜ்ஞானேன ஸஹ ஦ிஜः । ஸஸுவர்ண ஸோடகும்஭் ஸவக்ஷ
வே஦பாராಗே । தடைவ ஦ேய தட்டிப்பே ந ஦ித்தியேஓஹி காரயேத் இதி । மோஜானேன
ஸஹ - தண்ணுலேன ஸஹைத்யர்஥ः । ராத்ரி஦ாஹ விஶேஷமாஹ ஜாதுகர்ணி: -
திலோடக் ததா பிண்ண நயப்ரச்஛ாதனன் நவம् । ராத்ரௌ ந குர்யாத் ஸந்஧்யாயா
யதி குர்யாநிர்த்தகம् இதி । நவ - நவஶாஜம् । ராத்ரௌ ஦ஹநாநந்தர்
நயப்ரச்஛ாதநாடிக் ந கார்ய, கிஂ து பரேஓஹி கர்த்துமித்யர்஥ः ।

ஆனால், நாரதரால் க்ரமத்திற்கு மாறுதல் சொல்லப்பட்டுள்ளதே :- “ஸ்நாநம் செய்து, தஹநம் செய்து, மறுபடி ஸ்நாநம் செய்து, உதக தானத்தை உசிதப்படி செய்து, நக்ன ப்ரச்சாதனத்தைப் போஜநத்துடன் கொடுக்க வேண்டும்” என்ற வசன உள்ளதே எனில், அவ்விதம் இந்தத் தேசத்தில் சிஷ்டாசாரமில்லை. ஏதோ ஒரு தேசத்தில் அவ்விதமாகவே ஆசரிக்கின்றனர். சுநீதீரீயத்தில் :- ‘நக்ன ப்ரச்சாதனத்தைப் போஜநத்துடன் ப்ராஹ்மணன் கொடுக்க வேண்டும். ஸ்வர்ணம், உதகும்பம், வஸ்தரம், இவைகளுடன் கொடுக்கவும். வேதமறித்த

प्रराह्नमण्णनुक्तुं अप्पेपामुद्देष केऽकुक्तवुम्.
இரண்டாவது நாளில் செய்யக் கூடாது". போஜநத்துடன்
என்பதற்கு அரிசியுடன் என்பது பொருள். ராத்ரியில்
தஹநம் செய்யப்படும் விஷயத்தில் விசேஷத்தைச்
சொல்லுகிறார். ஜாதுகார்ணி :- "திலோதகம், பிண்டதானம்,
நக்ந ப்ரச்சாதநம், நவச்ராத்தம் இவைகளை, ராத்ரியிலும்,
ஸந்தயையிலும் செய்யக் கூடாது. செய்தால் வீணாகும்".
ராத்ரியில் தஹநத்திற்குப் பிறகு நக்ன ப்ரச்சாதனம்
முதலியதைச் செய்யக் கூடாது. ஆனால், மறுநாளில் செய்ய
வேண்டுமென்பது பொருள்.

यत्तु कात्यायनवचनम् – रात्रौ दग्धा तु पिण्डान्तं
कुर्याद्विपनवर्जितम् । शोभूते वपनं तत्र केशमात्रं विधीयते इति,
एतच्च दिवाऽऽरब्धसंस्क्रियाविषयम्, यदि वा स्याद्विवारम्भः शेषं
संसाधयेनिशि इति स्मरणात् । पुत्राणां तु रात्र्यारब्धसंस्कारेऽपि
तदैव कर्तव्यम्, रात्रि दाहे तदा कुर्यात् क्षौरं पिण्डोदक्रियाम् । माता
पित्रोरथान्येषां शोभूते वपनं भवेत् इति स्मरणात् ।

ஆனால், காத்யாயன வசனம் :- "ராத்ரியில் தஹநம்
செய்தால் பிண்டதானம் வரையில் செய்யவும். வபநம்
கூடாது. மறுநாளில் கேசங்களுக்கு மட்டில் வபநம்
விதிக்கப்படுகிறது" என்றுள்ளதே எனில், இந்த வசனம்
பகவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸம்ஸ்காரத்தைப்
பற்றியதாகும். "பகவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தால்
மீதியுள்ளதையும் ராத்ரியிலேயே செய்யவும்" என்று
ஸ்மருதி உள்ளது. புத்ரர்களுக்கோ வெளில், ராத்ரியில்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸம்ஸ்கார விஷயத்திலும்
அப்பொழுதே எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும்.
"ராத்ரியில் தஹநம் செய்தால் அப்பொழுதே வபநம்
பிண்டோதக தானம் இவைகளைச் செய்யவும். இது மாதா
பித்ரு விஷயத்தில். மற்றவர்க்கானால் மறுநாளில் வபநம்"
என்று ஸ்மருதி உள்ளது.

உடக்காநவி஧ி: -

நங்பிரच்஛ாதனாநந்தரகுத்யமுக் பிதுமே஧ஸரே - நவ் வாஸஸ்திலாந் ஦ம்஭ன் கும்஭மிதி ஸ்மூத்ய தீர்஥ ஗த்வா ஸ்நாத்வா தீரகृதே குஷ்ண கர்த்த சக்ளப்ய ப்ரெதமாவாஹ, ஆயாஹ ப்ரெத இதி ஶிலாந் ஸ்஥ாபயேத் । அத ஜாதயோ ஦க்ஷிணாமுखா: ஸ்நாத்வாக்கமேண சக்ளப்ய, ஸ்வஞாந்வாச்ய அமுகா஗ோநாயாமுகஶர்மண ப்ரெதாய எதாஸோடக் காந்தாமீதி திருஞமுருங் நவ் வாஸஸ்திலாந் ஸ்நாத்வா பீடயேயு: । எவ் ஸ்நாத்வா ஸ்நாத்வா ஦்வி: பீடயேயு:, அஶக்தை திர்ந்மஜ்ய திர்வாஸ உடக் காந்திலோக்காஞ்ஜலீஶ ஦த்ய: இதி ।

உதகதான விதி

நக்ன ப்ரச்சாதநத்திற்குப் பிறகுள்ள கார்யம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பித்ருமேதஸாரத்தில் : - “புதிய வஸ்தரம், என், தர்ப்பங்கள், குடம் இவைகளை எடுத்துக்கொண்டு, ஜலாசயத்திற்குச் சென்று, ஸ்நாநம் செய்து, ஜலக்கரையில் செய்யப்பட்டகுண்டத்தில் கர்த்தா ஸங்கல்பம் செய்து, ப்ரேதனை ஆவாஹனம் செய்து ‘ஆயாஹிப்ரேத’ என்று சிலையை ஸ்தாபநம் செய்யவும். பிறகு ஜ்ஞாதிகள் தெற்கு நோக்கியவர்களாய் ஸ்நாநம் செய்து சொல்லிய க்ரமப்படி ஸங்கல்பித்து, இடது முழங்காலைக் கவிழ்த்து, இந்தக் கோத்ரமும், இந்தச் சர்மாவுமுள்ள ப்ரேதனின் பொருட்டு, இந்த வாஸோதகத்தைக் கொடுக்கின்றேன், என்று மூன்றுய மடிக்கப்பட்ட புதிய வஸ்தரத்தைச் தலைப்புடன் ஒரு தடவை பிழிய வேண்டும். இவ்விதம் முழுகி முழுகி 2-தடவை பிழிய வேண்டும். சக்தியில்லாவிடில் மூன்று தடவை முழுகி, மூன்று தடவை வாஸோதகத்தையும், திலோதகாஞ்ஜலிகளைமயும் கொடுக்க வேண்டும்” என்று.

அதிரப்பு: - கேளாந் பிரகிரீ பாஂஸூநோயைக்வாஸஸோ ஦க்ஷிணாமுखா: ஸ்நாத்வாபுமஜ்யாத்திரீ வாஸ: பீடயேத்வோபவிஶந்த்யேவ்

त्रिस्तत् प्रत्ययं तिलमिश्रमुदकमुत्सच्यामुष्मा इतीति ।
 उपविशन्ति - उपविश्य पीडयेयुः । न प्रह्लीभूय स्थित्वा वा ।
 तत्प्रत्ययं - गोत्रनामग्रहणपूर्वकमित्यर्थः । आश्वलायनः -
 सकृनिमज्ज्य त्रिरुदकाञ्जलीन् दद्यात् इति । बोधायनः - केशानोप्य
 ततः स्नात्वा त्रिद्युरुदकाञ्जलिम् । दर्भेषु तिलसंमिश्रमेतत्त उदकं
 त्विति इति ।

आपस्तुम्परः :- 'मयिर्कौलै विरीत्तु, पुमुतियेप्प
 पोपाट् तु, ओरु वस्तरमुत्तयवर्कौलाय, तेन्त्रकु
 नेनाक्कियवर्कौलाय ओरु तटवै मुमुक्षि वेवौयेऱि,
 वस्तरत्तत्तेप्प पिऴिन्तु उट्कार वेण्णुम्. इवंवितम्
 मून्नरु तटवै प्परेतनीन् केऽत्र नामन्तकौलै चेऽल्ली,
 ऎन्नुन्नुटन्न कृष्ण्य ज्ञलत्तत्तेक्क केऽकुक्क वेण्णुम्' एन्नरु.
 उट्कार वेण्णुम् - उट्कारन्तु पिऴिय वेण्णुम्.
 कुनीन्तावतु, निन्नरु केऽन्नावतु पिऴियक्क कूटातु
 एन्पतु बेपारुलै. आक्षवलायनारः :- ओरु तटवै मुमुक्षि
 मून्नरु तटवै उत्काञ्ज्ञलिकौलै केऽकुक्कवुम्.
 पोतायनारः :- वपनम् चेय्तुकेऽन्नु, पिऱकु ल्लन्नानम्
 चेय्तु, तर्पपन्नकौलै तिलत्तुटन्न कृष्ण्य ज्ञलाञ्ज्ञलियै
 'एतत्त उत्कम्म' एन्नरु मून्नरु तटवै केऽकुक्क
 वेण्णुम्.

व्यासोऽपि - शब्दं दग्धा यथान्यायं दृष्ट्वा ज्योतिर्दिशस्तथा ।
 बालान् दारान् पुरस्कृत्य गच्छेत् प्रेतमनीक्षकः । शुद्धमस्फटितं
 श्लक्षणं श्यामं लोहितमेव वा । पाषाणं तत आदाय गत्वा तत्र
 महाजलम् । सचेलं दण्डवत् स्नात्वा मलं प्रक्षाल्य वर्षजम् । पुनः
 सचेलं स्नात्वाऽथ बाग्यताः सुसमाहिताः । वृद्धपूर्वाः सगोत्राश्च
 बान्धवाश्च सहोदकाः । सपिण्डाश्च क्रमात् पुत्राः प्राचीनावीतिन
 स्तथा । दक्षिणाभिमुखा भूत्वा दक्षिणाग्रकुरोषु हि । पाषाणं तत्र
 निक्षिप्य कृत्वा तु पुरतोऽवटम् ॥ नामगोत्रे समुच्चार्य

ப்ரேतஸ்துப்யத்விதி ஬ுவன् । ஗र்தே ஸகृத் ப்ரஸிஞ்சேயுஸ்திலபூர்ண ஜலாஜலிம் ।
பித்ரோஸ்து யாவடாஶௌரை தாவத் குர்யாஜலாஜலிம் இதி ।

வ்யாஸரும் :- விதிப்படி சவத்தைத் தஹித்து, ஆகாசத்தில் உள்ள ஐயோதிஸ்ஸையும், திக்குகளையும் பார்த்து, சிறுவர்களையும் பத்னீகளையும் முன்னிட்டுக் கொண்டு, ப்ரேதனைத் திரும்பிப்பாராமல், செல்ல வேண்டும். சுத்தமாயும், உடையாததாயும், ம்ருதுவாயும், கறுப்பு அல்லது சிவப்பு நிறமுள்ளதுமான கல்லை எடுத்து, பெரிய ஜலாசயத்திற்குச் சென்று, தூஷ்ணீமாய்த் தண்டம் போல் ஸ்சேலஸ்நாநம் செய்து, தேஹத்திலுள்ள அழுக்கைப் போக்கி, மறுபடி ஸ்சேல ஸ்நாநம் செய்து, மெளனிகளாய், கவனமுடையவர்களாய், பெரியவர் முன்னுள்ளவர்களாய், ஸ்கோத்ரர்கள், பந்துக்கள் ஸ்மாநோதகர்கள், ஸபிண்டர்கள், புத்ரர்கள் என்ற க்ரமமாய், ப்ராசீஞாவீதிகளாய், தெற்கு நோக்கியவர்களாய் இருந்து, தெற்கில் நூனியுள்ளதர்ப்பங்களில் பாஷாணத்தை வைத்து அதன் முன்பில் குழியைத் தோண்டி, நாமகோத்ரங்களைச் சொல்லி, 'ப்ரேதः த்ருப்யது' என்று சொல்லி, குழியில் எள்ளுடன் கூடிய ஜலாஞ்ஜலியை ஒரு தடவை விடவேண்டும். புத்ரன், மாதா பிதாக்கஞ்சுக்கு ஆசெளசமுள்ளவரையில் ஜலாஞ்ஜலி தாநத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

காத்யாயனோऽபி – தथாऽநவேக்ஷமேत्यாपः ஸर்வ ஏव ஶகஸ்பूரஃ ।
ஸ்தாவா ஸ்சேலமாசம்ய ஦த்யரஸ்யோடக் ஸ்஥லே । ஗ோநாமப்பாந்தே ச
தர்ப்யாமித்யநந்தரம் । ஦க்ஷிணாயாந् குஶாந् குத்வா ஸ்லில் து பூத்க
ஸகृத் இதி । பைठீநஸிரபி – ப்ரேतं மனஸா ஧்யாயந்
தக்ஷிணாமுखஸ்திநஞ்ஜலிநினயேடிதி । ப்ரசேதா� – நदீகூல் ததோ ஗த்வा
ஸௌரை குத்வா யதார்஥வத் । வஸ்து ஸ்தாநமாநஸः । பாஷாண் தத ஆடாய
விப்ரே ஦த்யாஶாஜலீந் । ஛ாதஶ க்ஷநியோ ஦த்யாக்ஷை பञ்ச஦ஶ ஸ்மृதா� ।

त्रिंशच्छूद्राय दातव्यास्ततः सम्प्रविशेष्हम् । ततः स्वानं पुनः कार्यं
गृह शौचं च कारयेत् इति । वस्त्रं - निष्पीडनवस्त्रमिति व्याचक्षते ।

कात्त्यायणरुम् :- तिरुम्पिप्प पारामलं, चवस्पर्शम्
सेयं त एल्लेलारुम् ज्ञलाचयत्तेत अटेन्तु, लेसेल
स्नानमुम् आचमनमुम् चेय्तु, लेतलत्तिलं प्रेरेतनुक्तु
उत्कतानम् चेय्य वेवेन्टुम् । कोत्तर नामंकजैकं
सेवाल्लिय पिरुक् 'तर्प्पयामि' एन्ऱु सेवाल्ली, तेत्रुक्
नुनीयायत् तर्प्पपन्कजैकप् परप्पी, तनीत् तनीयाय औरु
मुरेह ज्ञलतानम् चेय्यवुम् । ऐपान्त्रेलीयुम् :- प्रेरेताणे
मनतालं त्यानीत्तुक् केवेन्टु तेत्रुक् मुकमायिरुन्तु,
मून्ऱु अन्जलिकजैकं केवाटुक्कवेवेन्टुम् । प्रसेतुस्तः :-
पिरुक् नतिक् कराये अटेन्तु वित्तिप्पाति सत्ति
सेय्तुकेवान्टु, मुत्तविलं वस्त्रत्तेतस्तस्ति सेय्यवुम्.
पिरुक् स्नानम् चेय्यवुम्. मरुपाति लेसेल स्नानम्
सेय्तु, सत्तत्रुय, सत्त मनमुल्लावान्य पाषाणत्तेत
एटुत्तु, अतिलं, प्रराह्ममनेन पत्तु ज्ञलान्जलिकजैकं
केवाटुक्कवेवेन्टुम् । क्षुत्तरीयन् 12- अन्जलिकजैयुम्,
वेवस्यन् 15- अन्जलिकजैयुम्, कुत्तरान्
30- अन्जलिकजैयुम् केवाटुक्कवुम् । पिरुक् कंगुलूत्तिलं
नुष्मयवुम्. मरुपातियुम् स्नानम् चेय्यवुम्.
कंगुलूत्तिरुक्तुक् सत्तियेकं सेय्यवुम्. इन्कु वस्त्रम्
एन्ऱतु निष्पीटन (प्रियुम्) वस्त्रम् एन्ऱु व्याक्यानम्
सेय्किन्ऱनर ।

स्मृतिरद्दे - अपसव्ये ततः कृत्वा वस्त्रयज्ञोपवीतके ।
दक्षिणाभिमुखैर्विप्रैदेयं तोयाञ्जलित्रयम् इति । वसिष्ठः -
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्या मुदकक्रियां कुर्विन् इति । प्रचेताश्च -
प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धमुदकमवतीर्य नोत्कर्षेयुरुदकान्ते
प्रसिद्धेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षिणामुखा ब्राह्मणस्य
उद्भुखाः प्राङ्मुखाश्च राजन्यवैश्ययोः इति । ज्ञातिभिर्विपन-
पूर्वकमेवोदकं देयम् । प्रदद्युज्ञातियः सर्वे क्षौरं कृत्वा तिलोदकम् इति
स्मरणात् ।

ஸ்மிருதி ரத்னாத்தில் : - பிறகு, வஸ்த்ரம் உபவீதம் இவைகளை ப்ராசீநாவீதமாகச் செய்து கொண்டு, தெற்கு முகமாய் ப்ராஹ்மணர்கள் மூன்று தடவை ஜலாஞ்ஜலி தாநம் செய்ய வேண்டும். வளிஷ்டார் : - இடது கை மேலாக உள்ள கைகளால் உதக தாநம் செய்யவும். ப்ரசேதஸ்ஸாம் : - ப்ரேதனின் பந்துக்கள் வருத்த க்ரமமாய் ஜலத்திலிறங்கி ஸ்நாநம் செய்து, துடைத்துக் கொள்ளாமல் ஜலக் கரையில் உபவீதத்தையும் வஸ்த்ரத்தையும் ப்ராசீநாவீதமாகத் தரித்து, தெற்கு நோக்கியவர்களாய், ப்ராஹ்மணனுக்கு ஜலாஞ்ஜலி தாநம் செய்ய வேண்டும். கஷ்தரியனுக்கும் வைச்யனுக்கும் முறையே வடக்கு முகமாயும், கிழக்கு முகமாயும் இருந்து ஜலாஞ்ஜலி தாநம் செய்ய வேண்டும். ஜ்ஞாதிகள் வபநம் செய்து கொண்ட பிறகே உதக தாநம் செய்ய வேண்டும். “ஜ்ஞாதிகளைல்லோரும் கௌனரம் செய்து கொண்டு திலோதகத்தைக் கொடுக்க வேண்டும்” என்று ஸ்மிருதி உள்ளது.

பிரசேதாக्ष - கபன் கृत्वा स्नात्वैकवस्त्रः प्राचीनावीतिनो दक्षिणामुखा अवटे सदर्भे जलाञ्जलिं दद्युः इति । அஜ்ஞா : - ஸ திலदर்஭ேஷ்வாவேतत்த இதி ஜலாஞ்ஜலீந् ஦द்யுர்஬ல்புரஸ்ஸரா : ஸபிண்டா : இதி । யथாவृஷ்டால்புரஸ்ஸரா இதேயோர்யதாஸ்வ஗ृஹாங் யதாஶிஷாசாராங் வ்யவஸ்஥ா । ஏதஞ்சோடக்கான் யாவடாஶौசம் கார்யம் । தथா ச வ்யாஸ : - ப்ராசீனாவீதிநோ நாமாதாம்யாங் ஦க்ஷிணாமுखா : । ஜல் ப்ரேதாய மத்யாஹே ஦द்யுர்வி஦ஶுஷ்டா இதி । யாவடஶுஷ்டா - யாவடாஶौசமித்யர்஥ : ॥ விஷ்ணுரபி - யாவடாஶौசம் தாவத் ப்ரேதஸ்ய உடக் பிண்ட ச ஦द்யு : இதி ।

ப்ரசேதஸ்ஸாம் : - வபநம் செய்து கொண்டு ஸ்நாநம் செய்து, ஒரு வஸ்த்ரமுடையவர்களாய், ப்ராசீநாவீதிகளாய் தர்ப்பங்களுடன் கூடிய குழியில் ஜலாஞ்ஜலி களைக் கொடுக்கவும். அங்கிரஸ் : - ஸபிண்டார்கள் சிறுவர் முந்தியவர்களாய், தர்ப்பங்களில் ‘இந்த நாமதேய

मुटेयवणे इतु उनक्कु, एन्ऱु तिलत्तुटन् ज्ञलाञ्जलिकौंक कोडुक्क वेण्णुम्. वरुत्तरकौं मुत्तला क एन्ऱुम्, पालरकौं मुत्तला क एन्ऱुम् उल्ल वसनंकगुक्कु, अवरवर कंगुल्यप्पटिक्कुम्. इव्वितम् चेष्टलप्पट्ट उत्तक तान्तत्त आचेसाचम् मुट्टयम् वरेयील चेय्य वेण्णुम्. अव्वितमे, व्यासरः :- प्रराचिनावीकौंकाय, तेन्तु नेहक्कियवरकौंय, नाम कोत्तरंकौं उच्चरीत्तु, मत्याल्लन कालत्तिल प्रेरेतनुक्कु आचेसाचमूला वरेयील उत्तक तान्म चेय्यवुम्. विष्णुवुम् :- आचेसाचमूला वरेयील प्रेरेतनुक्कु उत्तक पिण्ठतान्तत्त चेय्य वेण्णुम्.

अत्र विशेषमाहापस्तम्बः - एवमहरहरञ्जलिनैकोत्तर-वृद्धिरेकादशाहात् इति। कर्ता ज्ञातयश्च प्रथमदिने त्रीनञ्जलीन् दद्युः, द्वितीये चतुरः, तृतीये पञ्च, एवं दशमदिनपर्यन्तमेकोत्तरवृद्ध्या दद्युः। सम्भूय पञ्चसप्तत्त्वञ्जलयो भवन्ति। अञ्जलिनैकोत्तरवृद्धिः इत्यभिधानाद्वासोदके नास्त्येकोत्तरवृद्धिः। ततु प्रत्यहमाद-शाहात्तिरेव दद्युः। प्रचेताश्च - दिने दिनेऽञ्जलीन् पूर्णान् प्रदद्यात् प्रेतकारणात्। तावद्वृद्धिश्च कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यते इति। यावदशमत्पिण्डः समाप्यते तावदञ्जलिवृद्धिः कार्येत्यर्थः।

इतिल विचेष्टत्त तत्त चेष्टलुकिरुर् - आपस्तम्परः :- 'इव्वितम् प्रति तिनमुम् अंगुजलियाल उत्तक तान्म चेय्य वेण्णुम्. ओव्वेवारु नालीलुम् ओरु अंगुजली अतिकमाक वेण्णुम्. 11-आवतु नालौ वरेयील एन्ऱु. कर्त्तत्तावुम् ज्ञातुकगुम् मुत्तलू नालीलू 3-ज्ञलाञ्जलिकौंक कोडुक्कवुम्. 2-आवतु नालीलू नाऩ्कु, 3-आवतु नालीलू ज्ञान्तु. इव्वितम् 10-आवतु नालौ वरेयील, ओव्वेवालू अतिकमाकुम्पटि कोडुक्कवुम्. चेसर्नन्तु 75-अंगुजलिकौं आकिन्ऱन. अंगुजली तान्तत्तिल वरुत्तत्त यैक्क

சொல்லியதால் வாஸோதகத்தில் வருத்தி இல்லை. வாஸோதகத்தை மட்டில் ப்ரதி தினமும் 3-தடவையே கொடுக்க வேண்டும். ப்ரசேதஸ்ஸும் :- 'ஓவ்வொரு தினத்திலும் பூர்ணமான ஜலாஞ்ஜலிகளை ப்ரேதனுக்காகக் கொடுக்க வேண்டும். பிண்டம் ஸமாப்தியாகும் வரையில் வருத்தியையும் செய்ய வேண்டும்'. பத்தாவது பிண்டம் எப்பொழுது முடிகிற தோ அதுவரையில் ஜலாஞ்ஜலிகளுக்கு வருத்தி செய்யப்பட வேண்டுமென்று பொருள்.

யतு பிரथமதூதியபञ்சமஸ்மனவமேஷுடக்கிரியா இதி
஗ௌதமஸ்மரணாம्, ததாபத்திரிஷயமித்யுक் பிதுமே஧ஸரே -
ஸக்கடேஷ்யுமாஹேஷு ஦ஶாஹ் வா ஦த்யு: இதி । ஸ்மृதிரத்மா஧வியாதிஷு
ந்யக்ஸ்஥ாந்தர் ஦ர்ஶிதம் । அயுगம்஦ிநேஷு த்ரீஸ்திநங்கலீன் ஦த்யாத्,
பிரதமதூதியபञ்சமஸ்மனவமேஷுடக்கிரியா இதி ஗ௌதமஸ்மரணாத்,
பிரதமே஽ஹி தூதியே ச பञ்சமே ஸஸமே ததா । நவமே சாம்புனி ஸ்தாந் குத்வா
दद्यात्तिलोदகम् இதி விஷ்ணுபுராணங்சநாஞ் । பிரேதஸ்ய தாபோப-
ஶாந்திவிஶோஷாபேக்ஷா து பிரதி஦ிநமப்யேகோத்ரங்கந்தா உடக்காந் கார்யம्
பிநே பிநேऽங்கலீன் பூர்ணாந் இதி பிரசேத: ஸ்மரணாத் இதி ।

ஆனால் 1,3,5,7,9-ஆவது தினங்களில் உதக தாநம், என்று கெளதம் ஸ்ம்ருதி உள்ளதே எனில், அது ஆபத்விஷயமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. பித்ருமேதஸாரத்தில், 'ஆபத்காலங்களில் ஒற்றைப்படை நாட்களிலாவது, பத்தாவது நாளிலாவது உதக தாநம் செய்யவும்' என்று. ஸ்ம்ருதி ரத்னம் மாதவீயம் முதலிய க்ரந்தங்களில் வேறு விதமான வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது :- 'ஒற்றைப்படை நாட்களில் மும்மூன்று ஜலாஞ்ஜலிகளைக் கொடுக்கவும். 1,3,5,7, 9-ஆவது நாட்களில் உதக தாநமென்று கெளதம் ஸ்ம்ருதியிருப்பதாலும், 1, 3, 5, 7, 9-ஆவது தினங்களில் ஜலத்தில் ஸ்நாநம் செய்து திலோதக தாநம் செய்யவும்

एन्नरु वीष्मिल्लु पुराण वसनमिरुप्पता॒लुम्, प्रे॒रेतनुकृ॒क्तं
ता॒लृशा॒न्ति॒ये वी॒चेष्मा॒कच॒सेयं॒य अ॒पेक्षित॒ता॒ल्, प्र॒ति॒
ति॒नमु॒म् ऋ॒कोत्तरा॒वं॒ग्रुत्ति॒या॒य उ॒तक॒ ता॒नम् चेय्य॒प्पता॒
वेण्ण॒म्. ओ॒वेवा॒रु ति॒नत्ति॒लुम् उ॒तका॒न्ज्ज॒वि ता॒नम्
चेय्य॒ वेण्ण॒म् एन्नरु प्र॒र्चेत॒स्त॒ली॒नं स्मृ॒रुति॒ उ॒न्नतु
एन्नरु.

एकोत्तरवृद्धचा श्राद्धमपि कर्तव्यमित्युक्तं श्रीधरीये –
श्राद्धमेकोत्तरं वृद्धचा कर्तव्यं तु दिने दिने। आऽवसानाद्वलीनां तु
द्विगुणं प्रत्यहं परे इति। एकोत्तरं यथा भवति तथा वृद्धचा
बलीनामवसानपर्यन्तं श्राद्धं कर्तव्यम्। परे-अन्ये प्रत्यहं
जलाञ्जलिभ्यो द्विगुणं देयं इत्याहुरिति शेषः।

ऋकोत्तरा॒वं॒ग्रुत्ति॒या॒य, स्त्रा॒त्तमु॒म् चेय्य॒प्पता॒
वेण्ण॒म् एन्नरु॒न्नतु चाँ॒त्तौ॒य॒त्तौ॒लिं :- पलीकौ॒ मु॒ष्टिय॒म्
वररौयी॒ल, प्र॒ति॒ ति॒नमु॒म् ओ॒वेवा॒न्न॒ अ॒ति॒कमा॒क
स्त्रा॒त्तमु॒म् चेय्य॒प्पता॒ वेण्ण॒म्. शिल्लो॒रोव॒नी॒ल,
ज्ञला॒न्ज्ज॒वि॒यवी॒ट ि॒रण्ण॒म् म॒टन्न॒का॒क स्त्रा॒त्तम् चेय्य॒
वेण्ण॒म् एन्न॒की॒न्न॒नारं.

स्मृत्यन्तरेऽपि – एकोत्तरं यथाशक्ति भुक्ति॑ दद्याद्विने दिने।
दशकं वा शतं वाऽपि सहस्रं वा सहेमकम् ॥ देयं विप्रस्य
तत्पुत्रैर्यथालाभं यथाविधि इति। अत्र पुत्रैरिति
संस्कर्तृणामुपलक्षणम्। यस्तु संस्कर्ता॒ स एवैकोत्तरवृद्धिश्राद्धं
कुर्यात्। शक्तौ॒ सत्यां॒ पक्षान्तरं॒ द्रष्टव्यम्। एतचैकोत्तरवृद्धिश्राद्धं
पिण्डबलिप्रदानानन्तरं कर्तव्यम्। यावदाशौचं प्रत्यहमेकमेव
तिलाञ्जलिं दद्यादित्याह याज्ञवल्क्यः – सप्तमाद्वामाद्वाऽपि
ज्ञातयोऽत्युपयन्त्यपः। अपनः शोशुचदध मनेन पितृदिङ्गुखाः।
सकृत् प्रसिद्धत्युदकं नामगोत्रेण वाग्यताः इति। ब्राह्मपुराणेऽपि –
नामगोत्रे समुच्चार्य प्रेतस्तृप्यत्विति ब्रुवन्। गर्ते सकृत्
प्रसिद्धेयुस्तिलपूर्ण जलाञ्जलिम् इति।

மற்றெருரு ஸ்மிருதி யிலும் :- “பிரதி திநமும், ஏகோத்தர வ்ருத்தி ப்ரகாரமாய் ச்ராத்தம் செய்யவும். அல்லது பத்து, நூறு, ஆயிரம் ச்ராத்தங்களை ஸ்வர்ணத்துடன் ப்ராஹ்மணனுக்கு, கிடைத்த மட்டில் விதிப்படி புத்ரர்கள் கொடுக்கலாம்”. இதில் புத்ரர்கள் என்றது ஸம்ஸ்காரம் செய்தவர்களைச் சொல்வதாகும். எவன் ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனே அவனே ஏகோத்தர வ்ருத்தியாய் ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். சக்தி யிருந்தால், ப்ரகாராந்தரத்தையும் செய்யலாம். இந்த ஏகோத்தர வ்ருத்தி ச்ராத்தத்தை, பிண்டபலி ப்ரதாநத்திற்கப் பிறகு செய்ய வேண்டும். ஆசௌசமுள்ளவரையில் ப்ரதி திநமும் ஒரே திலோதகாஞ்ஜலி தாநத்தைச் சொல்லுகிறார் யாஜ்ஞவல்க்யர் :- ஏழாவது, அல்லது பத்தாவது தினத்திற்குள் ஜ்ஞாதிகள், (ஸபிண்ட ஸமோநோதகர்கள்) ‘அபநச்சோகசதகம்’ என்ற மந்த்ரத்தால் தெற்கு நோக்கியவர்களாய் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். மெளனிகளாய், நாம கோத்ரங்களைச் சொல்லி ஒரு முறை ஜலாஞ்ஜலி தாநம் செய்ய வேண்டும். ப்ராஹ்ம புராணத்திலும் :- நாம கோத்ரங்களைச் சொல்லி, ‘ப்ரேதஸ்த்ரப்யது’ என்று சொல்லி, குண்டத்தில் எள்ளுடன் கூடிய ஜலாஞ்ஜலியை ஒரு தடவை விட வேண்டும்.

பக்ஷாந்தரமப்யுक்த் தत்வை - யदை ஶதாஞ்லீந् ஦த்யாத्
பிரதமேऽஹ்யேகமஞ்சலிம् । ஦्वிதீயே திரிஞ்சலீஶ தூதீயே பञ்ச ஸஸ் ச ॥
சதுர்஥ே பञ்சமదினே நவ ஦த்யாச் சஷ்கே । ஸஸமே சாஷ்மே சாபி
दद्यादेकादशाञ्जलीन् । त्रयोदशाञ्जलीन् दद्यात् नवमे तु तथा दिने ।
दद्याच्च सप्तदशகान् दशमैऽஹ்யேகविंशकान् । सप्तत्यञ्जलयः केचित्
त्रीणि ஸஸ து பञ்ச ச இதி । ஆஶ்வலாயனः - ஸகுடுந்மஜ்ஜை-
காஞ்லிமுத்ஸுஜ்ய தஸ்ய ஗ோत்ரநாமனி ஗ृहீத்வோத்தீர்ய இதி । ஸங்஘ேऽபி -
ஸபிண்ட ஜாதயஞ்சிஞ்சிரேகைகோத்ரமग்நி஦ः । ஸமானோदாஸ்தர்ப்யந்தி

नित्यमेकैकमञ्जलिम् इति । पैठीनसिः - दक्षिणामुखस्त्रीनुद-
काञ्जलीनिनयेच्छवदाहप्रभृत्येकादशोऽहिं विरमेत् इति ।

मर्त्र ब्रेरु पक्षमुम्भ चेऽल्लप्पट्टुं शतु
अव्विट्टुं त्तुलेये :- “अल्लतु 100 ज्ञला अंजलि कौलैकं
केकाटुक्कलाम् । 1-आवतु नालील 1 अंजलि, 2-आवतु
नालील 3, 3-आवतु नालील 5, 4-आवतु नालील 7, 5-आवतु
नालील 9, 6-आवतु नालील 11. 7,8-आवतु नाटकौलील 13, 13.
9-आवतु नालील 17. 10-आवतु नालील 21. आक मेमात्तम 100
अंजलि कौलै एन्ऱू. अल्लतु 70 अंजलि कौलै मेमात्तम
एन्ऱू चिलर्. अन्तप्प पक्षत्तिलं प्रति तिनम् 7 अंजलि कौलै.
चिलर् प्रति तिनम् मून्ऱू, अल्लतु एमु, अल्लतु ज्ञन्तु
एन्किन्ऱनर्. आक्वलायनर् :- ‘छरु तटवे मुमुक्षि,
प्रेरतनीनं नाम कोत्तरं कौलै चेऽल्ललि छरु मुरै
ज्ञला अंजलि तानम् चेय्तु करयेन्ऱि’ एन्ऱूर्.
लंक्करलूहत्तीलुम् :- लपिण्टर्कौलै ज्ञगुत्तिकौलै
मुम्मुन्ऱू तटवे ज्ञला अंजलि तानम् चेय्य वेण्टुम्.
लम्स्कर्त्तावालै छव्वेवारु नालीलुम् छव्वेवारु
अंजलि अतिकमाक्षुम्, समानेनोत्तकर्कौलै प्रति तिनम्
छव्वेवारु अंजलि याक्षुम् तर्प्पणम् चेय्य वुम्.
पैपान्तली :- तेत्रंकु नेनक्कियवान्नय मून्ऱू
ज्ञला अंजलि कौलै वीटवेण्टुम्, सवत्तालू तिनम् मुत्तलं.
11-आवतु नालील निरुत्त वेण्टुम्.

अत्र तिलोदकसङ्ख्या यथास्वगृह्यं यथाकुलाचारं
व्यवस्थापनीया । सपिण्डानां त्यहात्तिलोदकसमापने,
प्रथमदिनाचष्टमदिनपर्यन्तोदकमष्टमदिने दत्त्वा नवमदिने दशमदिने
च तत्तदिनोदकं दद्यात्, तथैवाष्टमदिनपर्यन्तं वासोदकं पिण्डं
चाष्टमदिने कृत्वा नवमदशमयोस्तत्तदिनवासोदकं पिण्डं च दद्यात् ।
पितृमेधसारे - दशाहान्तरस्यहतपर्णे, अष्टमे द्विपञ्चाशत् नवमे
ह्येकादश दशमे द्वादशाञ्जलीनष्टमेऽष्टौ पिण्डान् नवमदशमयोरैकं
दद्यात् इति । अतिक्रान्ते दशाहे ज्ञातीनां त्यहादुदकदाने व्यवस्था

दर्शिता तत्रैव- द्वादशाधिवसे, द्वितीये त्रिंशत्, तृतीये त्रयस्त्रिंशदुदकाञ्जलीन् दद्यात्, आघोऽहि कर्ता त्रीन् पिण्डान् द्वितीये चतुरः तृतीये त्रीन् द्वयोर्द्वै द्वे नवश्राद्धे तृतीयेऽह्नचेकोहिष्ठाहे चैकैकं नवश्राद्धं दद्यात् इति ।

இங்கே திலோதகக் கணக்கில் அவரவர் தம் தமது க்ருஹயத்திற் சொல்லியபடியும், குலாசாரப்படியும் வ்யவஸ்தையைச் செய்து கொள்ளவும். ஸபின்டர்கள் மூன்று நாட்களில் திலோதக ஸமாப்தி செய்யும் பகுத்தில், முதல் நாள் முதற் கொண்டு எட்டாவது நாள்வரையிலுள்ள உதகங்களை 8-ஆவது நாளில் கொடுத்துவிட்டு, 9-ஆவது நாளிலும், 10-ஆவது நாளிலும் அந்தந்தத் தினத்திற் கொடுக்க வேண்டிய உதகத்தையும் கொடுக்க வேண்டும். அப்படியே 8-ஆவது நாள் வரையிலுள்ள வாஸோதகங்களையும், பின்டங்களையும் 8-ஆவது நாளில் கொடுத்து விட்டு, 9-ஆவது, 10-ஆவது தினங்களில் அந்தந்தத் தினத்திற் கொடுக்க வேண்டிய வாஸோதகத்தையும் பின்டத்தையும் கொடுக்கவும். பித்ருமேதஸாரத்தில் :- பத்து நாட்களுள், 3-நாட்களில் தர்ப்பணம் செய்யம் விஷயத்தில், 8-ஆவது நாளில் 52, 9-ஆவது நாளில் 11, 10-ஆவது நாளில் 12, என்று ஜலாஞ்ஜலிகளையும், 8-ஆவது நாளில் 8 பின்டங்களையும் 9, 10-ஆவது நாட்களில் ஒவ்வொரு பின்டத்தையும் கொடுக்கவும். பத்து நாட்கள் சென்ற பிறகு, ஜஞாதிகள் 3-நாட்களில் உதக தாநம் செய்யும் விஷயத்தில் வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது. பித்ருமேத ஸாரத்திலேயே :- “முதல் நாளில் 12, 2-வது நாளில் 30, 3-ஆவது நாளில் 33 - உதகாஞ்ஜலிகளைக் கொடுக்கவும். முதல் நாளில் கர்த்தா 3-பின்டங்களையும், 2-ஆவது நாளில் 4-பின்டங்களையும், 3-ஆவது நாளில் 3-பின்டங்களையும் கொடுக்கவும். 1-ஆவது 2-ஆவது நாட்களில் இரண்டு இரண்டு நவச்ராத்தங்களையும், 3-ஆவது நாளிலும், 11-ஆவது நாளிலும் ஒவ்வொரு நவச்ராத்ததையும் செய்யவும்” என்று.

श्रीधरीये - दशाहान्तः सपिण्डानां त्यहात् तिलतर्पणे । अष्टमादिद्विपञ्चाशदेकादशद्वादशाञ्जलीन् । द्वादश प्रथमेऽह्येव द्वितीये त्रिंशदुच्यते । त्रयखिंशत्तृतीयेऽहि निर्गते दशमेऽहनि इति । सञ्चहेऽपि - अग्निर्वेदाख्यः पिण्डास्तथा वासोदकं दश । आदित्यखिंशदित्येवं त्रयखिंशत्तिलोदकम् इति । पारस्करः - प्रथमे दिवसे देयाख्यः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो द्व्यादस्थिसञ्चयनं ततः । त्रीस्तु द्व्यात्तीयेऽहि वस्त्रादिक्षालनं ततः । एकोद्दिष्टं चतुर्थेऽहि सापिण्डवं च ततः परम् इति ।

सर्त्तायत्तीलः :- 10-तिणंकगुक्कुलं, लपिण्ठारक्कलं मूङ्ऱु नाट्कलीलं तर्प्पणाम् चेय्त्तालं, 8-वतु नालं मुतलं मूङ्ऱु नाट्कलीलं मुरेवे 52, 11, 12 उत्काञ्जलिक्कलैकं केकाटुक्कवुम्. 10-नाट्कगुक्कुप् पिऱकालैलं, 12, 30, 33, ऎन्ऱु कजक्किट्टु 3-नाट्कलीलं केकाटुक्कवुम्. लंक्करलूत्तीलुम् :- '3, 4, 3, पिण्ठानंकलं, 10 वालेलात्कनंकलं, 12, 30, 33 तिलेलात्कनंकलं' ऎन्ऱुलंलतु. पारस्कररः :- मुतलंनालीलं 3-पिण्ठानंक्कलैकं केकाटुक्कवेण्टुम्. 2-आवतु नालीलं नालंकु पिण्ठानंक्कलैकं केकाटुक्कवुम्. पिऱकु अस्ति लंक्करलूत्तीलुम्. 3-आवतु नालीलं 3-पिण्ठानंक्कलैकं केकाटुक्कवुम्. पिऱकु वस्तरम् मुतलीयवेक्कुस्तत्ति चेय्त्तित्तलं. 4-आवतु नालीलं एकोत्तीष्टम्. अतर्नकुप् पिऱकु लपिण्ठामकरणम्.

अखण्डादर्शेऽपि - असपिण्डो यदि दहेत् द्वितीये त्वस्थिसञ्चयः । तृतीये तूदकं दत्ता चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् । एकोद्दिष्टं चतुर्थेऽहि मरणात् विधीयते । सपिण्डीकरणं यत् द्वादशेऽहि विधीयते । तत्पञ्चमदिने कुर्यादसपिण्ड इति स्थितिः इति ॥

अकण्ठात्तात्तरस्तत्तीलुम् :- अलपिण्ठानं तव्रीत्तालं, 2-आवतु नालीलं अस्ति लंक्करलूत्तीलुम्. 3-आवतु नालीलं उत्कतानत्तेत्तस्त चेय्त्तु, 4-आवतु नालीलं सरात्तत्तत्तेत्तस्त

செய்யவும். ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம் மரணத்தினின்றும் 4-ஆவது தினத்தில் விதிக்கப்படுகிறது. 12-ஆவது நாளில் விதிக்கப்படும் ஸபிண்மைகரணத்தை அஸபிண்டன் 5-ஆவது தினத்தில் செய்ய வேண்டும் மென்பது நிர்ணயம்.

எத்த பக்ஷிண்யாஸௌஞ்சிகர்த்தகாஹ வேடிதவ்யம् । த்யங் து யோனி஬ந்஧நாமாஶौசं ஦ஹநாடிஷு இதி தேஷாஂ ஸ்ஸக்ர்த்தே திராत்ராஶौசஸ்மரணாத्, யாவாஶौசं ப்ரேதஸ்யோடகஂ பிண்஢ஂ ச ஦த்யாடிதி விஷ்ணுஸ்மரணாத் । அத் ச உடக்ஸஸ்தா ஆடித்யக்ஷிஂஶாடித்யேவ த்ரயக்ஷிஂஶாத்திலோடகம் இத்யுக்தப்ரகாரைவ கர்த்தவ्यா । யது - அஸபிண்டோ யதி ஦ஹே஦்விதீயே த்வஸ்஥ிஸஸ்யை: । எகோ஦ிஷ்ட தூதியேத்தி மரணாது வி஧ியதே' இதி, எத்த வந்துகர்த்தகாரவிஷயம் । ஸஸ்யன- முடக்ஸ்யாப்யுபலக்ஷணம் । தத்த ஦்விதீயதினே பஞ்சஸ்பத்யாத்மகம் ।

இந்த விஷயம், பக்ஷிண்யாசெளசி கர்த்தாவாகும் விஷயத்தில் என்று அறியவும். “யோநிபந்துக்களுக்குத் தஹநம் முதலியவைகளைச் செய்தால் 3-நாளாசெளசம்” என்று, அவர்களுக்கு ஸம்ஸ்கர்த்துத்வம் ஏற்பட்டால் 3-நாளாசெளசம் சொல்லப்படுவதாலும், ‘ஆசெளசமுள்ள வரையில் உதக பிண்டதானங்களைச் செய்யவும்’ என்று விஷ்ணு ஸம்ருதியிருப்பதாலும். இவ்விஷயத்திலும் உதகக் கணக்கு, 12, 30, 33 என்று முன் சொல்லியபடியே செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் - “அஸபிண்டன் தாஹகளுல், 2-ஆவது நாளில் அஸ்தி ஸஞ்சயநம்; 3-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டம் விதிக்கப்படுகிறது” என்ற வசனமுள்ளதே எனில், இது பந்து கர்த்தாவாகிச் செய்த ஸம்ஸ்காரத்தைப் பற்றியதாம். இங்கு ஸஞ்சயநமென்றது உதக தாநத்திற்குமுபலக்ஷணம். அதுவும் 2-ஆவது நாளிலேயே 75, திலோதகதான ரூபம்.

மாதாமஹாடிஸ்ஸ்காரே ஦ௌஹிதாடிநாஂ ஦ஶாஹமாஶौச முடக்கியா ச, ‘பௌத்ராஹித்ரயோலோகி விஶோ நாஸ்தி ஧ர்த:’ இத்யாடிஸ்மரணாத् ।

असंस्कर्तृणां समानोदकानां त्रिरात्राशौचिनां त्यहादेव
उदकसमापनम्, तच्च स्वाशौचकाल एव कर्तव्यम्। स्वाशौचकाले
अकृतोदकस्य तु समानोदकस्य पश्चादुदकदानेऽप्याशौच-
मनुष्येयमित्याहुः। उदकसङ्ख्या च आदित्यस्त्रिंशत् इत्युक्तप्रकारेण
सपिण्डवदेवेति केचित्।

मातामहैं मुत्तवीयवरीं लम्बस्कारत्तिल, तेळाहीत्रर्णं मुत्तवीयवर्कंकु 10-नाला चेळासमुम्म, उत्तक
कंरीयेयमुन्नंगु। 'पेळत्तरनुक्कुम' तेळाहीत्ररनुक्कुम
तार्मत्ताल्प पेत्तमिल्लै' ऎन्नपत्तु मुत्तवीय लम्बरुति उन्नातु.
लम्बस्कारम् चेय्यात् लम्बानेत्तकर्कलान तरीरात्तरा
चेळाशिक्कुक्कु 3-नाट्कलीलेये उत्तक लम्बापनम्.
अतेयुम् तनतु आ चेळासकालत्तिलये चेय्य वेण्णंगुम्.
लवाचेळासकालत्तिल उत्तक तानम् चेय्यामल्प पीरुकु उत्तक
तानम् चेय्तालुम् आ चेळासमनुष्टिक्क वेण्णंगुम्
एन्किन्नरनर. उत्तककं कज्जक्कुम, '12, 30, 33' एन्नरु मुन्न
चेळाल्लीयपटि लपिण्णनुक्कुप पोलवेव एन्किन्नरनर
सिलर.

स्मृत्यन्तरे तु - सकृत् प्रसिद्धन्त्युदकं सप्तत्यज्ञलयः कचित्।
यद्वा शताङ्गलीन् दद्यात् इति पक्षत्रयमाश्रित्य सोदकाना-
मुदकदानमुक्तम्, त्रिरात्राशौचिनो दद्युः प्रथमेऽह्न्यज्ञलित्रयम्।
द्वितीये चतुरो दद्यात् तृतीये त्यज्ञलीस्तथा। सप्तत्यज्ञलिपक्षे तु
प्रथमे च द्वितीयके। एकैकविंशतिं दद्यात् तृतीये शेषतश्शुचिः।
त्रिरात्राशौचिनो दद्युः प्रथमे त्रिंशद्ज्ञलीन्।
चत्वारिंशद्वितीयेऽहित्रिंशद्द्युस्ततः शुचिः इति।

मन्त्रिगुरु लम्बरुति यिलोबेवनिलः :- ओरु तटवेव
उत्तक तानम् चेय्यलाम्. सिलरीं पक्षत्तिल 70 अंग्जलीकलां
चेळाल्लपपट्टुलान, अल्लतु 100-अंग्जलीकलाकं
केकाटुक्कलाम्. एन्नरु मुन्नरु पक्षांकलां आचरयीत्तु

ஸமாநோதகர்களுக்கு உதக தாநம் சொல்லப் பட்டுள்ளது. 'த்ரிராத்ரா செளசிகள், முதல் நாளில் 3, 2-ஆவது நாளில் 4, 3-ஆவது நாளில் 3 என்ற கணக்குப்படி உதகதாநம் செய்யலாம். 70-அஞ்ஜலி பக்ஷத்திலோவெனில் 1, 2, நாட்களில் 20, 20, என்றும், 3-ஆவது நாளில் 30 என்றும் செய்யவும். பிறகு சுத்தி. 3-நாளா செளசிகள், முதல் நாளில் 30, 2-ஆவது நாளில் 40, 3-ஆவது நாளில் 30 என்று செய்யலாம், பிறகு சுத்தி, என்றுள்ளது.

समानोदकानां प्रेतनिहरि विशेष उक्तो भृगुणा – शब्दे च सूतके शुद्धिस्त्वयहादुदकदायिनाम् । शब्दाहं तु कुर्युश्चेदशाहान्ता भवेत् क्रिया इति । स्मृत्यन्तरेऽपि – समानोदकाः कुर्वीरन् संस्कारं दशाहान्तः । दशाहान्तेन शुद्धिः स्यादित्याह भगवान् भृगुः इति । माण्डव्यः – सपिण्डो वाऽसपिण्डो वा कर्ता चेद्वपनं स्मृतम् । आशौचं दशाहान्त्रं स्यात् पञ्चसप्ततिर्पणम् । आशौचं तु त्रिरात्रं स्यादन्यथा वपनं न हि । त्रिंशत्तिलोदकं दद्यात् समानोदकसंस्थितौ इति । असपिण्डः - समानोदकः । अन्यथा - संस्काराकरण इत्यर्थः ।

ஸமாநோதகர்களுக்கு சவ நிர்வூரணத்தில் ஆசெளச பேதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ப்ரகுவினால் :- ஸமாநோதகர்களுக்கு ம்ருதியிலும் ஜநநத்திலும் 3-நாட்களுக்குப் பிறகு சுத்தி. சவத்தை வறித்தார்களாகில் 10-நாளாசெளசம். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும் :- ஸமாநோதகர்கள் ஸம்ஸ்காரம் செய்தால் 10-நாட்களில் ப்ரேதக்ரியையைச் செய்யவும். 10 நாட்களுக்குப் பிறகு சுத்தியுண்டாகும், என்றார் பகவான் ப்ரகு. மாண்டவ்யர் :- ஸபின்டங்கினும், ஸமாநோதகங்கினும், ஸம்ஸ்காரம் செய்தால் அவனுக்கு வபநம் விதிக்கப்படுகிறது. ஆசெளசம் 10-நாளாகும். 75-தர்ப்பணம். ஸமாநோதகன் ஸம்ஸ்காரம் செய்யாவிடில் 3-நாளா செளசம், வபநமில்லை, ஸமாநோதகனின் ம்ருதியில் 30-திலோதகங்களைக் கொடுக்கவும்.

तिलपरिमाणमुक्तं विष्णुपुराणे – तिलैः सप्ताष्टभिर्वादिपि
समवेतं जलाञ्जलिम् । भक्तिनम्रः समुद्दिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति
इति । अज्ञातिभिरपि कच्चिदुदकदानं कर्तव्यम् । तदाह याज्ञवल्क्यः
- एवं मातामहाचार्यप्रेतानां चोदकक्रिया । कामोदकं
सखिप्रत्तास्वस्त्रीयश्वशुरत्विजाम् इति ॥ प्रत्ता - परिणीता
दुहितृभगिन्यादिः । अपुत्राणां मातामहादीनां सपिण्डवदुदकदानं
नित्यं कार्यम् । सख्यादीनां तु कामतः:, न नित्यतया, अकरणे
प्रत्यवायाभावात् । स्मृत्यन्तरे - पतितस्योदकं कार्यं
सपिण्डैवर्बन्धवैर्बहिः इति । ग्रामाद्वहिरेकदिने कार्यम् ।

எள்ளுக்கு அளவு சொல்லப்பட்டுள்ளது விட்டனும் புராணத்தில் : - 'ஏழு அல்லது எட்டுத்திலங்களுடன் கூடிய ஜலாஞ்ஜலியை, பக்தியால் வணங்கியவனேய் நம்மை உத்தேசித்துப் பூமியில் கொடுக்கப் போகிறுன்' என்று. ஜஞாதிகளால்லாதவரும் சிலர் விஷயத்தில் உதகதாந்த்தைச் செய்ய வேண்டும். அதைச் சொல்லுகிறூர்யாஜ்ஞவெல்க்யர் : - "ஸபின்ட ஸமாநோதகர்களுக்குப் போல், இறந்த மாதாமஹன், ஆசார்யர்கள் இவர்களுக்கும் உதகதாநம் செய்ய வேண்டும். மித்ரன் ப்ரத்தைகள், பகிநீபுத்ரன், மாமஞர், ருத்விக்குகள் இவர்களுக்குக் காமோதகத்தைக் கொடுக்க வேண்டும்" என்று. ப்ரத்தை - விவாஹமாகிய பெண், பகிநீ முதலியவர்கள். புத்ரனில்லாத மாதாமஹன் முதலியவர்க்கும் ஸபின்டர்களுக்குப்போல் உதகதாந்த்தை அவச்யம் செய்ய வேண்டும். மித்ரன் முதலியவர்க்கோவெனில், காமத்தால் - இச்சையிருந்தால் உதகதாநம் செய்யலாம். நித்யமல்ல. செய்யாவிடில் தவறல்ல. (மாதாமஹாதிகளுக்குச் செய்யாவிடில் தவறு). ஒரு ஸ்ம்ருதியில் : - "பதிதனுக்கு ஸபின்டர்களும் பந்துக்களும் வெளியில் உதகதாந்த்தைச் செய்ய வேண்டும்". கராமத்திற்கு வெளியில் ஒரே தினத்தில் செய்ய வேண்டும்.

பிண்டானவி஧ி:

तीरकुण्डतर्पणानन्तरकृत्यमुक्तं पितृमेधसारे – अथोद-
कुम्भमाहृत्य कर्ता गृहद्वारे कुण्डेऽश्मानं निधाय प्रेतमावाह्य सङ्कल्प्य
सव्यज्ञान्वाच्य दक्षिणामुखस्त्रिवर्सोदकं दत्ता दीपं प्रज्वाल्य
सङ्कल्प्य कुण्डसन्निधौ दर्भेषु मार्जयतां मम प्रेत इति, प्रेतेति वा
सकृदपो मार्जयित्वा, कुकुटाण्डप्रमाणं मुष्टिप्रमाणं वा
फलमूलशाकयुक्तं तिलमिश्रं पिण्डमुकगोत्रामुकशर्मन् प्रेत इमं
पिण्डमुपतिष्ठेति प्रेताय पिण्डं बलिं च दत्ता, पूर्ववन्मार्जयित्वा
पात्रसंक्षालनतोयेत त्रिः प्रसव्यं परिषिच्य तमप्सु विसर्जयेत्। अपि
वा सङ्कटेषु तीरकुण्डतर्पणान्ते पिण्डं दद्यात्। एवमन्वहं पिण्डमेकैकं
दद्या दाश्राज्ञात्तीரकुण्डपाषाणे वा पिण्डं दद्यादिति केचित् इति ।

பிண்டதானவிதி

தீர குண்டத்தில் தர்ப்பணம் செய்தபிறகு செய்ய
வேண்டியது சொல்லப்பட்டுள்ளது. பித்ருமேதஸாரத்தில்
:- “பிறகு ஜலகும்பத்தை எடுத்துக் கொண்டு, கர்த்தா,
வீட்டின் வாயிற்படியின் ஸமீபத்திலுள்ள குண்டத்தில்
கல்லை வைத்து, ப்ரேதனை ஆவாஹநம் செய்து
ஸங்கல்பித்து, இடது முழங்காலைக் கவிழ்த்து, தெற்கு
நோக்கியவனைய் மூன்று தடவை வாஸோதகத்தைக்
கொடுத்து, தீபத்தை ஏற்றி ஸங்கல்பித்து, குண்ட
ஸந்நிதியில் தர்ப்பங்களில், மார்ஜயதாம் மம.....
ப்ரேத: (ஆண்) அல்லது ‘ப்ரேதா’ (பெண்) என்று ஒரு
தடவை ஜலத்தை விட்டு, கோழிமுட்டையளவு, அல்லது
முஷ்டி (பிடி) அளவுள்ளதும், பழம், கிழங்கு, சாகம், எள்
இவைகளுடன் கூடியதுமான பிண்டத்தை
கோத்ரமுள்ள சர்மாவுள்ள ப்ரேதனே ! இந்தப்
பிண்டத்தைப் பெற்றுக்கொள் என்று ப்ரேதனின்
பொருட்டு, பிண்டத்தையும் பலியையும் கொடுத்து,
முன்போல் ஜலத்தைவிட்டு, பாத்ரத்தை அலம்பிய

ज्ञलत्तालं मून्नरु मुररे अप्रतक्षिणमायस्च सर्न्नी,
पिण्ठात्तेतत्तेज्ञलत्तिलं पोट वेण्णुम्. अल्लतु, लन्कट
कालवंकणालेल, नतीतीर कुण्ठ तर्पपणत्तिन् मुष्टिविलं
पिण्ठात्तानम् चेय्यवुम्. इव्वितम् प्रति तिनम्
ऋव्वेवारु पिण्ठात्तेतक केऽकुक्कवुम्. ऋकोत्तिष्ठात्तम्
वररयिल. त्रिरकुण्ठ पाषाणत्तिलेये पिण्ठात्तानम्
चेय्यलामेन्नरु चिलर्”.

अत्र साङ्ख्यायनः - गृहद्वारे वामपार्श्वे कुण्डं तदुपर्यश्मानं
निधाय कनिष्ठपूर्वा: स्त्रीप्रथमा वासोदकं पीडयेयुः इति । अत्र
त्रिवासोदकं देयं न तिलोदकं विध्यभावात्, तथा शिष्टाचाराच्च ।
यद्यपि - नित्यं मृतस्य पुत्रैस्तु भार्या च यथाविधि । दशाहान्तं
द्विरावृत्या कर्तव्या चोदकक्रिया इत्याश्वलायनस्मृतिरस्ति,
तथाऽपि शिष्टाचाराभावादुपेक्ष्यम् ।

इव्विषयत्तिलं शाङ्कयायनारः :- कंगुलूत्तिन्
वायिन्पत्तियिन् लम्पित्तिलं इटतु पक्कत्तिलं कुण्ठात्तम्
चेय्तु अतन्मेलं, पाषाणत्तेतत्ते वेवत्तु,
चिन्नियवर्कौलायुम्, स्तरीकौलायुम् मून्ननीट्टु, मून्नरु मुररे
वस्तर ज्ञलत्तेतप्प धिय वेण्णुम्. इन्कु मून्नरु
तटवेव वालेलात्तकम् मट्टिलं केऽक्कप्पत वेण्णुम्.
तिलोत्तकमिलैल. अतर्नकाण वित्तियिलैल. अव्वितम्
चिष्ठासारमुमिलैल. आग्नेयम्, “मंगुतनीन् पुत्ररक्कानुम्
पार्ययुम् वितिप्पत्ति पत्ततु नाओं वररयिलं इरुमुररे
उत्तकत्तानम् चेय्य वेण्णुम्”, एन्नरु आच्वलायन
स्मंगुति इरुक्किन्नरतु, अप्पत्याग्नेयम्
चिष्ठासारमिलैलात्तत्तालं अतु उपेक्षीक्कत्तक्कत्तु.

अखण्डादर्शे - ततो गृहं समागम्य चरुं कुर्यात् स्वयं ततः ।
द्विः प्रक्षाल्य तु तद्वृत्यं कर्तव्यं श्रवणं ततः । आदाय दक्षिणाग्रांस्तु
दर्भान् संस्तीर्य विन्यसेत् इति । शङ्खः - दूर्वा प्रवालमग्निं वृषभं
चालम्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दत्ता पश्चात् प्रविशेयुः इति ।

ஶ்ரீ஧ரியே - வாமபாஷே ஗ृஹாரே ஶிலாஸ்திஸோ நி஧ாய ச | தாஸு வக்ஷானி ஸ்பீத்ச ஸாய் ப்ராதர்லிங் ஹரெட் இதி | வாமபாஷே ஗ृஹஸ்யாபிமுகம் ஗தஸ்யேதி கைஶித் வ்யால்யாதம் ||

அகண்டாதார்சத்தில் :- பிறகு க்ருஹத்திற்கு வந்து, சருவைச் செய்யவும். தானைகவே சருத்ரவ்யத்தை இருமுறை அலம்பிப் பிறகு பாகம் செய்யவும். தர்ப்பங்களை எடுத்து, தெற்கு நுனியாய்ப் பரத்தி, பிண்டத்தை வைக்கவும். சங்கர் :- அறுகு, பவழம், அக்னி, காளை இவைகளை ஸ்பர்சித்து, க்ருஹத்வாரத்தில், ப்ரேதனுக்குப் பிண்டதாநம் செய்து பிறகு க்ருஹத்தினுள் நுழைய வேண்டும். சாந்தீர்யத்தில் :- “க்ருஹத்வாரத்தில் இடது புறத்தில், மூன்று பாஷாணங்களை வைத்து, அவைகளில் வஸ்த்ரங்களைப் பிழிந்து, மாலையிலும், காலையிலும் பலியைக் கொடுக்கவும்”. இடது புறத்தில் என்பதற்கு, வீட்டில் நுழைந்தவனுக்கு இடது புறத்தில் என்ற சிலரால் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டது.

தथா ச ஸ்மृத்யந்தரம் - ஦ிரஸ்ய ஦க்ஷிணே பாஷே ஬ஹி: குர்யாடி஥ாவடம் | ஏகமஸ்மானமாத்யாடிஷ்காஂ வாடாஞ்சநாம் இதி | ஬ஹி: ஗ृஹாதி: அஜ்ஞ இதி யாவத் | ஗ृஹாரவாமபாஷே ஦க்ஷிணபாஷீயார்விகல்ப இத்யந्यே || ஶிலாத்ரயஸ்தாபன் ஬ோதாயநியானாஂ நியதம், தேஷாஂ ஶிலாத்ரயஸ்தாபனஸ்ய ஸாய் ப்ராதர்லி஦ானஸ்ய ச வி஧ானாத | இதரேஷாஂ, ஏகமஸ்மானமாத்யாத, ஶிலாஸ்திஸோ நி஧ாய ச இத்யநயார்விகல்ப: | அஜ்ஞா: - ஬ஹி: பிண்டப்ரான் ஸ்யாத் கர்ண் ஖ாத்வா வி஧ானத: | ஗ந்஧மால்யோட்கேநாஞ்சு ஦ியாஹ்ரேஷ்வாங்கு: இதி |

மற்றொரு ஸ்மிருதி :- வாயிலின் வலதுபக்கத்தில் வெளியில் குழியைச் செய்யவும். ஒரு பாஷாணத்தையாவது, செங்கல்லையாவது அதில் வைக்கவும், ப்ராஹ்மனர்களுக்கு, வெளியில் - வீட்டின் வெளியில், அங்கணத்திலென்பது பொருள். வீட்டின்

वायीविनं इटतुपुरम्, वलतुपुरम् इवेकणुक्तु
विकल्पमेमन्त्रु मर्त्रवर्स चेऽल्लुकिन्ऱनर. ३-सिलैकौना
वेवप्पतु, पोरातायन्यर्कणुक्तु नित्यम्, अवर्कणुक्तु
३-सिलैकौना वेवप्पतुम्, मालै कालैकौनिलं पलितानमुम
वित्तिकप्पत्तिरुक्किरतु. मर्त्रवर्कणुक्तु 'ऋगु सिलैयै
वेवक्कवुम्' '३-सिलैकौना वेवत्तु' एन्ऱ वसन्नकणुक्तु
विकल्पम्. आङ्कीर्सः :- वेवलीयिलं कुन्नटत्तेतच चेय्तु,
वित्तिप्पति प्रिन्नटतान्तत्तेतच चेय्यवुम्. किञ्च
नेंद्रक्कियवाण्य, कन्तम्, पुष्पम्, ज्ञलम् इवेकौनालं
पुश्छित्तु, तर्प्पन्कौनिलं केऽक्कवुम्.

ब्रह्मपुराणेऽपि – गृहाद्विः शुचौ देशो गोमयेनोपलेपिते ।
लौकिकाग्निं प्रतिष्ठाप्य स्नात्वा पात्रेण तेजसा । मृन्मयेनापि कर्तव्यं
श्रेपणं पितृयज्ञवत् । अभिघार्यं तमुद्गास्य पुनरप्यभिघार्यच । पाषाणं
पुरतः स्थाप्य बाग्यतो दक्षिणामुखः । दक्षिणाग्रान् कुशांस्तीर्यं
दद्यात्तेषूदकं सकृत् । नामगोत्रे समुच्चार्यं पिण्डं दद्यादमन्त्रकम् ।
पुनस्तत्रोदकं दद्याद्विपुष्टैरथार्चयेत् । धूपदीपौ तथा दद्यादेवं
दशादिनेषु च । अशक्तौ प्रथमेऽहिं स्यात् पञ्चमे दशमेऽपि वा ।
त्रिरात्र शौच उत्पन्ने त्रयः पिण्डा दशैव वा । उदकं पिण्डदानं च
पुनरप्युदकं नयेत् । बायसेभ्यो बलिं दद्याद्वैस्वतवरं स्मरन् । अग्नौ
जले वा निक्षिप्य स्नात्वा शशद्वृहं ब्रजेत् इति । प्रेतपिण्डव्यतिरिक्तं
बलिं बायसेभ्यो दत्वा तं प्रेतपिण्डं चरुपाकाग्नौ जले वा निक्षिप्य
स्नायादित्यर्थः ।

प्ररह्मपुराणात्तिलुम् :- “वैट्टिन्त्रु कु वेवलीयिलं
सक्ततप्तरतेचत्तिलं साणीयालं मेममुकप्पत्त इटत्तिलं,
बेलाकिकाक्कन्नैयै वेवत्तु, संनानम् चेय्तु,
तेतज्जलपात्तरत्तिलेवतु, (प्रित्तिलै मुतवियतु) मण्ण
पात्तरत्तिलेवतु पीत्तरु यज्ञं नुत्तिलं पोरालं सरुवै
स्रपणम् चेय्तु, अपिकारम् चेय्तु, सरुवै वेवलीयिलं
वेवत्तु, मरुपति अपिकारम् चेय्तु, पाषाणात्तत

முன்னில் வைத்து, மெளனியாய், தெற்கு நோக்கியவனைய், தெற்கு நுனியாய் தர்ப்பங்களைப் பரததி அவைகளின்மேல் ஒரு தடவை ஜலத்தை விட்டு, ப்ரேதனின் நாம கோத்ரங்களைச் சொல்லி மந்த்ரமில்லாமல் பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். மறுபடி பிண்டத்தில் உதகத்தை விட்டு, கந்தபுஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கவும். தூபதீபங்களையும் கொடுக்கவும். இவ்விதம் பத்துத் தினங்களிலும் செய்யவும். சக்தியில்லாவிடில் முதல் நாளில் செய்யவும். அல்லது ஜந்தாவது நாளில், அல்லது 10-ஆவது நாளில் செய்யவும். 3-நாளாசௌகியானால் 3-பிண்டங்களை, அல்லது 10-பிண்டங்களைக் கொடுக்கவும். உதகம், பிண்டதாநம், மறுபடி உதகத்தைவிடவும். யமனின் வரத்தை ஸ்மரித்துக் கொண்டு பலியைக் காக்கைகளுக்குக் கொடுக்கவும். அக்னியிலாவது ஜலத்திலாவது போடவும். ஸ்நாநம் செய்து பிறகு கருஹத்திற்குச் செல்லவும்'' என்று. ப்ரேத பிண்டத்தை தவிர்த்த பலியை காக்கைகளுக்குக் கொடுத்து, ப்ரேத பிண்டத்தை, சருபாகம் செய்த அக்னியிலாவது ஜலத்திலாவது போட்டு ஸ்நாநம் செய்ய வேண்டுமென்று பொருள்.

வैैस्वतवरश उत्तररामायणे भारते चोक्तः - ये च मद्विषया
नाम मानवाः क्षुधिता भृशम् । त्वयि भुक्ते तु तृप्तास्ते भविष्यन्ति
सबान्धवाः इति । विष्णुः - प्रेतस्योदकनिर्बर्पिणं कृत्वा एकं पिण्डं
कुशेषु दद्युषिविदाशौचं तावत् प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्युः इति ।
विज्ञानेश्वरीये - नवभिर्दिवसैर्दधान्वपिण्डान् समाहितः । दशमं
**पिण्डमुत्सृज्य रात्रिशेषे शुचिभवेत् इति । प्रत्यहमैक-
 -पिण्डाभिप्रायेण पारस्करोऽपि - ब्राह्मणे दश पिण्डास्तु क्षत्रिये**
द्वादश स्मृताः । वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः शद्वृत्रिंशत् प्रकीर्तिः इति ।

யமனின் வரம் உத்தர ராமாயணத்திலும் பாரதத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது - (இ வாய்ஸமே !)

एन्त मनीतर्सकां एन्निटम् वन्तवर्कालायं मिकवुम् पश्चियां लावरायीरुक्किन्नरान्नरो अवर्कलेल्लाम्, नी पूजित्तायाकिल्, पन्तुक्कगुट्टन् कृष्णवरायं त्तरुप्तराकिन्नरान्. विष्णुः - प्रेरेतनुक्कु उत्तकतानम् चेष्टु, ओरु पिण्टत्तेतत्त तर्प्पन्कलील् केकाटुक्कवुम्. आचेलासमुल्ला वरेयील् उत्तकतानम्, पिण्ट तानम् इवेवकौश्च चेष्यय वेण्टुम्. विक्कुरानेश्वरीयत्तील् :- 9-नालील् 9-पिण्टन्कौश्च केकाटुक्कवुम्. पत्ताववतु नालील् 10-आवतु पिण्टत्तेतत्त केकाटुत्तु मरुनालील् सुत्तत्ताक वेण्टुम्. ओव्वेवारु नालीलुम् ओव्वेवारु पिण्टमेन्नपि प्ररायत्तुत्त, पारस्करारुम् :- प्रराह्ममणान् विष्यत्तील् पत्तुप्पि पिण्टन्कौश्च. कृष्णतीयं विष्यत्तील् पन्निरण्टु. वेव्यं विष्यत्तील् पत्तैनन्तु. कुत्तरान् विष्यत्तील् मुप्पतु पिण्टन्कौश्च चेल्लप्पट्टुलान.

स्मृतिरत्ने -प्रेतेभ्यस्तु सर्वर्णेभ्यः पिण्डान् दद्युर्द्दौव तु इति दशपिण्डस्मरणात् प्रत्यहमेकैकपिण्डविधानाच्च एकस्मिन्नेव काले पिण्डदानम्, सायं प्रातर्बालिं हरेत् इति वचनेन सायं बल्यर्थं द्वितीयमपि पिण्डं शिष्ठा आचरन्ति इति ॥ प्रचेताः - दक्षिणाग्राश्रद्धाः स्युः स च वै दक्षिणामुखः । द्वारदेशो प्रदातव्यो न देवायतने कचित् । वाग्यताः प्रयतश्चैव सन्तिष्ठेत् पिण्डसन्निधौ । ततोऽवशिष्टं पिण्डस्य नद्यां तु प्रक्षिपेच तत् इति । शङ्खः - भूमौ माल्यं पिण्डं पानीयमुपले वा (उदकफले वा) दद्युः इति ।

संमंगुत्तिरत्नत्तील् :- 'सवर्णांकालान् प्रेरेतर्कगुक्कुप्पि यत्तु पिण्टन्कौश्च येकेकाटुक्कवुम्' एन्नरु संमंगुत्तियीरुप्पत्तालुम् प्ररति तिनाम् ओव्वेवारु पिण्टमेव वित्तिक्कप्पट्टिरुप्पत्तालुम्, ओरु कालत्तील् मट्टिल् पिण्टत्तानम्. 'मालैयीलुम्, कालैयीलुम् पलियेक्क केकाटुक्क वेण्टुम्' एन्नरु वसनत्ताल, लोयम्पलिक्काक इरण्टावतु पिण्टत्तेतयुम्

சிஷ்டர்கள் செய்கின்றனர். ப்ரசேதங்கள் : - தர்ப்பங்கள் தெற்கு நுனியுள்ளவைகளாயிருக்க வேண்டும். கர்த்தாவும் தெற்கு நோக்கியவனுயிருக்க வேண்டும். வாயிற்படியின் ப்ரதேசத்தில் கொடுக்கவும். தேவதா க்ருஹத்தில் ஒருகாலம் கொடுக்கக் கூடாது. மெளனியாயும், சுத்தனுயும் பிண்ட ஸந்திதியிலிருக்கவும். பிண்டத்தின் மீதியான அன்னத்தை நதியில் போடவேண்டும். சங்கர் : - புஷ்பம், பிண்டம், ஜலம் இவைகளைப் பூமியில் கொடுக்கவும். அல்லது பாஷாணத்தின்மேல் கொடுக்கவும்.

யतு - ப்ரேதபிண்ட ஬हி஦धாது ஦र்மந்த்ரவிவர்ஜிதம् இதி, தத்துப்பனிதவிஷயம், அஸ்ஸ்கृதானா் ஭ூமை பிண்ட ஦धாது ஸ்ஸ்கृதானா் குரேஷு இதி ப்ரசேதः ஸ்பரணாது । ஸ்மृத்யர்஥ஸாரே - குக்கடாண்டப்ரமாணஸ்து பிண்ட இத்யமி஧ியதே । அஜ்ஞா பர்மான் ஸ்யாதவாடானமிதி ஸ்஥ிதி: இதி । ஆஶ்வலாயனः - யத्र ஸ்யுர்஬ாஹ: பிண்டாஸ்தந் பில்வ஫லோபமா: । யத्र சைகோ ஭வேத் பிண்டஸ்தநாஶ்வர்஖ுரஸமித: இதி । ஸ்மृத்யந்தரே - ப்ராய: பித்யேஷு பிண்டா: ஸ்யுமனை ப஦ரோபமா: । ஸ்வந்தி ஸுட்டா ஹி ஸ்யுர்த்துலா: ஶாஷ்கர்மஸு । ப்ரேதபிண்டஸ்து ஦ைர்஘்யேண ஹாதஶாஜ்ஞல உச்யதே । ஸ்஥ௌல்யேந சைகபிண்டஸ்ய ஸடஶா: ஸ்யாஹூ: ஶுभ: இதி । எகபிண்டஸ்ய ஸடஶா: - அஶ்வர்஖ுரஸடஶா இத்யர்஥: ।

ஆலை 'ப்ரேத பிண்டத்தை வெளியில் கொடுக்கவும். தர்ப்ப மந்த்ரங்கள் இல்லாமல்' என்ற வசனமுள்ளதே எனில், அது உபநயநமாகாதவர்களைப் பற்றியது. 'உபநயநமாகாதவருக்கு பூமியில் பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். உபநீதர்களுக்குத் தர்ப்பங்களில் கொடுக்கவும்' என்று ப்ரசேதஸ்லின் ஸ்ம்ருதி உள்ளது. ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தில் : - கோழிமுட்டையளவுள்ளது பிண்ட மென்ப்படுகிறது. அவதானமென்பது, பெருவிரலின் கணுவளவுள்ளதாயிருக்க வேண்டுமென்பது நிர்ணயம். ஆச்வலாயனர் : - எவ்விஷயத்தில் வெகு

पिण्ठंतंकं चेऽल्लप्पट्टुं ऊनवो अतिलं
पिण्ठंतंकं वील्वप्प पमृत्तिनौवूं ऊवैकूला यिरुक्क
वेण्णुम्. ऎति लं ओरु पिण्ठंतम् चेऽल्लप्प
पट्टिरुक्किरुठो अतिलं पिण्ठंतम् कुत्तिरैयिनं
कुूलम्पैवूं ऊता यिरुक्क वेण्णुम्. ओरु संमंगुत्तियिलः-
अनेकमाय, पित्तरु कार्यंकैवल्लिलं पिण्ठंतंकं इलन्तत्तेकं
कूनीयौवूं ऊवैकूला यिरुक्क वेण्णुम्. चरात्तह
कर्मंकैवल्लावर्हैलुम् पिण्ठंतंकं तंरुतमायुम्
उरुण्ठंतयायुमिरुक्क वेण्णुम्. परेत पिण्ठंतमेवा
वैवैलं नैतत्तालं 12-अंकुूलमैवूं ऊता यिरुक्क
वेण्णुम्. परुमनीलं ओरु पिण्ठंतत्तिनं अैवूं ऊता यिरुक्क
तंरुतमायुम् नन्त्रुकैवुम् इरुक्क वेण्णुम्. ओरु
पिण्ठंतत्तिनं अैवूं ऊतु एन्पत्तरुक्क कुत्तिरैयिनं
कुूलम्पिरुक्क चममायूं ऊतु एन्पतु बेपारुं.

स्मृत्यन्ते तु - कपित्थबिल्ववचाब्दे पिण्डं दद्याच्च पार्वणे ।
धात्री फलप्रमाणेन गयाश्राद्धे महालये । नालिकेरप्रमाणेन एकोद्दिष्टे
सपिण्डने । अन्यश्राद्धेषु सर्वेषु कुक्कुटाण्डप्रमाणतः इति । व्यासः -
द्विहायनस्य वत्सस्य विशत्यास्ये यथा सुखम् । तथा कुर्यात् प्रमाणं
तु पिण्डानां व्यासभाषितम् इति । पराशारः - पिण्डं प्रदीयते
साग्रदभैषु तु गुडेन वा । पयसा फलमूलैश्च मिश्रितं दक्षिणामुखः ।
प्रेताय नामगोत्राभ्यां प्रदद्यान्मुष्टिसंमितम् । तूष्णीं प्रसेचकं पुष्पं धूं
दीपं तथैव इति ।

मर्त्त्वेन्नुरु संमंगुत्तियिलोवैवैलिलः-
प्ररात्त्याप्तिकैत्तिलुम्, पार्वणे चरात्तत्तिलुम्,
वीूलाङ्कनी, पील्वप्प पमृम् पोैलुूं ऊ पिण्ठंतत्तत्तेकं
केकाटुकैवुम्. कया चरात्तत्तिलुम्, मूर्हाैवैयत्तिलुम्
नेल्लिकै कूनीयौवूं ऊता यिरुक्क, एकेत्तिष्टत्तिलुम्,
सल्पिण्ठंकरणत्तिलुम्, तेंकायैवूं ऊता यिरुक्क, मर्त्त
एल्लरा चरात्तत्तंकैवुम् केकामृमृट्टैयैवूं ऊता यिरुक्क
पिण्ठंतत्तेकं केकाटुकैवुम्. व्यासरः :- इरण्णु

வயதுள்ள சூழ்ந்தையின் வாயில் ச்ரமமில்லாமல் நுழைவதற்கு எவ்வளவு அளவோ அவ்வளவு ப்ரமாணமுள்ளதாய்ப் பிண்டங்களைச் செய்ய வேண்டு மென்று வ்யாஸருடைய வாக்யம். பராசரர் :- நூனியுடனுள்ளதர்ப்பங்களில் வெல்லத்துடனுவது, பால், பழம், மூலம் இவைகளுடனுவது கூடியதும் முஷ்டியளவுள்ளதுமான பிண்டத்தைத் தெற்கு நோக்கியவனேய், ப்ரேதனின் பொருட்டு, நாம கோத்ரங்களைச் சொல்லிக் கொடுக்கவும். மந்த்ர மில்லாமல் மறுபடிஜலத்தைக் கொடுக்கவும். புஷ்பதூபதீபங்களையும் கொடுக்கவும்.

बोधायनश्च — मुष्टिप्रमाणं कुक्कुटाण्डप्रमाणं वा तिलमिश्रं पिण्डं प्रदाय गन्धपुष्पधूपदीपान् दत्त्वा संक्षालनेनापसन्धं परिषिच्य प्रेतपिण्डमप्सु विसर्जयेत् इति । विसर्जनप्रकारमाहापस्तम्बः — आकाशं गमयेत् पिण्डं जलस्थो दक्षिणामुखः । पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणादिक्कथैव च इति । आशौचहासेऽपि दशपिण्डानाह शातातपः — आशौचस्यापि च हासे पिण्डान् दद्यादौव तु । प्रथमे त्रीन् द्वितीयेऽहि चतुरस्रीन् तृतीयके इति । उदकदानवत् पिण्डदानं न सर्वैः कार्यम्, अपि तु संस्क्रतैव । तथाऽह संवर्तः — पूर्वाहि वाऽपराह्वे वा तोयमाशौचगामिभिः । संस्कर्त्रैव बलिर्देयः स हि प्रेतस्य बान्धवः इति ।

போதாயனரும் :- முஷ்டியளவுள்ளது, அல்லது கோழிமுட்டையளவுள்ளதானதும், என்னுகளுடன் கூடியதுமான பிண்டத்தைக் கொடுத்து, கந்த புஷ்ப தூப தீபங்களையும் கொடுத்து, பாத்ரத்தை அலம்பிய ஜலத்தால் அப்ரதக்ஷிணமாகச் சுற்றி, ப்ரேத பிண்டத்தை ஜலத்தில் போட வேண்டும். ஜலத்தில் போடும் ப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார் ஆபஸ்தும்பர் :- தெற்கு முகமாய் ஜலத்தில் நின்று கொண்டு பிண்டத்தை ஆகாசத்தில் போட

वेण्णनुम्. आकाशमुम्, तेन्नकुत्ति कुकुम पित्तरुक्कणीन् स्ताणम्. आचेणाचम् कुरैरन्त विषयत्तिलुम्, पत्तुप पिण्टनंकौलाचं चेषाल्लुकिरुर् चातातुपारः :- कुरैरन्त आचेणाचविषयत्तिलुम् पत्तुप पिण्टनंकौलाये केषाटुक्क वेण्णनुम्. मुतल नालील ३, २-आवतु नालील ४, ३-आवतु नालील ३, एन्ऱु कणक्कुप्पपटि केषाटुक्कवम्. उतक तान्तत्तेत एल्लेलारुम् चेय्यवतु पोल्ल पिण्टतान्तत्तेत एल्लेलारुम् चेय्यक्क कूटातु. लम्लकारम् चेय्तवन्ताण चेय्यलाम्. अव्वीतम् चेषाल्लुकिरुर् लम्लवर्त्ततारः :- आचेणाचमनुष्टिप्पवर्कणाल्ल मुर्पकलिलेला प्रथमेऽहनि यद्व्यं तदेव स्याद्वाहिकम् इति । कर्तृनियमो गृह्यपरिशिष्टेऽभिहितः । असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहनि यः कुर्यात् स दशाहं समापयेत् इति । स्थाननियम उक्तः स्मृत्यन्तरे - एकत्र निक्षिपेत् कर्ता दश पिण्डान् समाहितः । स्थानभेदे महान् दोषः पिण्डमुड्नरकं व्रजेत् इति । पिण्डभुक् - प्रेतः । अन्यत्रापि - द्रव्यभेदे महाहानिः कर्तृभेदे त्वनर्थता । स्थानभेदे महान् दोषस्थिभेदं तु न कारयेत् इति ।

पिण्डद्रव्यादिनियमः

पिण्डद्रव्यनियममाह शुनःपुच्छः - शालिना सकुमिर्वाडिपि शाकेनाप्यथ निर्विपेत् । प्रथमेऽहनि यद्व्यं तदेव स्याद्वाहिकम् इति । कर्तृनियमो गृह्यपरिशिष्टेऽभिहितः । असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहनि यः कुर्यात् स दशाहं समापयेत् इति । स्थाननियम उक्तः स्मृत्यन्तरे - एकत्र निक्षिपेत् कर्ता दश पिण्डान् समाहितः । स्थानभेदे महान् दोषः पिण्डमुड्नरकं व्रजेत् इति । पिण्डभुक् - प्रेतः । अन्यत्रापि - द्रव्यभेदे महाहानिः कर्तृभेदे त्वनर्थता । स्थानभेदे महान् दोषस्थिभेदं तु न कारयेत् इति ।

पिण्टतरव्यम् मुतलियवेकणीन् नियमम्

पिण्ट तरव्यत्तिनिं नियमत्ततेत्तचं चेषाल्लुकिरुर् :-
सन्धःपुक्करः : नेल्लिणुलेला, मावुकणालेला,
साकत्तिणुलेला पिण्टत्तत्तत्तेत्तकं केषाटुक्कवम्. मुतल नालील
एन्त तरव्यत्तताल केषाटुक्कप्पत्ततेत्तो अतणुलेये
पत्तु नाट्कणीलुम् केषाटुक्कप्पत्त वेण्णनुम्. कर्त्ततावीन्

நியமம் க்ருஹ்ய பரிசிஞ்சத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரோதரனல்லாதவானாலும், ஸ்ரோதரனாலும், ஸ்த்ரீயோ, புருஷனாலும், முதல் நாளில் எவன் கர்த்தாவோ அவனே பத்து நாட்கள் க்ரியையைச் செய்து முடிக்க வேண்டும். பின்டத்தை வைக்குமிடத்தின் நியமம் சொல்லப் பட்டுள்ளது மற்றொரு ஸ்மிருதியில் : - கர்த்தா கவனமுடையவனும் 10 பின்டங்களையும், ஒரே இடத்தில் வைக்க வேண்டும். வேறு இடத்தில் வைத்தால் தோஷம் மிகவாயுண்டாகும். ப்ரேதன் நரகத்தை அடைவான். வேறு ஸ்மிருதியிலும் - த்ரவ்யம் மாறினால் பெரிய குறை உண்டாகும். கர்த்தா மாறினால் கர்மம் பயனற்றதாகும். ஸ்தானம் மாறினால் மிகுந்த தோஷமுண்டாகும். ஆகையால் இந்த மூன்றிலும் மாறுதலைச் செய்யக் கூடாது.

ஶிலாடிவிப்யர்சே

ஸ்மृத்யந்தரே — வஸ்திபாஷாணகும்஭ானாஂ ஸ்஥ால்யா: கர்த்துர்விப்யர்யே । பூர்வத்தோடு குர்யாத் புனரித்யாஹ ஦ேவல: இதி । ஸ்மृத்யர்த்தாரே — உத்தரீயஶிலாபாந்திரவ்யக்ர்த்துர்விப்யர்யே । பூர்வத்தாஜ்ஜலீந் பிண்டாந் புனரித்யாஹ ஗ௌதம: இதி । உத்தரீயঁ - வாஸ உடகார்த்த நவவஸ்தம், பாந்த - வாஸ உடகாடி஦ானாய ஜலாஹரணார்த்த நவ஘ட: , சரஸ்தாலி வா । தत்தை - ஆத்திரோதாதந்யதேஶோ ப்ரேதபிண்ட க்ஷிபேத்துதி । பூர்வத்தாந் ப்ரேதபிண்டாந் புனரித்யாஹ ஶாகல: இதி ।

பாஷாணம் முதலியவை மாறும் விஷயத்தில்

மற்றொரு ஸ்மிருதியில் : - வஸ்த்ரம், பாஷாணம், ஜலங்கொண்டு வரும் குடம், பொங்கும் பாத்ரம், கர்த்தா இவைகளுள் ஒன்று மாறினாலும், முன் கொடுக்கப்பட்ட உதகாஞ்ஜலிகளை மறுபடி கொடுக்க வேண்டுமென்றார் தேவலர். ஸ்மிருத்யர்த்த ஸாரத்தில் : - உத்தரீயம், பாஷாணம், பாத்ரம், த்ரவ்யம், கர்த்தா இவைகள் ஏதாவது மாறினால், முன் கொடுக்கப்பட்ட உதகாஞ்ஜலிகளையும்

पिण्ठंतंकलौयुम् मरुपदि केऽकुक्क वेण्टुमेन्ऱुर्
केणात्तमर्. उत्तरीयम् - वा सेवातक तान्तत्तिर्काण पुतु
वस्तरम्. पात्तरम् - वा सेवातक तान्तत्तिर्काक ज्ञलम्
केऽन्ऱुवरुम् पुथिय कुटम्, अल्लतु पिण्ठंम् बोग्कुम्
पात्तरम्. संम्ग्रुत्यर्त्त शारत्तिलेये :- मृत्तविल्ल
पोट्ट इट्टत्तेव वीट मर्त्तेरुरु इट्टत्तिल्ल प्परेत
पिण्ठंत्तेवप्पे पोट्टवाणुकिल्ल मुन्नकेऽक्कप्पट्ट
प्परेत पिण्ठंतंकलौ मरुपदि केऽक्कवेण्टुमेन्ऱुर्
शाकलर्.

स्मृत्यन्तरे - आशौचमध्ये पाषाणं यदि न द्येच्छिलान्तरे ।
पूर्वदत्ताञ्जलीन् पिण्डान् पुनरित्याह कुण्डिनः इति । अन्यत्रापि -
स्थापितं प्रेतपाषणमादशाहान् चालयेत् । देशक्षोभे महापत्तौ
स्थापितं चोद्धरेद्यदि । प्राणायामत्रयं कृत्वा संस्पृश्य व्याहृतीज्जपेत् ।
यदि नष्टं हृतं वाऽपि पाषाणं प्रथमाह्निकम् । पाषाणमन्यमादाय
पूर्वदत्ताम्बु निक्षिपेत् इति ।

मर्त्तेरुरु संम्ग्रुत्यिल्ल :- आ शेणात्तिन्न न उविल्ल
पाषाणम् काणुमर्त्तेपोय्विट्टाल्ल, मर्त्तेरुरु चिलैयिल्ल
मुन्न केऽक्कप्पट्ट ज्ञलाञ्ज्ञविकलौयुम्, पिण्ठंतंकलौयुम्,
मरुपदि केऽक्कवेण्टुमेन्ऱुर् कुण्ठिनर्. मर्त्तेरुरु संम्ग्रुत्यिलूम् :- वेवक्कप्पट्ट
पाषाणत्तेत 10-नाळ वरेयिलूम् अशेक्कक्क कृटातु. तेच केष्ठापत्तिलावतु,
वेवक्कप्पट्ट पाषाणत्तेत ऎउत्ताल्ल, मुन्नरु
प्रराणुयामन्कलौच चेय्तु, तेऽन्ऱुक्क केऽन्ऱु
व्याहृत्यिकलौज्ञपीक्कवुम्. मृत्तविल्ल नाळील्ल वेवक्कप्पट्ट
पाषाणम् काणुमर्त्तेपोणुलूम्, अन्याणुल्ल
अपहरीक्कप्पट्टालूम्, वेवु पाषाणत्तेव वेवत्तु
मुन्न केऽक्कप्पट्ट ज्ञलाञ्ज्ञविकलौयुम् केऽक्कवुम्.

सञ्चहे तु - शिलविनाशो सति वा ततोऽन्यामायातुमन्त्रेण
निधाय कुण्डे । यमाय सोमं सुनुतेति मन्त्रादाज्याहुतिं लौकिक एव

வஹை இதி । ஶிலாவிநாசோऽந்யா ஶிலாஂ ஆயாது ஦ேவஸுமனாமிஃ இதி
வாக்யங்களை மந்திர ஸ்஥ாபித்வா யமாய ஸோம் இதி மந்திர
லௌகிகாஶை ஜுஹாடித்யர்஥ः । தனைவ - ஶிலாந்தரே ஸ்஥ாபிதே து வட்டா
நஷ்டஶிலா யதி । யமே இவேதி மந்திர தாஂ ச ந்யஸ்யாத தர்ப்யேத் இதி ।

ஸங்க்ரஹத்திலோவெனில் :- “பாஷாணம்
காணுமற் போனால் வேறு சிலையைக் குண்டத்தில்
'ஆயாது' என்ற மந்த்ரத்தால் வைத்து, 'யமாய ஸோமம்
ஸாநுத' என்ற மந்த்ரத்தினால் ஆஜ்யாஹத்தியை
லெளகிகாக்நியில் ஹோமம் செய்யவும்'” என்றாள்ளது.
சிலை காணுமற் போனால் மற் கீருரு சிலையை 'ஆயாது
தேவஸ்ஸாமனுபி:' என்ற இரண்டு வாக்யமுள்ள
மந்த்ரத்தினால் வைத்து, 'யமாய ஸோமம் என்ற
மந்த்ரத்தால் லெளகிகாக்நியில் ஹோமம் செய்ய
வேண்டுமென்பது பொருள். ஸங்க்ரஹத்திலேயே :- வேறு
சிலையை வைத்த பிறகு, காணுமற் போன சிலை
காணப்பட்டால் 'யமே இவ' என்ற மந்த்ரத்தால் அதையும்
சேர்த்து வைத்துத் தர்ப்பிக்கவும்.

அगस्त्यः - ராஜகார்யனியுक்தானாஂ வैश्यானां சாதிப்திஷு ।
பாषாணமுஞ்சரேந்மध்யே ஬லிகர्म ஸமாபயேத் இதி । பாரஸ்கரः - ஗ृहीत्वा
ப்ரேதபாஷாண் ஗च्छेदेशविपर्यये । அபகृष்யாபி குர்வித ந
த்வेतदவशேஷயேத் । உடக் பிண்஡ாந் ச ஦शாஹந்தரं து யத् ।
ஸமாபயேஹாஹே தத் ஸர்வ பூர்வி஦ாசரேத் । அஸ்஥ிஸञ்சயநா஧ூர்ச்
விச்சித்தே தர்பணாடிகே । த்யங்கே யதி து பித்ரோஶ புனः ஸஂக்ஷிப்யதே த்யஹாத்
இதி । ஸ்மृத்யந்தரே - யதி நஷ்ட மூதோ வாடபி கர்த்த ஹன்யம் ஸமாஶியேத் ।
தெனைவ காரயேத் ஸர்வமுந்தகாஶாஸபிண்஡னம் । பிரதமேஹனி யः கர்த்த நாரி
வா புருஷோத்த வா । ஆதஶாஹ் பிண்஡ாநோடகக்ரியா: இதி ।

அகஸ்த்யர் :- ராஜ கார்யத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும்,
வைச்யர்களுக்கும், ஆபத்காலத்தில் பாஷாணத்தை

एतुत्तुविटलाम्. पत्तु नालं मत्तियिलुम् पिण्ठातान्तत्तेत
समाप्ति चेय्यलाम्. पारास्करारः :- तेष केषोप
कालत्तिलं प्रेरेत पाषाणत्तेत एतुत्तुकं केाण्टु
पोकलाम्. अल्लतु अपकर्षम् चेय्तु मुन्तियेये
मुष्टित्तुविटलाम्. इतेत मीतिवेक्कक्क कूटातु. पत्तु
नाणेक्कुलं चेय्य वेण्टिय उतक पिण्ठातान्मेतुवेवा
अतेतप्प पत्तावतु नालीलं समाप्ति चेय्यवुम्.
एल्लावर्हरयुम् मुन्पोलं चेय्यवुम्. अस्ति
सैन्चयनत्तिर्कुमेलं तरप्पनाम् मुतलियतु
विचक्किन्नमाग्नेलं अुन्नु वर्षत्तिर्कुल्लुम् माता पित्तु
विषयत्तिलुम् मरुपाति ३-नालीलं चेय्य वेण्टुम्.
मर्ग्गेत्रुरुलम्ग्रुतीयिलः मुक्यकर्त्तावाक्यवन्काणेमलं
पोलग्नेलुम्, इरन्तालुम्, अउत्त कर्त्तावा एवनं
चेय्किरुग्नेऽवजैकं केाण्टेत उतक तान्म मुतलं
सपीण्मकरणाम् वरेयीलं चेय्विक्क वेण्टुम्.
पुरुषाण्यीनुम्, लत्तरीयायीनुम् मुतलं नालीलं एवनं
कर्त्तावेवाअवेने पत्तुनालं वरेयीलं पिण्ठातान्म उतक
कर्मियेक्कौस्त चेय्य वेण्टुम्.

स्मृत्यर्थसारे - वायसैः सेविते पिण्डे शुना शूद्रेण दूषिते ।
पुनः कर्म प्रकुर्वीत ह्यावृत्तिश्च विपर्यये इति । विपर्यये -
उत्तरीयादिविपर्यये । अङ्गिरास्तु - पिण्डं काकादिपक्षिभ्यो
जन्तुरन्यः स्पृशोद्यदि । कृच्छ्रत्रयं चरित्वाऽथ पुनः पिण्डं च निवैपेत्
इति । जन्तुः - श्वादिः, काकादिस्पर्शने कृच्छ्रभावः, पुनः
पिण्डनिवर्पणमेवेत्यर्थः । स्मृतिरत्ने - श्वच्छालादिभिः स्पृष्टः
पिण्डो यद्युपहन्यते । प्राजापत्यत्रयं कृत्वा पुनः पिण्डं समाचरेत् ।
मार्जरिमूषकस्पर्शे पिण्डे च विदलीकृते । पुनः पिण्डः प्रदातव्यस्तेन
पाकेन तत्क्षणात् इति ।

स्लम्ग्रुत्यार्त्त लारत्तिलः :- प्रेरेत पिण्ठाम्,
काक्केक्कलालं पक्षीक्कप्पत्तालुम्, नाय, कुत्तरां
अिवर्कलालं अस्त्तमाग्नेलुम्, मरुपाति अक्कर्मावेच

செய்யவும். வாலோதக வஸ்தரம் முதலியது நஷ்டமானால் மறுபடி ஆவ்ருத்தி செய்யவும். அங்கிரஸ் : - காக்கை முதலிய பக்ஷிகளைத் தவிர்த்த மற்ற நாய் முதலிய ஜந்து, பிண்டத்தை ஸ்பர்சித்தால், மூன்று க்ருச்ரங்களை அனுஷ்டித்து, மறுபடி பிண்டதானத்தைச் செய்யவும். காக்கைகள் முதலியவை தொட்டால் க்ருச்ரமில்லை. மறுபடி பிண்டதானம் மட்டில் செய்தால் போதுமென்பது பொருள். ஸ்மிருதி ரத்னத்தில் : - நாய், சண்டாளன் முதலியவர்களால் தொடப்பட்டுப் பிண்டம் அசுத்தமானால், மூன்று ப்ராஜாபத்ய க்ருச்ரம் செய்து மறுபடி பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். பூனை, எவி இவைகளால் பிண்டம் தொடப்பட்டாலும், உடைந்து போனாலும், அப்பொழுதே அந்தப் பாகத்தாலேயே மறுபடி பிண்டதாநம் செய்யப்பட வேண்டும்.

गृहद्वारपार्श्वकुण्डं विदलादिभिः प्रावृत्य प्रत्यग्द्वारां
दक्षिणद्वारां वा कुटिकां कृत्वा माल्यादैरलङ्घत्य पृथक् पृथक् मून्मये
पत्रे प्रेतात्र स्नाहीति जलम्, पिबेदभिति क्षीरम्, कुण्डोपरि शिक्ये
स्थापयेत् । तथा चाश्वलायनकारिका - आधायाश्मानमेकं तु
भूषयेदथ वेष्टयेत् । तस्योपरि निधातव्यं क्षीरं नीरं च पात्रयोः ।
यावद्वशाहमाकाशो परि(थ)श्मनिवृत्तये इति । पारस्करश -
प्रेतात्र स्नाहीत्युदकं पिबेदभिति क्षीरम् इति । याज्ञवल्क्योऽपि -
जलमेकाह माकाशो स्थाप्यं क्षीरं च मून्मये इति ।

வீட்டின் வாயிலிலுள்ள குண்டத்தைக் கீற்று முதலியதால் மறைத்து, மேற்கு, அல்லது தெற்கில் வாயில் உள்ளதான் குடிசையைச் செய்து, மாலை முதலியவைகளாலங்கரித்து, தனித்தனியே, மண்பாத்ரத்தில் 'ப்ரேத - இங்கு முழுகு' என்று ஜலத்தையும், 'இதைப் பருகு' என்று பாலையும், குண்டத்திற்கு மேல் உறியில் வைக்கவும். அவ்விதமே, ஆச்வலாயன காரிகை : - ஒரு பாஷாணத்தை ஸ்தாபித்து அலங்கரித்து, சுற்றிக் கட்டவும். அதற்கு மேல்

இரண்டு பாத்ரங்களில், பால், ஜலம் இவைகளை வைக்கவும். பத்துநாள் வரையில் சரம நிவருத்திக்காக ஆகாசத்தில் வைக்கவும். பாரஸ்கரரும் : - 'ப்ரேத இங்கு முழுகு' என்று ஜலத்தையும், 'இதைப் பருகு' என்று பாலையும் (வைக்கவும்). யாஜ்ஞவல்க்யரும் : - ஆகாசத்தில், மன் பாத்ரத்தில் ஜலம் பால் இவைகளை ஒரு நாளில் வைக்கவும்.

अत्र विज्ञानेश्वरः - जलं क्षीरं च पात्रद्वये पृथक् पृथक्, आकाशो - शिक्यादौ, एकाहं स्थापनीयम्, विशेषानुपादानात् प्रथमेऽहनि कार्यम् इति । माधवीयेऽपि - प्रथमेऽहनि प्रेतमुद्दिश्य जलं क्षीरं चाकाशो शिक्यादौ पात्रद्वये स्थापनीयम् इति । अन्ये तु - प्रथमदिनमारभ्य क्षीरं जलं चैकैकाहमेवावस्थितं यथा भवति तथा प्रत्यहं नवं नवं जलं क्षीरं च स्थापनीयम्, शिष्ठाचारश्चैवमिति व्याचक्षते । एवमेतस्मिन् कुण्डे आदशाहं वास उदकं एतत्समीपे दर्भस्तुते पिण्डबलिप्रदानं च कार्यम् ।

वிஜ்ஞாநேச்வரர் :- 'ஜலத்தையும், பாலையும், இரண்டு பாத்ரங்களில் தனித் தனியாய், ஆகாசத்தில் உறி முதலியதில் ஒருநாள் முழுவதும் வைக்கவும். விசேஷம் சொல்லாததால் முதல் நாளில் செய்ய வேண்டும்' என்றார். மாதவியத்திலும் : முதல் நாளில் ப்ரேதனை உத்தேசித்து, ஜலத்தையும், கஷீரத்தையும் ஆகாசத்தில் உறி முதலியதில் இரண்டு பாத்ரங்களில் வைக்கவும். மற்றவரோவெனில் :- முதல் நாள் முதற் கொண்டு கஷீரமும், ஜலமும் ஒவ்வொரு நாள் மட்டில் எப்படி இருக்குமோ அவ்விதம் ப்ரதி தினமும் புதிது புதிதாய் ஜலமும் கஷீரமும் வைக்கப்பட்ட வேண்டும். சிஷ்டாசாரமும் இவ்விதம், என்று சொல்லுகின்றனர். இவ்விதம் இந்தக் குண்டத்தில் பத்து நாள் வரையில் வாஸோதகமும், குண்டத்தின் ஸமீபத்தில் தர்ப்பங்களைப் பரப்பி பிண்ட பலி ப்ரதாநமும் செய்யப்பட வேண்டும்.

प्रेतशरीरोत्पत्तिक्रमः –

दशाहपिण्डदानेन प्रेतस्य शरीरोत्पत्तिर्भवति । यदाह
क्रश्यशृङ्गः – प्रथमेऽहनि यः पिण्डः तेन मूर्धा प्रजायते । चक्षुः श्रोत्रे
नासिका च द्वितीयेऽहनि जायते । भुजौ वक्षस्तथा ग्रीवा
तृतीयेऽहनि जायते । नाभिस्थानं गुदं लिङ्गं चतुर्थेऽहनि जायते ।
ऊरु तु पञ्चमे ह्रेयौ षष्ठे चर्म प्रजायते । सप्तमे तु सिरा सर्वा जायते
नात्र संशयः । अष्टमे तु कृते पिण्डे सर्वरोमाण्यनन्तरम् । नवमे
वीर्यसंपत्तिर्दशमे क्षुत्परिक्षयः । दशमेन तु पिण्डेन तृस्मिः प्रेतस्य
जायते । आशौचान्ते ततः सम्यक्षिप्णदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं
प्रदातव्यं सर्ववर्णव्ययं विधिः । एकोद्दिष्टात् पिशाचत्वं पितृत्वं
पिण्डयोगतः इति ।

ப்ரேத சரீரத்தின் உத்பத்தி க்ரமம்

பத்து நாட்களில் செய்யப்படும் பிண்டதானத்தால் ப்ரேதனுக்கு சரீரமுண்டாகிறது. ருச்யச்ருங்கர் : - முதல் நாளில் கொடுக்கப்படும் பிண்டத்தால் ப்ரேதனுக்குத் தலை உண்டாகிறது. 2-ஆவது நாளில் கண், காது, மூக்கு இவைகளுண்டாகின்றன. 3-ஆவது நாளில் கைகள், மார்பு, கழுத்து இவைகளுண்டாகின்றன. 4-வது நாளில் தொப்புள், குதம், லிங்கம் இவைகள் உண்டாகின்றன. 5-ஆவது நாளில் துடைகள் உண்டாகின்றன. 6-ஆவது நாளில் தோல் உண்டாகிறது. 7-ஆவது நாளில் நரம்புகளைல்லாம் உண்டாகின்றன. 8-ஆவது நாளில் ரோமங்களைல்லாம் உண்டாகின்றன. 9-ஆவது நாளில் வீர்யமுண்டாகிறது. 10-ஆவது நாளில் பசி உண்டாகிறது. 10-ஆவது (நாள்) பிண்டத்தினால் ப்ரேதனுக்குத் த்ருப்தி உண்டாகிறது. பிறகு 10-ஆவது நாளில் பிண்டதானம் ஸமாப்தியை யடைகிறது. பிறகு ச்ராத்தம் செய்ய வேண்டும். 4-வர்ணங்களிலும் இதுவே விதி. ஏகோத்திஷ்டத்தால் பிசாசத்வமும், ஸபிண்மகரணத்தால் பித்ருதவமும் ஏற்படுகிறது.

पिण्डोदकदानानन्तरं बान्धवैराश्वासनं कार्यम् । तथा च
याज्ञवल्क्यः - कृतोदकान् समुत्तीर्णान् मृदुशाद्वलसंस्थितान् ।
स्नातानपबदेयुस्तानितिहासैः पुरातनैः इति । इतिहासस्तु तैनैव
दर्शितः - मानुष्ये कदलीस्तम्भनिः सारे सारमार्गणम् । करोति यः
स मूढो वै जलबुद्धुदसन्निभे । पञ्चधा संभृतः कायो यदि
पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना । गन्त्री
वसुमती नाशमुदीधिदैवतानि च । फेनप्रख्यः कर्थं नाशं मत्यलोको न
यास्यति इति । कात्यायनोऽपि - एवं कृतोदकान् सम्यक् सर्वान्
शाद्वलसंस्थितान् । आसृतान् पुनराचान्तान् बदेयुस्तेऽनुशायिनः ।
मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मिन् प्राणधर्मिणि । धर्मं कुरुत यत्नेन यो
वः सहकरिष्यति इति ।

त्रुक्कीतर्कलौत्त तेऱ्ऱुम् प्रकारम्

பின்டோதகதாநத்திற்குப் பிறகு, பந்துக்கள்,
ஆச்வாஸநம் (ஆறுதல்) செய்ய வேண்டும். அவ்விதமே,
யாஜ்ஞவல்க்யர் : - உதகதாநம் செய்த பிறகு, வெளியேறிய
வரும், மெதுவான புல்தரையிலிருப்பவரும், ஸ்நாநம்
செய்தவருமான அவர்களுக்கு, பந்துக்கள்,
ப்ராசீனங்களான இதிஹாஸங்களால் ஆச்வாஸனம் செய்ய
வேண்டும். இதிஹாஸமும் அவராலேயே
காண்பிக்கபட்டுள்ளது :- வாழை மரம் போல் உள்ளில்
ஸாரமற்றதும், நீர்க்குமிழிபோல் சீக்ரம் நசிப்பதுமான
மநுஷ்யத் தன்மையில் ஸாரத்தைத் (ஸ்திரத் தன்மையை)
தேடுகிறவனெனவானே அவன் மிக மூடன். (ஆகையால்)
ஸம்ஸார ஸ்வரூபமறிந்த நீங்கள் துக்கிக்க வேண்டாம்.
முன் ஜன்மத்திற் செய்த கர்மங்களால் ஜந்து பூதங்களின்
சேர்க்கையால் கர்ம பலத்தைப் அனுபவிப்பதற்காகச்
செய்யப்பட்ட சரீரம், கர்மபலத்தின் போகமான பிறகு,

ஜந்து பூதங்களாக ஆய்விட்டால், அது விஷயத்தில் உங்களுக்கு வருத்தமெதற்காக? பூமியும் நாசத்தை அடையப் போகிறது. ஸமுத்ரமும், தேவர்களும் நாசத்தை அடையப் போகின்றனர். நீரிலுள்ள நுரைபோல் அஸ்திரமான மனுஷ்ய சர்ரம் எப்படி நாசத்தை அடையாமலிருக்கும்? காத்யாயனரும் : - இவ்விதம் உதக தாநம் செய்து, மறுபடி ஸ்நாநம் செய்து, ஆசமநம் செய்து, புல்லுள்ள ப்ரதேசத்திலுட்கார்ந்துள்ள அவர்களைல்லோரையும், பந்துக்கள் இவ்விதம் ஆச்வாஸநம் செய்ய வேண்டும். ஸ்திரமல்லாத ப்ராணிகள் எல்லாவற்றிலும் துக்கம் காட்டாதீர்கள். எந்தத் தர்மம் உங்களுக்கு உபகாரம் செய்யக் கூடியதோ அதைமுயற்சியுடன் செய்யுங்கள்.

ராமாயணே�பி - ஸर்வ க்ஷயாந்தா: பதனாந்தா: ஸமுच்஛ா: | ஸஂயोगா விப்ரயोగாந்தா மரணாந்தா: ச ஜிவிதம् | யथா ஫லாந் பகாநா: நாந்யந் ப்தனாத்தயம् | ஏவ் நரஸ்ய ஜாதஸ்ய நாந்யந் மரணாத்தயம् | யதா�கார: டதஸ்஥ூந் ஜீர்ண் ஭ுத்வாத்வஸீடதி | ததாத்வஸீடந்தி நரா ஜராமுத்யுகஶா: ஗தா: | அஹோராஞி ஗ச்஛ந்தி ஸர்வௌந் ப்ராணிநாமிஹ | ஆயூஷி க்ஷபயந்த்யாशு ஗்ரீஸே ஜலமிவாஂஶா: | யதா காஷ் ச காஷ் ச ஸமேயாதா: மஹாஷி | ஸமேத் ச வ்யபேயாதா: க்ளாலமாஸாத் க்ளந | ஏவ் ஭ாயாஶி புத்ராஶி ஜாதயாஶி வஸுநி ச | ஸமேத் வ்யவ஧ாவந்தி ஧ுவோ ஷேஷா: விநாமங: இதி |

ராமாயணத்திலும் : - குவியல்களைலாம் சிதறலை முடிவிலுடையவைகளே, உயர்வுகளைலாம் வீழ்தலை முடிவிலுடையவைகளே. சேர்க்கைகளைலாம் பிரிவை முடிவிலுடையவைகளே. உயிரும் மரணத்தை முடிவிலுடையது. மரத்தில் பழுத்துள்ள பழங்களுக்கு விழுவதைத் தவிர்த்து வேவுரூன்றில் எவ்விதம் பயமில்லையோ, அவ்விதம், பிறந்த மனிதனுக்கு மரணத்தைவிட மற்றொருந்றில் பயமில்லை. த்ருடமான

तुण्णकौशियटेय वीटुम् कालवचत्तलं ज्ञैर्जन्माकि एप्पाटि
इटिन्तु पोकिऱ्ह तेऽ, अव्वितमें मनीतर्कगुम् किम्त
तन्मेम, मरज्जम् इवेवकगुक्कु वसर्कलाकि अप्पिकिन्नरन्नरं.
इव्वलकिलं चेन्ऱु केाण्णटिरुक्कुम् नाट्कास, एल्ला
प्रराणीकलीं आयुस्साकौशियम्, चिक्रमाय, केाटेक
कालत्तिलं सार्य किरण्णन्कास ज्ञलत्तेतक
कुरेहप्पतुपोलं कुरेहक्किन्नरन्. एव्वितम्, बेरीय
कटलिलं वेव्वेवेऱु इटत्तिलिरुन्तु वन्त इरण्णु
कट्टेकास तर्ह चेयलाय्च चेन्मो, चेर्न्तु
चिलकालमिरुन्तु, मरुपाटि पिरीन्तु वीटुमो, अव्वितमेम,
पार्यकेल, पुत्रर्कास, ज्ञात्तिकास, पन्नन्कास
इवेवकलेलाम् चिल कालम् चेर्न्तिरुन्तु पिरकु पिरीन्तु
पोकिन्नरन्. इवेवकलीं पिरीवु निच्चयमा
युलातेयलवा.

भारतेऽपि - जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धृवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहसि इति । शोके दोषोऽपि
याज्ञवल्क्येन दर्शितः - श्रेष्ठाश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुक्ते
यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः इति ।

पारतत्तिलुम् :- पिरन्तवनुक्कु इरप्पेपन्पतु
निच्चयमुलातेऽ. इरन्तवनुक्कुप् पिरप्पुम्
निच्चयमुलातेऽ. आकेयालं परिहारीक्कमुट्यात
विष्यत्तिलं नै तुक्कप्पतकं कूटातु. तुक्कप्पतुविलं
तेऽव्वमुन्नेटेन्किरुर्याज्ञावलक्यारः :- अमुकिन्नर
पन्तुक्कलालं विटप्पत्त केाम्म, कन्नन्नीर इवेवकला,
परात्तिन्नेन्न परेतन्न पुज्जिप्पोन्. आकेयालं अमुकं
कूटातु. मुयर्चियुटन्क्कियेकलाक्कं चेय्य वेण्णुम्.

आतुराश्वासनानन्तरकृत्यम्

आतुराश्वासनानन्तरकृत्यं तेनैबोक्तम् - इति संश्रुत्य
गच्छेयुग्महं बालपुरस्सराः । विदश्य निष्पत्राणि नियता द्वारि

வேற்மனः । ஆசம்யாத்யாடி ஸலில் ஗ோமய் ஗ௌரஸ்ரைபான् । ப்ரவிஶேயுः
ஸமாலம்ய கृत्वाऽश्मनि பदं ஶனैः இதி । அபரோ விஶேषः ஶஸ்திந
दर्शितः - दूर्वा प्रवालमग्नि वृषभं चालम्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं
दत्वा पश्चात् प्रविशேயुः இதி । ஸாஸ்திராயனः - யस्मिन् ஦ेशे பிராண
उत்க्रாந்தாஸ்தं ஗ோமயேநோபலிஷ்ய ஦ூர்வாஸ்தஷ்டாநுக்கமித்ரான् பிர்கீர்ய
ஸ்வஸ்தியஸ்து ச ஗ृहாணாஂ ஶேஷ ஶிவं சாஸ்திவதி ஫லं ஸமமிதூஶதி இதி ।
பைठீனஸிஃ - ஗ृஹं ஗त्वा ஸ்஥ிதா ஦्वारி ஸ்ரிரத்யश்மாமயான् ।
ப்ரவிஶேயுர्वீர்ஹ் ஸ்பृஷ்டா ஸ்விஶேயுः கடோபரி இதி ।

ஆச்வாஸநத்திற்குப் பிறகுள்ள கார்யம்

ஆதுராச்வாஸநத்திற்குப் பிறகுள்ள கார்யதையும்
சொல்லுகிறோர் யாஜ்ஞவல்க்யர் : - இவ்விதம் ஆச்வாஸந
வாக்யங்களைக் கேட்ட பிறகு, சிறுவர்களை முன்னிட்டுக்
கொண்டு வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். வீட்டின்
வாயிலில் சோகமில்லாதவர்களாய், வேப்பிலைகளைக்
கடித்துவிட்டு, ஆசமநம் செய்து, அக்னி முதலியதையும்,
ஜலத்தையும், பசுவின் சாணத்தையும், வெள்ளைக்
கடுகுகளையும் தொட்டுவிட்டு, கல்லின்மேல்
காலைவைத்து, மெதுவாய் வீட்டிற்குள்ளுழைய வேண்டும்.
வேறொரு விசேஷம் சங்கரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது : -
அறுகு, பவழம், அக்னி, காளை இவைகளை
ஸ்பரசித்துவிட்டு, வீட்டின் வாயிலில் ப்ரேதனுக்குப்
பிண்டத்தைக் கொடுத்து, பிறகு வீட்டினுள் நுழைய
வேண்டும். ஸாங்க்யாயனர் : - எந்த இடத்தில்
ப்ராணன்கள் பிரிந்தனவோ அந்த இடத்தைக்
கோமயத்தால் மெழுகி, அறுகுகளையும், ஜலத்துடன் கூடிய
அரிசிகளையும் இறைத்து 'ஸ்வஸ்த்யஸ்து + சாஸ்து'
(வீட்டிற்கு மங்களமுண்டாகட்டும். மற்றவர்
விஷயத்திலும் கேழமமுண்டாகட்டும்.) என்று சொல்லிப்
பழத்தைத் தொடவும். பைஷநாஸி : - வீட்டிற்குச் சென்று,
வாயிலில் நின்றவர்களாய், நெய், அக்னி, கல், கோமயம்

இவைகளைத் தொட்டு, வீட்டிற்குள் நுழையவும், பாயின் மேலுட்காரவும்.

एकोत्तरवृद्धिश्राद्ध नवश्राद्धानि ।

अथैकोत्तरवृद्धिश्राद्धं पूर्वोक्तं दद्यात् । यस्मिन् दिने यावन्त्युदकाञ्जलिदानानि, तावन्ति श्राद्धान्यामरूपेण प्रत्यहं देयानि । अथ सङ्कल्प्यामरूपेण सदक्षिणं नवश्राद्धमेकं दद्यात् । एवमेकादशाहाद्विषमेषु दिनेषु षट् नवश्राद्धानि दद्यात् । तदाहाङ्गिराः – प्रथमेऽहि तृतीयेऽहि पञ्चमे सप्तमे तथा । नवमैकादशो चैव षण्णवश्राद्धमुच्यते इति । वसिष्ठोऽपि – सप्तमेऽहि तृतीये च प्रथमे नवमे तथा । एकादशो पञ्चमे च नवश्राद्धानि षड्दिशोत् इति । यत्तु देवलवचनम् – तृतीये पञ्चमे वाऽपि सप्तमे नवमे तथा । अहन्येकादशो चैव नव श्राद्धानि पञ्च वै इति, तदा श्वलायनविषयम् । तथा च शिवस्वामी – नवश्राद्धानि पञ्चाहु राश्वलायनशाखिनः । आपस्तम्बाः षडित्याहुर्विभाषामैतरेयिणः इति । विभाषां - पञ्चषष्ठ्येति विकल्पम्, ऐतरेयिणः, आहुरित्यर्थः ।

ஏகோத்தர வ்ருத்தி ச்ராத்தங்களும்,

நவ ச்ராத்தங்களும்

பிறகு, ஏகோத்தர வ்ருத்தி ச்ராத்தத்தை முன் சொல்லியதைக் கொடுக்கவும். எந்தத் தினத்தில் எவ்வளவு உதகாஞ்ஜலிதாநங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளனவோ அவ்வளவு ச்ராத்தங்கள் ஆமரூபமாய் ஒவ்வொரு நாளிலும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். பிறகு ஸங்கல்பம் செய்து ஆமரூபமாய் தகழினையுடன் கூடிய நவச்ராத்தமொன்றைக் கொடுக்கவும். இவ்விதம் 11-ஆவது நாள்வரையில் ஒற்றைப்படை நாட்களில் 6-நவ ச்ராத்தங்களைக் கொடுக்கவும். அதைச் சொல்லுகிறோர். அங்கிரஸ் :- 1,3,5,7,9,11-ஆவது நாட்களில் நவ ச்ராத்தங்கள், மொத்தம்

6. வளிஷ்டரும் :- 7,3,1,9,11, 5-ஆவது நாட்களில் 6-நவ ச்ராத்தங்களைக் கொடுக்கவும். ஆனால் :- ‘3,5,7,9,11-ஆவது நாட்களில் நவ ச்ராத்தம், மொத்தம் 5’ என்று தேவலரின் வசனமுள்ளதே எனில், அது ஆச்வலாயநீயரைப் பற்றியது. அவ்விதமே, சிவஸ்வாமி :- ‘நவ ச்ராத்தங்கள் ஜந்து என்கின்றனர் ஆச்வலாயன சாகிகள். ஆபஸ்தம்பீயர்கள் 6-என்கின்றனர். ஜதரேய சாகிகள் விகல்பத்தைச் சொல்லுகின்றனர்’. ஜந்து அல்லது 6-நவ ச்ராத்தங்களைச் செய்யலாமென்கின்றனர்.

बोधायनः - मरणाद्विषमेषु दिनेष्वैकैं नवश्राद्धं
कुर्यादानवमाद्यत्र नवमं विच्छिद्येत एकादशोऽहि तत्कुर्यात् इति ।
श्रीधरीये तु - तृतीये पञ्चमे चैव नवमैकादशे तथा । यदत्र दीयते
जन्तोस्तन्त्रश्राद्धमुच्यते इति । भविष्यत्पुराणे - नव सप्त विशां
राजां नवश्राद्धान्यनुक्रमात् । आद्यन्तयोर्बण्योस्तु
षडित्याहुर्महर्षयः इति । कालादर्शे - आद्यादशाहान्मरणाद्विषमेषु
दिनेषु षट् । नवश्राद्धान्यनुतिष्ठेदेकोद्दिष्टविधानतः । केचित् पञ्चैव
नवमं भवेदन्तरितं यदि । एकादशोऽहि तत्कुर्यादिति स्मृतिविदो
विदुः । दैवादन्तरितं पूर्वमुत्तरेण सहाचरेत् इति ।

போதாயனர் :- மரண திநம் முதல் ஒற்றைப்படை நாட்களில் ஒவ்வொரு நவச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். 9-ஆவது நாள் வரையில். ஒன்பதாவது நாளில் ச்ராத்தம் செய்யப்படாவிடில் அதை 11-ஆவது நாளில் செய்யவும். பூஞ்சீயத்தில் :- 3,5,9,11-ஆவது தினங்களில், ப்ரேதனுக்குக் கொடுக்கப்படும் ச்ராத்தமெதுவோ, அது நவச்ராத்தமெனப்படுகிறது. பவிஷ்யத் புராணத்தில் :- வைச்யர்களுக்கும், கஷத்ரியர்களுக்கும் முறையே 9-7, நவ ச்ராத்தங்கள். ப்ராஹ்மணர்களுக்கும் சூத்ரர்களுக்கும் 6-நவ ச்ராத்தங்களென்கின்றனர் மஹர்ஷிகள். காலாதாசத்தில் :- மரண தினம் முதல் 12-ஆவது நாள் வரையில் ஒற்றைப்படை நாட்களில் 6-நவ ச்ராத்தங்களை

एकोत्तिष्ठत वित्तियायस्च चेष्यवुम्. ओलर् ज्ञन्तुता नेनं किंनृनार्. ७- आवतु नालील चेष्यप्पटाविष्टिल अतः ११- आवतु नालील चेष्यवुमेन्ऱु सम्मरुतिये यन्त्रिन्तवर्कलं चेऽल्लुकिंनृनार्. तेव वस्तुता ल नीन्ऱुपोन नवस्त्रात्तत्तत्त अद्यत्त नवस्त्रात्तत्तुतान्स चेऽत्तुष्टचेष्य वेण्णुम्.

एवं च क्षत्रियाणां नवश्राद्धानि सप्त, वैश्यानां नव, विप्राणां शूद्राणां च पट्, तत्राप्याश्वलायनीयानां बोधायनीयानां च पञ्च, आपस्तम्बिनां पट्, ऐतरेयिणां पञ्च षड्वेति विकल्पः, इतरेषां सर्वेषां चत्वारि पञ्च षड्वेति व्यवस्था । अत्रान्तराये कण्वः - नवश्राद्धे मासिके च यद्यदन्तरितं भवेत् । तत्तदुत्तरसात्म्यादनुष्टेयं प्रचक्षते । नवश्राद्धमन्त्रं तु पिण्डोदकविवर्जितम् इति । स्मृत्यन्तरे तु - नवश्राद्धं तु यत्रोक्तं दिने स्याच्च कृतं यदि । एकादशोऽहि तत् कुर्यात् तत्र कालं न चिन्तयेत् इति ।

ऐवं वित्तमिरुप्पतालं, कृष्णर्गीयर्कण्ककु
नवस्त्रात्तन्तकलं ७, वैवस्त्रात्तकलं ९, प्ररावर्मणार्
कण्ककुम् कुत्तर्गीयर्कण्ककुम् ६. अवर्कलीलुम्,
आस्वलायनीयर्कण्ककुम्, पोतायनीयर्कण्ककुम् ज्ञन्तु.
आपस्तम्पीयर्कण्ककुम् ६, ज्ञतरेयीकण्ककुम् ५ अल्लतु ६
एन्ऱु विकल्पम्, मर्हवरेल्लोरुक्कुम् ४, ५, अल्लतु ६,
एन्ऱु नीर्णयम्. इवेवकलील वीक्णाम् नेन्तर्ताल,
कण्वारः :- नव स्त्रात्तम्, मालीकम् इवेवकलील, एतेततु
चेष्यप्पटामल निन्ऱुविट्टतेऽत अततः, अद्यत्त
स्त्रात्तत्तुतान्स औरे तन्तरमाय अनुष्टिक्क
वेण्णुमेनास चेऽल्लुकिंनृनार्. नव स्त्रात्तत्तत्त अत
मन्तरमिल्लामलुम् पिण्ठाम उतक मिल्लामलुम् चेष्य
वेण्णुम्. मर्हलेग्गुरु सम्मरुतियिलो :- विहृतमान
तिन्तत्तिल नवस्त्रात्तम् चेष्यप्पटाविष्टिल अतः
११- आवतु नालील चेष्यवुम्. अन्तत तिन्तत्तिल
कालतेऽत तेऽतस्च चिन्तिक्क वेण्ठाम्.

அக்ஷண்டாதீர்ச்சத்திலும் - ந திரிந் ச நக்ஷ்தின் ந யிரோ ந ச சந்஦்ரமா : |
குயாடிவ நவஶாக்ஷ ப்ராஸமேகாடஶோஹனி இதி | நவஶாக்ஷ
வஜ்யநக்ஷ்திராண்யாஹ வசிஷ்ட : - விஶாகா ரோஹிணி யாம்ய
பௌண்யாடித்யோத்ரான்யம் | அஷ்டை வஜ்யா நவஶாக்ஷ புனர்மரணா யத :
இதி | ராங : - நந்஦ாயா ஭ார்஗வதினே சுதுர்஦்ஶ்யாஂ திஜந்மஸு | யதி
குர்யாநிவஶாக்ஷ குலக்ஷ்யகர் ஭வேத் இதி | ஸுபோஷே ச - ஸுதிஜந்மஸு
நந்஦ாயா சுதுர்஦்ஶ்யாஂ ஭ூதாநிவஶாக்ஷ கர்தா யமபுர் விஜேத்
இதி |

அகண்டாதீர்ச்சத்திலும் :- திதி, நக்ஷத்ரம், க்ரஹம்,
சந்த்ரன் இவர்களைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டாம். 11-ஆவது
நாளில் ப்ராப்தமான நவச்ராத்தத்தைச் செய்யவே
வேண்டும். நவச்ராத்தத்தில் வர்ஜி க்க வேண்டிய
நக்ஷத்ரங்களைச் சொல்லுகிறோம். வளிஷ்டர் - விசாகா,
ரோஹிணீ, பரணீ, ரேவதி, புனர்வஸ்ய, உத்தரபல்குனீ,
உத்தராஷாடா, உத்தர ப்ரோஷ்டபதா என்ற எட்டு
நக்ஷத்ரங்களையும் நவ ச்ராத்தத்தில் வர்ஜி க்கவும்.
அவைகளில் செய்தால் மறுபடி பந்துமரணமேற்படும்.
கார்கார் :- நந்தாதிதி (ப்ரதமா, ஷஷ்டி, ஏகாதசி,)
வெள்ளிக்கிழமை, சதுர்த்தி, ஐஞ்மாநுஜன்ம த்ரிஜன்ம
நக்ஷத்ரங்கள், இவைகளில் நவச்ராத்தம் செய்தால் அது
குலக்ஷ்யகரமாகும். **ஸஸ்போதுத்திலும் :-** தனது த்ரிஜன்ம
நக்ஷத்ரங்களிலும், நந்தா திதியிலும், சதுர்த்தி யிலும்,
சுக்ரவாரத்திலும் நவ ச்ராத்தத்தைச் செய்தால், கர்த்தா
ம்ருதியை அடைவான்.

஗ார்யஶ - ஶௌக்ரே ச ஬ுधவாரே ச முரோ : ஸோமஸ்ய வாரயோ : | எதேஷு
குர்வத : ஶாக்ஷ கர்த்துமரணமாடிஶேத் | ஜந்மக்ஷ்திப்ரதக்ஷேஷு நந்஦ாயா
भूगुवாஸரே | ஧ாதிபௌண்யமயோ : ஶாக்ஷ ந கர்த்யாஂ குலக்ஷ்யாத் | ப்ரத்யர் வ஧
நக்ஷ்தின் கர்த்துஸ்து விபद் ததா | சந்஦ாஷ்டம் ச ஶாஂஸந்தி ஜந்மாடிநி
விவர்ஜயேத் இத்யாடி ஸ்வ மாதாபிதுவ்யதிரிக்கவிஷயம், காலாதி-

क्रमविषयं वा, परोक्षे सूक्ष्मतः पश्येत् प्रत्यक्षे तु न किञ्चन । वैधे कर्मणि तु प्राप्ते कालदोषं न चिन्तयेत् इति स्मरणात् । अत्रायं क्रमः - दाहान्ते स्नात्वा केशानुस्वा आसुत्य गृहं समेत्य नग्नप्रच्छादनं दत्त्वा निमज्ज्य उदकं तीरकुण्डे प्रदाय उदकुम्भमाहृत्य गृहद्वारकुण्डे वा स उदकपिण्डबलीन् प्रदाय स्नात्वा गृहं समेत्य निष्पत्रं विदद्य अश्मादि स्पृष्टवा एकोत्तरवृद्धिश्राद्धं नवश्राद्धं च दद्यादिति ।

कार्कंयग्रुमः :- सक्त्रवारम्, पुत्रवारम्, गुरुवारम्, लेंगवारम् इवेवकौलिं नवं स्त्रात्तमं चेयत्तालं कर्त्तत्तावुक्कु मरणमेन्प्राम्. ऐन्म नक्षत्रम्, त्रिपत नक्षत्रम्, नन्ता, सक्त्रवारम्, रोहिणी, रेवती इवेवकौलिं नवस्त्रात्तमं कूटातु, चेयवतु गुलक्ष्यकरमाम्; प्रत्यरम्, वतम्, विपत, सन्त्राष्टमम् इवेवकौला स्त्राकिंकिन्नरनार; ऐन्मानुज्ञान्म त्रिज्ञान्म नक्षत्रम् कौलाम् माता पितृकौलात् तविर्त्ततु मन्त्रवर्ष विषयत्तेतप्प पर्त्रियवै. अल्लतु काल मत्तिक्रमित्तुस चेय्युम् विषयत्तेतप्प पर्त्रियवै. “परोक्षं मंगुति विषयत्तिलं स्त्राकौलम् मायकं कवनीक्क वेण्णुम्. प्रत्यक्षं विषयत्तिलं ऐन्नरायुम् कवनीक्क वेण्णियतिलै. विति विल्लितमरणकर्मम् प्रराप्तमानुलं कालत्रोष्टत्तेतस चिन्तिक्क वेण्णताम्” ऐन्ऱु स्त्रमंगुतियिरुप्पत्ताल. इन्के, चेय्य वेण्णियक्रममितु :- “तत्त्वनम् मुष्टिन्त पिरकु स्त्रानम् चेयतु, वपनम् चेयतु केाण्णु, स्त्रानम् चेयतु, करुलृत्तिरकु वन्तु, नक्कन प्रस्त्रकात्तन स्त्रात्तत्तेतक केाउत्तु, स्त्रानम् चेयतु, नत्तिरु कुण्णत्तिल उत्तक तानम् चेयतु, ज्वल कुम्पत्तेत एउत्तुक केाण्णु, करुलृ त्वारकुण्णत्तिल वालेंगतक पिण्णत पविप्रतानम् चेयतु, स्त्रानम् चेयतु, वीट्टिरकु वन्तु, वेप्पिलैयक कथित्तु, कलं मुतवियतेत त्रोट्टु एकोत्तर व्यरुत्ति स्त्रात्तमं नवं स्त्रात्तमं इवेवकौलक केाउक्क वेण्णुम्” ऐन्ऱु.

ଆଶୌଚିନିୟମ: -

ଆଶୌଚିନାଂ ନିୟମୋ ମନୁନା ଦର୍ଶିତଃ: - ଅକ୍ଷାରଲବଣ୍ଣାବ୍ରା:
 ସ୍ୟୁନ୍ନିମଜ୍ଜେୟୁଶ୍ଚ ତେଽନ୍ଵହମ୍ । ମାଂସାଶନଂ ଚ ନାଶନୀୟୁ: ଶାୟୀରଂଶ୍ଚ ପୃଥକ୍
 କିତୌ ଇତି । ମାର୍କଣ୍ଡେୟ: - କ୍ରିତଲବ୍ଧାଶନାଶୈବ ଭବେୟୁ:
 ସୁସମାହିତା: । ନ ଚୈବ ମାସମିନୀୟୁବ୍ରଜେୟୁଶ୍ଚ ନ ଯୋଷିତମ୍ ଇତି ।
 ଗୌତମୋଡ଼ପି - ଅଧ: ଶାୟ୍ୟାସନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ: ସର୍ବେ ସମାସୀରନ୍ମାଂସଂ ନ
 ଭକ୍ଷ୍ୟେୟୁରାପ୍ରଦାନାବମେ ବାସସାଂ ତ୍ୟାଗୋଽନ୍ତ୍ୟେ ତ୍ୱନ୍ତ୍ୟାନାମ୍ ଇତି ।
 ମାଧ୍ୟୀଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତମ୍ - ପ୍ରଦାନମିହକୋହିଷ୍ଟାଙ୍କ, ବାସସାଂ ତ୍ୟାଗସ୍ତୁ
 ପ୍ରକାଳନାର୍ଥ ରଜକାର୍ପଣମ୍, ଅନ୍ତ୍ୟ - ଦଶମମହ:, ତତ୍ର ଅନ୍ତ୍ୟାନାଂ -
 ଅତ୍ୟନ୍ତପରିତ୍ୟାଜ୍ୟାନାଂ ବାସସାଂ ତ୍ୟାଗ: ଇତି ।

ଆୟୋଜନିକାଳିଙ୍କ ନିୟମମ

86. ଆୟୋଜନିକାଳିଙ୍କ ନିୟମମ ମନୁଵାଳ୍
 ଶୋଳପପଟ୍ଟିଲାଲୁତୁ : - “ଆୟୋଜନିକାଳି ଉପପ
 ଉନ୍ନାପପିଲାଲାମଳ ପୁଜୀପପବରାୟିରୁକ୍କ ବେଣ୍ଣନୁମ. ପରତ
 ତିନାମ ନତି ମୁତଳିଯତିଲି ମୁମୁକ୍ଷ ବେଣ୍ଣନୁମ. ମାମ୍ବୁତତ୍ତ୍ଵପ
 ପୁଜୀକକକ କୁଟାତୁ. ପ୍ରୁମିଯିଲି ତଣିମେଯାୟପ ପାକକ
 ବେଣ୍ଣନୁମ” ଏଣ୍଱ରୁ. (କ୍ଷାରାଲବଣାମ - କୁରୁତରିମଲବଣାମ,
 (ଏଣ୍଱ରୁ ମୁଳାଲୁତୁ) (ଚେଯନ୍ତକ ଉପପ). ମାର୍କକଣ୍ଠେୟାର : -
 ‘ଆୟୋଜନିକାଳି, ବିଲୀ କୋଟୁତ୍ତ ବାଙ୍କପପଟ୍ଟ, ଅଲ୍ଲତୁ
 ପିନ୍ଧରାଳ କୋଟୁକକପପଟ୍ଟିକ କିଟାତତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତତ୍ଵପ
 ପୁଜୀପପବରକାଳୀଯମ, ମିକବୁମ ନିୟମମୁଳାଲବରକାଳୀଯମ
 ଇରୁକ୍କ ବେଣ୍ଣନୁମ. ମାମ୍ବୁତତ୍ତ୍ଵପ ପୁଜୀକକକ କୁଟାତୁ.
 ଲେତରିଯେଚ ଚେରକ କୁଟାତୁ. କେଳାତମନୁମ : -
 ‘ଆୟୋଜନିକାଳିଲେଲୋରୁମ ପ୍ରୁମିଯିଲେଯେ ପାକକ
 ବେଣ୍ଣନୁମ. ଉଟକାର ବେଣ୍ଣନୁମ. ପରହମଚର୍ଯ୍ୟ
 ମୁଟେଯବରାୟିରୁକ୍କ ବେଣ୍ଣନୁମ. ଏକୋତ୍ତିଷ୍ଠଟମ
 ବରେଯିଲ. 9-ଆବତୁ ନାଲିଲ ଵେଳାନ୍ତରଙ୍କକାଳୀ ତ୍ୟଜିକବୁମ.
 10-ଆବତୁ ନାଲିଲ ଅନ୍ତରଙ୍କ ଵେଳାନ୍ତରଙ୍କକାଳୀ ତ୍ୟାକମ
 ଏଣ୍଱ର. ମାତ୍ରବୀୟତ୍ତିଲି ଇତର୍କୁ ବ୍ୟାକକ୍ୟାନମ -

‘ஆப்ரதாநாத் - என்ற பதத்தில் ப்ரதாநமென்பது ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம். 9-ஆவது நாளில் வஸ்தர த்யாகமென்பது, சுத்தி செய்வதற்காக வண்ணைளிடம் கொடுப்பது என்பது. 10ஆவது நாளில் அந்த்யவஸ்தரங்களை விடுவதென்பது மிகவும் ஜீரணமான வஸ்தரங்களைத் தள்ளுவதென்பதாம்’ என்று.

तथा च बृहस्पतिः - नवमे वाससां त्यागो नखरोम्णां
 तथाऽन्तिमे इति । देवलोऽपि - दशमेऽहनि सम्प्राप्ते स्थातुं
 ग्रामाद्विर्वजत् । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशाद्मश्रुनखानि च
 इति । याज्ञवल्क्यः - क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक् पृथक् ।
 पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम् इति । मरीचिः - प्रथमेऽहि
 तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत् प्रेतेषु
 दुर्लभम् इति ।

பிருஹஸ்பதி :- 9-ஆவது நாளில் வஸ்தரங்களைத் தள்ளவும். கடைசி தினத்தில் நகங்களையும் ரோமங்களையும் நீக்கவும். தேவலரும் :- 10-ஆவது நாள் வந்தவுடன் ஸ்நாநத்திற்கு க்ராமத்திற்கு வெளியில் செல்லவும். அவ்விடத்தில் வஸ்தரங்கள், கேசங்கள், மீசை, நகங்கள் இவைகளையும் விலக்கவும். யாஜ்ஞவல்க்யர் :- ஆசௌசிகள், விலைக்கு வாங்கிய அல்லது யாசிக்காமல் கிடைத்த அன்னத்தைப் புஜிக்க வேண்டும். பூமியில் தனித் தனியாய்ப் படுக்க வேண்டும். மூன்று நாட்களிலும், ப்ரராசிநாவீதமாய் ப்ரேதனுக்கு அன்னத்தைக் கொடுக்கவும். மார்சி: :- 1, 3, 7, 9, -ஆவது நாட்களில் ஜ்ஞாதிகளோடு சேர்ந்து புஜிக்கவும். இது ஆசௌசங்களில் அரிதாகும்.

विष्णुपुराणे – दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजर्षम् ।
दिनानि दश चेच्छातः कर्तव्यं ज्ञातिभोजनम् । प्रेतस्तृप्तिं तथा याति
बन्धुवर्गेण भुज्जता इति । अङ्गिरा: – नाशनीयुस्तद्विः(ने)वा सर्व
औरसाद्याः सपिण्डकाः । दशारात्रं भवन्त्येते लवणक्षार वर्जिताः ॥

தைதாங்கூலஹிநாஶ ஹேகமுக்தா ஜிதேந்தியா: இதி । வசிஷ்டஶ - ஗ுஹாத் பிரவிஜித்வா அघப்ரஸ்தரே த்யஹமனஶ்வந்த ஆஸீரந் க்ரிதேநோத்பநேன வா வர்தேரந் இதி । அघப்ரஸ்தர: - ஆஶௌசிநாஂ ஶயநாஸநார்஥் குத்ஸ்துணமய: கட: । உத்பந் - அயாचிதலஷ்வம் । ஆஶ்வலாயநேதி - நைதஸ்யாஂ ராத்யாமநாஂ பசேரந் க்ரிதேநோபலஷ்வேன வா வர்தேரந் திராத்மக்ஷாரலஷ்வானின: ஸ்யுர்஦்வாராத்ராஂ வா மஹாగுருஷு இதி ।

விஷ்ணு புராணத்தில் :- பகவில் மாம்ஸமில்லாத அன்னத்தைப் புஜிக்க வேண்டும். 10-நாட்களிலும் இஷ்டப்படி ஜ்ஞாதிகளைப் புஜிப்பிக்க வேண்டும். அப்படிப் பந்துக்கள் புஜிப்பதால் ப்ரேதன் த்ருப்தியை அடைகிறுன். அங்கிரஸ் :- புத்ரன் முதலிய ஜ்ஞாதிகளைல்லோரும், ம்ருதி தினத்தில் போஜநம் செய்யக் கூடாது. இவர்கள், பத்து நாட்களிலும் உப்பு, உறைப்பு, தைலம், தாம்பிலம் இவைகளைத் தள்ள வேண்டும். ஒரு வேளை புஜிப்பவர்களாயும், ப்ரஹ்மசர்ய மூளைவர்களாயும் இருக்க வேண்டும். வளிஷ்டரும் :- விட்டினின்றும் வெளியில்வந்து, அகப்ரஸ்தரத்தில் மூன்று நாள் வரையில் புஜிக்காதவர்களாய் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும். விலைக்கு வாங்கியதையாவது, யாசிக்காமல் கிடைத்ததையாவது புஜிக்க வேண்டும். அகப்ரஸ்தரம் - ஆசெளசிகள் படுப்பதற்கும் உட்காருவதற்கும் புல்லால் செய்யப்பட்ட பாய் என்பதாம். ஆச்வலாயநரும் :- ம்ருதி தினத்தின் ராத்ரியிலும் சமைக்கக் கூடாது. விலைக்கு வாங்கியதையாவது, யாசிக்காமல் கிடைத்ததையாவது புஜிக்கவும். மூன்று நாட்களிலும், உப்பு, உறைப்பு இல்லாமல் புஜிக்க வேண்டும். மஹா குருக்கள் விஷயத்தில் 12-நாள் வரையில் நியமத்துடனிருக்கலாம்.

ஆபஸ்தம: - அநஶநாந்஧யயநா஧: ஶய்யோட்கோப- ஸ்பர்நாந்யாகாலிகாந்யநூதாநேஷு ச ஛்யங் த்யஹ் ஷத்தீ ஛ாதஶாஹ் வா(மஹ) ஗ுருஷ்வநஶநவர்ஜ் ஸ்வந்த்ஸர் மாதரி பிதர்யாசார் இத்யேகே

अनशनानध्ययनवर्ज, यावज्जीवं प्रेतपद्युदकोपस्पर्शनमेक-
भुक्तमधः शश्यां ब्रह्मचर्यं क्षारलबणमधुमांसवर्जनं च इति ।
बोधायनश्च - संवत्सरं मातरि पितर्याचार्यं इति त्रिरात्रमक्षार
लबणान्भोजनमधः शश्यं ब्रह्मचर्यं त्र्यहं षडहं द्वादशाहं वा
संवत्सरं गुरुष्वेषमधोदकमितरेषु त्रिरात्रं यावज्जीवं प्रेतपद्मीति ।

आपस्तुम्पर :- उपवासम्, अनृत्ययनम् (वेतात्ययनम् चेय्यामविरुद्धत्वल), पूमियिल् प्रातुर्त्तवल्, संनानम् चेय्तत्वल् इवेवकौला आकालिकमाय (मरणमटेन्त कालम् मृत्तवल् मरुनाओं अनृतकं कालम् वरायिल्) अनुष्टुक्कवुम्. 7-तैलमुरैरकुट्पट्ट लोन्क वेतात्ययनम् चेय्तवर्गं विषयत्तिलुम् 2-3, 6-12 नाओं वरायिल् अनुष्टुक्कवलाम्. कुरुक्कौलं विषयत्तिल् औरु वर्षम् वरायिल् माता, पिता, आचार्यान् इवर्कौलं विषयत्तिल् उपवासम्, अनृत्ययनम् तविर्त्ततु मर्त्र नियमंकौला औरु वर्षम् अनुष्टुक्कवुमेन्कौलं नारी चिलर्. इरन्तवनीन् पत्तनै (वितवेव) उयिरुओंवरायिल् संनानम्, औरुवेला पञ्चित्तवल्, पूमियिल् प्रातुर्त्तवल्, प्ररूप्मसर्यम्, उप्पु, उरैरप्पु, तेण, माम्सम् इवेवकौला वर्जीत्तवल् एन्ऱ नियमंकौला अनुष्टुक्कवेण्टुम्. पोतायणरुम् :- माता, पिता, आचार्यान् एन्ऱ इवर्कौलं विषयत्तिल् औरु वर्षम् वरायिल्. मून्ऱनाओं उप्पु, उरैरप्पु इल्लात अन्नतत्त्वतप्प उज्जीत्तवल्, पूमियिल् प्रातुर्त्तवल्, प्ररूप्मसर्यम् इवेवकौला, अनुष्टुक्कवुम्. 3-नाओं, 6-नाओं, 12-नाट्कौलावतु अनुष्टुक्कवुम्. कुरुक्कौलं विषयत्तिल् औरु वर्षम् वरायिल्. इववितम् तर्प्पणमुम्. मर्त्रवर्गं विषयत्तिल् मून्ऱ नाओं. मंगुतनीन् पत्तनै उयिरुओंवरायिल् नियमंकौला अनुष्टुक्कवुम्.

अस्थिसञ्चयनक्रमः

अथास्थिसञ्चयनम् । तत्र पारस्करः - चतुर्थोऽहनि विप्रस्य
षष्ठे वै क्षत्रियस्य तु । अष्टमे दशमे चास्थिसञ्चयः शूद्रवैद्ययोः इति ।

श्रीधरीये तु - चतुर्थे पञ्चमे चैव नवमैकादशो तथा । अस्थिसञ्चयनं कार्यं वर्णनामनुपूर्वशः इति । स्मृत्यन्तरेऽपि - चतुर्थे पञ्चमे चैव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसञ्चयनं कार्यमित्येवं विष्णुरब्रवीत् इति । सङ्ग्रहैऽपि - चतुर्थे सञ्चयः कार्यो ब्राह्मणस्याथ पञ्चमे । राज्ञो वैश्यस्य सप्ताहे शूद्रस्य नवमे दिने इति ।

அல்தி ஸஞ்சயந் க்ரமம்

இனி அல்தி ஸஞ்சயநம் சொல்லய்யுகிறது..அதில், பாரஸ்கரர் : - பிராம்ஹணங்க்கு 4-வது நாளிலும், குத்ரியங்க்கு 6-வது நாளிலும், குத்ரங்க்கு 8-ஆவது நாளிலும், வைச்யங்கு 10-ஆவது நாளிலும் அல்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட வேண்டும். சீதீர்யத்தில் :- 4,5,9,11-ஆவது தினங்களில் க்ரமமாய் நான்கு வர்ணத்தார்களுக்கும் அல்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றுள்ளது. ஒரு ஸ்ம்ருதியில் : 4,5,7, 9-ஆவது தினங்களில் அல்தி ஸஞ்சயநம் செய்ய வேண்டுமென்றார் விஷ்ணு. ஸங்க்ரஹத்திலும் : - 4-ஆவது தினத்தில், ப்ராஹ்மணங்க்கும் 5-ஆவது தினத்தில் குத்ரியங்க்கும், 7-ஆவது தினத்தில் வைச்யங்கும், 9-ஆவது தினத்தில் குத்ரங்க்கும் அல்தி ஸஞ்சயநம்.

विष्णुरपि - चतुर्थे दिवसेऽस्थिसञ्चयनं कुर्युस्तेषां गङ्गांभसि प्रक्षेपः इति । स्मृतिरत्नेऽपि - एकाहमुपवासः स्यादङ्गीयुर्लब्धमेव वा । गत्वाऽरण्ये चतुर्थेऽहि पूर्वाह्लै त्वस्थिसञ्चयः इति । स्मृत्यन्तरे - दिवैव तर्पणं कुर्यात्तापराह्लेऽस्थिसञ्चयः । न रात्रौ न च सन्ध्यायां तस्मात् पूर्वाह्लै एव सः इति । सङ्ग्रहे - चतुर्थेऽहनि विप्राणा मस्थिसञ्चयनं मतम् । पूर्वाह्लैः शुभदः प्रोक्तो मध्याह्लो मध्यमः स्मृतः । अपराह्लं च रात्रिं च वर्जयेदस्थिसञ्चये इति । अन्यत्रापि - वर्णशौचं त्रिधा कृत्वा प्रथमे सञ्चयः स्मृतः । द्वितीयभागे विप्राणां सञ्चयो मध्यमः स्मृतः । तृतीयभागे हीनं स्यादस्थिसञ्चयनं तथा

इति । श्रीधरीये – अस्थिसञ्चयनं कार्यं पूर्वाङ्के तु शुभावहम् । मध्याह्ने
मध्यमं प्रोक्तं मपराले विनाशनम् इति ।

विष्णुवुम् :- 4-वतु नालीलं अस्ति लग्नंचयनमं
सेय्यवुम्. अस्ति कौन्काज्ञलत्तिलं प्रोट वेण्णुम्.
संमरुति रत्तनत्तिलुम् :- ओरुनालं मुमुवतु
मुपवालमिरुक्कवुम्. याचिक्कामलं किटेतत्ततेयावतु
साप्पिटवुम्. 4-आवतु नालीलं काट्टिऱ्ऱुक्कुचिस्त्रु पकविळं
मुन्पाकत्तिलं अस्ति लग्नंचयनत्ततेचिसेय्य वेण्णुम्.
मर्तिरुरु संमरुत्तियिलं :- तर्प्पनेततेपं पकविलेये
सेय्य वेण्णुम्. अपराह्नंनेतत्तिलं अस्ति लग्नंचयनमं
कूटातु, रात्तरीयिलुम् कूटातु, लन्त्यययिलुम् कूटातु.
आकेयालं मुर्त्पकविलेये अतु चेय्यप्पत वेण्णुम्.
लग्नकरहत्तिलं :- 4-आवतु नालीलं प्रराह्नमन्नरक्कुक्कु
अस्ति लग्नंचयनमं वित्तिकप्पट्टतु. मुर्त्पकलं
सुपकरमेमनप्पट्टतु. मत्याह्ननमं मत्यममेमनपं
पट्टतु. पिऱ्पकलैयुम्, रात्तरीययुम् लग्नंचयनत्तिलं
विलक्कवुम्. मर्तिरुरु संमरुत्तियिलुम् :- वर्णान्करुक्कुक्कु
सेवलंप्पट्ट आसेलाक कालत्तते मुन्नरु पाकमाक्कि,
मुतलं पाकत्तिलं लग्नंचयनमं वित्तिकप्पट्टुलातु.
2-आवतु पाकत्तिलं प्रराह्नमन्नरक्कुक्कु चेय्यवतु
मत्यममं. 3-आवतु पाकत्तिलं चेय्यवतु अतममाकुम्.
सर्वत्तोयत्तिलं :- अस्ति लग्नंचयनमं पूर्ववाह्ननेतत्तिलं
चेय्यप्पत वेण्णुम्. अतु सुपकरमाकुम्.
मत्याह्ननेतत्तिलं मत्यममाकुम्. अपराह्ननेतत्तिलं
नासकरमाकुम्.

विष्णुपुराणे – चतुर्थैऽहनि कर्तव्यं भस्मास्थिचयनं नृप इति ।
आपस्तम्बः – अपरेद्युस्तृतीयस्यां पञ्चम्यां सप्तम्यां वाऽस्थीनि
सञ्चिन्नन्ति इति । अपरेद्युः – परस्मिन् दिवस इत्यर्थः ।
तृतीयस्यामित्यादि चानन्तरोक्तद्वितीयदिवसापेक्षया वेदितव्यम्,
नत्याद्यदिवसापेक्षया । अत एव भाष्यकारेण तृतीयस्यामित्यादिषु

வ்யුष்டாயாமித்யध்யாஹரः கृதः । தथா ஬ोधாயனः – ஸ்சயனமேகஸ்யா
வ்யුष்டாயா திஸூஷ வா பञ்சஸு வா ஸஸஸு வா இதி ।

விஷ்ணு புராணத்தில் : - ஓ அரசனே ! ஸஞ்சயநத்தை
4-ஆவது நாளில் செய்ய வேண்டும். ஆபஸ்தம்பர் :-
“மறுநாளில், அல்லது மூன்றாவது நாளில், ஜந்தாவது
நாளில், ஏழாவது நாளில் ஸஞ்சயநம் செய்ய வேண்டும்”.
‘அபரேத்யு’ என்ற பதத்திற்கு மறுநாளில் என்று பொருள்.
மூன்றாவது நாளில் என்பது முதலியவைக்கு, மூன்
சொல்லப்பட்ட 2-ஆவது நாளிலிருந்து என்று அறியவும்.
முதல் நாளிலிருந்து என்பது இல்லை. ஆகையாலேயே
பாஷ்யகாரர் ‘த்ருதியஸ்யாம்’ என்பவைகளில்
‘வ்யஞ்டாயாம்’ என்று சேர்த்துள்ளார். அதாவது 3-ஆவது
ராத்ரி விடிந்தபிறகு, அதாவது 4-ஆவது நாளில் என்பது
பொருள். இதுபோலவே பஞ்சம்யாம், ஸப்தம்யாம்
என்பவைகளிலுமென்றறியவும். போதாயனர் :- முதல்
ராத்ரி விடிந்த பிறகு, அல்லது 3,5,7 ராத்ரிகள் சென்ற பிறகு
ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட வேண்டும்.

एवं बहुस्मृतिविहितत्वात् ब्राह्मणस्य चतुर्थेऽहन्येव
अस्थिसंचयो युक्तः । कथञ्चित्तदसंभवे कात्यायनः –
अपरेद्युस्तृतीये वा चतुर्थे पञ्चमेऽपि वा । अस्थिसंचयनं कुर्यादिने
तद्वोत्रजैः सह इति । आश्वलायनः – चतुर्थे पञ्चमे वाऽस्थिसंचयः
सप्तमेऽहि वा इति । सञ्च्रहे – अस्थिसंचयनं युग्मे दिने
प्राङ्मनमाञ्चवेत् । केचिद्विषम एवात्र व्युष्टे तत्रेत्यनुकृतिः इति ।

இவ்விதம் அநேக ஸ்ம்ருதிகளால்
விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் 4-ஆவது நாளிலேயே ஸஞ்சயநம்
செய்வது யுக்தம். எவ்விதத்தாலும் அன்று
செய்யமுடியாவிடில், காத்யாயனர் :- மறுநாளில்,
அல்லது 3,4,5 ஆவது நாளில் ஜஞ்ஞாதிகஞ்ஞன்
ஸஞ்சயநத்தைச் செய்யவும். ஆச்வலாயனர் : 4, அல்லது
5,7-ஆவது தினத்தில் ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட வேண்டும்.

लंकंकरवृहत्तीलः :- इरटटेपपटे नालील ७-आवतु नाञ्जक्कुलं चेय्यप्पट वेण्णुम्. चिलर और नैरैप्पटे नालीलं ता नेऩं किंनैनर. उल्तरत्तीलं 'व्युष्टायाम्' एन्ऱु चेल्लात्तालं.

व्यासः - बुधसोमौ शुभौ ज्येष्ठौ मध्यमौ गुरुभार्गवौ । अकारिमन्दा निन्द्याः स्युः प्रशस्तं विषमेऽहनि । द्वितीयश्च चतुर्थश्च शुभदौ युग्मवासरौ । प्रशस्ततिथिवाराणां नक्षत्राणामसम्भवे । अस्थिसञ्चयनं कार्यं द्विजवाक्यानुशासनात् । यस्मिन् कस्मिन् दिने वाऽपि नैवाशौचं विलङ्घयेत् । आशौचादूर्ध्वभावी चेत् पुनर्दहनमाचरेत् इति । स्मृत्यन्तरेऽपि - अस्थिसञ्चयनं कर्म दशाहादूर्ध्वभावि चेत् । अस्थीनि पुनराहृत्य दाहयेद्याज्ञिकैः पुनः । पिण्डोदकं नवश्राद्धं पुनः कुर्याद्यथाविधि इति ।

व्यासालः :- पुतवारम्, लोमवारम् इव व सपकरण्कलेन्नरीयवम्. कुरुवारमुम्, पर्गुकुवारमुम् मत्यमन्कलं. रविवारम्, मन्कलवारम्, चनिवारम् इवकलं अतमन्कलं. और नैरैप्पटे नालीलं चेय्यवतु चलाक्यम्. २-आवतु, ४ आवतु नाटकलं सपकरण्कलं. चलाक्यमाणं तिति, वारम्, नक्षत्रम् इवकलं किटेक्काविष्टिलं, प्रराह्ममन्नरकलीनं अनुज्ञान्यिण्णलं लंकंसयन्तत्तेत्तचं चेय्यवम्. एन्तत्त तिनत्तिलावतु चेय्यवम्. आचेलासत्तत्तेत्त ताण्णटकं कृटातु. आचेलास कालत्तिर्कु मेलाण्णलं मरुपटि तहूनत्तत्तेत्तचं चेय्य वेण्णुम्. मन्त्रिग्रुरु लंमंरुतीयिलुम् :- अस्ति लंकंसयन्म १०-नालैक्कु मेलं चेय्य नेरन्तरालं अस्ति कलं एकुत्तु याकारवृ काष्टनंकलालं पुनर्तहूनम् चेय्यवम्. उत्तक पिण्णट नवश्रात्तनंकलै वित्तिप्पटि मरुपटि चेय्यवम्.

एतत् पुनर्दहविधानं द्वादशाहसपिण्डीकरणाभिप्रायम् । द्वादशाहव्यतिरिक्तकालान्तरसापिण्डये तु दशाहादूर्ध्वमपि सपिण्डीकरणात् प्राक् शुभदिने संचयः कार्यः, सपिण्डीकरणात्

பூர்வஸ்஥ிஸंचயன் ஭வेत् இதி ஸ்மரணात् । தथा சாஶ்லாயனः -
ஸंசயனமூர்஧் ஦शம्यா: கृष्णपक्षस्यायुजास्वेकनक्षत्रे இதி ।
बोधायनोऽपि - एकस्यां व्युष्टायां तिसूषु पञ्चसु सप्तसु नवसु
वैकादशसु वा युग्मा रात्रीर्धमासान् मासानृतून् संवत्सरं वा
संपाद्यास्थि सञ्चिनुयुः इति ।

இவ்விதம் புநர்தஹநத்தை விதித்தது, 12-ஆவது
நாளில் ஸபின்மகரணம் செய்யும் விஷயத்தைப் பற்றியது.
12-ஆவது நாளைத் தவிர்த்த வேறு காலத்தில் ஸாபின்ட்யம்
செய்யும் விஷயத்திலோவெனில், 10-ஆவது தினத்திற்குப்
பிறகும், ஸபின்மகரணத்திற்கு முன் சுபதிநத்தில்
ஸஞ்சயநத்தைச் செய்யவும், “ஸபின்மகரணத்திற்கு முன்
அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட வேண்டும்” என்று
ஸ்மர்த்தியிருப்பதால். ஆச்வலாயனர் :- 10-ஆவது
நாளுக்குமேல், கருஷன பகுத்தின் ஒற்றைப்படைத்
திதியில் ஏக நக்ஷத்ரத்தில் ஸஞ்சயநம். பூரம், உத்திரம்,
பூராடம், உத்திராடம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி,
இவைகளைத் தவிர்த்த நக்ஷத்ரங்கள் ஏகநக்ஷத்ரங்க
ளெனப்படுகின்றன. போதாயனரும் :- முதல் ராத்ரி விடிந்த
பிறகு, 3,5,7,9, 11-ஆவது ராத்ரி விடிந்த பிறகாவது,
இரட்டைப்படை நாட்கள் 15-நாட்கள், மாதம், ருது,
வர்ஷம் இவைகளுக்குப்பிறகாவது அஸ்தி ஸஞ்சயநம்
செய்யவும்.

गृह्यपरिशिष्टे - அस்஥ிஸंचயன் ஸंவत்ஸராந்தே சேத்
ஸாபிண்஡்சமூர்஧் ஦शம்யா யுமாஸு தி஥ிஷ்வபி வா ஢ாடஶாஹே ஸாபிண்஡்ச
சேதந்தர்஦ஶாஹே சதுர்ஷிஷ்டாஸ்தம஦ஶமாஹேகனக்ஷத்ரே இதி । அத்
஦ாஹாடி஦ிநஸஸ்த்யானமாஹிதாஸ்தே: , அந்யேஷாஂ மரணாடி ஦ாஹாடி வா ।
தथா ஬்ராஹ்புராணे - அனாஹிதாஸ்தேமரணாடாஹிதாஸ்தேஸ்து ஦ாஹத: ।
அஸ்஥ிஸंசயன் குர்த் ஸ்வஶாலோக்வி஧ானத: இதி । தथா அனாதிமத
உத்காந்தே: ஸாஸ்தே: ஸ்வஶாலோக்வி஧ானத: । ஶுஷ்டி: ஸஞ்சயன் ஦ாஹாந்தூதாஹஸ்து
யथாதிதி இதி ।

க்ருஹ்ய பரிசிஷ்டத்தில் :- வர்ஷாந்தத்தில் ஸாபின்ட்யம் செய்வதானால் 10-ஆவது நாளுக்கு மேல் இரட்டைப்படைத் திதிகளில் ஸஞ்சயந்ததைச் செய்யவும்.

12-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யம் செய்வதானால் 10-நாட்களுள் 4, 6, 8, 10-ஆவது நாட்களுள் ஏக நகஷத்ரத்தில் ஸஞ்சயந்ததைச் செய்யவும். இவ்விஷயத்தில், தஹநதிநம் முதல் கணக்கு ஆஹிதாக்னி விஷயத்தில் மற்றவர்களுக்கு மரண திநம் முதல், அல்லது தஹந திநம் முதல். அவ்விதம் ப்ரராஹ்ம புராணத்தில் :- அநாஹிதாக்னிக்கு மரண திநம் முதல் கணக்கு, ஆஹிதாக்னிக்கோவெனில் தஹந திநம் முதல் கணக்கு. அஸ்தி ஸஞ்சயந்ததை அவரவர் சாகையில் சொல்லிய விதிப்படி செய்யவும். அவ்விதமே, அநாஹிதாக்னிக்கு மரணம் முதலாகவும், ஆஹிதாக்னிக்கு ஸம்ஸ்கார திநம் முதலாகவும் கணக்கிட்டு ஆசௌச நிவருத்தி. தஹநதிநம் முதல் கணக்கிட்டு ஸஞ்சயநம். ச்ராத்த திநமோவெனில் மரித்த திதியே.

ஸ்மृத்யந்தரே - அனங்ரேமரணாத् ஸாங்ரேராஶௌசம் ஦ாஹதः பரம् । தயोः ஸஂசயனं ஦ாஹாத् ஸृதாஹஸ்து தி஥ிஃ ஸ்மृதா இதி । அஸ்஥ி஦ாஹே பிரதிகृதி஦ாஹே வா ஸத்யः ஸञ்சயः கார்யः, சதுர்஥ேஹனி விப்ராணா மஸ்஥ிஸञ்சயனं ஭வेत् । அஸ்஥ாஂ பிரதிகृதேஹே ஸத்யः ஸञ்சய இப்பதே । யदा பலாஶாவலகா஧ைः கृத्वा பிரதிகृதिं ஦ஹே । ஭ஸ்மாஸ்஥ிவத् ஸञ்சிநுயாத् ஸத்யோ மந்திராந् ஜபேந்து வா' இதி ஸமரணாத् । விஷ்ணுः :- பலாஶாஶரீரங் ஦ா஧்வா ஸமூஹாம்஭ஸி நிக்ஷிபேத் இதி । ஸத்ய எவ மந்திரம் கृத்வா ஭ஸ்மோஷ்ட்யாம்஭ஸி க்ஷிபேத் இத்யர்஥ः ।

மற்றெருநூல்ஸ்மர்த்தியில் :- அநாஹிதாக்னி விஷயத்தில் மரண திநம் முதற் கொண்டும், ஆஹிதாக்னி விஷயத்தில் தஹந திநம் முதற் கொண்டும் ஆசௌச திநக் கணக்கு. அவ்விருவருக்கும் தஹந திநம் முதற் கொண்டே கணக்கிட்டு ஸஞ்சயநம். மரண திதியே ச்ராத்த திதியெனப்பட்டது. அஸ்தி தஹநம் செய்தாலும், ப்ரதி

க்ருதி தஹநம் செய்தாலும், உடனேயே ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட வேண்டும். “4-ஆவது நாளில் ப்ராஹ்மணர்களுக்கு அஸ்தி ஸஞ்சயநம் விஹிதம். அஸ்தி தாஹத்திலும், ப்ரதி க்ருதி தாஹத்திலும் அன்றே ஸஞ்சயநம் விதிக்கப்படுகிறது. பலாசவல்க்கம் (புரசம்பட்டை) முதலியவைகளால்ப்ரதிக்ருதி செய்து தஹநம் செய்தால், சாம்பலை அஸ்தியைப் போல் பாவித்து ஸஞ்சயநம் செய்யவும் அல்லது ஸஞ்சயந மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவும்” என்று ஸ்மருதியிருப்பதால், விஷ்ணு:- “பலாசபர்ண ப்ரதிக்ருதி தாஹம் செய்தால், அந்தச் சாம்பலைச் சேர்த்தெடுத்து ஜலத்தில் போடவும்.” உடனேயே மந்த்ரஜபம் செய்துசாம்பலை எடுத்து ஜலத்தில் போடவேண்டுமென்பது பொருள்.

புனः ஸ்ஸ்காரவிஷயவிஶேஷ ஸ்சயனனிஷே஧ உக்தः ஸ்மृத்யந்தரே – அதிதேஷ்வர து ஸ்ஸ்காரே ஏகாஹாத् பிண்஡ம்பீத् । ஶாஷ்வ ஦ி஘ாத்திரியேஷ்வர தூதியேஷ்வர ஸபிண்டனம् । நாஸ்திஸஸ்யனந் குர்யாந் ச சம்பாதிரோஹணம् । புத்ராகாராத்து து கர்த்து புனः ஸ்ஸ்காரக்ர்மணி இதி । அத்ராகாராத்து தூதியேஷ்வர தூதியேஷ்வர தூதியேஷ்வர அஷ்வாத் பரதः புனः ஸ்ஸ்காரே ஸதி ஸ்சயனமந்த்ரஜபோஷபி ந கார்ய இதி ஗ம்யதே । ஸ்மृத்யந்தரே – த்ரிவர்ஷாதி ஦க்ஷேநமேகார்சா வித஬ந்஧நாத् । பஞ்சமாத்யஸ்திசயனந் ஶாஷ்வ குர்யாந்து தூதியேஷ்வர தூதியேஷ்வர அஷ்வாத் பரதः பூர்வ நாஸ்திஸஸ்சயனமித்யर्थः ।

புநஸ்ஸம்ஸ்காரத்திலும் ஒரு விஷயத்தில் ஸஞ்சயந நிஷே஧ம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஸ்மருதியில்:- “ஒரு வர்ஷம் அதிக்ரமித்த பிறகு ஸம்ஸ்காரம் செய்தால் முதல் நாளில் பிண்டதாநம் செய்யவும். 2-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும். 3-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். அஸ்தி ஸஞ்சயநமில்லை. சர்மாதி ரோஹணமுழில்லை. ஆனால், புத்ரன் முதலிய கர்த்தா செய்யவேண்டும் புநஸ்ஸம்ஸ்காரத்தில்” என்று.

இதில் உள்ள ஆதி சப்தத்தால் தெளவுறித்ரன் முதலியவர்கள் சொல்லப்பட்டுகின்றனர்.. அவர்களைத் தவிர்த்த ஸம்ஸ்கர்த்தாவின் விஷயத்தில் ஒரு வர்ஷத்திற்குப் பிறகு புநஸ்ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில், ஸஞ்சயந மந்த்ரஜூபங்கூடச் செய்யப்பட வேண்டியதில்லை என்று அறியப்படுகிறது. (சர்மாதி ரோஹணமென்பது, 10-ஆவது நாளில் சாந்தி ஹோமகாலத்தில் தோவின் மேல் உட்காருவது). மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:- ப்ரேதனை, 3-ஆவது வயது முதல் உபநயநம் வரையில், ஏகர்ச்ச விதியால் தலுக்கவும். 5-ஆவது வயது முதல் அஸ்தி ஸஞ்சயநத்தைச் செய்யவும். 4-ஆவது நாளில் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். 5-ஆவது வயதிற்குமுன் அஸ்தி ஸஞ்சயநமில்லையென்பது பொருள்.

गर्गः — अन्तर्दशाहे सम्प्रासे दर्शे पिण्डान् समापयेत् । अस्थिसंचयनं चैव दशाति पूर्वं समाचरेत् । प्रथमेऽहि द्वितीयेऽहि यदि दर्शस्तदैव हि । अस्थिसंचयनं कुर्यादित्येषा वैष्णवी स्मृतिः इति । दर्शयित्वा सङ्कान्तेरप्युपलक्षणम् । अत्र शादिदूषणे स्मृत्यन्तरम् — श्वसूकरसृगालाद्यैर्ग्रामसूकरकुक्टैः । शावास्थिभ-स्मदेहानां स्पर्शनं चेत् प्रमादतः । गच्छैः प्रक्षाल्य कृच्छ्राणां त्रितयं च समाचरेत् इति । अन्यत्र तु — श्वभिर्गर्दभचण्डालैः शावास्थि स्पृश्यते यदि । पञ्चपञ्चचतुः पञ्चकृच्छ्राणां त्रितयं चरेत् इति । पञ्च पञ्चेति पञ्चविंशतिः, चतुः पञ्चेति विंशतिः, पञ्चविंशतिं विंशतिं त्रीन् प्राजापत्यादिकृच्छ्रान् शादिस्पर्शे यथाक्रममाचरेदित्यर्थः । अन्याशौचिस्पर्शे कृच्छ्रतयम्, ‘अस्थनामाशौचिनां स्पर्शे कृच्छ्राणां त्रितयं चरेत् इति स्मरणात् ।

कार्कारः- பக்து நாட்களுள் தர்சம் வந்தால் பிண்டங்களை ஸமாப்தி செய்யவேண்டும். ஸஞ்சயநத்தையும் தர்சத்திற்கு முன்பே செய்யவேண்டும். முதல் நாளிலோ, 2 ஆவது நாளிலோ தர்சம் வந்தால், அப்பொழுதே அஸ்தி ஸஞ்சயநத்தைச் செய்யவேண்டும், என்பது விஷ்ணு

ஸ்ம்ருதி. தர்ச்சமென்றது ஸங்க்ரமணத்திற்கு முபலகஷணம். இதில், நாய் முதலியதால் அசுத்தி ஏற்படும் விஷயத்தில், ஒரு ஸ்ம்ருதி:- “நாய், பன்றி, நரி முதலியவைகளாலும், ஊர்ப்பன்றி, கோழி இவைகளாலும், சவம், அஸ்தி, சாம்பல், தேஹம் இவைகளுக்குக் கவனமில்லாததால் ஸ்பர்சமேற்பட்டால், பஞ்சகவ்யங்களால் அலம்பி, 3 க்ருச்ரங்களையுமனுஷ்டிக்கவும். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:- நாய், கழுதை, சண்டாளன் இவர்களால் சவாஸ்தி ஸ்பர்சசிக்கப்பட்டால், முறையே 25, 20, 3 க்ருச்ரங்களை அனுஷ்டிக்கவும். வேறு ஆசௌசமுள்ளவன் ஸ்பர்சித்தால் 3-க்ருச்ரங்களை அனுஷ்டிக்கவும். ‘ஆசௌசிகள் அஸ்திகளை ஸ்பர்சித்தால் 3-க்ருச்ரங்களைச் செய்யவும்’ என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது.

அस்஥ிநிக்ஷேபப்ரகார:

खननप्रकारमाह बोधायनः – पुरुषसंभितं गजसंभितं वा गर्त्
खात्वा तस्मिन्नस्थिकुम्भमवधाय पुनरभ्यर्च्य मृत्तिकादिभिः
प्रच्छादयेत्तद्यावद्वस्ति तावत् स्वर्गे महीयते इति । कात्यायनः –
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्भृत्यास्थीनि भस्मतः । आज्येनाभ्यज्य
गव्येन सेचयेद्वन्धवारिणा । मृत्पात्रसंपुटे कृत्वा वस्त्रेण परिवेष्ट्य
वा । देशे तु कुशादर्माढ्ये निखनेदक्षिणामुखः इति । वैखानसे –
चिताया दक्षिणे पार्श्वे जानुदण्णं खात्वा गर्ते कुम्भं निदध्यात् इति ।
स्मृत्यन्तरे च – प्रेतस्यास्थीनि संचित्य कुम्भे तानि निधाय च ।
घृतेन गन्धतोयैश्च सिक्त्वा कुम्भं निधापयेत् इति ।

அஸ்தி நிகேஷப் ப்ரகாரம்

அஸ்தியை வைப்பதற்காகக் குழியைக்கெல்லும்
ப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறோம். போதாயனர்:-
மனிதனளவுள்ளதாய், அல்லது யானை அளவுள்ளதாய்,
குழியைப் பறித்து, அதில் அஸ்திகளுள்ள குடத்தை
வைத்து, மறுபடி பூஜித்து, மன் முதலியவைகளால்

मरेहक्क वेण्णुम्. अतु एवंवॊवु का॒लम् वरे॒यि॒ल्
कु॒म्हि॒यि॒ल् इ॒रु॒क्कि॒न्न॒तो॒ अ॒वं॒वॊवु का॒लम् वरे॒यि॒ल्,
मं॒रु॒तन्न॒ स्व॒वर्क्क॒त्ति॒ल् चिरप्प॒ अ॒ट॒कि॒रु॒न्.
का॒त्याय॒नोः- व॒न्नी, पु॒रु, इ॒वै॒कौ॒नि॒ कौ॒लै॒कौ॒ला॒ल
शा॒म्पै॒वै॒नि॒रु॒म् अ॒स्ति॒कौ॒नु॒त्तु, पै॒कौ॒नि॒ नै॒य॒तै॒वि॒,
वा॒लै॒न्य॒ौल॒ ज॒ल॒त्ता॒ल॒ नै॒नै॒क॒क॒वु॒म्. मै॒न्पै॒त॒र॒त्ति॒रु॒क॒न॒
वै॒वै॒त्तु॒ मू॒षि॒, अ॒ल॒ल॒ वै॒स्त॒र॒त्ति॒ल॒ वै॒वै॒त्तु॒क॒क॒रु॒रु॒
कु॒सं॒क॒नु॒म्, त॒र्प॒प॒न्क॒नु॒म् नै॒र॒ह॒न्त॒ इ॒ट॒त्ति॒ल॒ ते॒र॒क॒
नै॒ो॒क॒य॒व॒ग्न॒य॒प॒ पै॒त॒क॒क॒ वै॒ण्णु॒म्. वै॒क॒ा॒नै॒त्ति॒क॒॒ः-
पै॒रे॒त॒नि॒ अ॒स्ति॒कौ॒नु॒त्तु अ॒वै॒कौ॒क॒ कु॒ट॒त्ति॒ल॒
वै॒वै॒त्तु, नै॒य॒या॒ल॒म्, वा॒लै॒न्य॒ौल॒ ज॒ल॒नै॒कौ॒ल॒म्
नै॒नै॒त्तु॒क॒ कु॒म्हि॒यि॒ल॒ वै॒वै॒क॒ वै॒ण्णु॒म्.

ब्राह्मे - अस्थीन्यादाय कुम्भे तु स्थाप्य गर्ते विनिक्षिपेत् ।
आविकाजिनवस्त्रैर्वा क्षौमैः कौशोयपट्टैः । कुशरज्वा दृढं बध्वा
गङ्गाम्भसि विनिक्षिपेत् । अघर्षणसूक्तं च यावन्मज्जति तज्जपेत् ।
यावदस्थि मनुष्याणां गङ्गातोयेषु तिष्ठति । तावद्वर्षसहस्राणि
स्वर्गलोके महीयते इति । पाद्मे च - अस्थनां कृत्वाऽथ संशुद्धिं
केशवादैश्च नामभिः । पञ्चगव्येषु निक्षिप्य गन्धादैः सम्प्रपूजयेत् ।
द्विजानुज्ञामवाप्यैव गङ्गायां सुसमाहितः । सङ्कल्प्य प्रयतस्तस्य
चोच्चरन् गोत्रनामनी । अघर्षणसूक्तेन धमायैव नमोऽस्त्विति ।
विसर्जयैत्ततोऽस्थीनि यावदस्थीनि तज्जपेत् इति ।

प्रराम्भैत्ति॒ल॒ः- अ॒स्ति॒कौ॒नु॒त्तु, कु॒ट॒त्ति॒ल॒
वै॒वै॒त्तु, कु॒म्हि॒यि॒ल॒ वै॒वै॒क॒वै॒ण्णु॒म्. अ॒ल॒ल॒ क॑म्पै॒
मा॒न्नै॒तो॒ल॒, वै॒स्त॒र॒म्, ना॒र्म॒षि॒, प॒ट॒उ॒ इ॒वै॒क॒नु॒ौ
ऽन्न॒री॒ल॒ वै॒वै॒त्तु, कु॒सं॒क॒य॒रु॒रु॒न॒ल॒ नै॒नै॒रु॒य॒क॒ट॒षि॒,
क॑न्का॒ज॒ल॒त्ति॒ल॒ पै॒पो॒ट॒वु॒म्. अतु मु॒मु॒कु॒म् वरे॒यि॒ल॒
अ॒कम॒र्षि॒न्न॒ ल॒म॒क॒त्त॒त्त॒त्त॒ ज॒पी॒क॒वु॒म्. मै॒न्नै॒ष्य॒नि॒ अ॒स्ति॒
ए॒वं॒वॊवु का॒लम् वरे॒यि॒ल॒
क॑न्का॒ज॒ल॒त्ति॒ल॒ वि॒रु॒क॒क॒न्न॒तो॒ अ॒वं॒वॊवु पै॒ल॒ा॒यि॒रु॒म्
वर॒ष्ण॒क॒न्न॒ वरे॒यि॒ल॒ पै॒रे॒त॒न्न॒ स्व॒वर्क्क॒ल॒ो॒क॒त्ति॒ल॒

சிறப்புறுகிறுன். பாத்மத்திலும்:- பிறகு, அஸ்திகளுக்குச் சுத்தியைச் செய்து, கேசவாதி நாமங்களால், பஞ்சகவ்யங்களில் போட்டு, சந்தநம் முதலியவைகளால் நன்கு பூஜிக்கவும். ப்ராம்ஹணர்களின் அனுஜ்ஞானைய அடைந்து கவனமுடையவனும், சுத்தனும், ஸங்கல்பம் செய்து, ப்ரேதனின் கோத்ரநாமங்களைச் சொல்லி, அகமர்ஷன் ஸாக்தத்துடன், 'தர்மாயநமோஸ்து' என்று சொல்லி, கங்கையில் அஸ்திகளை விடவேண்டும். அஸ்திகள் முழுகும் வரையில் முன்சொல்லியதை ஜபிக்கவும்.

**ब्रह्मपुराणे – अस्थीनि मातापितृमातुलादेदशाश्वेषे तु नरो
नभस्ये । कृष्णाष्टम्यां पञ्चगव्यैर्निषिद्ध्य हिरण्य
मध्वाज्यतिलैर्विकीर्य ॥ पुण्ये तु मृत्पिण्डपुटे निधाय नमोऽस्तु
धर्मय इति ब्रुवंश्च । क्षिपेज्जले पितृतीर्थेन भक्त्या स्नात्वाऽथ सूर्य
प्रयतः प्रपश्येत् । यथाशक्त्या दक्षिणां चाथ दत्वा पितृन् सर्वान्
ब्रह्मलोकं नयेत् सः इति । मात्स्ये – गृहीत्वाऽस्थीनि गङ्गायां
निक्षिपेन्द्रुवि वा क्षिपेत् । तीर्थान्तरे कुरुक्षेत्रे देशे वा सकुशे शृचौ
इति । योगयाज्ञवल्क्यः - गङ्गायां यमुनायां वा कावेर्या वा
शुद्धुद्रुतौ । सरस्वत्यां विशेषण हस्थीनि विसृजेत् सुतः इति ।**

ப்ரம்ஹ புராணத்தில்:- மனிதன், மாதா, பிதா, மாதுலன் முதலியவர்களின் அஸ்திகளை, தசாக்வமேத கட்டத்தில், பாத்ரபதமாஸத்தில், க்ருஷ்ண பக்ஷாஷ்டமியில் பஞ்சகவ்யங்களால் நன்றாக, பொன், தேன், நெய், என் இவைகளை அஸ்திகளின் மேல்போட்டு, சுத்தமான மண்பாத்ரத்தில் வைத்து, 'நமோஸ்து தர்மாய்' என்று சொல்லி, பக்தியுடன் பித்ருதீர்த்ததால் ஜலத்தில் சேர்க்க வேண்டும். பிறகு, முழுகி, சுத்தனும் ஸார்யனைப் பார்க்கவும். யதாசக்தி தகவினையைக் கொடுத்தால், பித்ருக்களைல்லோரையும் ப்ரம்ஹலோகத்தை அடையச் செய்வான். மாத்ஸ்யத்தில்:- அஸ்திகளை க்ரஹித்துக்

कन्ककेयीलं पोटवुम्. अल्लतु पूमियीलं वैवक्कवुम्. वेवृ पुन्य केष्ठरत्तिलावतु, गुरुकेष्ठरत्तिलावतु, गुचन्कगुटनं कृष्टय सत्त प्रतेष्ठत्तिलावतु वैवक्कवुम्. योक्याञ्जुवल्क्यरः- कन्ककेयीलावतु, यमैनयीलावतु, का॒वेरीयीलावतु, सतुत्तरुत्तियीलावतु, शरस्वतीयीलावतु अस्त्रिकौलापूत्रनं वीट वेण्णुम्.

ब्रह्मकैवर्ते – कावेरीतीरवासी च तत्र दग्धो मृतोऽपि वा ।
कृतान्तुः सञ्चितास्थिरा धूतपापा दिवं व्रजेत् इति । शाण्डिल्यः –
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्या च पुष्करे । अस्थीनि विसृजेद्यस्य स
मृतो मुक्तिमान्तुयात् इति ।

प्ररम्पराकैवर्तुत्तिलः- का॒वेरी त्रीरत्तिलं वलीत्तवनुम्, अतिलं तहरीक्कप्पत्तवनुम्, अतिलं इरन्तवनुम्, का॒वेरीयीलं तर्प्पणम् चेय्यप्पत्तवनुम्, पापन्कौलात् तेलैलत्तु लवर्कक्तत्तेत अटेवाण्. **शाण्डिल्यरः-** त्वारवत्तियीलावतु, लेतुवीलावतु, कोतावरीयीलावतु, पुष्करत्तिलावतु, एवनुत्तय अस्त्रिकौला वीटुकिंरुणे अन्त प्रेरेतनं मोक्षत्तेत अटेवाण्.

सङ्ग्रहे – खिया अनाहिताग्रेश कुम्भान्तस्थोऽस्थिसंचयः ।
निवापान्तो हविर्यज्ञायाजिनः सोमयाजिनः । पुनर्दाहावधिलोष्ट-
चितिरग्निचितः पुनः । निवापो न पुनर्दहि लोष्टचित्यां न चोभयम् ।
केचिन्निवापभिच्छन्ति ह्युभयत्राविरोधतः इति । अयमर्थः –
अनाहिताग्रेताहिताग्न्यनाहिताग्निपत्नीनां च पलाशमूले वा कुम्भं
निधाय इत्येवमन्तमेव कर्तव्यम्, कष्टादि तु तदञ्जत्वात् क्रियत
एव । हविर्यज्ञायाजिनो निवपनान्तम्, सोमयाजिनः पुनर्दहनान्तं
कर्तव्यम्, महाग्निचितः काठकाग्निचितश्च लोष्टचयनान्तमिति ।

ஸங்கரஹுத்தில்:- ஸ்தர்க்கும், அநாஹிதாக்னிக்கும், குடத்தைப் பூமியில் புதைப்பது வரையுள்ளது ஸஞ்சயநம். ஹவிர்யஜ்ஞாஜிக்கு நிவபநம் வரையிலுள்ளது. ஸோமயாகம் செய்தவனுக்குப் புநர்தஹநம் வரையுள்ளது. சயநம் செய்தவனுக்கு லோஷ்டசிதி வரையிலுள்ளது. புநர்தஹநம் செய்யும் விஷயத்தில் நிவபநம் கிடையாது. லோஷ்டசிதி செய்யும் விஷயத்தில் நிவபநம் புநர்தாஹம் என்ற இரண்டுமில்லை. சிலர் இரண்டு விஷயங்களிலும் நிவபநம் செய்யலாம். விரோதமில்லாததால் என்கின்றனர். இதில் இவ்விதம் அர்த்தம்:- “அநாஹிதாக்னிக்கும், ஆஹிதாக்னி, அநாஹிதாக்னி இவர்களின் பத்நிகளுக்கும் ‘பலாச வ்ருக்ஷத்தின் அடியிலாவது அஸ்திகும்பத்தை வைத்து’ என்று சொல்லப்பட்டுள்ளவை வரையில் தான் செய்யவேண்டும். ‘கர்ஷா’ முதலியதை அதற்கு அங்கமாகியதால் செய்யவேண்டும். ஹவிர்யஜ்ஞாஜிக்கு நிவபநம் வரையில் செய்யவேண்டும். மஹாக்னி சயநம் செய்தவனுக்கும், காடகாக்னிசயநம் செய்தவனுக்கும் லோஷ்டசயநம் வரையில் செய்யவேண்டும்” என்று.

அஸ்஥ிஸञ்சயனே வாராடி஦ோஷः ।

அஸ்஥ிஸञ்சயனே வாரநக்ஷத்ரனிஷே஧ோ யமேந ஦र்ஶிதः -
भौमार्कमन्दवारेषु तिथियुग्मेषु वर्जयेत् । वर्जयेदेकपादक्षे
द्विपादक्षेऽस्थिसञ्चयम् । प्रदातृजन्मनक्षत्रे त्रिपादक्षे विशेषतः इति ।
स्मृतिरत्ने - நந்஦ாயாம் ஭ாగவீக்கே ச சதுர்஦்ராயாம் திஜன்மஸு । ஬ார்ஹஸ்பத்யே
தथாऽக्षेषே புष்யே ஹஸ்தே ததை ச । நாஸ்஥ிஸञ்சயனं குர्यात् குலக்ஷயகரं
हि तत् । फलगुनी द्वयमाषाढ़द्वयं प्रोष्टपदद्वयम् । षड्भ्योऽन्यत्र तु
नक्षत्रे ह्यस्थिसञ्चयनं भवेत् इति ।

அஸ்திலங்கயநத்தில் வாராதிதோஷம்

அஸ்திசஞ்சயந்ததில், வாரம், நகூத்ரம் இவைகளின் நிஷேஷம், யமஞல் சொல்லப்பட்டுள்ளது:- அங்காரகன், ஸுர்யன், சனி இவர்களின் வாரங்களிலும், இரட்டைப் படைத் திதிகளிலும், ஒரு பாத நகூத்ரம், 2-பாத நகூத்ரம், கர்த்தாவின் ஜன்மநகூத்ரம், 3-பாத நகூத்ரம் இவைகளிலும் ஸஞ்சயந்ததை தவிர்க்கவும். ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:- நந்தாதிதியிலும், சுக்ரவாரத்திலும், பானுவாரத்திலும், சதுர்தசியிலும், ஜன்மாநுஜன்மத்ரிஜன்மங்களிலும், குருவாரத்திலும், ஆசலேஷம், புஷ்யம், ஹஸ்தம் இவைகளிலும் ஸஞ்சயநம் செய்யக்கூடாது. செய்தால், அது குலகூயகரமாகும். பூரம், உத்திரம், பூராடம், உத்திராடம், பூரட்டாதி, உத்திரரட்டாதி என்ற 6-நகூத்ரங்களைத் தவிர்த்த நகூத்ரத்தில் ஸஞ்சயநம் செய்யப்படவேண்டும்.

गार्यः - भद्रे त्रिपदनक्षत्रे भूवज्ञारबृहस्पतौ । दहनं मरणं
 चास्थिचयनं त्रिगुणं भवेत् इति । स्मृत्यन्तरेऽपि -
 गुरुशुक्रारशन्यके नन्दायां च त्रिजन्मसु । उत्तराहस्तचित्रासु पुष्ये
 नैवास्थिसंचयः इति । श्रीधरीये - अस्थिसंचयनं कार्यं
 जन्मत्रयविवर्जितम् । पूर्णायां च विशेषेण नन्दायां च विवर्जयेत्
 इति । प्रतिपत् षष्ठ्येकादश्यो नन्दाः । आत्रेये - कालेऽल्पदोषे
 कुर्वीत त्याज्यं दोषाधिकेऽशुभम् इति । श्रीधरीयेऽपि - दिवसा
 गुणदोषाभ्यां संपृक्ता हि परस्परम् । केवलं गुणयोगो हि देवानामपि
 दुर्लभः इति ।

கார்க்யார்:- பத்ரதிதியிலும், 3-பாதநக்ஷத்ரத்திலும், சுக்ரவாரம், அங்காரகவாரம், குருவாரம் இவைகளிலும் மரணமானாலும், தஹ்நமானாலும், ஸஞ்சயநமானாலும், அது 3-மடங்காகும். (கூடாதென்பது பொருள்) ஓர் ஸ்மருதியிலும்:- குரு, சுக்ரன், செவ்வாய், சனி, ரவி

இவர்களின் வாரத்திலும், நந்தாதிதியிலும், தரிஜன்ம நகஷத்ரங்களிலும், 3-உத்திரங்கள், ஹஸ்தம், சித்ரை, புஷ்யம் இவைகளிலும் ஸஞ்சயநம் கூடாது. சர்தூரியத்தில்:- தரிஜன்மங்களில் ஸஞ்சயநம் கூடாது. பூர்ண திதிகளிலும் (பஞ்சமீ, தசமீ, பூர்ணிமா, தர்சம்) நந்தாதிதியிலும் ஸஞ்சயநம் கூடாது. ப்ரதமா, ஷஷ்மீ, ஏகாதசி இவை நந்தைகள். ஆத்ரேயத்தில்:- ஸ்வல்ப தோஷமுள்ள காலத்தில் செய்யவும். அதிக தோஷமுள்ள காலத்தில் அசுபத்தைச் செய்யக்கூடாது. சர்தூரியத்திலும்:- தினங்களெல்லாம் குணங்களுடனும் தோஷங்களுடனும் யரஸ்பரம் சேர்ந்தேயுள்ளன. குணங்கள் மட்டில் சேர்ந்துள்ளது தேவர்களுக்கும் கிடைப்பதறிகு.

हारीतः - कुर्वीति सर्वकर्माणि ब्राह्मणानामनुज्ञया ।
ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञानाद्वोषो नश्यत्यसंशयम् इति । **गार्यः** -
शुक्रादिशुभवाराश्च नन्दा चैव चतुर्दशी । उत्तरात्रयरोहिण्यः
पूर्णचन्द्रा च जन्म च । एतेष्वपि च कर्तव्यं मातापित्रोर्विशेषतः ।
अन्येषां नाति दोषः स्यात् प्रत्यक्षमरणे नृणाम् इति । स्मृत्यन्तरे च
- जन्मत्रयं संचयने श्राव्ये च दहने गुरोः । नैव दोषावहं प्रोक्त
मन्येषामपि सर्वदा इति । प्रत्यक्षेऽपि पितृमातृव्यतिरिक्तविषये शौक्रं
वर्ज्यमेव, शौक्रं पित्रोर्न दोषाय इति पित्रोरेवावर्जनीयत्वस्मरणात्,
सर्वदा शुक्रवारस्तु वर्जनीयः प्रयत्नतः इति स्मरणाच्च ।

ஹார்தர்:- கர்மங்களெல்லாவற்றையும், ப்ராம்ஹணர்களின் அனுஜ்ஞங்யினை செய்யவும். ப்ராம்ஹணர்களால் அனுஜ்ஞங்கு செய்யப்பட்டால் தோஷம் விலகிவிடும். ஸம்சயமில்லை. கார்க்யர்:- சுக்ரவாரம் முதலிய சூபவாரங்கள், நந்தாதிதி, சதுர்தசி, 3-உத்தரநகஷத்ரங்கள், ரோஹிணீ, பூர்ணிமா, ஜன்ம நகஷத்ரம் என்ற இவைகளிலும் மாதா பிதாக்களுக்குச் செய்யலாம். அன்யர் விஷயத்திலும், ப்ரத்யக்ஷ மரணத்தில் அதிக தோஷமில்லை. ஒரு ஸ்மருதி யில்:- தரிஜன்ம

नक्षत्रं रण्कं कर्णं, कुरुवीं लेञ्जं चयनम्, चरोत्तमं, तहनम् इवेकलीलं तेऽवृत्ततेऽसं चेयवत्ताया कातु एन्नरु चेाल्लप्पट्टु उल्लातु. इतरर्काणुक्कुमप्पटिये. एप्पेबामुतुम् प्ररथ्यक्षं विषयत्तिलुम्, माता प्रित्तरुक्कौतं तवीर्त्तवर्कौन्निं विषयत्तिलं सक्करवारम् तवीर्कक्तं तकुन्ततेऽ. 'सक्करवारम् माता प्रित्तरु विषयत्तिलं तेऽवृवलहमल्ल' एन्नरु, माता प्रित्तरु विषयत्तिलं मट्टिलं वर्ज्जीक्कैवेण्टामेन्नरुम् 'एप्पेबामुतुम् सक्करवारत्तत अवस्यम् वर्ज्जीक्कैवेण्टुम्' एन्नरुम् लम्मरुति उल्लातु.

शावाङ्यनुगतौ प्रायश्चित्तम्।

इमशानाङ्यनुगतौ प्रायश्चित्तमाह सद्भ्रह्मकारः - नष्टे शावाग्नौ तद्दस्म संस्पृश्यारणिमन्थनम्। लौकिकाङ्याहृतिः स्मार्ते सर्वचित्तं द्वयोः समम् इति । आहिताग्रेमधिताग्निः, अनाहिताग्ने लौकिकाग्निः, उभयत्र सर्वप्रायश्चित्तं सममित्यर्थः ॥ अत्र विशेषमाह बोधायनः - अथ यद्युपनयनाग्निः विकाहाग्निः जातकर्माग्निः इमशानाग्निराचतुर्थादशाहादस्थिसंब्यनादनुगतः स्यात् अपहता असुराः इति प्रोक्ष्य क्षिप्रं भस्मसमारोपणम्, 'अयं ते योनिरक्तत्वियः' इति समिधि समारोप्य, लौकिकाग्निमाहृत्य समिधमादधाति आजुहानः, उद्भूध्यस्वाग्ने, इति द्वाभ्यां संपरिस्तीर्य प्रायश्चित्तं जुहोति अयाश्चाग्ने पञ्चहोत्रा ब्राह्मण एकहोता मनस्वती मिन्दाहृतिर्महाव्याहृति व्याहृतयश्च प्रायश्चित्तं जुहुयात् इति ।

सवाक्कौन्नि अैन्नन्त्तालं प्ररायस्चित्ततमः- स्मर्चान्नाक्कौन्नि अैन्नन्त्तु पोगालेलं प्ररायस्चित्ततत्तत्ततेऽसं चेाल्लुकिरुर्. लेञ्जकरलहकाररः- "सवाक्कौन्नि नव्ष्टमालेलं अन्तप्पं पल्लमत्ततेऽसं तेऽट्टु अरणीयेक्कैवेयवुम्. लम्मार्त्तत्ताक्कौन्नि विषयत्तिलं लेलाक्कौक्कौन्नीयेक्कैवेयवुम्

கொண்டுவரவும். ஸர்வப்ராயச்சித்தம் இரண்டிலும் ஸமானம்.' ஆஹிதாக்னிக்கு மதிதாக்னி (கடைந்தெடுத்தது) அநாஹிதாக்னிக்கு லெளகிகாக்னி, இரண்டிலும் ஸர்வப்ராயச்சித்தம் ஸமாநமென்பது பொருள். இதில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறோம், போதாயனர்:- 'உபநயநாக்னி, விவாஹநாக்னி, இவைகள் 4-நாட்களுக்குள்ளும், ஜாதகர்மாக்னி, 10-நாட்களுக்குள்ளும், ச்மசாநாக்னி ஸஞ்சயநத்திற்குள்ளும் அநுகதமானால், 'அபஹதா:' என்ற மந்த்ரத்தால் ப்ரோக்ஷித்து, உடனே பஸ்மத்தை 'அயம்தே' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸமித்தில் ஸமாரோபணம் செய்து, லெளகிகாக்னியைக் கொண்டுவந்து, அதில் ஸமித்தை 'ஆஜீஹ்வாந:, உத்புத்யஸ்வ' என்ற மந்த்ரங்களால் வைத்து, பரிஸ்தரணம் செய்து, ப்ராயச்சித்த ஹோமம் செய்யவும், அயாச்ச முதலிய மந்த்ரங்களால்' என்று.

**ஸूत्रमिदं व्याख्यातं पितृमेधसारकृता । - यदि
श्मशानाग्निरनुगतः स्यात्ततः सङ्कल्प्य, अपहता असुराः इति
तद्दस्म प्रोक्ष्य, अर्यं ते योनिरुक्तत्वियः इति सभिधि समारोप्य
लौकिकाग्निमाहृत्य प्रतिष्ठाप्य, आजुहानः, उद्भूध्यस्वाग्ने इति
द्वाभ्यां तां सभिधमाधाय परिस्तीर्य आज्यं दर्वीं च संस्कृत्य
परिषिच्य, अयाश्च अश्रिहोता इति द्वाभ्यां, ब्राह्मण एकहोता
इत्यनुवाकेन च प्रतिवाक्यचतुष्टयं मनो ज्योतिर्जुषतां, यन्म
आत्मनः, इति द्वाभ्याम्, 'भूग्रये च इति चतुर्भिः व्याहृतिभिश्च
हुत्वा, अग्निं परिषिच्य ततः कर्म प्रतिपद्यते इति ।**

இந்த ஸுத்ரத்திற்கு இவ்விதம் வ்யாக்யானம் செய்துள்ளார் பித்ருமேத ஸாரகாரர்:- ச்மசாநாக்னி அனுகதமானால், பிறகு ஸங்கல்பம் செய்து, 'அபஹதா:' என்ற மந்த்ரத்தால் அந்தச் சாம்பலை ப்ரோக்ஷித்து, 'அயம்தே' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸமித்தில் ஸமாரோபணம் செய்து, லெளகிகாக்னியைக் கொண்டு வந்து ப்ரதிஷ்டை

चेयंतु, ‘आज्ञाहूँवानः, उत्पुत्यस्व’ एन्ऱ
 2-मन्त्ररंगकளाल् अन्त लमित्तेत अक्णीयिल वेवत्तु,
 परिस्तरणम् चेयंतु, आज्ञायम्, तर्वीकल्ल इवेकल्लक्कु
 लम्स्कारम् चेयंतु, परिशेष्वनम् चेयंतु, ‘अयाच्च,
 अक्णीर्होता’ एन्ऱ 2-मन्त्ररंगकलालुम्, ‘प्रामूर्खं एव
 एकहेहोता’ एन्ऱ अनुवाकत्तोल्ल 4-वाक्यंकल्लक्कुकेकारु
 तटवेयाकवुम्, ‘मनोज्जेयोत्तिर्ज्ञाष्टाम्’ यन्म
 आत्मनः’ एन्ऱ 2-मन्त्ररंगकलालुम्, ‘पूरक्णेयेष’ एन्ऱ
 4. मन्त्ररंगकलालुम्, व्याहूरुत्तिकलालुम् हेहोमम्
 चेयंतु, अक्णीयेप परिशेष्वनम् चेयंतु, पिरकु कर्मत्तेत
 आरम्पिक्कवुम्” एन्ऱु.

कारिका च – उपायनाशौ च विवाहवह्नौ शाखानले सूतक
 पावके च । शान्तेऽपहत्यापहतेति मन्त्राच्छब्दो देव्याऽद्विरोक्ष्य
 भस्म । तद्दस्म चारोप्य समिध्ययन्त आजुह उद्धुध्य क्रचोद्द्वयैन ।
 लौक्यानले तां समिधं निधाय परिस्तराज्योत्पवनादि कृत्वा ।
 अयाश्च पञ्चहोता च ब्राह्मण एकहोता दश । मनस्वती च मिन्दा च
 महाव्याहृतयस्तथा इति ।

कारिकेयम्:- उपनयनाक्णी, विवाहोक्णी,
 चंमचानाक्णी, ज्ञातकर्माक्णी इवेकल्ल
 अज्ञेन्तुपोल्ल, ‘अपहत्तोः’ एन्पत्तोल्ल तुट्टेत्तु,
 ‘क्षण्णेत्तेवैः’ एन्पत्तोल्ल चाम्पपलै प्रोक्षित्तु, अन्तत्स
 चाम्पपलै ‘अयन्तेत्ते’ एन्ऱु लमित्तिल मेल वेवत्तु,
 ‘आज्ञाहूँवानः, उत्पुत्यस्व’ एन्ऱ 2-रुक्कुकलाल्ल अन्त
 लमित्तेत लेलकिकाक्णीयिल वेवत्तु, परिस्तरणम्,
 आज्ञायेत्तपवनम् मुत्तवियत्तेत्स चेयंतु, अयाच्च,
 पञ्चहेहोता, प्रामूर्खं एव एकहेहोता एन्ऱ पत्तु
 मन्त्ररंगकल्ल, मनस्वत्ति, मिन्तता, महाव्याहूरुत्तिकल्ल
 इवेकलाल्ल हेहोमम् चेय्यवुम्.

यद्यस्थि प्रवाहहृतं प्रतिकृतिदाहो वा तत्रास्थ्यभावात् कर्थं
 संचय इत्यपेक्षायामुक्तं सञ्चहे - अस्थिसञ्चयनात्पूर्वं प्रवाहेण हृतं

यदि । अस्थिप्रतिकृतीकृत्य तदेशान्मृदमाहरेत् । अस्थिवत् संचये
द्विद्वान् लोष्टं वा भस्म वा ततः । प्रमाणमस्थिवत् कृत्वा तन्मन्त्रं तु
जपेद्वृधः इति । स्मृत्यन्तरे – जलप्रवाहे कूले वा तीरे वाऽथ
सरिद्वृते । जलौधे वाऽस्थिनाशो तु तन्मन्त्रं तु जपेद्वृधः इति ।

அஸ்தியானது ப்ரவாஹத்தினால் அபஹரிக்கப்பட்ட விஷயத்திலும், ப்ரதிக்ருதிதாஹவிஷயத்திலும், அஸ்தி இல்லாததால் எப்படி ஸஞ்சயநம் செய்வது என்றால், அவ்விஷயத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸங்க்ரஹத்தில்:- ஸஞ்சயநத்திற்கு முன்பே, ப்ரவாஹத்தால் அஸ்தி அபஹரிக்கப்பட்டால், தஹநதேசத்திலிருக்கும் மண்ணை அஸ்திக்குப் பதிலாகக் கொண்டுவரவும். அதை அஸ்தியைப் போல் பாவித்து ஸஞ்சயநம் செய்யவும். அல்லது அந்த இடத்திலுள்ள மண்கட்டியையாவது சாம்பலையாவது அஸ்தியாய்ப் பாவித்து ஸஞ்சயநம் செய்யவும். மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவும். ஒரு ஸ்மருதியில்:- நதியின் ப்ரவாஹத்திலோ, கரையிலோ, தடத்திலோ, ஜலப்ரவாஹத்தால் அஸ்தி அபஹரிக்கப்பட்டால், ஸஞ்சயந மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவேண்டும்.

विज्ञानेश्वरीये – अस्थिसंचयनं यागो देवानां परिकीर्तिः ।
 प्रेतीभूतं तथोद्दिश्य यः शुचिर्न करोति चेत् । देवतानां तु यजनं तं
 शपन्त्यथ देवताः इति । देवताश्चात्र इमशानवासिनस्तत्र पूर्वं
 दग्धाः, इमशानवासिनो देवाः शावानां परिकीर्तिः इत्यङ्गिरः
 स्मृते: । अतस्तान्देवानचिरमृतं प्रेतं चोद्दिश्य अपूपादिभिः पूजा
 कार्येत्युक्तं भवति । प्रेतीभूतमित्युक्तेः सपिण्डीकरणात् प्रागेव
 संचयः कार्यं इति सिद्धम् ।

விழ்ஞாநோச்சுவரீயத்தில்:- அஸ்தி ஸஞ்சயநமென்பது தேவர்களின் யாகமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ப்ரேதனை உத்தேசித்து எவன் சுத்தனை தேவயஜநத்தைச் செய்யவில்லையோ அவனைத் தேவர்கள் சபிக்கின்றனர்.

तेवतेकबोलन्पवरं स्मिष्ठानृत्तिलं मुनिपु
त्तवृकप्पट्टवर्कर्कलं, 'स्मिष्ठानृत्तिलं वलीक्कुम् प्परेतर्कर्कलं
सवन्कर्कुक्कुत् तेवर्कबोलन्पपटुकिन्ऱनर्क' एन्ऱु
अन्किर्लेलीन् स्मिष्ठियिरुप्पत्तालं. आकेयालं अन्तत्
तेवर्कजैलायुम्, समेपकालत्तिलिरुन्त् त प्परेतर्जैलायुम्
उत्तेचित्तु, अप्पुपम् मुत्तवियवेक्कालं पूज्जलयेयस्
चेय्य वेण्टुमेन्ऱु चेल्लंवियत्तायाकिरुत्.
'प्परेत्तिप्पत्तम्' एन्ऱु चेल्लंवियिरुप्पत्तालं, सपिण्णै
करणत्तिर्कु मुनिपो ल्लंचयन्म चेय्यप्पट
वेण्टुमेन्पतु लित्तिक्किरुत्.

प्रभूतबलिः ।

दशमेऽहि प्रेतस्य महती क्षुद्धवति, तन्निवृत्तिः प्रभूतबलिना
भवति, स च दशमदिनपिण्डोदकदानात् पूर्वं कार्यः, तिलोदके च
पिण्डे च प्रदत्ते दशमेऽहनि । अश्मनोत्थापनं कृत्वा ततः प्रेतं
विसर्जयेत् इति पिण्डदानानन्तरमेवाश्मोत्थापन-स्मरणात्,
'दशमे क्षुत्परिक्षयः', 'दशमेन तु पिण्डेन तृसिः प्रेतस्य जायते'
इति स्मरणात्, भुक्तभोजनवत् तृस्य प्रेतस्य
बलिप्रदानायोगादित्याहुः ।

प्रपूत्त पलीः-

पत्तावतु नालीलं प्परेतनुक्कुप्प बेपरित्ताना पलि
उन्नटाकिरुत्. अतर्कु निवृत्तिलिप्रपूत्तपलीयिऩ्लाकिरुत्.
अतेत 10-वतु तिन्तत्तिय पिण्णटोत्तक तानृत्तिर्कु मुनि
चेय्य वेण्टुम्. '10-वतु नालीलं तिलोदात्तकमुम्
पिण्णटप्रत्तानमुम् चेय्त प्रिरु, पाषाणेत्तापनम्
चेय्तु, प्रिरु प्परेत विसर्जन्म चेय्यवुम्' एन्ऱु
पिण्णटत्तानृत्तिर्कु अटुत्तेत पाषाणेत्तापनम्
वित्तिकप्पट्टिरुप्पत्तालं, 10-आवतु नालीलं पलियिन्
ताणीवु, '10-आवतु पिण्णटत्तालं प्परेतनुक्कु त्तरुप्ति
उन्नटाकिरुत्' एन्ऱु स्मिष्ठियिरुप्पत्तालं,

புஜித்தவனுக்குப் போஜனம் கொடுப்பது போல் த்ருப்தனுன் ப்ரேதனுக்குப் பலியைக் கொடுப்பதென்பது பொருந்தாதாகையால் என்கின்றனர்.

அக்ஷண்டாதீர் து - அத்ரோட்கபிண்டலிப்ரடானாத் பிரேததுஸி: பிரேததுஸ்யா ஸந்ததிவृத்திர்஭வதி இதி । பிரத்யங் யத்பிண்டோட்கடாந், ஦ஶாஹே யஞ் பிரமூத்திலிப்ரடானம், தாம்யாங் பிரேதஸ்ய தூஸிர்஭வதித்யர்஥: । ஏவ் ச் ச் பிரமூத்திலிப்ரடானேநாபி பிரேதஸ்ய தூஸே: பிண்டோட்கடாநப்ரமூத்திலிப்ரடானயோ: பௌர்வபிரயே அனியம் இதி கேசித் । யஞ்சு கைஶிதுஞ்சயதே - மந்஦ாரராஸாரேஷு ஦ஶாஹே ஸமுபஸ்திதே । பலிங் பிரமூத் தூதைத் தூதைக்குலக்ஷயகரங் மகேத் இதி, தந்மாதா பிதுஷ்யதிரிக்கவிஷயமித்யகே ।

அகண்டாதுர்ச்சத்திலோவெனில்:- “தசமதினத்தில் உதகபிண்டபலி ப்ரதானத்தால் ப்ரேதனுக்கு த்ருப்தி உண்டாகிறது. ப்ரேதனின் த்ருப்தியால் ஸந்ததி வங்குத்தியையடைகிறது” என்றுள்ளது. ப்ரதி தினம் செய்யப்படும் பிண்டோதக தானத்தாலும், 10-ஆவது திநத்தில் செய்யப்படும் ப்ரபூதபலி ப்ரதானத்தாலும், ப்ரேதனுக்கு த்ருப்தி உண்டாகின்றது என்பது பொருள். இவ்விதமிருப்பதால், ப்ரபூதபலிப்ரதானத்தாலும் ப்ரேதனுக்கு த்ருப்தியுண்டாவதால், பிண்டோதகதாநம், ப்ரபூதபலிதானம் இவைகளைச் செய்வதில் முன் பின் என்ற நியமமில்லை என்கின்றனர் சிலர். ஆனால் சிலர்:- “சனி, செவ்வாய், வியாழன் இந்த வாரங்களில் 10-ஆவது தினம் வந்தால், அன்று ப்ரபூதபலியைக் கொடுத்தால், அது குலக்ஷயகரமாகும்” என்கின்றனரே எனில், அது மாதா பித்ருக்களைத் தவிர்த்த மற்றவரைப்பற்றியது என்றுசிலர்.

பிதுமே஧ஸாரே விஶேஷ: - நான் வாராடி஦ோஷசிந்தா, வலே: க்ஷுநிவृத்யர்஥த்வாத், ஦ஶாஹ ஏவ தத்தவாத் தத்பூர் பிரமூத்திலிப்ரடானஸ்ய நிர்ரூப்தித்வாத் பிண்டோட்கடாநவदோஷாத் ஸ்மृதிஷ்வனிஷே஧ாஞ் ஦ஶாஹ ஏவ வலிரேய: । பிரேதஸ்ய க்ஷுநிவृத்யா குலமभிவஞ்சை । அத:

प्रत्यक्षविषये शुक्रादिवारेऽपि पिण्डोदकदानवत् सर्वेषां दशाहे प्रभूत्
बलिदैय एव, 'वैधे कर्मणि तु प्राप्ते कालदोषेण न चिन्तयेत् इति
वसिष्ठस्मरणात् इति ।

पितृमेत्यारत्त्तिलं विचेष्टम् बेसालं लप्तं उल्लिखनात् : - "अिवविषयत्तिलं वाराम् मुत्तिलियति इन्ते
तेऽवृत्ततेऽस्ति निंत्तिक्कं वेण्णटाम्. परपृथपलि, पश्यिण्णं
निवृत्तिक्काकक्कं केाउक्कप्पं पातुवत्तालं, 10-आवतु
तिनित्तिलेये पशि उण्णटावत्तालं, अतर्कु मुनिं
परपृथपलियेक्कं केाउप्पतु पयन्नरूपताकुमात्तलालं,
पिण्णटोत्तक्प्रत्तान्त्तिर्कुप्पं पेऋलं तेऽवृत्तिलिलात्तत्तालं,
संमरुत्तिक्कलीलं निवृत्तिक्कप्पत्तात्तत्तालुम्, 10-आवतु
नालीलेये परपृथपलि केाउक्कप्पत्तवेण्णटुम्.
प्रेतनुक्कुप्पं पशि निवृत्तिं आवत्तालं कुलम्
वृत्तियत्तेक्किरतु. आक्यालं प्रत्यक्ष्य विषयत्तिलं,
सक्करवाराम् मुत्तिलियति लुम् पिण्णटोत्तक्कन्त्तक्कलीक्कं
केाउप्पतुपेऋलं, ऎलंलेलारुक्कुम् 10-आवतु नालीलं
परपृथपलियेक्कं केाउक्कप्पत्तवेण्णटुम्. 'विहीतमाणकर्मम्
वन्तु विट्टालं कालतेऽवृत्ततेप्पं परन्त्रिच निंत्तिक्कक्कं
कृतात्' ऎन्ऱु वलिष्टं संमरुत्तियिरुक्किरतु.

यत् कालदीपेऽभिहितम् - आरवारे च सौरे च गुरुवारे च
भागवि । पाषाणस्थापनोत्थानं संचयश्च कुलक्षयः इति, तत्
मातापितृविरक्तविषयम्, अतिक्रान्तौध्वदैहिकविषयं च,
पाषाणस्थापनेऽश्रेष्ठा मन्दभौमार्कवासरा: । उत्थापने सज्जौक्रीया
मातापित्रोर्गुरोः शुभाः । परोक्षे सूक्ष्मतः पश्येत् प्रत्यक्षे न विचारयेत्
इति स्मरणात् ।

आगले, कालतीपत्तिलं : - 'बेसवाय, गुरुयिरु,
वियामृणं, वेण्णली निंत्त वाराङ्कलीलं, पावृत्ताणत्तिलिं
संत्तापनमुम्, उत्तत्तापनमुम्, अस्तिलिंसंचयनमुम्
बेसयत्तालं कुलम् क्षयत्तेयत्तेयत्तयम्' ऎन्ऱु

සොල්ලපපට්ටුள්ලෙතේ යෙනිල්, අතු මාතා පිත්රුවයිතිරික්ත විෂයය්, අනික්රාන්ත ප්‍රෝත ක්‍රුත්‍ය විෂයමුමාකුම්. ‘පාභාණ ස්තාපනත්තිල් සනී, රෙඛවාය්, නොයිතු, බෙව්ව්වී ඇන්ත බාරංක්ක් ස්ලාක්යන්ක්ලාල්ල. ඉත්තාපනත්තිනුමපයිලෙ, මාතා, පිතා, කුරු මූල්‍යක්ල විෂයත්තිල් තන්ගුරුය්ක කවනික්ක වෙන්ගුම්. ප්‍රත්‍යක්ෂ මරණ විෂයත්තිල් විසාරික්ක වෙන්ඩියතිල්ලේ’ ගන්නු ස්ම්රුතියිරුප්පතාල්.

අන්තර්ද්‍රාහේ ද්‍රාපිසංඛ්‍යා ටිධි: |

යදා ද්‍රාහ්මධිය ද්‍රාපාත්:, තදා ද්‍රා එකොත්තර තන් පිණ්ධොදකදානාදිරූප් සමාපයේතු | තදාහ ක්‍රියෘජ්: - ආශ්‍යැචමන්තරා දර්ශා යදි ස්‍යාතු සර්වරිණි: | සමාසින් ප්‍රෙතතන්ත්‍රස්‍ය ක්‍රුරාදිත්‍යාහ ගැතම: ඇති | පැතිනසිරපි - ආයේන්දාදෙව කර්ත්‍යා ප්‍රෙතපිණ්ධොදකක්‍රියා | ද්‍රිරැන්ද්‍රා තු ක්‍රුරාණ: ප්‍රූන: ජාව සම්ප්‍රානුත් ඇති |

පත්තු නාට්කාගුණ් තර්සම් මුත්‍ලියතු නොර්න්තාල්

න්ප්පෙබාමුතු, 10-නාට්කාගුණ් තර්සම් (අමාවාස්‍යෙ) වරුණිත්‍රා අන්පෙබාමුතු, තර්සත්තිලේ යෝ, පිණ්ටොතාතකතානම් මුත්‍ලිය මෙර්කාර්‍යත්තෙ මුඩික්කවෙන්ගුම්. අනෙත්ස සොල්ලුකිරුර් උර්යස්ක්‍රුන්කර්:- ඇශ්‍යාස කාලත්තින් නැඟුවිල් තර්සම් නොර්න්තාල් නාණ්ඩ වර්ණත්තාරුම්, ප්‍රෙතකාර්‍යත්තින් සෙමාප්තියෙය් සේයෝවෙන්ගුම් ගන්ගුර් කෙළතමර්. පෙපාන්ත්‍රියුම්:- ප්‍රෙත්නික් කුරිත්තුස් සේයුම් පිණ්ටොතාතකතානත්තෙ ඉරු සන්තරනුග්‍රාන් කාලත්තිලේ යෝ සේයෝවෙන්ගුම්. මූර්ජ්‍ය සන්තරනුග්‍රාන් කාලත්තිල් සේය්පවන් මරුපයි සවක්රියායෙය අභ්‍යන්තරාන්.

ආච්‍යුත්‍යුරාණෝපි - ප්‍රවුත්තාංශැචතන්ත්‍රස්‍ය යදි ද්‍රා ප්‍රපය්‍යා තෙ | සමාප්‍ය ත්‍රිත්‍යක් පිණ් ස්‍යානමාත්‍ර සමාචරේතු ඇති | එතතු සුර්යසක්‍රාන්තෝරප්‍‍යුපලක්ෂණම් | තතා එග්‍රාරියේ - ත්‍යැංතු සක්‍රමණ

भानोर्मध्यतः प्रेतकार्यतः । नोचेत्तक्तर्तुनाशः स्यादर्शश्चेत्-
त्कुलक्षयः इति । स्मृतिरत्ने - दर्शः सङ्क्रमणं वाऽपि दशाहान्तर्यदा
भवेत् । तावदेवोत्तरं तन्म समाप्यमिति निश्चयः इति ।

पविष्ट्यत् पुराणत्तीविलुमः:- आसेळास कार्यत्तेत्तच (पिण्ठेतोत्तक्तान्तत्त) चेय्य आरम्पित्तवेण नुविल तर्सत्तेत्त अटेन्त्ताल, उत्तकपिण्ठत्तान्तकला लमाप्ति चेय्यतु, लन्नान्तत्तेत्त मट्टिल चेय्यवेण्टुम्. इतु, लमार्य लन्करमणत्तिन्त्तकु मुपलक्षणम्. अव्वित्तम् कर्त्तरीयत्तीलिः:-” प्रेरेत कार्यत्तिन्त्त नुविल लन्करमणम् नेन्त्ताल, अतेत्त तविरक्कवुम्. तविरक्काविष्टिल कर्त्तत्तावक्कु नास मेन्त्तप्तुम्. तर्सत्तेत्त तविरक्काविष्टिल तुलत्तिन्त्तकु क्षय मेन्त्तप्तुम्. लम्गुत्तीरत्तन्तत्तीलिः:- 10-नाट्कगुलां, तर्समावतु, लन्करमणमावतु नेन्त्ताल, अप्पेपामुते, मेल उल्ला कार्यत्तेत्त मुष्टिक्क वेण्टुमेण्टप्तु निर्जन्यम्.

स्मृत्यन्तरेऽपि - दशाहमध्ये दर्शश्चेत् तत्र सर्वं समाप्येत् । द्विचन्द्रदशने दोषो महानित्यवधार्यताम् । चन्द्रद्वये यदाऽज्ञानात् प्रेतकर्म समाचरेत् । नोपतिष्ठति तत् सर्वं दातुः कुलविनाशनम् इति । अन्यत्रापि - चन्द्रद्वये बलिनैव देयः प्रेतस्य तृप्तये । यदि दद्याद् द्विचन्द्रे तु दातुः कुलविनाशनम् इति । पञ्चतौ च - अन्तदशाहे सम्प्राप्ते दर्शे पिण्डान् समाप्येत् । अस्थिसंचयनं तत्र दर्शात् पूर्वं विधीयते इति । स्मृत्यन्तरेऽपि - अथोर्ध्वं कृष्णपक्षस्य दशम्याः संस्थिते सति । तदार्णी संचयेदस्थि न चतुर्थेऽह्नि संचयः । त्रयोदशीकलामात्रतिथौ यस्य मृतिभवेत् । नात्रिक्रम्य सिनीवालीं कुर्यात् पिण्डोदकक्रियाम् इति ।

लुकु लम्गुत्तीविलुमः:- 10-नाट्कगुलां तर्सम नेन्त्ताल अति लेये लव्लावर्ण रेयुम् मुष्टिक्क वेण्टुम्. 2-सन्तरनुष्टेय कालत्तील चेय्त्ताल येपरित्ताल

தோஷமுண்டென்று அறியவும். 2-சந்த்ரனுடைய காலத்தில், அறியாமையால், ப்ரேதகர்மத்தைச் செய்தால், அது முழுவதும் ப்ரேதனை அடையாது. கர்த்தாவுக்குக் குலம் நசிக்கும். மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும்:- 2-சந்த்ரனுள்ள காலத்தில் பிண்ட தாநம் கூடாது. செய்தால் கர்த்தாவின் குலம் நசிக்கும். பத்ததியிலும்:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால் அதிலேயே பிண்டதாந ஸமாப்தியைச் செய்யவும். அவ்விஷயத்தில், அஸ்தி ஸஞ்சயநத்தைச் தர்சத்திற்கு முந்தியே செய்யவேண்டும். மற்றொர் ஸ்மிருதியிலும்:- க்ருஷ்ணபக்ஷத்தில் தசமிக்குமேல் ம்ருதியானால், அப்பொழுதே அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யவேண்டும். 4-ஆவது நாளில் ஸஞ்சயநமென்பதில்லை. த்ரயோதசி ஒரு கலை உள்ள திதி யில் எவனுக்கு ம்ருதி ஏற்படுகிற தோ அவனுக்கு அமாவாஸ்யத் தாண்டி பிண்டோதகதாநத்தைச் செய்யக்கூடாது.

चतुर्दशीयुक्तामावास्यादिने चतुर्दशीसमयमरणेऽपि अमायां
दाहसंचयोदकादि समापनीयम् । तदुक्तम् - चतुर्दशीक्षणमृतस्तत्र
दर्शे भवेद्यदि । पिण्डोदकं दशाहान्तं तस्मिन्नेव दिने क्षिपेत् इति ।
तथा स्मृत्यन्तरे - उदयं याति चादित्ये पर्वमिश्रां चतुर्दशीम् ।
संप्राप्य संस्थिते विप्रे कृष्णपक्षस्य तं दहेत् । अमायां वा मृतियस्य
तस्यां संस्कारकल्पना । तस्यां संचयनं कुर्याच्छेषं चैव यथा यथम्
इति । स्मृतिरत्ने - चतुर्दशीमृतः कश्चित् ततः प्राप्नोत्यमातिथिः ।
पिण्डोदकं दशाहान्तं तस्मिन्ने वाहनि क्षिपेत् इति ।

சதுர்த்தசியுடன் கூடிய அமாதினத்தில், சதுர்த்தசி உள்ள ஸமயத்தில் மரணமானாலும், அமையில் தஹநம், ஸஞ்சயநம், உதகதாநம் முதலியதை முடிக்கவேண்டும். அவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது - 'சதுர்த்தசி காலத்தில் ஒருவன் இறந்தால், அன்றே தர்சம் வந்தால், 10-நாள் வரையில் கொடுக்கவேண்டிய பிண்டோதகங்களை அன்றைய தினத்திலேயே கொடுத்து முடிக்க வேண்டும்'

என்று. அவ்விதம் மற்றே ஸ்மருதியில்:- க்ருஷ்ண யகுத்தில் அமையுடன் கூடிய சுதார்த்தசி யில் ஸ்ரீயோதய காலத்தில் ப்ரராம்ஹணன் மரித்தால், அவனை அன்றே தஹிக்கவும் அல்லது தார்த்தில்மரித்தாலும் அப்பொழுதே ஸ்மஸ்காரம் செய்யவும். அமையிலேயே ஸஞ்சயநத்தையும் செய்யவும். மதியுள்ள க்ரியையும் விதிப்படி செய்யவும். ஸ்மருதிரத்நத்தில்:- ஒருவன் சுதார்த்தசியில் மரித்தால், பிறகு அமாதிதி வந்தால், 10-நாள் வரையில் செய்யவேண்டியாயின்டோதக தாநத்தை அன்றே செய்யவேண்டும்.

स्मृत्यन्तरेऽपि – इन्दुक्षये यदा मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा।
उदकं पिण्डदानं च तदा सर्वं समापयेत् इति ॥ प्रचेताः –
प्रथमेऽहन्यमावास्या तत्रोदकबलिं हरेत् । अथ वा तत्प्रभृत्येव जलं
पिण्डांस्तु वापयेत् इति । दर्शमरणे तदुत्तरदिनमारभ्य वा
पिण्डोदकदानं कुर्यात् दर्शसङ्गमयोद्दृष्टत्वादिति व्याख्यातारः ।
अन्ये तु अन्तर्दशाहे यदा कदाचिद्दर्शसिम्भवे उदकादि समापनीयं
तदुत्तरदिनमारभ्य वा कार्यमिति व्याचक्षते, तदयुक्तम्
प्रथमेऽहन्यमावास्या इति प्रकृतत्वात् अमावास्यामरणविषयस्यैव
विकल्पस्य प्रतीतेः प्रथमेऽहन्यञ्जलित्रयम् इत्यादिना प्रथमदिन –
प्रभृत्यविशेषण उदकदानादिविधानात् दर्शादेः पूर्वमेवारभ्य दर्शादौ
समापनीयम्, तत्रालस्यादिनाऽनारब्धे सति दर्शसङ्गात्त्यनन्तर-
दिनमारभ्य दिनत्रयेणैकेन वा दिनेन समापनीयम् इत्याहुः ।

மறுநாள் முதற் கொண்டாவது பின்டோதகதாநத்தைச் செய்யவேண்டும், தர்ச ஸங்கரமணங்கள் தோஷ முள்ளவைகளானவை' என்கின்றனர் வ்யாக்யானகாரர்கள். மற்றவரோவெனில் - '10-நாட்களுள் என்றைய தினத்திலாவது தர்சம் ஸம்பவித்தால் உதகதாநம் முதலியதை ஸமாப்தி செய்யவேண்டும். அமைக்கு மறுநாள் முதற் கொண்டாவது ஆரம்பித்துச் செய்ய வேண்டுமென்று வ்யாக்யாநம் செய்கின்றனர். அது யுக்தமல்ல. 'ப்ரதமேஹன்யமாவாஸ்யா' என்று ஆரம்பித்திருப்பதால், அமாவாஸ்யா விஷயமான விகல்பமே தோன்றுவதால், 'முதல் நாளில் 3-அஞ்சவிகள்' என்பது முதலியதால், முதல் நாள் முதல் பேதமில்லாமல் உதகதாநம் முதலியது விதிக்கப்பட்டிருப்பதால், தர்சம் முதலியதற்கு முன்பே ஆரம்பித்து, தர்சம் முதலியதில் ஸமாப்தி செய்யவேண்டும். ஆலஸ்யம் முதலிய காரணத்தால் உதகதாநம் ஆரம்பிக்கப்படாவிடில் தர்சம் ஸங்கராந்தி இவைகளின் மறு திநத்தில் ஆரம்பித்து 3-நாட்களாலோ, ஒரு நாளினாலோ ஸமாப்தி செய்யவேண்டும் என்கின்றனர்.

दर्शसङ्क्रमयोस्तु संचयनं कृत्वैव समापनीयम् । तथा कात्यायनः - प्रथमेऽहि तृतीये वा यदा दर्शो भवेत् तदा अस्थिसंचयनं कुर्यादिति विष्णुस्मृतौ स्मृतम् इति । दशाहमध्ये सङ्क्रान्तिरित्यादिभिः सङ्क्रमणस्यापि त्याज्यत्वस्मरणात् दर्शतुल्ययोगक्षमत्वात् सङ्क्रमणेऽप्येवमेव ग्राह्यम् । दशाहमध्ये तयोर्यौगपद्ये दर्शो समापयेत्, प्राप्ते दर्शो सङ्क्रमे च दर्शो एव समापयेत् इति स्मरणात् ।

தர்ச ஸங்கரமணங்களில் ஸமாப்தி செய்வதானால், ஸஞ்சயநம் செய்தே ஸமாப்தி செய்யவேண்டும். அவ்விதம் காத்யாயனர்:- முதல் நாளிலோ, 3-ஆவது நாளிலோ தர்சம் நேர்ந்தால், அப்பொழுது

अस्तु लेञ्चयन्तर्त्तवात् चेष्यलामेन्ऱु विष्णु
स्मरुतीयिलं चेऽल्लप्पट्टु उल्लासु । '10-ना॒ट्कगु॒णं
संकृमणम् वन्त्तालं' एन्पतु मृतलीय वचनंकृमालं
संकृमणत्तेयुम् त्यजीक्क वेण्टुमेन्ऱु
स्मरुतीयिरुप्पत्तालं, तर्सत्तिर्त्तु मृमान्मान योक
केषमन्कौलायैटेयतायिरुप्पत्तालं, संकृमणत्तिर्त्तुलुम्
इववितमेकरूपीक्क वेण्टुम् । 10-ना॒ट्कगु॒णं तर्समुम्
संकृमणमुम् चोर्नत्तालं तर्सत्तिलं मृमाप्ति चेष्यवुम्.
'तर्समुम् संकृमणमुम् 10-ना॒ट्कगु॒णं वन्त्तालं
तर्सत्तिलेये मृमाप्ति चेष्यवुम्' एन्ऱु स्मरुती
उल्लासु ।

सद्गुहेऽपि - यदि सङ्गान्तिदर्शौ तु दशाहाभ्यन्तरे यदा ।
मातापित्रोर्बिनाऽन्येषां दर्श एव समापयेत् इति । स्मृत्यन्तरे -
अमायां तु मृतिर्यस्य तद्विने दहनं भवेत् । चन्द्रस्य दर्शनात् पूर्वं दर्शौ
पिण्डान् समापयेत् । अमायां च मृतं देहं प्रथमायां दहेद्यदि । उदकं
पिण्डदानं च स दशाहं समापयेत् इति । यत्तु - अमायां मरणं यस्य
तस्य पिण्डोदकक्रियाः । आदशाहात् प्रतिदिनं कारयेत्
स्मृतिशासनात् इति । तदपि प्रथमाहदहनाभिप्रायम्, अन्यथा
पूर्वोक्त वचनविरोधापत्तेः । उशाना अपि - द्विचन्द्रदर्शनं
यावद्वलिपिण्डक्रिया भवेत् । द्विचन्द्रदर्शने दोषो
महानित्यवधार्यताम् इति ।

संकृमणूपूर्वत्तिर्त्तुलुम्:- 10-ना॒ट्कगु॒णं संकृमणमुम्
तर्समुम् वन्त्तालं, मा॒त्रापि॒त्तरूपौ॒क्कौलौ॒त् तवीर्त्तत्तु मर्त्रवार
विष्यत्तिलं तर्सत्तिलेये मृमाप्ति चेष्यवुम्. मर्त्रिरुरु
स्मरुतीयिलः- अमावास्यैययिलं मरीत्तवलुक्कु अन्नेन
तवूनम् चेष्यत्तालं सन्त्तरतर्सन्तत्तिर्त्तु मुन्पु तर्सत्तिलं
पिण्ठत्तानत्तेत् मृदिक्कवुम्. अमावास्यैययिलं
मरुतमान तेवूत्तेत् प्रत्तमेयिलं तवूपीत्तालं,
उत्कपिण्ठत्तानृत्तेप्पत्तत्तु नालीलं मृमाप्ति चेष्यवुम्.

ஆனால், 'அமையில் எவனுக்கு மரணமோ அவனுக்குப் பிண்டோதக தாநத்தை, 10-நாளில் ப்ரதிதினமும் செய்ய வேண்டும், அவ்விதம் ஸ்ம்ருதியிருப்பதால்' என்ற வசநமுள்ளதே எனில், அதுவும் ப்ரதமையில் தஹநம் செய்யும் விஷயத்தைப் பற்றியது. அவ்விதமில்லையெனில் முன் சொல்லிய வசனத்திற்கு விரோதம் வரக்கூடும். உசநஸ்ஸம்:- 2-ஆவது சந்த்ரன் காணப்படுவதற்குள் பலி பிண்டதாநத்தைச் செய்ய வேண்டும். 2-ஆவது சந்த்ரனைக் கண்டால் மிக தோஷமுண்டென்றறியவும்.

அखण्डादर्शै – अष्टमांशो चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः ।
 அமாவாஸ்யாष்மாஂஶே ச புனः கிலோ ஭வेदणुः இதி ।
 அதோऽமாவாஸ்யாஷ்மாஂஶாத् ப்ராगேव பிண்டோதகாபகர்ஷः கார்யः, அந்யथा இங்கந்த்வப்ரஸ்ங்஗ாத् । ஦ிநங்கேऽப்யமாவாஸ்யாஸம்஭வே மध்யாஹ-
 வ்யாபிந்யா தஸ்யா ஶாக்ஷதிநே வாऽஷ்மாஂஶாத् ப்ராக् கர்த்துः ।
 ஸங்காந்தாவपி தத்ஸமயாத् பூர்வ மத்யாஹ ஏவ ஸமாபநீயம् ।
 அனாதவிஷயேऽபி ஸமுத்யந்தரம् – சந்தங்கே ஸுதோऽநாಥோ
 ஦ங்கஶேதுதகார்஥ிநः । ஸஂசயோதகாநானி தஸ்மிகங்கி ஸமாபயேத् இதி ।
 ஏதானி வசனானி மாதாபிதுந்யதிரிக்கவிஷயானி ।

அகண்டாதூர்சத்தில்:- 'சதுர்த்தகியின் 8-ஆவது பாகத்தில் சந்த்ரன் கூஷினாகுகிறுன், தர்சத்தின் 8-ஆவது பாகத்தில் மறுபடி சிறிய முளையாகிறுன்' என்றுள்ளது. ஆகையால் அமாவாஸ்யையின் 8-ஆவது பாகத்திற்கு முன்பே பிண்டோதகங்களை அபகர்ஷித்துச் செய்யவும். இல்லாவிடில் 2-சந்த்ர தர்சன தோஷம் வரும். 2-நாட்களிலும் அமாவாஸ்யை இருந்தால், மத்யாஹ்ன வ்யாபிந்யான் அமையிலாவது, ச்ராத்ததினத்திலாவது, 8-ஆவது பாகத்திற்கு முன் செய்ய வேண்டும். ஸங்க்ரமணத்திலும், ஸங்க்ரமணத்திற்கு முன் மத்யாஹ்னத்திலேயே ஸமாப்தி செய்ய வேண்டும். அநாதவிஷயத்திலும் சொல்லுகிறது. மற்றேர் ஸ்ம்ருதி:-

‘अनात्मयुं गवन्नि २-सन्तरनुं गवन्नि समयत्तिलं
मंगुत्तगुल्ल, ज्ञलत्तते विगुम्पुम् अवनुक्कु लगुचयन्म
उत्तक्तानम् इव गुत्तवियवेक्की अत्ते तिनत्तिलं
समाप्ति चेष्यवुम्’ एन्ऱा इन्त वसन्नंक्केल्लाम्
मात्तापित्ताक्कीत्त तवीर्त्त मर्त्तवर्व विषयत्ततप्प
पर्त्तियत्तेयाम्.

दशाहमध्ये दशादिसम्बवे मातापितृविषये ।

मातापितृविषये क्षोकगौतमः - अन्तर्दशाहे दर्शक्षेत् तत्र सर्वं
समापयेत् । पित्रोस्तु यावदाशौचं दद्यात् पिण्डान् जलाङ्गलीन्
इति । यमोऽपि - अवांदशाहात् पित्रोस्तु कुहूर्यदि तदा भवेत् ।
द्विचन्द्रदोषो नास्त्येव कर्तव्या तु क्रिया सुतौः इति । स्मृतिरत्ने -
दशाहाभ्यन्तरे पित्रोः सिनीवाली यदा भवेत् । अतीत्यैव च कर्तव्यं
पुत्रेणान्येन नेष्यते इति । बृहस्पतिः - अन्तर्दशाहे दर्शक्षेत्
पितुर्मार्तुर्गुरोर्मृतौ । पिण्डं दद्यादशाहान्तमितरेषां समापयेत् इति ।

10-नाट्कगुणं तर्समं गुत्तवियतु सम्पवित्तालं,
मात्तापित्तरु विषयत्तिलं क्लेक केणात्तमारः- 10-नाट्कगुणं
तर्समं वन्त्तालं अतिलेये एल्लावर्त्त रेयुम्
गुत्तिक्कवेण्णुम्. मात्ता पित्ताक्कीलिं विषयत्तिलं
मट्टुम्, आचेलाचमुं गवरयीलं पिण्ठान्क्कीलायुम्
ज्ञलान्ज्ञलिक्कीलायुम् केकाटुक्कवेण्णुम्. यमनुमः- मात्ता
पित्ताक्कीलिं मंगुत्तीयीलं 10-नाट्कगुणं तर्समं वन्त्तालं,
पुत्तरर्कं करीयययस्च चेष्य वेण्णुम्. तवीचन्त्तर तर्सन
तेवाष्मिल्लवेयीलिलै. एमंगुत्ती रत्तनत्तिलिः- मात्ता
पित्ताक्कीलिं 10-नाट्कगुणं तर्समं वन्त्तालं, तर्सत्तिन्त्रिगुप्त
पिरगुम् करीयययस्च चेष्य वेण्णुम्. पुत्तरं
चेष्यलाम्. मर्त्तवन्न एवनुम् चेष्यक्कटातु.
पंगुत्तवन्पत्तीः- मात्ता, पित्ता, गुरु इवर्क्कीलिं मंगुत्तीयीलं,
10-नाट्कगुणं तर्समं वन्त्तालं, 10-नाट्कं गवरयीलं पिण्ठा
ताणम् चेष्यवुम्. मर्त्तवर्व विषयत्तिलं समाप्तिययस्च
चेष्यवुम्.

ஶ्रீधரியே - ஦ிச்சந்஦ிரானே ஦ோஷே மாதாபித்ரோ வி஦्यதே । மத்யே பிண்஡ஸமாசிஶ்வேத குலக்ஷயகரி ஭வेत் இதி । அன்யத்ராபி - ஦ஶாஹம்஧யே சக்ளாந்திர்஦ர்ஶனே வாத ஭வே஘டி । தோய் பிண்஡ ஸமாப்யேத தத்தினேநௌரஸேதரை: । பலிர்த்திச்சந்஦ிராஷ்வேஷ்வினஸ்தி ஶவ஦ாஹகம் । சந்஦ிராஷ்வேஷ்வேதபி கர்த்து மாதாபித்ரோவீரலிக்ரியா இதி । வரதாஜீயே - ஦ர்ஶன ப்ரேததினேஷு ஸத்யபி தथா ஦ஶாஹாங் ஸுத: இதி । ஸமூத்யந்தரே - அந்தர்஦ஶாஹே ஦ர்ஶனேஷு பிண்஡னிவர்ப்பிணாடிகம் । ஸபிண்஡ோ வர்ஜயேத் புற: குர்யத் பிண்஡ாடகக்ரியாம் இதி ।

ஸ்ரீ த்ரீயத்தில்:- மாதா பிதாக்களின் விஷயத்தில், தவிசங்கர தர்சன தோஷமில்லை. நடுவில் பிண்டதாந ஸமாப்தியைச் செய்தால் அது குலக்ஷயகரமாகும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்: 10-நாட்களுள் ஸங்க்ரமணமாவது, தர்சமாவது வந்தால், ஜல, பிண்டதாநத்தை, ஓளரஸ் புத்ரனைத் தவிர்த்த மற்றப் புத்ரர்கள் ஸமாப்தி செய்ய வேண்டும். பிண்டதாநம் 2-சந்தர்களால் காணப்பட்டால் ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனை ஹிம்ஸிக்கும். மாதா பிதாக்களின் விஷயத்தில் பிண்டதாநத்தை, சந்தர் தவய தர்சநத்திலும் செய்ய வேண்டும். வரதராஜீயத்தில்:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தாலும், புத்ரன் பத்து நாட்களிலும் உதகபிண்டங்களைக் கொடுக்க வேண்டும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால், பிண்டதாநம் முதலியதை ஸபிண்டன் வர்ஜிக்கவும். புத்ரன் செய்ய வேண்டும்.

சக்ளே - அந்தர்஦ஶாஹே ஦ர்ஶனேஷ்வேத பிண்஡ாடகாடிகம் । மாதாபித்ரோவிர்நாதந்யேஷன் ஦ர்ஶன ஏவ ஸமாப்யேத் இதி । அன்யத்ராபி - ஦ஶாஹாந்தரே ஦ர்ஶன: சக்ளமோ வா ஭வே஘டி । மாதாபித்ரோத்தாஹாந்த் யதாவி஧ி ஸமாப்யேத் இதி । விஶ்வாதரே - ஆஶௌசம்஧யே வி஘ுஸங்கஷயஶேத் ஦ஶாஹாங் திலவாரிபிண்஡ம் । புத்ரீஸுதோ ஦த்க ஔரஸஶ ஶோ: ஸுதாஸ்தந ஸமாப்யேயு: இதி । மாதாபித்ரவிஷயே

विशेषो गालवेनोक्तः – पित्रो राशौचमध्ये तु यदि दर्शः समापयेत् । तावदेवोक्तरं तन्म पर्यवस्थेत्यहात् परम् इति । पित्रोराशौचमध्ये त्रिरात्रात् परं यदि दर्शः समापतेत्, तदैवोक्तरं तन्म दर्शे समापयेत्, नाराकृ दर्शापात् इत्यर्थः ।

ஸங்கரவுத்தில்:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால், மீதியுள்ள பிண்டோதகம் முதலியதை, மாதாபிதாக்கள் தவிர மற்றவர் விஷயத்தில் தர்சத்திலேயே ஸமாப்தி செய்யவேண்டும். மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- 10-நாட்களுள், தர்சமாவது, ஸங்கரமணமாவது வந்தால், மாதா பிதாக்களின் விஷயத்தில் பத்து நாள் வரையில் உதகதாநம் முதலியதைச் செய்து முடிக்கவும். விச்வாதர்சத்தில்:- ஆசௌசத்தின் நடுவில் தர்சம் வந்தால், புத்ரிகாபுத்ரன், தத்தபுத்ரன், ஓளரஸபுத்ரன் இவர்கள் பத்து நாட்களில் திலோதக பிண்ட ப்ரதாநத்தைச் செய்ய வேண்டும். மற்ற புத்ரர்கள் தர்சத்தில் ஸமாப்தியைச் செய்ய வேண்டும். “மாதாபித்ரு விஷயத்தில் ஒரு விசேஷம் காலவரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது:- மாதா பிதாக்களின் ஆசௌசத்தின் நடுவில் தர்சம் வந்தால், அப்பொழுதே மீதியுள்ள கார்யத்தையும் முடிக்கவும். மூன்று நாட்களுக்கு மேல்” என்று மாதா பிதாக்களின் ஆசௌச மத்யத்தில் 3-நாட்களுக்குப் பிறகு தர்சம் வருமாகில், அப்பொழுது தான் தர்சத்தில் மீதியுள்ள கார்யத்தை முடிக்கலாம், 3-நாட்களுள் வந்தால் முடிக்க வேண்டியதில்லை என்பது பொருள்.

कालादर्शेऽपि – दर्शो दशाहमध्ये स्यादूर्ध्वतन्त्रं समापयेत् ।
 निरात्रादुत्तरं पित्रोर्मृताविति विनिश्चयः इति । स्मृत्यन्तरेऽपि –
 पित्रोराशौचमध्ये तु दर्शश्चेत्निदिनात् परम् । तावदेवोत्तरं तन्त्रं
 समाप्यमिति निश्चयः इति । तथा - दशाहमध्ये दर्शश्चेत् तत्र सर्वं
 समापयेत् । अस्थिसञ्चयनादूर्ध्वं पित्रोरपि समापयेत् इति ।

காலாதர்ச்சத்திலும்:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால், மேல் கர்மங்களை முடிக்கவும். மாதா பிதாக்களின் மருதியில் 3-நாட்களின் மேல் தர்சம் வந்தால், என்பது நிர்ணயம். மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும்:- மாதா பிதாக்களின் மருதியில் 3-நாட்களுக்கு மேல் தர்சம் வந்தால் அதிலேயே மிதியுள்ள கார்யத்தையும் முடிக்க வேண்டுமென்பது நிச்சயம். அவ்விதமே:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால் அதிலேயே எல்லாவற்றையும் முடிக்க வேண்டும். மாதா பித்ரு மருதியில் அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திற்கு மேல் தர்சம் வந்தாலும் ஸமாப்தி செய்யவும்.

அ�्र சந்திகாஸமூதிரஸ்மா஧வீயகாலாதாஸ்திபௌத-
நி஬ந்஧நேஷு வ்யவஸ்஥ா குதா - மாதாபிதுவதிரிக்தவிஷயே யடா கடா
வா ஦ஶாபாதே ஜ்வர்தந்த் ஸமாபயேது, மாதாபிதுவிஷயே து திராதாதுதர்
஦ஶாபாதே ஜ்வர்தந்த் ஸமாபயேது, பித்ரோஸ்து யாவடாஶௌரை ஦்யாத
பிண்டாந் ஜலாஜலீந் இத்யாடிநி ஦ஶாஹஸமாபனப்ரதிபாடகானி
வசனானி திராதாதவர்க் கு ஦ஶாபாதே வேடிதவ்யானி த்யஹாத் பரமிதி
஗ாலவாதிமிர்வீஷிதவாடிதி ।

இவ்விஷயத்தில், சந்திரிகா, ஸ்மிருதிரத்னம், மாதவீயம், காலாதர்சம் முதலிய பெரிய நிபந்தந க்ரந்தங்களில் வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது:- “மாதா பித்ருக்களைத் தவிர்த்த மற்றவர் விஷயத்தில் 10-நாட்களுள் எப்பொழுது தர்சம் வந்தாலும் மேல் கார்யத்தை முடித்துவிட வேண்டும். மாதா பித்ரு விஷயத்திலோ வெனில், 3-நாட்களுக்கு மேல் தர்சம் வந்தால் மேல் தந்த்ரத்தை முடிக்க வேண்டும். ‘மாதாபிதாக்களுக்கு ஆசௌசம் உள்ள (10-நாட்கள்) வரையில் பிண்டோதகங்களைக் கொடுக்கவும்’ என்பது முதலிய, 10-நாட்களில் ஸமாப்தியைச் சொல்லும் வசநங்களொலாம், 3-நாட்களுள்தர்சம் வரும் விஷயத்தைப் பற்றியவை என்று அறியவும். ‘3-நாட்களுக்குப் பிறகு’ என்று காலவர் முதலியவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால்” என்று

अत्र चन्द्रिकादौ और सादिसर्वपुत्रसाधारण्येन अविशेषण व्यवस्थोक्ता । अन्यैस्तु पितृमेघसारकृदादिभिर्नवीनैर्व्यवस्थान्तर-मुक्तम्, पर्यवस्येत्यहात् परम् इत्यादीनि मातापितृविषयेऽपि त्रिरात्रादुत्तरं दर्शसम्बवे समाप्तिप्रतिपादकानि गालबादिवचनानि दत्तौरसपुत्रिकापुत्र व्यतिरिक्तगौणपुत्रकर्तृकोदकसमाप्तिपराणि । तोयं पिण्डं समाप्त्येत तद्विनेनौरसेतरैः, 'शोषाः सुतास्तत्र समाप्येयुः' इत्यादिभिः ऋहमध्ये दर्शसम्बवे तेषामपि पिण्डोदकसमाप्तने प्राप्ते पर्यवस्येत्यहात्परम् इत्यादीनि तद्विषयाण्येव व्यवतिष्ठन्ते । एवं च द्विचन्द्रदशनै दोषो मातापित्रोर्न विद्यते । मध्ये पिण्डसमाप्तिश्चेत् कुलक्षयकरी भवेत् । पित्रोस्तु यावदाशौचं दद्यात् पिण्डान् जलाञ्जलीन् इत्यादीनि त्रिरात्रादर्वाग्निविषयाणीति सङ्कोचोऽपि न कार्यः । तेन दशाहमध्ये त्रिरात्रादर्वाग्निं वा दर्शसङ्कमणसम्बवे पुत्र व्यतिरिक्तस्य कर्तुज्ञातीनां दर्शसङ्कमयोरेव समाप्तनम्, दत्तौरसपुत्रिकापुत्राणां पुत्रव्यतिरिक्तपुत्राणां त्रिरात्रादूर्ध्वं दर्शादौ सति समाप्तनम्, त्रिरात्रादर्वाग्निदशापाते तु तेषां न समाप्तनम्, दत्तौरसपुत्रिकापुत्राणां तु यदा कदा वा दर्शादौ सति न तत्र समाप्तनम्, किन्तु दशाह एव पिण्डोदकादिसमाप्तनम्, इति । यथोचितमिह द्रष्टव्यम् ।

இவ்விஷயத்தில்:- சந்தர்க்கை முதலிய க்ரந்தங்களில், ஒளரஸன் முதலிய எல்லாப் புத்ரர்களுக்கும் ஸாதாரணமாகவே, விசேஷமில்லாமல் வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்றப் பித்ரு மேதஸாரகாரர் முதலிய நாந்தர்களால் மற்றொரு வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது. 'பர்யவஸ்தேயத் தர்யஹாத்பரம்' என்பது முதலியதும், மாதா பிதாக்களின் விஷயத்திலும் 3-நாட்களுக்கு மேல் தர்சம் வந்தால் ஸமாப்தியைச் சொல்லுகின்றதுமான காலவாதி வசநங்கள், தத்தன்,

ஓளரஸன், புத்ரிகாபுத்ரன் இவர்களைத் தவிர்த்த கெளன்புத்ரர்கள் செய்யும் உதகதாந ஸமாப்தியைச் சொல்வதில் தாத்பர்யமுள்ளவைகள். 'தோயம் பிண்டம்', 'சேஷா: ஸ-தா: ' என்பது முதலாகிய வசநங்களால், 3-நாட்களுள் தர்சம் ஸம்பவித்தால், அவர்களுக்கும் பிண்டோதக ஸமாபநம் வருவதற்கு ப்ரஸக்தியிருக்க, 'பர்யவஸ்யேத் த்ரயஹாத்பரம்' என்பது முதலான வசநங்கள் அவர்களைப் பற்றியதாகவே நிற்கின்றன. இவ்விதமிருப்பதால், 'த்விசந்தர-', 'மத்யேபிண்ட-'; 'பித்ரோஸ்து'- என்பது முதலான வசநங்கள், 3-நாட்களுக்குட்பட்டதைப் பற்றியவை என்று ஸங்கோசமும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆகையால், 10-நாட்களுள், 3-நாட்களுக்கு முன்பாவது பின்பாவது தர்சம் ஸங்க்ரமணம் வந்தாலும், புத்ரனைத் தவிர்த்த கர்த்தா, ஜ்ஞாதிகள், இவர்கள், தர்ச ஸங்க்ரமணங்களிலேயே ஸமாப்தியைச் செய்யவேண்டும். தத்தன், ஓளரஸன், புத்ரிகாபுத்ரன் இவர்களைத் தவிர்த்த புத்ரர்கள், 3-நாட்களுக்கு மேல் தர்சம் முதலியது வந்தால் ஸமாப்தி செய்யவேண்டும். 3-நாட்களுக்குள் தர்சம் வந்தாலோ அவர்கள் ஸமாப்தி செய்யவேண்டியதில்லை. தத்தன், ஓளரஸன், புத்ரிகாபுத்ரன் இவர்களுக்கோவெனில் எப்பொழுது தர்சம் முதலியது வந்தாலும், அதில் ஸமாப்தி செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனால், 10-ஆவது நாளிலே தான் பிண்டோதக ஸமாபநம்' என்று. இவ்விஷயத்தில் உசிதமான பகுத்தை க்ரஹிக்கவும்.

ஜாதீநா் புத்ரே ஸह ஸமாபநமுக் ரத்தாவல்யாம் - ஸக்ளாந்திர்வாத ஦ஸோ வா மध்யே சேத் ஜாதி஭ி: ஸுத: | உடக் பிண்டான் ச ஦ஸாஹாந்தே ஸமாபயேத் இதி | தத்தாத்தாபி - கர்த் யதா ஸமாப்ஜாதி ததாநீ் து ஸபிண்டகா: | ஜாதி஭ிஸ்தத்ஸமாஸிஶ்வேந்மத்யே தேஷா் குலக்ஷய: இதி | ஸபிண்டகா: ஸமாப்ஜுரிதி ஶாஷ: |

ज्ञानुआठिकण्ठं, पुत्रं रन्तु चेऽन्तु उतक समापनम्
चेय्य वेण्णु देमन्तु लातु, रत्नवलीयिलः-
संन्करणमावतु तर्समावतु 10-नाटकगुणं वन्ताल
पुत्रं ज्ञानुआठिकगुटं उतकपिण्ट तानंकला 10-शुवतु
नालील मुष्टिक्कवम्. अव्वितम्, मर्गेणु कर्त्तत्त्विलः-
कर्त्तता एप्पेपामुतु मुष्टिक्किण्णु गेन, अप्पेपामुतु
ज्ञानुआठिकगुणम् मुष्टिक्क वेण्णुम्. अतर्कु मुनि अवर्कण
मुष्टित्ताल ज्ञानुआठिकलीं तुलम् क्षीज्ञामाकुम्.

पुत्रव्यतिरिक्तकर्त्तविषये ज्ञातीनां समापनमाह शङ्खः -
प्रथमेऽहन्यनारभ्य कर्ता सह तिलोदकम्। यदि पश्चाच्च कर्तार
स्तेऽन्तर्दर्शे तु सङ्कमे। कुर्यान्तिगते दर्शे सङ्कमे दशमेऽहनि इति।
अयमर्थः - प्रथमेऽहन्यनारभ्य कुर्वता कर्ता सह यदा ज्ञातयः
क्रियारम्भं न कुर्वन्ति, यदा च कर्तारः दशादिरूप्वं क्रियारम्भं
कुर्वन्ति, तत्रोभयत्र ज्ञातयोऽन्तर्दर्शाहे दर्शे सङ्कमे वा समापनं
कुर्याः, दशादूर्ध्वमारभ्य कुर्वता कर्ता सह न दशमेऽहनि इति।

पुत्रं रन्तु उतक समापनम् चेय्यतेतप पर्न्तिल
ज्ञानुआठिकण्ठं चेय्यतेतप पर्न्तिल
सेवालुकिरुर्संकराः- 'प्रतमेऽत्तमेवनि' एन्ऱु इन्त
स्तेलोकांकण्ठिलीं बेपारुलीतुः- "मुतल नालील
आरम्पिक्कामल = मुतल नालील आरम्पित्तुस चेय्यम्
कर्त्ततावुटं चेऽन्तु ज्ञानुआठिकण्ठं कर्तियारम्पत्तेतास
चेय्यातपक्षुत्तिलुम्, मुक्यकर्त्तताक्कण्ठं तर्सम
मुतवियतर्कुमेल कर्तियारम्पम् चेय्यम् पक्षुत्तिलुम्,
इन्त 2-पक्षुंकण्ठिलुम्, 10-नाटकगुणं तर्समावतु
संन्करणमावतु वन्ताल अतिल ज्ञानुआठिकण्ठं,
समाप्तियेच चेय्य वेण्णुम्. तर्सत्तिन्तर्कु मेल
आरम्पित्तुस चेय्यम् कर्त्ततावेऽनु, पत्तावतु तिनत्तिल
चेय्यक्कटातु." एन्ऱु.

स्मृत्यन्तरेऽपि - प्रथमेऽहनि कर्ता ये न कुर्वन्ति तिलोदकम्।
तैङ्गातिभिश्च दशादौ समाप्तेतौसेतैः इति। औरसेतैः कर्त्तुमिः

ஸஹ ஜாதிநான் ஸமாபனமித்யर्थः । ஸங்காஹே�பி – ஦शாஹமध்யே ஸங்காநாநை
பிரெதக்ர்மஸமாபனம् । ஸஹை ஜாதி஭ிஃ கார்யமௌரஸாந்யैஶ கர்த்துமிஃ இதி ।
பிரெதக்ர்மஸமாபனமித்யுக்தவாத் எகோத்தரவृத்திஶாஷ்ட் நவஶ்ராஷ்டமபி
தர்ஷேபக்ஷ்ய ஸமாபனநியமிதி கேசித् । அந்யே து – தோய் பிண்ட
ஸமாப்யேத தத்தினேநைர்ஸேதரை: இத்யாடி஭ிஃ பிண்டோடகயோரேவாபகர்ஷ-
ஸ்மரணாநாஸ்தி நவஶ்ராஷ்டபகர்ஷः, தத்தினேஷ்வேகாதஶே வா ஦ினே
நவஶ்ராஷ்டானி கர்த்துவானி, எகோத்தரவृத்தி ஶாஷ்டானி து அபக்ஷ்ய
ஸமாபனநியானி, ஶாஷ்டமேகோத்தர் வृத்தா கர்த்துவ் து ஦ினே ஦ினே ।
அக்வஸாநாஷ்டலிநான் து டிருஷ்ண ப்ரத்யஹ் பரே’ இதி பிண்டோடகோபக்ரமாவ-
ஸாநவிஶிஷ்டந்யாயாசேத்யாஹ: | ஶிஷாசாராதிஹ வ்யவस்஥ா ।

மற்றொரு ஸ்ம்ருதி யிலும்:- “முதல் நாளில் கர்த்தாவோடு சேர்ந்து திலோதகதாநம் செய்யாத
ஜ்ஞாதிகள் எவர்களோ, அந்த ஜ்ஞாதிகளும், தர்சம்
முதலியதில் உதக ஸமாபநத்தைச் செய்ய வேண்டும்,
ஓளரஸ்னைத் தவிர்த்த புத்ரர்களுடன், ஓளரஸ்னல்லாத
முக்யகர்த்தாக்களுடன். ஜ்ஞாதிகளும் ஸமாப்தி
செய்யவேண்டுமென்பது பொருள். ஸங்க்ரஹத்திலும்:-
ஓளரஸ்புத்ரனல்லாத முக்ய கர்த்தாக்கள், 10-நாட்களுள்
ஸங்க்ரமணம் வந்தால், ஜ்ஞாதிகளுடன் ப்ரேத கர்ம
ஸமாப்தியைச் செய்ய வேண்டும். இதில் ‘ப்ரேதகர்ம
ஸமாபநம்’ என்று சொல்லி இருப்பதால் ஏகோத்தரவ்ருத்தி
ச்ராத்தம், நவச்ராத்தம் இவைகளையும் அபகர்ஷித்து
(முந்தியே இழுத்து) தர்சத்தில் முடிக்க வேண்டு
மென்கின்றனர் சிலர். மற்றவரோவெனில் ‘தோயம்
பிண்டம் ஸமாப்யேத’ என்பது முதலிய வசநங்களால்,
பிண்டோதகங்களுக்கு மட்டில் அபகர்ஷம் சொல்லப்
பட்டிருப்பதால், நவச்ராத்தங்களுக்கு அபகர்ஷமில்லை.
அந்தந்தத் தினங்களிலாவது, 11-ஆவது தினத்திலாவது
நவச்ராத்தங்களைச் செய்ய வேண்டும். ஏகோத் தரவ்ருத்தி
ச்ராத்தங்களையோவெனில் அபகர்ஷித்துச் செய்ய

वेण्टुम्. 'स्रात्तमेऽकोत्तरम्+प्रत्ययैर्मप्परे' एन्ऱ वसन्तत्ताल्, पिण्डोत्तात्कन्कणीं आरम्प समाप्तिकर्णुटन् चेर्त्तुप् प्रत्तिरुप्पत्तालुम्, ऐन्नियोक्षिष्ट न्यायत्तालुम्, ऐन्किन्ऱनर्. चिष्टासारत्तालीत्तिल् व्यवस्त्ताय अर्थियवुम्. (ऐन्नियोक्षिष्ट वित्तिकप्पत्तुला 2-कार्यन्कर्णुल्, ऐन्त्त इट्तिलावतु औन्ऱ वित्तित्ताल् 2-क्कुम् वित्ति. औन्ऱ विलक्षिन्नुल् 2-क्कुम् विलक्षु ऐन्पत्ताम्.)

पाषाणोत्थापनक्रमः

पाषाणोत्थापनं दशाह एव कुर्यादित्याह शङ्खः - आदौ मध्ये तथाऽन्ते य उदकादि समापयेत् । स एव दशमे कुर्यात् पाषाणोत्थापनादिकम् इति । षट्त्रिंशन्मते - प्रेतकार्याणि सर्वाणि मध्ये यदि समापयेत् । तथाऽपि दशमेऽहंचेव पाषाणोत्थापनं स्मृतम् इति । प्रचेताः - उदकं पिण्डदानं चाप्यपकृष्य समापयेत् । उत्थापनं दशाहे स्यादन्यथा कुलनाशनम् इति । उत्थापनं प्रभूतबलिप्रदानस्याप्युपलक्षणम् ।

पाषाणत्तेत एक्कुम् मुण्ड

पाषाणत्तेत एक्कुप्पत्तेत, 10-आवतु नालीलेये चेय्य वेण्टुमेमन्किरुर् सन्कराः - आत्तियिलो, मत्यत्तिलो, अन्तत्तिलो एवन् उत्कमं मुत्तलियत्ते मुष्टिक्किन्नरुणे, अवने, 10-आवतु नालील पाषाणेत्तापन्त्तेत्तस्त्त चेय्य वेण्टुम्. षष्ठ्यत्तरीम्चन्तमत्तत्तिलः - प्रेरतकार्यन्कलेल्ला वर्त्तरेयुम्, नालीविल समाप्ति चेय्तालुम्, 10-आवतु नालीलेये पाषाणेत्तापन्त्तेत्तस्त्त चेय्य वेण्टुम्. प्रसेत्तस्त्तः - 'उत्कमं, पिण्डम् इवेकलै अपकर्ष्यम् चेय्तु मुष्टिक्कवुम्. पाषाणेत्तापन्त्तेत्त 10-आवतु नालील चेय्यवुम्. वेऱु वित्तमायस्त्त चेय्ताल तुलम्

நாசத்தையடையும்.” இதில் உத்தாபந மென்பது, ப்ரபுதபவி ப்ரதாநத்திற்கும் உபலக்ஷணம்.

யदாह ஸங்கார: – ஦शாஹமधை த்வத் ஦र்ஶீ ஆगते ஸமாபிதே கர்மணி பாரலௌகிகே | உத்஥ாபன் ஭ूதவலிர்஦ாஹ மधை கृதं சேத् குலநாಶஹेतு: இதி | ஸமृத்யந்தரே - அந்தர்஦ாஹ ஦ர்ஶஶ்ரேத் பிண்஡ஶேஷ் ஸமாபியேத் இதி | ஜாவாலி: - அந்தர்஦ாஹ ஦ர்ஶீ வா ஸங்கமே வா ஸமாப்ய து | வபன் ஶாந்திஹோம் ச ஦ஶாஹாந்தே ஸமாச்சரேத் | தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்தேந ஦ஶாஹ வபன் வி஦ு: இதி |

அதைச் சொல்லுகிறூர் ஸங்க்ரஹகாரர்:-
10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால், பாரலெளகிக கர்மத்தைச் செய்து முடித்தால், பாஷாஞேத்தாபநமும், ப்ரபுத பலிப்ரதாநமும் 10-ஆவது நாளில் செய்யப்பட வேண்டும். நடுவில் செய்யப்பட்டால், அது குலநாசத்திற்குக் காரணமாகும். மற்றொர் ஸ்மிருதியில்:- 10-நாட்களுள் தர்சம் வந்தால், மீதியள்ள பிண்டதாநத்தையும் முடிக்க வேண்டும். பாஷாஞேத்தாபநத்தையும், சாந்தி ஹோமத்தையும் 10-ஆவது நாளில் செய்யவும். ஜாபாலி:- 10-நாட்களுள், தர்சமாவது, ஸங்க்ரணமாவது வந்தால், உதகபிண்டங்களை ஸமாப்தி செய்து, பத்தாவது நாளில் வபநம் சாந்தி ஹோமம் இவைகளைச் செய்யவும். எவ்விதத்திலும் வபநம் 10-ஆவது நாளில் என்கின்றனர்.

ஜாதிநாமபி வபனமாஹ ப்ரசேதா: – ஜாதய: ஸஸ்மாத்வாக் கனிஷ்டா ஦ஶமேத்தனி | வாபயேயுஶ தே ஸர்வே கர்த்துமிஃ ஸஹ ஸர்வா இதி | ஶாந்திஹோமகாலே வபனமாஹாபஸ்தம்஬ோத்பி – நாபிதகர்மாணி ச காரயந்த ஏஷ ப்ரथமோத்தலங்கார: இதி | அந்தர்஦ாஹஸ்மாபனே கேஶவபனபூர்வகமேவோடக் கேயம், ப்ரத்யுஜ்ஜிதய: ஸர்வே க்ஷூர் கृத்வா திலோடகம் இதி ஸ்மரணாத், வபன் கृத்வா ஸ்தாவைகவந்தா ஜலாஜலீன் ஦த்ய: , இதி ப்ரசேத: ஸ்மரணாத், அகृத்வா வபன் மூ஢: ப்ரேதகர்ம ப்ரவர்த்தே |

उदकं पिण्डदानं च श्राव्यं चैव च निष्फलम् इति स्मरणाच्च । एवंचान्तर्दशाहसमाप्ते ज्ञातीनां प्रथमदिने कण्ठादुपरि वपनाकरणे तर्पणात् पूर्वं कर्तव्यमेव, दशमदिनेऽपि शान्तिहोमकाले शोषवपनं सर्वज्ञवपनं वा कार्यम् । बालादेः संस्कारादि प्रैतकृत्यं बालाद्याशौचनिरूपणे सविस्तरं प्रतिपादितम् ।

ज्ञातिकगुक्कुम् वपनत्तेताच्च शोल्लुकिरुर् प्रर्चेतुलः- 7-तृश्लेष्मुरैरक्कुट्टपट्टवरुम्, चिन्तियवरुमानं ज्ञातिकां लल्लोलारुम् 10-आवतु नावील्, मुक्यकर्त्ताक्कगुट्टनं वपनम् चेय्तु केाल्लोवेण्टुम्. शान्तिलोहाम् कालत्तिल् वपनत्तेताच्च शोल्लुकिरुर् आपस्तुम् यारुम्:- वयनत्तेतायुम् चेय्तु केाल्लोवेण्टुम्. इतु मुक्कियमानं अलंकारम्. 10-नाट्कगुरुं उतकलमापनम् चेय्वताग्नेल्, वपनम् चेय्तु केान्नट प्रिरके उतकतानम् चेय्यवेण्टुम्. “ज्ञातिक लेल्लोलारुम् केषुलारम् चेय्तु केान्नु तिलोतकतानम् चेय्य वेण्टुम्” एन्ऱु स्मंरुतियिरुप्पतालुम्, ‘वपनम् चेय्तु केान्नु स्नानम् चेय्तु, ओरु वस्त्रमुट्टयवर्कलाय उतकतानम् चेय्य वेण्टुम् एन्ऱु प्रर्चेतस्लिन् स्मंरुतियालुम्, ‘अर्धियातवन्, वपनम् चेय्तु केाल्लोमाल् प्ररेतकर्मत्तेताच्च चेय्ताल्, उतकम्, पिण्टताकम्, चरात्तम् इवेवयेलाम् निष्पलमाकुम्’ एन्ऱु स्मंरुति इरुप्पतालुम्. इववितमिरुप्पताल्, 10-नाट्कगुरुं समाप्ति चेय्युम् विषयत्तिल्, ज्ञातिकां मुतल् नावील् कमुत्तिन्त्रिकुमेल् वपनम् चेय्तु केाल्लोवे वेण्टुम्. 10-आवतु तिन्तत्तिलुम्, शान्तिलोहाम् कालत्तिल् चेषु वपनमावतु लर्वाङ्कवपनमावतु चेय्यप्पत वेण्टुम्. पालर मुतवियवर्कु लम्स्कारम् मुतविय प्ररेतकरुत्यम्, पालात्याचेसास निरुपन्तत्तिल् विरिवायस् शोल्लप पट्टतु.

අන්තර්ද්‍රාහාගතප්‍රච්චිතයේ පාරස්කර: - ප්‍රාංච්‍යාසන්ධානේ ය: පිණ්ඩදානේ ප්‍රවර්තිතී | තත්සන්ධානේ ප්‍රවුත්තොටපි ස ත්‍යාජ්‍ය: පිණ්ඩද: සුත: ඇති | සමුත්‍යන්තරොටපි - මූශ්‍යකර්ගමේන්ස්තු ප්‍රවුත්තොටපි ක්‍රියා ත්‍යැංශෙතු | තත්ස්තු කර්ම කුර්වා සංස්කර්තා විසුජේත්ත: | ප්‍රාංච්‍යාසන්ධානේ පිණ්ඩ නෞත්‍යාප්‍රච්චාදන තත්තා | නවජ්‍යාප්‍රදානාදී සර්ව කර්ම සමාචරේතු ඇති |

පත්තු නාට්‍යාලුණ් බන්ත ප්‍රත්‍රණ බිජ්‍යත්තිල්

පාර්ශ්වකරා: - ප්‍රත්‍රණ මැන්ත්‍රිතියිල් මූල්‍යාත්තාල, මර්දුගුරුවන් පිණ්ඩතානත්තිල් ප්‍රරවර්ත්තිත්තුස් ජේය්තු කොණ්ඩරුක්කුම් පොයුතු, ප්‍රත්‍රණ බන්තුවිට්ටාල, මුණ්ප්‍රාංච්‍යතවන් බිට්ටුවිට වෙන්නුම්. ප්‍රත්‍රණ පිණ්ඩතාත්‍යාසික්කැක කොටුක්කවෙන්නුම්. ඉරු ස්මේරුතියිල්: - මුක්‍රාකර්ත්තා බන්තු බිට්ටාල, කරියායායිල් ප්‍රරව්‍යුත්තිත්තිරුන්තව ගෙයිනුම්, මර්දවන් කරියායායා බිට්ටුවිට වෙන්නුම්. ප්‍රත්‍රණ කරියායායාස් ජේය් වෙන්නුම්. මෙම්ස්කාරම් ජේය් අන්යන් බිට්ටුවිට වෙන්නුම්. ප්‍රත්‍රණ මරුපයි තිලොත්තකම්, පිණ්ඩම්, න්‍යක්නපර්ස්චාතනම්, නවස්චාත්තම් මුතවිය කර්මංකඩොලාවත්ත්‍රයුම් ජේය් වෙන්නුම්.

ශ්‍රීධරීයේ - ද්‍රාහකර්මණ්‍යාරඛධේ සංස්කාරාදැ කනීයසා | ජ්‍යෙෂ්ඨ යසත්‍යන්තරාගච්චේතු සොටස්‍ය ජෝෂ සමාපයෙති ඇති | කනිෂ්ඨෙන සොදරෙණ බිජ්‍යාදරෙණ වා දාහාදිප්‍රේතකුත්‍යේ ආරඛධේ සංච්‍යාතු පුර් පරන් වා ආගතො ජ්‍යෙෂ්ඨප්‍රාංච්‍ය: කනිෂ්ඨකුත්‍යා ප්‍රේතකුත්‍යා ජෝෂ කුරාදිත්‍යර්ථ: | තත්‍ර සංච්‍යාතු පුර්මාගත්තේතු, ඔසකේෂ: සංච්‍යන මතිතකාලොදක- පිණ්ඩංච් ඇකදා කුත්‍වා තත්ස්තාත්කාලිකපිණ්ඩොදක නවජ්‍යාධේ- කොධිඛාන්ත ස්වස්වකාලේ කුත්‍වා ද්‍රාද්‍රාහේ සාපිණ්ඩච් ඡ කුරාතු | සංච්‍යාත්පරමාගත්තේතිතකාලොදකපිණ්ඩමේකදා ද්‍රාත්කාලික- පිණ්ඩොදකාධේකොධිඛාන්ත ස්වස්වකාලේ කුත්‍වා ත්‍රාවණදිනමාර්ම්‍ය

दशाहाशौच मनुष्याय अनन्तर मावृत्ताद्यमासिकादीन्युक्तकाले
कृत्वा त्रिपक्षादौ सापिष्ठ्यं कुर्यात्, न छादशाहे, तत्र
तस्याशौचसञ्चापात्।

प्रार्थ तर्तीयत्तीलः— “लम्बकारम् मुतलिय 10-नालौ
कर्तिययेकं कनिष्ठं पुत्रं आरम्पित्त प्रिऱकु, नालिलं
ज्ञेयेष्ट पुत्रं वन्तालं अवन्, कनिष्ठं चेयतक्तिलं
मेतियुलं लालेत्तकं चेयतु लमाप्ति चेयय वेण्टुम्”。
पिण्डेत्तरान्, अल्लतु लहोत्रानुने कनिष्ठं लाले
तहनम् मुतलाकिय प्रेरतकरुत्यम्
आरम्पिक्कप्पट्टिरुक्केयालि, लग्नस्यन्तत्तिरु
मुन्पावतु, पिण्डपावतु वन्तत ज्ञेयेष्ट पुत्रं,
कनिष्ठं लाले चेययप्पट्ट प्रेरतकरुत्यत्तिलं मेतियेकं
चेयय वेण्टुमेलंपतु लेपारुल. अवलिष्यत्तिलं,
लग्नस्यन्तत्तिरु मुन्पु वन्तानुकिलं, अवन् वपनम्
चेयतु केण्टु, लग्नस्यन्तत्तेयुम्, लेण्ऱ कालंकलीलं
चेयय वेण्टिय उतकपिण्ट तानंकलीयुम्
अप्पेपामुदेते चेयतु, प्रिऱकु अन्नू चेयय वेण्टिय
पिण्टम्, उतकम्, नवस्रात्तम् मुतलियते
एकोत्तिष्ठं वरेयालि अन्तन्तकं कालत्तिलं, चेयतु
12-आवतु नालीलं लापिण्टयत्तेयुम् चेयय वेण्टुम्.
लग्नस्यन्तत्तिरुप्रिऱकु वन्ताल, लेण्ऱ कालंकलीलं
चेयय वेण्टिय उतकपिण्टनंकली अप्पेपामुदेते
केण्टुत्तु, अन्नैरय पिण्डेत्तोतकतानम् मुतलं
एकोत्तिष्ठं वरेयालुलं लालेत्त अततान् कालत्तिलं
चेयतु, केलंविप्पट्ट नालं मुतलं 10-नालं वरेयालि
आशेलासत्तेत अनुष्टित्तु, प्रिऱकु आवरुत्ततात्य
मालीकम् मुतलियवेकली, लेलंलिय कालत्तिलं चेयतु,
तरीपक्षम् मुतलिय कालत्तिलं लापिण्टयत्तेत्तकं चेयय
वेण्टुम्. 12-आवतु नालीलं चेययकं कूटातु. अन्नू
अवलुक्कु आशेलासमिरुप्पताल.

तथा च स्मृत्यन्तरम् – शृणोत्यनिर्दशं पुत्रः पित्रोस्तु मरणं
यदि । मृताहात् प्रेतकार्यं स्यात् तस्य शुद्धिर्दशाहतः इति ।

दशाहमध्ये सञ्चयादूर्ध्वं यदि पितृमृतिं शृणोति तद्विषयमिदं
दशाहाशौचम्, पित्रोर्मृतौ चेद्वूरस्थः श्रुत्वा पितृविपर्ययम् । पुत्रः
शुद्धचेदशाहेन सञ्चयात् प्राक्तु शेषतः इति स्मरणात् । अन्येन
संस्कारे कृते सञ्चयात् पूर्वमागतः पुत्रः पुनर्दर्हादि सर्वं कृत्वा
दशाहशेषेण शुद्धचेत्, कनिष्ठेन कृते दाहे न पुनर्दर्हः, सञ्चयादि
सर्वं कृत्वा शेषैव शुद्धचेत् ।

ஒரு ஸ்ம்ருதியில்:- “புத்ரன், மாதாபிதாக்களின் மரணத்தை, 10-நாட்களுள் கேள்விப்பட்டால், இறந்த நாள் முதலாகவே ப்ரேத க்ருத்யம் செய்யப்படவேண்டும். கேட்டது முதல் 10-நாட்களுக்குப் பிறகு புத்ரனுக்குச் சுத்தி”. 10-நாட்களுள், ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு, மாதாபித்து மரணத்தைக் கேட்டவனின் விஷயத்தைப் பற்றியது இந்த 10-நாளாசௌசம். “தூரதேசத்திலுள்ள புத்ரன், மாதாபித்து மரணத்தைக் கேள்விப்பட்டால், (அதுமுதல்) 10-நாட்களால் சுத்தனாவான். ஸஞ்சயநத்திற்கு முன் கேட்டால், மீதியுள்ள தினங்களாலேயே சுத்தனாவான்” என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது. அன்யனால் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸஞ்சயநத்திற்கு முன் வந்த புத்ரன், புநர்தலைநம் முதலிய எல்லாவற்றையும் செய்து, 10-நாட்களின் மீதியுள்ள காலத்தாலேயே சுத்தனாவான். கநிஷ்டன் தாலும் செய்திருந்தால் புநர்தலைநமில்லை. ஸஞ்சயநம் முதலிய எல்லாவற்றையும் செய்து, மீதியுள்ள நாட்களாலேயே சுத்தனாவான்.

तदुक्तं स्मृतिरन्ते – अन्येन यस्य संस्कारः कृतस्तस्यात्मजः
पुनः । कुयदिव यथाशास्त्रमन्यथा किलिषी भवेत् इति । देवलश्च –
पुनर्दहनमारभ्य श्राद्धान्तं पैतृमेधिकम् । कृत्वाऽन्ते प्रेतरूपस्य
सपिण्डीकरणं चरेत् इति । अत्र पुनर्दहौ चिताग्निनाशो
तदनुगतप्रायश्चित्तविधिनाऽग्निमुत्पाद्य पुनर्दहन-विधिना अस्थ्यादि
संस्कृत्य एकादशाहे एकोद्दिष्टं छादशाहे सपिण्डीकरणं च

**कुर्यादित्यर्थः । समृत्यन्तरेऽपि- मन्त्रवत् संस्कृतस्यापि
ह्यसमाप्तोदकस्य च । अस्थिसञ्चयनादर्वाक् पुनर्दाहो विधीयते ।
अस्थिसञ्चयनादूर्ध्वमिसमाप्तोदकस्य तु । पुनर्दाहं विना तत्र
पिण्डादानोदकक्रिया इति ।**

அவ்விதம் செரல்லப்பட்டுள்ளது ஸ்ருதிரத்தினத்தில்:- அன்யனால் எவனுக்கு ஸமஸ்காரம் செய்யப்பட்டதோ, அவனுடைய புதரன், மறுபடி ஸமஸ்காரத்தை விதிப்படி செய்யவே வேண்டும். இல்லாவிடில் தோஷமுடையவனோன். தேவெலரும்:- “புநர்தஹநம் முதல் சராத்தம் வரையிலுள்ள பித்ருமேதக்ரியையைச் செய்து, முடிவில் ப்ரேதரூபனை பிதாவுக்கு ஸபின்மைகரணத்தைச் செய்யவும்” என்றார். இவ்விஷயத்தில் புநர்தஹநத்தில், சிதாக்ணி நஷ்டமாயிருந்தால், அநுகதப்ராயச்சித்த விதியால் அக்னியை உண்டுபண்ணி, புநர்தஹந விதியால் அஸ்தி முதலியதின் ஸமஸ்காரத்தைச் செய்து, 11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மைகரணத்தையும் செய்ய வேண்டு மென்பது பொருள். மற்றொரு ஸ்ருதியிலும்:- மந்த்ரங்களுடன் ஸமஸ்காரம் செய்யப்பட்டவனுக்கும், அஸ்திலஞ்சயநத்திற்குள் உதகதான ஸமாப்தி ஆகாவிடில் புநர்தஹநம் விதிக்கப்படுகிறது. அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு உதகதாந ஸமாப்தி ஆகாமலிருந்தால், புநர் தஹநம் தவிர பின்டோதகதாந க்ரியை மட்டில்.

अन्यत्रापि - अस्थिसञ्चयनादर्वागागतो यदि पुत्रकः ।
 ततस्तु कर्म कुर्वीत संस्कर्ता विसृजेत्तदा । विसृष्टो भोजयित्वाऽन्ते
 ब्राह्मणांश्च विशुद्ध्यति इति । कर्म - पुनर्दहनादिकम्, अन्ते -
 संस्कर्तुः स्वाशौचान्ते विसृष्टः शुद्ध्यर्थं ब्राह्मणान् भोजयेदित्यर्थः ।
 अर्थादिन्येन संस्कारे संचये च कृते संचयात् परमागतेन पुत्रेण
 दाहादि न कार्यम्, अतीतपिण्डोदकदाननग्नप्राच्छादनादिकमव-

ஶிஷ்டிநப்ரேதகृत्यं ச கार्यमित्युक्तं ஭वति । அन्येन कृते दाहे
संचयात् पूर्वमागतोऽपि पुत्रव्यतिरिक्तो मुख्यकर्ता पुनर्दर्हित् न
कुर्यात्, किं तु संचयनोदकाद्येव कुर्यात्, पुनर्दर्हित्रियाः सर्वा
मातापित्रोर्विशेषतः । इतरेषां च सर्वेषां पुनर्दर्हस्तु नेष्यते इति
पराशारस्मरणात् ।

மற்றெருஞ ஸ்ம்ருதியில்:- “அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திற்கு
முன் புத்ரன் வந்து விட்டால், அவன் (ப்ரேரத) கர்மத்தைச்
செய்யவும். ஸம்ஸ்காரம் செய்தவன் விட்டு விடவும்.
விட்டு விட்டு அவன் முடிவில் ப்ராம்ஹணர்களைப் புஜிக்கச்
செய்தால் சுத்தனைகிறுன்.” இதிலுள்ள ‘கர்ம’ என்பதற்கு,
புநர்தஹநம் முதலியது என்று பொருள். ‘அந்தே’
என்பதற்கு, தனது ஆசௌர்சாந்தத்தில் என்பதாம்.
விட்டவன் தனக்குச் சுத்திக்காக ப்ராம்ஹணர்களைப்
புஜிக்கச் செய்ய வேண்டுமென்பது பொருள். இதன்
பொருளால், அன்யன் ஸம்ஸ்காரத்தையும்
ஸஞ்சயநத்தையும் செய்த பிறகு, ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு
வந்த புத்ரனால் தஹநம் முதலியது செய்யப்பட
வேண்டியதில்லை. சென்ற பிண்டோதகதாநம்,
நக்நப்ரச்சாதநம் முதலியதும், மீதியுள்ள தினங்களில்
செய்ய வேண்டிய க்ருத்யமும் செய்யப்பட வேண்டும்,
என்று சொல்லப்பட்டதாகிறது. அன்யனால் தஹநம்
செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸஞ்சயநத்திற்கு முன் வந்தாலும்
புத்ரனால்லாத முக்ய கர்த்தா புநர் தஹநத்தைச் செய்யக்
கூடாது. ஆனால், ஸஞ்சயநம் உதகதாநம் முதலியதையே
செய்ய வேண்டும். ‘புநர்தஹநம் முதலிய
க்ரியைகளைல்லாம் மாதா பிதாக்கள் விஷயத்திலேயே.
அவர்களைத் தவிர்த்த மற்றவர்களைல்லோருக்கும்,
புநர்தஹநம் விதிக்கப்படுகிற தில்லை’ என்று பராசர
ஸ்மருதி இருப்பதால்.

असपिण्डादिदाहकानां मुख्यकर्तृसमागमे विधिः ।

असपिण्डेश्वेदाहकर्ता तस्य संचयनात् पूर्वं मुख्यकर्तृसमागमे सति अनन्तरमाशौच मुदकदानं च नास्ति, संचयनात् परं मुख्यकर्तृदर्शने प्रेतान्ब भोजने दशाहेमाशौचमुदकदानं च कार्यम् । पक्षिण्याशौचिनस्तु असपिण्डदाहे संचयात् पूर्वं मुख्यकर्तृदर्शने त्रिरात्राशौचम्, संचयनानन्तरं तद्वशने दशारात्रमाशौचमुदकदानं चास्ति । समानोदकादिषु त्रिरात्राशौचिषु, सपिण्डेषु वा दहनकर्तृषु सत्सु संचयनात् पूर्वं परं वा मुख्यकर्तृदर्शने दशाहेमाशौच मुदकदानं च भवति, अन्यत् सर्वं निवर्तते । अत्र संवादवचनानि ।

मुक्यं कर्त्तता वन्तुविट्टालं, ज्ञातियल्लातवरं मुतवियताहरकर्त्तताकंकणीं मुरै - ज्ञातियिल्लातवनं तहरनम् चेय्तवगुकिलं अवनुक्कु, लग्नुसयन्ततिर्तिर्तु मुनं मुक्यं कर्त्तता वन्तुविट्टालं, पिऱकु आ॒ चेसाचमुम्म, उतकत्तानमुम्मिलै. लग्नुसयन्ततिर्तिर्तुपं पिऱकु मुक्यं कर्त्ततावेवकं कण्टालं आ॒ चेसाचान्नपोज्जनम् चेय्तिरुन्तालं, 10-नालाचेसाचमुम्म, उतकत्तानमुम्मिलै. पक्षीन्याचेसाचिकं केऽवेवनीलं अ॒ लपिण्ट तहरन विष्ययत्तिलं, लग्नुसयन्ततिर्तिर्तु मुनं मुक्यं कर्त्ततावेवप्पं पार्त्ततालं 3-नालाचेसाचम्म. लग्नुसयन्ततिर्तिर्तुपं पिऱकु मुक्यं कर्त्ततावेवप्पं पार्त्ततालं 10-नालाचेसाचम्म, उतकत्तानमुम्मिलै. लमानेनोत्तरकर्कणं मुतविय त्तरीरात्तराचेसाचिकलावतु, लपिण्टर्कलावतु तहरनम् चेय्तवर्कलाकिलं, लग्नुसयन्ततिर्तिर्तु मुनंपो, पिण्पो, मुक्यं कर्त्ततावेवप्पं पार्त्ततालं, 10-नालाचेसाचमुम्म उतकत्तानमुम्मिलै. मर्त्तवेव निवर्ततिकिंरन. इतर्तु अनुकूलमानं वसन्नन्कलावन.

मनुः - असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निर्हत्य बन्धुवत् । अनदन्नमहैव न चेत्स्मिन् गृहे वसेत् । यद्यन्नमत्ति तेषां यः स दशाहेन शुद्धयति इति । शङ्खः - त्यहं तु योनिबन्धूना माशौचं

தஹாடிஷு இதி । ஆಶௌசமுடகஸ்யாப்யுபலக்ஷணம्, யாவடாஶௌच-
முடகம் இதி ஸ்ஸ்கர்த்ருஷ்கடாநஸ்மரணாத् । ஸ்மृத்யந்தரேஓபி – அஜாதிஂ
ச நர் ஦ஷ்வா திரானமஶுசி஭வேத् । ஜாதிநா் ஦ர்ணாஞ்ஜுஷிஃ ஸ்சிதே
தஶராத்ரகம் இதி ।

மனு:- ப்ரராம் ஹணன், ஸபின்டனல் லாத
ப்ரராம் ஹணனை பந்து போல் நிர்ஹரித்தால் (தஹித்தால்) அந்த க்ருஹத்தில் வளிக்காமலும், ஆசெளச்யன்னத்தைப்
புஜிக்கமாலுமிருந்தால் ஒரு தினத்தாலேயே சுத்தனாவான்.
ஆசெளசியின் அன்னத்தைப் புஜித்தால், அவன் 10-நாட்களுக்குப் பிறகு சுத்தனாவான். சங்கர்:-
யோநிபந்துக்களை (பக்ஷின்யாசெளசிகளை) தஹிப்பது
முதலியதைச் செய்தால் 3-நாளாசெளசம். இதில்
ஆசெளசமென்பது உதகத்தையும் சொல்லுகிறது.
'ஆசெளசமுள்ளவரையில் உதகதாநம்' என்று ஸம்ஸ்காரம்
செய்தவனுக்கு உதகதாநம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொர்
ஸம்ருதியிலும்:- ஜ்ஞாதியில்லாத (யோநி பந்துவான்)
மனிதனைத் தஹித்தால், 3-நாளாசெளசம். முக்கிய
கர்த்தாவைப் பார்த்தபிறகு சுத்தனாகிறுன். அவன்
ஸஞ்சயநம் செய்துவிட்டால் 10-நாளாசெளசம்.

மாண்பு: - ஶாவே ச ஸ்துகே சைவ த்யஹாடுக்கடாயினः ।
ஶாவாஹ் து குர்யசீத் ஦ஶாஹாந்த் ஭வேத் கியா இதி । மராஜः - யः
ஸமாநோदகं பிரேत் வஹேஷாத் ஦ஹேது வா । தஸ்யாஶௌசं ஦ஶாஹ் ஸ்யாத்யேஷா
து த்யஹ் வி஦ுः இதி । அந்யேஷா - யோனி஬ந்஧நாமித்யர्थः । ஗ृஹபரिशිषே
- அஸ்஗ோத्रः ஸகோத்ரோ வா யதி ஖ீ யதி வா புமாந् । பிரதமேஹனி யः
குர்யात् ஸ ஦ஶாஹ் ஸமாபயேத் இதி । ஦ஶாஹமध்யே முख்யகர்த்யாగிதேஓபி
தௌஹிதः ஸமாநோदகாடிஃ ஸபிண்஡ோ வா ஸ்ஸ்கர்த்தா ஦ஶாஹமுடகமாந்
ஸமாபயேத் । பிண்ணாடிகமந்யத் ஸ்வ விஸுஜேதித்யர्थः । அதः ஸ்ஸ்கர்த்தா
விஸுஜேத்தः இத்யநேநாஸ்ய ந விரोධः ।

மாண்டவ்யர்:- ஸமாநோதகனுக்கு, மரணத்திலும், ஜநநத்திலும் 3-நாளாசெளசம். ஸமாநோதகனின் சவத்தைத் தவித்தால் 10-நாளாசெளசம். பரத்வாஜர்:- எவன் ஸமாநோதக ப்ரேதத்தைச், சுமக்கின்று, மற்றவர் விஷயத்தில் 3-நாளாசெளசம். அவனுக்கு 10 நாட்களா செளசம். மற்றவர் விஷயத்தில் = பக்ஷிண்யாசெளசிகளான யோநிபந்துக்கள் விஷயத்தில், என்று பொருள். க்ருஹ்யபரிசிஷ்டத்தில்:-

“ஸகோத்ரனல்லாதவனே, ஸகோத்ரனே, ஸதரீயோ, புருஷனே, முதல் நாளில் எவன் கர்த்தாவாகிறு, அவன் 10-நாட்களுள் முக்ய கர்த்தா வந்தாலும், தெளவித்ரன், ஸமாநேதகன் முதலியவன், ஸபிண்டன் யாராயினும், ஸம்ஸ்காரம் செய்தவன், 10-நாட்கள் வரையில் உதக தாநத்தை மட்டில் செய்து முடிக்க வேண்டும். பிண்டம் முதலிய மற்ற எல்லாவற்றையும் விட வேண்டும்: என்பது பொருள். ஆகையால் ‘ஸம்ஸ்கர்த்தா விஸ்ருஜேத்தத:’ என்ற வசநத்துடன் இந்த வசநத்திற்கு விரோதமில்லை.

तथा च पारस्करः - पुत्रो भ्राताऽथ शिष्यो वा अन्यो वा ब्राह्मणः सदा । प्रथमेऽहनि यः कुर्यात् कुर्यादिवाप्प्रदानतः । एतैरारब्धपिण्डयि यद्यागच्छन्ति वै सुताः । तेऽपि कुरुस्तु पूर्वोपि पिण्डदानं जलं तथा इति । पुत्रः - कनिष्ठपुत्रः, अन्यो वा सपिण्डसमानोदकादिः, अपां प्रदानं - अप्प्रदानम्, आ अप्प्रदानात् - आप्प्रदानतः, अभिविधावाकारः । दशमदिने देयोदकदानपर्यन्तमिति यावत् । पूर्वोपि पिण्डदानम् - संस्कर्ता पूर्वदत्तानां पिण्डानां दानम्, तथा जलम् - तिलवारि । एतदुक्तं भवति - कनिष्ठपुत्रादिः संस्कर्ता स्वस्वाङ्गौचपर्यन्तं मुख्यकर्त्तागमे अप्युदकमात्रं दद्यात्, अन्तरसमागतो मुख्यकर्ता तु अतीतदिनविहितोदकपिण्डानेकदा दत्वा तात्कालिकानि शेषाणि प्रेतकार्याणि च तत्त्वाले कुर्यात् इति ।

பாரஸ்கரர்:- “புத்ரனே, ப்ரராதாவோ, சிஷ்யனே, அன்ய ப்ராம்ஹணனே, முதல் நாளில் எவன் தஹநம் செய்தவனே அவன் பத்து நாள் வரையில் செய்யவே வேண்டும். இவர்கள் பிண்டதாநத்தை ஆரம்பித்துச் செய்து கொண்டிருக்கும் போது, புத்ரர்கள் வந்தால், அவர்களும், முன் கொடுக்கப்பட்ட பிண்டங்களையும், உதகத்தையும் கொடுக்க வேண்டும்.” இவ்விடத்தில் மூலத்திலுள்ள புத்ரன் என்பவன் கனிஷ்டபுத்ரன் என்று பொருள். அன்யன் என்பதற்கு ஸபிண்டன் ஸமானேதகன் முதலியவன் என்று பொருள். ‘ஆப்ரதாநதः’ என்பதற்கு, 10-ஆவது தினத்தில் கொடுக்கவேண்டிய உதகதாநம் முடியும் வரையில் என்பது பொருள். பூர்வோப்த பிண்டதாநம் - ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனால் முன் கொடுக்கப்பட்ட பிண்டதாநத்தை. ஜலம் - திலோதகத்தை என்று பொருள். இந்த வசநத்தால் இவ்விதம் சொல்லியதாகிறது:- “கனிஷ்டபுத்ரன் முதலிய ஸம்ஸ்கர்த்தா, தன் தன் ஆசௌசமுள்ள வரையில், முக்ய கர்த்தா வந்து விட்டாலும், உதக தாநத்தை மட்டில் செய்ய வேண்டும். நடுவில் வந்த முக்ய கர்த்தாவோவை வனில், சென்ற தினங்களில் விதிக்கப்பட்ட உதக பிண்டங்களை அப்பொழுதே கொடுத்து, பிறகு அந்தந்தக் கினங்களில் செய்யவேண்டிய ப்ரேத கார்யங்களை, அந்தந்தக் காலங்களில் செய்யவேண்டும்” என்று.

ननु तेऽपि कुर्युस्तु पूर्वोमपिण्डदानं जलं तथा इति
पारस्करवचनस्य ज्येष्ठो यस्त्वन्तरागच्छेत् सोऽस्य शोषं समापयेत्
इति श्रीधरीयवचनेन विरोध इति चेन्मैवम्, श्रीधरीयवचन-
प्राप्तातीतपिण्डोदकदाननिषेधस्यार्थिकत्वेन दौर्बल्यात् तेऽपि कुर्युः
इति पिण्डोदकदानस्य कण्ठोक्तत्वेन प्राबल्यात् उत्तरीयशिलापात्र-
द्रव्यकर्तृविपर्यये । पूर्वदत्ताङ्गलीन् पिण्डान् पुनरित्याह गौतमः इति
कर्तृविपर्यये दत्तपिण्डोदकानां पुनर्विधानाच्च ।

ஓய் ! 'நடுவில் வந்த புதர்களும், ஸம்ஸ்கர்த்தாவினால் முன் கொடுக்கப்பட்ட பிண்டோதகங்களைக் கொடுக்க

वेण्णुम्' एन्न पारस्करवसन्ततिर्कु, 'नुविलं वन्त
ज्ञयेष्टनं, मित्रियेच चेय्तु मृष्टिक्क वेण्णुम्' एन्न मृ
तरीयवसन्ततुटनं विरोतम् वरुकिर्ते' एनीलं, इववितम्
सेवाल्लक्ष्मीता तु. एनीलं, मृतरीयवसन्तता ल
किटत्त, अतीत धिन्नेटोतकता न निषेष्ठम्
आर्तत्तिकमाक्षियता ल (तोर्त्रप्पत्तेवता ल) तुर्प्पलमा
यिरुप्पत्तालुम्, 'अवर्करुम् चेय्यवेण्णुम्' एन्न
धिन्नेटोतक ता नम् स्पष्टमायेच चेवाल्लप
पट्टिरुप्पत्ता ल, प्रपलमाक्षियता लुम्, 'उत्तरीय +
केळातुमः' एन्न वसन्तता ल कर्त्तता वीनं मारुतवीलं, मुनं
केकाटुक्कप्पत्त पिन्नेटोतकन्कैना मरुपदि चेय्युम्पदि
वित्तियिरुप्पत्तालुम्.

यत्तु शातातपवैचनम् - अन्यगोत्रोऽप्यसर्बन्धः प्रेतस्याग्नि
ददाति यः । उदकं पिण्डदानं च स दशाहं समापयेत् इति । तस्यार्थः
- दशाहनिर्वत्तनीयं पञ्चसप्ततिसङ्ख्याकमुदकं पिण्डदशकं च
मुख्यकर्त्रमावे स्वशौचान्ते समापयेत् । यद्वा, प्रेतान्भोजने सति
दशाहे उदकादि समापयेदिति ।

आगुलं, चातातपारः:- 'वेऱु कोत्तर
मुट्टेयवाणुयिनुम्, लम्पन्तमिल्लातवाणुयिनुम्,
प्रेरेतनुक्कु अक्कनि ता नम् चेय्तवनं एव गेन, अवनं
10-नां वरायीलं उत्क पिन्नेटन्कैलाक्क केकाटुक्क
वेण्णुम्' एन्न चेवाल्लियूलारे एनीलं, अतर्त्तुप
पेऊलं इववितमः:- 10-नाट्कैलीलं मृष्टिक्कवेण्णिय
75-उत्काञ्जुविकैलायम्, 10-पिन्नेटन्कैलायम्, मुक्य
कर्त्तता इल्लावीयिलं, तनतु आकेळासत्तिनं मृष्टिवीलं
चेय्तु मृष्टिक्क वेण्णुम्, एन्न. अल्लतु प्रेरेतान्न
पोज्जनम् चेय्ता ल 10-नाट्कैलीलं उत्कता नम् मुतवीयते
समाप्तिचेय्य वेण्णुमेन्न.

अत एव स्मृत्यन्तरम् - असपिण्डो यदि दहेद् द्वितीये
त्वस्थिसंचयः । एकोद्दिष्टं तृतीयेऽहि मरणात् विधीयते इति ।

अस्थिसंचयनग्रहणं तिलोदकादेरप्युपलक्षणम् । एतच्च
प्रेतान्नभोजनरहितासपिण्डविषयम्, यः प्रमीतमलंकुर्याद्वैद्वाऽथ
दहेद्विजम् । स शुद्धचत्येककालेन कालशेषं बहिर्वसन् । ग्रामे वसन्
दिनाच्छुद्धचेत्यहात् प्रेतगृहे वसन् । निर्हत्य यो मृतान्नं च भुज्ञे स तु
दशाहतः इति स्मरणात् । ग्रामे वसन् दिनाच्छुद्धचेदित्येतत्
दहनानन्तरं मुख्यकर्तृसमागमे सति सञ्चयादिप्रेतक्रियायाः अकरणे
वेदितव्यम् । मुख्यकर्तृभावे प्रेतक्रियायाः करणे तृतीयदिन-
विहितैकोद्दिष्टेन शुद्धिः, एकोद्दिष्टान्त एव स्यात् संस्कर्तुः शुद्धता
त्वधात् इति बोधायनेन संस्कर्तुरेकोद्दिष्टान्तकरणेनैव
शुद्धिस्मरणात् । प्रेतान्नभोजने तु दशाहतः शुद्धिः क्रिया चेति
इत्यम् ।

மற்றெருகு ஸ்ம்ருதி:- ‘ஸபின்டனல்லாதவன் தஹநம் செய்தால் 2-ஆவது நாளில் அஸ்தி ஸஞ்சயநம். 3-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டம்’ என்கின்றது. அஸ்தி ஸஞ்சயநம் என்று, திலோதகம் முதலியதையும் சொல்லுகிறது. இது ப்ரேதான்ன போஜநம் செய்யாத அஸபின்டனைப் பற்றியது. ‘எவன் ப்ரேதனை அலங்கரிக்கின்றானே, அல்லது சுமக்கின்றானே, தஹிக்கின்றானே, அவன் ஒரு காலத்தால் சுத்தனவான், மீதியுள்ள காலம் முழுவதும் க்ராமத்திற்கு வெளியில் வளித்தால். க்ராமத்தில் வளித்தால் ஒரு நாளுக்குப் பிறகு சுத்தனவான். ப்ரேத க்ருஹத்தில் வளித்தால் 3-நாட்களுக்குப் பிறகு சுத்தனவான். நிர்ஹாரம் செய்து ஆசௌகாந்நத்தையும் புஜித்தால் 10-நாட்களுக்குப் பிறகு சுத்தனவான்’ என்று ஸ்ம்ருதியிருப்பதால். ‘க்ராமத்தில் வளித்தால் ஒரு நாளுக்குப் பிறகு சுத்தனவான்’ என்று, தஹநத்திற்குப் பிறகு, முக்யகர்த்தா வந்த பிறகு, ஸஞ்சயநம் முதலிய ப்ரேத க்ரியையைச் செய்யாவிடில் என்றறியவும். முக்யகர்த்தா இல்லாததால் ப்ரேத க்ரியையைச் செய்தால், 3-ஆவது திநத்தில்

वित्तिकप्पट्टे रुक्षोत्तिष्ठम् चेयंति पीरुकु सुत्ति.
 'सम्स्कारम् चेयंति वनुक्तु रुक्षोत्तिष्ठत्तिन्मुष्टिविले ताऩं आचेसाचत्तिनीन्ऱुम् निवरुत्ति' एन्ऱु
 सम्स्कारम् चेयंति वनुक्तु रुक्षोत्तिष्ठम् मुष्टियुम्
 वरेरयिल् चेयंवत्तोलेये सुत्ति पोत्तायन्नराल्
 चेसाल्लप्पट्टिरुप्पत्ताल्. आचेसाचान्न पोज्जनम्
 चेयंति विषयत्तिलोवेवनील्, 10-नाट्काञ्जकुप्प पीरुकु
 सुत्ति, अतु वरेरयिल् प्परेत्त कर्मिययुम् एन्ऱु अर्नियवुम्.

दशमदिनागतमुख्यकर्तृविषयः – कनिष्ठादिना संस्कारादि-
 नवदिनपर्यन्तप्रेतकृत्ये कृते सति दशमदिने दिवाऽगतो मुख्यकर्ता
 उसकेशो नवभिर्दिवसैर्देयान् तिलोदकपिण्डानेकदैव दत्ता
 प्रभूतबलिं प्रदाय तत्कालोदकं दशमं पिण्डं च दत्ता सवर्ज्जवपनं
 शेषवपनं वा कृत्वा शान्तिहोमं समापयेत्। तत्र श्रवणदिनमारभ्य
 दशाहाद्याशौचस्य सत्त्वेऽपि मरणदिनमारभ्य एकादशदिने
 आद्यश्राव्यं कृत्वा आशौचानन्तरमुक्तकाले आवृत्ताद्य श्राव्यादीनि
 कृत्वा त्रिपक्षे सपिण्डनं कुर्यात्।

10-आवतु नालील वन्त्त मुक्य कर्त्ततावेवप्पत्तियतु - कनिष्ठान्मुतवियवर्कलाल, सम्स्कारम्
 मुतलाक, 9-नाल वरेरयिलुल प्परेत्त कर्मुत्यम्
 चेययप्पट्टे पीरु 10-आवतु तिनत्तिल पकलिल वन्त्त
 मुक्य कर्त्तता, वपनम् चेयतु केळाण्टु, 9-नाट्कलिलुम्
 चेयय वेण्णत्य तिलोत्तक पिण्ड तानत्तेत
 अप्पेपामु तेचेयतु, प्रपूतपलि तानमुम् चेयतु,
 10-आवतु तिनत्तिल चेयय वेण्णत्य उत्तकपिण्ड
 तानत्तेत्यम् चेयतु, सर्ववाङ्क वपनत्तेत्यावतु, चेषु
 वपनत्तेत्यावतु चेयतु केळाण्टु, सान्त्ति
 लेहामत्तेत्यम् चेयतु मुष्टिक्कवुम्. अवविषयत्तिल,
 सर्ववण्णत्तिनम् मुतल, 10-नालाचेसाचमिरुन्तालुम्, मरण
 तिनम् मुतल 11-आवतु तिनत्तिल आत्य चरात्तत्तेत्तक
 चेयतु, आचेसाचम् मुष्टिन्त पीरु, विल्लित कालत्तिल

ஆவ்ருத்தாத்ய ச்ராத்தம் முதலியவைகளைச் செய்து, த்ரிபக்ஷத்தில் ஸாபின்டயத்தைச் செய்யவும்.

தथா ஸ்மृத்யந்தரம् - நவமிர்஦்வஸைர்஦்யாந்வ பிண்டான் ஸமாగतः । ஦்ராம் பிண்டமுத்ஸுஜ்ய ராதிஶோபேண ஶுஞ்சதி இதி । ஦்ராமடினே ஸமாகதே முற்யகர்தா நவமிர்஦்வஸைர்஦்யான் நவபிண்டான் ஦்ரா ஦்ராமபிண்ட் ச ஦்ரா ராதிஶோபேண புத்ரவ்யதிரிக்கர்தா ஶுஞ்சதீதி । புத்ரோऽபி ஆஶௌசஸ்ய ஸ்த்வேऽபி எகோஷ்டாதிகாரி ஭வதீத்யர்஥ः । யதாஹ ஶங்கः - ஆய ஶ்ராஞ்சமஶுஞ்சோऽபி குத்ரா஦ிகாத்ரேऽஹனி । கர்த்தஸ்தாக்காலிகி ஶுஞ்சிரஶுஞ்சः புனரே ஸः இதி ।

யற்றென்ற ஸ்மிருதி:- 'நவபி: + சுத்யதி'. 10-ஆவது தினத்தில் வந்த முக்ய கர்த்தா 9-நாட்களில் கொடுக்கவேண்டிய 9-பிண்டங்களையும் கொடுத்து, 10-ஆவது பிண்டத்தையும் கொடுத்து, ராத்ரி சேஷத்தால், புத்ரவ்யதிரிக்கஞன கர்த்தாவானால் சுத்தஞ்சிரூன். புத்ரஞனால் ஆசௌசமிருந்தாலும், ஏகோத்திஷ்டம் செய்வதில் அதிகாரியாய் ஆகிரூன் என்பது பொருள். அவ்விதம் சொல்லுகிறூர், சங்கரா:- ஆசௌசமுள்ளவ ஞயினும், 11-ஆவது நாளில் ஆத்ய ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். கர்த்தாவுக்கு அக்காலத்தில் மட்டில் சுத்தி. ச்ராத்தம் செய்த பிறகு, கர்த்தா மறுபடி அசுத்தனே.

ராதிஶோபேண ஶுஞ்சதீத்யெதந்யதா கைஶிஞ்சியார்யாதம் - ராதிஶோபேண ஶுஞ்சஸ்மரணாடி஦் ஸஞ்சயாத் ப்ராகாगதஜ்யேஷ்புத்ரவிஷயம், ஸஞ்சயாத் ப்ராகு ஶோபதः இதி ஦்ராஹாபேண தஸ்யैவ ஶுஞ்சஸ்மரணாத் இதி । தத்ஸா஧ு । ஸஞ்சயாத் ப்ராகாगதஜ்யேஷ்புத்ரவிஷயத்வரूபவிஶேஷஸ்ய தત்ராப்ரतිதே:, ஸஞ்சயாத்பூர்வ பர் வா ஦்ராமடினே ஆகத்ஸ்ய முற்யகர்த்மானாஸ்ய அவிஶோபேண பிண்டோக்கஸ்மாபனப்ரதිதே:, ராதிஶோபேண ஶுஞ்சதீத்யெத்ஸ்ய ச ஦்ராமடினாகத்ஸ்ய முற்யகர்து: புத்ரவ்யதிரிக்கஸ்ய வி஗तம் து வி஦ேஶஸ்஥ ஶृஷ்டாயோ ஹனிர்஦்வாம் । யஞ்சேஷ்

दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् इति दशमदिनोत्तरकालमा-
शौचाभावेन मुख्यार्थत्वसम्भवात्, पुत्रस्यापि श्रवणादि-
दशाहाशौचसत्वेऽपि दशाहपिण्डोदकसमापनेनैकोद्दिष्टार्थशुद्धि
प्रतिपादनपरत्वेनाप्युपपत्तेः । अतः सर्वोऽपि दशमदिने आगतो
मुख्यकर्ता स्वोचितं प्रेतकर्म तस्मिन्हनि कृत्वा मरणाद्येकादशदिने
आद्यैकोद्दिष्टमाशौचापगमानन्तरं विहितकालेषु आवृत्ताद्य-
मासिकादीनि च कुर्यात् ।

‘रात्रिर्चेष्टेण सत्यति’ ऎन्नपत्रहरुकुं छिलर वेऱु
वितमं व्याक्यानमं चेय्किऩ्ऱनार. रात्रिर्चेष्टत्तालं सत्ति
एन्ऱरीरुप्पत्तालं, इतु लंगुंसयन्तत्तिरुंकु मुनं वन्त
ज्ञेयेष्टपुत्ररैनप्प पर्न्रियतु. ‘लंगुंसयात्प्रराक्तुचेष्टतः’
एन्ऱरु ‘तसाहूचेष्टत्तालं सत्ति अवनुक्केके
सेवाल्लप्पट्टिरुप्पत्तालं’ एन्ऱरु. अतु लरीयल्ल.
लंगुंसयन्तत्तिरुंकु मुनं वन्त ज्ञेयेष्टपुत्ररैनप्प पर्न्रियतु
एन्ऱरु विचेष्टमं अतिल तेऊन्ऱरुत्तालं. लंगुंसयन्तत्तिरुंकु
मुनंपेओ पिण्डेओ 10-आवतु तिनत्तिल वन्त मुक्य
कर्त्तत्तावुक्कु लामाण्यमाय, पिण्डेटोतक लमापनमं
एन्ऱरु तेऊन्ऱवत्तालं, ‘रात्रिर्याण पिऱकु सत्तत्तुकिरुन्’
एन्ऱरु वसन्तत्तालं, 10-आवतु तिनत्तिल वन्त मुक्य
पुत्ररैनल्लात मुक्य कर्त्तत्तावुक्कु ‘विकतम्तु+सिर्पवेत्’
एन्ऱरु वसन्तत्तालं, 10वतु नाङुक्कुमेलं आचेसाल
मिल्लातत्तालं मुक्यार्त्तत्तवमं लम्पविप्पत्तालं,
पुत्रानुक्कुम, चरवण तिनमं मुतलं 10-नालाचेसाल
मिरुन्तत्तालुम, 10-नाटकलीन पिण्डेटोतक लमापनमं
चेय्तत्तालं, एकोत्तिष्टत्तिरुक्काकिय सत्तत्तियेक
सेवाल्लत्तिल तात्पर्यमुल्लेतन्पत्तालुम उपपन्न
माकुम. आकेयालं 10-आवतु तिनत्तिल वन्त मुक्य
कर्त्तत्ताक्कलं लल्लेलारुम, तमक्कु उचितमाण कर्मत्तत्त
अन्ऱरु चेय्तु, मरणमं मुतलं 11-आवतु तिनत्तिल
आत्तेयेकोत्तिष्टत्तेत्तेयुम, आचेसालमं मुष्टिन्त पिऱकु,
विल्लित कालन्कलील आवरुत्तत्तात्यमालीकमं
मुतवियवेकज्ञायुम चेय्यवेणुम.

ननु, श्रुत्वा तद्दिनमारम्भ्य दशाहं सूतकी भवेत् । पुत्रः शुद्धचेद्
दशाहेन सञ्चयात् प्राक्तु शेषतः इत्यादिना सञ्चयात् परं मृतिश्रवणे
पुत्रस्य दशाहाशौचविधानात्, यावदाशौचं पिण्डोदकविधानाच्च
दशामदिने श्रवणे तदादि दशाहोदक-दानप्रसङ्गः, ततश्च
नवभिर्दिवसैर्दद्यादिति दशाहे पिण्डसमापन-बचनं
पुत्रव्यतिरिक्तमुख्यकर्तृविषयं वा, अकृतास्थिसञ्चयन विषयं वा
स्यात्, सपिण्डीकरणात् पूर्वमस्थिसञ्चयनं भवेत् । एकादशाहे
मासान्ते वाऽस्थिसञ्चयनं भवेत् इत्यादिभिः सपिण्डीकरणात्पूर्व-
मस्थिसञ्चयनस्य विहितत्वादिति चेच्च, शृणोत्यनिर्दशां पुत्रः
पित्रोस्तु मरणं यदि । मृताहात् प्रेतकार्यं स्यात् तस्य शुद्धिर्दशाहतः
इति बचनेनान्तर्दशाहश्रवणे तदादिदशादिना-शौचस्य सत्वेऽपि
मृतिदिनादि दशाहत एव प्रेतकार्यसमापनस्य कण्ठतः प्रतिपादनात्
अपवादभूतेन यावदाशौचं प्रेतस्योदकम् इति विष्णुवचनस्य
दशाहानन्तरश्रवणादिविषयान्तरसञ्चावेनोत्सर्गस्य बाधात् ।

‘சருத்வா+பவேத்’, ‘புத்ரச்சுத்யேத்+சேஷது’ என்பது முதலிய வசநங்களால், ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு கேட்டால் புத்ரனுக்கு 10-நாளாசெளசம் விதிக்கப்படுவதாலும், ஆசெளசம் உள்ள வரையில் பிண்டோதக தாநம் விதிக்கப்படுவதாலும், 10-ஆவது நாளில் கேட்டால், அது முதற் கொண்டு 10-நாள் வரையில் உதகதாநம் ப்ரஸக்தமாகின்றது. ஆகையால் ‘நவபி:+சுத்யதி’ என்று, 10-ஆவது நாளில் பிண்ட ஸமாபநத்தைச் சொல்லும் வசநம், புத்ரனைத் தவிர்த்த முக்ய கர்த்தாவைப் பற்றியதென்றாலும், அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யாத விஷயத்தைப் பற்றியதென்றாலும் ஆகலாம். ‘ஸபிண்டைகரணத்திற்கு முன் அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்படவேண்டும்’ 11-ஆவது தினத்திலோ, மாஸத்தின் முடிவிலோ அஸ்தி ஸஞ்சயநம்

‘चेय्यप्पत्तेवेण्टुम्’ एन्पतु मुतवीय वसन्नंकलालं ‘स्पैन्सैकरण्ठिरुक्तु मुन् अस्ति सञ्चयनम् वित्तिक्कप्पत्तिरुप्पत्तालं’ एनीलं, इलैल. ‘स्त्रुगेन्त्यन्तिरुक्तसम्भवालुहतः’ एन्ऱ वसन्म ‘10-नाट्काणुल केट्टालं अतु मुतल 10-नालाचेसाचमिरुन्तालुम्, मरण तिऩम् मुतल 10-नाट्काणीलेये प्रेरेत कार्यत्तेत मुटिप्पत्तेक्क कन्नटत्तालं (स्पष्टमाय) चेसालंवियिरुप्पत्तालं, अपवात् चास्तरमाक्षिय अठालें ‘आउसाचमुलाल वरायिल प्रेरेतनुक्तु उत्तकतानम्’ एन्ऱ विष्णु वसन्म, ‘10-नाट्काणुक्तुप्प धिरुक्तु केट्टपतु’ मुतवीय वेरु विष्णयन्कलीरुप्पत्तालं उत्सर्क चास्तरमाक्षियतालं, अठरुक्तुप्प पातमेन्पत्तेवत्तालं बेपारुन्तातु.

एकादशोऽहि अपराह्नात् पूर्व आगतपुत्रविषये विधिः ।

एकादशोऽहि अपराह्नात् पूर्वमागतपुत्रविषये पैठीनसिः - दशारात्रे व्यतीते तु पित्रोश्वेदौधर्वदेहिकम् । पुत्रः कुर्यात्तदाशौचं दशारात्रमिति स्मृतम् इति ॥ अत्र पितृमेधसारकृत् - कृते दशाहृत्ये श्रुत्वैकादशाहे त्वागतः पुत्रः उमकेश एकोद्दिष्टं कृत्वा दशाहे तिलोदकं दद्यात्, अकृते दशाहृत्येऽनिर्दशाहेऽपि पित्रोमृतिश्रुतौ श्रुताहादिदशाहान्तमुदकादि कृत्वा एकादशाहे एकोद्दिष्टं कृत्वा त्रिपक्षादौ सापिण्डं कुर्यात् इति ।

11-आवतु नालील पीर्पकलुक्कु मुन् वन्त पुत्रानं विष्णयत्तिलं,

येमन्तलिः 10-नाट्काण चेसन्ऱ प्रिरु, माता प्रिताक्काणुक्तु, पुत्रानं प्रेरेत कर्मियययस चेय्यतालं, आउसाचम 10-नालं एन्पपत्तेकिरतु. इतिलं, पितृगुमेत्तलारकारारः:- 10-नालं क्त्रुत्यम् चेय्यप्पत्त प्रिरु केलंविप्पत्तु, 11-आवतु नालील वन्त पुत्रानं वपन्म चेय्यतुकेाण्टु, एकोत्तिष्ठतम् चेय्यतु, 10-नालं तिलेवात्तक्ततेक केलाक्कवेण्टुम्. 10-नालं क्त्रुत्यम्

செய்யப்படாமலிருக்க, 10-நாட்களுள் மாதா பிதாக்களின் மரணத்தைக் கேட்டால், கேட்ட நாள் முதல் 10-நாள் வரையில் உதகம் முதலியதைச் செய்து, 11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்து, 3-ஆவது பக்ஷம் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும்.

அகृதे ஦शாகृत्ये ஦शமदிநராதாவாगதோऽபி
ஶுக்ராரேऽப்யதிக்ராந்தே மாதாபித்ரோஸ்ததை ச । ஸந்஧்யாராத்யோஸ்ததா
க்ஷீரं ப்ரேதகார்ய ச நாசரேத் । ஦ிவைவ தர்பண் குர்யானாபராலே து ஸஸ்ய:
இதி ஦ாஹ்஦ிநவ்யதிரிக்கி஦ிநே ராதாவுடக்காநாடிநிஷே஧ாத் தத உறர்
दशाहकृत्यं समाप्य एकादशाहे आदश्राद्धं कुर्यात् ।

10-நாள் க்ருத்யம் செய்யப்படாமலிருக்க, 10-ஆவது நாளில் ராத்ரியில் வந்தாலும், “மாதா பித்ர விஷயத்திலும், அதிக்ராந்த விஷயத்தில் சுக்ரவாரம், ஸந்த்யை, ராத்ரி இவைகளில் கூஷளரம், ப்ரேதகார்யம் இவைகளைச் செய்யக்கூடாது. பகவிலேயே தர்ப்பணத்தைச் செய்யவும். பிற்பகவில் ஸஞ்சயநம் கூடாது” என்று, தலைந தினத்தைத் தவிர்த்த தினத்தில் ராத்ரியில் உதக தாநம் முதலியதற்கு நிஷேஷமிருப்பதால், அதற்கு மேல் 10-நாள் க்ருத்யத்தை முடித்து, 11-ஆவது நாளில் ஆத்யச்ராத்தத்தைச் செய்யவும்.

அயமந பிதृமே஧ஸாரகृதोऽभिमதः பैठीनसिवचनार्थनिष्कर्षः,
அन्येन ஸபிண்டாடிநா கृதे ஦हநாடி஦ஶாகृத्ये ஸஂචயாத்
ப்ராகோகாடஶாஹே பிதृமृतिं ஶ्रுत்வா ஸமாగதः புत्रः புநர்஦ஹநாடி ஸர்வ தदா
கृத்வா ஏகோஹிஷ்டं ச கृத்வா ததாரம்ய ஦ஶராதாஶौசாநுष்஠ானமுடக்க் ச
குர்யாத् । ஸஂචயாத் பரமோகாடஶாஹே ஆகதः வृஷோத்ஸர்ஜனபூர்வகமாயை-
கோஹிஷ்டं ச கृத்வா தத ஆரம்யாஶौசாந்தமுடக்காந் குர்யாத् । கனிஷ்ண
து ஦ஶாகृத்யே கृதே ஸஂචயாத் பூர்வ பர வா ஸமாகதோ ஜ்யேஷ்புத்ரः ப்ரேதகृத்யே
து நிவृத்தே புத்ர ஏகாடஶோஹனி । ஆகதஸ்தஹிநே த்வாய்
பிண்டோக்கஸமாபனாத் இதி வசனேந வृஷோத்ஸர்ஜனமேகோஹிஷ்டं ச கृத்வா

तत आरम्भ्य आशौचमुदकमात्रं च कुर्यात्, न पिण्डदानम्, मुख्यकर्ता विदेशस्थः कालेऽकाले श्रुतो यदि । तिलवारि प्रकुर्बीति पिण्डदानं विवर्जयेत् इति स्मरणात् । काले - एकोद्दिष्ट काले एकादशाह इति यावत्, अकाले - एकादशाहानन्तरकाल इत्यर्थः । अत्र सर्वत्र त्रिपक्षादौ सपिण्डीकरणम् । अकृते दशाहकृत्ये आगतदिनमारम्भ्य दशाहकृत्यं परिसमाप्य एकादशाहे एकोद्दिष्टं त्रिपक्षादौ सापिण्डयं कुर्यादिति ।

இது விஷயத்தில், பித்ருமேதஸாரகாரருக்கு அபிமதமான, பைமநலி வசநார்த்தத்தின் நிர்ணயமிதுவாகும்:- “ஸபின்டன் முதலிய அன்யனால், தஹநம் முதலாகிய 10-நாள்க்ருத்யம் செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸஞ்சயநத்திற்கு முன் 11-ஆவது நாளில் மாதா பித்ரு ம்ருதியைக் கேட்டு வந்த புத்ரன், புநர்தஹநம் முதலிய எல்லாவற்றையும் அப்பொழுது செய்து, ஏகோத்திஷ்டத்தையும் செய்து, அது முதல் 10-நாள் ஆசெளசத்தையும் உதகதாநத்தையுமனுஷ்டிக்கவும். ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு, 11-ஆவது நாளில் வந்தால், வருஷபோதஸர்ஜநத்தை முன் செய்து, ஆத்யைகோத்திஷ்டத்தையும் செய்து, அது முதல் ஆசெளசம் முடியும் வரையில் உதகதாநத்தையும் செய்யவேண்டும். கநிஷ்டன் 10-நாள் க்ருத்யத்தைச் செய்திருக்க ஸஞ்சயநத்திற்கு முன்போ பின்போ வந்த ஐயேஷ்ட புத்ரன், ‘ப்ரேத க்ருத்யம் முடிந்த பிறகு, 11-ஆவது நாளில் வந்த புத்ரன் அந்தத் தினத்தில் ஆத்யைகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும், பின்டோதகங்கள் ஸமாப்தியாகியதால்’ என்ற வசநத்தால் வருஷபோதஸர்ஜநத்தையும், ஏகோத்திஷ்டத்தையும் செய்து, அன்று முதல் ஆசெளசத்தையும், உதகதாநத்தையும் அனுஷ்டிக்கவும். பின்ட தாநத்தைச் செய்யக்கூடாது. ‘அன்ய தேசத்திலுள்ள முக்ய கர்த்தா காலத்தில் கேட்டாலும், அகாலத்தில் கேட்டாலும்,

து லோதக தானத்தைச் செய்யவேண்டும், பிண்டதானத்தை வர்ஜிக்க வேண்டும்' என்று ஸ்மிருதி யிருப்பதால், காலத்தில் = ஏகோத்திஷ்ட காலத்தில், 11-ஆவது நாளில் என்பதாம். அகாலத்தில் = 11-ஆவது நாளுக்குப் பிறகான காலத்தில் என்பது பொருள். இதில் எல்லாப் பகுத்திலும், தரிபகும் முதலிய காலத்தில் ஸபின்மைகரணம். 10-நாள் க்ருத்யம் செய்யப்படாவிடில், வந்த தினம் முதல் 10-நாள் க்ரியையை முடித்து, 11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், தரி பகும் முதலிய காலத்தில் ஸாபின்டயத்தையும் செய்ய வேண்டுமென்று.

அந்தே து பைठினஸிவசனமன்யथா வ்யாசக்ஷதே - ஦शராத்ரே வ்யதிதே ஏகாदஶாதினே பித்ரோமூர்திஶ்வரणே புத்ரஸ்தா தஸ்மிந்வோஹனி ஔர்வைதீகங் - வபனபூர்வகமுடக்க் பரிஸமாப்ய ஏகோத்திஷ்ட குத்தா ஏகாதஶாஹ-மார்யாஶௌசமாந்திஷ்டாகமிதி | தன்மந்஦ம், கர்நியஸா கர்ம ஸமாபிதம் சேத் ஶாக்ஷத்புரோ ஜ்யேஷ்டஸமாகதிஶ்வேத் | தஸ்மிந் தினே ஶாக்ஷமேக் ஸமாப்ய பஞ்சாத் தாஹாத்து திலோடக் ச | குத்திரேபி பிதரி தாஹாங் ஸூத்கி ஭வேத் | தயாத்திலோடக் புத்ரः ஸபிண்டிகரண் புனः | முख்யகர்தா வி஦ேஶஸ்஥ः காலேऽகாலே ஶ්ருதோ யதி இத்யாதி஭ி: ஷட்டிரிஂஶாந்மதாதிவசனைகோத்திஷ்டாநந்தரமப்யுடக்காந-வி஧ாநாத् |

மற்றும் சில ரோவெனில், பைமநலி வசநத்தை வேறு விதமாய்வ்யாக்யாநம் செய்கின்றனர்:- “10-நாட்கள் சென்ற பிறகு, 11-ஆவது நாளில் மாதா பிதாக்களின் மருதியைக் கேட்டால், புத்ரன் அப்பொழுது, அன்றே, கேஷளரம் செய்து கொண்டு, உதக தாநத்தை ஸமாப்தி செய்து, ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்து, 11-ஆவது நாள் முதல் ஆசெளாசத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும், உதக தாநத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டாம்” என்று. அது மந்தம், ‘கனிஷ்டாலை் கர்மம் முடிக்கப்பட்டிருந்தால், ஏகோத்திஷ்டத்திற்கு முன் ஜ்யேஷ்டன் வந்து விட்டால், அன்று ச்ராத்தமொன்றை (ஏகோத்திஷ்டத்தை) முடித்துப்

पिरकु 10-नाट्काळीं तिलोत्तमत्तेतक केऽगुक्क
वेण्णुम्”, ‘प्रिताविन् कर्मियकालं चेष्यप
पट्टिरुन्तालुम् बृहरन् 10-नालाचेसाचत्तेत
अनुष्टिक्कवम्. तिलोत्तम तानुत्तेतयम् चेष्यवम्.
मरुपदि लपिण्णमेकरणत्तेतयम् चेष्यवम्; ‘तुरा
तेसत्तिलुलां मुक्य कर्त्तता कालत्तिलं केट्टालुम्,
अकालत्तिलं केट्टालुम्-’ इन्पतु मुत्तलाक्ष्य, षट्तरीम
सन्मतात्तिकरन्त वसनन्काळाल, एकोत्तिष्ठत्तिरुक्तु
पिरकुम् उत्तकतानम् वित्तिकप्पत्तिरुक्तु.

कनिष्ठादिकृतसापिण्डवस्य ज्येष्ठेन पुनःकरणम्।

यदेकोद्दिष्टान्तं पुत्रो वाऽन्यो वा कुर्यात् विदेशस्थः पुत्रः
श्रुत्वा वपनं कृत्वा दशाहमुदकमात्रं दद्यात् सपिण्डीकरणं
चान्यकृतं कनिष्ठकृतं वा पुनः कुर्यात्। अत्र गार्यः – कृतक्रियेऽपि
पितरि दशाहं सूतकी भवेत्। दद्यात्तिलोदकं पुत्रः सपिण्डीकरणं
पुनः इति ।

कनिष्ठान्तं मुत्तवियवर्काळालं चेष्यप्पत्त
सापिण्णत्यत्तेत औद्येष्टान्तं मरुपदि चेष्यवेण्णुम्.
एकोत्तिष्ठत्तम् मुद्युम् वररयिलं, बृहरनुवतु
अन्यनुवतु चेष्यत्तुविट्टाल, तुरातेसत्तिलुलां बृहरन
केलंवीप्पत्ताल, वपनम् चेष्यत्तुकेाण्णु, 10नालं
वररयिलं उत्तकतानम् मट्टिलं चेष्यवम्. अन्यान्ते
चेष्यप्पत्ततायिन्नुम्, कनिष्ठान्ते चेष्यप्पत्त
तायिन्नुम्, लपिण्णमेकरणत्तेत मरुपदि चेष्यवेण्णुम्.
इतिलं, कार्क्कयाः- प्रेरेत कर्मिय चेष्यप्पत्तिरुन्तालुम्
प्रित्तरु विष्यत्तिलं, बृहरन् 10-नालाचेसाच मुट्टेयव
गुक्तिरुन्. तिलोत्तमतानुत्तेत्तसं चेष्य वेण्णुम्.
लपिण्णमेकरणत्तेत मरुपदि चेष्य वेण्णुम्.

वृद्धशातातपः – अग्रजो वाऽनुजो वाऽपि पित्रोरवगतो
मृतम्। वापयित्वाऽथ केशादीन् सचेलमवगाहयेत्। आदशाह-

஬்ரஹ்மாரி ஦त்வா சைத்திலோடகம् । ஸபிண்டிகரண் குர்யாடன்யேன ச கृதं
யदि இதி । அग्रஜस्तिलोदकं दशाहं कृत्वा अन्यकृतमपि
सपिण्टிகरण-मेकादशाहे पुनः कुर्यात्, अनुजस्तु दशाहं
तिलोदकमात्रं दद्यादित्यर्थः । माधवीये – देशान्तरे स्थितः पुत्रः
श्रुत्वा पितृविपर्ययम् । कृत्वा तु वपनं दत्वा दशाहान्तं तिलोदकम् ।
सपिण्टிகरणश्राङ्कुर्यादिकादशोऽहनि इति । एकोद्दिष्टस्य
पूर्वमन्येन कृतत्वादेकादशाहे पुनस्तस्य विधानाभावात् तत्र
सपिण्टிகरणमेव कुर्यात्, न पुनः षोडशश्राङ्कुर्यादित्यर्थः ।

வ்ருத்தசாதாதபர்:- “தமையனுயினும்,
தம்பியாயினும், மாதா பிதாக்களின் மரணத்தைக்
கேள்விப்பட்டால், வபநம் செய்து கொண்டு,
ஸபின்மகரணம் அன்யனால் செய்யப்பட்டிருந்தால் அதை
மறுபடி செய்யவேண்டும்”. ஆயேஷ்டன் 10-நாள்
உதகதாநம் செய்து அன்யன் செய்திருந்தாலும்,
ஸபின்மகரணத்தை 11-ஆவது நாளில் மறுபடி
செய்யவேண்டும். கனிஷ்ட தேவேவனில் 10-நாள்
வரையில் திலோதக தானத்தை மட்டில்
செய்யவேண்டுமென்பது பொருள். மாதவீயத்தில்:-
“அன்ய தேசத்திலுள்ள புத்ரன், மாதா பிதாக்களின்
ம்ருதியைக் கேட்டால், வபநம் செய்து கொண்டு, 10-நாள்
வரையில் திலோதகதாநம் செய்து, 11-ஆவது நாளில்
ஸபின்மகரண ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும்.” ஏகோத்திஷ்ட
ச்ராத்தம் மற்றவனால் செய்யப்பட்டதால் 11-ஆவது
நாளில், மறுபடி அதற்கு விதியில்லாததால், அன்று
ஸபின்மகரணத்தையே செய்ய வேண்டும். மறுபடி
ஷோடச ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாதென்பது பொருள்.

எத்து எகாदஶாஹே ஸபிண்டிகரண் புனःகரணவிஷயம्, அந்யथा
நிபுகாடாவே குர்யாத् । ஷட்திரிஂஶன்மதே – ஆగதோ ஜ்யேஷ்புநஸ்து

प्रेतकृत्ये समापिते । एकादशोऽहि सापिण्ड्यमुक्तकालव्यतिक्रमे इति । प्रेतकृत्ये - सपिण्डीकरणान्तकृत्ये इत्यर्थः । चन्द्रिकायाम् - ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन सपिण्डीकरणे कृते । देशान्तरगतानां तु पिण्डदानं कथं भवेत् । श्रुत्वा तु वपनं कृत्वा दशाहान्तं तिलोदकम् । ततः सपिण्डीकरणं कुर्यादिकादशोऽहनि ॥ द्वादशाहे न कर्तव्यमिति शातातपोऽब्रवीत् इति । सर्वज्येष्ठः पुनः कुर्यादित्यर्थः ।

இவ்விதம், 11-ஆவது நாளில் ஸபின்டைகரண மென்பது, புந: கரண விஷயத்தில். இல்லாவிடில் த்ரிபஷ்ம முதலிய காலத்திலேயே செய்ய வேண்டும். ஷட்த்ரிம்சந்மதத்தில்:- “ப்ரேதக்ருத்யம் முடிக்கப்பட்ட பிறகு வந்த ஜ்யேஷ்ட புதரன், 11-ஆவது நாளில் ஸபின்டயத்தைச் செய்யவும். விழிதமானகாலம் அதிக்ராந்தமாகியதால்.” ப்ரேத க்ருத்யம் என்பதற்கு, ஸபின்டைகரணம் முடியும் வரையிலுள்ள ப்ரேதக்ருத்யம் என்பது பொருள். சந்த்ரிகையில்:- “ஜ்யேஷ்டஞ்சோ, கனிஷ்டஞ்சோ ஸபின்டைகரணம் செய்யப்பட்ட பிறகு, வேறு தேசத்திலுள்ள புதர்கள் பின்டதானத்தை எப்படிச் செய்வது? எனில், கேட்டவுடன் வபநம் செய்து கொண்டு, 10-நாள் வரையில் திலோதகதாநம் செய்து, 11-ஆவது நாளில் ஸபின்டைகரணத்தைச் செய்யவும். 12-ஆவது நாளில் செய்யக்கூடாதென்றார் சாதாதபர்.” ஸர்வஜ்யேஷ்டன் மறுபடி செய்யவேண்டுமென்பது பொருள்.

शातातपः - श्रवणाहे न कुर्वीत भोजनं मैथुनं तथा ।
दशाहान्तेऽनुजः कुर्यात् पार्वणश्राव्यमादरात् । ज्येष्ठः सपिण्डीकरणं पुनः कुर्यात् कृतं यदा इति । अन्येन कृते एकोद्धिष्ठान्तकृत्येऽनन्तरमागतोऽनुजो दशाहमुदकदानं दत्ता दशाहान्ते एकादशाहेऽग्रजासन्निधाने पार्वणं सपिण्डीकरणं कुर्यात्, तत्कृतमपि सापिण्ड्यं अग्रजः पुनः कुर्यादित्यर्थः ।

சாதாதுபர்:- 'ம்ருதியைக் கேட்ட தினத்தில், போஜநம், ஸ்தீ ஸங்கம் இவைகளைச் செய்யக்கூடாது. 10-நாட்களுக்குப் பிறகு, கனிஷ்டன், பக்தியுடன் பார்வண ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும், முன் செய்யப்பட்டிருந்தாலும். அன்யனால் ஏகோத்திஷ்டம் முடிய உள்ள க்ருத்யம் செய்யப்பட்ட பிறகு வந்த கனிஷ்டன், 10-நாள் உதகதாநம் செய்து, பிறகு, 11-ஆவது நாளில், ஜ்யேஷ்டன் ஸந்திதியில்லாவிடில், பார்வண ச்ராத்தத்தை = ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்யவேண்டும். கனிஷ்டன் செய்திருந்தாலும், பிறகு வந்த ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி செய்யவேண்டும் என்பது பொருள்.

ஸ்மृத்யந்தரே - கृते श्राद्धे ज्येष्ठपुत्र आगतश्वेत् कथं भवेत् ।
तिलोदकं तु निर्वर्त्य त्रिपक्षे तु सपिण्डनम् । कनिष्ठेनैव विधिवत्
सपिण्डीकरणे कृते । ज्येष्ठेनापि च कर्तव्यं सपिण्डीकरणं पुनः ।
विभक्तो वाऽविभक्तो वा मातापित्रोः सपिण्डनम् । कथञ्चिदनुजः
कुर्याद्विद्युः कुर्यात्तदग्रजः इति । ज्ञात्यादिना सापिण्डचान्ते कृते
ज्येष्ठासन्निधाने सर्वे विभक्ताः पुत्रा एकादशाहे सापिण्डव्यं पुनः
कुर्यात् । पश्चादागतो ज्येष्ठोऽपि पुनः कुर्यात् ।

மற்றோர்ஸ்ம்ருதியில்:- ஸபிண்மகரணம் செய்யப்பட்ட பிறகு ஜ்யேஷ்டபுத்ரன் வந்தால் எப்படிச் செய்வது ? என்றால், இலோகத் தாநத்தைச் செய்து, த்ரிபக்ஷத்தில் ஸாபிண்டயத்தைச் செய்யவும். கனிஷ்டன், விதிப்படி ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்திருந்தாலும், ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். விபாகம் (தனப்பிரிவு) செய்து கொண்டவனு யினும், விபாகம் செய்து கொள்ளாதவ ஞ யினும், கனிஷ்டன் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்திருந்தால், ஜ்யேஷ்டன் அதை மறுபடி செய்யவேண்டும். ஜ்ஞாதி முதலியவனால் ஸாபிண்டயம் முடியும் வரையில் க்ருத்யம் செய்யப்பட்டிருந்தால், ஜ்யேஷ்டன் ஸந்திதியில்லா

वीटिल, विपक्त्तर्कलाळा॒न ए॒ल्ला॒प् पुत्रर्कलु॒म्, 11-अ॒वतु॒
ना॒गी॒लं सा॒पी॒ण्ट्यत्तेऽमृ॒पदि॒ चेष्य॒ वेण्टु॒म्. पि॒रुक्तु॒
वन्त्ता॒लं ज्ञेष्य॒ष्टं पुत्र॒लु॒म्, मृ॒पदि॒ चेष्य॒ वेण्टु॒म्.

अग्रजेन कृतं तु न पुनः कुर्यादित्याह बृहस्पतिः -
सपिण्डीकरणं पित्रोः पितृयज्ञविधानतः । पुत्राः सर्वे पृथक्कुर्यादा
ज्येष्ठो न कारयेत् । अग्रजेन कृतं कर्म नानुजेन पुनः कृतिः इति । सर्वे
ज्येष्ठसन्धिधाने विभक्ता अपि न पृथक्कुर्युः । ज्येष्ठ एव कनिष्ठानुमत्या
संपृक्तद्रव्येण सापिण्डत्वं पुनः कुर्यात्, नवश्राद्धं सपिण्डत्वं
श्राद्धान्यपि च षोडशा । एकेनैव तु कार्याणि संविभक्त धनेष्वपि इति
स्मरणात् ।

ज्ञेष्य॒ष्टं चेष्य॒त ला॒पिण्ण॒करण॒त्तेऽ
मृ॒पदि॒ चेष्य॒क्ष॒टा॒तेन॒क्षि॒रुर्, प॒रु॒हृ॒स्प॒ति॒ः-
ज्ञेष्य॒ष्टं चेष्य॒या॒त वि॒ष्य॒त्ति॒ल, मृ॒र॒प
पुत्रर्कला॒ल॒लो॒रुम्, मा॒त्रा॒ पि॒ता॒क्कली॒नं
ला॒पिण्ण॒करण॒त्तेऽ
पि॒त्तर्कला॒ल॒लो॒रुम्, मा॒त्रा॒ पि॒ता॒क्कली॒नं
चेष्य॒वेण्टु॒म्. ज्ञेष्य॒ष्टं चेष्य॒त्ति॒रुन्त्ता॒ल, कनी॒ष्टं चेष्य॒त्तं
मृ॒पदि॒ चेष्य॒क्ष॒टा॒तु. ज्ञेष्य॒ष्टं ला॒न्निति॒यि॒रुन्त्ता॒ल,
वि॒पक्त्तर्कला॒यि॒नुम् मृ॒र॒वर्कल, तनी॒या॒य्सं
चेष्य॒क्ष॒टा॒तु. ज्ञेष्य॒ष्टं नेन, कनी॒ष्टं तर्कली॒नं
अनुमति॒यु॒तं बेपा॒तुवा॒न तन॒त्ता॒लं सा॒पी॒ण्ट्यत्तेऽ
मृ॒पदि॒ चेष्य॒ वेण्टु॒म्. 'नवस्त्रा॒त्तम, सा॒पी॒ण्ट्यम,
16-स्त्रा॒त्तन्कल, इ॒वेकला॒ ओ॒रुवेने॒ चेष्य॒ वेण्टु॒म्,
प्रा॒ताक्कलं वि॒पक्त्तर्कला॒यि॒नुम्' एन्न॒रु॒लम् रु॒ति॒ उ॒ला॒तु.

अविभक्तविषये तु अन्यकृते सपिण्डीकरणे सर्वज्येष्ठ एव पुनः
कुर्यात् । न सर्वे । सर्वज्येष्ठोऽपि श्रुत्वा पुनः कुर्यात्, ज्येष्ठोऽसन्धिहिते
चार्ते वर्तमाने क्रियान्तरे । पित्रोः पुत्रेण कर्तव्यं द्वितीयेनानुजेन वा।
सर्वैरनुमतिं कृत्वा ज्येष्ठैव तु यत् कृतम् । द्रव्येण चाविभक्तेन
सर्वैरव कृतं भवेत् ॥ ज्येष्ठः सपिण्डीकरणं पुनः कुर्यात् कृतं यदा इति
स्मरणात् ।

விபாகமாகாதவர்கள் விஷயத்திலோ, அன்யன் ஸபின்மைகரணம் செய்திருந்தால், ஸர்வஜ்யேஷ்டன் ஸந்திதியில்லாமலிருந்தால், ஸமீபத்திலுள்ளவர்களுள் ஜ்யேஷ்டனே மறுபடி செய்யவும். எல்லோரும் செய்யவேண்டியதில்லை. பிறகு, ஸர்வஜ்யேஷ்டன் கேட்டால் அவன் மறுபடி செய்யவேண்டும். ‘ஜ்யேஷ்டன் ஸமீபத்திலில்லாமலிருந்தாலும், ரோகமுள்ளவன யிருந்தாலும், க்ரியை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, மாதா பிதாக்களுக்கு, 2-ஆவது கனிஷ்ட புதரங்களுக்கு செய்யவேண்டும். ப்ராதாக்கள் எல்லோரும் அனுமதித்து. விபாகமாகாத த்ரவ்யத்தைக் கொண்டு ஜ்யேஷ்டனை செய்யப்பட்டது எதுவோ அது எல்லோராலும் செய்யப்பட்டதாகவேயாகும். ஜ்யேஷ்டன் (அன்யனை) செய்யப்பட்ட ஸபின்மைகரணத்தை மறுபடி செய்யவேண்டும் என்று ஸ்ம்ருதி யிருப்பதால்’.

வத்ஸராந்தே மாதாபிதृமூதிஶ்ரவணे

संवत्सरानन्तरं मातापित्रोमृति श्रवणे स्मृत्यन्तरम् । पितरि
प्रोषिते प्रेते पुत्रः कुर्यात् क्रियादिकम् । संवत्सरे व्यतीतेऽपि दशरात्रं
यथाविधि इति । पुराणेऽपि — पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि
हि पुत्रकः । श्रुत्वा तदिनमारभ्य दशाहं सूतकीभवेत् इति ।
विज्ञानेश्वரीये — महागुरुनिपाते तु आर्द्ववस्त्रोपवासिना ।
अतीतेऽब्देऽपि कर्तव्यं प्रेतकार्यं दशाहतः इति । स्मृत्यर्थसारे —
मातापितृमरणे दूरदेशोऽपि वत्सரादूर्ध्वमणि पुत्रः श्रुत्वा
श्रवणदिनादि स्वजात्युक्तं दशाहाद्या शौचं कुर्यात् इति ।

ஓரு வர்ஷத்திற்குப் பிறகு மாதா பித்ரு ம்ருதியைக்
கேட்ட விஷயத்தில்.

வர்ஷத்திற்குப் பிறகு மாதா பிதாக்களின் ம்ருதியைக்
கேட்டால், ஓரு ஸ்ம்ருதியில்:- தூரதேசம் சென்ற பிதா
இறந்ததைப் புதரன் வர்ஷம் முடிந்த பிறகு கேட்டாலும்,

10-नाट्कलीलं करीये मुतवियतेव वितिप्पदि चेय्य वेण्णुम्. पुराणात्तिलुमः- माता पिताकक्कलं इरन्तालं, पुत्रं तुर तेचत्तिलिरुन्तालुम्, केट्ट नालं मुतलं 10-नालं आचेळासमनुष्टिक्क वेण्णुम्. विज्ञुनोनेचवर्यत्तिलः- महाकुरुविनं मंगुत्तियिलं, ओरु वर्षमानं पिरुक्कुम्, सरवस्त्तर मुतेयवण्णय, उपवासमुतेयवण्णय, 10-नालीलं प्रेरेत कार्यत्तेताच चेय्य वेण्णुम्. संमंगुत्तयर्त्तत लारत्तिलः- माता पिताकक्कलिनं मरणत्तिलं, पुत्रं तुर तेचत्तिलिरुन्तालुम्, ओरु वर्षत्तिन्त्तिरुपं पिरुक्कुम्, केट्ट नालं मुतलं, तनं वर्णत्तिन्त्तिरुपीय 10-नालं मुतविय आचेळासत्तेत अनुष्टिक्क वेण्णुम्.

अतीतवत्सरप्रेतस्य प्रथमवत्सरविहितसोदकुम्भानु-मासिक केशधारणादीनां द्वितीयवत्सरे कर्तव्यताविधानादर्शनात्तानि न कार्याणि, मृतमासे मृततिथावाबिदकश्राव्यमेव । मृतमासाद्यज्ञाने तत्काले कार्यम् । अनतीतवत्सरप्रेतकृत्ये त्वाबिदकपर्यन्तं स्वे स्वे काले शिष्टान्यूध्यमावीनि सोदकुम्भमासिकादीनि कृत्वा मृतमासतिथावाबिदकं कुर्यात्, अस्थना पलाशवृत्तैर्वा दग्ध्वा तु विधिपूर्वकम् । एकादशे द्वादशे च मासिकानि सपिण्डनम् । कृत्वा च पुनरावृत्या मासिकानि तु तद्विने । यावदाबिदकपर्यन्तमिति शातातपोऽब्रवीत् इति ।

वर्षमानं पिरुक्कु करीये चेय्यप्पट्टालं, मुतलं वर्षत्तिलं वितिक्कप्पट्टुलालं लोताकुम्पम, अनुमालिकम्, केचतारणम् मुतवियवेक्कला, 2-आवत्तु वर्षत्तिन्त्तिरु चेय्युम्पदि वितियिललात्ततालं, अवेक्कलासं चेय्य वेण्णुष्टियत्तिलै. इरन्त मालत्तिलं इरन्त तित्तियिलं आप्तिक सरात्तन्ततालं. इरन्त मालम् मुतवियतु अरियप्पटावीष्टिलं अक्कालत्तिलं चेय्य वेण्णुम्. ओरु वर्षम् मुष्टिवत्तरुलां चेय्यप्पट्टुम् प्रेरेत करुत्तयत्तिलोवेवनीलं, आप्तिकम् वरेयिलं अतत्तनं

காலத்தில், மீதியுள்ள மேல் வரும் ஸோதகும்பம் மாலிகம் முதலியவைகளை செய்து, இறந்த மாஸ திதியில் ஆப்திகத்தைச் செய்யவேண்டும். 'அஸ்தியினாலாவது, புரசுக்காம்புகளாலாவது, ப்ரதிக்ருதியைச் செய்து, விதிப்படி தஹித்து, 11-ஆவது நாளிலும், 12-ஆவது நாளிலும் மாலிகங்களையும், ஸபின்மகரன்த்தையும் செய்து, ஆப்திகம் வரையில் மாலிகங்களை 2-ஆவது தடவையாய் அந்தத் தினத்தில் செய்ய வேண்டுமென்றார் சாதாதபர்.

ஶதகேऽपि — दशात्रं सदा पित्रोः परोक्षमरण श्रूतौ । त्र्यहं मातृसपद्यास्तु दशाहं वत्सरादधः । कृतौर्ध्वं दैहिकेऽत्यब्दे दिनं तस्यास्यहं तयोः इति । शतककृता एतद्व्याख्यातम् - वत्सरमध्ये तत्परं वा मातापित्रोरसन्निधानमरणश्रवणे सर्वेषामपि पुत्राणां दशाहमाशौचम्, सपत्नीमातुस्त्वसन्निधाने मृतौ श्रुतायां वर्षात् परं त्र्यहमेव । तत्पूर्वं तु दशाहम् । अत्र विशेषः — ज्येष्ठेन कृते और्ध्वं दैहिकेऽब्दे चातिक्रान्ते तस्याः सपत्नीमातुः परो क्षमृतिश्रवणे दिनम्, तयोः - मातापित्रोः, तच्छ्रुतौ कनिष्ठस्य त्र्यहम् । पितरि प्रोषिते प्रेते पुत्रो देशान्तरं गतः । कृतक्रिये त्रिरात्रं स्यादशाहमकृतक्रिये इति वत्सरादूर्ध्वश्रवणे कृतक्रिये त्रिरात्रविधिः कनिष्ठविषय एव । कृतक्रियेऽपि पितरि दशाहं सूतकं भवेत् । दद्यात्तिलोदकं पिण्डं सपिण्डीकरणं पुनः इति दशाहविधानात् कृतस्यापि सपिण्डीकरणस्य पुनःकरणविधानसामर्थ्यात् ज्येष्ठ-विषयत्वं मस्यावगम्यते । तथा च पैठीनसिः - प्रोषितभ्रातृमरणे दत्त पिण्डोदकक्रिये । त्रिरात्रं सूतकं तत्र दशाहं पुत्रभार्ययोः । कृतक्रिये पितरि भर्तीरि च ज्येष्ठ पुत्रभार्ययोदशाहमित्यर्थः । एवं च संवत्सरादूर्ध्वं पितृमृतिश्रवणे ज्येष्ठपुत्रो दशाहमुदकमाशौचं चानुष्टाय कृतमपि सपिण्डीकरणं पुनः कुर्यात् । कनिष्ठपुत्रस्तु कृतक्रियविषये त्रिरात्रमाशौचमुदகமात्रं च कुर्यादिति ।

சதகத்திலும்:- 'தசராத்ரம்+தயோ:' என்றுள்ளது. சதககாரரால் இதற்கு வயாக்யானம் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விதம்:- "ஓரு வர்ஷத்திற்குள், அல்லது பிறகு, மாதாபிதாக்களின் பரோக்ஷ மரணத்தைக் கேட்ட விஷயத்தில் புத்ரர்களெல்லோருக்கும் 10-நாளாசௌகம். ஸபத்ரீ மாதாவின் பரோக்ஷ மரணத்தைக் கேட்டால், ஒரு வர்ஷத்திற்குப் பிறகு 3-நாட்களே ஆசௌகம். ஒரு வர்ஷத்திற்குள் 10-நாளாசௌகம். இதிலுள்ள விசேஷம்-ஜ்யேஷ்டன்க்ரியைகளைச் செய்த பிறகு, ஒரு வர்ஷம் சென்ற பிறகு, ஸபத்நீ மாதாவின் பரோக்ஷ மரண ச்ரவணத்தில் ஒரு நாளாசௌகம். அவ்விதமான மாதா பிதாக்களின் பரோக்ஷ மரண ச்ரவணத்தில் கணிஷ்ட புத்ரனுக்கு 3-நாளாசௌகம். தூரதேசம் சென்ற பிதா இறந்தால், தேசாந்தரத்திலுள்ள புத்ரன் கேட்டால் க்ருத்யம் செய்யப்பட்ட விஷயத்தில் 3-நாளாசௌகம். க்ருத்யம் செய்யப்படாத விஷயத்தில் 10-நாளாசௌகம், என்று வர்ஷத்திற்கு மேல் கேட்டால் தரைத்ரம் என்ற விதி கணிஷ்டனைப் பற்றியதே. 'க்ருத்யம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், 10-நாளாசௌகமுண்டு, திலோதக பிண்ட ப்ரதானத்தைச் செய்யவேண்டும். மறுபடி ஸபின்மைகரணத்தைச் செய்யவேண்டும், என்று 10-நாள் விதிப்பதாலும் செய்யப்பட்ட ஸபின்மைகரணத்தை மறுபடி செய்யும்படி விதிக்கின்ற பலத்தாலும் இது ஜ்யேஷ்டனைப் பற்றியதென்று அறியப்படுகிறது. அவ்விதமே பைநாசி :- தேசாந்தரம் சென்ற ப்ராதாவின் மரணத்தை க்ருத்யங்களான பிறகு கேட்டால் 3-நாளாசௌகம். புத்ரன் பார்ஷை இவர்களுக்குப் பத்து நாள் க்ரியை செய்யப்பட்ட பிதாவின் மரணத்திலும் அவ்விதமான பர்த்தாவின் மரணத்திலும் புத்ரன், பார்ஷை இவர்களுக்குப் பத்து நாள் என்பது பொருள். இவ்விதமிருப்பதால், வர்ஷத்திற்குப் பிறகு, பித்ரு ம்ருதி ச்ரவணத்தில், ஜ்யேஷ்ட புத்ரன் 10-நாளாசௌகமுதகதாந மிவைகளைச் செய்து, செய்யப்பட்ட ஸபின்மைகரணத்தையும் மறுபடி செய்யவேண்டும். கணிஷ்ட

புத்ரரேஞ்செவனில், க்ருத்யம் செய்தாகிய விஷயத்தில் 3-நாளாசௌசத்தையும், உதக தாநத்தைமட்டிலும் செய்யவேண்டும்' என்று.

अत्र केचिदाहुः — संवत्सरे व्यतीतेऽपि दशरात्रं यथाविधि
इत्यादीनि संवत्सरादूर्ध्वं श्रवणे दशाह प्रतिपादकानि वचनानि
अकृतक्रियपितृविषयाणि । कृतक्रिये त्रिरात्रं स्यात् इति वचनं
वत्सरादूर्ध्वं पितृमरणश्रवणे कृतक्रिये पितरि ज्येष्ठादीनां सर्वेषामपि
पुत्राणा मविशेषेण त्रिरात्राशौचोदकदान प्रतिपादन-परम् ।
कृतक्रियोऽपि पितरि दशाहं सूतकी भवेत् । अग्रजो वाऽनुजो वाऽपि
इत्यादीनि कृतक्रियविषये दशाहाशौचप्रतिपादकानि वत्सरात् पूर्वं
पितृमरण श्रवणविषयाणि । यच्चोक्तं सपिण्डीकरणं पुनः इति पुनः
करणविधानसामर्थ्यात् कृतक्रियेऽपि पितरि दशाहाशौचस्य
ज्येष्ठपुत्रविषयत्वमवगम्यत इति, तदपि न, अन्येन
कृतक्रियपितृविषये पुत्रमात्रस्य पुनः सपिण्डीकरणविधानोपपत्तेः
सामर्थ्याभावेन ज्येष्ठैकविषयत्वाप्रतीतेः । एवं च संवत्सरादूर्ध्वं
कृतक्रियपितृमरणश्रवणे ज्येष्ठपुत्रोऽपि त्रिरात्राशौचमुदकं चानुष्टाय
चतुर्थदिने सापिण्डचं कुर्यात् । वत्सरात् पूर्वं मृतिश्रवणे सर्वे पुत्रा
दशाहाशौचमुदकं च कुर्यात् । ज्येष्ठपुत्रस्तु कृतमपि सापिण्डच-
मेकादशाहे पुनः कुर्यात् इति । यथोचितमत्र द्रष्टव्यम् ।

இவ்விஷயத்தில் சிலர் சொல்லுகின்றனர்:- ‘ஸம்வத்ஸரே+யதாவிதி’ என்பது முதலியதாகிய, வர்ஷத்திற்கு மேல் கேட்டால் 10-நாளாசௌகதை விதிக்கின்ற வசநங்கள், கரியை செய்யப்படாத பித்ரு விஷயங்கள். ‘க்ருதக்ரியேத்ரிரத்ரம்ஸ்யாத்’ என்ற வசநம், வர்ஷத்திற்குப் பிறகு பித்ரு மரணத்தைக் கேட்டால், க்ருத்யமான பிதாவின் விஷயத்தில், ஜயேஷ்டன் முதலாகிய எல்லாப் புத்ரர்களுக்கும், விசேஷமின்றி

३-नालाचेसाचत्तेतयम्, उतकतानृत्तेतयम् वित्तिप्पति लिल तात्पर्यमुलान्. 'करुतकर्मीयेपि+अनुज्ञावापि' इन्पतु मुतलिय, करुत्यमान विषयत्तिल १०-नालाचेसाचत्तेत वित्तिकुम वसनंकलालाम्, 'सपिण्णाकरणम् पुनः' इन्ऱु पुनःकरण वित्ति पलत्ताल, करुत्यमाकिय पिताविन विषयत्तिल १०-नालाचेसाचमेन्पतु औयेष्ट पुत्र विषयमेन्ऱु अर्नियप्पतु किरतु' इन्ऱु चेलवियतुम सरीयल्ल. अन्यगुल करुत्यम चेय्यप्पत्त पिताविन विषयत्तिल, एल्लापुत्रराकरुकुम पुनस्स लपिण्णाकरण वित्ति उपपन्नमाकु मातलाल, लामार्त्यमिल्लातताल, औयेष्टैन मट्टिल कुरित्ततु इन्पतु तेऽन्ऱुतताल. इवंवितमिरुप्पता ल, वर्षत्तिरुकुप पिरुकु, करुत्यम चेय्यप्पत्त पिताविन मरणस्रवणत्तिल, औयेष्ट पुत्रनुम, ३ नालाचेसाचम, उतकतानम इवेकला अनुष्टित्तु, ४ आवतु तिनत्तिल लपिण्णाकरणत्तेत्तेचेय्यवेण्टुम. वर्षत्तिरुकुमुन केट्टाल, एल्लापुत्रराकरुम १०-नालाचेसाचत्तेतयम उतकतानृत्तेत्य मनुष्टिक्कवेण्टुम. औयेष्ट पुत्रगुलेवनील, चेय्यप्पत्त लापिण्णात्यत्तेतयम, ११-आवतु नालील मरुपाति चेय्यवेण्टुम' इन्ऱु. इवेकलुन उचितमायुलातेत करविक्कवुम.

सपत्नीमातृविषये

सपत्नीमातृवर्षात् पूर्वं मृतिश्रवणे दशाहमातृचमुदकं च ।
 वर्षात् परं मृतिश्रवणे त्यहम् । तथा च वरदराजीये —
 प्रागबद्धाजननीसमं दिशतु तत्प्रेतोदकादिक्रियास्तस्मात्पुरि
 गौणमातृमरणं श्रुत्वा सदाऽधं त्यहम् इति । विज्ञानेश्वरीयेऽपि —
 पितृपद्यामतीतायां मातृवर्ज द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि
 त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् इति ।

ஸபத்நீ மாதாவின் விஷயத்தில்

ஸபத்நீ மாதாவின் மரணத்தை வர்ஷத்திற்குள் கேட்டால் 10-நாளாசௌசமும் உதகதாநமும், வர்ஷத்திற்குப் பிறகானால் 3-நாளாசௌசம். அவ்விதமே, வரதராஜீயத்தில்:- வர்ஷத்திற்குமுன், ஸபத்நீ மாத்ருமரணத்தைக் கேட்டால், அவனுக்கு உதகதாநம் முதலிய க்ரியைகளை, மாதாவுக்குப் போல் செய்யவும். வர்ஷத்திற்குப் பிறகு கேட்டால், எப்போதும் 3-நாளாசௌசம். விக்ஞாநேச்வரீயத்திலும்:- மாதாவைத் தவிர்த்து, பிதாவின் பத்நீ இறந்தால், ஒரு வர்ஷத்திற்குப் பிறகும் 3-நாளாசௌசமுடையவனுவான்.

ஸப்த்ரீமாதுரைஸ்புத்ராஸ்நி஧ானे மிஞோரேண கृते ஦ாஹாடை,
தदा ஆगत औरसपुत्रः स्वकनिष्ठकृते यावत्तावदेव कुर्यात्,
बहीनामेकपत्रीनामेका चेत् पुत्रिणी भवेत् । सवास्तास्तेन पुत्रेण
पुत्रिणीर्मनुष्ववीत् इति तेन तस्याः पुत्रवत्त्वाभिधानात् । सङ्ख्रहे च
— मिञ்சोदरकृते कृत्ये दाहाद्ये त्वागतौरसः । स्वकनिष्ठकृते
यावत्तावदेवाचरेत्तदा इति । सपिण्डीकरणं मिञ்சोदरज्येष्ठकृतमपि
कनिष्ठोऽप्यौरसः पुनः कुर्यात् । स्वकनिष्ठकृते यावदित्युक्तत्वात् ।

ஸபத்நீமாதாவின்	ஓளரஸபுத்ரன்
ஸந்தியிலில்லாததால், பிந்நோதரன் தாஹாதிகளைச்	
செய்திருந்தால், அப்பொழுது வந்த ஓளரஸபுத்ரன், தன்	
தம்பி செய்தால் எவ்வளவு செய்ய வேண்டுமோ,	
அவ்வளவே செய்யவேண்டும். 'ஒருவனுக்குப்	
பத்ரீகளான பலருள் ஒருத்தி புத்ரனுடையவளாயிருந்தால்,	
அந்தப் புத்ரனால் எல்லோரையம் புத்ரனுடையவர்களாகச்	
சொல்லுகிறூர்மனு' என்று அவனுல் அவன் புத்ரவதீ என்று	
சொல்லப்பட்டு உள்ளது. ஸங்கரஹுத்திலும்:-	
பின்னேதரானால் தஹநம் முதலிய க்ருத்யம் செய்யப்பட்ட	
பிறகு வந்த ஓளரஸபுத்ரன், தனது கனிஷ்டன் செய்ததில்	
எவ்வளவோ அவ்வளவே செய்யவேண்டும்.	

— सैपींन्दिनकरणतःतेऽमट्टिलं पिण्डेत्तेऽतर औद्येष्टनं
सेयंत्तिरुन्तरालुम्, कनीष्टेऽन्नयिरुन्तत्तरालुम् छालरसलं
मरुपदि सेय्यवेण्णुम् । तनतु कनीष्टेऽन्नं सेयंततिलं
नवंवाणोवेवा' नन्त्रु सेवाल्लियिरुपपत्तालं.

प्रोषितभ्रातृविषये

भ्रातृमरणे पैठीनसिः — प्रोषितभ्रातृमरणे दत्तपिण्डोदकक्रिये ।
त्रिरात्रं सूतकं तत्र दशाहं पुत्रभार्ययोः इति । अत्र विशेषमाह गालवः
— कृतोदके तु षण्मासात् पक्षिण्याशौचमुच्यते । अधश्चेत्तिदिनं
ग्राह्यमकृतोदे दशाहिकम् इति । षण्मासादूर्ध्वं भ्रातुरुरधं
पक्षिणीत्यर्थः । तथा स्मृत्यन्तरे — भ्रातुर्देशान्तरमृतौ षण्मासा-
द्वत्सरादधः । दशरात्रं त्रिरात्रं स्याद्वशाहं दाहकस्य तु इति ।
दाहकस्य - भ्रातुः । अन्यत्रापि — देशान्तरमृतिर्यत्र त्वनुजाग्रजयोः
श्रुता । षण्मासाद्वत्सरादविद्वशाहं त्यहमाचरेत् इति । ज्ञात्यादि-
विषये तु — मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् इत्युक्तमाशौचमुदकं च
ज्ञेयम् ।

तेचान्तरतत्तिलिरुन्त प्ररात्ताविनं विषयत्तिलं.

प्रैपान्नवीः— तेचान्तरतत्तिलिरुन्त प्ररात्ताविनं
मरणत्तिलं, पिण्डेतोत्तकत्तरान्नातिकलं मुटिक्कप
पट्टिरुन्ततालं, 3-नालाचेसलाचम्. पुत्ररनं, पारंसय
छिवर्कणुक्कुप पत्ततु नालाचेसलाचम्. त्रिलं विचेष्टतत्तेत्तसं
सेवाल्लुकिरुर्. कालवरः कर्त्रिये चेय्यपपट्ट
विषयत्तिलं 6-मातन्कणुक्कु मेलं पक्षीन्याचेसलाचम्.
6-मातन्कणुक्कु मुन्पान्नलं 3-नालं. करुत्यमाकात
विषयत्तिलं 10-नालाचेसलाचम्. अवंवितम्, मर्त्तिरुरु
लेम्मरुत्तियिलः— तेचान्तरतत्तिलं मरीत्त प्ररात्ताविनं
मरुत्तिये 6-माततत्तिरुक्कुलं केट्टोलं 10-नालाचेसलाचम्.
पिऱ्गु वरंष्टत्तिरुक्कुलं केट्टोलं 3-नालाचेसलाचम्. तहनमं
सेयंत्त प्ररात्तावुक्कु 10-नालाचेसलाचम्. अवंवितम्, मर्त्तिरुरु

ஸ்ம்ருதியிலும்:- கனிஷ்ட ப்ராதாவின் அல்லது, ஜ் யேஷ்ட ப்ராதாவின் ம்ருதியை தேசாந்தரத்தில் நடந்ததாய்க் காலாந்தரத்தில் கேட்டால், 6-மாதத்திற்குள் 10-நாள், பிறகு வர்ஷத்திற்குள் 3-நாளாசௌசத்தை அனுஷ்டிக்கவும். ஜ்ஞாதி முதலியவரின் விஷயத்திலோவெனில், ‘மாஸத்ரயே த்ரிராத்ரம் ஸ்யாத்’ என்று சொல்லியபடி ஆசௌசமுமதகதாநமுமென்றறியவும்.

அபுநஸபிண்டமரணவிஷயே

அபுநஸய ஸபிண்டஸய அகृதஸ்ஸ்காரஸய ஏகாதஶாஹத் பர் மரணஶ்ரவண புநர்஦ீஹன் குத்தா யாவத்ஸ்வாஶௌசமுடக் பிண்ட ச த்துவா ஆஶௌசாந்தே எகோஹிஷ் பரத்தினே ஸபிண்டங் ச குர்யாத். அ஬்஦ாத் பர் ஶ்ரவண ஏகாஹென புநர்஦ீஹபிண்டோகானி ஸமாப்ய ஹிதீயே ஶாஞ்ச தூதியே ஸபிண்டங் ச குர்யாத், அதீதேஹே து ஸ்ஸ்காரே ஏகாஹத் பிண்டமர்ப்பேத். ஶாஞ்ச ஦்யாத் ஹிதீயேஹி தூதியேஹி ஸபிண்டனம் இதி ஸ்மரணாத்.

புத்ரனில்லாத ஜ்ஞாதியின் மரண விஷயத்தில்

புத்ரனில்லாதவனும், ஸம்ஸ்காரம் செய்யப் படாதவனுமான ஜ்ஞாதியின் மரணத்தை 11-நாட்களுக்குப் பிறகு கேட்டால், புநர் தஹநத்தைச் செய்து, தனது ஆசௌசமுள்ள வரையில் உதக பிண்டதாநத்தைசெய்து, ஆசௌசத்தின் முடிவில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், மறுநாளில் ஸாபிண்ட்யத்தையும் செய்யவேண்டும். வர்ஷத்திற்குப் பிறகு கேட்டால் ஒரே நாளில் புநர்தஹந பிண்டோதகங்களை முடித்து, 2-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், 3-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ட்யத்தையும் செய்யவும். “வர்ஷம் முடிந்த பிறகு ஸம்ஸ்காரம் செய்யும் விஷயத்தில் முதல் நாளில் பிண்டதாநம் செய்யவும். 2-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், 3-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ட்யத்தையும் செய்யவும்” என்று ஸ்ம்ருதியிருப்பதால்.

स्मृतिमुक्ताफले - श्राद्धकाण्डः - पूर्वभागः
कृतप्रेतकृत्यविषये पिण्डनिषेधः

कृतप्रेतकृत्यस्य सपिण्डस्य मरणश्रवणे उदकमात्रं दधान् तु पिण्डान् । एकोद्दिष्टसापिण्डचे च कुर्यात् । कृतैकोद्दिष्टस्य सपिण्डोदर्मरण श्रवणे उदकं सापिण्डचं च कुर्यात् । अन्येन कृतमपि सापिण्डचं सपिण्डदौहित्रादिः पुनः कुर्यात् । कनिष्ठादिना निर्वृत्तपिण्डोदकदानादिदाहकृत्यस्य पित्रादेरेकादशदिनादौ मरणश्रवणे ज्येष्ठादिमुख्यकर्ता यावत्स्वाशौच मुदकमात्रं दधात्, न तु कनिष्ठादिकृतं पिण्डादिदशाहकृत्यं पुनः कुर्यात्, मुख्यकर्ता विदेशस्थः कालेऽकाले श्रुतो यदि । तिलोदकं प्रकुर्बीति पिण्डदानं विवर्जयेत् । कृतक्रियेऽपि पितरि दशाहं सूतकी भवेत् । दधात्तिलोदकं पुत्रः सपिण्डीकरणं पुनः इत्यादिभिः पूर्वोदाहृतवचनैरुदकमात्रस्य पुनर्विधानात् पिण्डदानस्य च निषेधात् ।

प्रेरेतकं रुत्यम् चेय्यप्पपट्टवै विषयत्तीलं
पिण्णट्टीषेत्तम्

प्रेरेतकं रुत्यम् चेय्यप्पपट्ट, औं नूति यिनं मरणत्तेतक केट्टालं उत्तकतानुत्तेत मट्टिलं चेय्यवुम्, पिण्णटानुत्तेतसं चेय्यक्कूटातु । एकोत्तिष्ठृतम् लापीण्णट्टयम् इवेवकौसं चेय्यवेण्णुम् । एकोत्तिष्ठृतमुम् चेय्यप्पपट्ट लपिण्णटनं मृतवियवरीनं मरणत्तेतक केट्टालं, उत्तकतानुत्तेतयम् लापीण्णट्टयत्तेतयम् चेय्यवुम् । अन्यानुलं लापीण्णट्टयम् चेय्यप्पपट्टिरुन्तालुम्, लपिण्णटनं तेलालृत्तरन् मृतविय कर्त्तता मरुपटि अतेतसं चेय्यवेण्णुम् । कनीष्ठृतं मृतवियवरालं, पिण्णटोत्तकतानम् मृतविय 10-नालं करुत्यम् चेय्यप्पपट्ट पिऱ्हकु, पिता मृतवियवरीनं मरणत्तेत, 11-अवतु नालं मृतविय कालत्तिलं केट्टालं, औं येष्ठृतं

முதலிய முக்ய கர்த்தா, தனது ஆசௌசமுள்ள வரையில் உதகதாநத்தை மட்டில் செய்யவும். கனிஷ்டன் முதலியவர் செய்த பிண்டதாநம் முதலிய 10-நாள் க்ருத்யத்தை மறுபடி செய்யக்கூடாது. 'முக்ய கர்த்தா + ஸபின்ஷகரணம் புநः' என்பது முதலிய முன் சொல்லப்பட்டுள்ள வசநங்களால் உதகதாநம் மட்டில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், பிண்டதாநம் நிலேதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும்.

நு முख்யகர்தா வி஦ேஶஸ்஥ோ மாதாபித்ரோமூர்திர்யே | ஸஂவத்ஸரே
வ்யதிதே|பி குர்யாத் ப்ரேதக்ரியாं தदா இதி வசனாஶாஹாதிஸ்வர் முख்யகர்தா
கர்த்யமிதி சேந் | அந்யகृதஸ்யாத் புநः கர்த்யத்வாப்ரதிதே:,
चிரகாலதிக்ரமே|பி பித்ரோர்஦்ஶாஹோடகக்ரியா-வி஧ிபரத்வாத् |
देशान्तरस्थौ पितरौ मृतौ चेदन्योऽपि कुर्यादखिलं च पित्र्यम् | दाहं
विना तानि पुनश्च पित्रोज्येष्ठोऽपि कुर्यादनुजैः सपिष्ठनम् इति
वचनाशाहव्यतिरिक्तं सर्वं புநः: கரணीயமிதி சேந் | அस्यातி-
க்ராந்தदशாஹவிஷயத்வாப்ரதிதேர்஦்ஶாஹமध்யாகதமுख்யகர்த்துவிஷயத்வே
சரிதார்஥த்வாத् |

'முக்ய கர்த்தா தூரதேசத்து லிருந்து, மாதாபிதாக்களின் ம்ருதியை ஒரு வர்ஷம் க்ரமித்துக் கேட்டாலும், அப்பொழுது க்ருத்யத்தைச் செய்யவேண்டும்' என்ற வசநத்தால், தஹநம் முதலிய எல்லா க்ரியையையும் செய்யவேண்டுமோ எனில், அது இல்லை. பிறன் செய்ததை மறுபடி செய்ய வேண்டுமென்பது இதில் தோன்றுத்தால், வெகு நாட்களாயினும், மாதாபிதாக்களுக்கு, 10-நாட்களில் உதக க்ரியையைச் செய்ய வேண்டுமென்ற விதியில் தாத்பர்யமுள்ளதாகையால், "தூரதேசத்திலுள்ள மாதாபிதாக்கள் இறந்தால், புத்ரரன்ல்லாதவன் க்ருத்யம் முழுவதையும் செய்திருந்தால், ஜ்யேஷ்ட புத்ரன் தம்பிகளுடன், தஹநம் தவிர மற்ற க்ருத்யங்களைச் செய்ய வேண்டும், ஸபின்ஷகரணத்தையும் மறுபடி

‘‘सेय्यवेण्टुम्’’ एन्ऱ वचनत्तहाल, तहनम् तवीर ऎल्लावर्नरेयम् मरुपटि सेय्यवेण्टुमेनील, अतु इल्लै. इन्त वचनम्, 10-नाट्कौंताण्डिय पिरुकौंतातेप पर्न्रियतेनपतु तोन्गुतताल, 10-नाट्कौंत वन्त मुक्यकर्त्तवयेप पर्न्रियतेनपताल सरीतार्त्त मावताल.

तथा च स्मृत्यन्ते — मुख्यकर्त्तगमेऽन्यस्तु प्रवृत्तोऽपि क्रियां त्यजेत् । ततस्तु कर्म कुर्वीत संस्कर्ता विसृजेत्ततः । पुनस्तिलोदकं पिण्डं नश्यप्रच्छादनं तथा । नवश्राद्धप्रदानादि सर्वं कर्म समाचरेत् इति । पारस्करोऽपि — एतैरारब्धपिण्डस्य यद्यागच्छन्ति वै सुताः । तेऽपि कुर्युस्तु पूर्वासि पिण्डदानं जलं तथा इति । अतो दशाहमध्ये मुख्यकर्त्तगमे वचनबलाद्वाह व्यतिरिक्तं पूर्वकृतं सर्वं तेन पुनः कार्यम्, सञ्चयनं तु न पुनः कार्यम् । कृतेनैवास्थिसञ्चयनेन उत्तिष्ठप्रेहि इत्यादिमन्त्रार्थसिद्धेः पुनःकरणस्य निरर्थकत्वात् पिण्डादिवत्स्य पुनःकरणे वचनाभावाच ।

मर्तिग्रुरु सम्मरुत्तीयिलः— मुक्य कर्त्तव वन्तु विट्टाल, मर्त्रवन्न, कर्त्तव्यम् चेय्तवणुकिनुम् निरुत्तवुम्. पुत्रनं करीयययस्च चेय्यवेण्टुम्. सम्बल्कारम् चेय्त मर्त्रवन्न विट वेण्टुम्. मरुपटि तिलोतकम्, पिण्टम्, नक्नप्ररक्षातनम्, नवस्रात्तम् इव ऎल्लावर्नरेयम् चेय्यवेण्टुम्’ एन्ऱु उल्लातु. पारस्करानुमः— ‘अन्यरक्षाल पिण्टतानम् चेय्यप्पटुम् बेपामृतु, पुत्ररक्षाल वन्तु विट्टाल, अवरक्षाम्, मुनि केऽक्कप्पट्ट पिण्टो तकंकौला मरुपटि केऽक्कवेण्टुम्’ एन्गुर. आक्षयाल, 10-नाट्कौंत मुक्यकर्त्तव वन्तुविट्टाल, वचन पलत्तहाल तहनम् तवीर्त्त मर्त्र तेल्लाम् पुत्राणाल मरुपटि चेय्यप्पटवेण्टुम्. सुन्दर्यन्मेव वेनील,

மறுபடி செய்யப்படவேண்டாம். முன் செய்யப்பட்ட அஸ்தி ஸ்ரஞ்சயன்த்தினுடேலேயே ‘உத்திஷ்டப்ரேஹி’ என்பது முதலிய மந்தரங்களின் ப்ரயோஜநம் லித்தித்ததால், மறுபடி செய்வது நிஷ்பலமாவதால், பிண்டாதிகளைப் போல், அதை மறுபடி செய்யும் விஷயத்தில் வசநமில்லாததாலும்.

दशाहमध्ये कनीयसा कृतस्यापि पिण्डोदकञ्चितिरिक्त-
नग्रप्रच्छादनादेः न पुनः करणम्, दशाहकर्मण्यारब्धे संस्कारादौ
कनीयसा । ज्येष्ठो यस्त्वन्तरागच्छेत् सोऽस्य शैषं समापयेत् इति
स्मरणात् । दशाहानन्तरमागतेन मुख्यकत्री पिण्डदानादिवर्ज-
मुदकमात्रमाशौचं च अनुष्ठेयम्, एकोद्दिष्टदिकमूर्धकृत्यं च तेन
कार्यम् । तथा पितृमेघसारे — प्रारब्धे केनचित् प्रेतकृत्ये
मुख्यकत्तिन्तराऽगतो दाहं विनाऽन्यत् सर्वं कुर्यात्, कृतं नास्थि
सञ्चयनम्, पूर्वप्रवृत्तशोदकमात्रमादशाहं दद्यात्, यद्येकोद्दिष्टान्तं
पुत्रो वाऽन्यो वा कुर्यात्, विदेशस्थः पुत्रः श्रुत्वा वपनं कृत्वा
दशाहमुदकमात्रं दद्यात्, ज्येष्ठः कृतमपि सापिण्डञ्चमैकादशाह एव
पुनः कुर्यात् इति ।

10-நாட்களுள், கனிஷ்டங்கள் செய்யப்பட்ட, பிண்டோதகம் தவிர்த்த நக்நப்ரச்சாதநம் முதலியதற்குப் புநः கரணமில்லை. ‘தசாஹு + ஸ்மாபயேத்’ என்ற ஸ்ம்ருதி உள்ளது. 10-நாட்களுக்குப் பிறகு வந்த முக்ய கர்த்தாவரல், பிண்ட தாநம் முதலியதன்றி, உதகதாநம் மட்டிலும், ஆசெள்சமும் அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும். ஏகோத்திஷ்டம் முதலிய மேல் க்ருத்யமும் அவனுல் செய்யப்படவேண்டும். அவ்விதம், பித்ருமேதஸாரத்தில்: மற்றொருவன் க்ருத்யத்தை ஆரம்பித்த பிறகு, முக்ய கர்த்தா நடுவில் வந்தால், தஹநம் தவிர மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்யவேண்டும். செய்யப்பட்ட ஸ்ரஞ்சயன்த்தை மறுபடி செய்யக்கூடாது. முன் செய்வதற்கு ஆரம்பித்தவன்,

उत्कृष्टता मट्टिलं 10-नाट्कौलं वरयीलं चेय्यवुम्.
ऋगेत्तिष्ठाम् मृद्य, पुत्रानुवतु अन्यानुवतु
चेय्तिरुन्ताल, अन्य तेचत्तिलुलौ पुत्रनं केट्टाल,
वपनम् चेय्तु कोण्ठु, 10-नाट्कौलीलं उत्कृष्टता मट्टिलं
चेय्यवुम्. ज्ञेयेष्ठान्तं, चेय्यप्पट्ट
लोपिण्ठान्तं तत्ता, 11-आवतु नालीलेये मरुपटि
चेय्यवेण्ठुम्'' एन्ऱु.

स्मृत्यन्ते — कनिष्ठेन कृतं सर्वं श्राद्धान्तं च यथाक्रमम् ।
ज्येष्ठपुत्रः समायातस्तद्विनादि दशाहतः । पाषाणस्थापनं पिण्डं
विनैवोदकमाचरेत् इति । विश्वादर्शं च— यः कुर्यात् प्रथमेऽहि
संस्कृतिविधिं ज्ञातेस्तदन्यस्य वा श्राद्धान्तं सकलं स एव चरतु
ज्ञात्यादिकेऽप्यागते । ज्येष्ठासन्निधिना कनीयसि पितुः कुर्वण एव
क्रिया: श्रुत्वोपस्थित एव चेदथ चरेज्यायांस्तदूर्ध्वक्रियाः ।
यत्पित्रोर्मरणादिकं दशदिनं तस्मिन् गते ज्यायसस्तत्पश्चाच्छ्रवणात्
प्रभृत्युपरताशौचप्रवृत्तावपि । ज्यायानेव तदूर्ध्वमाचरतु
तच्छ्रादिमिश्रान्तकं तत्तकर्मणि शुद्धिमस्मरदसौ तात्कालिकीं
देवलः इति । मिश्रं - सपिण्डीकरणम् । उक्तेष सर्वेषु वचनेषु
दशमदिनादूर्ध्वं कृतदशाहकृत्यस्य पित्रादेर्मरणश्रवणे पिण्ड-
दानादेरविधानादुदकमात्रमेकोद्दिष्टादूर्ध्वकृत्यं चेति बहुस्मृति-
संमतम् ।

मर्त्तिरुग्रु लंमंरुतीयीलः— कनिष्ठां पुत्रानं करुत्यम्
मुमुवतेत्युम् ऋगेत्तिष्ठाम् मृद्य वित्तिप्पटि चेय्त
पिऱकु, ज्ञेयेष्ठां पुत्रानं वन्त्ताल अन्ऱु मुतल
10-नाट्कौलील, पाषाणे लंतापनम् पिण्ठानाम् तविर,
उत्कृष्टता मट्टिलं चेय्यवेण्ठुम्. विचवा
तुर्सक्त्तिलुमः— 'ज्ञेयात्तिकावतु, अन्यानुक्त्तिकावतु, मुतल
नालीलं लम्लकारत्ता एवनं चेय्ताग्ने अवेने
ऋगेत्तिष्ठाम् मृद्युम् वरयीलुलौ एल्ला

வற்றையும், ஜ்ஞாதி முதலியவர் நடுவில் வந்தாலும், செய்ய வேண்டும். ஜ்யேஷ்டன் ஸமீபத்திலில்லாததால், கனிஷ்டன் பிதாவுக்கு க்ரியைகளைச் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, பிதாவின் மரணத்தைக் கேட்டு வந்தால் ஜ்யேஷ்ட புத்ரன், அதற்கு மேற்பட்ட க்ரியைகளைச் செய்ய வேண்டும். மாதா பிதாக்களின் மரணத்தினம் முதல் 10-நாட்கள் சென்றாலும் அதற்குப் பிறகு, சர்வண தினம் முதல் சாவாசெளசமிருந்தாலும், ஜ்யேஷ்டனே அதற்கு மேலுள்ள, ஏகோத்திஷ்டம் முதல் ஸபிண்ணகரணம் முடிவு வரையிலுள்ள க்ருத்யத்தைச் செய்யவேண்டும். அந்தந்தக் கர்மாக்களைச் செய்யும்பொழுது, அக்காலத்தில் மட்டும் சுத்தியென்றார் தேவலர், என்று. மிச்ரம் = ஸபிண்ணகரணம் சொல்லப்பட்டுள்ள எல்லா வசநங்களிலும், 10-நாட்களுக்கு மேல், 10-நாள் க்ருத்யம் செய்யப்பட்டுள்ள பிதா முதலியவரின் மரண சர்வணத்தில் பிண்ட தாநம் முதலியதற்கு விதியில்லாததால் உதக தாநம் மட்டிலும், ஏகோத்திஷ்டத்திற்கு மேலுள்ள க்ருத்யமும் உண்டு என்பது வெகு ஸ்ம்ருதிகளுக்கு ஸ்ம்மதமாகியது.

शतकव्याख्यानादौ तु — देशान्तरस्थौ पितरौ मृतौ चेत्
इति वचनमन्यथा व्याख्यातम् । पुत्रव्यतिरिक्तेनान्येन
सपिण्डादिना दाहादिसापिण्ड्यान्तकृत्ये कृते अनन्तरमागतः पुत्रः
दाहं संचयं विना पाषाणस्थापननग्नप्रच्छादनप्रेतशब्दनवश्राष्ट्रै-
कोत्तरवृद्धिवास उदकपिण्डबलिप्रदान षोडश सपिण्डनानि पुनः
कुर्यात्, दाहं विना तानि पुनश्च सर्वम् इत्यविशेषेणाभिधानात्,
कृतक्रियेऽपि पितरि दशाहं सूतकी भवेत् । दधात्तिलोदकं पिण्डं
सपिण्डीकरणं पुनः इति पुनः पिण्डदानस्य विधानाच्च ।

சதுக வ்யாக்யானம் முதலியதி லோவெணி வெனில் : -
'தேசாந்தரஸ்தளபிதரெள ம்ருதெளசேத்' என்ற வசநம்
வேறு விதமாய் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டுள்ளது -
“புத்ரஜைத் தவிர்த்த அன்யனை ஸபிண்டன்

मुत्तव्यवल्ले, तत्त्वनम् मुत्तलं सापिण्टयम् मुष्टव्यवरयिलुलाक्तुर्त्यम् चेय्यप्पट्टप्रिन्कु, वन्तपुत्तरन्, तत्त्वनम् लुक्षयन्म तवीर, पाष्ठोन्न सत्तापनम्, नक्नप्रसचात्तनम्; परेत सप्तम, नवसरात्तम, एकोत्तरव्युत्ति, वर्गोत्तम, तिलोत्तम, पिण्टपलि प्रत्तानम्, लेषात्तम, लपिण्टनम् इवेक्ज्ञा मरुपदि चेय्यव्यम्. तत्त्वनम् तवीर मर्त्र एल्लावर्त्तन्नयम् मरुपदि चेय्यव्यम्, एन्ऱू लामान्यमायसि चेऽव्यव्यिरुप्पत्तालुम्, 'प्रित्तावक्तु कर्णियकलं चेय्यप्पट्टिरुन्तालुम्, 10-नालाक्लेशक्लेशम्, तिलोरत्तकं पिण्ट प्रत्तान लपिण्टकरणक्लेशम् मरुपदि चेय्यव्यम्' एन्ऱू मरुपदि पिण्टत्तानम् वित्तकप्पट्टिरुप्पत्तालुम्.

अनुजैरनुष्टिते सपिण्डीकरणान्तकृत्ये तु ज्येष्ठपुत्र उदकमात्रं पुनः सपिण्डनं च कुर्यात् न तु पिण्डादीनि इति । कनिष्ठकृतदशाहृत्यादिविषये उदकदानसपिण्डीकरणव्यतिरिक्तं पिण्डादिकं न कर्तव्यमित्यत्रवार्थं मुख्यकर्ता विदशस्थः कालेऽकाले श्रुतो यदि । तिलवारि प्रकूरीत पिण्डदानं विवर्जयेत् इति, कृतक्रियेऽपि पितरि इत्यादीनि पूर्वोक्तानि वचनानि योजितानि । स्मृत्यन्तरे च — न शिला न मृदा स्नानं न प्रेतं न च बासकम् । नग्नं पिण्डं न दातव्यं दर्भस्तम्भे तिलोदकम् इति । प्रेतं - प्रेतशब्दोचारणम्, बासकम् - बास उदकम्, नग्नं - नग्नप्रच्छादनम्, पिण्ड - पिण्डप्रदानम्, दर्भस्तम्भे तिलोदकं न कार्यम्, दर्भस्तम्भास्तरणरहितस्थले कर्तव्यमित्यर्थः ।

कणीष्टरक्लालं लपिण्टकरणम् मुष्टयसि चेय्यप्पट्टिरुन्तालेलोर, ज्येष्ठेष्ट पुत्तरन् उत्तक तान्तत्तमट्टिलुम् चेय्तु, लपिण्टकरणत्तत्तयम् मरुपदि चेय्यवेण्टियत्तिलै, एन्ऱू. कणीष्टन् 10-नालं कर्तुक्त्यम् मुत्तव्यत्तक चेय्त विष्यत्तिल, उत्तकत्तानम्

ஸ்பிஞ்சைகரணம் இவைகளைத் தவிர்த்த பிண்டதாநம் முதலியதைச் செய்யவேண்டாம் என்ற அர்த்தத்திலேயே, 'முக்ய கர்த்தா+விவரஜயேத்' என்பதும் 'க்ருதக்ரியேபி பிதரி' என்பதும் முதலாயுள்ள, முன் சொல்லிய வசநங்களைல்லாம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும்:- "சிலை இல்லை. ம்ருத்திகாஸ்நாநமில்லை, ப்ரேதமில்லை, வாஸகமில்லை, நக்னமில்லை, பிண்டதாநமில்லை, தர்ப்ப ஸ்தம்பத்தில் திலோதகமில்லை". ப்ரேதம் = ப்ரேத சப்தத்தை உச்சரிப்பது. வாஸகம் = வாஸோதகம். நக்னம் = நக்ன ப்ரச்சாதநம். பிண்டம் = பிண்ட ப்ரதானம். தர்ப்ப ஸ்தம்பத்தில் திலோதக தாநம் செய்யக்கூடாது. தர்ப்பத்தைப் பரத்தாத ஸ்தலத்தில் செய்ய வேண்டுமென்பது பொருள்.

தथா சந்஦ிகாஸாம् :- ஜ்யேஷன வா கனிஷேந ஸபிண்டிகரண
கृते । ஦ேஶாந்தர஗தானாந் து பிண்டாந் கர்஥ ஭வேத । ஶ्रுत்வா து வபுந் குத்வா
दशாஹாந்த் திலோடகம् । ததः ஸபிண்டிகரண் குர்யாடிகாடஶோஹனி
இதி । பிண்டாந் - ஸபிண்டிகரணம् । ஜ்யேஷன பிது: ஸபிண்டி-
கரணாந்தப்ரேதகृத्यே கृதே கனிஷ: பிதமृதिं ஶ्रுத்வா ஦शாஹாந்த் திலோடகं
दघாத । கனிஷகृதே து தஸ்மிந् ஜ்யேஷ: ஶ்ருத்வா வபுந் குத்வா ஦ஶாஹாந்த்
திலோடகமாற் ஦घாத् ந து பிண்டாந् தத ஏகாடஶாஹ
ஸபிண்டிகரணமேந குர்யாந் த்வேகோஹிஷமித்யर्थ: । ஏவ் ஸ்மृத்யर्थ-
விப்ரதிபத்தௌ சிஷ்டாசாராந்திரவஸ்஥ா ।

சந்தர்த்திகையில்:- ஜ்யேஷ்டாலாவது, கனிஷ-நே
லாவது ஸ்பிஞ்சைகரணம் செய்யப்பட்ட பிறகு,
தேசாந்தரத்திலுள்ள பிள்ளைகள் கேட்டால் அவர்கள்
பிண்டதானத்தை எப்படிச் செய்வது? எனில், கேட்டபிறகு
வபநம் செய்து கொண்டு 10-நாள் வரையில்
திலோதகதானம் செய்து, பிறகு 11-ஆவது நாளில்
ஸ்பிஞ்சைகரணத்தைச் செய்யவும். பிண்டதானம் =
ஸ்பிஞ்சைகரணம். ஜ்யேஷ்டன் பிதாவுக்கு ஸ்பிஞ்சைகரணம்

मुष्टियुम् वरेरयिल् प्रेरेत कुरुत्यत्तेत्स चेयत् पिरकु, कनीष्टनं पितृगु मरुतियेकं केट्टाल 10-नाळं वरेरयिल् तिलोतक तान्तत्तेत्स चेययवम्. कनीष्टनं सपिण्णालकरणम् मुष्टियुम् वरेरयिल् चेयतपिरकु ज्ञेयेष्टनं केट्टाल, वपनम् चेयतुकेान्नु, 10-नाळं वरेरयिल् तिलोतक तान्तत्तेत मट्टिल् चेययवम्. पिण्टताळमिल्लै. पिरकु 11-आवतु नाळील सपिण्णालकरणत्तेत मट्टिल् चेययवम्. एकोत्तिष्टत्तेत्स चेययक्कूटातु, ऎन्पतु बेपारुं. इव्वितम् सम्गुरुत्यर्त्ततन्करुक्कु मारुतल् इरुप्पताल, शिष्टाचारात्तेतकं केान्नु नीरंणयत्तेत्स चेयतुकेान्ळवम्.

अयमत्र निष्कर्षः — अन्येन संस्कारादौ कृते अन्तर्दशाहे सञ्चयात् पूर्वमागतः पुनः पुनर्दाहि विधिनाऽस्थ्यादि दग्धवा शिरोमात्रवपनं कारयित्वा सञ्चयन नग्नप्रच्छादनातीतदिनकृत वास उदकतिलोदकपिण्डदानैकोत्तर वृज्जिनवश्राद्धानि तदानीमेव पुनः कृत्वा तात्कालिकोदकपिण्डाद्येकोद्दिष्टान्तं तत्काले कृत्वा स्वकाले पञ्चदशश्राद्धानि कृत्वा सापिण्डयं च कुर्यात् । संस्कर्ता तु यावत्स्वाशौचमाशौचान्तदिने वा दशाहवेषे देयं तिलोदकमात्रं दत्वाऽत्मशुद्ध्यर्थं ब्राह्मणान् भोजयेत् ।

इव्विष्यत्तिल् नीरंणयमितुः- “अन्यगैल् सम्स्कारम् मुतवियतु चेययप्पट्ट पिरकु 10-नाट्करुं सर्वं चयन्ति तिन्तकु मुनं वन्त पुत्रान्, पुनर्तत्त्वहन वित्तियाल् अस्ति मुतवियतहत तव्वित्तकु, शिरस्सलाक्कु मट्टिल् वपनम् चेयतुकेान्नु, सर्वं चयन्ति, नक्ऩपर्चसातनम्, चेन्ऱ नाट्करील् चेययप्पट्ट वालेशोतकम्, तिलोतकम्, पिण्टम्, एकोत्तरवर्गुत्ति चरात्तम्, नवचरात्तम् इवेवकीला अप्पेत्रोते मरुपटि चेयतु, अन्ऱ चेययवेण्टिय उत्कपिण्टान्कर्णं मुतल् एकोत्तिष्टम् वरेरयिल् अन्तन्तकं कालत्तिल् चेयतु,

ஸ்வகாலத்தில் 15-ச்ராத்தங்களையும், ஸாபிண்ட்யத்தையும் செய்யவேண்டும். ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனேவனில், தனது ஆசௌசம் வரையில், அல்லது ஆசௌசத்தின் முடிவு தினத்தில், மீதியுள்ள திலோதகத்தை மட்டில் கொடுத்து, தனது சுத்திக்காக ப்ரர்ம்ஹனர்களைப் புஜிப்பிக்கவும்.

सञ्चयात् परमागतश्चेत् दाहसञ्चयनवर्ज नग्नप्रच्छादनातीत-
पिण्डोदकनवश्राद्धादि कृत्वा तात्कालिकतिलोदकाद्येकोद्दिष्टान्तं
कृत्वा श्रवणदिनमारभ्य दशाहाशौचमनुष्टाय आवृत्ताद्यमासिका-
दीनि उक्तकाले कृत्वा त्रिपक्षादौ सापिण्डचं कुर्यात् । संस्कर्ता तु
पूर्ववदेव कुर्यात् । कनिष्ठेन तु दाहादिप्रेतकृत्ये कृते सञ्चयात् पूर्वं परं
वा आगतो ज्येष्ठपुत्रः अतीतकालीनोदकपिण्डमात्रमेकदा दत्वा
तात्कालिकोदकपिण्डाद्येकोद्दिष्टान्तं कुर्यात् । सञ्चयनात्
पूर्वमागतश्चेद् द्वादशाहे सापिण्डचं कुर्यात्, ततः परमागतश्चेत्
श्रवणदिनमारभ्य दशाहाशौचमनुष्टाय त्रिपक्षादौ सापिण्डचं
कुर्यात् । संस्कर्ता कनिष्ठस्तु पक्षद्वयेऽपि तिलवारिमात्रं दशाहान्तं
कुर्यात् ।

ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு வந்தால், தஹநம் ஸஞ்சயநம் இவைகளைத் தவிர்த்து, நக்நப்ரச்சாதநம், கடந்த பிண்டோதகங்கள், நவச்ராத்தம் முதலியதைச் செய்து, தத்காலத்திய திலோதக தாநம் முதல் ஏகோத்திஷ்டம் முடியும் வரையில் செய்து, கேட்ட நாள் முதல் 10-நாளாசௌச மனுஷ்யத்து, ஆவ்ருத்தாத்யமாளிகம் முதலியதை விழித காலத்தில் செய்து, தரிபக்ஷம் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனேவனில் முன் சொல்லியபடியே செய்யவும். கனிஷ்டங்கள் தஹநம் முதலாகிய ப்ரேத க்ருத்யம் செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸஞ்சயநத்திற்கு முன்பாவது பின்பாவது வந்தஜ்யேஷ்ட புத்ரன், சென்ற காலத்திய உதக

पिण्ठात्तानुत्तेत अप्पेबामुत्तेचेष्टु, तत्कालत्तिय उत्तक
पिण्ठात्तानम् मुत्तल एकोत्तिष्ठत्तम् वरयिल चेष्यवुम्.
लंगुचयन्त्तिर्त्तु मुन्न वन्त्ताल, 12-आवत्तु नालील
लोपिण्ठयत्तेत्तस्त चेष्यवुम्. लंगुचयन्त्तिर्त्तुप्पि पिण्ठ
वन्त्ताल, केट्ट नाल मुत्तल 10-नाल
आलेचलाचम्मुष्टित्तु, तरीपक्षम् मुत्तलीय कालत्तिल
लोपिण्ठयत्तेत्तस्त चेष्यवुम्. लम्स्लकर्त्तावाल
कलीष्टन्न, इरण्ठु पक्षत्तिलुम्, त्तिलोत्तक
तानुत्तेत्तमट्टिल 10-नाल वरयिल चेष्यवुम्.

कनिष्ठेन कृते दशाहकृत्ये दशमदिनरात्रावेकादशाहे वा
अपराह्नात् पूर्वमागतो ज्येष्ठपुत्रः सवर्जनवपनं कृत्वा
वृषोत्सर्जनादेकोद्दिष्टं च कृत्वा तदारम्य दशाहमाशौचमनुष्टाय
उदकमात्रं च दत्त्वा त्रिपक्षादौ सापिण्डचं कुर्यात् । कनिष्ठेन
असमाप्ते तु दशाहकृत्ये आगतदिनमारम्य दशाहकृत्यं सर्वं
परिसमाप्य एकादशाहे एकोद्दिष्टं त्रिपक्षादौ सापिण्डचं च कुर्यात् ।
अन्येन सपिण्डादिना दशाहकृत्ये कृते सञ्चयात् पूर्व
दशमदिनरात्रावेकादशाहे वा समागतः पुत्रः पुनर्दहनवपनादे-
कोद्दिष्टान्तानि एकादशाहेऽहि कृत्वा दशाहानन्तरमुक्तकाले
आवृत्ताद्यमासिकादीनि कृत्वा त्रिपक्षादौ सापिण्डचं च कुर्यात् ।
सञ्चयात् परमागतश्चेत् व्रपनं कारणित्वा वृषोत्सर्जनादेकोद्दिष्टं च
कृत्वा दशाहमाशौचमुदकमात्रं लानुष्टाय त्रिपक्षादौ सापिण्डचं च
कुर्यात् ।

कलीष्टन्न 10-नाल कर्त्तियययस्त चेष्यत पिऱकु
10-आवत्तु तिनत्तिल रात्तरीपिलावत्तु, 11-आवत्तु तिनत्तिल
मुन्नपक्षलावत्तु वन्त्तत ज्येष्ठष्ठत्तपुत्तरन्न, लर्वान्स्क
वपनम् चेष्यतु केण्ठु, वर्गुप्तोपात्तलर्जनम् मुत्तल
एकोत्तिष्ठत्तेत्तयम् चेष्यतु, अतु मुत्तल 10-नाल
आलेचलाम्मुष्टित्तु, उत्तकत्तानम् मट्टिल चेष्यतु,

த்ரிபக்ஷம் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்டயத்தைச் செய்யவும். தனிஷ்டங்குல் 10-நாள் க்ரியை செய்யப்படாவிடில், வந்த நாள் முதல் 10-நாட்களில் க்ரியையை முழுதும் முடித்து, 11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், த்ரிபக்ஷாதி காலத்தில் ஸாபிண்டயத்தையும் செய்யவும். அன்யனை ஸபிண்டன் முதலியவனால் 10-நாள் க்ரியை செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸஞ்சயநத்திற்கு முன் 10-ஆவது நாள் ராத்ரியிலாவது, 11-ஆவது தினத்திலாவது வந்த புத்ரன், புநர்தலைநம் வபநம் முதல் ஏகோத்திஷ்டம் வரையுள்ளவைகளை, 11-ஆவது நாளில் செய்து, 10-நாளைக்குப் பிறகு, விழித காலத்தில், ஆவ்ருத்தாத்ய மாஸிகம் முதலியவைகளைச் செய்து, த்ரிபக்ஷம் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்டயத்தையும் செய்யவும். ஸஞ்சயநத்திற்குப் பிறகு வந்தால், வபநம் செய்து கொண்டு, வருஷபோத்ஸர்ஜநம் முதல் ஏகோத்திஷ்டத்தையும் செய்து, 10-நாள் ஆசௌகத்தையும், உதக்தாநத்தையும் மட்டில் அனுஷ்டித்து, த்ரிபக்ஷாதி காலத்தில் ஸாபிண்டயத்தையும் செய்யவும்.

அபுत்ரஸ்ய கृतसंस்காரஸ்ய அந்தர்஦ஶாஹ ஸञ்சயாத् பூர்வ பரா
வா¹ஸ்஗தோ ஦ாயமாக் முख்யகர்தா அதீதகாலோடகபிண்டமாற்மேகா
கृत्वा தாத்காலிகோடகபிண்டான ஸञ்சயநனவಶ்ராஜா² பிண்டி-
கரணாந்தாந்யுக்தகாலே குர்யாத் । அது ஸञ்சயநாத் பூர்வமா
கரணமஸ்தी³ தி கே⁴சிது । அது பக்ஷத்யே⁵ பி ஸंகर்தா ஦ஶாஹாந்த் ஦ேய
திலோடகமான் ஸ்வாஶௌचாந்தே கृத்வா ஶுஷ்டா⁶ விர்தீ விராமப் ஭ோஜன் காரயேத் ।
ஸ ச ஦ாயமா⁷கோகாட⁸தே⁹ ஹி ஆகத: அந்யே¹⁰ ஦ஶாஹகृதே கृதே
தாத்காலிகைகோ¹¹தே¹² விஷ்ணு¹³ தே¹⁴ பூர்வக¹⁵க் கோ¹⁶தே¹⁷ மே¹⁸கோ¹⁹தே²⁰ மீ²¹
ஸா²²ஶௌ²³சமு²⁴க் கா²⁵நு²⁶ஷா²⁷ய திபக்ஷா²⁸தை²⁹ ஸா³⁰பிண்டச்³¹ குர்யாத் । அதாபி
ஸञ்சயநாத் பூர்வமா³²கரண³³ விஷயே நயப்ரச்஛ா³⁴தா³⁵ ஦ிபூர்வக³⁶மே³⁷கோ³⁸தே³⁹மிதி
கே⁴⁰சிது ।

पुत्ररनील्लातवन्नुक्तु लम्स्कारम् चेय्यप्पपट्ट
 पिऱकु, 10-नाट्कारुण्यं, लग्नचयन्त्तिऱ्कु मुनं, अल्लतु
 पिण्वन्त तन्त्रहारीयाणा मुक्यकर्त्तवा, चेन्न कालत्तिऱ्क
 केकाटुक्कवेण्टिय उत्क पिण्टनंकैला अप्पेपामुते
 केकाटुत्तु, अप्पेपामुतु चेय्य वेण्टिय
 उत्कपिण्टतानम्, लग्नचयन्तम्, नवस्रात्तम्, मुतल
 लपिण्णकरण्यम् वरायिलु०लावेकैला अन्तन्तक
 कालत्तिल चेय्यवेण्टुम्. इतिल, लग्नचयन्त्तिऱ्कु मुनं
 वन्त मुक्य कर्त्तव्यक्तु, तहनम् तविर्त्तत
 नक्णप्परस्चातनम् मुतलियतर्कु, मुनं
 चेय्यप्पपट्टिरुन्तालुम्, पुनःकरण्मुण्णेटन्ऱु चिलर.
 इतिल 2-पक्षुत्तिलुम्, लम्स्कारम् चेय्यतवन् 10-नार०
 वरायिल केकाटुक्कवेण्टिय तुलेकत्तेत मट्टिल
 तन्तु आसेलाचत्तिन् मुष्टिल चेय्तु, सत्तिक्ककाक
 प्रराम्भौजारकैला० पुज्जिप्पिक्क वेण्टुम्. अन्तत
 तन्पाकि, 11-आवतु नारील वन्तताल, अन्याणेल 10-नार०
 करीय चेय्यप्पपट्टिरुन्ताल, अन्ऱु चेय्यवेण्टिय
 वर्गुष्टपोत्तसर्जनम् एकोत्तिष्ठितम् इवेकैलाच
 चेय्तु, अतिकरान्तताचेलाचत्तेतयुम् उत्कतान्ततेतयु
 मनुष्टित्तु, तरीपक्षुाति कालत्तिल लापिण्टयत्तेतच
 चेय्यवम्. इतिलुम्, लग्नचयन्त्तिऱ्कु मुनं वन्तवन्त
 विषयत्तिल नक्णप्परस्चातनातिकैलाच चेय्तु
 एकोत्तिष्ठितम् चेय्यवेण्टुमेन्ऱु चिलर.

अकृते दशाहकृत्ये तु दाह्यतिरिक्तं सर्वं तदैव कृत्वा
 तात्कालीनवृष्टोत्सर्गैकोदिष्टे च कृत्वा स्वाशौचमनुष्टायोक्तकाले
 सापिण्ड्यं कुर्यात् । अकृतेऽप्यस्थिसञ्चयने यत्र पुनर्दाहिभाव-
 स्तद्विषये सन्निहिते पूर्वचितिदेशे तं समीक्ष्यान्तर्दशाहादावागतो
 मुख्यकर्ता सञ्चयनमन्त्रान् सोतोऽपहृतास्थिन्यायेन पठेत् ।
 यद्येकोदिष्टान्तं पुत्रः अन्यो वा कुर्यात्, विदेशस्थः पुत्रः श्रुत्वा वपनं
 कृत्वा दशाहमुदकमात्रं दद्यात्, सपिण्डीकरणं चान्यकृतं कनिष्ठकृतं
 वा एकादशाहे पुनः कुर्यात् ।

10-நாள் க்ருத்யம் செய்யப்படாத பகுத்திலானால், தஹநம் தவிர்த்த எல்லாவற்றையும் அப்பொழுதே செய்து, தத்காலத்திய வருஷபோத்ஸர்ஜுநம், ஏகோத்திஷ்டம் இவைகளையும் செய்து, தனது ஆசௌகத்தை அனுஷ்டத்து, விஹிதகாலத்தில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். அஸ்திஸன்சயநம் செய்யப்படாவிட்டனும், எவ்விஷயத்தில் புநர்தஹந மில்லையோ அவ்விஷயத்தில் ஸமீபத்திலுள்ள சிதிதேசத்தில், அதைப் பார்த்துக் கொண்டு 10-நாட்களுள் வந்த முக்ய கர்த்தா, ஸஞ்சயந மந்த்ரங்களை, அஸ்தியை ப்ரவாஹம் அபஹரித்த விஷயத்திற் போல், படிக்க வேண்டும். ஏகோத்திஷ்டம் முடியும் வரையில், புத்ரனாவது அன்யனாவது செய்திருந்தால், அன்யதேசத்திலுள்ள புத்ரன் கேட்டால், வபநம் செய்து கொண்டு, 10-நாள் உதகதாநம் மட்டில் செய்யவும். ஸபிண்மகரணம் அன்யனால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கனிஷ்டனால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அதை 11-ஆவது நாளில் மறுபடி செய்யவும்.

அக்ராஸ்நி஧ானே^३நுஜ: ஸபிண்஡ிகரண் குர்யாதி அக்ர: கृதமपि ஸபிண்஡ிகரண் புன: குர्यात् । அக்ராஸ்நி஧ானே வி஭க்தா: கனிஷா: பृथक்ரු:; அக்ரஜோ^३பி புன: குர்யாத् । அவி஭க்தாஶே^३திவ்யமானே^३ஸு ஜ்யே^३ஷ: குர்யாத्, ஸர்வஜ்யே^३ஷ: புன: குர்யாத् । வத்ஸராநந்தர் மாதாபிதமுரணஶ்ரவண கூதக்ரியே பிதரி புத்ராண் திராந்தம், அகூதக்ரியே து ஦ஶராந்தம் । கூதக்ரியே ஜ்யே^३ஸ்ய ஦ஶராந்த கனிஷாநா திராந்தமிதி கே^३சித் । பத்யா: ஭ர்த்மரணஶ்ரவணே^३பி புத்ரவா^३ஶா^३ஹம் ।

ஜ்யேஷ்டன் ஸந்நிதியில் லாததால், கனிஷ்டன் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்தால், ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி அதைச் செய்யவும். ஜ்யேஷ்டன் ஸமீபத்திலில்லாவிடில் விபக்தர்களான கனிஷ்டர்கள் தனித்தனியே செய்யவும். ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி செய்யவும். விபாக

माकात्तवर्कनाकिल्, उल्लवर्कगुणं ज्ञेयेष्टनं
चेय्यवुम्. उर्ववज्जेयेष्टनं मरुपदि चेय्यवुम्.
वर्षत्तिन्त्रकुप्पिरुकु, मातापित्तरुमरणत्तेतक्केट्टाल्,
करीये चेय्यप्पट्टविषयत्तिल् 3-नालाचेसाचम्.
करीये चेय्यप्पटाविष्टिल् 10-नालाचेसाचम्. करीये
चेय्ताकिय विषयत्तिल्. ज्ञेयेष्टनुकु 10-नाला.
कनीष्टर्कगुणकु 3-नाला एन्ऱु चिलर्. पर्त्ताविळं मरण
सरवणत्तिल् पत्तन्निकु 10-नालाचेसाचम् पुत्ररैनप
पोलवेवे.

सप्त्नीमातुर्दाहादिकृत्ये भिन्नोदरेण कृतेऽन्तर्दशाहा-
गतौरसपुत्रः स्वकनिष्ठकृते यावद्विहितं तावदेव कुर्यात् ।
सप्त्नीमातुर्विषात् पूर्वं मृतिश्रवणे दशाहमाशौचमुदकं च । वर्षात् परं
तु श्रवणे च्यहम् । भिन्नोदरज्येष्ठकृतं सपिण्डीकरणं च औरसः पुनः
कुर्यात् ।

सपत्नी मातावुकु तहनम् मुतलियतेत
पिण्डेनेत्ररान् चेय्त पिरुकु, 10-नाट्कगुणं वन्तत ऊराल
पुत्ररन्, तन्तु कनीष्टनं चेय्तिरुन्तालं एववितमेवा
अव्वितम् मैत्रीयेष्ट चेय्यवुम्. सपत्नी माताविळं
मंगुत्तिये वर्षत्तिन्त्रकुल् केट्टाल् 10-नाला
आचेसाचमुमुतकताणमुम्. वर्षत्तिन्त्रकुप्पिरुकाणुल्
3-नालाचेसाचम्. पिण्डेनेत्रज्ञेयेष्टनुल् चेय्यप्पट्ट
सपिण्डेकरणत्तेयुम्, ऊरालनं मरुपदि चेय्यवुम्.

भ्रातुर्देशान्तरमणश्रवणे षण्मासात् पूर्वं दशरात्रम्, ततः परं
त्रिरात्रम् । कृतोदके तु तस्मिन् षण्मासात् पूर्वं त्रिरात्रम् । तत्परं
पक्षिणी उदकं च । वर्षात् परं तु श्रवणे दाहकस्य तु भ्रातुर्दशाहम् ।
कनिष्ठादिना कृतक्रियस्य पित्रादेरेकादशदिनादौ मरणश्रवणे
मुख्यकर्तुरुदकमात्रमेवातीतप्रेत कृत्यं कार्यम् । न पिण्डादि सर्वम् ।
केचित्तु कनिष्ठकृतस्य पिण्डादेविवृतिः दहनसञ्चयनङ्गयति-
रिक्तस्यान्यकृतस्य प्रेतकृत्यस्य पुनः करणमस्तीत्याहुः ।

ப்ராதாவின் தேசராந்தர மரண சரவணத்தில், 6 மாதத்திற்கு முன் 10-நாள் ஆசௌசம், அதற்குப் பின் 3-நாளாசௌசம். அவனுக்கு உதகதாநமாகியிருந்தால் 6-மாதத்திற்குமுன் 3-நாள். அதற்குப் பிறகு பக்ஷினீ, உதகதாநமும். வர்ஷத்திற்குப் பிறகு கேட்டால் தாஹுகனுன் ப்ராதாவுக்கு 10நாளாசௌசம். கணிஷ்டன் முதலியவரால் க்ரியை செய்யப்பட்ட பிதர முதலியவரின் மரணத்தை 11-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் கேட்டால், முக்ய கர்த்தாவால் உதகதாநம் மட்டிலான அதைப் ப்ரேத கருத்யம் செய்யப்படவேண்டும். பிண்டதாநம் முதலியதெல்லாம் வேண்டியதில்லை. சிலரோவெனில், கணிஷ்டன் செய்த விஷயத்தில் பிண்டதாநம் முதலியதில்லை. தஹந ஸ்ரீசயநம் தவிர்த்து, அன்யக்ருதமான ப்ரேதக்ருத்யத் திற்குப் புந்கரணம் உண்டென்கின்றனர்.

புநர்஦ீஹவி஧ி:

अथ पुनर्दीहविषयाः । अपरार्के — मन्त्रवत् संस्कृतस्यापि ह्यसमाप्तोदकस्य तु । अवग्दशदिनादूर्ध्वं पुनर्दीहो विधीयते इति । दशदिनादवर्गसमाप्तोदकस्येत्यन्वयः । शातातपः — एकोद्दिष्टं सुतः कुर्यान्मृतस्यैकादशोऽहनि । तत्र श्राद्धं न कुर्याच्चेत् पुनः संस्कारमहीति इति । बृहस्पतिः — एकादशोऽहिं यच्छ्राद्धं मेकोद्दिष्टं समाचरेत् । यदि कार्यं न कुर्वति पुनः संस्कारमहीति इति । वसिष्ठश्च — यत्कृतं प्रेतमुद्दिश्य नवश्राद्धादिकं कवित् । अकृतं तद्विजानीया-देकोद्दिष्टं विनाकृतम् इति । एतत् सर्वमकृतास्थिसचयनविषयम् ।

புநர்தஹந விதி.

இனி புநர்தஹந விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அபரார்கத்தில்:- மந்த்ரத்துடன் ஸம்லக்கரம் செய்யப் பட்டவனுக்கும், 10-நாட்களுக்குள் உதகஸ்மாபநம் செய்யப்படாவிடில், அதற்குமேல், புநர்தஹநம் விதிக்கப்படுகிறது. சாதாதபர்:- ம்ருதனுக்கு, 11-ஆவது

தினத்தில், புத்ரன் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவேண்டும். செய்யாவிடில், புநஸ் ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவேண்டும். ப்ரஹஸ்பதி:- 11-ஆவது தினத்தில் ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைச் செய்யவேண்டும். செய்யாவிடில் புநஸ்ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவேண்டும். வளிஷ்டரும்:- ம்ருதனை உத்தேசித்துச் செய்யப்பட்ட நவ ச்ராத்தம் முதலியது செய்யப்படாததென்றறியவும், ஏகோத்திஷ்டம் செய்யாவிடில். இது முழுவதும் அஸ்திலங்குசயநம் செய்யாத விஷயத்தைப் பற்றியது.

तथा च स्मृत्यन्ते — मन्त्रवत् संस्कृतस्यापि
ह्यसमाप्तोदकस्य तु । अस्थिसंचयनादवार्क् पुनर्दाहो विधीयते ।
अस्थिसंचयनादूर्ध्वमसमाप्तोदकस्य तु । पुनर्दाहं विना तत्र
पिण्डदानोदकक्रिया इति । सङ्घेऽपि — मन्त्रवत् संस्कृतस्यापि
ह्यकृतास्थिचयस्य तु । आदश्राव्यस्य विच्छेदे पुनर्दाहो विधीयते
इति । निमित्तान्तरमुक्तं स्मृत्यन्ते — अमन्त्रपूर्व दग्धाना-
मङ्गैकल्यशेषिणाम् । चण्डालादिहतानां च पुनर्दहनमाचरेत् इति ।
आदिशब्दात् नखिदंष्ट्रिस्वेच्छामरणादयो गृह्यन्ते ॥ । नारदश्च —
मन्त्रं विना तु यद्ग्रधं प्रेतं तस्य पुनः क्रिया । मन्त्रसंस्कारयुक्तस्य न
कुर्याद्वहनं पुनः इति । मन्त्रसंस्कारयुक्तस्य न कुर्यादित्येतत्
कृतास्थिसंचयनविषयम् ।

छुरु लंमंग्रुतियिल : :- मन्त्रत்துटनं सम्स்காரம் செய்யப்பட்டவனுக்கும் அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திற்கு முன் உதகஸமாப்தி செய்யப்படாவிடில் புநர்தஹநம் விதிக்கப்படுகிறது. அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திற்குமேல் உதக ஸமாபநமாகாதவனுக்கு, புநர்தஹநம் தவிர, உதக பிண்டதானத்தைச் செய்யவும். ஸங்க்ரஹத்திலும்:- மந்த்ரத்துடன் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்டவனுக்கும், அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்படாமல், ஆத்ய ச்ராத்தத்திற்குத் தடை வந்தால் புநர்தஹநம் விதிக்கப்படுகிறது. மற்றொரு

நிமித்தமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஓர் ஸ்மிருதியில் :- மந்த்ரமில்லாமல் தஹிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், தஹிக்கப்படாத அங்கத்தின் சேஷத்தை உடையவர்களுக்கும், சண்டாளன் முதலியவரால் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கும், புநர் தஹநத்தைச் செய்யவும், மூலத்திலுள்ள ஆதிசப்தத்தால், நகமுள்ள ப்ராணிகள், பற்களுள்ள ப்ராணிகளிலைவகளால் மரணம், புத்திபூர்வ மரணம் முதலியவை சொல்லப்படுகின்றன. நாரதரும்:- மந்த்ர மில்லாமல் தஹிக்கப்பட்டவனுக்கு, புநஸ்ஸம்ஸ்காரம். மந்த்ரத்துடன் ஸமஸ்காரம் செய்யப்பட்டவனுக்கு, புநர்தஹநத்தைச் செய்யக்கூடாது. மந்த்ரத்துடன் ஸமஸ்காரம் செய்யப்பட்டவனுக்குப் புநர்தஹநம் கூடாதென்பது, அஸ்திலெஞ்சயநம் செய்யப்பட்டவனின் விஷயம்.

पितृमेधसारे । विधिवत् संस्कारेऽप्यनस्थिसंचये
यद्युदकक्रिया विच्छिद्येत् एकोद्दिष्टं वा तदा पुनर्दाहः,
यद्यस्थिसंचयः कृतः स्यात् न पुनर्दाहः, अन्यत् सर्वं कुर्यात् ।
तथाऽङ्गदाहवैकल्ये पुनर्दाहः, यदि गृह्णाग्निनाऽप्यमन्ववद्वाहोऽ-
न्याग्निनाऽपि विधिवत्, पुनर्दाहोऽस्थीन्याहृत्य कार्यः इति ।
यद्यस्थिसंचय इति - अस्थिसंचने कृते उदकक्रियाया एकोद्दिष्टस्य च
स्वस्वकाले अकरणेऽपि न पुनर्दाह इत्यर्थः ।

பித்ருமேத ஸாரத்தில்:- விதிப்படி ஸமஸ்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அஸ்திலெஞ்சயநம் செய்யாமல் விருந்து உதகதாநம் நின்று போனாலும், ஏகோத்திஷ்டம் நின்று போனாலும், அப்பொழுது புநர்தாஹும் செய்யப்படவேண்டும். அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட்டிருந்தால் புநர்தஹநமில்லை. மற்றதெல்லாவற்றையும் செய்யவும். அவ்விதமே, அங்கதஹநம் வைகல்யத்தை அடைந்திருந்தால் புநர்தாஹுமுண்டு. ஒளபாஸநாக்நியி ஞலானாலும் மந்த்ரமில்லாமல் தஹநமானாலும்,

अन्याकेन्नियाल वित्तिप्पति ता॒वृ॒मा॒गु॒लु॒म्, अ॒स्ति॒कौ॒जा॒
॒नु॒त्तु॒प् बु॒न्नर् ता॒वृ॒त्त॒त्त॒त्त॒ च॒स्य॒य॒व॒म्. य॒त्यन्व॒त्ति॒
॒लं॒क्ष्य॒ः = अ॒स्ति॒ लं॒क्ष्य॒न्म् च॒स्य॒प्प॒ट्ट॒ पि॒रु॒क्, उ॒त्त॒क्
॒कौ॒य॒य॒य॒य॒य॒म्, ए॒को॒र्त्ति॒ष्ट॒त्त॒त्त॒त्त॒ अ॒त्त॒न्त॒न्त॒
॒क॒र्व॒ल॒त्त॒त्त॒ल च॒स्य॒य॒र्वी॒ट्ट॒न्म् बु॒न्नर्त्ता॒वृ॒मि॒ल॒जै॒ल ए॒न्न॒पत्त॒
॒पे॒र्व॒रु॒ं.

तथा सुधीविलोचने — अनाहिताग्रेदर्हस्य
कुम्भनिधानान्तत्वात्, उत्तिष्ठ प्रेहि प्रद्रवौकः कृणुष्व परमे व्योमन्
इति मन्त्रार्थसिद्धेः विधिवत्कृतस्य पुनर्दर्हायोगाच्च अनस्थिसंचये
एवं पुनर्दर्हाः । अत एव कृतेऽस्थिसंचये त्यहात् प्रेतक्रिया स्मर्यते
— अस्थिसंचयनादूर्ध्वं विच्छिन्ने तर्पणादिके । आरब्धे यदि
पित्रोश्च पुनः संक्षिप्यते त्यहात् इति ।

लौकिक्यालोकनृत्तिलिः- अन्नावृत्ताकेन्नियिन् ता॒वृ॒म्
॒कु॒म्प॒ नि॒ता॒न्त॒त्त॒त्त॒ मृ॒दि॒वा॒क् उ॒ट॒ट॒य॒ता॒ल, 'उ॒त्त॒त्त॒ष्ट॒ +
॒व्यो॒मन्' एन्नै मन्त्र॑त्तरार्त्तम् लौकिक्यत्तत्ता॒ल, वित्तिप्पति॒
॒स्य॒त्त॒त्त॒कू॒प् बु॒न्नर्त्त॒वृ॒न्म् य॒क्त॒म॒ला॒त॒ता॒लु॒म्, अ॒स्ति॒
॒लं॒क्ष्य॒न्म् च॒स्य॒प्प॒ट्ट॒त्त॒ विष्य॒त्त॒त्त॒ल ता॒न्न॒
॒पु॒न्नर्त्त॒वृ॒न्म्. आ॒केय॒र्त्त॒रु॒ं अ॒स्ति॒लं॒क्ष्य॒न्म्
॒स्य॒प्प॒ट्ट॒ विष्य॒त्त॒त्त॒ल, ३-न॒र॒ट्क॒ली॒ल प॒रेत्त॒क॒री॒य॒
॒वित्ति॒क॒प्प॒ट्ट॒क॒री॒त्त॒ - 'अ॒स्ति॒लं॒क्ष्य॒न्म् ति॒रु॒कू॒प् पि॒रु॒क्
॒तर॒प्प॒ज॒म् गृ॒त॒वी॒य॒तु॒ च॒स्य॒प्प॒टा॒वी॒ट्ट॒ल, मृ॒प्प॒ति॒
॒आ॒रम्पि॒त्ता॒ल, मा॒त्र॒पि॒त्ता॒क॒क॒ल विष्य॒त्त॒त्त॒लु॒म्, ३-न॒र॒ली॒ल
॒स्य॒प्प॒ट॒वेण्टु॒म्' एन्नै.

गृ॒द्याग्नि॒ना अ॒मन्त्रवृ॒द्वाहे॒ पू॒र्वो॒दाहृ॒तव॒चने॒न अ॒यथा॒कृ॒तमृ॒कृ॒त-
॒मि॒ति॒ न्या॒ये॒न पु॒नर्दर्हाः॒ सिद्धेः॒ । औ॒पासने॒नाना॒हिताग्नि॒ दहे॒दिति॒
॒नियमा॒त् अ॒नौपा॒स्ये॒न यो॒ दग्धस्तन्दहेद्विना॒ पुनः॒ इति॒ वचनाच्च
॒लौकिकाग्नि॒ना विधिवृ॒द्वाहेऽपि॒ पुनः॒ इति॒ वचनाच्च लौकिकाग्नि॒ना
॒विधिवृ॒द्वाहेऽपि॒ तस्याकिञ्चित्कर्त्त्वात्॒, सत्यौपासने॒ तेन॒ पुनर्दर्हाः॒
॒कार्यः॒ । असति॒ तस्मिन्॒ विधिवदग्नि॒ सन्धाय॒ पुनर्दर्हाः॒ कार्यः॒ । अथ

யदாஹிதாಗிரன்யத் ப்ரேயாடிப்யமாநைரூயமாநைராகிரி஭ிராசீரந् யாவ-
தேவாஸ்யாகிரி஭ி: ஸமாகமயேரன्, ஆஸ்ஸ்காராடங்கி ஜுஹாடங்கி-
ஸர்க்ஷணார்஥ம் இதி ஬ோധாயனாபஸ்தம்பாடி஭ி: ஦ாஹாந்தமாகிரிஸர்க்ஷண-
ஸ்மரணேந புனர்஦ாஹஸிச்சே:, ஶரீரா(ஹாயவா)யாடா ஏவாந்தா ஭வந்தி
இதி ஶ्रுதே: வினியோగாந்தராமாவாஞ் (ஸ்வா஧்யாயாகிரித்யாகஸ்ய
சோபபாதக்தவோக்தேஶ) தேநைவ ஦ாஹ: கர்த்தவ்ய:। யஞ்சாந்யங்கத்தவ்ய
தத்தாகிரிநிற்பணாவஸரே பிரதிபாடிதம஧ஸ்தாத्। அனாத்மீயேந ஶாக்ஷேண யோ
தா஧ஸ்தாந் ச ஶாக்ஷத: இதி வசனாந் அல்லாத்மீயஸூத்ரஸ்ய ஶாஞ்சாந்த
பரஸூத்ரத:। குர்யாத் ஸபிண்டிகரண் ஸ்வஸூத்ரைவ நாந்தத: இதி
மரங்காஜாடிவஹஸ்முதிவிரோ஧ாடுபேக்ஷமிதி பூர்வமோக்தம்।

ஓளபாஸநாக்னியால் மந்த்ரமில்லாமல் தஹநம்
செய்யப்பட்ட விஷயத்திலும், முன் சொல்லிய
வசநத்தால், ‘விதிப்படி செய்யப்படாதது செய்யப்படாதது
போல்’ என்ற ந்யாயத்தால் புநர்தாஹும் ஸித்தமாகிறது.
‘அநாஹுறிதாக்னியை ஓளபாஸநாக்னியால் தஹிக்கவும்,
என்று நியமமிருப்பதாலும், ‘ஓளபாஸநத்தைத் தவிர்த்த
அக்னியினால் தஹிக்கப்பட்டவைன, மறுபடி
ஓளபாஸநாக்னியால் தஹிக்கவும்’ என்ற வசநத்தாலும்,
லெளகிகாக்னியால் விதிப்படி தாஹும்
செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அது பயனற்றதாகியதால்,
ஓனபாஸநமிருந்தால் அதனால் புநர்தஹநம்
செய்யப்படவேண்டும். அதில்லாவிடில் விதிப்படி அக்னி
ஸந்தாநம் செய்து புநர்தஹநம் செய்யப்படவேண்டும்.
‘ஆஹுறிதாக்னி, வேறு இடத்தில் மரித்தால், அவன்
வீட்டிலுள்ள அக்னிகளை ஜ்வலிக்கக் செய்து ஹோமமும்
செய்துகொண்டிருக்க வேண்டும், ஸம்ஸ்காரம் வரையில்’,
‘ஸம்ஸ்காரம் வரையில் அக்னியில் ஹோமம்
செய்யவேண்டும். அக்னியை ரக்ஷி ப்பதற்காக’ என்று
போதாயனர், ஆபஸ்தம்பர் முதலியவர்களால் தஹநம்

वररयिलं अक्णी सम्रक्षणम् वित्तिक्कप्पट्टिरुप्पत्तालं पुनर्तहननम् लित्तिप्पत्तालं. 'सर्वरत्तिनि पन्तुक्कक्षां अक्णीक्षां' एन्ऱु संरुतियिरुप्पत्तालुम्, अक्णीक्षांक्कु वेवृ विन्नियोक्मिल्लात्तालुम्, (वेतम्, अक्णी इवेक्षां विट्टुत्तलं उपपात्तकम् एन्ऱु चेाल्लप्पट्टिरुप्पत्तालुम्) अतग्नेलेये तहननम् चेय्यप्पट वेण्णुम्. इतु विष्यत्तिलं चेाल्लवेण्णियतु, मुन्न अक्णी निरुपणे परकरणत्तिलं चेाल्लप्पट्टुं ग्नातु. 'अन्यलात्तरत्तालं तहनीक्कप्पट्टवैज्ञ' मरुपटि तन्तु लात्तरत्तालं तहनीक्कवेण्णुम्, एन्ऱ वसनम्, 'अलप्पत्तात्तमीय + नान्यतः' एन्ऱ परत्वाज्जर्मुत्तव्यवरीन्संमंरुत्तिक्षांक्कु विरुद्धत्तमाक्षियतालं उपेक्षिक्कत्त तकुन्तत्तु एन्पतु मुन्पे चेाल्लप्पट्टुं ग्नातु.

तन्त्रप्रविष्ट्य तन्त्रमार्गेण पुनः संस्कार उक्त आगमे — सर्वेषामेव वर्णनामाशौचान्ते यथाक्रमम् । अन्त्येष्टि विधिवत् कुर्यास्तपुत्राश्वौरसादयः इति । तत्रैव — वैदिकं तु पुरा कृत्वा पश्चात्त्वेषं (चेष्टि) समाचरेत् । ये मृता दीक्षितास्त्वेषां श्राद्धयमुदाहृतम् । पूर्वं तु वैदिकं श्राद्धं कुर्यात्तान्तं ततः परम् इति ।

तन्त्रत्तरमार्क्कक्तिलं प्रवेचित्तवन्नुक्कुत्त तन्त्रत्तर चास्तरत्तालं पुनस्सम्स्कारम् चेाल्लप्पट्टुं ग्नातु. आुकमत्तक्षिलं एल्ला वर्णत्तारुक्कुम्, आुसेलासत्तिनि मुष्टिविलं, चास्तरप्पटि, अन्त्येष्टियेय, ओरालपुत्तरां मुत्तव्यवर्क्षां चेय्यवेण्णुम्. आुकमत्तत्तिलेये:- वैवत्तिक्षांस्कारत्तत्त मुन्न चेय्यतु विट्टुप्पि प्रिरक्ष मेत्तियेयसं चेय्यवुम्. तन्त्रत्तिलेक्षणयेप्पि बेन्ऱ्ऱु एवर्क्षां इरन्तन्तरो अवर्क्षांक्कु इरण्णु क्षरात्तत्तन्क्षां चेाल्लप्पट्टुं ग्नान. वैवत्तिक क्षरात्तत्तत्त मुन्पुम्, तान्त्रिक क्षरात्तत्तत्तप्पि पिन्पुम् चेय्यवेण्णुम्.

आहिताग्रेमन्त्रवद्वाहाभावे पुत्रादीनामाशौचमुदकादिकं च
नास्ति, किं तु पुनर्दाहसमय एव तेषामाशौचादिकमित्युक्तं
चन्द्रिकायाम्— आहिताग्रेस्तु विधिवद्वाहान्तं नास्ति चेत्तदा ।
आशौचग्रहणं नास्ति दाहाद्याशौचमिष्यते इति । दाहाद्याशौचम्—
पुनर्दाहाद्याशौचम्, तदादि दशाहम् । तथा पारस्करः—
आहिताग्रेस्तु दहनाद्वाहाशौचमिष्यते । अनाहिताग्रेमरणात्
पुनर्दाहो यदा भवेत् इति । पैठीनसिः— आहिताग्रिश्वेत् प्रबसन्
मियेत पुनः संस्कारं कृत्वा शाववच्छौचमिष्यते इति ।

ஆஹிதாக்னிக்கு விதிப்படி தலைநமாகாவிடில்,
புத்ரன் முதலியவர்க்கு ஆசெளசமும், உதகதாநம்
முதலியதுமில்லை. ஆனால், புநர் தலைந காலத்தில் தான்
அவர்களுக்கு ஆசெளசம் முதலியது என்று
சொல்லப்பட்டுள்ளது சந்தர்ரிகையில்:- ஆஹிதாக்னிக்கு
விதிப்படி தலைநம் வரையில் செய்யப்படாவிடில்,
அப்பொழுது ஆசெளசமில்லை. புநர்தலைநம் செய்தது முதல்
ஆசெளசம் விதிக்கப்படுகிறது. அது முதல்
10-நாளாசெளசம். அவ்விதம், பாரஸ்கராரா:- ஆஹிதாக்னி
விஷயத்தில் தலைநம் முதலாசெளசம். அநாஹிதாக்னி
விஷயத்தில் மரணம் முதலாசெளசம், புநர்தாஹு
மானாலும், பைஞ்சாலி:- ஆஹிதாக்னி தேசாந்தரம் சென்று
இறந்தால், புநஸ்ஸம் ஸ்காரத்தைச் செய்து, பிறகு
மரணைசெளக்குதிற்போல் சுத்தி.

स्मृत्यन्तरेऽपि — दशाहान्तं सपिण्डानां मृतौ प्रेतक्रिया
भवेत् । पुनस्त्रिरात्रं संस्कारे यष्टः पित्रोददशाहतः इति । अनाहिताग्रेः
पुनः संस्कारे सपिण्डानां त्रिरात्रम् । यष्टः - आहिताग्रेः पुनः
संस्कारे सपिण्डानां दशाहम्, पित्रोश पुनः संस्कारे पुत्राणां
दशाहतः क्रियेत्यर्थः । स्मृत्यर्थसारेऽपि — आहिताग्रेर्विधि-
वदहனाभावे आशौचग्रहणं नास्त्येव, पुनः संस्कारे दाहाद्याशौचमपि

संपूर्णम्, यावद्विधिना न संस्कारः तावत् पुत्रादीनां मुख्यकर्तृणां
सन्ध्यादिकर्मलोपो नास्ति, शुभकर्म न कर्तव्यम् । मुख्यकर्तृसम्बन्धे
तदितरज्ञातीनां शुभकर्म च कर्तव्यम् ।

मर्त्रेनुरु लंग्मुरुतीयिलुमः:- लपिण्टर्कलीनं
मरणत्तिल 10-नालाचेसलाचम्. अनाहृताकंनीकंकु,
पुनस्लमंस्कारम् चेय्तालं लपिण्टर्कलुकंकु
3-नालाचेसलाचम्. आहृताकंनीकंकुप विनस्ल
लमंस्कारमाणुल, ज्ञातीकर्तृकु 10-नालाचेसलाचम्.
माता पिताकंकलुकंकुप विनस्लमंस्कारमाणुल
पुत्ररक्तुकु 10-नालाचेसलाचमेन्ऱ्य विपारुल.
लंग्मुरुत्यार्त्त लोरत्तिलुमः:- आहृताकंनीकंकु वितिप्पति
तव्वन्माकावीष्टिल आचेसलामेल इल्लै. पुनस्लमंस्कारम्
चेय्तालं तव्वन्म भुतल आचेसलाचम लम्पूर्णमायुण्टु.
वितिप्पति लमंस्कारम् चेय्यप्पतात वरेयिल वित्तरं
भुतलाण भुक्य कर्त्तताकंकलुकंकु, लन्त्यावन्त्तनाती
कर्मन्कलुकंकु लेवापमिल्लै. कुपकर्मन्कलीकं
चेय्यक्कलातु. भुक्य कर्त्तता मर्त्रेनुरुवण्णयिरुन्ताल
ज्ञातीकलं कुपकर्मत्तेतयुम् चेय्यलाम्.

अनाहिताग्नेविधिवद्वनाभावे तदानीमाशौचग्रहणं कृताकृतम् ।
दशाहानन्तरं मरणश्रवणे दशाहात् पूर्व व्यहाद्याशौचं नास्ति, पुनः
संस्कारः सूतकमध्ये चेच्छेषदिनाच्छुद्धिः । अतीते सूतके पुनः
संस्कारश्चेत् पूर्वमगृहीताशौचस्य पुत्रस्य पत्न्याश दशाहमाशौचम्,
गृहीताशौचयोः पुत्रपत्न्योक्तिरात्रम् । पत्न्याः पुनः संस्कारे
पत्न्यश्चैवम्, सपत्न्योर्मिथश्चैवम्, गृहीताशौचानां कृतोदकानां
सपिण्डानां पुनराशौचं नास्ति, अकृतोदकानां पुनरेकाहम् इति ॥

अनाहृताकंनीकंकु वितिप्पति तव्वन्माकावीष्टिल,
अप्पेपामुतु आचेसकर्त्तव्वन्म विकल्पपीतम्.
(चेय्तालुम् चेय्यलाम् चेय्यामलुमिरुक्कलाम्.)
10-नाट्कलुकंकुमेलं मरणत्तेतकं केट्टालं,

தஹநத்திற்கு முன் 3-நாள் முதலிய ஆசெளசமில்லை. புநஸ்ஸம்ஸ்காரம் ஆசெளச மத்யத்தில் செய்யப்பட்டால், மீதியுள்ள நாட்களில் மட்டிலாசெளசம். ஆசெளச காலத்திற்குப் பிறகு புநஸ்ஸம்ஸ்காரமானால், முன்பு ஆசெளசமனுஷ்டிக்காத புத்ரனுக்கும் பத்னிக்கும் 10-நாளாசெளசம். ஆசெளசமனுஷ்டித்தவர்களானால் புத்ரனுக்கும் பத்னிக்கும் 3-நாளாசெளசம். பத்னியின் புநஸ்ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில் பர்த்தாவுக்குமிவ்விதம். ஸபத்னிகளுக்கும் (சக்களத்திகள்) இவ்விதம். ஆசெளசம் உதகதாநமிவைகளை அனுஷ்டித்த ஜ்ஞாதிகளுக்கு மறுபடி ஆசெளசமில்லை. உதகதாநம் செய்யாதவர்களுக்கு மறுபடி ஒரு நாளாசெளசம்.

चन्द्रिकायाम् — विदेशस्थगृही यावद्विधिना नैव संस्कृतः ।
 पुत्रादीनां तु सन्ध्यादिकर्मलोपो न विघते इति । यत्तु — अकृत्वा
 प्रेतकार्याणि नित्यनैमित्तिकान्यपि । न कुर्यात्वदाशौचं यावत्
 प्रेतस्य मोक्षणम् इति, तन्नित्यनैमित्तिकशुभकर्मविषयम् । अकृते
 ज्ञातिसंस्कारे न कुर्यादात्मनः शुभम् । कुर्यादेव शुभं कर्म
 मुख्यसंस्कर्त्तसम्बवे इति स्मरणात् । दाहमन्तरेणाप्याशौचा-
 चरणमुक्तं स्मृत्यन्तरे — पुत्रः पित्रोस्तु संस्कारं प्रमादानं करोति
 चेत् । ज्ञातीनां दशारात्रं स्यात्तदूर्ध्वं सूதकं न हि ॥ नित्यकर्माणि
 कुर्वीत स्मृत्युक्तानि तथैव च इति ।

சந்தர்சிகையில்:- அன்யதேசத்திலுள்ள க்ருஹஸ்தன் இறந்து விதியுடன் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்படாவிட்டால் புத்ராதிகளுக்கு ஸந்த்யாவந்தநாதி கர்ம லோபமில்லை. ஆனால் “ப்ரேதகார்யங்களைச் செய்யாவிடல், நித்ய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யக்கூடாது. இறந்தவனுக்கு ப்ரேதத்வம் போகும் வரையில் ஆசெளசமுண்டு” என்று வசநமுள்ளதேயெனில், அது, நித்ய நைமித்திகங்களான சுபகர்மங்களைப் பற்றியது. “ஜ்ஞாதிக்கு ஸம்ஸ்கார மாகாவிடில், தனது சுபகர்மத்தைச் செய்யக்கூடாது. ஆனால்

मुक्य कर्त्तव्या इरुन्ताल, तन्तु सप कर्मत्तेत अवस्यम्
चेय्यलाम्” ऎन्ऱ्य सम्रुतीयिरुप्पताल. तहनमिल्ला
विष्टिनुम् आचेळाचानुष्टानम् चेळलप्पट्टुंलातु,
ज्ञां सम्रुतीयिलः- मातापीताक्कण्कुप्पुत्रं
सम्स्कारत्तेतक्क कवनमिन्मेयाल चेय्याविष्टिल,
ज्ञातिकण्ककु 10-नाळाचेळाचम्. पिऱकु आचेळाचमिल्लै.
नित्य कर्मन्कलै चेय्यलाम्. सम्रुतीयिल
चेळलप्पट्टुंला कर्मन्कलैयम् चेय्यलाम्.

अन्यच्च — वंशजानामसंस्कारे सूतकं तु कथं भवेत् ।
दशाहात् परतः शुद्धिज्ञातीनां तु विशेषतः इति । एतदद्वयं
दत्ततिलोदकज्ञातिविषयम् । पुत्रविषयेऽपि वसिष्ठः —
प्रमीतपितृकः पित्रोरौध्वैहिकमाचरेत् । यदि कर्तुमशक्तश्चे-
दाशौचनियमान्वितः । आदशाहादथोर्ध्वं वा यदा कार्यक्षमस्तदा ।
त्रिरात्रं समतिक्रम्य श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि । दाहकस्यैतदाशौच-
मितरेषां न विघ्नेते इति । इतरेषां - दत्तोदकसपिण्डानामित्यर्थः ।

मर्त्रूमः- ज्ञातिकलीनं मंग्रुतीयिलं सम्स्कारमाकात
विष्यत्तिल आचेळाचमेप्पटि ? ज्ञातिकण्कुप्प पत्तु
नाट्कण्कुप्प पिऱकु क्तित्तु ऎन्ऱ्युंलातु. इव्विरंग्नुम्
त्तिलोतकतानम् चेय्त ज्ञातियेयप्प पर्न्रियतु.
पुत्रविष्यत्तिलुम्, वलिष्टारः- माता पीताक्कलीनं
मंग्रुतीयिलं पुत्रं प्प्रेरत कर्नियेयेयस्ति चेय्यवेण्टुम्.
चेय्वत्तर्न्कुस्तक्तियन्नवन्निरुन्ताल, 10-नाळावरेयिल
आचेळाच नियमत्तुटानीरुन्तु, ऎप्पेपामुतु कर्नियेयेयस्ति
चेय्यस्ति क्तियुंलावन्नु किरुणेऽप्पेपामुतु 3-नाळां
कर्मित्तु वित्तिप्पटि कर्नात्तत्तेतक्क चेय्यवुम्. ताहरकण्कुक्कु
इन्त आचेळाचम्. अन्यर्कण्कुक्कु इल्लै. अन्यर्कण्कुक्कु
= उत्तकतानम् चेय्त लपिण्टारकण्कु ऎन्ऱ्यु बेपारुं.

गृहीताशौचानामदत्तोदकानां सपिण्डानामुदकदान-
निबन्धनमाशौचमुक्तं स्मृत्यन्तरे — पूर्व गृहीताशौचानां न

புநர்஦ூனே த்வघம् । தஸ்மஞ்சுடக்஦ாதூணா மாஶைச் சு மனுரங்கித் இதி । மரணாடி஗ृஹீதஸ்ய திராநாஞ்சுஞ்சிரிஷ்யதே இதி புத்ரஸ்ய திராநா- ஶைசுவி஧ானாத் ஜாதிநாமேகராந் ந்யாயசிஞ்சமிதி வ்யாக்வாதாரः । குடே மன்றஸ்ஸ்காரே ஆரஷே சோகே கற்ற ஦ைவாடஸமாபிதே சுதி தடாநி ஜாதி஭ிருஷ்காஶைசயோரநுஷ்டிதயோः புநர்஦ூனஸமயே ஜாதிநாமாஶைச் சு நாஸ்தி, புனஸ்தர்பணமாநமஸ்திதி கேசித்து ।

ஆ செளாசமனுஷ்டித்து உதகதாநம் செய்யாத ஜஞ்ஞாதிகஞ்சுக்கு உதகதாந நிமித்தமான ஆ செளாசம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு ஸ்ம்ருதியில்:- முன்பு ஆ செளாசமனுஷ்டித்தவர்கஞ்சுக்கு, புநர்தஹந காலத்தில் ஆ செளாசமில்லை. அப்பொழுது உதகதாநம் செய்பவர் கஞ்சுக்கு ஆ செளாசமுண்டென்றார் மனு. 'மரணம் முதல் ஆ செளாசமனுஷ்டித்த புத்ரனுக்கு 3-நாட்களால் சுத்தி' என்று, புத்ரனுக்கு 3-நாளாசெளாசம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால், ஜஞ்ஞாதிகஞ்சுக்கு 1-நாளாசெளாசம் ந்யாயத்தால் விதிக்கின்றது என்கின்றனர் வ்யாக்யாநகாரர்கள். மந்த்ரத்துடன் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்டு, கர்த்தாவினால் உதகதாநமுமாரம்பிக்கப்பட்டு, தைவவசத்தால் அது முடிக்கப்படாமலிருந்து, அப்பொழுது ஜஞ்ஞாதிகள் ஆ செளாசம் உதகதானமிவைகளை அனுஷ்டித்து விட்டால், புநர்தஹந காலத்தில் ஜஞ்ஞாதிகஞ்சுக்கு ஆ செளாசமில்லை. மறுபடி தர்ப்பணம் மட்டில் உண்டென்கின்றனர் சிலர்.

பாரஸ்கர: - ஆஶைசே வர்தமானே து தச்஛ேண விஶுஞ்சுதி । ஗तே த்வாஶைசுவிவசே புநர்஦ூ யதா ஭வேத் । மரணாடி஗ृஹீதஸ்ய திராநாஞ்சுஞ்சிரிஷ்யதே । அங்஗ீதஸ்ய புத்ரஸ்ய ஸ்பூர்ணாஶைசமேவ ஹி இதி । ஸங்கே — ஆஶைசாந்த: கிக்ஸாதே: பிராஹே ஜோஞ்சுஞ்சிஸ்தங்கஹிஶே- திராநம் । புத்ரஸ்யாபி பிராஹஸ்ய ஗்ரஹஶோசேதஸ்யாப்யந ஸ்பூர்ணமாஹு: இதி । கிக்ஸம் - அஸ்஥ி । ஆடிஶங்கே பண்டிப்ரதிகூதிர்வூதே ।

पारस्लकरारः - आचेसाचम् इगुक्कुम् बेपामुतु
 पुनर्तहनम् चेय्तालं मीतियूला नाट्कलालं सत्ति.
 आचेसाच तिनंकलं चेन्नरपिऱ्कु पुनर्तहनमाणुलं,
 आचेसाचमाणुष्टित्त पुत्तरनुक्कु ३-नाट्कलालं सत्ति.
 मुन्पु आचेसाचमाणुष्टिक्कात् पुत्तरनुक्कु १०-नाला
 चेसाचमे. लंगक्करहुत्तीलः - आचेसाचत्तिनं नाट्विलं
 अस्तित्ताहुमो, प्रतिक्करुत्तित्ताहुमो चेय्यप्पट्टालं,
 मीति नाट्कलालं सत्ति. आचेसाचत्तिन्निप्प विऱ्कु
 पुनर्ताहुमाणुलं ३-नालाचेसाचम्. पुत्तरनुक्कुमिप्पट्टये,
 मुन्पु आचेसाचमाणुष्टित्तिरुन्त्तालं. इल्लाविष्टिलं
 इप्पेपामुतु १०-नालाचेसाचमेन्किन्नरनार. मुलत्ति
 लुलाल क्केसमेन्नर पत्तत्तिन्निप्प अस्ति एन्नरु बेपारुलं.
 आत्तिपत्तत्तालं इलैल, तर्प्पमं मुत्तलिय प्रतिक्करुत्ति
 चेल्लप्पट्टिरुत्तु.

तथा — अस्थना पलाशवृन्तैर्वा दग्धवा तु प्रतिरूपकम् ।
 पित्रोर्दशाहमाशौचमन्येषां तु त्रिरात्रकम् इति । अन्यच्च — नरं
 पर्णमयं दग्धवा त्रिरात्रमशुचिभवेत् । मातापित्रोर्दशाहं स्यादस्थिदाहे
 तथैव च इति । तथा — संस्कृताग्नौ दहेत् पश्चादशरात्रं तु सूतकम् ।
 इतरेषां त्रिरात्रं स्यात् ज्ञातीनामपि सूतकम् इति । देवलः —
 दग्धवास्थि पित्रोः पुत्रस्तु दशाहमशुचिभवेत् । तयोः प्रतिकृतिं
 दग्धवा शाववच्छौचमिष्यते इति । शाववदशाहाशौचमित्यर्थः ।

अप्पट्टये - 'मातापित्राक्करुक्कु अस्ति यिणु
 लावतु, पुरस्तु इलैकलालावतु प्रतिक्करुत्ति तहनम्
 चेय्तालं १०-नालाचेसाचम्. मर्न्नरवर्करुक्कु
 ३-नालाचेसाचम्. मर्न्नरेणुरु वसन्म - 'पर्णमय प्रतिक्करुत्ति
 तहनम् चेय्तालं ३-नालाचेसाचम्. मातापित्रु
 विष्यत्तिल १०-नालाचेसाचम्, अस्तित्ताहुत्तिलुमप्प
 पट्टये. अव्वितम् - लम्लक्करुत्ताक्कन्नियिलं पिऱ्कु
 तहवित्तालं १०-नालाचेसाचम्. मर्न्नर ज्ञातिकरुक्कु
 ३-नालाचेसाचम्. तेवलारः - मातापित्राक्करुलीनं अस्तिये

தஹித்தால் 10-நாளாசெளாசம். ப்ரதிக்ருதி தாஹுத்திலும் 10-நாளாசெளாசம்.

புறஸ்ய ஦ஶாஹவி஧ானமங்கூதிதாஶौசவிஷயம் । கூதிதாஶौசஸ்ய புறஸ்ய மரணாடிகூதிதஸ்ய திராநாஞ்சிரிஷ்டே இதி திராந- ஸ்மரணாத் । ஸ்மृத்யந்தரேஓபி — ஦ா஧்வாஸ்தித் பித்ரோः புறஸ்து ஦ஶாஹ் ஸூத்கி ஭வேத् । தயோः பிதிகृதிஂ ஦ா஧்வா திராநமஶுचி஭வேத் இதி । அஸ்஥ி஦ாஹே புறஸ்ய ஦ஶாஹவி஧ானமங்கூதிதாஶौசவிஷயம் । பிதிகृதி- ஦ாஹே திராநவி஧ான் கூதிதாஶौச விஷயம் । அந்தே து — புறஸ்ய கூதிதாஶौசஸ்யாஸ்தி஦ாஹே ஦ஶாஹம், பிதிகृதி஦ாஹே திராநமிதி வ்யாசக்ஷதே । புராணேஓபி — அஸ்஥ிமாவே பலாஶோத்தீ: பணீ: கார்ய் ஶரீரகம் । எவ் பர்மயம் ஦ா஧்வா திராநமஶுசி஭வேத் இதி ।

புத்ரானுக்குப் பத்துநாளாசெளாசமென்ற விதி, முன்பு ஆசெளாசமனுஷ்டிக்காதவனைப் பற்றியது. ஆசெளாசமனுஷ்டித்தவனுக்கு 'மரணேதி+ரிஷ்யதே' என்று 3-நாளாசெளாசம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும்:- "மாதா பிதாக்களின் அஸ்தியைத் தஹித்தால், 10-நாளாசெளாசம். அவர்களின் ப்ரதிக்ருதியை தஹித்தால் 3-நாளாசெளாசம்." அஸ்தி தாஹுத்தில் புத்ரனுக்கு 10-நாள் என்றது ஆசெளாசமனுஷ்டிக்காதவனைப் பற்றியது. ப்ரதிக்ருதி தாஹுத்தில் 3-நாள் என்றது ஆசெளாசமனுஷ்டித்தவனைப் பற்றியது. மற்றவரோ வெனில், ஆசெளாசமனுஷ்டித்த புத்ரனுக்கு அஸ்தி தாஹுத்தில் 10-நாளாசெளாசம், ப்ரதிக்ருதி தாஹுத்தில் 3-நாளாசெளாசம் என்று வ்யாக்யாநம் செய்கின்றனர். புராணத்திலும்:- அஸ்தி இல்லாவிடில் புரசின் இலைகளால் ப்ரதிக்ருதி செய்து தஹிக்கவும். இவ்விஷயத்தில் 3-நாளாசெளாசம்.

ஷட்ஶीதை — அந்த஦ஶாஹாஹே து ஶேஷதः ஶுச்யோஓகிலா: । ஬ஹிர்஦ஶாஹாஹே து ஦ாஹாடி திரி஦ிந் மதம் । ப்ராகாஶஶौச஗்ரஹமாவே

ज्ञातीनां त्रिदिनं समम् । प्राग्रहे तु व्यहं कर्तुरन्येषां तु न विद्यते ।
कर्ता च तनयः पूर्वग्रहे पूर्णं तथोदितम् इति ।

ஷட்கீதியில்:- 10-நாட்களுள் புநர்தவைநம் செய்த விஷயத்தில் மீதியுள்ள நாட்களால் எல்லோருக்கும் சுத்தி. 10-நாட்களுக்கு மேல் புநர்தவைநமானால் தவைநதினம் முதல் 3-நாளாசௌசம். முன்பு ஆசௌசமனுஷ்டிக்காவிடில் ஜ்ஞாதிகளுக்கும் 3-நாளாசௌசம், முன்பு ஆசௌசமனுஷ்டித்திருந்தால் கர்த்தாவுக்கு 3-நாள். ஜ்ஞாதிகளுக்காசௌசமில்லை. கர்த்தா புத்ரனாகில், முன்பு ஆசௌசமனுஷ்டிக்காவிடில் அவனுக்கு பூர்ணாசௌசம்.

अयमत्र निष्कर्षः —आहिताग्नेः पुनर्दर्हाद्येव पुत्रस्य
सपिण्डानां चाशौचग्रहणमुदकदानादि प्रेतकृत्यं च भवति, दाहात्
पूर्वं नास्त्येव । अनाहिताग्नेस्तु पुनर्दर्हात् पूर्वमुदकदानमाशौचं च
विकल्पितम् । दशाहमध्ये आहिताग्नेनाहिताग्न्योः पुनः संस्कारे
सति संस्कारदिनादूर्ध्वं दशरात्रावशिष्टमाशौचमुदकादिकं च
भवति, न पुनर्दर्हादि दशाहम् । यदि दशाहात् परं पुनर्दर्हः स्यात्,
तत्र आहिताग्नेः पुनर्दर्हादि दशाहमाशौच मुदकं च पुत्रस्य
सपिण्डानां च समानम् । अनाहिताग्नेस्तु पूर्वमृगृहीताशौचस्य
पुत्रस्य दशाहमाशौचमुदकादिक्रिया च भवति । गृहीताशौचस्य
पुत्रस्य अस्थिदाहे प्रतिकृतिदाहे च त्रिरात्रमाशौचं क्रिया च ।
अगृहीताशौचानां सपिण्डानामस्थिदाहे प्रतिकृतिदाहे च
त्रिरात्रमाशौचमुदकं च भवति । गृहीताशौचानामदत्तोदकानां
सपिण्डानामुदकदाननिमित्तमाशौचमेकाहम् । दत्तोदकानां तु
पुनराशौचोदाने न भवतः । कर्त्रा पश्चादुदक समापने क्रियमाणे पूर्वं
गृहीताशौचानामदत्तोदकानां सपिण्डानामुदकदानमात्रं भवति
नाशौचमिति केचित् ।

இதில் நிர்ணயமில்விதம்:- “ஆஹிதாக்னியின் புநர்தஹநம் முதற்கொண்டே, புத்ரனுக்கும், ஜ்ஞாதிகஞுக்கும் ஆசௌசாநுஷ்டானமும், உதகதாநம் முதலாகிய ப்ரேதக்ருத்யமும் செய்யப்பட வேண்டும். தஹநத்திற்கு முன் இல்லை. அநாஹிதாக்னிக்கோவெனில், தஹநத்திற்கு முன்பு உதகதாநமும் ஆசௌசமும் வைகல்பிகம் (செய்யலாம், செய்யாமலுமிருக்கலாம்). 10-நாட்களுள், ஆஹிதாக்னி, அநாஹிதாக்னி இருவருக்கும் புநஸ்ஸம் ஸ்காரமானால், ஸம் ஸ்கார தினத்திற்கு மேல் மீதியுள்ள நாட்கள் வரையில் ஆசௌசமும் உதகதாநமும் விழிதம், புநர்தஹநத்திநம் முதல் 10-நாளாசௌச மென்பதில்லை. 10-நாட்களுக்கு மேல் புநர்தஹநமானால், அவ்விஷயத்தில், ஆஹிதாக்னியின் புநர்தஹநத்திநம் முதல் 10-நாளாசௌசமும் உதகதாநமும் புத்ரனுக்கும் ஜ்ஞாதிகஞுக்கும் ஸமாநம். அநாஹிதாக்னிக்கானால், முன்பு ஆசௌச மனுஷ்டிக்காத புத்ரனுக்கு 10-நாளாசௌசமும் உதகதாநம் முதவிய க்ரியையும் விழிதமாகிறது. ஆசௌசமனுஷ்டித்த புத்ரனுக்கு, அஸ்திதாஹ விஷயத்திலும், ப்ரதிக்ருதி தாஹ விஷயத்திலும், 3-நாளாசௌசமும், க்ரியையும் விழிதமாகிறது. ஆசௌசமனுஷ்டிக்காத ஜ்ஞாதிகஞுக்கு, அஸ்திதாஹம் ப்ரதிக்ருதி தாஹம் இரண்டிலும் 3-நாளாசௌசமும் உதகதாநமும் விழிதமாகிறது. ஆசௌசமனுஷ்டித்து உதகதாநம் செய்யாத ஜ்ஞாதிகஞுக்கு, உதகதாந நிமித்தமான ஆசௌசமொருநாள் விதிக்கப்படுகிறது. உதகதாநம் செய்தவர்களுக்கோ வெனில் மறுபடி ஆசௌசமு முதகதானமு மில்லை. கர்த்தாவினால் பிறகு உதகஸமாபநம் செய்யப்படும்போது, முன்பு ஆசௌச மனுஷ்டித்து உதகதாநம் செய்யாத ஸபின்டர்களுக்கு உதகதாநம் மட்டிலுண்டு. ஆசௌசமில்லை என்று சிலர்.

அந்தே து — ஦ஶாஹாட்சி அஸ்஥ி஦ாஹ அழூதிதாஶௌசான் ஸபிண்டான் ஦ஶாஹம், ஗ூதிதாஶௌசான் திராத்ரம் । பிரதிகृதி஦ாஹ

अगृहीताशौचानां त्रिरात्रम्, गृहीताशौचानां नाशौचम् । अस्थिदाहे
पुत्राणां गृहीताशौचानामगृहीताशौचानां च दशरात्रमित्याहुः ।

मर्त्रवरोबेवणीलः:- 10-ना॑टक॒गुं॒क्कु॒मेल॒
अ॒स्ति॒त॒ह॒र्न॒ वि॒ष्य॒य॒त्ति॒ल॒, आ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒क्का॒त॒
ल॒पि॒न्न॒ट॒र्स॒क॒गुं॒क्कु॒ 10-ना॑ला॒च॒स॒म॒, आ॒च॒स॒
म॒न्न॒॒ष्टि॒त्त॒व॒र्स॒क॒गुं॒क्कु॒ 3-ना॑ला॒च॒स॒म॒. प्र॒ति॒क्क॒रुति॒
ता॒ह॒र्वि॒ष्य॒त्ति॒ल॒, आ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒क्का॒त॒व॒र्स॒
3-ना॑ला॒च॒स॒म॒. आ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒त्त॒व॒र्स॒क॒गुं॒क्कु॒
आ॒च॒स॒म॒ल॒ल॒. अ॒स्ति॒त॒ह॒र्न॒ वि॒ष्य॒त्ति॒ल॒, पृ॒त्तर॒र॒क॒ल॒
आ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒त्त॒व॒रा॒यि॒न्न॒म॒, अ॒न्न॒॒ष्टि॒क्का॒त॒व॒
रा॒यि॒न्न॒म॒ 10-ना॑ला॒च॒स॒म॒ ए॒न्क॒िन्न॒र॒न॒र॒न॒र॒न॒र॒न॒र॒.

तथा च सङ्ग्रहकारः — यज्वाऽयज्ज्वपुनदैहि शिष्ठाहं
यद्यधाद्वहिः । दशाहं त्यहमाशौचं पूर्णं प्राक॒चेदधाग्रहः । अस्थिदाहे
प्रतिकृतेदैहि तु त्यहमित्यधम् । सपिण्डानां सुतानां तु
दशरात्रमिहेष्यते इति । भ्रातुर्देशान्तरमृतौ षण्मासाद्वत्सरादधः ।
दशरात्रं त्रिरात्रं स्यादशाहं दाहकस्य तु इति । दाहकस्य
भ्रातुर्देशाहाशौचविधानात् द्वादशाहे सापिण्डच्यम् ।

अव॒वि॒त॒मे, ल॒ंक॒र॒ह॒र॒का॒र॒रः:- आ॒ल॒हि॒ता॒क॒नी॒,
अ॒ना॒ह॒र॒हि॒ता॒क॒नी॒ इ॒वर॒क॒गुं॒क्कु॒ 10-ना॑टक॒गुं॒क्कु॒॒ल॒
पु॒नर॒त॒ह॒र्न॒मा॒न॒ल॒ म॒ंति॒य॒ल॒ ना॑टक॒ल॒ वर॒य॒ल॒
आ॒च॒स॒म॒. 10-ना॑टक॒गुं॒क्कु॒मेल॒ पु॒नर॒त॒ह॒र्न॒मा॒न॒ल॒
अ॒स्ति॒त॒ह॒र्त॒ति॒ल॒ 10-ना॑टक॒गुं॒म॒ प्र॒ति॒क्क॒रुति॒त॒ह॒र्त॒ति॒ल॒
3-ना॑टक॒गुं॒म॒ ए॒न्न॒ट॒र्स॒क॒गुं॒क्कु॒ म॒ुन्प॒
आ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒क्का॒त॒ वि॒ष्य॒त्ति॒ल॒. अ॒न्न॒॒ष्टि॒त्त॒
वि॒ष्य॒त्ति॒ल॒ अ॒स्ति॒त॒ह॒र्त॒ति॒ल॒ 3-ना॑ल॒. प्र॒ति॒क्क॒रुति॒
ता॒ह॒र्त॒ति॒ल॒ आ॒च॒स॒म॒ इ॒ल॒ल॒. पृ॒त्तर॒र॒क॒गुं॒क॒को॒बेवणी॒ल॒,
म॒ुन्प॒ आ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒क्का॒त॒ अ॒च॒स॒म॒न्न॒॒ष्टि॒त्त॒रुन्त॒ता॒ल॒म॒,
अ॒न्न॒॒ष्टि॒क्का॒म॒ल॒रुन्त॒ता॒ल॒म॒ 10-ना॑ला॒च॒स॒म॒. प्र॒रा॒ता॒
तेसोन्तरत॒ति॒ल॒ इ॒रन्तु॒, 6-मा॒त॒त॒त॒त॒रुन्त॒क॒ल॒ क॒ेट॒टा॒ल॒

10-நாளாசெளசம். பிறகு வர்ஷத்திற்குள் கேட்டால் 3-நாளாசெளசம். தஹநம் செய்த ப்ராதாவுக்கு 10-நாள் ஆசெளசம். தஹநம் செய்தவனுக்கு 10-நாளாசெளசமேன்றதால் 12-ஆவது நாளில் ஸபின்டகரணம்.

अनेकसपिण्डपुनर्दर्हनविधिः

अनेकसपिण्डपुनदैहि सञ्चकारः — मृतानां तु सपिण्डानां
काले बहुतिथे गते । तान् सर्वान् सह संस्कुर्यात् त्रिरात्रेण यथाविधि ।
एकोद्दिष्टं चतुर्थेऽहि तेषां पिण्डं पृथक् पृथक् । सपिण्डीकरणं तेषां
सहैव पृथगेव वा इति । सञ्चातमृतानां कालभेदेन वा मृतानां
सपिण्डानामेकचित्यां समानतन्त्रेण पुनः संस्कारः कार्यः,
सापिण्डन्यं तु उद्देश्यभेदे पृथक्कुर्यात्, अन्यथा सह कुर्यादित्यर्थः ।

பல ஜ்ஞாதிகளுக்குப் புநர்தலூநம் செய்யும் விஷயத்தில் விதி. அநேக ஸபின்டர்களுக்குப் புநர்தலூநம் செய்யும் விஷயத்தில், ஸங்கரவூகாரர்: - இறந்த வெகு ஜ்ஞாதிகளுக்கு வெகுகாலம் சென்ற பிறகு செய்வதானால், அவர்களைல்லோருக்கும் சேர்த்தே ஸம்ஸ்காரத்தை 3-நாட்களில் விதிப்படி செய்யவும். 4-ஆவது நாளில் ஏகோத்திண்டம், பிண்டதானம், தனித்தனியாய். ஸபின்மகரணத்தைச் சேர்த்துச் செய்யலாம் அல்லது தனித்தனியாய்ச் செய்யலாம். சேர்ந்தோ, காலபேதத்திலோ இறந்த ஸபின்டர்களுக்கு, ஒரே சிதையில் ஸமாந தந்த்ரத்தால், புநஸ் ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். ஸாபின்டயத்தையோ வெனில், உத்தேசிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு மாறுத விருந்தால் தனியாய்ச் செய்யவும். அவ்விதமில்லாவிடில் சேர்த்துச் செய்யவும், என்பது பொருள்.

एतच्च पितृव्यतिरिक्तविषयम्, त्रिरात्रेण समापनविधानात् ।
पित्रोः सपिण्डानां च देशान्तरमरणश्रवणे पूर्वं पित्रोः सापिण्ड्यान्तं
कृत्वा अनन्तरमन्येषां पुनर्दर्हारम्भं क्रमेण कुर्यात् ।

स्मृतिचन्द्रिकायाम् — यदेककर्तृकं श्राद्धमनेकं चैकवासरे । दैवं पित्र्यं च तन्वं स्यान्निभित्तं प्रतिपूरुषम् इति । स्मृत्यन्तरे — बहूनामेकवंश्यानामेको यदि च दाहकः । एकस्मिन् दिवसे कुर्यादिकतन्मिहेष्यते इति । तथा — मित्रकाले मृता ये च वंश्याः पूर्वमसंस्कृताः । एकस्मिन्ब्रह्म चैतेषां सह संस्कारमाचरेत् इति ।

இது, மாதா பிதாக்களைத் தவிர்த்த மற்றவர்களைப் பற்றியது, 3-நாளில் ஸமாபநம் விதிக்கப்படுகிறது. மாதாபிதாக்களுக்கும் ஸபின்டார்களுக்கும் தேசாந்தரத்தில் ஏற்பட்ட மரணத்தின் ச்ரவணத்தில், முன்பு மாதாபிதாக்களுக்கு ஸபின்டார்கரணம் முடியும் வரையில் செய்து, பின்பு அன்யர்களுக்குப் புநர் தஹநாரம்பத்தை க்ரமமாய்ச் செய்யவேண்டும். ஸ்ம்ருதிசந்தரிகையில்:- ஒருவனே கர்த்தாவாக உள்ள அநேக ச்ராத்தங்கள் ஒரே தினத்தில் வந்தால், தைவழும், பித்ர்யழும் ஒன்றே. நிமித்தவரணம் மட்டில் தனித்தனி. ஓர் ஸ்ம்ருதியில்:- ஒரே வம்சத்தில் பிறந்த பலருக்கு, தஹநம் செய்பவன் ஒருவனுயிருந்தால், ஒரே தினத்தில் செய்யவும். தந்த்ரமுமொன்றே. அவ்விதமே - 'பலகாலங்களில் முன் இறந்தவர்கள் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்படாதவர்களா யிருந்தால், இவர்களுக்கு ஒரே தினத்தில் ஸம்ஸ்காரத்தைச் சேர்த்துச் செய்யவும்' என்று உள்ளது.

दुर्मृतपुनः संस्कारः:

सञ्चातदुर्मृतपुनःसंस्कारविषये स्मृत्यन्तरे दुर्मृतानां च वंश्यानां काले बहुतिथेगते । तान् सर्वान् सह संस्कुयदिकचित्यां पुनः सुधीः इति । दुर्मृतस्य पुनः संस्कारकालमाह देवलः — ये मृताः पापमार्गेण तैषां संबत्सरात् परम् । नारायणबलिं कृत्वा कुर्यात्तत्रौघ्वदैहिकम् । अब्दान्ते वाऽथ षण्मासे पुनः कृत्वाऽथ संस्कृतिम् । त्रिरात्रमशुचिर्भूत्वा श्राद्धं कुर्याच्चतुदिने इति ।

துர்மரணமடைந்தவர்களுக்குப் புநஸ்ஸம்ஸ்காரம். பலர் சேரந்து ஒரே காலத்தில் துர்மரணமடைந்திருந்தால் அவர்களின் புநஸ்ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில், ஓர் ஸ்மிருதியில்:- துர்மரணமடைந்த ஜ்ஞாதிகளுக்கு வெகுநாட்கள் சென்ற பிறகு, ஒரே சிதையில் எல்லோருக்கும் சேர்த்தே புநஸ்ஸம்ஸ்காரம் செய்யவும். துர்மரணமடைந்தவனுக்குப் புநஸ்ஸம்ஸ்கார காலத்தைச் சொல்லுகிறார், தேவெளர்:- எவர்கள் பாபமார்க்கத்தால் மரணமடைந்தனரோ, அவர்களுக்கு, வர்ஷத்திற்குப் பிறகு, நாராயணபலியைச் செய்து, ப்ரேத க்ரியையைச் செய்யவும். வர்ஷத்தின் முடிவிலாவது, 6-மாதத்திற்குப் பிறகாவது, புநஸ்ஸம்ஸ்காரம் செய்து, 3-நாளாசௌசமனுஷ்டித்து, 4-ஆவது நாளில் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும்.

एतत् दुर्मृतपुनदाहि त्रिरात्रविधानं मातापितृविषयम् ।
तदन्येषां दुर्मृतानां पुनदाहि एकरात्रम् । तदाह गार्यः — वर्षतीते
पुनदाहि एकाहात् पिण्डमप्येत् । श्राङ्कं द्वितीयदिवसे तृतीयोऽह्लि
सपिण्डनम् । नास्थिसंचयनं कुर्यात् च चर्माधिरोहणम् । पुत्रादीनां
तु कर्तव्यं पुनःसंस्कारकर्मणि इति ।

இவ்விதம் 3-நாளாசௌசமென்ற விதி, மாதா பிதாக்களைப் பற்றியது. மற்றவர்களின் துர்மிருதியில் புநர்தாஹம் செய்யும் விஷயத்தில் ஒரு நாளாசௌசம். அதைச் சொல்லுகிறார், கார்க்யர்:- ஒரு வர்ஷத்திற்கு மேல் புநர்தஹநம் செய்தால், ஒரே நாளில் பிண்டதாநத்தைச் செய்யவும். 2-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டம். 3-ஆவது நாளில் ஸபிண்மகரணம். அஸ்தி ஸஞ்சயநத்தைச் செய்யவேண்டாம். சர்மாதிரோஹணம் வேண்டாம். மாதா பிதாக்களுக்குப் புத்ரன் முதலியவர்கள் செய்தால் அவைகளைச் செய்யவேண்டும்.

सद्ग्रहे — असंस्कारे कुलीनस्य पुनरन्यस्य चेन्मृतिः । यस्य स्यात्तस्य संस्काराद्येकोदिष्टान्तमाचरेत् । ततः पूर्वमृतस्यात्र कुर्याद्वै संस्क्रियादिकम् । सपिण्डीकरणं तत्र पूर्वशेषं तु कारयेत् । दुर्मृतस्य क्रियाहीनकाले पुंसवनं चरेत् । पित्रोराब्दिककालस्तु यदा वाऽपि भवेत्तदा । तयोस्तथैव कुर्वीत नान्येषां परतो भवेत् इति । दुर्मृतिमध्ये मृतस्य एकोदिष्टान्तं कृत्वा दुर्मृतस्य सपिण्डनं कृत्वा पश्चादेतस्य सापिण्डचं कुर्यात् । संस्कारात् पूर्वं पुंसवनं पित्रोराब्दिकं च कर्तव्यमित्यर्थः । दुर्मृतिलक्षणं पुनः संस्कारकालः तत्प्रायश्चित्तं च दुर्मृताज्ञौचनिरूपणे प्रतिपादिकृतम् ।

लग्नकर्त्ररूपत्तिः— तुर्मंगुरुतनुजं ज्ञातिकंकु
लमंस्कारमाकात कालत्तिलं, मर्त्तेभ्रुरुज्ञातिकंकु मंगुरुति
रूपपट्टालं, पिरकु इरन्तवल्लुकंकु लमंस्कारमं मुतलं
ग्नेकोत्तिष्ठतमं मुष्टियमं वररयिरं चेय्तु, मुतलिलं इरन्त
तुर्मंगुरुतनुकंकु लमंस्कारमं मुतलं लपिण्णलकरणमं
वररयिरं चेय्तु, पिरकु, २-आवतायं मंगुरुतनुकंकु
लापिण्णलयत्तेतत्सं चेय्यवुम्. तुर्मंगुरुतनुकंकु परेत
कंरीयययसं चेय्यामलिरुकंकुमं बेपामुतु पुम्लवनमं
वन्ततालं चेय्यलामं. मातापिताकंकलीनं
प्ररत्यापंतिकत्तेतत्सं चेय्यलामं. मर्त्तवर्कगुकंकुसं
चेय्यकूटातु. पिरकु ताणं चेय्यवेण्णुम्.
तुर्मरणत्तिनं लक्षणमुम, पुनलमंस्कार कालमुम,
तुर्मंगुरुति प्ररयासंकित्तमुम, तुर्मंगुरुताचेलास निरुपण
प्ररकरणत्तिलं (आकेलास काण्णत्तिलं) लेलालपपट्टतु.

प्रोषितस्य छादशाब्दादूर्ध्वं संस्कारविधिः ।

यस्य प्रोषितस्य वृत्तान्तो न श्रूयते, तस्य छादशाब्दादूर्ध्वं
प्रतिकृतिदाहपूर्वकं विधिवदौर्ध्वदैहिकं कुर्यात् । प्रतिकृतिस्वरूप-
मधस्तात् प्रतिपादितम् । अत्र बृहस्पतिः — यस्य न श्रूयते वार्ता-

யாவட்டாதாவத்ஸரம् । குஶபत்ரக்஦ாஹென தஸ்ய ஸ்யாதவ஧ாரணம் இதி ।
தஞ் நாராயணபலிபூர்வக் கதவ்யம் ।

தேசாந்தரம் சென்றவனுக்கு 12-வர்ஷங்களுக்கு மேல் ஸம்ஸ்கார விதி, தேசாந்தரம் சென்ற எவனின் வார்த்தை கேட்கப்படுவதில்லையோ அவனுக்கு, 12-வர்ஷங்களுக்கு மேல், ப்ரதிக்ருதி தாஹும் முதலாக, விதிப்படி ப்ரேதக்ரியையைச் செய்யவும். ப்ரதிக்ருதியின் ஸ்வரூபம் கீழே சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயத்தில், ப்ருஹஸ்பதி:— தேசாந்தரம் சென்ற எவனின் வார்த்தை 12-வர்ஷம் வரையில் கேட்கப்படவில்லையோ அவனுக்கு, குசங்களாலாவது, பர்ணங்களாலாவது ப்ரதிக்ருதியைச் செய்து தஹநம் செய்யவேண்டும். அந்தத் தஹநம் நாராயணபலியைச் செய்து பிறகு செய்யப்படவேண்டும்.

தथா ச ஸ்மृத்யந்தரம् — ஦ிதாந்தாத् பர தௌ
தூதியாந்தாத஥ாபி வா । நாராயணபலில் குத்வா குஸ்தாதே ஸ்கृதிம்
இதி குர்யாடிதி ஶை: । த்யஹாதவ ஸா கிரியா கார்ய, நர பர்மய ஦ங்஘ா
த்ரிராத்ரமஸுचிமூர்தி இதி ஸ்மரணாத् ।

ஓர் ஸ்ம்ருதி:— அவர்களுக்கு 12-வர்ஷங்களுக்குப் பிறகு, அல்லது 3-வர்ஷங்களுக்குப் பிறகு, நாராயணபலியைச் செய்து, ப்ரதிக்ருதி தாஹுத்தைச் செய்யவும். அந்தக்ரியை 3-நாட்களிலேயே செய்யப்படவேண்டும். ‘இலைகளால் செய்த ப்ரதிக்ருதி தாஹும் செய்தால் 3-நாள் அகத்தஞ்சாவான்’ என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

பிதுவிஷயே விஶேஷமாஹ ஜாதுகர்ணி:— பிதரி பிரேஷிதே யஸ்ய ந
வார்தா நைவ சாக்தி: । சுர்ய பஞ்சதாந்தாந்தி குத்வா தத்பிரதிரूபகம் ।
குர்யாத்ஸ்ய ச ஸ்கார் யதோக்தவி஧ிநா தத: । ததாநீமைவ ஸ்வர்ணி
ப்ரேதகார்யானி ஸ்வர்ணி தத்பிரதி இதி । பிரதிரूபகம் - பலாஶவுந்தாடினிர்மித-
ப்ரதிக்ருதி:, யதோக்தவி஧ிநா - ஦ஶாத்ரி பிண்டோடக்஦ாநாடிவி஧ிபர-

शास्त्रक्रमेण, तदानीमेव - पञ्चदशसु वर्षेषु गतेषु षोडशवर्षे उक्तकाल एव प्रेतकार्याणि कुर्यात् । न कालविलम्बः कार्यं इति केचिद्व्याचक्षते ।

माता पितृं विषयत्तिलं विचेष्ठत्तेत्तच्च
सेवाल्लुकिर्णुर्. ज्ञातुकार्णिः - “एवनुटेय पिता
तेचान्तरम् चेस्त्रं पिऱकु वरविल्लैयेऽ, वार्त्तत्तेयुम्
केट्कप्पत्विल्लैयेऽ, अवन् 15-वर्षत्तिन्त्रंकु मेलं,
पिताविन्प्रतिक्रुतियेष्च चेयतु अत्रंकु सम्स्कारत्तेत्तच्च
सास्तर वित्तिप्पत्ति चेय्यवुम्. अप्पेपामुदेऽ, प्रेरत
कार्याङ्कां एल्लावन्नरयुम् चेय्यवुम्” एन्ऱुर्.
मुलत्तिलुण्णलं ‘प्रतिरुपकम्’ एन्पत्तरंकुप्प चुरस् इलै
मुतवियतालं चेय्त प्रतिक्रुति एन्पतु पेपारुण्ण.
‘यतोक्त वित्तिना’ एन्पत्तरंकु, 10-नालं वरेयिलं
पिण्टेत्तोत्तक तानम् मुतवियतेव वित्तिक्कुम् सास्तर
कर्ममाय एन्पतु पेपारुण्ण. ‘ततान्देमेव’ एन्पत्तरंकु,
15-वर्षाङ्कां चेस्त्रंप्रिऱकु, 16-आवतु वर्षत्तिलं विहीत
कालत्तिलेये प्रेरत कार्याङ्काणां चेय्यवुम्.
तामक्तित्तुच्च चेय्यक्कूटातेतन्ऱु शिलर् व्याक्यानम्
चेय्किण्ऱन्ऱनर्.

तथा स्मृत्यन्तरे — पितरि प्रोषिते प्रेते पुत्रः कुर्यात्
क्रियादिकम् । संवत्सरे व्यतीतेऽपि दशात्रं यथाविधि इति । तथा
— अतीतेऽब्देऽपि कर्तव्यं प्रेतकार्यं दशाहतः इति ।
पितृमेधसारेऽपि — पित्रोस्तु पञ्चदशवर्षादूर्ध्वं दशाहाद्विधिव
दौर्ध्वदैहिकं कुर्यात् इति ।

मर्णेऽर्णुर् स्मृतियिलः - तेचान्तरम् चेस्त्रं पिता
इरन्तालं ओरु वर्षम् चेस्त्रं पिऱकुम्, चुत्तरन् 10-नालीलं
वित्तिप्पत्ति प्रेरत कर्मिय मुतवियतेच्च चेय्यवेण्णुम्.
अव्वितम् ‘वर्षम् मृष्टिन्त प्रिऱकुम्, 10-नाट्कालीलं प्रेरत
कार्यत्तेत्तच्च चेय्य वेण्णुम्’ एन्ऱुण्णातु.

பித்ருமேதஸாரத்திலும்:- மாதா பிதாக்களுக்கு, 15-வர்ஷத்திற்கு மேல், விதிப்படி பத்து நாட்களில் ப்ரேதக்ரியையைச் செய்யவும்.

அன்றே து — குர்யாத்திஸ்ய ச ஸ்ஸ்காரं யथாக்தவி஧ிநா ததः । தदாநிமேவ ஸ்வர்ணி ப்ரேதகார்யாணி ஸ்சஞ்சரேத் இதி ஜாது கர்ணிவசனமந்யथா வ்யாகுர்வதே । யதோக்தவி஧ிநா - பிதृமேத வி஧ிநா ப்ரதிகृதிஸ்ஸ்கார குர்யாது, ஸ்வர்ணி ப்ரேதகார்யாணி நந்தப்ரச்஛ாதநாடினி ப்ரமூத்தலிபாஷாணோத்தாபனாந்தானி, ததாநிமேவ - தஸ்மிந்தே ஦ிநே, ஸ்சஞ்சரேத் - குர்யாத்திதி, ஸ்வத்ஸரே வ்யதிதே^१பி ஦ஶாத்து யதாவி஧ி இத்யாடி வசனமநாக்ரிணித்வார்த்தவிதிரிக்தபிதृமூதிவிஷயம், தஸ்மிந்தே ஦ிநே ஸ்வர்ணி ப்ரேதகார்யாணி குர்யாது இத்யேத்து பிதृவ்யதிரிக்தவிஷயே^२பி ஸ்மானமிதி வடந்தி । தத்யுக்தம் । கூத்திரியே திராத்து ஸ்யாஷாஹம்கூத்திரியே இத்யாடி ஦ஶாஹ ப்ரதிபாடக-பூர்வக்தவசனவிரோධாது । அதः பிதृவிஷயே ஦ஶாஹ பிதரவிஷயே திராத்தமித்யேவ யுக்தம் ।

மற்றவரோவெனில்:- ‘குர்யாத்தஸ்யச+ ஸஞ்சரேத், என்ற ஜாதுகர்ணி வசநத்திற்கு வேறு விதமாய் வ்யாக்யாநம் செய்கின்றனர்:- “யதோக்தவிதிநா = பைத்ருமேதுக விதியால், ப்ரதிக்ருதி ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். ஸர்வாணி ப்ரேதகார்யாணி = நக்ன ப்ரச்சாதனம் முதல், ப்ரபூதபவி பாஷாணேத்தாபநம் முடியும் வரையிலுள்ள கார்யங்களை, ததாநீமேவ = அதே தினத்தில், ஸஞ்சரேத் = செய்யவேண்டும்” என்று. ‘ஸம்வத்ஸரேவ்யதீதேபி தசராத்ரம் யதாவிதி’ என்பது முதலிய வசநம், வார்த்தை கேட்கப்படாமலிருந்தவனைத் தவிர்த்த பித்ரு மரண விஷயம், ‘அன்றைக்கே ப்ரேதகார்யங்களெல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும்’ என்றது, பிதாவைத் தவிர்த்த மற்றவர் விஷயத்திலும் ஸமாநம்

एनंकिन्नरनार्. अतु युक्तमल्ल. 'कर्मिये चेय्यप्पट्टवेन विषयत्तिल ३-नाळाकेळाशम्, कर्मिये चेय्यप्पटातवेन विषयत्तिल १०-नाळाकेळाशम्' एनंपत्तु मुतविय, १०-नाळां आशेळाक्कत्तेत्तचेळाल्लुकिन्नर, मुन्न चेळाल्लीय वक्कनांग्करुटां विरोतम् वरुवत्ताल. आकेयाल, मातापित्तरु विषयत्तिल १०-नाळाकेळाशम्, एनंपत्तेयुक्तमाणन्तु.

पितृविषयेऽपि नारायणबलिपूर्वक मौघ्वदैहिकं कार्यम् ।
 कालादृशो — अनाकर्णितवार्तस्य प्रोषितस्य पितुः सुतः । ऊर्ध्वं पञ्चदशाद्वर्षादौध्वदैहिकमाचरेत् । अन्येषां द्वादशाद्बदात् पूर्वमुक्तैव या तिथिः इति । अनाकर्णितवार्तस्य - अश्रुत-कुशलवार्तस्य, प्रोषितस्य - देशान्तरगतस्य पितुरौध्वदैहिकं सुतः पञ्चदशवर्षादूर्ध्वं पञ्चदशसंवत्सरेषु गतेषु कुर्यात् । अन्येषां - पितृव्यतिरिक्तानां पितृव्यभ्रातृ पुत्रादीनां द्वादशाद्बदादूर्ध्वं पैतृमैधिकमाचरेत् । पूर्वमुक्तैव या तिथिरिति - प्रोषितस्य प्रत्यान्दिक श्राद्धे या तिथिः पूर्वमुक्ता पैतृमैधिकानुष्ठानेऽपि तस्य सैव ग्राह्यत्यर्थः ।

मातापित्तरुविषयत्तिलुम्, नारायणपविये मुन्नप चेय्यते, पिऱ्ठकु प्परेतकर्मिये चेय्यप्पटवेण्णुम्. कोलाक्कार्कत्तिलः- तेचान्तरम् चेण्ऱवानुम, वार्तत्तेत्तयुम केट्कप्पटातवानुमाण पितावक्कु, पुत्रान १५-वर्षाङ्ककरुक्कु मेल्ल प्परेतकर्मिययेयस चेय्य वेण्णुम्. मर्त्रवर्क्कु १२-वर्षाङ्ककरुक्कुप पिऱ्ठकु चेय्यवेण्णुम्. मुन्न चेळाल्लप्पट्ट तितिये इतिलुम् कर्हवीक्कप्पटवेण्णुम्. मुलत्तिलुण्णा, 'अनाकर्णीत वार्तत्तस्य' एनंपत्तर्कु, केट्कप्पटात केषम वार्तत्तेत्तयेयुट्टयेवन् एन्ऱु एपारुण्ण. प्परेवावित्तस्य = तेचान्तरम् चेण्ऱ पितावक्कु प्परेत कर्मिययेयप पुत्रान् पतिजैनन्तु वर्षाङ्कक्कन्न चेण्ऱ पिऱ्ठकु

செய்ய வேண்டும். மற்றவர்க்கு = பிதாவைத் தவிர்த்த பித்ருவ்யன் ப்ராதா புத்ரன் முதலியவர்க்கு, 12ஆவது வர்ஷத்திற்கு மேல் ப்ரேத க்ரியையைச் செய்யவும். பூர்வமுக்கைவயாதிதி: = தேசாந்தரம் சென்றவனுக்கு, ப்ரத்யாப்திக ச்ராத்தத்தில் எந்தத் திதி முன்பு சொல்லப்பட்டதோ அந்தத் திதியே ப்ரேத க்ரியானுஷ்டாநத்திலும் க்ரஹிக்கத்தக்கது என்பது பொருள்.

மாசாத்ஜானே வி஧ி:

தथா ச காலாदர்ஶே — மாசாஜானே ஦ிநஜானே கார்ய மாஷாத்மாதயோ: | மூதாஹே தத்தினாஜானே மாசாஜானே து தத்துதூ: | குஷா சைகாடாஶி ஗ிராத்தா த்வஜானே ஹுமயோரபி | பிரவாஸமாஸதிவஸஸை ஗ிராத்தா வேகைகஶஸ்தயோ: | அஜானே நன்தரோ ந்யாய: ஸ்வாஜானாந் யதா ஭வேது | ஶ்ரவணாஹே ததா குர்யத்தின்மாஸே ந்துக்ஷயே பி வா இதி | யதா மரணமாஸோ ந ஜாத: மரணதினாந் து ஜாத: ததா ஆஷாடே மாஷே வா மாஸி மூதாஹே ப்ரத்யாஜிக்கு குர்யத் |

மாதம் முதலியது தெரியாவிடில் விதி. காலாதர்சத்தில்:- “மாதமறியப்படாமல் திதி மட்டில் அறியப்பட்டிருந்தால், ஆஷாடத்தில் அல்லது மாகத்தில் மரித்த திதியில் செய்யவும், திதி தெரியாமல் மாதம் மட்டில் தெரிந்தால், அந்த மாதத்தின் அமை அல்லது க்ருஷ்ணகாதசீக்ரஹிக்கத் தகுந்தது. மாஸம், திதி என்ற இரண்டும் அறியப்படாவிடில், தேசாந்தரத்திற்குச் சென்ற மாஸ திதிகளை க்ரஹிக்கவும். அவ்விரண்டுகளுள் ஒன்று தெரிந்து ஒன்று தெரியாவிடில் முன் சொல்லிய ந்யாயத்தை க்ரஹிக்கவும். ஸ்தலமும் தெரியாவிடில் மரணத்தைக் கேள்விப்பட்ட திதியில் அல்லது அந்த மாஸத்திய தர்சத்தில் செய்யவும்” என்றுள்ளது. எப்பொழுது, மரண மாஸ மறியப்படாமல் மரண திதி மட்டில்

அறியப்பட்டுள்ளதோ, அப்பொழுது ஆஷாடத்தில் அல்லது மாகத்தில் மருததிதியில் ப்ரத்யாப்திகத்தைச் செய்யவும்.

तथा बृहस्पतिः — यदा मासो न विज्ञातः विज्ञातं दिनमेव
तु । तदा ह्याषट्के मासि माघे वा तदिनं भवेत् इति । भविष्यत्पुराणे
तु — दिनमेव विजानाति मासं नैव तु यो नरः । मार्गशीर्षेऽथवा
भाद्रे माघे वाऽथ समाचरेत् इति । आश्वलायनः — मासे
त्वज्ञायमाने तु माघः कार्यो मनीषिभिः । पक्षे त्वज्ञायमाने तु दैवे
पित्र्ये सितासितौ इति । यदा मासो विज्ञातः मरणदिनं तु न ज्ञातम्,
तदा तत्कुहूः तन्माससंबन्धिन्यमावास्या वा कृष्णकादशी वा
ग्राह्या । तदाह बृहस्पतिः — अज्ञातो हि मृताहश्चेत् प्रोषिते
संस्थिते सति । मासश्चेत् प्रतिविज्ञातस्तद्दर्शे स्यात्तदाब्दिकम् इति ।

பருஹஸ்பதி:- எப்பொழுது மாஸ மறியப்படாமல் திதி மட்டில் அறியப்பட்டுள்ளதோ அப்பொழுது ஆஷாட்டம் அல்லது மாகத்தில் அந்தத் திதி க்ராஹ்யமாகும். பவிஷ்யத் புராணத்திலோவனில்:- எந்த மனிதன் திதியை மட்டில் அறிந்து மாஸத்தை அறியவில்லையோ அவன் மார்க்சிரஷம் அல்லது பாத்ரபதம் அல்லது மாகம் இந்த மாஸங்களுள் ஒன்றில் செய்யவும். ஆக்வலாயனர்:- மாஸ மறியப்படாவிடில் மாக மாஸத்தில் செய்யவும். பக்ஷமறியப்படாவிடில் தைவகார்யத்தில் சுக்ல பக்ஷத்தையும், பித்ருகார்யத்தில் க்ருஷ்ண பக்ஷத்தையும் க்ரஹிக்கவும். எப்பொழுது மாஸமறியப்பட்டு, மரணத்திடு அறியப்படவில்லையோ அப்பொழுது அந்த மாஸத்திய அமாவாஸ்யையாவது க்ருஷ்ணகாதசியாவது க்ரஹிக்கப்பட வேண்டும். அதைச் சொல்லுகிறார், **பருஹஸ்பதி:-** தேசாந்தரம் சென்று இறந்தவனின் இறந்த திதி அறியப்படாவிடில், மாஸம் மட்டில் அறியப்பட்டால், அந்த மாஸத்தின் தர்ச்சத்தில் அவனுக்கு பரத்யாபதிகத்தைச் செய்யவும்.

स्मृत्यन्तरे — प्रत्यब्दं प्रतिमासं च मृतेऽहनि तु या क्रिया ।
 तदहर्विस्मृतिप्राप्तौ दर्शे वा श्रवणेऽपि वा इति । अत्र
 श्रवणनक्षत्रविधानं क्षत्रियविषयम्, नक्षत्रे क्षत्रियाणां स्यात्
 इत्याश्वलायनस्मरणात् । मरीचिरपि — श्राद्धविघ्ने समुत्पन्ने
 ह्यविज्ञाते मृतेऽहनि । एकादश्यां तु कर्तव्यं कृष्णपक्षे मृतेऽहनि इति ।
 मृतेऽहनि यत् कर्तव्यं तत् कृष्णैकादश्यां कर्तव्यमित्यर्थः ।
 उभयोर्मरणमासदिनयोरप्यज्ञाने प्रवासमासदिवसौ ग्राह्णौ ।

மற்றெனுரு ஸ்ம்ருதியில்:- “ப்ரத்யாப்திகம் மாஸிகம் இவைகளைச் செய்யவேண்டிய திதி மறக்கப்பட்டால் தர்சத்திலாவது, சரவண நகஷத்ரத்திலாவது செய்யவும்”. இவ்விஷயத்தில் சரவண நகஷத்ர விதி கூத்ரியர்களைப் பற்றியது. ‘கூத்ரியர்களுக்கு சராத்தம் நகஷத்ரத்தில் செய்யப்பட வேண்டும்’ என்று ஆச்வலாயந் ஸ்ம்ருதி உள்ளது. மர்சியும்:- சராத்தத்திற்கு விக்னம் நேர்ந்தாலும், சராத்த திதி மறக்கப்பட்டாலும், க்ருஷ்ணபகூத்தில் ஏகாதசியில், ம்ருதாஹத்தில் செய்ய வேண்டிய சராத்தத்தைச் செய்யவும். மரித்த மாஸம், தினம் இரண்டும் அறியப்படாவிடல், தூர தேசத்திற்குப் புறப்பட்ட மாஸம் திதி இவைகளை க்ரஹிக்கவும்.

तदाह बृहस्पतिः — दिनमासौ न विज्ञातौ मरणस्य यदा
 पुनः । प्रवास मासदिवसौ ग्राह्यौ पूर्वोक्तया दिशा इति । पूर्वोक्तयेति
 तयोरेकैकशोऽज्ञाने अनन्तरोक्तं न्यायः स्वीकार्यः । अयमर्थः —
 यदा प्रवासमासो न विज्ञातः, दिवसस्तु ज्ञातः, तदाऽषाढादौ
 मृताहे कार्यम्, यदा प्रवासमासो विज्ञातः दिवसस्त्वज्ञातः, तदा
 प्रवासमास सम्बन्धिनि दर्शे कृष्णैकादश्यां वा कुर्यात् इति । यदा
 सविज्ञानं भवेत् मरणमासो मरणदिवसः प्रवासमासः
 प्रवासदिवसश्च न ज्ञातो भवेत्, तदा मरण श्रवणदिने कुर्यात्,
 तत्रासम्भवे श्रवणमाससम्बन्धिनि दर्शे कुर्यात् ।

पंगुहूल्सपत्नीः— “एप्पेपामृतु, मरणमालम्, मरणतिनम् इरण्णुम् अरियप्पटविल्लैलयो अप्पेपामृतु, पुरप्पट्ट माल तितिक्षा करव्वीक्कवुम्; मुन्सेचाल्लिय वழியाल्पुरवेऽक्तया - अवैवकरुन्स ऒन्ऱु अरियप्पट्टु ऒन्ऱु अरियप्पटावीटिल्मुन्सेचाल्लिय न्यायत्तेत स्वैकरीक्कवुम्. इतु बेगुन्सः— ‘एप्पेपामृतु पुरप्पट्ट मालम् अरियप्पटामल्तितिमट्टिल्म अरियप्पट्टतेऽप्पेपामृतु, आशाटम् मुतलिय मालत्तिल्मरण तितियिल्सेच्यवुम्. एप्पेपामृतु पुरप्पट्ट माल मृन्यप्पट्टु तितिअरियप्पटविल्लैलयो अप्पेपामृतु, पुरप्पट्टमालत्तिन्स अमेयिलावतु, करुञ्जनपक्षकात्तसियिलावतु चेच्यवुम्’ ऎन्ऱु. ‘एप्पेपामृतु लकलमुम् अरियप्पटविल्लैलयो, अतावतु मरणमालम्, मरणत्तिति, पुरप्पट्ट मालम्, पुरप्पट्टतिति इवैवकलौलाम् अरियप्पटविल्लैलयो, अप्पेपामृतु मरणत्तेतक्केट्ट तितियिल्सेच्यवुम्. अतिल्सेच्यमुष्यावीटिल्सेच्यवुम्, केळंवीप्पट्ट मालत्तिन्स तर्सत्तिल्सेच्यवुम्.

तदाह प्रचेताः— अपरिज्ञातेऽमावास्यायां श्रवणदिने वा इति । स एव — अपरिज्ञाते मृताहे श्रवण तिथौ, तिथिविस्मरणे तन्मासवर्तिन्यामावास्यायां सांबत्सरिकं कुर्यात् । श्रवण-तिथिस्मरणे मासास्मरणे च मार्गशीर्षे माघे वा तस्यामेव तिथौ कार्यम् इति । यत्र श्रवणमपि नास्ति अनाकर्णितवार्तस्य द्वादशाब्दात् पञ्चदशाब्दात् वा परं क्रियमाणे दाहादिप्रेतकृत्ये तद्विषयेऽप्युक्तं चन्द्रिकाद्याम् — मासस्तिथिर्वा प्रस्थानदिनं वा श्रवणं न चेत् । यस्मिन् दिने तु संस्कारः क्षयाहं तद्विनं भवेत् इति । सर्वज्ञाने संस्कारकालीनमासपक्षतिथयो ग्राह्या इत्यर्थः । तत्र आषाढीनामन्यतमो मासो ग्राहः । तिथिश्रामावास्या कृष्णकादशी च पूर्वोक्ता ग्राह्या ।

ப்ரசேதஸ்:- (மாஸ் திதி) அறியப்படாவிடில், அமையிலாவது, கேள்விப்பட்ட திதியிலாவது (செய்யவும்). **ப்ரசேதஸ்லே:-** மரணத்தினம் அறியப்படாவிடில், கேள்விப்பட்ட திதியில், திதி மறக்கப்பட்டால், அந்த மாஸத்திலுள்ள அமையில், ப்ரத்யாப்திகத்தைச் செய்யவும்.. கேள்விப்பட்ட திதி அறியப்பட்டு, மாஸம் மறக்கப்பட்டால், மார்க்கிரஷ்ணில், அல்லது மாகத்தில் அதே திதியில் செய்யவும், எப்பொழுது மரணத்தின் சர்வண்முமில்லையோ .. அப்பொழுது குசலவார்த்தையே கேட்கப்படாதவனுக்கு, 15-ஆவது வர்ஷத்திற்குப் பிறகோ, 12-ஆவது வர்ஷத்திற்குப் பிறகோ செய்யப்படும் தஹநம் முதலிய ப்ரேத க்ருத்யத்தின் விஷயத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சந்தர்க்கையில்:- மரணத்தைப் பற்றிய மாஸம், திதி, புறப்பட்ட தினம் ஒன்றுமே கேட்கப்படாவிடில், எந்தத் திதியில் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்டதோ அதே திதி ம்ருதத்தியாகும். ‘ஒன்றுமே அறியப்படாவிடில், ஸம்ஸ்கார காலத்திய மாஸ பக்ஷ திதிகளை க்ரஹிக்கவும்’ என்பது பொருள். அவ்விஷயத்தில் ஆஷாடம் முதலிய மாஸங்களுள் ஏதாவது ஒரு மாஸத்தை க்ரஹிக்கவும். திதி, அமை அல்லது க்ருஷ்ணகாதசி, முன் சொல்லியபடி க்ரஹிக்கப்பட வேண்டும்.

கृष्णाष्टम्यामपि दहनं प्रत्याविदकं च कार्यमित्याह पराशः
— देशान्तरगतो विप्रः प्रवासात् कालकारितात् ।
देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिर्न ज्ञायते यदि । कृष्णाष्टमी त्वमावास्य
कृष्णैवैकादशी च या । उदकं पिण्डदानं च तत्र श्राद्धं च कारयेत्
इति । तीर्थयात्रादिना केनचिन्निमित्तेन देशान्तरगतस्य विप्रस्य
चिरकालं बहुदेशापर्यटनादिसंपादितादायासबाहुल्यात् यत्र कापि
देहनाशो भवति, अत एव मरणतिथिर्न ज्ञायते, मरणवार्ता यदा
கடா!பி ஶ्रுதா ஭வதி, தत्र தदीயாஶௌசஸ்விகாரே ஦हன

तिलोदकपिण्डानोपक्रमादिकं चेत्येतदुभयं कृष्णाष्टम्यादि तिथिषु
तिसृष्टिच्छया कस्यांचित्तिथौ कर्तव्यं, तस्यामेव तिथौ प्रत्याब्दिकं
च कर्तव्यं, द्वादशाब्दात् पञ्चदशाब्दादूर्ध्वं क्रियमाणेऽप्येता एव
तिथय इत्यर्थः ।

க்ருஷ்ணஷ்டமியிலும் தலைநம், ப்ரத்யாப்திகம் இவைகளைச் செய்யலாமென்கிறார். பராசரர்:- தேசாந்தரம் சென்ற ப்ராம்ஹணன் வெகு நாள் தூரதேசத்திலிருந்து மரணத்தை அடைந்ததால், அவனது மரணத்தை அறியப்படாவிடல், க்ருஷ்ணஷ்டமீ அல்லது அமாவாஸ்யா அல்லது க்ருஷ்ணகாதசீ இவைகளுள் ஒன்றில் உதகபிண்டதாநத்தையும் ச்ராத்தத்தையும் செய்யவும். தீர்த்தயாத்ரை முதலிய ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தேசாந்தரம் சென்ற ப்ராம்ஹணனுக்கு, வெகுகாலம், அநேக தேசங்களைச் சுற்றியது முதலியதாலேற்பட்ட அதிகமான ஆயாஸத்தினால் எந்த இடத்திலாவது தேஹநாச மேற்படும். அதனால் மரணத்தை அறியப்படுகிறதில்லை. மரணவார்த்தை எப்பொழுதாவது கேட்கப்படுகிறது. அவ்விஷயத்தில், அவன் விஷயமான ஆசௌச க்ரஹணமும், தலைநம், திலோதகம், பிண்டதானம் இவைகளின் ஆரம்பம் முதலியது மென்ற இரண்டும், க்ருஷ்ணஷ்டமீ முதலிய மூன்று திதிகளுள், இஷ்டப்படி ஏதாவதொரு திதியில் செய்யப்படவேண்டும். 12-ஆவது, 15-ஆவது வர்ஷத்திற்குப் பின் செய்யப்படும் விஷயத்திலும் இவைகளே திதிகள், என்பது பொருள்.

कृतौध्वदैहिकस्य पुनरागमने विधिः

पञ्चदशाब्दं द्वादशाब्दं वा वार्तनिकण्णे मरणनिश्चया
दौधर्वदैहिके कृते जीवन् यदि समागच्छेत्, तदा कर्तव्यमाह वृद्धमनुः
— जीवन् यदि समागच्छेद्वृत्कुम्भे नियोज्य तम् । उद्धत्य
स्नापयित्वाऽस्य जातकर्मादि कारयेत् । द्वादशाहं व्रतं च स्थात्

त्रिरात्रमथवाऽस्य तु । स्नात्वोद्धाहेन तां भायमिन्यां वा तदभावतः ।
अग्नीनाधाय विधिवद्वात्यस्तोमेन वा यजेत् । तथैन्द्राग्रेन पशुना
गिरिं गत्वा च तत्र तु । इष्टिमायुष्मतीं कुर्यादीप्सितांश्च क्रतूसूततः
इति । जातकर्मादीत्यादिशब्देन नामकरणान्प्राज्ञनचौलानि
गृह्णन्ते । व्रतम् - ब्रह्मचर्यम्, स्नानं - समावर्तनम्, आयुष्मतीष्टिः,
अग्नय आयुष्मते पुरोडाशमष्टाकपालम् इत्याम्नायते ।

ப்ரேதக்ரியை செய்யப்பட்டவன் திரும்பி வந்தால் விதி.

15-வர்ஷம் அல்லது 12-வர்ஷம் முடியும் வரையில் கோஸம் வார்த்தை கேட்கப்படாததால், மரணத்தை நிச்சயித்து, தேசாந்தரம் சென்றவனுக்கு ப்ரேத க்ரியை செய்யப்பட்ட பிறகு, அவன் பிழைத்திருந்து திரும்பி வந்தால், அப்பொழுது செய்யவேண்டியதைச் சொல்லுகிறார், வருத்தமனு:- அவன் திரும்பிவந்தால், அவனை நெய்குடத்தில் முழுக்கி, வெளியிலெடுத்து, ஸ்நாநம் செய்வித்து, ஜாதகர்மம் முதலியதைச் செய்யவும். இவனுக்கு 12-நாள் வரதம் அல்லது 3-நாள் வரதம். ஸ்நானகர்மத்தைச் செய்து கொண்டு, முன்னிருந்த பார்யையை விவாஹம் செய்து கொள்ளவும். அவளில்லாவிடில் வேறு ஸ்த்ரீயை மணக்கவும். விதிப்படி அக்ந்யாதானம் செய்து கொண்டு, வராத்ய ஸ்தோமத்தையாவது, ஜந்த்ராக்ன பச்யாகத்தையாவது செய்யவும். பர்வதத்தை அடைந்து அதில் ஆயுஷ்ம தீஷ்டியைச் செய்யவும். பிறகு, இஷ்டமான யாகங்களைச் செய்யவும். இந்த வசனத்திலுள்ள ஜாதகர்மாதி என்ற ஆதிபத்தால், நாமகரண அன்னப்ராசன சௌளங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. வரதம் = ப்ரம்லூசர்யம். ஸ்நானம் = ஸமாவர்த்தனம். ஆயுஷ்மதீஷ்டி = ‘அக்னய ஆயுஷ்மேத புரோடாசமஷ்டாகபாலம்’ என்று வேதத்திற் சொல்லப்படுகிற இஷ்டி.

पितृमेधसारे — यदि प्रेतकृत्यसंस्कृतः कश्चिदागच्छेत् तं घृतपूर्णे कुम्भे त्रिरात्रमेकरात्रं वा निधाय शुभे लग्ने समुत्थाप्य जातकमर्द्यैर्विधिवत् संस्कुर्यात् । मेखलाजिनदण्डभिक्षाचर्या-व्रतवर्ज्य यथाबदुपनीतः कस्मिंश्चिद्दिरौ द्वादशाहं त्यहं वा नियत उपोष्यागत्य पूर्वभार्या तदभावे अन्यामुद्भहेत् । अथायुष्मच्चरुणा-उनाहिताग्निमायुष्मत्येष्ट्वाऽहिताग्निं संस्कुर्यादिति । गृह्यपरिशिष्टे — य एवाहिताग्नेः पुरोडाशाः त एवानाहिताग्नेश्वरवः इति ।

पीठं ग्रुमेत्तर्वारत्त्वीलः— “प्रेरतकं ग्रुत्यत्तर्त्वाल् सम्स्कारीक्कप्पट्टवैं (पीछेत्तिरुन्तु) तिरुम्पी वन्त्तर्त्वाल्, अवैन नेयं निरेन्तत् तुट्टत्तिरुन्तु, अून्नरु नाओं, अल्लतु ओरु नाओं मुमुवतुम् वैवत्तिरुन्तु, कुप लक्ऩत्तिल वैवैयीलेलुत्तु, ज्ञातकर्मम् मुत्तवियवैकौ वित्तिप्पटि चेय्यवुम्. मेकलै, माओन्तेहाल्, तज्जंटम्, पिक्काचरणम्, वरतम् इवैवैकौन्नरी, वित्तिप्पटि उपन्यनम् चेय्यविक्कप्पट्ट अवैन उपन्त्तिनेयं एतावतेहारु मैलयिल 12- अल्लतु 3- नाओं मुमुवतुम्, नियमत्तुटैं उपवासमिरुन्तु तिरुम्पीवन्तु, मुन्त्रिय पार्यययै, अवैलिल्लावीटिल वेरु पार्यययै, विवाहूम् चेय्तु कौओंवैम्. पिऱकु आयुष्ममत्तकौ तेवत्ताकमाओ चरुवै अनाहृताकौन्नी यैयैम्, आयुष्ममत्तिष्ठियै आहृताकौन्नीयैयैम् चेय्यविक्कवुम्” ऎन्नरुओंतु. कंग्रुहूय परिचिष्टत्तिलः- आहृताकौन्नीक्कु एन्तप्पे एरोटाचंकौ वित्तिक्कप्पट्टुओंवैवा, अवैवैकौ अनाहृताकौन्नी चरुतन्त्ररत्तर्त्वाल् चेय्यलाम्.

कालादर्शेऽपि — यद्यागच्छेत् पुमान् जीवन् पैतृमेधिकसंस्कृतः । घृतकुम्भे स्थापयित्वा तमुत्थाप्य शुभे क्षणे । संस्कृतं जातकमर्द्यैरुपनीतं विधानतः । द्वादशाहं त्रिरात्रं वा विहितोपोषणव्रतम् । गिरावागत्य पूर्वा वा तदभावे परां ख्रियम् ।

அடவந்த ச ஸ்ஸ்குயாச்சுரணாத்யுஷ்மதேன ச இதி ।
ஆயுஷ்மத்திரைவதாகேன சுரண அனாஹிதாஸ்தி ஸ்ஸ்குயாதித்யர்஥ः ।
ஸ்முத்யந்தரேபி — ஘ृதகுழ்மே நிஷாயை த்யஹமேகாஹமை வா ।
ஸமுத்தாப்ய ஶுभே லக்ஷ ஜாதகமீர்஦ி காரயேத் இதி । ஆபஸ்தம்஬ः ।
யதேதஸ்மிந् கृதे புனரா஗च்஛த் தூதகுழ்மாதுந்மயஸ்ய ஜாதகமீப்ரமூதி
த்ராதஶராத்திரத் சரித்வா யதை ஜாயயாத்திரைநா஧ாய முக்தபூர்யா ஜாயயா
பாணி஗்ரஹண் வி஧ீயதேத்தந்யா஧ைய குர்வந்த விரத்யபஶுநா வா யஜேத ஗ிரிங்
வா ஗த்வாத்திரய காமாயேஷினிவைபீர்஦ாபிஸ்தை: க்ரதுமிர்யைத இதி ।

காலாதார்சத்திலும்:- அபரக்ரியையால்
ஸம்ஸ்காரிக்கப்பட்டவள், பிழைத்திருந்து வந்தால், அவனை
நெய்ப்பானையில் முழுக்கி நல்ல லக்னத்தில் எழுப்பி,
ஜாதகர்மம் முதலிய ஸம்ஸ்காரங்களால் ஸம்ஸ்கரித்து,
விதிப்படி உபநயனம் செய்து, 12 அல்லது 3 நாள்
பர்வதத்தில் உபவாஸ வரதத்தை அனுஷ்டிக்கச் செய்து
வந்த பிறகு, முன் உள்ள பார்யையை, அவளில்லாவிடில்
வேறுபார்யையை, விவாஹம் செய்வித்து, ஆயுஷ்மதக்கனி
தேவதாகமான சருவை (அநாஹிதாக்னியை) அனுஷ்டிக்கச்
செய்யவும். மற்றொர் ஸம்ருதியிலும்:- இவனை
நெய்க்கும்பத்தில் 3-நாள் அல்லது ஒரு நாள் முழுதும்
முழுகச் செய்து, சுபலக்னத்தில் வெளியிலெடுத்து,
ஜாதகர்மம் முதலியதைச் செய்யவும். ஆபஸ்தம்பர: -
ப்ரோவிதனுக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்தபிறகு, அவன் மறுபடி
திரும்பிவந்தால், நெய்ப்பானையில் முழுகி, வெளி வந்த
பிறகு, ஜாதகர்மம் முதலியதைச் செய்து, 12-நாள் உபவாஸ
வரதம் செய்த பிறகு, முன் உள்ள பார்யையுடன்
அக்ன்யாதாநம் செய்விக்கவும். வராத்யபசவினாலாவது
யஜிக்கலாம் அல்லது மலையை அடைந்து காமாக்னி
தேவதாகமான இஷ்டியைச் செய்யலாம். பிறகு
இஷ்டமார்ன க்ரதுக்களைச் செய்யவும்.

शौनकः — दहनादिसपिण्डचन्ते कृते सत्यागते पुनः । यज्ञं काष्ठान्मथित्वाऽग्निं कृत्वा चाग्निमुखं तदा । विष्णुर्योनिमिति द्वाभ्यां चर्हुं हुत्वा यथाविधि । हुत्वा पुरुष सूक्तेन स्फुरेणाज्येन प्रत्यृचम् । आश्वलायनगृह्येण कृत्वा पुंसवनादिकम् । विवाहमपि कुर्वीत पूर्वया भार्या सह । आधानं पूर्ववत् कृत्वा सायंप्रातर्हुतं तथा । स दर्शपूर्णमासाभ्यां इष्ट्वा विष्णुं सदा स्मरेत् इति । आश्वलायनः — उपेतपूर्वस्य कृताकृतं केशवपनं मेधाजननं च मेखलाजिनं च निरुक्तं परिदानं कालश्च तत्सवितुर्वृणीमह इति सावित्रीम् इति । बोधायनः — वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्यव्रितानि च । निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि इति । पुनः संस्कारः - पुनरुपनयनम् । पुनर्विवाहविषये स्मृत्यन्तरम् - न दानं नैव वरणं न प्रतिग्रहणं तथा । त्रिरात्रं च व्रतं न स्यात् पुनरुद्धाहकर्मणि इति । एकस्मिन्नेव दिने शेषहोमान्तं कर्म कर्तव्यमित्यर्थः ।

சेळाऩகारः:- प्ररथिक्करुதितாஹம் முதல் ஸபின்மூரணம் முடியும் வரையிலுள்ள ப்ரேதக்ருத்யம் செய்தபிறகு, அவன் திரும்பிவந்தால், யஜ்ஞியமான கட்டையைக் கடைந்து அக்னியை எடுத்து, அக்னிமுகம் செய்து, 'விஷ்ணுர்யோநிம்' என்ற 2-ருக்குகளால் சுருஹோமத்தை விதிப்படி செய்து, புருஷஸ்தகத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் ஆஜ்யஹோமத்தை ஸ்ருவத்தினால் செய்து, ஆச்வலாயந க்ருஹ்யப்படி பும்ஸவனம் முதலியதைச் செய்து, முன் பார்யையுடன் விவாஹத்தையும் செய்யவும். முன் போல் ஆதானம் செய்து, மாலை காலைகளில் ஹோமத்தைச் செய்து, தர்ச பூரணமாஸங்களையும் செய்து, எப்பொழுதும் விஷ்ணுவை ஸ்மரிக்கவும். ஆச்வலாயனரः:- உபநயநம் செய்யப்பட்டவனுக்கு மறுபடி செய்யப்படும் உபநயநத்தில், கேசவபநம், மேதாஜ்நநம், மேகலை,

மாண்தோல், நிருக்தம், பரிதாநம், காலம், இவைகள் க்ருதாக்ருதம் (செய்தாலும் செய்யலாம், செய்யாமலுமிருக்கலாம்.) ‘தத்ஸவிதுர் வருணீமஹே’ என்று ஸாவித்ரியைச் சொல்லவும். போதாயனர்:- புநரூபநயநத்தில், வபநம், மேகலை, தண்டம், பிக்ஷாசரணம், வரதங்கள் இவை த்விஜர்களுக்கு நிவர்த்திக்கப்படுகின்றன (செய்யவேண்டாம்). புநர்விவாஹ விஷயத்தில், ஓர் ஸ்மிருதி:- “புனர் விவாஹத்தில்; தாநம், வரணம், ப்ரதிக்ரஹணம், 3-நாள் வரதானுஷ்டானம் இவைகள் வேண்டியதில்லை.” ஒரு தினத்திலேயே சேஷஹோமம் முடியும் வரையில் செய்யவேண்டுமென்பது பொருள்.

புனः ஸ்காரகாலனியமः

புனः ஸ்காரகாலனியமாமாஹ நார஦ः — மृत्यनन्तரதो நृणां
बलिदर्तुं न शक्यते । यैः कैश्चित्कारणैर्विद्वान् दद्यात्तत्र बलिं क्रमात् ।
प्रोष्ठपान्मासि माघे वा बलिं दद्याद्यथोदितम् इति । समृत्यन्तरे तु —
அகாலமரண முக்தவா ஷமாஸாந் கும்காமுகை । கந்யாகுலீரே
பிராஸேக்கே புனः ஸ்கார இஷ்யதே இதி । அகாலமரணம् - ஦ுர்மரணம् ।
அன்யதாபி — ஆஷாட்பிராஸ்தாந்மா஧ா மார்த்திரோ விஶேஷதः । சத்வா
இரிதா மாஸா: புனः ஸ்காரகர்மணி இதி ।

புநஸ்ஸம்ஸ்கார கால நியமம்.

புநஸ்ஸம்ஸ்கார கால நியமத்தைச் சொல்லுகிறோர் நாரதர்:- மரணத்திற்கு அடுத்த காலத்தில் எக்காரணங்களாலாவது பிண்டதாநம் செய்யமுடியாவிடில், அவ்விஷயத்தில், பாத்ரபத மாஸத்தில் அல்லது மாகமாஸத்தில், விதிப்படி பிண்டதாநத்தைச் செய்யவும். மற்றொரு ஸ்மிருதியிலோவெனில்:- துர்மரண மேற்பட்டால், 6-மாஸங்களையும், கும்பமாஸம், தனுர்மாஸம் இவைகளையும் தள்ளி, கண்யாமாஸத்து

ला वतु, कटकमालृत्ति ला वतु पुनर्त्थवनम् वित्तिकंकपं प्राप्तिरहुः । मर्त्रेन्नेव सम्मुक्तीयिलुमः ॥ आश्चाटम्, पारथरपतम्, मारकम्, मारक्षिरघुम् एन्नं 4-मात्रांकगुम् पुनर्स्लमंस्कारत्तिलं वित्तिकंकपं प्राप्तिरहुः ।

चापमासस्य निषेधमाह गार्यः ॥ रवौ चापगते नृणां पुनः संस्कारकर्म चेत् । पितरो नरकं यान्ति कर्ता तु क्षयमश्नुते इति । अन्यच्च — दुष्टेष्वेतेषु मासेषु पुनः संस्कारकर्म चेत् । आत्मस्त्रीपुत्रवित्तानां हानिर्भवति हि ध्रुवम् इति । एतेषु - कन्याकर्कटकुम्भव्यतिरिक्तमासेष्वित्यर्थः ।

तत्त्वार्ममालृत्तिर्कु निषेधत्तत्तेतस्च चेष्टलुकिरुर्. कारक्याः । लाउर्यन्सं चापराचियिलिरुक्कुम् बेपामुतु, पुनर्स्लमंस्कारम् चेष्यपपट्टालं, प्रित्तरुक्कुलं नरकत्तेत अटेकिण्णनर्, कर्त्तत्तावुम् । नरकत्तेतयलेवान्. मर्त्रेन्नरु वसन्तमुमः । तेऽप्पमुलां इन्त मालृन्कलीलं पुनर्स्लमंस्कारत्तेतस्च चेष्यतालं, चेष्यपवनं, अवनतु लेतरी, पुत्ररन्सं तनाम् इवेवकगुक्कु नाशमेत्प्राप्तिरहुम्, निष्चयम् । इन्त मालृन्कलीलं = कन्यामालृम्, कटकमालृम्, कुम्पमालृम् इवेवकलैत तवीर्त्तत मालृन्कलीलं एन्नपतु बेपारुलं.

नक्षत्रादीन्याह गार्यः ॥ अनुराधे च मूले च श्रविष्ठावारुणे तथा । हस्ते च त्वाष्ट्रनक्षत्रे पुनः संस्कारमाचरेत् । कुजवारे च सौरे च जीववारे च भागविं । नन्दायां चैव भद्रायां रिक्तायां पर्वणोस्तथा । न कुर्यात् पुनः संस्कारं कुर्याचेत् कुलनाशनम् इति । नृसिंहश्च — कन्याकुम्भगते सूर्ये कृष्णपक्षे विशेषतः । पञ्चम्याः परतः श्रेष्ठ आपञ्चम्याः सितेऽपि च इति । बृहस्पतिः — कृष्णपक्षः शुभः प्रोक्तः पञ्चम्याः परतस्तथा । अन्त्यं त्रिभागः शस्तस्स्या द्विशेषात् प्रेतकर्मणि इति । आद्यभागे च कर्तव्यं सितपक्षे च संकटे इति । संकटः - विहितकालालाभः ।

நகஷ்தரம் முதலியவைகளைச் சொல்லுகிறார். கார்க்யர்:- அனுராதா, மூலம், அவிட்டம், சதயம், ஹஸ்தம், சித்ரை இந்த நகஷ்தரங்களில் புநஸ் ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். செவ்வாய், ஞாயிறு, வியாழன், வெள்ளி இந்த வாரங்களிலும்; நந்தா, பத்ரா, ரிக்தா, பர்வங்கள் இந்தத் திதிகளிலும் புநஸ்ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யக்கூடாது. செய்தால் அது குலநாசகரமாகும். ந்ருஸிம்ஹரும்: கன்யாமாஸம், கும்பமாஸம் இவைகளில் க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் பஞ்சமிக்குப் பிறகும், சுக்ல பக்ஷத்திலும் பஞ்சமிக்குள் உள்ளகாலம் ச்ரேஷ்டமாகும். ப்ரஹஸ்பதி: க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் பஞ்சமிக்கு மேல் சலாக்யமானகாலம். க்ருஷ்ண பக்ஷத்தின் கடைசியான மூன்றிலொரு பாகம் மிகவும் சலாக்யம். ஸங்கட விஷயத்தில் சுக்ல பக்ஷத்திலும் முதலான மூன்றிலொரு பாகத்திலும் செய்யலாம். ஸங்கடம்-விஶிதகாலம் கிடைக்காதிருத்தல்.

ஸ்மृத்யन்தரே — அब्दादुपरिसंस्कारे उत्तरायणमिष्यते । सर्वदा
कृष्णपक्षः स्यात् पुनः संस्कारकर्मणि इति । **गार्यः** — चित्रा श्रविष्ठा
 हस्तश्च स्वाती श्रवणमश्चयुक् । मधा मैत्रं च तिष्यं च वारुणं
 सोमदैवतम् । एकादशैताः कथिताः प्रशस्ताः प्रेतकर्मणि । प्रेताधिपति
 देवत्वात् भरणी कैश्चिदिष्यते । ज्येष्ठा च मङ्गलभावात् सङ्कटेषु तयोः
 क्रियाः इति । श्रीधरीये — भरणी यमदेवत्वात् प्रशस्ता प्रेतकर्मणि ।
 अमङ्गल समग्रत्वात् ज्येष्ठाऽप्यत्र विधीयते । नन्दायां भार्गवदिने
 चतुर्दश्यां त्रिजन्मसु । **कुर्वतः** प्रेतकार्याणि कुलक्षयकराणि तु इति ।

மற்றோர் ஸ்ம்ருதியில்:- ஒரு வர்ஷத்திற்கு மேல் ஸம்ஸ்காரம் செய்யும் விஷயத்தில் உத்தராயணம் விதிக்கப்படுகிறது. புநஸ் ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில் எப்பொழுதும் க்ருஷ்ணபக்ஷம் விதிக்கப்படுகிறது. கார்க்யர்:- சித்திரை, அவிட்டம், ஹஸ்தம், ஸ்வாதி, ச்ரவணம், அச்வந், மகம், அனுராதா, புஷ்யம், சதயம்,

मंग्रुकचिरेषम्, एन्नं इन्त ह 11-नक्षत्रं रन्कगुम् प्रेरेत
कंग्रुत्यत्तिलं चलाक्यं कलाम्. यमतेवत्यमानतालं
परणीयेयम् चिलरं वित्तिकं किन्नरन्. मन्कलामल्लात्तालं
ज्ञेयेष्टं तेयेयम् चिलरं वित्तिकं किन्नरन्.
इवं विरण्णटिलुम् (विहृतकालम् किटेक्काविटिल).
संकटकालत्तिलं चेय्यलाम्. पूर्णं तर्यत्तिलः-
यमतेवत्यमानतालं परणीं प्रेरेतकारं यत्तिलं
चलाक्यमाकिन्नरतु. असपमं निरैरन्तताकीयतालं
ज्ञेयेष्टा नक्षत्रमुम् इवं विषयत्तिलं
वित्तिकं कप्पटुकिन्नरतु. नन्ताति, वेवं लीक्किमै,
सतुर्तचि, जून्मानुज्जन्मं तरीज्जन्मं मन्कलं इवेवकलीं
प्रेरेतकारं यन्कलं कुलक्षयकरन्कलाकुम्.

वसिष्ठश्च— आग्रेयमाद्रा सार्पं च त्रयः पूर्वाश्च नैरकृतम्।
ज्येष्ठा च भरणी चैव निन्दितास्तत्त्वदर्शिभिः। एतत् सर्वमतिक्रान्ते
तत्काले न तु दोषकृत् इति। पञ्चतौ—नन्दां भद्रां कलितिथि
मिलापुत्रशुक्रार्थवारान् नक्षत्रं च त्रिपदममराचार्यशुक्रेन्दुलग्नम्।
त्यत्वा पापग्रहबलवशात् प्रेतकार्याणि सर्वाण्याहुदीषो न हि बहुमतः
प्राप्तकाले मृतस्य इति। कलितिथिः—चतुर्दशी। इलापुत्रः—भौमः।
आर्यः—बृहस्पतिः। तत्रैव—नक्षत्राण्यमतान्याहुः आस्थितानि
शुभैर्गैः। शुक्रवीक्षितराश्यादि किञ्चित् सर्वं विगर्हितम्। सर्वदा
शुक्रवारश्च गुरुवारश्च गर्हितः इति।

वलीष्टं गुमः- कंग्रुत्तिका, आर्तरा, आसलेषा,
पूर्ववपलं गुर्णी, पूर्ववाष्टाटा, पूर्ववप्प्रेरोष्टपता, लुलम्,
ज्ञेयेष्टा, परणीं इवेवकलं चालं तरज्जन्मं गुर्कलालं
निन्तिकं कप्पटुलाला. इतेलं लाम् अतिक्रान्त
कंग्रुत्यत्तेतचे चेय्यम् विषयत्तिल. प्रत्यक्ष विषयत्तिल
तेऽवावलम्बल. पत्तत्तियिलः—नन्ता, पत्तरा, सतुर्तचि,
अन्कारक सक्कर गुरु वारन्कलं, तरीपतनक्षत्रन्कलं, गुरु

சுக்ர சந்தர்களின் லக்னங்கள் இவைகளைத் தவிர்த்து, பாபக்ரஹங்கள் பலிஷ்டங்களாயுள்ள காலத்தில் எல்லா ப்ரேதகார்யங்களையும் செய்யலாமென்கின்றனர். ப்ரத்யக்ஷ மரணக்ருத்ய விஷயத்தில் தோஷமென்பதில்லை. ப்ரதமா, ஷஷ்ம, ஏகாதசி, இவைகள் நந்தைகள். தவிதீயா, ஸப்தமீ, த்வாதசி, இவைகள் பத்ரைகள். க்ருத்திகா, புநர்வஸ்தி, உத்தரபல்குனீ, விசாகா, உத்தராஷாடா, பூர்வப்ரோஷ்டபதா, இவைகள் தரிபத நக்ஷத்ரங்கள். குரு லக்னங்கள் தனுஸ், மீனம். சுக்ர லக்னங்கள் துலா, வ்ருஷ்பம். சந்தரலக்னம் கடகம். பத்ததியிலேயே:- சுபக்ரஹங்களால் அடையப்பட்டுள்ள நக்ஷத்ரங்கள் சலாக்யங்களல்ல வென்கின்றனர். சுக்ரனால் பார்க்கப்பட்டுள்ள ராசி முதலிய எல்லாம் நிந்திதமே. சுக்ரவாரமும், குருவாரமும் எப்பொழுதுமே நிஷித்தமாகும்.

அதிதபிண்஡ோட்காஸ்திஸ்சயனாடை பிரதிஸ்விகநிஷே஧ோட்பி தत्र
தत்ரோக்தः । ஸமுத்யந்தரே — பித்யக்ஷமரणே பித்ரோ பஶ்யேதி஥ிவாரம்மு ।
பரோக்ஷே ஸுக்ஷமதः பஶ்யேத் ஸ்வஜந்மதி஥ிவாரம்மு । அந்யேஷாந் நாதி஦ோஷः
ஸ்யாத् பித்யக்ஷமரணே நூணாம् இதி । அந்யநாபி — ஜந்மநய் ஸஸ்யனே
ஶாஷ்வ ச ஦ஹநே பிதுः । நைவ ஦ோஷாவஹ் ப்ரோக்தமந்யேஷாமபி ஸ்வர்஦ா இதி ।
அந்யேஷாந் - பிதृவிதிரிக்தாநாமபி, தத்காலே ஦ஹநாடிப்ரேதகृத்யேஷு ந
஦ோஷ இத்யர்஥ः ।

காலாதீதமாய்ச் செய்யப்படும் பின்டோதகதாநம், அஸ்தி ஸஞ்சயநம் முதலியதில், அதற்கென்றால் நிஷேஷதமும் ஆங்காங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஸ்ம்ருதியில்:- மாதாபிதாக்களின் ப்ரத்யக்ஷமரணத்தில் திதி வார நக்ஷத்ரங்களைக் கவனிக்கவேண்டாம். ப்ரோக்ஷமரண விஷயத்தில், தனது ஜன்மநக்ஷத்ரம், திதி, வாரம், நக்ஷத்ரம் இவைகளை நன்றாய்க் கவனிக்கவும். மற்ற மனிதர்கள் விஷயத்திலும் ப்ரத்யக்ஷ மரண விஷயத்தில் அதிக

तेऽवश्यमिल्लै. मर्णिर्जुरु ष्मंरुतीयिल्लुमः- ज्ञन्मानुज्ञन्म तरीज्ञन्म नक्षत्रंकर्णकौ, पिताविन्नं चरात्तम, तहननम्, लग्नंचयनम् इवेवकौलं एप्पेपामुतुम् तेऽवश्यत्तेत्तस्च चेयवताय आकात्तेत्तन्ऱु चेऽल्लप्पट्टुौलतु. पितावेवत्त तवीर्त्तम् मर्त्तवर्वर्व विषयत्तिलुम् अप्पट्टेय. मर्त्तवर्वर्वकट्टकुम् अक्कालत्तिलेये तहननम् मुत्तव्य प्रेरत क्रुत्यम् चेय्युम् विषयत्तिलं तेऽवश्यमिल्लै एन्पतु वेपारुौ.

यदि कालातिक्रमे प्रेतकृत्यं चिकिर्षेत् तत्र तिथिवारादिकं सूक्ष्मतः पश्येत्। तदाह गार्यः— प्राप्तकालमतिक्रम्य कुर्याद्यदि बलिक्रयाम्। तस्यैव वारनक्षत्रतिथिराश्यंशकादयः इति। संग्रहे— अधिमासे हरे: सुसौ मौढ्ये च गुरुशुक्रयोः। नातीतपितृमेधः स्यात् गज्ञां गोदावरीं विना इति। अन्यच्च— सुरासुरुग्रोमौढ्ये कृष्णस्वापे मलिम्लुचे। नातीतपितृमेधः स्यात्तकाले तु न दोषकृत् इति। कृष्णस्वाप इति कन्याकर्कट्यतिरिक्तविषयः, कन्या कुलीरे प्राप्तेऽपुनः संस्कार इष्यते इति शृङ्गाराहिक्या तत्र अतीतप्रेतकार्यविधानात्।

चिलकालम् चेस्त्रं पीरुकु प्रेरतक्रुत्यत्तेत्तस्च चेय्य विरुम्पिणेल, अव्विषयत्तिलं तिति वारम् मुत्तव्यतेत् नन्ऱुयक्क कवणीक्क वेण्टुम्. अतेत्तस्च चेऽल्लुकिरुर्, कार्मक्यरः- प्रराप्तकालत्तेत् अतिक्रमित्ततु प्रेरत कार्मयत्तेत् चेय्यपव्युक्केव वार नक्षत्रं तिति राशि अम्चन्कर्णकौ मुत्तव्यवेवकौ कवणीक्कप्पट वेण्टुम्. लग्नंकराहुत्तिलः- अतिक्रमालत्तिलुम्, विष्णुविन्नं नित्तरा कालत्तिलुम्, शुक्रं सक्करार्कर्णकौ अल्लमयत्तिलुम्, नालं चेस्त्रं चेय्यप्पटुम् प्रेरतक्रुत्यम् कृटातु. कन्केयिलुम्, केतावरीयिलुम् चेय्यलाम्. मर्णिर्जुरु ष्मंरुतीयुमः- शुक्रं सक्करार्कर्णकौ अल्लमयत्तिलुम्, विष्णु नित्तराकालत्तिलुम्, मलमालत्तिलुम्, अतीत प्रेरत क्रुत्यम् कृटातु. प्ररथयक्ष मरणविषयत्तिलं

தோஷாவஹமாகாது. விஷ்ணுநித்ராகாலத்தில் கூடாதென்றது, கன்யாமாஸம், கடகமாஸம் இவைகளைத் தவிர்த்த காலத்தைப் பற்றியது. 'கன்யா ராசியிலும், கடகராசியிலும் ஸுர்யனிருக்கும்பொழுது புனஸ் ஸம்ஸ்காரம் விதிக்கப்படுகிறது' என்று தனியாய் (ஸ்பஷ்டமாய்) அந்த மாஸங்களில் அதீத ப்ரேதகார்யத்தை விதித்திருப்பதால் இது.

ஸர்வோபி நிஷே஧ஸ்திபக்ஷாதூர்஧்வவிஷயः । அத எவ ஸத்ரங்கார: — அர்வாக்திபக்ஷாத் ப்ரேதஸ்ய புநர்஦்வங்கர்மஸு । ந காலனியமோ ஜேயோ ந மௌந்ய ஗ுருஶுக்ரயோ: இதி । ததஶ திபக்ஷாதவர்க்புநர்஦்வங்கர்ம மூதிஶ்வரண்஦ினே கார்யமிதி ஸிஞ்சம் । யது ஸ்மृத்யந்தரவங்கனம் — ப்ரேதஸ்ய வத்ஸராதவர்஗்யதா ஸ்ஸ்காரமிச்சதி । ந காலனியமோ ஜேயோ ந மௌந்ய ஗ுருஶுக்ரயோ: இதி, அத ஸ்ஸ்காரங்காந: ஸபிண்டிகரணபர: , ந து புன: ஸ்ஸ்காரவாசீதி வ்யாக்யாதார: ।

இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட நிஷே஧மெலாம், 3-பக்ஷங்களுக்கு மேற்பட்டுச் செய்யப்படும் க்ரியையைப் பற்றியது. ஆகையால், ஸங்கரஹகாரர்:- 'த்ரிபக்ஷத்திற்குள், ப்ரேதனுக்குப் புநர்தஹநம் முதலிய கர்மங்களில், காலநியமயமில்லை, குரு சுக்ர மெளட்யமும் கவனிக்கப்பட வேண்டியதில்லை' என்றார். அவ்வித மிருப்பதால், த்ரிபக்ஷத்திற்குள், புநர்தஹந கர்மத்தை, மரணத்தைக் கேட்ட தினத்தில் செய்யலாமென்பது வித்தமாகியது. ஆனால்:- "ப்ரேதனுக்கு ஒரு வர்ஷத்திற்குள் ஸம்ஸ்காரம் செய்ய விரும்பினால், காலநியமயமில்லை, குரு சுக்ர மெளட்யமுமில்லை" என்ற ஸம்ருதிவசனமுள்ளதே யெனில், இந்த வசநத்திலுள்ள ஸம்ஸ்காரமென்ற பதம் ஸபிண்டகரணத்தைச் சொல்லுகிறது. புநஸ் ஸம்ஸ்காரத்தைச் சொல்லுகிறதல்ல, என்ற வ்யாக்யானகாரர்கள் சொல்லுகின்றனர்.

स्मृतिसन्न हे — पुनदाहै दिनं शोध्यमाशौचात् परतो बुधैः । नन्दां त्रयोदशीं शुक्रशनिवारौ विवर्जयेत् । पातान्त्यपरिघान् योगान् विष्टि चैव विवर्जयेदिति । पुनः संस्कारादौ विहितकालातिक्रमे प्रायश्चित्तमुक्तं स्मृत्यन्तरे — संस्काराणां तु सर्वेषां कालो यद्यतिपद्यते । प्राजापत्यं चरेन्मासे ततोऽप्येवं प्रकल्पयेत् इति । मासद्वये प्राजापत्यद्वयम्, एवं मासत्रयादौ कल्प्यम्, मासाभ्यन्तरेऽपि प्राजापत्यं कर्तव्यम् । तथा स्मृत्यर्थसारे — निमित्तश्राद्धे हीने संस्कारकालातिक्रमे च प्राजापत्यं कुर्यात् इति ।

संमंगुती लम्पकरण्यात्तीतिः— आशेशाचत्तिर्त्तुप्प धिरकु
पुनस्लम्पकारम् चेयवत्ताग्नेल, तिनत्तेतकं कवनीक्क
वेण्णुम् अर्निन्तवर्कर्कल; नन्ता, त्रयेयोत्तु, कुक्करवारम्,
चनीवारम् इवेवकलै वर्जुक्कवुम्. व्यतिपातम्,
वेवत्तरुति, परीकम्, विष्टि, (पत्तराकरणम्) इवेवकलै
वर्जुक्कवुम्. पुनस्लम्पकारम् मुत्तवियतिः, वित्तत्त
कालत्तेत अतिक्करमित्तत्तर्त्तुप्प ध्रायच्चित्तत्तम्
चेश्चलप्पत्तुलैतु. ओरु संमंगुतीयिः— लम्पकारन्क
लेल्लावर्न्निर्त्तुम्, कालम् अतिक्करान्त्तमाग्नेल, ओरु
मात्तमाग्नेल, ओरु ध्राज्ञापत्त्य कुरुक्करत्तेत
अनुष्टुक्कवुम्. धिरकुम्, ओवेवारु मात्तत्तिर्त्तु
ओवेवारु कुरुक्करम् एन्नरु चेर्तत्तुक केळांलावुम्.
2-मात्तमाग्नेल 2-कुरुक्करम्. 3-मात्तमाग्नेल 3-कुरुक्करम् एन्नरु
कल्पिक्कवुम्. ओरु मात्तत्तिर्त्तुल चेयत्ताग्नुम् ओरु कुरुक्करम्
चेय्यप्पत्त वेण्णुम्. अव्वितम् संमंगुत्यर्त्तत्त
लारत्तीतिः— निमित्तत्त चरात्तत्तम् (एकोत्तिष्टत्तम्)
तवर्निग्नाग्नुम्, लम्पकारकालम् अतिक्करान्त्तमाग्नाग्नुम्
ध्राज्ञापत्त्य कुरुक्करत्तेत्तुक चेय्य वेण्णुम्.

दशाहमध्ये ज्ञा तिमरणे संस्कर्तुर्विशेषः

दशाहमध्ये ज्ञातिमरणे संस्कर्तुर्विशेषमाह नारदः—
अन्तर्दशाहे चेत् कर्तुः पुनः प्रेतस्य संस्कृतिः । तस्माच्छुद्धिः

பூர்வோஷாடைகாடிஷ்ட யथோடிதம் இதி । அந்தர்வாஹே சேத் கர்துரிதி ஸ்மரணாத் த்யஹா஧ாஸௌசம஧ே ஦ஶாஹாஸௌசி஦ாஹே பூர்வேண ந ஸமாஸிரித்யவ஗ம்யதே । ஹரிதோऽபி — ஦ாக்கார்யத்து ஸ்யாசேத் கர்துரைக்யவிஜோஷதः । தோய் பிண்ட ஸமாப்யேத பூர்வை டிதியகம் இதி । ஸமृத்யந்தரோऽபி — அனிர்வாஹே தத்கர்து: புன: ப்ரெதஸ்ய கர்மணி । பூர்வை ஸமாஸிஃ ஸ்யாடைகோடிஷ்ட யதோடிதம் இதி । தத்தைகாடைஶாதினே ஏகோடிஷ்டமித்யர்஥ः । அந்யத்ராபி — கர்த்தாஹே ப்ரெதஸ்ய ஶங்காஹ் சரெத் புன: । பூர்வேண ஶுஞ்சிஃ ஸ்யாடைவ பித்ரார்ந்திர தந்த்வேத் இதி ।

**10-நாட்களுள், ஜ்ஞாதி மரணத்தில்,
ஸம்ஸ்கார்த்தாவுக்கு விசேஷம்**

10-நாட்களுள், ஜ்ஞாதி மரணம் நேர்ந்தால், ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனுக்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறோர். நாரதர்:- ‘‘10-நாட்களுள், கர்த்தா, மற்றொரு ப்ரேதனுக்கு ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்தால், முன் ஆசௌக்கிளின் மீதியுள்ள தினங்களாலேயே சுத்தி. ஏகோத்திஷ்டம் மட்டில் 11-ஆவது தினத்தில்’’ என்று, ‘‘10-நாட்களுள்’’ என்றிருப்பதால், தரிராத்ராசௌசம் முதலிய ஆசௌக்கிளின் மத்தியில், தசராத்ராசௌசியைத் தஹித்தால் பூர்வாசௌக்கிளின் ஆசௌசஸமாப்தி இல்லை என்று அறியப்படுகிறது. ஹார்தரும்:- கர்த்தா ஒருவனுயிருந்து 2-தாலு கார்யங்களைச் செய்தால், உதகபிண்ட ஸமாப்தியை முந்தியதோடு பிந்தியதையும் முடித்துவிட வேண்டும். மற்றொரு ஸ்மருதியிலும்:- 10-நாட்களுள், தாலுகர்த்தாவுக்கு மறுபடி ப்ரேதஸம்ஸ்காரம் செய்ய நேர்ந்தால், முந்தியதோடு பிந்தியதையும் ஸமாப்தி செய்ய வேண்டும். ஏகோத்திஷ்டத்தை மட்டில் அததன் 11-ஆவது நாளில் செய்ய வேண்டும். மற்றொரு ஸ்மருதியிலும்:- 10-நாட்களுள், கர்த்தா மறுபடி ப்ரேத தஹநம் செய்தால், முந்திய ஆசௌக்கிளினேயே பிந்திய ஆசௌக்கிளிற்கும்

सुत्ति, मातापितृं वीष्यत्तेतत् तवीर्त्त वीष्यत्तिल्.

तथा चाङ्गिराः — दाहकस्त्वादशाहान्तु शबदाहं चरेद्यदि । पूर्वेषैव विशुद्धिः स्यात् पित्रोस्तद्विवसाद्भवेत् इति । सङ्गहेपि — पित्रन्यानन्तरानेकान् दग्धा पूर्वितः शुचिः । पितरौ चेद्वेत्तत्र दशाहाच्छुद्धिरग्निदे इति । दक्षः — मृताशौचनिमित्ते द्वे दहनं मरणं तथा । ज्ञातीनां मरणादेव दहनाद्वाहकस्य तु ॥ अन्यं दग्धा दशाहान्तः शुद्धिः पूर्विषेषतः इति ।

अन्यकीरणः - तल्लनम् चेय्तवन्, 10-नाट्कगुणैः मरुपटि चवत्तल्लनम् चेय्ताल्ल, मुन्त्रियतुटन् प्रिन्तिय आचेसाचत्तिर्त्तिर्त्तुम् सुत्ति. मातापिताक्कलीनं वीष्यत्तिल्, अवर्कलीनं 10-नाट्कगोलाल्ल सुत्ति. ऐन्कर्लल्लत्तिलुमः- मातापिताक्कलीत् तवीर्त्त ज्ञातिकली अनेकर्कलीत् तल्लित्तताल्ल, मुन्त्रिय आचेसाचत्तताल्लये सुत्ति. अन्त आचेसाचमत्तियिल् मातापिताक्कलीत् तल्लित्तताल्ल, अतु मुतल्ल 10-नाट्कगोलाल्ल सुत्ति, ताल्लकली वीष्यत्तिल् तुष्टिः- मरणैचेसाचत्तिर्त्तुक कारणंकली इरण्णु, तल्लनम् मरणम् एन्ऱु. ज्ञातिकलीकुकु मरणत्तताल्लये आचेसाचम्, ताल्लकलुकुत् तल्लनत्तताल्ल आचेसाचम्. पत्ततु नाली आचेसाचत्तिनिन् नालील मरणत्तताल्लये सुत्ति.

संवर्तः — पूर्वकर्ता दशाहे तु पितरौ चेद्वेत् पुनः । पूर्वेष शुद्धिनैव स्यात् पित्रोस्तद्विवसाद्भवेत् इति । एवं च ज्ञात्यघमध्ये ज्ञातिदाहे कृते सति दाहकस्य दाहादिदशाहे उदकपिण्ड-समाप्तिर्द्वादिदशाहमाशौचं च । दाहकव्यतिरिक्तसपिण्डानां पूर्विषेषैव शुद्धिरुदकसमाप्तिश्च ।

समवर्त्तत्तरः - मुतलील तल्लनम् चेय्तवन् 10-नाट्कगुणैः, मातापिताक्कलीत् तल्लित्तताल्ल, मुन्त्रिय आचेसाचत्तताल्ल सुत्ति इल्लै. मातापिताक्कलीनं मरणम्

முதல் 10-நாட்களால் சுத்தி. இவ்விதம் இருப்பதால், ஜ்ஞாத்யாசௌச மத்யத்தில், மற்றொரு ஜ்ஞாதியைத் தஹித்தால், தாஹகனுக்குத் தஹநதினம் முதல் 10-நாட்களால் உதகபிண்ட ஸமாப்தியும், 10-நாள் ஆசௌசமும். தாஹகனைத் தவிர்த்த ஜ்ஞாதிகளுக்கு முந்திய ஆசௌசத்துடனேயே சுத்தி, உதகதாந ஸமாப்தியும்.

दाहकस्य पुनः ज्ञात्यन्तरदाहे पूर्वदाहादि दशाहशेषण
शुचिः । दशमदिने तदन्त्ययामे वा दाहे इति तु अहःशेषे द्वाभ्यां
प्रभाते तिसूभिः इति स्मरणात् पूर्वदशाहानन्तरं द्वित्रिदिनाशौचस्य
सत्वेन तदाशौचान्ते उदकादिसमाप्तिः, आशौचान्ते पुनः
सम्यक्षिप्तिष्ठदानं समाप्ते इति मरीचिस्मरणात् । एकोद्विष्टं
तत्तदेकादशाहे, एकोद्विष्टमशुद्धोऽपि इति स्मरणात् । सपिण्डीकरणं
तु त्रिपक्षे कार्यम् ।

தாஹகன் மறுபடி மற்றொரு ஜ்ஞாதியைத் தஹித்தால், முந்திய தஹநம் முதல் 10-நாட்களாலேயே சுத்தி. 10-ஆவது நாளிலாவது, 10-ஆவது தினத்தில் கடைசியாமத்திலாவது தஹித்தால், ‘அஹச்சேஷ + திஸ்ருபி:’ என்ற ஸ்ம்ருதி யிருப்பதால், முந்திய ஆசௌசத்தின் 10-ஆவது தினத்திற்குப் பிறகு 2,3, தினங்கள் ஆசௌச மிருப்பதால், அந்த ஆசௌசத்தின் முடிவில் உதகதாநம் முதலியதற்கு ஸமாப்தி. ‘ஆசௌசத்தின் முடிவில் மறுபடி பிண்டதானத்தை முடிக்கவும்’ என்று மர்சி ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ஏகோத்திஷ்டம் அந்தந்த ம்ருதியின் 11-ஆவது நாளில் ‘அசுத்தனையினும் 11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும்’ என்று ஸ்ம்ருதியிருப்பதால். ஸபிண்ட கரணத்தையோ வெனில் தரிபக்ஷத்தில் செய்ய வேண்டும்.

दशाहात् पूर्वं मृतौ दाहकस्य सपिण्डस्य द्वादशदिने
आशौचाभावेऽप्याद्य श्राद्धपर्यन्तस्यैककर्मत्वात् पश्चान्मृतैकोद्विष्टात्

पूर्वं पूर्वमृतस्य द्वादशाहे सापिष्ठव्यं न कार्यम् । पित्रोस्तु दाहे दाहकस्यान्ये षामपि पुत्राणां पितृमरणादि दशाहेनैव शुद्धिरुदकादिसमाप्तिश्च, न पूर्वदाहदशाहेषेणेति । दीपिकायां तु — जनकस्य जनन्याश्च भार्याया भतुरीव च । पुत्रस्य दुहितुश्चैव जनने मरणेऽपि च । स्वकालेनैव शुद्धिः स्याच्छेषन्यायो न विद्यते इति । ज्ञात्यघमध्ये पुत्रजनने पित्रोदशाहत एव शुद्धिः । भार्यादिमरणे तत्प्रतियोगिनामपि स्वकालत एव शुद्धिः, न पूर्वशौचं शेषेणेत्यर्थः ।

10-नाट्काणुं मंग्रुतियाकी, ताहूरकाणुन
सलपिण्णटकाणुक्कु, 12-आवतु नागीलं आ॒ चेसोच
मिल्लावी॒ यिण्णुम्, एकोत्तिष्ठ॒ टमं वरे॒ यिलं
उ॒ ऊला॒ तेला॒ अम् ओरु॒ कर्ममा॒ ना॒ ता॒ अल्, पि॒ रुकु॒ इ॒ रन्त॒ वा॒ नी॒ िनं
एकोत्तिष्ठ॒ टत्ति॒ रुक्कु॒ मु॒ न्नपु॒, मु॒ तवी॒ िलं इ॒ रन्त॒ वा॒ नी॒ िनं
12-आ॒ वतु॒ ति॒ न॒ त्ति॒ िलं॒ सा॒ पी॒ ण्ण॒ ट्य॒ त्ति॒ ता॒ त्ति॒ च॒ य॒ क्कु॒ टा॒ तु॒.
मा॒ ता॒ पि॒ ता॒ क्कु॒ नी॒ त्ति॒ त्ति॒ लो॒ वे॒ वा॒ वे॒ नी॒ िलं
ता॒ हूरकाणुक्कु॒ म्, मर॒ न्नप॒ पु॒ त्रर॒ ा॒ क्कु॒ नी॒ क्कु॒ म्, मा॒ ता॒ पि॒ त्ति॒ रु॒ मर॒ ण
ति॒ न॒ मु॒ तव॒ 10-ना॒ ट्का॒ लो॒ ये॒ क्कु॒ त्ति॒ त्ति॒, उ॒ तक॒ स॒ मा॒ पा॒ न्नम॒ म्.
मु॒ न्नति॒ य॒ ता॒ हूरकाणुक्कु॒ 10-ना॒ ट्का॒ नी॒ म॒ िति॒ या॒ ल॒ ल॒.
ती॒ पि॒ षक्का॒ यि॒ लो॒ वे॒ वे॒ नी॒ िलं॒ :- ज्ञ॒ ऊ॒ ा॒ ति॒ यि॒ िनं॒ आ॒ चेसोच॒ म॒ त्ति॒ य॒ त्ति॒ िलं॒
पि॒ ऊ॒ ल॒ अ॒ ल॒ ल॒ तु॒ बे॒ ऊ॒ पि॒ रु॒ न्नता॒ अल॒ मा॒ ता॒ पि॒ ता॒ क्कु॒ नी॒ क्कु॒ प॒
प॒ त्ति॒ त्ति॒ ना॒ ट्का॒ लो॒ ये॒ क्कु॒ त्ति॒ त्ति॒. पा॒ र्य॒, पा॒ र्त्ता॒ िवा॒ र्का॒ नी॒ िनं॒
मर॒ ण॒ त्ति॒ ल॒ अ॒, प्र॒ रु॒ यो॒ कि॒ क्कु॒ प॒ प॒ त्ति॒ त्ति॒ ना॒ ट्का॒ लो॒ ये॒
क्कु॒ त्ति॒, मु॒ न्नति॒ य॒ आ॒ चेसोच॒ त्ति॒ िनं॒ म॒ िति॒ ना॒ ट्का॒ ल॒ ल॒ िलं॒ ल॒
ए॒ न॒ प॒ तु॒ बे॒ ऊ॒ रु॒ ण॒.

अन्तर्दशाहे मातापितृमरणयोः सन्निपाते विशेषः

अन्तर्दशाहे मातापितृमरणयोरन्त्यदिनात् पूर्वमन्त्यदिने वा
मिथः सन्निपाते विशेषमाह शङ्खः—मातर्यै प्रमीतायामशुद्धौ
म्रियते पिता । पितुः शेषेण शुद्धिः स्यात् मातुः कुर्यात् पक्षिणीम्
इति । मात्राशौचमध्ये पितृमरणे सति पितृदशाहेन शुद्धिः ।

පිතාඝැච්මධ්‍යේ මාත්‍රාඝැච්සනිපාතේ තු පැරාඝැච්චානන්තර මාත්‍රාඝැච් පක්ෂීමාත්‍රම්දකාදික් ඡ කුරාදිත්‍රිත්‍රා : | තතා ඡ සමුත්‍රාන්තරේ — මාත්‍රාඝැච්ස්‍ය ඡධ්‍යේ තු පිතා ඡ මියෙතේ යදි | පිතුරුරණමාර්ඛ්‍ය ප්‍රාණා ද්‍රාගාත්‍රකම් | පිතාඝැච්ස්‍ය ඡධ්‍යේ තු යදි මාතා ප්‍රමීයෙතේ | ද්‍රාහාත් පැතුකාදුර්ධ්‍රා මාත්‍රජ පක්ෂීනි බවේත් ඇති |

10-නාට්-කළුක්කුණ් මාතා පිත්රු මරණංකුණ් නොර්න්තාල්

මාතා පිත්රු මරණංකුණ්කු, කොටසි තිනත්තිර්ඥ මුන්පාවතු, කොටසි තිනත්තිලාවතු සේර්ක්සේ ග්‍රෑප්පාල්, ඩිසේන්ත්තේත්ස් සොල්ලුකිරුර්, සංකාර්:- මුන්ප මාතා මූර්න්තු අන්ත ආශේෂණත්තිල් පිතා මූර්න්තාල්, පිතාවින් මරණාශේෂණත්තිර්ඥුප් පිරාකු ප්‍රතිඵ්‍යුතු. පිතා මූර්න්තු අන්ත ආශේෂණමත්යත්තිල් මාතා මූර්න්තාල්, පිතා මූර්න්තු ආශේෂණත්තිර්ඥුප් පිරාකු මාතාවින් ආශේෂණත්තේත්ප පක්ෂීන් කාලම් බවර මට්ටිල් අනුෂ්ඨික්කවුම්. ඉතකතානම් මුතලියෙතයුම් රේජ්‍යයුම්, නෙන්පතු බොරුණ්. අව්විතමේ, ඉරු ම්‍යුරුතියිලුම්:- මාතාවින් ආශේෂණත්තින් මත්තියිල් පිතාවුම් මූර්න්තාල්, පිතාවින් මරණම් මුතල් ප්‍රත්රර්ක්‍රාන්කුප් පත්තු නාංාල් ආශේෂණම්. පිතාවින් ආශේෂණත්තින් මත්තියිල් මාතා මූර්න්තාල්, පිතාවින් 10-නාංාල් ආශේෂණත්තිර්ඥුප් පිරාකු මාතාවින් ආශේෂණම් පක්ෂීන් කාලම් බවරයිල්.

මාත්‍රයේ ප්‍රමීතායා තදාඝැච්මධ්‍යේ යදි පිතා මියෙත තදා පිතුරුරණදිනමාර්ඛ්‍ය ද්‍රාහාත එව උදක දානාදිප්‍රේතකුත්‍ය පිතුරිවර්ත්‍ය පිතුරුරණයේකාද්‍රාදිනේ ආය්‍ත්‍රාජ්‍ය කුරාත් | පිතාඝැච්- ඡධ්‍යේ මාතුරණයේකාද්‍රාදිනේ මාතුරාය්‍තාජ්‍යම්‍යුද්‍රාපි කුරාදිකා- ද්‍රාදිහනි | කර්ස්ටොට්කාලිකි ගුද්‍රිරුද්‍රා: පුනරේව ස: ඇති එස්සමරණාත් |

माता मुन्पु इरन्नतु अन्त आचेळासत्तिणि नुवील पिता इरन्ताल, अप्पेपामुतु, पिताविणि मरण तिणमं मुतर्ह केणाणु, 10-नाट्कणीलेये उतकतानमं मुतविय प्रेरेतकार्यत्तेतपं पितावुक्कु मुष्टित्तु, पिताविणि मरणतिणमं मुतलं 11-आवतु तिणत्तिलं एकोत्तिष्ठ सरात्तत्तेतचं चेय्यवुम्. पिताविणि आचेळासत्तिणि मत्यत्तिलं, माता इरन्त 11-आवतु तिणत्तिलं माताविणि एकोत्तिष्ठ सरात्तत्तेत असत्तग्नयं इरुन्तालुमं चेय्यवुम्. 'असत्तग्नयं इरुन्तालुमं 11-आवतु तिणत्तिलं आत्यं सरात्तत्तेतचं चेय्यवुम्. कर्त्ततावुक्कु अक्कालत्तिलं मट्टिलं सत्तु उन्टाकिरतु. पिऱकु अवनं असत्तनेन' ऎन्ऱु चन्कल्मंरुत्तियालं.

पितर्यै मृते सति तदाशौचमध्ये यदि माता प्रियेत तदा जनकस्य मृत्युंध्ये जननीमरणं यदि । पित्राशौचे समाप्तिः स्यान्मात्राशौचं तु पक्षिणी इति पित्राशौचान्त्यदिन एव मातुरपि पिण्डोदकसमाप्तिस्मरणात्, पित्राशौचमध्ये मातुरपि दशाहकृत्यं परिसमाप्य पितुरेकादशदिने आघश्राद्धं निर्वर्त्य पित्राशौचान्तरमपि मातुः पक्षिण्याशौच मनुष्टाय मातृमरणाद्येकादशदिने तस्या आघश्राद्धं कुर्यात् ।

पिता मुन्पु इरन्नतु, अन्त आचेळासत्तिलं माता इरन्ताल, अप्पेपामुतु, "पिताविणि मरणत्तिणि मत्तियिलं मातावुक्कु मरणमाणेल, पिताविणि आचेळासत्तिलं लेमाप्तियेचेय्यवुम्, पिऱकु माताविणि आचेळासमं पक्षीणे कालमात्रम्" एन्ऱु पिताविणि आचेळासत्तिणि मुष्टिवु तिणत्तिलेये पिण्ठेतोतकनंकणीलं लेमाप्ति चेळाल्लप्पुवताल, पित्राचेळासत्तिणि नुवीलेये माताविणुउतेयवुम्, 10-नाळं करीयेय मुष्टित्तु, पिताविणि 11-आवतु नाळीलं आत्यं सरात्तत्तेत मुष्टित्तु, पित्राचेळासत्तिर्कुप पिऱकुम, मातावुक्कुप

பக்ஷிண்யாசெளசத்தை அனுஷ்டித்து, மாத்ரு மரணம் முதல்
11-ஆவது தினத்தில் மாதாவுக்கு ஆத்ய ச்ராத்தத்தைச்-
செய்யவும்.

ந து ஆಶௌசாந்தே தத: ஸம்யக்ஷிப்பட்டான் ஸமாப்யதே । தத: ஶாஞ் ப்ரதாதவ்ய ஸர்வங்கீயம் வி஧ி: இதி மரீஞி ஸ்மரணாத्, அதாஶௌசாபாமே எகோ஦ிஷ்ட் இதி விஷ்ணுஸ்மரணாஜ, மாது: பக்ஷிண்யாஶௌசாநந்தர்஦ினே எகோ஦ிஷ்ட் கர்த்யமிதி சேந், எகோ஦ிஷ்ட் யதோதிதம் இதி ஸ்மரணாத் । தथா மாதவீயகாலாத்ரீகாடை — தத: ஆஶௌசாநந்தரமேகாத்ரே஽ஹி பிராஹ்ண எகோ஦ிஷ்ட் ஶாஞ் குர்யத் தி மரீஞ்யாதிவசநாஞ்சே஽மிஹித: । தத: ச பைதீனஸி: — எகாத்ரே஽ஹி யஞ்சாஞ் தத் ஸாமாந்யமுடாஹ்தம் । சதுர்ணமிபி வர்ணாந் ஸுதக் து பூத்கபூத்க இதி ।

“ஆ செளசத்தின் முடிவில் பிண்ட தானம் முடிக்கப்பட வேண்டும். பிறகு ச்ராத்தம் (ஏகோத்திஷ்டம்) செய்யப்பட வேண்டும், எல்லா வர்ணங்களுக்கும் இது விதி” என்று மரீஞி ஸ்மருதியாலும், ‘ஆ செளசம் முடிந்த பிறகு ஏகோத்திஷ்டம்’ என்று விஷ்ணு ஸ்மருதியாலும், மாதாவின் பக்ஷிண்யாசெளச தினத்திற்கு மறுநாளில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவேண்டுமெனில், அது அவ்விதமல்ல. ‘ஏகோத்திஷ்டம் சொல்லியபடி’ என்று ஸ்மருதியிருப்பதால், அவ்விதம் மாதவீயம், காலாதர்சாகை முதலியவைகளில் “பிறகு ஆ செளசம் முடிந்தவுடன் 11-ஆவது நாளில் ப்ராம் ஹனைன் ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைச் செய்யவேண்டும்” என்று மரீஞி முதலியவரின் வசநங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவ்விதம், பைஷநலி:- 11-ஆவது தினத்தில் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் எதுவோ, அது எல்லோருக்கும் 4-வர்ணங்களுக்கும் என்று சொல்லப் பட்டுள்ளது. ஆ செளசம் மட்டில் வர்ணங்களுக்குத் தனித் தனியேயாம்.

याज्ञवल्क्यश्च — मृतेऽहनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्। प्रति संवत्सरं चैव माघमेकादशेऽहनि इति। अतः पितृमृतिदशाहमध्ये मातृमरणे पितृदशाहानन्तरं पक्षिण्याशौचमनुष्ठाय मातृमरणाघेकादशाहे मातुरेकोद्दिष्टमिति निर्णयः ।

याज्ञवल्क्यग्रन्थः— ‘ऋग्र वर्षम् वररयिलं प्रति मासमुम्म मंग्रुततितीयिलं चरात्ततम् चेय्यप्पत वेण्णुम्। प्रति वर्षमुम्म इवंवितम् मंग्रुत तितीयिलं चरात्ततम् चेय्यप्पत वेण्णुम्। आत्य चरात्ततत्तत्तत 11-आवतु नागीलं चेय्यवेण्णुम्’ एन्नरुर्। आकेयालं पीत्तरु मरणत्तिल 10-नाट्कगुणं माता इन्नन्तालं, पीतावीलं 10-नाट्कगुणकुप्प प्रिन्तु पक्षिण्याचेसाचम् अनुष्ठित्तु, मात्तरु मरणम् मुतलं 11-आवतु नागीलं माता वक्तु एकोत्तिष्ठतम् चेय्यप्पत वेण्णुम् एन्पत्तु निर्णयमाम्।

पूर्वमृतयोः पित्रोऽखिपक्षे सपिण्डीकरणविधिः ।

सपिण्डीकरणं तु पूर्वमृतयोद्धयोरपि त्रिपक्षे कार्यम्। तथा च द्वादशाहे सापिण्डचं निषेधति लोकाक्षिः— पितृयुपरते पुत्रो मातुः श्राद्धं निवर्तयेत्। मातर्यपि च वृत्तायां पितुः श्राद्धं निवर्तयेत् इति। मात्राशौचमध्ये पितरि मृते मतुः श्राद्धं - सपिण्डीकरणं द्वादशाहे न कुर्यात्, पितुस्तु तद्वादशाहे कुर्यात्, मातुर्दशाहमध्ये तु पिता यस्य प्रमीयते। पैतृकं तु यथाकालं पितुः सर्वं समापयेत्। ततो मातुर्दशिपक्षादौ ज्ञेषं कर्म समाचरेत् इति स्मरणात्। तथा च पितृदशाहमध्ये मातृमृतौ पितुः सापिण्डचं निवर्तयेत्, द्वादशाहे न कुर्यात्, किं तु त्रिपक्ष एव। मातुस्तु सापिण्डचं पक्षिण्याशौचापगमे द्वादशाहे कुर्यादित्यर्थः । देवलोऽपि — एकाग्रमरणे पित्रोरन्यस्यान्यदिने मृतौ। सपिण्डनं त्रिपक्षे स्यादनुयानमृतिं विना इति । पित्रोरेकस्य अग्रमृतौ अन्यस्यान्यदिने मृतौ पूर्वमृतस्य

பூர்வமுதாயா வா ஸாபிண்ணஞ் திபக்ஷே குர்யாத் । அனுயானமுடிதின் விநா -
அனுமரண் விநேத்யர்஥: ।

மாதா பிதாக்களுள் முந்தி இறந்தவர்க்கு த்ரிபக்ஷத்தில்
ஸபின்மைகரண விதி

ஸபின்மைகரணமோவனில் முதலில் இறந்த
இருவருக்கும், த்ரிபக்ஷத்தில் செய்யப்பட வேண்டும்.
அவ்விதமே, 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மைகரணத்தை
நிஷேஷத்திக்கின்றார் லோகாகஷி:- மாதாவின் ஆசௌச
மத்தியில் பிதா இறந்தால், மாதாவின் ச்ராத்தத்தை =
ஸபின்மைகரணத்தை, 12-ஆவது நாளில் செய்யக் கூடாது.
பிதாவுக்கு ஸபின்மைகரணத்தைப் பிதாவின் 12-ஆவது
நாளில் செய்யலாம். “மாதா இறந்த 10-நாட்களுள் பிதா
இறந்தால் பிதாவின் க்ரியை எல்லாவற்றையும் விழித
காலத்தில் முடிக்கவும். மாதாவின் மீதியுள்ள க்ரியையை
த்ரிபக்ஷத்தில் செய்யவும்”, என்று ஸ்மருதி இருப்பதால்.
அவ்விதமே, பிதா இறந்த 10-நாட்களுள் மாதா இறந்தால்,
பிதாவின் ஸாபின்டயத்தை, 12-ஆவது நாளில்
செய்யக்கூடாது. ஆனால் த்ரிபக்ஷத்திலேயே
செய்யவேண்டும். மாதாவின் ஸாபின்டயத்தையோ
வெனில், பக்ஷின்யாசௌசத்திற்குப் பிறகு, 12-ஆவது
நாளில் செய்ய வேண்டும் என்பது பொருள். தேவைரும்:-
மாதா பிதாக்களுள் ஒருவருக்கு முதலில் மருதி ஏற்பட்டு
மற்றொரு நாளில் மற்றவருக்கு மருதி ஏற்பட்டால் முன்
இறந்தவருக்கு (பிதாவுக்கு ஆயினும், மாதாவுக்கு
ஆயினும்) ஸாபின்டயத்தை த்ரிபக்ஷத்தில் செய்ய
வேண்டும். அனுமரண விஷயத்தைத் தவிர்த்து இந்த விதி.

அனுமரண ஸாபிண்ணஞ்சால: ।

அனுமரண து பதிமரண ஦ிநாடுத்தர ஦ிநமரண தத்தாஹே ஸஹை
ஸாபிண்ணஞ் குர்யாத் । தथா ச காலாதரே — பித்ரோ: ஸஜ்ஞாதமரண

मातुरन्यत्र वा दिने । अनुयानमृतौ श्राद्धं यथा कलं समाचरेत् इति । दिनान्तरे मातुरनुमरणे द्वादशाहे सापिण्डचं कुर्यादित्यर्थः । पितृमेधसारेऽपि — सञ्चातानुमृत्योरन्यत्र न पित्रोस्तन्त्रतः कुर्यान्नान्यैः सह वा, पित्राशौचे माता, मात्राशौचे पिता वा संस्थितः, यन्मृतिः पूर्व स्यात् तत्सापिण्डचं त्रिपक्ष एवेति देवलः इति । तथैव एकाग्रमरणे पित्रोः इति देवलवचनं तेन व्याख्यातम् — पित्रोरन्यतरदशाहमध्येऽन्यतर मृतौ पूर्वमृतस्य पूर्वमृताया वा सपिण्डनं त्रिपक्ष एव भवति, अनुमरणे तु पितुद्वादशाहे सहैवेत्यर्थः इति ।

अनुमरणात्तिले लापिण्ट्य कालम्.

अनुमरणात्तिले वेणील, पठि इरन्त तिनत्तिरंकु मरु तिनत्तिले मरणमाणूल, पठि यिन् 12- आवतु नालील, चेर्त्तेते लापिण्ट्यत्तेतस चेय्यवुम्. अव्वितमें, कालात्तर्सत्तिलिः— माता पिताक्कलीनं लंगकात मरणात्तिलुम्, अल्लतु मरु नालील माता विन मरणात्तिलुम्, अनुमरण विष्यत्तिल, लपिण्लकरणात्तेत, 12- आवतु नालील चेय्यवुम्. मरुनालील माता अनुमरणम् चेय्तालुम्, 12- आवतु नालील लापिण्ट्यत्तेतस चेय्य वेण्णुम् ऎन्पतु बेपारुल. पित्त्रुमेत लारत्तिलुमः— “लंगकात मरणम्, अनुमरणम् इवेकलैत तविरत्त विष्यत्तिल, माता पिताक्कलुक्कु, तन्तरमाय (चेर्त्तु)स चेय्यक्कूटातु. पिताविन आचेलासत्तिल माता इरन्तालुम्, माता विन आचेलासत्तिल पिता इरन्तालुम्, मुन्पु इरन्तवरुक्कु लापिण्ट्यम् तरीपक्षत्तिल ताळं चेय्यप्पत वेण्णुम् ऎन्किरुर् तेवलर्” ऎन्ऱु उल्लतु. अव्वितमें, “एकाक्करमरणे पित्त्रोः” ऎन्ऱ तेवल वसनम्, पित्त्रुमेतलारकारराल, व्याक्यानम्

செய்யப்பட்டுள்ளது. “மாதா பிதாக்களுள் ஒருவர் இறந்த 10-நாட்களுள் மற்றொருவர் இறந்தால் முன்பு இறந்தவனுக்காவது, முன்பு இறந்தவனுக்காவது ஸாபின்ட்யம் த்ரிபக்ஷத்திலேயே விதிக்கப்படுகிறது” அனுமரணத்திலோவெனில், பிதாவின் 12-ஆவது நாளில் சேர்த்தே விதிக்கப்படுகிறது என்று பொருள்” என்று.

दम्पत्योः सहमृतौ क्रमः

यदि दम्पत्योः सहमृतिः स्यात् प्राग्दहनाद्वा अन्यतरमृतिः
स्यात् तदा सहैव दाहादिक्रियाः कुर्यात् । यदाह हारीतः —
दम्पत्योः सहमृतौ तु सह दाहादिकाः क्रियाः । प्राग्दाहादन्यनाशे च
तदूर्ध्वं तु पुनः क्रियाः इति । त्रिकाण्डी च — मृते भर्तरि दाहात्
प्राक् तत्पत्री च मृता यदि । पद्म्यां वा प्राक् प्रभीतायां
दाहादवर्किपतिमृतः । तत्र तन्त्रेण दाहः स्यात्तन्मन्त्रे द्वित्यमूहयेत्
इति । पुलस्त्यः — दुर्मृतः सुमृतो वाऽपि पिताऽग्रे यद्यसंस्कृतः ।
कालान्तरे मृता माता तस्या दाहादिकाः क्रियाः । पत्या
सहैकचित्यां तु दहेदौपासनादुभौ इति ।

தம்பதிகள் சேர்ந்து மரித்தால், அதன் க்ரமம்

தம்பதிகளுக்குச் சேர்ந்தே மரணமானாலும், ஒருவரின் தலைநத்திற்கு முன் மற்றொருவருக்கு மரணமானாலும், அப்பொழுது சேர்ந்தே தலைநம் முதலிய க்ரியைகளைச் செய்யவும். அதைச் சொல்லுகிறார் ஹார்தர்:- தம்பதிகளுக்கு ஒரே ஸமயத்தில் மருதியானாலும், தலைநத்திற்கு முன் மற்றொருவருக்கு மரணமானாலும், தாலும் முதலிய க்ரியைகளைச் சேர்த்தே செய்யவும். அதற்குப் பிறகானால் தனியாய் க்ரியைகளைச் செய்யவும். தீரிகாண்டியும்:- பர்த்தா இறந்த பிறகு தலைநத்திற்குள் பத்தி இறந்தாலும், பத்நீ இறந்த பிறகு தலைநத்திற்குள் பதி இறந்தாலும், இருவருக்கும் சேர்த்தே க்ரியைகளைச்

செய்யவும். மந்தரத்தில் தலைவரங்களை ஊழிக்க வேண்டும். புலஸ்த்யர்:- பிதா முதலில் தூர்ம்ருதனானும் இறந்தாலும், ஸாதாரணமாய் இறந்தாலும், ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்படாமலிருந்து, காலாந்தரத்தில் மாதா இறந்தால், அவளுக்குத் தலைநம் முதலிய க்ரியைகளைச் சேர்த்துச் செய்யவும். பதியுடனேயே ஒரே சிதியில் ஒளபாஸ்நாக்னியால் இருவரையும் தலைக்கவும்.

स्मृत्यन्तरे च — दम्पत्योः सह मृत्यौ तु पितृमेधक्रिया सह ।
 कुण्डमेकं पृथक्विष्णवजलाञ्जलिशिला मताः इति । सञ्च्रहेऽपि —
 एककाले मृतौ पित्रोः पितृमेधक्रिया सह । उदकं पिण्डदानं च श्राद्धं
 कुर्यात् पृथक् पृथक् । सपिण्डीकरणं चैव सहैव पृथगेव वा । एकगते
 जलं दद्यात् श्राद्धं चैकदिने द्वयोः । तन्त्रेण श्रपणं कुर्यात् श्राद्धं कुर्यात्
 पृथक् पृथक् । तत्र द्वयोर्निर्मित्तौ द्वौ ब्राह्मणावितरैः सह इति ।
 स्मृत्यन्तरेऽपि — दम्पत्योः सहसंस्कारो मृतावनुमृतावपि ।
 उदकादिसपिण्डचन्तप्रेतकार्याणि यान्यपि । कुर्यात् समानतन्त्रेण
 सांबत्सरिकमेव च इति । सांबत्सरिकस्य समानतन्त्रत्वस्मरण-
 मापद्विषयम्, तदये वक्ष्यते ।

மற்றேர் ஸ்ம்ருதியிலும்:- தம்பதிகள் சேர்ந்து
மரித்தால் ப்ரேத க்ரியை சேர்த்துச் செய்யப்பட வேண்டும்.
குண்டமொன்று. பிண்டம், திலோதகம், பாஷானம்
இவைகள் தனி என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸங்க்ரஹத்திலும்:- ஒரே காலத்தில் மாதா பிதாக்கள்
இறந்தால் ப்ரேத க்ரியை சேர்த்தே செய்யப்பட வேண்டும்.
உதகம், பிண்டதாநம், ஏகோத்திஷ்டம் இவைகள் தனித்
தனியே. ஸபின்மூகரணத்தைச் சேர்த்தாவது, தனியாக
வாவது செய்யவும். ஒரே குண்டத்தில் திலோதகதாநம்,
இருவருக்கும் ஏகோத்திஷ்டம் ஒரே தினத்தில்.
சர்மாதிரோஹணத்தையும், சாந்திலோமத்தையும்
சேர்த்துச் செய்யவும். பாகத்தைச் சேர்த்தே செய்யவும்.

ச்ராத்தத்தைத் தனித் தனியாய் செய்யவும். அதில் நிமித்த ப்ராம்ஹணர்கள் இருவர் மற்ற ப்ராம்ஹணர்களுடன் கூட. மற்றொர் ஸ்மிருதியிலும்:- தம்பதிகளுக்குச் சேர்ந்து மரணமானால் சேர்த்தே ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட வேண்டும், அனுமரணத்திலுமிப்படியே, உதகதாநம் முதல் ஸபின்மைகரணம் முடியும் வரையிலுள்ள ப்ரேத கார்யங்களைல்லாவற்றையும் சேர்த்தே செய்யவும். ஸாம்வத்ஸரிக் ச்ராத்தத்தையும் சேர்த்துச் செய்யவும். ச்ராத்தத்தைச் சேர்த்துச் செய்யச் சொல்லியது ஆபத்திலில். அது மேல் சொல்லப்படப் போகிறது.

அன்யதாபி — பிரதிஷ்டியுபஸ்஥ான் சருகார்ய சிதிஸ்தா | ஸஸ்வயஸ்தர்ண ர்த: ஸபிண்டிகரண் ஸஹ இதி | ஸஸ்வை ச — பிதா ஸஹை மாதுஶ் மாதா ஸஹ பிதுஸ்தா | ஸாபிண்டா தனயை: கார்ய நிமித்தார்஥ பூதம்஭வேத் இதி | தா — ஸமானபிண்டயோగானா் ஸபிண்டிகரண் ஸஹ | தஞ்சே பிதுவர்஗: ஸ்யாநிமித்த பிரதிபூஷம் இதி |

மற்றொரு ஸ்மிருதியிலும்:- ப்ரதக்ஷிணம், உபஸ்தாநம், சருகார்யம், சிதி, ஸஞ்சயநம், தர்ப்பணம், குண்டம், ஸபின்மைகரணம் இவைகள் சேர்த்தே செய்யப்படவேண்டும். ஸங்கரஹத்திலும்:- பிதாவுடன் மாதாவுக்கும், மாதாவுடன் பிதாவுக்கும் சேர்த்தே ஸபின்மைகரணத்தைப் புதர்கள் செய்ய வேண்டும். நிமித்த ப்ராம்ஹணர்கள் தனி. அவ்விதமே - “பிண்டஸம்ஸர்கம் ஸமாநமாய் உள்ளவர்களுக்கு ஸபின்மைகரணம் சேர்த்தே செய்யப்பட வேண்டும். பித்ர வர்க்கம் ஒன்றே. நிமித்தங்கள் தனி.”

஬हுस्मृतिसम्मतत्वात् ஸபிண்டிகரणमपि ஸஹैக कर्तव्यम्,
ததः ‘பூதாவ வே’தெதநாதரணीயம् | நிமித்தோदேஶேன கியமான்
பிதைகப்ரயோஜன் நிமித்தமோஜன் பூதம்஭வதி | எதாபேபலக்ஷணம् |
குத்துணானிவர்தக் ஜலாஜலி - பிண்டப்ரदான - ஸோதகும்஭ஶாக்ஷ

नवश्राद्धैकोत्तरवृद्धिश्राद्ध षोडशश्राद्ध पिण्डप्रदान दक्षिणादिकं च
पृथक्तत्त्वम् । तत्रोपकारकचितिकुण्डशान्तिहोम पाक वैश्वदेव पितृ
विष्णुवरणादिकं पृथग्न कर्त्तव्यम् ।

इवंवितम् वेवकु स्मर्मरुतिकाञ्जकु सम्मतमाय
இருப்பதால் ஸபின்டகரணமும் சேர்த்தே செய்யப்பட
வேண்டும். ஆகையால் 'தனியாகவும் செய்யலாம் என்பது
ஆதரிக்கத் தக்கதல்ல. நிமித்தோத்தேசமாய்
செய்யப்படுவதான், ப்ரேதனை மட்டில் சேரக் கூடிய
நிமித்தபோஜநம் தனியாகவே ஆகவேண்டும். இது
உபலக்ஷணம் ஆகும். பசி தாஹங்களை நிவர்த்திக்கும்
ஜலாஞ்ஜலி, பிண்ட ப்ரதாநம்; ஸோதகும்பச்ராத்தம்,
நவச்ராத்தம், ஏகோத்தர வ்ருத்தி ச்ராத்தம், ஸோடச
ச்ராத்தம், வ்ருஷ்போத்ஸர்ஜனம் முதலியதும், ப்ரேத
த்ருப்திகரமான ப்ரேதஹோமம், அர்க்யம், போஜநம்,
பிண்டப்ரதாநம், தக்ஷினை முதலியதும் தனியே
செய்யப்பட வேண்டும். அதில் உபகாரமாய் உள்ள சிதி,
குண்டம், சாந்தி ஹோமம், பாகம், விச்வதேவ பித்ரு
விஷ்ணுவரணம் முதலியது தனியாய் செய்யப்பட
வேண்டியதில்லை.

तथा चाङ्गिराः — दम्पत्योः सह मृत्यौ तु सह
स्याद्वहनक्रिया । पृथक्पिण्डोदकादीनि यथाविधि समाचरेत् ।
चरुकुण्डचिताशान्तिसञ्चयांस्तन्त्रतश्चरेत् । अग्निं श्रपणहोमौ च
त्रूपस्थानं च तन्त्रतः इति । पितृमेधसारेऽपि — हिरण्यशकल
नग्रप्रच्छादन वासस्तिलोदक पिण्डैकोत्तरवृद्धि नवश्राद्ध सोदकुम्भ
बृषोत्सर्ग षोडश श्राद्धानीति पृथक्पृथग्भवन्ति, चरुकार्यं चितिः
कुण्डमस्थिसञ्चयनं शान्तिहोमश्च तन्त्रम्, एकोद्घिष्टसपिण्डी-
करणादिषु निमित्तवरणहोमौ पृथग्भवतः, पाकहोमवैश्वदेवादि
तन्त्रम् इति । यमः — अस्थिसञ्चयना-दर्वाग्भर्तुः पत्नी मृता यदि ।

तस्मिन्बोवानले दद्याद्यदि चाग्निर्वा शाम्यति । उदकादिसपिण्डान्तं
तयोः कार्यं सहैव तु । शान्तेऽग्नौ पुनरेवास्याः पृथक्विवत्यादि
कारयेत् इति ।

அங்கிரஸ்:- தம்பதிகள் சேர்ந்து மரித்தால் தஹநகார்யம் சேர்த்தே செய்யப்பட வேண்டும். பின்டோதகதாநம் முதலியவைகளைத் தனியாகவே விதிப்படி செய்ய வேண்டும். சரு, குண்டம், சிதை, சாந்திஹோமம், ஸஞ்சயநம் இவைகளைச் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டும். அக்னி, பாகம், ஹோமம், உபஸ்தானம் இவைகளையும் சேர்த்துச் செய்யவும். பித்ருமேத ஸாரத்திலும்:- ஹிரண்யசகலம், நக்னப்ரச்சாதநம், வாஸோதகம், திலோதகம், பிண்டம், ஏகோத்தர வ்ருத்தி ச்ராத்தம், நவச்ராத்தம், ஸோதகும்ப ச்ராத்தம், வ்ருஷ்போத்ஸர்ஜநம், ஷாடச ச்ராத்தம், இவைகளைத் தனியே செய்ய வேண்டும். சரு, சிதி, குண்டம், அஸ்தி ஸஞ்சயநம், சாந்திஹோமம், இவைகளைச் சேர்த்தே செய்யவேண்டும். ஏகோத்திஷ்டம் ஸபின்ஷகரணம் முதலியவைகளில் நிமித்த வரணம் ஹோமம் இவைகள் தனியே. பாகம், ஹோமம், விச்வே தேவர்கள் இவைகள் ஒன்றே. யமன்:- பர்த்தாவின் அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திற்குமுன் பதன் இறந்தால், அந்த அக்னியிலேயே தஹிக்க வேண்டும், அக்னி அஜீனயாவிடில். உதகதாநம் முதல் ஸபின்ஷகரணம் முடிய, இருவருக்கும் சேர்த்தே செய்ய வேண்டும். அக்னி அஜீனந்து போனால், பதனிக்குத் தனியாய்ச் சிதை முதலியதைச் செய்யவும்.

पितामहपितामहोर्मणेऽपि सह संस्कारादिकमाह
 संवर्तः— पितामहो यस्य मृतश्चिरकालमसंस्कृतः । पितामही च
 प्रमीता तयोर्दाहादिकं सह इति । हिरण्यशकलनिधानादिकं सर्वं
 पितुः पूर्वं कृत्वा प्राङ्गृताया अपि मातुः पश्चात् कुर्यात् । तथा च
 काष्णजिनिः — पित्रोः श्राद्धे समं प्राप्ते पर्युषितेऽपि वा । पितुः

पूर्वं सुतः कुर्यादन्यत्रासत्तियोगतः इति । अत्र श्राद्धग्रहणं दाहाद्युपलक्षणम्, तत्पूर्वकत्वात् श्राद्धस्य । अन्यत्रासत्तियोगतः - पितृभ्यामन्यत्र ज्ञात्यादिषु आसत्तियोगतः प्रत्यासत्तिक्रमात् कुर्यादित्यर्थः ।

पितामहैः, पितामहै इवर्कण्कुम चेरन्तु मरणमाणेल् चेरन्तेऽते सम्बल्कारम् मुतवियतेत्तच चेल्लुकिरुर्, सम्बर्त्तत्तरः- ओरुवनुक्कुप्पि पितामहैः इरन्तु वेकुन्नाल् सम्बल्कारम् चेय्यप्पटामलिरुन्तु, पितामहीयुम् इरन्तताल् अव्विरुवरुक्कुम् तहननम् मुतवियतेत्तच चेरन्तत्तुक्कुप्पि चेय्यवुम्. तन्कत्तु तुनुक्कुक्कौलेप्पोउवेतु मुतविय कार्यव्वक्कौल् ऎल्लावर्त्तरेयुम् पितावुक्कु मुतविल् चेय्यतु, मुन्पु इरन्तवलायिनुम् मातावुक्कुप्पि पिरुक्कु चेय्यवुम्. अव्वितमेऽकार्ष्ण्णु ज्ञन्ति: माता पिताक्कौलिन् चरात्तत्तव्वक्कौल् ओरेसमयत्तिल् प्रराप्तत्तव्वक्कौलेल्, अन्ऱु चेय्य वेण्टियतायिनुम्, अतिकरान्त कालमायिनुम्, पुत्रान् पितावुक्कु मुन्पु चेय्य वेण्टियुम्. (मातावुक्कु, पिरुक्कु चेय्यवेण्टियुम्). मर्त्रवर्व विष्यत्तिल्, सम्पन्तत्तत्तिलिन् सामीप्यत्तेत अनुसारित्तुक्कु चेय्यवुम्. इव्विष्यत्तिलि. चरात्तत्तम् एन्ऱतु तहननम् मुतवियतेयुम् चेल्लुम्. चरात्तत्तम् अतेऽमुन्निट्टु इरुप्पताल्, अन्यत्रासत्तियेक्कौलिन् विष्यत्तिल् सम्पन्तत्त सामीप्यम् उल्लावरुक्कु मुन्तिस्त चेय्यवुम्.

पितृव्यतिरिक्तानां सञ्चात्तमरणे दाहादिक्रमः ।

अत्र ऋश्यशृङ्ख — भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । सम्बन्धासत्तिमालोच्य तत्क्रमाच्छ्राद्धमाचरेत् इति । स्मृतिरत्नेऽपि — सकृन्मियन्ते बहवः कर्ता चैकस्तथाऽपि च । अन्तरङ्गक्रमेषामुदकादि समाचरेत् इति ।

மாதா பிதாக்களைத் துவிர்த்த மற்றவர்களின் ஸங்காத மரண விஷயத்தில் தஹ்நம் முதலியதின் க்ரமம்.

இவ்விஷயத்தில், ருச்யச்சுங்கரும்:- ஸபின்டார் களுக்கு ஒரே காலத்தில் மரணம் ஏற்பட்டால், ஸம்பந்தத்தின் ஸாமீப்யத்தை ஆலோசித்து அந்தக்ரமமாய் ச்ராத்தத்தைச் (க்ரியையை) செய்யவும். ஸ்மிருதிரத்னத்திலும் - ஸபின்டார்களுக்கு ஒரே காலத்தில் மரணமானால், கர்த்தா ஒருவனேயானாலும் ஸம்பந்தத்தின் ஸாமீப்யத்தைக் கவனித்து அந்தக்ரமமாய் இவர்களுக்கு உதகதானம் முதலியதைச் செய்யவும்.

காலாட்சே — பத்திராதஸுதாदீனா் ஸபிண்டானா் யதி க்ரமாத्।
ஸஜ்ஞாதமரண் தத्र தத்க்ரமாத् ஶாஷ்வமாசரேத்। யுगபந்மரண் தத்து ஸம்஬ந்஧ாஸத்தியோగதः இதி । ஆடிஶங்கேன பௌத் ஭ாதபுத்ரஸுஷாஸ்வஸூணா் ஗ிருதம் । பத்திராதீனா் மத்யே பூதாநா் ஦ியோநா் எக்ஸிமந் ஦ினே ஸஜ்ஞாதமரண் யதி ஸ்யாத் தத்து தத்க்ரமாத் மரணக்ரமாத் தாஹாடிக் குர்யாத், குத்வா பூர்வமுதஸ்யாடை ஦ிதியஸ்ய தத: புன: । தூதியஸ்ய தத: குர்யாத் ஸனிபாதே த்வய க்ரம: இதி க்ரஷந்தாஸ்மரணாத் ।

காலாதார்சத்தில்:- பத்நீ, ப்ராதா, புத்ரன் முதலிய ஸபின்டார்களுக்கு வரிசையாய் ஸங்காத மரணமானால், அப்பொழுது மரண க்ரமமாய் க்ரியையைச் செய்யவும். க்ரமமில்லாமல் ஒரே ஸமயத்தில் மரணமானால் ஸம்பந்தத்தின் ஸாமீப்ய க்ரமத்தை அனுஸரித்துச் செய்யவும். மூலத்திலுள்ள ‘ஆதி’ பதத்தால் பெளத்ரன், ப்ராதா, புத்ரன், ஸ்துஷா, (நாட்டுப்பெண்) பகிநீ இவர்களும் சொல்லப்படுகின்றனர். பத்நீ முதலியவர்களுள் அநேகர்களுக்கோ இருவர்க்கோ ஒரே தினத்தில் ஸங்காத மரணமானால், அதில், மரணக்ரமத்தால் தஹ்நம் முதலியதைச் செய்யவும். “முதலில் இறந்தவனுக்கு முன்பு செய்து, 2-ஆவதாய் இறந்தவனுக்குப் பிறகு செய்து, பிறகு 3-ஆவதாய்

இறந்தவனுக்குச் செய்யவும். ஸங்காத மரணத்தில் இது முறை "என்று ருச்யக்ருங்க ஸம்ருதி உள்ளது.

पद्म्यादीनां सपिण्डानां युगपन्मरणं यदि स्यात्तत्र सम्बन्धस्य आसत्तियोगतः - आसत्तिवशात्, क्रमेण श्राद्धं कुयात् । पद्मीपति-लक्षणसम्बन्धस्याऽसन्त्वात् पद्म्याः प्रथमं कुर्यात्, अनन्तर-मुभयप्रतियोगिकसम्बन्धभाजः पुत्रस्य, अनन्तरं पितृव्यवहित-सम्बन्धभाजः पौत्रस्य, तदनन्तरं भ्रातुः । अत्र पौत्रभ्रात्रोः पितृव्यवधानं समानम्, तथाऽपि पौत्रस्य स्वशरीरावयवान्वयस्य विघमानत्वात् भ्रातृतोऽपि प्रत्यासत्तिः, ततो भ्रातृपुत्रस्य, ततः पुत्रद्वारकसम्बन्धभाजः सुषायाः तदनु गोत्रान्तरप्रवेशेन व्यवहितसम्बन्धभाजः स्वसुः ।

பத்நீ முதலியவர்களான ஸபிண்டர்களுக்கு ஒரே ஸமயத்தில் மரணமானால், அப்பொழுது, ஸம்பந்தத்தின் ஸாமீப்யத்தை அனுஸரித்து அந்த க்ரமமாய் க்ரியையைச் செய்யவும். பத்நீபதி லக்ஷணமான ஸம்பந்தம் ஸமீபமானதால் பத்நிக்கு முதலில் செய்யவும். பிறகு இருவர்களின் ஸம்பந்தமுடைய புத்ரனுக்கு, பிறகு பிதாவினால் விலகிய ஸம்பந்தமுடைய பெளத்ரனுக்கு, பிறகு ப்ராதாவுக்கு. இவ்விடத்தில் பெளத்ரனுக்கும் ப்ராதாவுக்கும் பிதாவால் வ்யவதாநம் ஸமானமே. ஆனாலும், பெளத்ரனுக்குத் தனது சரீராவயவ ஸம்பந்தம் இருப்பதால், ப்ராதாவை விட ஸாமீப்யம். பிறகு ப்ராத்ரு புத்ரனுக்கு. பிறகு புத்ரன் வழியால் ஸம்பந்தம் அடைந்துள்ள ஸ்நுஷைக்கு. பிறகு, வேறு கோத்ரத்தை அடைந்ததால் விலகிய ஸம்பந்தமுடைய பகினிக்கு.

एवं च एकस्मिन् दिने क्रमेण एतेषां सञ्चातमरणे मृतिक्रमेण दाहादिकाः क्रियाः पृथक्कुर्यात् युगपन्मरणे तु सम्बन्धक्रमेणा दाहादिकं पृथक्कुर्यादिति कालादर्शटीकायां व्याख्यातम् । स्मृतिरद्देव

மரணானுக்மபரிஜானே மृதிக்ரமேண, தदபரிஜானே ஸம்஬ந்஧ாஸத்திக்ரமேண
வ்யவஸ்஥ா ஦ர்ஶிதா ।

இவ்விதம் இருப்பதால், ஒரே தினத்தில் இவர்களுக்கு க்ரமமாய் ஸங்காத மரணமானால், மரண க்ரமமாய், தஹநம் முதலிய க்ரியைகளைத் தனியாய்ச் செய்யவும். ஒரே ஸமயத்தில் மரணமானால் முன் சொல்லிய ஸம்பந்த க்ரமப்படி தஹநம் முதலியதை, தனியாய்ச் செய்ய வேண்டும் என்று காலா தர்ச்சளைகயில் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்மருதிரத்னத்தில், மரண க்ரமம் தெரியும் விஷயத்தில் மரண க்ரமத்தாலும், அது தெரியாவிடில் ஸம்பந்த ஸாமீப்ய க்ரமத்தாலும் நிர்ணயம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

தथா ச தत்வை— அந்தரஜ்ஞக்ரமைஷாமுடகாடி ஸமாச்சரேத் । மரண க்ரமஶோ ஹஸ்தா மரணானுக்ரமேண து । ஸமானமி஦முடிஷ்டமன்யைஷாம஗்ரஜ் விநா । அந்யைஷாம஗்ரஜஸ்யாபி ஸமவாயேऽ஗்ரஜः ப்ரभुः । அ஗்ரஜஸ்யாபி பித்ரோஶ ஸம்பாதே பிதரை ப்ரभூ இதி । மृதிக்ரமாபரிஜானே ஸம்஬ந்஧ாஸத்தியபரிஜானே ச வயोऽधிகஸபிண்டாதேர்ஹாதிக்ரியாः பிரथமதः கார்யாः, யதேக்காலே புரதः ஸஂகார்யஸ்து வயोऽधிகாः । வழுத்வே ஹேவமேவ ஸ்யாதுடுக்கं ச ஦ினே ஦ினே இதி ஸ்மரணாத् । அனென புரதः ஸஂகார்வி஧ானாத् மாதாபிதृவ்யதிரிக்தாநா் ஸவேஷா் ஦ாஹாதிகृத்யஂ ஸபிண்டிகரணாதிக்க் ச ஸர்வ பृதக் பृதாவேத்யுக்தं ஭வதி ।

ஸ்மருதி ரத்னத்தில்- 'இவர்களுக்கு அந்தரங்க க்ரமமாய் (ஸம்பந்த ஸாமீப்ய க்ரமமாய்) உதகம் முதலியதைச் செய்யவும். மரணம் க்ரமமாய்ப் பார்க்கப்பட்டிருந்தால், மரணக்ரமமாய்ச் செய்யவும். இது மற்றவர்க்கும் ஸமான மாகியதே, ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவைவத் தவிர்த்து. அன்யர்களுக்கும், ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவுக்கும் மரணம் சேர்ந்தால், ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவே முந்தியவன்.

அக்ரஜனுக்கும் மாதா பிதாக்களுக்கும் மரணம் சேர்ந்தால், மாதா பிதாக்கள் முந்தியவர்கள்' என்றுள்ளது. மரண க்ரமமும் அறியப்படாமல், ஸம்பந்த ஸாமீப்யமும் அறியப்படாத விஷயத்தில் வயதால் பெரியவர்களான ஜ்ஞாதிகள் முதலியவர்களுக்குத் தஹநம் முதலிய க்ரியைகளை முதலில் செய்யவும். “ஓரே காலத்தில் அநேகர்களுக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்வதானால் வயது அதிகமானவர்களை முதலில் ஸம்ஸ்கரிக்கவும். அநேகர்கள் விஷயத்தில் இவ்விதமே செய்யவும். ப்ரதி தினம் உதக தாநத்தையும் இவ்விதமே செய்யவும்” என்று ஸம்ருதியிருப்பதால். இதனால், முந்தி ஸம்ஸ்காரம் விதிக்கப்படுவதால், மாதாபிதாக்களைத் தவிர்த்த மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும், தஹநம் முதலிய க்ருத்யமும், ஸபிண்ணகரணம் முதலியதும் தனித்தனியே என்று சொல்லியதாய் ஆகிறது.

तथा च देवलः — पित्रोरुपरतौ पुत्रः श्राव्यं कुर्याद्द्वयोरपि ।
 अनुवृत्तौ च नान्येषां सञ्चातमरणेऽपि च इति । पित्रोर्मरणे
 अनुमरणविये सञ्चातमरणे च दाहादिकं सहैव कुर्यात् । अन्येषां
 सञ्चातमरणे सह न कुर्यादित्यर्थः । अन्ये तु ज्ञात्यादि-
 सञ्चातमृतिविषये सहैव दाहादिक्रियां वदन्तः स्मृत्यन्तरमुदाहरन्ति
 - मृतानामेकवनश्याना मेको यदि च दाहकः । एकस्मिन् दिवसे
 कुर्यादिकचित्यां समाहितः इति ।

தேவலர்:- மாதா பிதாக்களின் மரணத்தில் புத்ரன் இருவருக்கும் க்ரியையைச் செய்யவும். அநுமரணத்திலும், ஸங்காத மரணத்திலும், செய்யவும். மற்றவர்க்குக் கூடாது. மாதா பிதாக்களின் மரணத்தில், அனுமரண விஷயத்திலும், ஸங்காதமரண விஷயத்திலும் தஹநம் முதலியதைச் சேர்த்தே செய்யவேண்டும். மற்றவர்களின் ஸங்காத மரணத்தில் சேர்த்துச் செய்யக் கூடாது என்பது பொருள்.

மற்றவர்களோவனில், ஜஞாதி முதலியவர்களின் ஸங்காத மரண விஷயத்தில் சேர்த்தே தஹநக்ரியை முதலியதைச் செய்ய வேண்டும் என்கிறவராய், மற்றொரு ஸ்ம்ருதியைச் சொல்லுகின்றனர்:- “ஓரு வம்சத்தில் பிறந்த பலர் ஒரே காலத்தில் இறந்தால், தஹந கர்த்தா ஓருவனேயாகில் ஒரே நாளில் ஒரே சிதையைச் செய்யவும்” என்று.

அன்சு — ஏககாலே ஗தாஸுநா ஬ஹநா மத்வா ஦்யோ: । ஏககுட்டே ஶிலாभேதே தேஷா பிண்ட பृथக् பृಥக् । ஸபிண்டிகரண் தேஷா ஸஹை பृಥगேவ வா । நிமித்தார்஥ பृಥக்குர்யாத்தீ ஸர்வ ஸஹகிரியா இதி । ஸஹஸாபிண்ட்யமேகாதேஶயத்வவிஷயம் — ஸமானபிண்டயாகானா ஸபிண்டிகரண் ஸஹ । நிமித்தபிண்டமேகைக் காலை தை: ஸஂஸුஜேத் க்ரமாத் இதி ஸ்மரணாத் ।

மற்றொன்றும்:- “ஓரே ஸமயத்தில் இறந்த பலருக்கோ அல்லது இருவர்க்கோ, ஒரே குண்டத்தில் சிலைகளைமட்டில் தனியாய் வைத்து, அவர்களுக்குப் பிண்ட தாநத்தைத் தனித் தனியே செய்யவும். அவர்களுக்கு ஸபிண்டைகரணத்தைச் சேர்த்தும் செய்யலாம், தனியாகவும் செய்யலாம். நிமித்தங்கள் தனித்தனி. மற்றது எல்லாம் சேர்த்துச் செய்யப்படலாம். சேர்த்து ஸாபிண்டயம் என்றது உத்தேச்யர்கள் ஓருவராய் இருக்கும் விஷயம். ‘‘பிண்டஸம் யோகம் ஸமானமாயுள்ளவர்களுக்கு ஸபிண்டைகரணத்தைச் சேர்த்துச் செய்யவும். நிமித்த பிண்டம் ஒவ்வொன்றையும் கொடுத்து, அவைகளை, பித்ர பிண்டங்களுடன் க்ரமப்படி சேர்க்கவும்’’ என்று ஸ்ம்ருதியிருப்பதால்.

பிதுமே஧ஸரே — யத்வைகேஷாமேகாதிநே மூதி: ஸ்யாத் பத்ரி புத்ர பௌத் ஭ாது தத்புத் ஸ்தா ஸ்வஸூநா ஸஸ்தாத்க்ரமாத் தாஹாத்திரியா: பृथக् பृथக् குர்யாத், அன்சை மூதிக்ரமாத் இதி । தத்ரை -

पद्म्यादीनामन्येषां च सञ्चातमरणे पद्म्यादि पूर्वमन्येषामुभयेषामपि
पितृपूर्वं पित्रोर्मृताब्दे पद्म्यादिसापिण्डचं त्रिपक्षे इति ।

पितृग्रुमेत्तलारत्त्तिलः:- अनेकारकानुकंकु ओरे
तिनत्तिलं मंगुत्तियाग्नेल, पत्तनि, पुत्तरन्न, बेलत्तरन्न, पराता,
परात्तरु पुत्तरन्न, लंगुशा, पक्तिनि इवरकानुकंकु, चेल्लिय
करमप्पटि तहनमं मुत्तलिय करियेकानात् तनित्तनियायसं
सेय्यवुम्. मर्त्तवर्कानुकंकु मरण करमप्पटि सेय्यवुम्.
पितृग्रुमेत्तलारत्त्तिलेयेः:- 'पत्तनि मुत्तलियवर्कानुकंकुम्,
मर्त्तवर्कानुकंकुम् लन्कात मरण विष्यत्तिल, पत्तनि
मुत्तलियवर्कानुकंकु मुन्पु चेय्तु पिऱकु मर्त्तवर्कंकुसं
सेय्यवुम्. इव्विरुवर्कानुकंकुम् माता पिताक्कानुकंकुम्
लन्कात मरण विष्यत्तिलं माता पिताक्कानुकंकु मुन्तिसं
सेय्तु पिऱकु मर्त्तवर्कंकु. माता पिताक्कानीन् मंगुत्ति
वर्कंष्टत्तिल, पत्तनि मुत्तलियवर्कानीन् लापिण्णट्यम्
तरीपक्षुत्तिल' एन्ऱु उल्लातु.

लोकाक्षिः — पित्रोद्भविदशाह एव सापिण्डचं मन्येषा-
मेकोद्दिष्टान्तं कृत्वा तत्तद्वत्सरान्ते मासिकैः सह सापिण्डचं
कुर्यादिति भूगुः इति । पद्म्यादीनां तद्वत्तिरिक्तानां च मृतौ
पूर्वोक्तन्यायेन पद्म्यादीनां पूर्वं कृत्वा तद्वत्तिरिक्तानां पश्चात्
मृतिक्रमेण कुर्यात् । पित्रोः पद्म्यादीनां तद्वत्तिरिक्तानां च
सञ्चातमरणे पितृपूर्वं पद्म्यादीनां कुर्यात्. पितृपूर्वं सुतः
कुर्यादन्यत्रासत्तियोगतः इति स्मरणात् ।

लोकाक्षिः:- माता पिताक्कानुकंकु 12-अवतु
नालीलेये लापिण्णट्यम्. मर्त्तवर्कानुकंकु
एकोत्तिष्टत्तम् मुष्टियसं चेय्तु अवरवरीन्
वर्कंष्टान्तत्तिल, मालीकंकानुटन् लापिण्णट्यत्तेत्तसं
सेय्यवुम्, एन्ऱुर प्परुकु, पत्तनि मुत्तलियवर्कानुकंकुम्,
मर्त्तवर्कानुकंकुम् मंगुत्ति विष्यत्तिल, मुन्पु चेल्लिय
न्यायत्ताल, पत्तनि मुत्तलियवर्कानुकंकु मुन्पु चेय्तु,

பிறகு, மற்றவர்களுக்கு மரண க்ரமமாய்ச் செய்யவும். மாதா பிதாக்களுக்கும், பத்நீ முதலியவர்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் ஸங்காத மரணமானால், மாதா பிதாக்களுக்கு முதலில் செய்து, பத்னீ முதலியவர்களுக்குப் பிறகு செய்யவும். 'மாதா பிதாக்களுக்கு முந்திச் செய்ய வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு ஸம்பந்த ஸாமீப்யத்தை அனுஸரித்துச் செய்யவும்' என்று ஸ்மருதி உள்ளது.

லோகாக்ஷி: — பத்நி புத்ரஸ್கா பௌத் ஭ாதுத்துநகா அபி । பிதரை ச யடைகஸ்மிந् ஸ்ரியேந् வாஸரே ததா ॥ ஆடமேகாடஸே குர்யாத் திபக்ஷே து ஸபிண்ணனம் இதி ॥ அத் யவஸ்஥ாமாஹ வृஞ்சாரித: — ஸங்காதமரண பித்ரோஷ்டி஦ஶாஹ ஸபிண்ணனம் । குர்யாத் புத்ரஸ்தத்தன்யேஷாஂ திபக்ஷே காரயேஷு஧: இதி । அந்யேஷாஂ - பத்நியாடிநாமித்யர்஥: । தேஷமேவ மாதாபிதுமூதிவத்ஸரம஧ே திபக்ஷாடை ஸாபிண்ணஞ் வி஦்஧ாதி க்ரஷ்ணங்:— பத்நியா: புத்ரஸ்ய தத்புத்ராநோஸ்தத்தனயஸ்ய சா ஸுஷாஸ்வஸ்தாஶ பித்ரோஶ ஸங்காதமரண யதி । அவர்஗ாடாந்மாதுபிதுபூர்வ ஸாபிண்ணஞ்சமாசரேத் தி ।

லோகாக்ஷி:- பத்நி, புத்ரன், ஸ்நுஷா, பெளத்ரன், ப்ராதா, ப்ராத்ரு புத்ரன் இவர்களும், மாதா பிதாக்களும் ஒரே தினத்தில் மரித்தால் 11-ஆவது நாளில் ஆத்ய ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். த்ரி பக்ஷத்தில் ஸபிண்ணகரணத்தைச் செய்யவும். இவ்விஷயத்தில் வ்யவஸ்தையைச் சொல்லுகிறூர், ஹார்தர்:— ஸங்காத மரண விஷயத்தில், புத்ரன் மாதா பிதாக்களுக்கு 12-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ணட்யத்தைச் செய்யவும். மற்றவர்க்கு த்ரிபக்ஷத்தில் செய்யவும். மற்றவர்களுக்கு = பத்நீ முதலியவர்களுக்கு, என்பது பொருள். அவர்களுக்கு மட்டில் மாதா பிதாக்களின் மரண வர்ஷத்தில் த்ரிபக்ஷாதி காலத்தில் ஸாபிண்ணட்யத்தை விதிக்கின்றூர்ருச்யக்ருங்கர்:— பத்நீ, புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ராதா, ப்ராத்ரு புத்ரன், ஸ்நுஷா,

पकिन्दे, माता पीठाकंक्कलं इवर्कण्ककु लग्नं कात
मरणमाणेलं, वर्षत्तिर्त्तुं गुलं, माता पीठाकंक्कण्ककु
सोपीन्दं यत्तेत मुन्पु चेय्तु, मर्हवर्ककुप्पि पिन्पु
चेय्यवुम्.

भूगुरपि — माता भ्राता च तत्पुत्रः पत्नी पुत्रः सुषा स्वसा ।
एषां मृतौ चरेत् श्राद्धमन्येषां न पुनः पितुः इति । पितृमृताब्दे एषामेव
श्राद्धं सापिण्डीकरणं कुर्यात् नान्येषामित्यर्थः ।
ऋश्यशृज्ञोक्तपद्यादिसप्त्यतिरिक्तानां पित्रोमृताब्दे पितृभ्यां
सहैकदिने वा मृतानां दाहाद्येकोद्दिष्टान्तं तत्तकाले मृतिक्रमात् कृत्वा
तत्तद्वत्सरान्तिमदिने मासिकैः सह सापिण्डनं कुर्यात् ।

प्रकुवुमः— माता, प्रराता, प्ररात्रु पुत्रान्, पत्नीं,
पुत्रान्, लंगुष्ठा, पकिन्दे इवर्कणीन् मंगुतीयिलं
लपीन्दं करणत्तेत, पीठावीन् मरण वर्षत्तिलं
चेय्यलाम्. इवर्कण्ककु मट्टिलं चेय्यलाम्.
मर्हवर्कण्ककुसं चेय्यक्कूटातु एन्पतु बेपारुलं.
गुच्यक्करुन्करालं चेऽलंलप्पट्ट पत्नी मुतलीय ग्रम्म
पोर्कौत्त तवीर्त्त मर्हवर्कण्ककु, माता पीठाकंक्कणीन्
मरण वर्षत्तिलं, माता पीठाकंक्कण्टनं कूटवावतु, औरे
तुनत्तिलावतु इरन्तवर्कणायिनुम्, तल्लनम् मुतलं
उकोत्तिष्टम् मुटियुम् वररयिलं अन्तन्तकं कालत्तिलं
मरण करममायसं चेय्तु अवरवर्कणीन् वर्ष मुटिवु
तुनत्तिलं मालीकन्कण्टनं सोपीन्दं यत्तेतसं
चेय्यवुम्.

अत्र भूगः — पित्रोमृताब्दे श्राद्धान्तं कृत्वाऽन्येषां यथा
विधि । मासिकैः सह सापिण्डनं वत्सरान्ते समाचरेदिति ।
वत्सरान्त इति नियमात् ततोऽवर्कू न मासिकानुष्टानम् । कालादर्शे
— पद्यादीनां च पित्रोश्च सञ्चातमरणं यदि । अवर्कू संवत्सरात्
पित्रोः पूर्वं सापिण्डन्यमाचरेत् । सञ्चातमरणेऽन्येषां पित्रोश्च
दहनादिकम् । कृत्वा संवत्सरान्ते तु कुर्वीत सहपिण्डनम् इति ।

ப்ரகு: - “மாதா பிதாக்களின் மரண வர்ஷத்தில், மற்றவர்களுக்கு ஏகோத்திஷ்டம் வரையில் விதிப்படி செய்து, வர்ஷ முடிவில் மாஸிகங்களுடன் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும்.” இதில் ‘வர்ஷ முடிவில்’ என்ற நியமம் இருப்பதால், அதற்கு முன் மாஸிகங்களுக்கு அனுஷ்டானம் இல்லை. காலாதூர்ச்சத்தில்:- பத்நீ முதலியவர்களுக்கும், மாதா பிதாக்களுக்கும் ஸங்காத மரணமாகில், மாதா பிதாக்களின் வர்ஷத்திற்குள் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். அன்யர்களுக்கு மாதா பிதாக்களின் வர்ஷத்திற்குள் ஸங்காத மரணமாகில் தஹநம் முதலியதைச் செய்து, வர்ஷ முடிவில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும்.

தथா ஦ேவல: — மஹாருநிபாதே து ப்ரேதகார்ய யಥாவி஧ி । குர்யாத் ஸ்வத்ஸராத்வாக் நைகோஷிஷ் ந பார்ணம் இதி । பித்ரோம்தௌ ஸ்வத்ஸராத்வாக் பத்யாடிவ்யதிரிக்தான் ப்ரேதகார்ய ஦ாஹாயேகோ-
ஷிஷாந்தா: பூர்க்ரிய யதாவி஧ி குர்யாத், ஏகோஷிஷ் மாஸிகானி பார்ண
- ஸபிண்டிகரண் ச குர்யாடித்யர்஥: । எத்தேவாமிப்ரேத ஸ்மृத்யந்தரம் —
பிதரை ப்ரமிதை யஸ்ய ஦ேஹ்ஸ்தஸ்யாஜுசிர்மவேத் । ந ஦ைவ் நாபி பித்ரய் ச
யாவத் பூர்ணே ந வத்ஸர: இதி ।

தேவலர்: - “மஹாகுருவின் மரணத்திலோவெனில், விதிப்படி ப்ரேத கார்யத்தைச் செய்து ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும். வர்ஷத்திற்குள் ஸபிண்டகரணத்தைச் செய்யக் கூடாது.” மாதா பிதாக்களின் மரண வர்ஷத்திற்குள், பத்னீ முதலியவர்களைத் தவிர்த்த மற்றவர்களுக்கு ப்ரேத கார்யத்தை - தஹநம் முதல் ஏகோத்திஷ்டம் முடியும் வரையுள்ள பூர்வக்ரியைகளை, விதிப்படி செய்யவும். ஏகோத்திஷ்டத்தையும் - மாஸிகங்களையும், பார்வணத்தையும் - ஸபிண்டகரணத்தையும், செய்யக் கூடாது என்பது பொருள். இந்த அபிப்ராயத்தாலேயே, மற்றிருந்து ஸ்ம்ருதி:- மாதா பிதாக்கள் இறந்தால் புத்ரனின்

तेहम् अस्त्वत्तम् आकिञ्चन्तु. आकेयालं वर्षश्च मुष्टियुम् वरेयीलं तेव कार्यं यन्कलैयुम्, पितृं रुपं कार्यं यन्कलैयुम् अवनं चेय्यकं कृतातु.

लोकाक्षिरपि — अन्येषां प्रेतकार्याणि महागुरुनिपातने । कुर्यात् संवत्सरादर्वाक् श्राद्धमेकं तु वर्जयेत् इति । श्राद्धं - मासिकं सपिण्डीकरणं च ।

लोकाक्षियुमः:- महागुरुविनं मंगुत्तियीलं छरु वर्षत्तिन्त्रिकुलं, अन्यरक्तुंकुं प्रेरेत कार्यं यन्कलैकं चेय्यवुम्. चरात्तत्तत्तत्त मट्टिलं वर्षज्जिक्कं वेण्णुम्. चरात्तत्तम् - मासिकमुम् लपिण्णकरणमुम्.

ननु — पद्मी चैव सुतो भ्राता स्तुषा चैव विपद्यते । तत्र श्राद्धानि कुर्वीत न पित्रोर्मृत्योरपि इति जाबालिस्मरणात् पद्म्यादीनामपि सपिण्डचनिषेध इति चेत्त, द्वादशाहे तनिषेधपरत्वात्, संवत्सरादर्वाक् निषेधपरत्वे, त्रिपक्षे तु सपिण्डनम् इति लोकाक्ष्यादिवचनविरोधापत्तिः । अतः पद्म्यादीनां पित्रोर्मृताब्दे सपिण्डनानन्तरमरणे तत्तद्वादशाहे सपिण्डीकरणं, पद्म्यादीनां पित्रोश्च सञ्चातमरणे पद्म्यादीनां त्रिपक्षे, पित्रोस्तु द्वादशाहे, अन्येषां पित्रोर्मृताब्दे मरणे तत्तद्वत्सरान्ते मासिकानि सपिण्डीकरणं चेति निर्णयः ।

‘पत्नीं, पुत्रर्णां, प्रराता, नाट्टुप्पेणं इवर्कलीनं मंगुत्तियीलं, अवर्कलैकुं, माता पिता कलीनं मरणत्तिलुम् चरात्तत्तन्कलैकं चेय्यकं कृतातु’ एन्ऱु ज्ञापालं संमंगुत्ति इरुप्पत्तालं, पत्नीं मुतवियवर्कुम् लापिण्णट्य निषेषत्तमिरुक्किण्ऱ्ऱते’ एनीलं, अतु इलैल. 12- आवतु नालीलं चेय्यकं कृतातु एन्पत्तिलं तात्पर्यम् आनतालं. छरु वर्षत्तिन्त्रिकुं उल्लूम् निषेषत्तत्तत्तसं चेऽल्लुकिरतु एन्ऱ्ऱलं ‘तरीपक्षत्तिलं लापिण्णट्यत्तत्तसं चेय्यवुम्’

என்ற லோகாக்ஷி முதலியவரின் வசநத்திற்கு விரோதம் நேரும். ஆகையால், பத்நீ முதலியவர்க்கு, மாதா பிதாக்களின் மருதி வர்ஷத்தில் ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு மரணம் ஆனால், அந்தந்த மருதியின் 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மகரணம். பத்நீ முதலியவர்க்கும், மாதா பிதாக்களுக்கும் ஸங்காத மரணம் ஆனால், பத்நீ முதலியவர்களுக்கு த்ரிபக்ஷத்தில் ஸபின்மகரணம். மாதா பிதாக்களுக்கு 12-ஆவது நாளில் ஸாபின்டயம். மற்றவர்களுக்கு மாதா பிதாக்களின் மரண வர்ஷத்தில் மரணம் ஆனால், அந்தந்த வர்ஷத்தின் முடிவில் மாளிகங்களையும், ஸபின்மகரணத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்பது நிர்ணயம். (ஸங்காத மரணம் சேர்ந்து மரணம்)

ஸஹமனவி஧ி:

அथானுமரணவிஷய விஷ්ய: — ஭ர்தீ ப்ரேதே ஬்ரஹ்மசு
தத்தாரோஹண வா இதி । ஸமுத்யந்தரே ச — ஸாஷ்விநாமேவ நாரீண
மயிப்புதனாட்டே । நாந்யோ ஧ர்மோऽஸ்த விஜேயோ மृதே ஭ர்தீ கர்ஹிசிது
இதி । ஹரீதோऽபி — மாதூத: பிதுதஶ்வே யத्र சைஷா பிரதியதே ।
குலத்திய புனாத்யேஷா ஭ர்தர் யாऽனுநாக்சத்திதி இதி ।

ஸஹகமநத்தில் விதி

இனி அனுமரண விஷயத்தில், (பதியுடன் பத்நீ மரித்தால்) விஷ்ணு:— பர்த்தா மரித்த பிறகு, பத்நீ ப்ரம்ஹசர்யத்தை அனுஷ்டிக்கலாம், அல்லது அவனுடன் சேர்ந்து மரிக்கலாம். ஒரு ஸ்ம்ருதியிலும்:— பதிவ்ரதைகளான ஸ்த்ரீகளுக்கு, பர்த்தா இறந்த பிறகு, அக்னியில் விழுவதைத் தவிர்த்து, வேறு தர்மம் எங்கும் சொல்லப்படவில்லை. ஹாரீதரும்:— பர்த்தாவை அனுஸரித்து மரிப்பவள் மாதாவின் குலம், பிதாவின் குலம், பர்த்தாவின் குலம் என்ற 3-குலங்களையும் சுத்தமாகச் செய்கிறாள்.

स्मृत्यन्तरे — सार्वा सूतिका वाऽपि भर्त्ताऽनुमरणोत्सुका।
 सद्यः शुद्धिमवाप्नोति भर्तुः पापापहारिणी इति । अन्यच्च —
 बालापत्या तु या नारी सूतिका वा रजस्वला । सर्वासामपि च
 ह्याणामेष साधारणो विधिः इति ।

மற்றேர் ஸ்ம்ருதியில்:- பர்த்தாவடன் சேர்ந்து
மரிப்பதில் ஆவலுடையவள், ரஜஸ்வலையாயினும்,
ஸாதிகாசௌசம் உடையவளாயினும், அக்காலத்தில்
சுத்தையாய் ஆகிறுள், பர்த்தாவின் பாபத்தைப்
போக்குகிறவளாயும் ஆகிறுள். மற்றெரு வசநமும்:-
இளங்குழந்தையை உடையவளாயினும், ஸாதிகை
யாயினும், ரஜஸ்வலையாயினும் சுத்தையாகிறுள். எல்லா
ஸ்தர்களுக்கும் இது பொதுவாகிய விதி.

यत्त्वौर्वचनम् — बालापत्याश्च गर्भिण्यो ह्यदृष्टर्तव एव च ।
रजस्वला राजसुते नारोहन्ति चितां ज्ञुभे इति । यदपि —
बालापत्या तु या नारी भर्त्रा सह न सा व्रजेत् । रजस्वला न गच्छेत्तु
गन्त्वा रक्षेत्तु गर्भिणीमिति अत्र पितृमेधसारकृता व्यवस्थापितम् —
षोडशिग्रहणाग्रहणवद्विधिनिषेधदर्शनात् यद्यपि तुल्यविकल्पः
प्राप्नोति, तथाऽपि भर्त्राऽनुमरणोत्सुकेति वचनात् पुत्रक्षेत्रधन-
धान्यादिमनस्काया वा पातिव्रत्यधर्महीनाया वा संसारदुःख-
बन्धुवियोगाद्युपाधितो विषष्णाया वा प्रतिषेधो द्रष्टव्यः इति ।

ஆனால், ஓளர்வரின் வசநம்:- 'இளங்குழந்தையை உடையவர்களும், கர்ப்பிணிகளும், ருதுதர்சனம் ஆகாத பெண்களும், ரஜஸ்வலைகளும் பர்த்தாவின் சிறையில் ஏறி அனுமரணம் செய்யக் கூடாது. ஏ ! ராஜகுமாரி !' என்றும், மற்றொரு வசநம்:- 'இளங்குழந்தையை உடையவள் பர்த்தாவோடு மரிக்கக் கூடாது. ரஜஸ்வலையும் மரிக்கக்கூடாது. கர்ப்பிணீ போவதாய் இருந்தாலும் அவளைக் காப்பாற்ற வேண்டும்' என்றும் உள்ளதே எனில்,

இவ்விஷயத்தில் பித்ருமேதஸாரகாரரால் இவ்விதம் வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டுள்ளது. “ஷோடசிக்ரஹனை க்ரஹணங்களுக்குப் போல் விதி, நிவேஷதம் இரண்டும் காணப்படுவதால் இவ்விஷயத்தில் துல்ய விகல்பபம் ப்ரராப்தம் ஆகின்றது. ஆனாலும், ‘பர்த்தாவுடன் அனுமரணத்தில் ஆவலுடையவள்’ என்று வசந மிருப்பதால், பிள்ளை, நிலம், பணம், தான்யம் முதலியவைகளில் மனமுடையவளுக்காவது, பாதிவ்ரத்ய தர்மம் இல்லாதவளுக்காவது, குடும்ப துக்கம், பந்து வியோகம் முதலிய உபாதியால் வருந்தியவளுக்காவது நிவேஷதம் என்று அறியவும்’ என்று.

அன்யே து — ஭ந்திநுமரணாத்மகா நமஸ்கृத्य சிதாரூதं ஭ர்தர்
து பிரஸந்஧ி: । ஆரூப் பத்நி நி஧னं ஗தா சேதைா சிதிஂ நிர்மல்஧ி:
ஸ்வமந்தா இத்யாதிவசனேஷூபாதை: மரணாத்மகா பிரஸந்஧ி: நிர்மல்஧ி:
இத்யாதி படைதைஷாதிவிஷயாக்கலக்கரஹிதாயா ஏவ அனுமரணாதிகார
பிரதிபாதனாது, ஬ாலாபத்ய ரஜஸ்வலா இத்யாதிவிஶேஷணो-
பாதாநவैயர்஥-பிரஸங்காச் சிதுமே஧ஸாராக்தன ந யுக்தம्, நிஷே஧வசனं து
மிஞ்சித்யாரோஹணவிஷயம्, தச் க்ஷதியாதிவிஷயம् । தथா ச
க்ஷதியாதிஶ்சிணா ரஜஸ்வலாடீனாமனுமரண நிஷே஧:, ரஜஸ்வலா
ராஜஸுதே இதி ராஜஸுதாந பிரதிபொது தனிஷே஧ாதித்யாஹ: ।

மற்றவரோவெனில்:- ‘நமஸ்கருத்ய+ ப்ரஸன்னதி:’-’
சிதையில் வைக்கப்பட்ட பர்த்தாவை நமஸ்கரித்து
கலங்கமற்ற மனம் உடையவளாய் என்றும், ‘ஆருஹ்ய +
பர்த்ரா’ ‘களங்கமற்ற மனம் உடையவளாய் பத்நி,
பர்த்தாவுடன் ஒரே சிதையிலேறி மரணம் அடைந்தால்’
என்பதும் முதலிய வசநங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள,
மரணேத்ஸாகா, ப்ரஸந்நதி:, நிர்மலதி:, என்பது முதலிய
பதங்களால், தேஹம் முதலியதை விட்டுப் பிரிவதில்
களங்கமற்றவளுக்கே அனுமரணத்தில் அதிகாரம்

சொல்லப்படுவதால், ‘இளங்குழந்தையை உடையவர்களும், ரஜஸ்வலைகளும்’ என்பது முதலிய விசேஷணங்களைச் சொல்லியதற்கு வையர்த்தம் (பயனின்மை) வரக்கூடுமாவதாலும், பித்ருமேதஸாரகாரர் சொல்லியது யுக்த மல்ல. நிஷேஷதவசநமோ வெனில் தனியான சிதையில் ஏறுவதைப் பற்றியது. அதுவும் கஷ்த்ரியாதி ஸ்த்ரிகளைப் பற்றியது. அவ்விதம் ஆகியதால், கஷ்த்ரியாதி ஸ்த்ரீகள் ரஜஸ்வலை முதலியவராய் இருந்தால் அவர்களுக்கு அநுமரண நிஷேஷதம், ‘ரஜஸ்வலா ராஜஸ்வலதே’ என்று ராஜகன்யையைப் பற்றியே அநுகமனம் நிஷேஷதுக்கப்பட்டு இருப்பதால்’ என்கின்றனர்.

अपरे तु बालापत्यारजस्वलादेः सामान्येन विधानात् प्रतिषेधाच्च रजस्वलायास्तुल्यविकल्पः, भिन्नचित्यारोहणविषयत्वे प्रमाणाभावात्, रजस्वला राजसुते इति राजसुतासम्बोधनमात्रेण विशेषाप्रतीतेरित्याहुः । गर्भिण्यास्तु निषेध एव । ततश्च गर्भिणीं विना बालापत्या सूतिका रजस्वला अदृष्टात्वाश्च ब्राह्मण्यः एकचित्यारोहणं कुर्यात् । सूतिका रजस्वला च तत्तदुक्तशुद्धिप्रकारेण शुद्धा कुर्यात् ।

மற்றவரோவனில்:- “இளங்குழந்தை யுடையவள், ரஜஸ்வலை முதலியவர்க்கு, ஸாதாரணமாய் விதியும் ப்ரதிஷேதமும் இருப்பதால், ரஜஸ்வலைக்கு ஸமவிகல்பம், தனியான சிதையில் ஏறுவதற்கு நிஷேதம் என்கிற விஷயத்தில் ப்ரமாணம் இல்லாததால், ‘ரஜஸ்வலா ராஜஸ்-தே’ என்று ஸம்போதனத்தால் மாத்திரம் எந்த விஷயத்தைப் பற்றியது என்பது தோன்றுததால்” என்கின்றனர். கர்ப்பினிக்கோவனில் நிஷேதமே. ஆகையால் கர்ப்பினியைத் தவிர்த்து, இளங்குழந்தை யுடையவள், ஸாதி கை, ரஜஸ்வலை, ரஜோ தர்சனமாகாதவர்கள் ஆகிய ப்ராம்ஹண ஸ்த்ரீகள் ஒரே சிதையில் ஏறி மரிக்கலாம். ஸாதி கையும், ரஜஸ்வலையும்,

அவரவர்க்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள சுத்தி ப்ரகாரத்தைச் செய்து கொண்டு சுத்தையாய் அனுமரணம் செய்யலாம்.

யतு சந்஦ிகாயாம् — ஭ர்தமனுஞ்ச்சன்த்யா ரஜ உத்பதே யदि । தைலாஷோண்யா வினிக்ஷிப்ய லவணே வா பதிஂ மூதம் । திராத்ராஹனங் குருபுர்ணாந்தா ஸ்து தயா ஸஹ । ஶாஷ்வ சைக்கிரை குர்யாத் திரயோரபி ஹி நிர்ணயः இதி । ஬ாந்஧வா இத்யமி஧ாநாதபத்யஹீநஸ்கந்தி-விஷயமித்யேகே । அபரே து — ஭ர்தமனுஞ்ச்சன்தி பத்நீ சேத் ஸார்த்தவா யதி । தைலாஷோண்யா வினிக்ஷிப்ய லவணே வா மூத் பதிம் । சதுர்஥ேஹனி ஸ்ஸ்குர்யாத் புத்ராதிஸ்தம் ஸஹதயா । ஜவः பர்யுஷிதஸ்தஸ்ய ப்ராயஶ்சித்தம் ததா மகேத் । அஸ்மிந் பக்ஷேஹ்யாங் ஭ர்து஦ீஶாஹேநாபி ஗ஞ்சதி இதி । புத்ரவஞ்சேஹனி பித்ரோ: ஸ்ஸ்கார வி஧ாநாத் ஸமவிகல்ப இத்யாஹு: ।

ஆனால், சந்த்ரிகைகயில்:- ‘பர்த்தாவை அனுகமநம் செய்பவருக்கு ரஜஸ் காணப்பட்டால், ம்ருதனை அவளின் பதியை, எண்ணெய்க் கடாஹத்திலாவது உப்பிலாவது போட்டு வைத்து, மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அவளுடன் சேர்த்து, பந்துக்கள் ஸம்ஸ்கரிக்க வேண்டும். இருவருக்கும் ஒரே தினத்தில் ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பது நிர்ணயம்’ என்று உள்ளதே எனில், இதில், ‘பாந்தவா:’ என்று இருப்பதால் புத்ரன் இல்லாதவளைப் பற்றியது இது என்கின்றனர் சிலர். மற்றவரோவெனில்:- பர்த்தாவுடன் அனுகமநம் செய்கிற பத்நீ ரஜஸ் வலையாய் இருந்தால், பதியை எண்ணெய்ப் பானையிலாவது உப்பிலாவது வைத்து, 4-ஆவது நாளில் பத்னியுடன் சேர்த்து, புத்ரன் முதலியவன் ஸம்ஸ்கரிக்கவும். சவம் பர்யுஷிதம் ஆகிறது. அதற்கு ப்ராயச்சித்தம் அப்பொழுது செய்யப்பட வேண்டும். இந்தப் பக்ஷத்திலும், பர்த்தாவினுடைய ஆசௌகத்துடன் பத்னியின் ஆசௌசம் நிவருத்திக்கின்றது: புத்ரன்

இருந்தாலும், 4-ஆவது நாளில், ஸம்ஸ்காரத்தை விதிப்பதால் ஸமவிகல்பம் என்கின்றனர்.

स्मृत्यन्तरे — मृतं पतिमनुव्रज्य पत्री चेत्ज्वलनं गता । न तत्र पक्षिणी कार्या पैतृकादेव शुद्धयति । सार्तवा सूतिका चौब
भर्त्राऽनुमरणोत्सुका । पूर्ववस्त्रं परित्यज्य शवकर्माणि कारयेत् ।
सपद्व्योरनुगच्छन्त्योरेका यदि रजस्वला । चतुर्थेऽहि सहैवाभ्यां तस्य
दाहो विधीयते । एकचित्यां समारूढा यदि भार्या दिनान्तरे भर्तुर्मृताहे
कर्तव्यमभिन्नं मनुरब्रवीत् इति । वसिष्ठः — दद्यमानं तु भतरिं या
नारी त्वनुगच्छति । मरणादि भवेच्छाङ्गं दहनादि तयोर्नं तु । भर्ता
सहैव शुद्धिः स्यात् श्राद्धं चैकदिने भवेत् इति ।

=मற்ஞேர் ஸ்ம்ருதியில்:- இறந்த பதியைப் பின் தொடர்ந்து, பத்நீ அக்னியில் பரவேசித்தால், அவ்விஷயத்தில், பக்ஷிண்யாசெளசம் அதிகமாய் அனுஷ்டிக்க வேண்டியது இல்லை. பித்ராசெளசத்தாலேயே சுத்தனைகிறுன். ரஜஸ்வலையும், ஸமதிகையும், அனு மரணத்தில் விருப்பம் உள்ளவளானால், முன் உடுத்தியுள்ள வஸ்தரத்தை விட்டு விட்டு, வேறு வஸ்தரம் தரிக்கச் செய்து சவ கர்மங்களைச் செய்யவும். அனுகமநம் செய்ய விருப்பமுள்ள இரண்டு பார்யைகளுள் ஒருத்தி ரஜஸ்வலையாய் இருந்தால், நாலாவது நாளில் இருவருடன் சேர்த்து அவனுக்கு ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். பார்யை மறுநாளில் பதியின் சிதையில் ஏறி மரித்தால் பர்த்தாவின் மரண தினத்திலேயே அவனுக்கும் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டும் என்றார் மனு. வளிஷ்டா:- எந்த ஸ்தரீ, தஹிக்கப்படும் தன் பர்த்தாவை அனுஸரித்து மரிக்கின்றாரோ, அவனுக்கும் பதிக்கும் மரணம் முதலாகவே ச்ராத்தம். தஹநம் முதலில்லை. பர்த்தாவின் ஆசெளசத்துடனேயே கூட்டு. இருவர்க்கும் ச்ராத்தமும் ஒரே தினத்தில் செய்யப்பட வேண்டும்.

यत् — या तु ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुब्रजेत् । सा स्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पतिं नयेत् इति, यदपि — मृतानु-गमनं नास्ति ब्राह्मण्या अनुशासनात् इत्यादि, तत्सर्वमपि ब्राह्मण्या अनुगमननिषेध प्रतिपादकवचनं पृथक्चित्यारोहण-विषयम् पृथक्चितिं समारुद्धा न विप्रा गन्तुमर्हति इति विशेषस्मरणात् ।

ஆனால், “ப்ராம்லை ஜாதியையான எந்த ஸ்த்ரீ, இறந்த பதியுடன் மரிக்கின்றாளோ, அவள் தன்னைக் கொன்ற தோஷத்தால், தன்னையும், பதியையும் ஸ்வர்க்கத்தை அடைவிக்கமாட்டாள்” என்றும், ‘ப்ராம்லை ஸ்த்ரீக்கு இறந்த பதியைத் தொடர்ந்து மரிப்பது என்பது இல்லை, சாஸ்தர விதியால்’ என்றும் வசநங்கள் இருக்கின்றனவே எனில், அவ்விதம் ப்ராம்லைக்கு அனுகமந நிவேஷதம் சொல்லும் வசநங்கள் எல்லாம், தனியான சிதையில் ஏறுவதைப் பற்றியவைகள், ‘தனிச் சிதையில் ஏறி ப்ராம்லை ஸ்த்ரீ போகக் கூடாது’ என்று விசேஷிக்கும் ஸ்மருதியிருப்பதால்.

तथा च हारीतः — भर्ता सहानुमरण माचण्डालं विधीयते ।
पृथक् चितिर्वा राज्यादेन विप्रायाः पृथक् चितिः इति ।
क्षत्रियादीनां च पृथक् चित्यारोहणं देशान्तरमरणविषयम्, सन्निधौ त्वेकचित्याराहणमेव । देशान्तरमृते पत्वै साध्वी तत्पादुकाद्ययम् ।
निधायोरसि सश्रद्धा प्रविशेत् जातवेदसम् इति स्मरणात् । इदं च मुमुक्षुविषये त्याज्यमेव । तथा च श्रुतिः - तस्माद्वचयो न प्रागायुषः स्वः कामी प्रेयात् इति । अस्यार्थो विज्ञानेश्वरेणाभिहितः — स्वर्गफलोद्देशोनायुषः प्रागायुर्ययो न कर्तव्यो मोक्षार्थिना इति ।
अतः मोक्षमनिच्छन्त्याः स्वर्गार्थिन्या अनुगमनं युक्तमितरकाम्या-
नुष्ठानवदिति । सर्वमेतत् स्त्रीधर्मनिरूपणे सविस्तरमध-
स्तान्निरूपितम् ।

ह्लार्गीतरः:- परंत्ता वृट्टनं चेर्नन्तु अनुमरणम् इन्पतु कन्टाळार्व वरेयिलं वित्तिकप्पटु किऱतु. तनीचं सितेयिलं एर्हि प्रामंहणे संतर्म् पोकक्कुटातु. कृष्टर्म् य संतर्म् मुतवियवर्कगुक्कुम् तनीचं सितेयिलं एरुवतु इन्पतु तेचान्तर मरणततेप पर्न्त्रियतु. नेरील इरुन्ताल ओरो सितेयिलं ताऩं अनुमरणम्. 'परंत्ता तेचान्तर रत्तिलं मरीत्तालं, पतिव्वरतेयाक्यवलं परंत्ताविलं पातुकेकलं इरण्णटेयुम् मार्पिलं वेवत्तुक्कु केाण्णु, सरत्तते उटेयवलाय अक्कनीयिलं प्रवेचिक्कवुम्' इन्ऱु स्मंरुति इरुप्पताल. इतुवुम् मेंोक्षुत्तते विरुम्पियवलं विष्यत्तिलं विट्ट तकुन्ततेते. अव्वितमे वेतमः:- 'आकेयालं स्वर्कक्क पलत्तते उत्तेतित्तु, आयुरुक्कु मुनं, आयुलोक्च चेलवु चेय्यक्कुटातु', इन्ऱतु. विक्कुन्नानेस्वररुम् मेंोक्षुत्तते विरुम्पुकिऱवनं इन्ऱुर. आकेयालं, मेंोक्षुत्तते विरुम्पामलं स्वर्कक्कत्तते विरुम्पुकिऱवरुक्कु अनुकमनम् युक्तमे आकुम्, मर्न्त्रक्क काम्यन्कलै अनुश्टुप्पतु पोलं अन्ऱु. इवे इल्लाम् विस्तारमाय, मुनं संतर्म् तर्म मन्त्रिपञ्चतिलं निरुपिक्कप्पट्टतु.

एकचित्यारोहणक्रमः ।

एकचित्यारोहणप्रकारस्तु हैमाद्रावुक्तः — अथानुमरणे पत्ती स्नात्वा भर्ता सहैव तु । पथस्तुरीयमासाद्य सिग्वातैरुपवीज्य च । नमस्कृत्य चितारूढं भर्तां तु प्रसन्नधीः । प्रदक्षिणं परीत्याथ भर्तुदक्षिण माविशेत् । इयं नारीति मन्त्रेण शाययेन्मातरं सुतः । ऊहेन वा दहेदूर्ध्वमास्नानात्पतिना समम् । यद्वा पत्ती तु संकल्प्य प्रयोगे त्वयिले कृते । दद्यमाने पतौ मन्त्रान् जपेदध्यर्युणा सह । पावकं प्रविशेत्तत्र भर्तुश्चोर्ध्वं पृथग्विधिः । उभयोः सह सङ्कल्पः कुण्डमेकं पृथक् शिला । वासस्तिलोदकं पिण्डो नग्नप्रच्छादनं नवम् ।

ஷாஷன் ச வृஷோत்ஸாரः ஸோடகும்஭ பृथக् பृಥக् । ஸஹசர்மாधிரோஹஶ
ஸபிண்டிகரண் ததா । நிமித்தஹோமவரணே ஆஜுமேகோதரं பृथக् ।
வைஶ்வரேங் ச பாகஞ் ஹோமோதாயை: ஸஹையதே இதி ।

ஓரே சிதையில் ஏறுவதின் க்ரமம்.

ஓரே சிதையில் ஏறுவதின் க்ரமம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஹோமாத்திரியில்:- அனுமரண விஷயத்தில், பத்நீ ஸ்நாநம் செய்து, பர்த்தாவுடன் கூடவே சென்று, மார்க்கத்தின் நாலில் ஒரு பாகம் சென்று, வஸ்தரத்தின் நுனியின் காற்றுகளால் வீசி, சிதையில் ஏறிய பர்த்தாவை நமஸ்கரித்து, கலங்காத மனம் உடையவளாய் ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, பிறகு பர்த்தாவின் வலது பக்கத்தில் உட்கார வேண்டும். புத்ரன், மாதாவை 'இயம்நாரீ' என்ற மந்த்ரத்தால் படுக்கச் செய்யவேண்டும். மந்த்ரத்தை ஊகித்தாவது இருவரையும் தஹிக்கவும். இதற்கு மேல் ஸ்நாநம் வரையில் பதியோடு சேர்த்தே செய்யவும். அல்லது, பத்னீ ஸங்கல்பம் செய்து, ப்ரயோகங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்ட பிறகு, பதி தஹிக்கப்படும் போது, அத்வர்யுவுடன் சேர்ந்து மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவும். பிறகு அக்னியில் ப்ரவேசிக்கவும். இதற்கு மேல் தனி விதி. இருவருக்கும் சேர்த்தே ஸங்கல்பம், குண்டமொன்றே. சிலைகள் தனித்தனி, வாஸோதகம், திலோதகம், பிண்டம், நக்னப்ரச்சாதனம், நவச்ராத்தம், வேஷாடசச்ராத்தம், வ்ருஷ்போத்ஸர்ஜநம், ஸோதகும்ப ச்ராத்தம் இவைகள் தனித்தனி. தோலில் உட்காருவது, ஸபிண்ணகரணம் இவை ஒன்று. நிமித்த ஹோமவரணங்கள், ஏகோத்தரவ்ருத்தி ச்ராத்தம் இவை தனி. விச்வேதேவவரணம், பாகம், ஹோமம், அன்னம் முதலியவை இவையெலாம் சேர்ந்தே விதிக்கப்படுகிறது.

ஸ்மृத்யந்தரே ச — ஆருஹ் பத்தி நி஧ன் ஗தா சேடேகாம் சிதி
நிர்மலா஧ி: ஸ்வமார்தா । ஦ஶாஹோம் ஶபாண் ச தந்தாது பிண்டோடகாடிந்

पृथगेव कुर्यात् इति । पितृमेधसारे — स्नात्वा शक्तितो दत्वा ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञाता प्रीता पथस्तुरीयमासाद्य सिङ्गातैरुपवीज्य चितिगतं भर्तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य चितिमारुष्य पत्युर्दक्षिणपाश्वे शयीत । अत्र कर्ता पत्नीमुपनिपातयति इयं नारी इति । समानमत ऊर्ध्वम् । सद्यः पापानि निर्धूय दम्पती विहरतः इति ।

महेश्वरं संमंगुशील्यिलुमः— पत्नी निर्मलसित्ततम् उट्टेयवलोऽय, औरो चित्तेयिलं एवी मरणमत्तेन्ततालं पत्तु नालं हेहामम्, सरुस्त्रपणम् इवेवकलौच्च चेसंत्तुम्, पिण्डेटोतकम् मुत्तवीयवेवकलौत् तनीयाकवुमे चेय्यवेण्णुम्. पितृमेत्तसारत्तुलिः— सनानम् चेय्तु, यत्ताचक्ति ताणम् चेय्तु, प्रराम्भैरुनुक्तुरुयप चेय्तु, यत्तु चेय्तु, लन्तु चेय्तु, वायिनिं नालंकिलं औरु पाकम् चेय्तु, वस्त्रत्तु नुनीयालं कार्त्तु वैचि, चित्तेयिलुलां परंत्तावेव प्रत्यक्षिणम् चेय्तु नमस्करीत्तु, चित्तेयिलेनि, पत्तियिनं वलतुपक्कत्तुलं पाक्कवुम्. इन्कें, कर्त्तता पत्तनीये ‘इयम्नारी’ एन्न नमन्तरत्तालं पाक्कक्ष चेय्यवुम्. इनीमेलं प्रयोकम् समानम्. उत्तेन पापान्कलौत् तेलैलत्तु, तम्पत्तिकलं (संवर्कत्तुलं) कर्मित्तकिलेन्नरां.

स्मृतिरत्ने — अनुयाने मृतौ पित्रो रेकशय्या चितिस्तथा । प्रत्येकमञ्जलिर्भेदो नग्नप्रच्छादनादिकम् । एकमेवाग्नि दानं स्यादेकाशमनि तिलाञ्जलिः इति । एकस्यां शिलायां तिलोदकमित्यर्थः । तिलाञ्जल्यर्था शिला द्वयोरेकेति यावत् । कुण्डमेकं पृथक्किला इत्यनेनास्य विकल्पः । तत्रैव — अस्थिसञ्चयनं चैकं नवश्राद्धं पृथक् पृथक् । वृषोत्सर्जनमेदश्र मासिकानां पृथक् क्रिया । सपिण्डीकरणं चैकं सुतः सर्वं समाचरेत् इति ।

ஸ்மிருதி ரத்னாத்தில்:- அனுமரண விஷயத்தில் மாதாபிதாக்கஞக்குப் படுக்கையும், சிதையும் ஒன்றே, திலோதகம் தனித்தனி. நக்னப்ரச்சாதநம் முதலியதும் அக்னிதாநமும் ஒன்றே. ஒரே பாஷாணத்தில் திலோதகதானம். திலோதகதானத்திற்காகிய சிலை, இருவருக்கும் ஒன்றே என்பதாம். 'குண்டமொன்று, சிலை தனி' என்ற வசனத்துடன் இதற்கு விகல்பம்.

ஸ்மிருதி ரத்தினத்திலேயே:- அஸ்தி ஸஞ்சயநமொன்றே, நவ ச்ராத்தம் தனித்தனி. வ்ருஷ்போத்ஸர்ஜநம் தனி. மாளிகங்கள் தனி. ஸபிண்மைகரணம் ஒன்றே. இவ்விதம் புத்ரன் எல்லாவற்றையும் செய்யவேண்டும்.

ஸ்மृத்யந்தரே — ஸஹை ஭ார்தீ மரண ஸ்தியாஶ்வேத் ஸஹை குர்யத் பிதமை஧கृத்யம्। பிண்஡ோதகாடிந் பृथगேவ குர்யத் பிண்஡ஸ்ய ஸ்யாஜனமத्र ஭ார்தீ। மூதே மர்த்தரி யா பூர்வ பரேத்தங்குஞ்சத்தி। தஸ்யா: பதி஦ினே ஶ்ராஷ்காலமேட் ந காரயேத்। அய்கிரயே ந மேடோஸ்த ஹஸ்திஸ்சங்கனே ததா। ஏக஗ர்தே ஜல் ஦ி஘ாத் பிண்஡ங்கைஒடு டியோ:। எகோஹிஷ்ட் பூதக் குர்யத் ஸபிண்டிகரண் ஸஹ। தத டியோர்நிமித்தை ஛ௌ பிராஹஸ்தைரிதரை: ஸஹ இதி ।

மற்றெனுரு ஸ்மிருதியில்:- பர்த்தாவுடன் சேர்ந்து பத்னிக்கு மரணமானால், அபரக்ரியையை சேர்த்தே செய்யவும். பிண்டோதகதாநம் முதலியதைத் தனியே செய்யவும். இதில், பிண்டஸம் யோஜநத்தைப் பர்த்தாவுடன் செய்யவும். பர்த்தா முதல் நாளில் இறந்து, மறுநாளில் பத்னீ அனுகமனம் செய்தால், அவளுக்குப் பதியின் திதியிலேயே ச்ராத்தம். காலபேதம் செய்யக்கூடாது. அக்னி கார்யத்தில் பேதமில்லை. அஸ்தி ஸஞ்சயநத்திலும் அப்படியே. ஒரே குண்டத்தில் உதகதாநம். ஒரே அன்னத்தில் இருந்து இருவருக்கும் பிண்டதாநம். ஏகோத்திஷ்டத்தைத் தனியாய்ச் செய்யவும். ஸபிண்மைகரணத்தைச் சேர்த்துச் செய்யவும். அதில் மற்ற ப்ராம்ஹணர்களுடன் நிமித்த ப்ராம்ஹணர்கள் இரண்டு.

देवलः — परेद्युरनुयाने तु मरणाहक्रमेण तु ।
 दहनादिसपिण्डचन्तं श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि इति ।
 क्रियाकल्पकारिकायाम् — पतिव्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्छेद्या स्त्री
 पतिं चित्यधिरोहणेन । दशाहतो भर्तुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्
 पृथगेककाले इति । स्मृत्यन्तरे — मृते भर्तरि पूर्वेद्युः
 परेद्युरनुगच्छति । तस्याः पतिदिने श्राद्धं मृताहस्तु यथातिथि ।
 अस्थिसञ्चयनं चैकं नवश्राद्धं पृथक्पृथक् । वृषोत्सर्जनभेदश्च
 मासिकानां पृथक्क्रिया । उपस्थानं तदेव स्यत् परं तस्याः पृथक्क्रिया ।
 पृथक्खाद्धं तयोः कुर्याद्वोदानं च पृथक् पृथक् । सपिण्डीकरणे प्राप्ते
 सर्वं तदिवसे चरेत् । बहुपत्रीकपक्षे तु मन्त्रावृत्तिः पुनः पुनः ।
 विभज्य पिण्डं दद्यात्तु गार्यस्य वचनं तथा इति ।

தேவலர்:- மறுநாளில் அனுமரணம் செய்த
 விஷயத்தில், மரண தினம் முதலாக, தஹநம் முதல்
 ஸபின்மைகரணம் வரையில் உள்ள ச்ராத்தத்தை விதிப்படி
 செய்யவும். க்ரியாகல்பகாரிகையில்:- பதிவ்ரதா ஸ்தரீ,
 மறுநாளில் பதியின் சிதையில் ஏறி அனுகமனம் செய்தால்,
 பதியின் 10-நாட்களாலேயே ஆசௌச நிவ்ருத்தி. ஒரே
 காலத்தில் க்ரியைகள் இரண்டும் தனித்தனியாய்ச்
 செய்யப்பட வேண்டும். மற்றோர் ஸ்ம்ருதியில்:- முதல்
 நாளில் பரத்தா இறந்து, மறுநாளில் பதனீ அனுகமனம்
 செய்தால், பதியின் தினத்திலேயே அவளுக்கும் ச்ராத்தம்.
 ப்ரதிஸாம்வத்ஸரிக் ச்ராத்தம் மட்டில் இறந்த திதிப்படி.
 அஸ்திசஞ்சயநம் ஒன்று. நவ ச்ராத்தம் தனித்தனி.
 வர்஗ுஷபோத்ஸர்ஜநம் தனி. மாலிகங்கள் தனி.
 உபஸ்தானம் ஒன்றே. மற்றவை அவளுக்குத் தனி.
 ஏகோத்திஷ்டம் தனி. கோதானத்தையும் தனித்தனி
 செய்யவும். ஸபின்மைகரணத்தைப் பதியின் தினத்திலேயே
 செய்யவும். அநேகம் பதனீகள் அனுமரணம் செய்த

விஷயத்தில் அடிக்கடி மந்த்ராவ்ருத்தியைச் செய்யவும். பிண்டத்தைப் பிரித்து (தனித்தனியாக)க் கொடுக்கவும். கார்க்யருடைய வசநம் அவ்விதம் உள்ளது.

அன்றாபி — ஦ிநாந்தரேயா து ஸஹை ஭ர்து: குர்யாந்தாஹே ஸதி கர்ம கார்யம् । ஹிரண்யஶல்கா: பृथगேவ கார்ய: பாत்ராणி ஦ேஹங்காஜி குர்யாத் இதி । அன்றாபி — அன்யேஷுரப்யநுநதௌ ஶுஷ்டி: பதி஦ஶாஹத: । ஸஹாஸ்திராந்தை காலே ஶ்ராஷ்ட்ரயம் ஭வேத् । பृಥக் பிண்டோடகாடி ஸ்யாத் பத்ய பிண்டஸ்ய யோஜனம् । தஂ ச பிண்ட திர்஧ா கृத்வா பிதृபிண்டேஷு யோஜயேத் இதி । வசிஷ்ட: — அனுயானே து பத்ய ச ஸபிண்டிகரண் ஸஹ । அந்த஧ாயி தூண் மத்யே ஭ர்த்துஶுரயோரபி । ஸ்திரபிண்ட ஭ர்த்துபிண்டேன ஸ்யாஜ்ய ச புன: ஸுத: । பிதாமஹாடிமி: ஸார்஧ பிதृபிண்ட து யோஜயேத் இதி ।

மற்றெருரு ஸ்ம்ருதியிலும் :- மறுநாளில் அநுமரணம் செய்த பத்னிக்கும் பர்த்தாவின் ம்ருத தினத்தை அநுஸரித்தே க்ரியையைச் செய்யவும். ஹிரண்ய சகலங்களைத் தனியாய்ப் போடவும். யக்ஞ பாத்ரங்களை 2-தேஹங்களிலும் சேர்க்கவும். மற்றெருரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- மறுநாளில் அநுகமநம் செய்த விஷயத்திலும், பதியின் 10-நாட்களாலேயே சுத்தி. அஸ்தி ஸஞ்சயநம் சேர்த்தே. ஏகோத்திஷ்டம் இரண்டு. பிண்டோதகதானம் முதலியது தனியே. பதி பிண்டத்துடன் ஸம்யோஜனம். அந்தப் பிண்டத்தை மூன்று பாகங்களாக்கிப் பித்ராதி பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும். வளிஷ்டர் :- அனுகமன விஷயத்தில், ஸபிண்டங்கரணம் சேர்த்தே செய்யப்படவேண்டும். பர்த்துபிண்டம், ச்வக்ஸரபிண்டம் இவைகளுக்கு நடுவில் புல்லைப் போட்டு, மாத்ரு பிண்டத்தைப் பித்து பிண்டத்துடன் சேர்த்து, மறுபடி பித்து பிண்டத்தைப் பிதாமஹாதி பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவேண்டும்.

यमः — पत्या चैक्येन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं ख्रियाः । सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिव्रतैः इति । शातातपः — या मृता सुभगा नाथं सा तेन सहपिण्डताम् । अर्हति स्वर्गवासेऽपि यावदाभूतसङ्घवम् । यत्तु सुमन्तुवचनम् — चित्यारोहणकाले तु षोडशानि पृथक् पृथक् । सपिण्डीकरणं तस्याः नैव भर्तुः कृते सति इति, तत् ख्रियाः पृथक् सपिण्डीकरणनिषेधपरम् ।

यमानः— पञ्चियटनं चेर्तं तेऽपि तन्नीकंकु लपिण्णमैकरणम् चेय्यप्पत वेण्णुम् । अवलं इरन्त विरुद्धम्, मन्त्ररम्भम्, आउलाति, वरतम्भ इवेवकालाल्ल, परत्तावेवाटु ज्ञक्यत्तेत अटेन्त्तु वीट्टालाल्लवा । शातातपारः— एन्तप्प पाक्यवत्ति परत्तावुटनं अनुकमनम् चेय्तालो, अवलं परत्तावेवाटु प्रिण्ट लम्येयोक्तुरुद्धु उरीयवालाकिरुल् । प्ररायकालम् वरायिल् लंवरक्क वालत्तिरुद्धु उरीयवालाकिरुल् । आलुल, लामन्तुवचनम्— “अनुमरणविषयत्तिल्, ओशाट्च करात्तनक्कल तनीत्तनीये परत्तावुक्कु लपिण्णमैकरणम् चेय्त विरुद्धु, अवरुक्कु लपिण्णमैकरणम् इल्लै” एन्ऱु उलालेऽनील, अतु, अवरुक्कुत तनीयाय लपिण्णमैकरणम् कूटातु एन्पत्तिल तात्परयम् उलालाताकुम् ।

देवलः— तद्दिने वा परदिने भर्तरिमनुगच्छति । नवश्राद्धं षोडशं च सपिण्डीकरणं तथा । यथाकाले तु कर्तव्यं प्रतिसंबत्सरं तथा इति । यथाकाले— भर्तुर्विहितकाले ख्रिया अपि कर्तव्यमित्यर्थः । यत्तु गौतमवचनम् — एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । मासिकानि नवश्राद्धं सपिण्डीकरणं पृथक् इति, यदपि व्याघ्रवचनम्, पतिव्रता तु या नारी भर्तरिमनुगच्छति । पिण्डदानादिकं श्राद्धं सपिण्डीकरणं पृथक्, इति, एतादृश वचनं निमित्तभेदप्रतिपादनपरम् । अन्यथा सपिण्डीकरणं चैकम् तत्र

द्वयोर्निमित्तौ द्वौ ब्राह्मणैरितरैः सह, सपिष्ठीकरणं सह
इत्यादिपूर्वोक्त बहुसूतिविरोधप्रसङ्गात् ।

தேவலர்:- இறந்த தினத்திலோ மறுதினத்திலோ அனுமரணம் செய்தவருக்கு நவ ச்ராத்தம், வேஷாடச ச்ராத்தம், ஸபிண்மைகரணம், இவைகளை அந்தந்தக் காலத்தில் செய்ய வேண்டும், ஸாம்வத்ஸரிக ச்ராத்தத்தையும் செய்ய வேண்டும். யதாகாலே = பர்த்தாவுக்கு விழிதமான காலத்தில், ஸ்த்ரீக்கும் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது பொருள். ஆனால், கொதுமவசனம்:- “தம்பதிகள் ஒரே சிதையில் தஹிக்கப்பட்டால், அவர்களுக்கு, மாஸிகங்கள், நவ ச்ராத்தம், ஸபிண்மைகரணம் இவை தனி” என்றும், வ்யாக்ரவசனம்:- “பதிவ்ரதையான எவள் அனுகமனம் செய்தவரோ, அவருக்கு, பிண்டதானம் முதலியதும், ஏகோத்திஷ்டமும், ஸபிண்மைகரணமும் தனி” என்றும் உள்ளதே எனில், இது போன்ற வசநம் நிமித்தவரணம் தனி என்பதைச் சொல்வதில் தாத்பர்யம் உள்ளதாகும். அவ்விதம் இல்லை எனில், ‘ஸபிண்மைகரணம் ஒன்று’, ‘அதில் நிமித்த ப்ராம்ஹணர்கள் இருவர்’, ‘ஸபிண்மைகரணம் சேர்த்தே’ என்பது முதலிய, முன் சொல்லப்பட்டுள்ள அநேக ஸ்ம்ருதிகளுடன் விரோதம் ப்ரஸக்தமாகும்.

दुर्मरणाद्युपाधिवशेन काष्ठबदमन्त्रकदाहे नानुमृतिः कार्या,
दद्यमानममन्त्रेण नानुरोहेत् पतिव्रता इति स्मरणात् । तथा च
कल्पकारिकायाम् — पत्युर्वेदाग्निसंस्कारे पद्या अनुगमो मतः ।
अन्यथा त्वात्मघातः स्यादिति वेदविदो विदुः इति । चितिभ्रष्टायाः
प्रायश्चित्तमुक्तं स्मृत्यन्तरे — चितिभ्रष्टा यदा नारी मोहाच्चलति वा
तदा । प्राजापत्यं भवेत् कृच्छ्रं शुद्धा भवति नान्यथा इति ।

तुर्स्मरणम् मुतविय उपात्तिवशत्तालं कट्टेटयेप
पोएलं मन्त्ररम् इल्लामलं तत्त्वीकंकुमं विषयत्तिलं
अनुमरणम् कूटातु । 'मन्त्ररम् इल्लामलं तत्त्वीकंकुमप्पाटुम्
पर्त्तावृट्टनं पतिवरतेयाणि संतर्म् अनुमरणम्'
चेय्यकंकूटातु' एन्ऱु संमरुति इरुप्पतालं.
अव्वितमें, कल्पकारिकायिलः- पतिकंकु मन्त्ररत्तुटनं
अक्णि संमस्कारम् चेय्यप्पाटुम् विषयत्तिलं, पत्तनिकंकु
अनुकमणम् वित्तिकंकप्पाटुकिरतु. मन्त्र विषयत्तिलं, आत्म
हृत्यातेऽवृष्टम् एर्पाटुम् एन्ऱु वेतम् अनिन्तवर्कर्कलं
सेवालंकिन्नर्णनर्. चित्तयिविरुन्तु नमुवियवरुकंकु
प्ररायक्षित्तम् चेवालप्पाटुओंतु. ओरु संमरुतीयिलः-
एन्त लंतर्म् चित्तयिविरुन्तु नमुविकिरुओ, अलंवतु
अनियामेयालं नकरुकिन्नरुओ, अवरुकंकु प्रराज्ञापत्त्य
कंकुर्चरम् वित्तिकंकप्पाटुकिरतु. चेय्याविष्टिलं अवलं
कृत्तेयावतु इल्लै.

गर्भिणीसंस्कारः

अत्र बोधायनः — अथ गर्भिण्याः । अन्तर्वत्ती प्रियेत
इमशानं नीत्वा दहनदेशं जोषयेत् सम्यक्विचित्तामपरेण सव्येन
प्रेतस्योदरं विलिखेत् हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र इति । अनुलेखनदृष्टं
कुमारमनुमन्त्रयते जीवतु मम पुत्रो दीर्घायुत्वाय वर्चसे इति । अथ
बालं स्नापयेयुर्हिरण्यमन्तर्धाय जीवन्तं ग्राममानयन्ति । यस्ते
स्तनशशायः इति स्तनं प्रदाय, तस्मिन्नुदरे आज्यानि जुहोति
शतायुधाय शतवीर्याय इति पञ्चभिः प्रयासाय स्वाहाऽयासाय
स्वाहा इत्यनुवाकेन, प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेत्यनुवाकेन,
पूष्णे स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा इत्यनुवाकेन, सूच्या जठरमव्रणं
कुर्यात्, प्रेतां चितिमारोप्य विधिना दाहयेत्, अष्टकाधेनुं नीलधेनुं
भूमिधेनुमिति च दद्यात् इति ।

கர்ப்பினியின் ஸம்ஸ்காரம் கர்ப்பினியின் ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில் போதாயனர்:- இனி கர்ப்பினீ விஷயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. கர்ப்பினீ மரித்தால், அவளைச்மசானத்திற் சேர்த்து, தவநங்ஸ்தலத்தைக் கல்பித்து, சிதைக்கு மேற்கில், ப்ரேதத்தின் வயிற்றை இடுபாகத்தில் கிறவும். 'ஹிரண்யகர்ப்ப:’ என்ற மந்த்ரத்தால், கீறியதால் காணப்பட்ட சிகவை ‘ஜீவதுமமபுத்ரோ தீர்க்காயுத்வாய வர்ச்சஸே’ என்ற மந்த்ரத்தால் அனுமந்த்ரணம் செய்யவும். பிறகு சிகவுக்கு ஸ்நாநம் செய்விக்கவும், ஸவாணத்தை நடுவில் வைத்து. சிக ஜீவித்திருந்தால் க்ராமத்திற்குக் கொண்டு வரவும். ‘யஸ்தேஸ்தனச்சய:’ என்ற மந்த்ரத்தால் ஸ்தனத்தைக் கொடுக்கவும். ப்ரேதத்தின் வயிற்றில் ஆஜ்யாஹ-திகளைச் செய்யவும். ‘சதாயுதாய’ என்பது முதல் ஜிந்து மந்த்ரங்களாலும், ‘ப்ரயாஸாயஸ்வாஹா’ என்ற அனுவாகத்தாலும், ‘ப்ராணையஸ்வாஹா’ என்ற அனுவாகத்தாலும், ‘பூஷ்ணேஸ்வாஹா’ என்ற அனுவாகத்தாலும். ஊசியினால் வயிற்றைத் தைக்கவும். ப்ரேதத்தைச் சிதையில் ஏற்றி விதிப்படி தவிக்கவும். அஷ்டகாதேனு, நீலதேனு, பூமிதேனு இவைகளைத் தானம் செய்யவும்.

सङ्ग्रहे — षष्मासादूर्ध्मासूतेमिर्यिते यदि गभिणी । चितेः
पश्चान्निधायैनां सञ्चोदरमथोल्लिखेत् । हिरण्यगर्भमन्त्रेण समुल्लिख्य
तमुद्धरेत् । मृतश्चेदुद्धृतो गर्भो घृताकृतं निखनेत् भुवि । जीवेचेत् जीवतु
मम पुत्र इत्यनुमन्त्रयेत् । अन्तर्ज्ञाय हिरण्यं तमभिषिच्य जलैः शिशुम् ।
ग्रामं गत्वा शिशोदर्दध्याद्यस्ते स्तन इति स्तनम् । सुरक्षितं कुमारं तं
कृत्वा गत्वा शवान्तिकम् । शतायुधायेत्याज्यानि जुहुया दुदरे ततः ।
प्रयासायेति हुत्वा च प्राणायेत्यनुवाकतः । पूष्णेस्वाहेति हुत्वा च
सन्धायोदरमब्रणम् । चितिमारोच्य तां प्रेतां शेषं पूर्ववदाचरेत् इति ।

ஸங்க்ரஹத்தில்:- ஆறு மாதத்திற்கு மேல், ப்ரஸவத்திற்குள் கர்ப்பினீ மரித்தால், சிதைக்கு மேற்பறத்தில் ப்ரேதத்தை வைத்து, வயிற்றின் இடது பாகத்தைக் கீறவும், 'ஹிரண்யகர்ப்ப:' என்ற மந்த்ரத்தால் சிக்வை வெளியில் எடுக்கவும். எடுக்கப்பட்ட சிக ம்ருதமாய் இருந்தால், நெய்யைத் தடவி, பூமியில் புதைக்கவும். சிக பிழைத்து இருந்தால் 'ஜீவது மம புத்ரः' என்று அனுமந்தரிக்கவும். ஸாவர்ணத்தை நடுவில் வைத்துச் சிகவுக்கு ஸ்நானம் செய்வித்து, க்ராமத்திற்கு எடுத்துச் சென்று, 'யஸ்தேஸ்தநः' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸ்தனத்தைப் பானம் செய்வித்து, சிக்வை ரக்ஷிதமாகச் செய்து, சவத்தினிடம் வந்து, 'சதாயுதாய' என்பது முதலிய மந்த்ரங்களால் வயிற்றில் ஆஜ்யாஹ-திகளைச் செய்து, 'ப்ரயாஸாய ஸ்வாஹா, ப்ராணையஸ்வாஹா, பூஷ்ணேஸ்வாஹா' என்ற அனுவாகங்களாலும் ஹோமம் செய்து, வயிற்றைத் தைத்து, ப்ரேதத்தைச் சிதையில் ஏற்றி, மற்றவைகளை முன் போல் செய்யவும்.

ஐநக: — ர்஭ிணிமரண பிராஸே ஗ோமுனேண ஜலை: ஸஹ | ஆபோஹிஷ்டாமிரல்ஜை: ப்ரோக்ஷ ஭ர்தா ஸமாஹித: | ப்ரேதம் இமஶானே நித்வாஸ்யோலில்லுய ஸந்யோரே தத: | புத்ரமாடாய ஜிவன் ஸ்யாத் ஸ்தன ஦த்வா ஸுதாய து | யஸ்தே ஸ்தன இத்யேகயா யாம் நித்வா நி஧ாய ச | உரெங் சாந்திரன் குர்யாத் பூஷ்஦ாஜ்யேன பூர்ய ச | மூஞ்சஸ்மகுஶாగோமூந்திராபோ-ஹிஷ்டாத்திரிச்சிரி: | ஸ்நாத்வாஸ்தாத்தை வாஸாங்ஸி பிதமே஧ேன ஦ாஹயேத் | மூதோ யதி து புத்ர: ஸ்யாஷ்வாஹத்யா நி஖நேத்த: ஸதி |

சௌனகர்:- கர்ப்பினீக்கு மரணம் நேர்ந்தால், கோழுத்ரத்துடன் சேர்ந்த ஜீலங்களால் 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மந்த்ரங்களால் ப்ரேராக்ஷித்து, பர்த்தா, சவத்தை ச்மசாநத்திற் சேர்த்து, சவத்தின் இடது வயிற்றைக் கீறி, சிக்வை எடுத்து ஜீவித்து இருந்தால் 'யஸ்தே' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸ்தனத்தைப் பருகச் செய்து, க்ராமத்திற்குச்

சென்று ரக்ஷிதமாய்ச் செய்து, தயிர், நெய் இவைகளால் சவத்தின் வயிற்றை நிரப்பி, வயிற்றைத் தைத்து, ம்ருத்திகை, பஸ்மம், குசம், கோழுத்ரம் இவைகளால் 'ஆபோவரிஷ்ட' முதலிய மூன்று மந்த்ரங்களால் ஸ்நாநம் செய்வித்து, வஸ்த்ரங்களால் மூடி, பித்ருமேத விதியாய்த் தஹிக்கவும். சிசு மரித்திருந்தால், வ்யாஹ்ருதிகளால் புதைத்துவிடவும்.

ஞந்திகாயாம् — மृता चेद्रभिणी नारी तस्याः संस्कार उच्यते । बोधायन भरद्वाज शौनकाद्यैर्यथोदितः । सङ्कल्प्य पितृमेधं तु कृत्वा दारचितेः क्रियाम् । पश्चाद्वारुचितेः प्रेतां दक्षिणे वाऽथ गर्भिणीम् । निधाय चाथ तन्नाणि कृत्वा दव्यादिमार्जनम् । हिरण्यगर्भमन्त्रेण विलिखेदसिनोदरम् । आगर्भदर्शनाद्वामे मृतस्स्याच्चरणे क्षिपेत् । दृष्ट्वा जीवतु मम पुत्र इति जीवन्तमभि मन्त्रयेत् । अन्तर्धाय हिरण्यं तमभिषिच्य जलैः पुनः । नीत्वा ग्रामं शिशोर्दद्याद्यस्ते स्तन इति स्तनम् ॥ सुरक्षितं कुमारं तं कृत्वा गत्वा शबान्तिकम् । शतायुधाय स्योनान्तैः पञ्चभिश्चोदरे घृतम् । यजुर्भिस्तु प्रयासाय स्वाहेति द्वादशाहुतीः । प्राणायेत्यादिभिः पञ्च चक्षुषेत्यादि पञ्चभिः इति ।

சந்தர்சிகையில்:- கர்ப்பிணியான ஸ்தரீ இறந்துவிட்டால் அவளுக்கு ஸம்ஸ்காரம் சொல்லப்படுகிறது. போதாயநர், பரத்வாஜர், சௌனகர் முதலியவர்கள் சொல்லியபடி. பித்ருமேதத்தை ஸங்கல்பித்து, தாருசிதையைச் செய்து, சிதைக்கு மேற்புறத்தில் அல்லது தெற்கில் கர்ப்பிணியை வைத்து, தர்வீஸம்மார்ஜநம் வரையில் தந்த்ரங்களைச் செய்து, 'ஹிரண்யகர்ப்ப:' என்ற மந்த்ரத்தால் சவத்தின் இடது வயிற்றை, கத்தியினுல் கீறவும், கர்ப்பம் தெரியும் வரையில். சிசு இறந்தால் கால் ப்ரதேசத்தில் புதைக்கவும்.

पिष्मेत्तु इरुन्ताल् 'जीवतु मम पुत्रः' एन्ऱु अपि मन्त्रीकवम्. ल्लवर्णन्तत्तेव वैवत्तु ज्ञलत्ताल् स्नानम् चेय्वित्तु, कर्मामत्तिर्कु ऎटुक्तुक्सेन्ऱु, 'यस्तेस्तनः' एन्ऱु स्तनत्तेतप्प परुक्सेचेय्तु, चिक्षेव रक्षितमाय्सेचेय्तु, चवत्तिनीम्मेचेन्ऱु, 'सतायुताय' मुत्तल् 'स्येनः' एन्पतु वरेयूला ज्ञन्तु रुक्कुलालुम्, 'प्रयासाय स्वाहो' एन्ऱ यज्ञस्साकलाल 12-अहर्त्तिकौयुम्, 'प्राणेय' एन्पतु मुत्तलियताल ज्ञन्तु, 'सकृदेष्वस्वाहो' एन्पतु मुत्तलियताल ज्ञन्तु इवकलाल वेरोमम्मेचेय्वत्तु एन्ऱुलान्तु.

दशाहानन्तरकृत्यम्

तत्र संवर्तः — आशौचे निर्गते कुर्याद्वहमार्जनलेपने । वाससा जलमासूत्य शुद्धयेत् पुण्याहवाचनैः इति । आस्तुतिश्च एकादशाहे सज्जवे कार्या । अधान्ते सज्जवे स्नायात् इति वसिष्ठस्मरणात् । वसिष्ठः — आशौचान्ते तु कर्तव्यं ब्राह्मणरभिषेचनम् । ऋग्भिर्यजुर्भिर्छन्दोभिर्बिलङ्गैः पावमानिकैः । आशिषश्च गृहीत्वाऽथ श्राव्यकर्म समाचरेत् इति । व्यासः — संपूर्ज्य गन्धपुष्पादै ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत् । धर्मकर्मणि सङ्कल्पे सङ्घामेऽद्भुतदर्शने । यज्ञार्थेऽपि प्रतिष्ठादौ सर्वसंस्कारकर्मसु । शुद्धिकामस्तुष्टिकामः श्रेयस्कामश्च नित्यशः इति ।

10-नाट्कलाङ्ककु मेत्रपट्ट करुत्यम्.

अतु विषयत्तिल, लम्बवार्त्तुराः- “अुक्षेलासम्म चेन्ऱु पिरकु, वैट्टेट मेत्रुक्षिप्प बेपुक्क वेण्णुम्. ल्लक्षेल स्नानम् चेय्तु पुण्याहवाचनत्ताल स्तत्तालकिरुन्न”. स्नानत्तेत 11-अुवत्तु नालील ल्लन्कव कालत्तिल चेय्य वेण्णुम्. ‘अुक्षेलासत्तिन्न मुष्टिवील ल्लन्कव कालत्तिल मुमुक वेण्णुम्’ एन्ऱु वलिष्ट स्मरुति इरुप्पत्ताल. वलिष्टारः- अुक्षेलासत्तिन्न मुष्टिवील, प्राम्भूर्णर्कल,

ருக், யஜாஸ், ஸாம இந்த மந்த்ரங்களாலும், ஆபோஹிஷ்டாதி மந்த்ரங்களாலும், பவமான மந்த்ரங்களாலும் ஸ்நானம் செய்விக்க வேண்டும். பிறகு கர்த்தா, ப்ராம்ஹணர்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்று ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். வ்யாஸர்:- 'தர்ம கர்மத்திலும், ஸங்கல்பத்திலும், யுத்தத்திலும் ஆச்சர்யமான நிமித்தங்களைக் கண்டாலும், யாக கார்யத்திலும், ப்ரதிஷ்டை முதலியதிலும், எவ்லா ஸம்ஸ்கார கார்யங்களிலும், சுத்தி, துஷ்டி, மங்களம் இவைகளை விரும்பியவனும், எப்பொழுதும், ப்ராம்ஹணர்களைக் கந்து புஷ்பங்கள் முதலியவைகளால் பூஜித்து ஸ்வஸ்தி வாசனம் செய்விக்க வேண்டும்' என்றார்:

வृஷோத்ஸர்வி஧ி:

அथ வृஷோத்ஸரः । சந்஦ிகாயாம् – உத்ஸூஜேதூஷம் நீலं லோஹितं கृஷ்மேவ வா । மृதோ ந பத்யேநரக் ஗ோ஧ாதி ஬்ரஹ்மாபி வா । புத்ரோ வா ஭்ராதுபுத்ரோ வா முத்ரயைகாடசோஹனி । உத்ஸூஜேதூஷம் நீலं யथாவர்ணமஸம்஭கே । ப்ரேतத்வாத் ப்ரவிமுच்யन்தே மஹாபாதகினோ நரா: இதி । வ்யாஸ: — ஏகாடசோஹி ஸம்ப்ராஸே ப்ரேதஸ்ய ஸ்வங்கா஧நம् । வृஷமேகं ஸமுத்ஸृஜ்ய ஶ்ராஷே விப்ராஂஸ்து ஭ோஜயேத் இதி ।

வஞ்சுஷ்போதஸர்ஜன விதி:

இனி வஞ்சுஷ்போதஸர்ஜனம் சொல்லப்படுகிறது. சந்த்ரிகையில்:- நீலம், அல்லது சிவப்பு, கறுப்பு நிறமுள்ள வஞ்சுஷ்பத்தை விட வேண்டும். இறந்தவன் கோவதம், ப்ராம்ஹண வதம் செய்தவனுக்கிலும் நரகத்தைப் பார்க்கமாட்டான். இறந்தவனின் புத்ரருவது, ப்ராதரு புத்ரருவது, 11-ஆவது நாளில் நீல வரணமுள்ள, வஞ்சுஷ்பத்தை, கிடைக்காவிடில் எந்த வரணமுள்ளது ஆயினும் விட வேண்டும். இறந்தவர்கள் மஹாபாதகிகளாயினும், ப்ரேதத் தன்மையினின்றும் விடுபடுகின்றனர்.

वंयासारः:- 11-आवतु नालं वन्तवृत्तं, इरन्तवनुक्तु
स्वर्गकर्क्षत्तेत अटेवीप्पत्ता॒लं छुरु वंगुष्ठपत्तेत वीट्टु,
पिऱ्कु चरात्तत्तत्तिलं प्राम्भौजार्कै॒लाप्पुज्जीक्क्षं चेय्यवुम्.

काश्यपः — नीलं वाऽप्यथ वा कृष्णं मृतस्यौकादशोऽहनि ।
वृषं पापविशुद्धचर्थं रुद्राणामनुशासनात् । होमकर्मसमायुक्तं
रुद्रप्रीतिकरं स्मृतम् । एकादशोऽहि सम्प्रासे यस्य नोत्सृज्यते वृषः ।
प्रेतत्वान्ब विमुच्येत दत्तैः श्राद्धशतैरपि । विप्रो वा क्षत्रियो वाऽपि
वैश्यः शूद्रोऽपि वा तथा । वृषहीनो मृतो याति रौरवं तमसा वृतम् ।
सप्तजन्मकृतं पापं यद्वाल्ये यच्च वाधके । तत्क्षणादेव नश्येत्तु
वृषोत्सर्गं पितुः कृते । पितृनुद्दिश्य रुद्राय होमकर्मसमन्वितम् ।
उत्सर्गमात्रे रुद्रस्य लोकं यात्यन्त्र मानवः इति । स्मृतिरत्ने —
एकादशोऽहि सम्प्रासे स्वात्वा पुण्याहवाचनम् । कृत्वा चरेद्वृषोत्सर्गं
कुर्यात् श्राद्धं ततः परम् । शूलं चक्रमथान्यद्वा लाङ्छनं कारयेत्
ततः । यस्य देवस्य यो भक्तस्तस्य चिह्नं समालिखेत् इति ।

काश्यपरः- 11-आवतु नालीलं मंगुतनीं पापत्तेतप्प
पोक्कुवत्तर्काक, नीलम् अल्लतु कंगुष्ठन्माण
वंगुष्ठपत्तेत, रुठरर्कलीं आक्कनेयालं वीटवेण्टुम्.
हेऊमत्तुत्तं चेय्यप्पटुम् इक्करम्माणतु
रुठरर्कगुक्तु पर्तिकरम् ऎनप्पट्टुलालतु. 11-आवतु
नालीलं ऎवनुक्तु वंगुष्ठप्पम् वीटप्पटुवत्तिलैयेया
अवन्प प्रेरत्त तन्मेयिनींरुम् वीटुपटुवत्तिलै, पल
चरात्तन्कलं चेय्यप्पट्टालुम्, प्राम्भौजाणं,
कृष्णतरीयनं, वैवश्यनं, कुठरनं यारायीनुम्,
वंगुष्ठपोत्तसर्जनम् चेय्यप्पटाविष्टिलं इरन्तवन्न,
इरुलं कुम्हन्त रेरारव नरकत्तेत अटेवान्. पितावुक्तु
वंगुष्ठपोत्तसर्कम् चेय्यप्पट्टालं अवन्न चेन्न
ऐमु जून्मान्कलीलं चेय्यप्पट्टपापमुम्, पाल्यत्तिलुम्
वार्त्तकत्तिलुम् चेय्यप्पट्ट पापमुम् अप्पेपामुत्तें

நசிக்கும். பித்ருக்களைக் குறித்து, ருத்ரோத்தேச்யமாய் ஹோமத்துடன் சேர்ந்து உத்ஸர்ஜனம் செய்ததாலேயே மனிதன் ருத்ர லோகத்தை அடைகிறுன். ஸ்மிருதி ரத்னத்தில்:- 11-ஆவது நாள் வந்தவுடன், ஸ்நானம், புண்யாஹவாசனம் இவைகளைச் செய்து, வருஷபோத்ஸர்ஜனத்தைச் செய்யவும். பிறகு ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். சூலம், சக்ரம், அல்லது வேறு குறியைச் செய்யவும். எந்தத் தேவனிடத்தில் பக்தியுள்ளவுடே அந்தத் தேவனின் அடையாளத்தை எழுதவும்.

**हेमाद्रौ - स्वेषदेवताचिह्नं पश्चिमदक्षिणपादमूले तस्मेनायसेन
विलिखेत् इति । बोधायनः — अथ वृषोत्सर्जनम्, तच्च द्विविधं
काम्यं नैमित्तिकभिति, नैमित्तिकमेकादशेऽहि, काम्यं कार्तिक्यां
वैशाख्यां ग्रहणे सङ्क्रमे वेति । स्मृत्यर्थसारे — सपिण्डीकरणात्
प्रागेवोक्तकाले नैमित्तिकवृषोत्सर्गः तत्र न मासादिदोषः इति ।
स्मृत्यन्तरेऽपि — एकादशेऽहि षण्मासे त्रिपक्षेऽब्दे तथैव च ।
वृषोत्सर्गं तु कुर्वीत परस्तादुक्तकालिकः इति ।**

ஹோமாத்ரியில்:- தனக்கு இஷ்டமான தேவதையின் அடையாளத்தை, பின் புறத்து வலது காலில், காய்ந்த இரும்பினால் எழுதவும். போதாயனர்:- இதில் வருஷபோத்ஸர்ஜனம் சொல்லப்படுகிறது. அது காம்யமென்றும் நெமித்திகம் என்றும் இருவிதம் ஆகும். நெமித்திகம் என்பது, 11-ஆவது நாளில் செய்யப்படுவது. காம்யம் என்பது, கார்த்திக வைசாக பூர்ணிமைகளிலாவது, க்ரஹணத்திலாவது, ஸங்க்ரமணத்திலாவது செய்யப்படுவது ஆகும். ஸ்மிருத்யர்த்த ஸாரத்தில்:- ஸபின்மகரணத்திற்கு முன்பே, சொல்லிய காலத்தில் நெமித்திக வருஷபோத்ஸர்ஜனத்தைச் செய்ய வேண்டும். அதில் மாஸம் முதலியதில் தோஷம் இல்லை. மற்றொரு

सम्मुक्तीयिलुमः- 11- आवतु नालीलं, 6-आवतु मालत्तिलं, त्रीपक्षत्तिलं, वर्षष मुष्टिलावतु वंगुष्ठपोत्त लर्जुनत्तेत्तश्च चेय्यवुम्. पिराकु चेय्यवत्ताणेल वित्तिकप्पट्ट कालत्तिलं चेय्यवुम्.

कालस्तु पद्धतावुक्तः — पूर्वभागेऽथवा मध्ये दिनस्य वृषमुत्सुजेत्। कार्तिक्यां पौर्णमास्यां वा वैशाख्यां वाऽपि वा वृषम्। उत्सूजेश्लक्षण्युक्तं देवर्षिपितृतृसये इति । आश्वलायनपरिशिष्टे — अथ वृषोत्सर्गः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां वैशाख्यां वा जीववत्सायाः पयस्विन्याः पुत्रं द्विहायनमेकहायनं वा नीलं बभुं पिङ्गलं वा इति । स्मृत्यन्तरेऽपि — उत्सूजेश्लक्षणं नीलं पौर्णमास्यां तु वत्सकम् । कार्तिक्यामाश्वयुज्यां वा वैशाख्यां प्रातरेव तु । एकादशाहादन्यन्त्र प्रोक्तकालेषु यत्ततः । वृषोत्सर्गे तदा शुक्रबाल्यं मौढ्यं न दोषकृत् इति । तथा — प्रेतस्य वत्सराद्वर्ण्यदा संस्कारमिच्छति । न कालनियमो ज्ञेयो न मौढ्यं गुरुशुक्रयोः इति ।

कालमेवावनीलं पत्तुतीयिलं चेललप्पट्टुलालतु - पक्किलं मुज्जं पाकत्तिलावतु, नुटुप्प पाकत्तिलावतु वंगुष्ठपत्तेत विटवुम्. कार्तिक्याक्षरिणीमेयिलावतु, वैवसाक्ष पूर्णीमेयिलावतु, लक्षणंकण्टनं कृष्ण वंगुष्ठपत्तेत तेवरुषी पित्तरुक्कलीलं तंगुप्तिक्काक विटवेण्णुम्. आचवलायन परिशेष्टत्तिलः- इनी वंगुष्ठेषात् लर्कमं चेललप्पट्टुकिरतु. कार्तिक्याक्षरिणीमेयिल अल्लतु वैवसाक्ष पूर्णीमेयिलं चेय्यवुम्. प्रिम्मेत्तुलालं कन्नरेयुट्टयतुम्, पालुलालतुमालान पक्किलं कन्नरेह, 2-वर्षषमाक्षियतु अल्लतु ओरु वर्षषमाक्षियतेह, नेल वर्ण्णमं अल्लतु पप्परु वर्ण्णमं, प्रिंकल वर्ण्णमं उलालतेह विटवुम्. मर्हंगुरु लम्मुक्तीयिलुमः- “वैवसाक्षमं, कार्तिक्याक्षमं, आचवयुज्मं इन्त मालसंकलीलं पूर्णीमेयिलं, प्ररातःकालत्तिलं, नेलमालान कन्नरुन वंगुष्ठपत्तेत विटवुम्. 11-आवतु नालं

தவிர்த்த காலத்திலானால் விவிதமான காலத்தில் கவனித்து விட வேண்டும். 11-ஆவது நாளில் செய்தால் சுக்ரனின் பால்யம் மெள்டயம் இவை தோஷகரங்களல்ல” என்று உள்ளது. அவ்விதம் - “இறந்தவனுக்கு ஒரு வர்ஷத்திற்குள் எப்பொழுது ஸ்மஸ்காரத்தைச் செய்ய விரும்புகிறானே, அப்பொழுது கால நியமத்தைக் கவனிக்க வேண்டாம். குரு சுக்ரர்களின் மெள்டயமும் கவனிக்கப்பட வேண்டாம்” என்றும் வசநம் உள்ளது.

यत् — पतिपुत्रवती नारी मियते चोभयाग्रतः । वृषं
नैवोत्सृजेत् पुत्रो यावत्स्वपितृजीवनम् इति तत्
केवलवृषोत्सर्जननिषेधपरम् । अत एव जाबालिः - पतिव्रता
सुशीला च पुत्रिणी सुभगा मृता । नोत्सृजेद्वृषमेकं तु
सहगामृत्सृजेद्वृषम् । पुत्रादन्यो यदा तस्याः श्राद्धकर्ता भवेद्यदि ।
तदैव वृषमुत्सृज्य पश्चात् श्राद्धं समाचरेत् इति । अत एव
स्मृत्यन्तरम् — या नारी भर्तृसुतयोर्ये तु प्रमितिं गता । तस्या अपि
वृषोत्सर्गः कर्तव्यस्तु यथाविधि । अपुत्रा तु यदा नारी मियते
भर्तुरग्रतः । वृषोत्सर्गो न कर्तव्य एका गौदीयिते तदा इति ।

உன்னல், “பதியும் புத்ரனுமுள்ள ஸ்தர், இருவரின் எதிரில் மரித்தால், புத்ரன் தன் பிதா ஜீவித்திருக்கும் வரையில் வ்ருஷபோத்ஸர்ஜனத்தைச் செய்யவே கூடாது” என்ற வசனம் உள்ளதே எனில், அது வ்ருஷபத்தை மட்டில் விடுவதை நிஷேஷத்திப்பதில் தாத்பர்யம் உள்ளது. ஆகையாலேயே, ஜாபாலி:- “பதிவ்ரதையும், நல்லொழுக்கம் உள்ளவளும், புத்ரவதியுமான ஸாவாலிநீ மரித்தால், வ்ருஷபத்தை மட்டில் தனியாய் விடக்கூடாது. பசுவையும் சோத்து விடவேண்டும். புத்ரனைத் தவிர்த்த மற்றவர்கள் கர்த்தாவானால், அவன் வ்ருஷபத்தை மட்டில் விட்டு, பிறகு சராத்தத்தைச் (ஏகோத்திஷ்டத்தை) செய்யவும்” என்றார். மற்றொரு ஸ்மருதியும்:- “எந்த ஸ்தர்

परंतु ता, पुत्ररन् इवर्कलीन मुन्निलैयि॒ल मंगुती॒य
अटैन्ता॒ओा, अवै॒रुक्तु॒म वंगु॒ष्ठो॒पोत्सर्जै॒नम
वित्ति॒प्पदि॒ चेय्य॒प्पत्त॒ वेण्ण॒मु॒म. पुत्ररन् इलै॒ला॒त संतर्ग॑,
परंतु ता॒विन॑ एति॒री॒ल मरि॒त्ता॒ल, अवै॒रुक्तु॒
वंगु॒ष्ठो॒पोत्सर्जै॒नम चेय्य॒प्पत्त॒ वेण्ण॒ता॒म. ओ॒रु॒
पक्षवैत्त ता॒नम चेय्य॒ वेण्ण॒मु॒म'' एन्किरुतु॑.

अन्यत्रापि — पतिपुत्रवती नारी मृता चेज्जीवभर्तृका ।
पातिव्रत्येन तल्लोकं वृषहीना न गच्छति । जीवभर्त्यास्तु कर्तव्यं
सङ्कल्पश्राद्धमेव हि । पार्वणं च वृषोत्सर्गं कुर्यादायुः क्षयो भवेत् इति ।
जीवभर्त्या अपुत्राया इति शेषः । लोकाक्षिः — न त्रियाश्र
वृषोत्सर्गं भर्ता कुर्यात् कदाचन । वृषं रुद्रान् वसुंस्त्यक्त्वा
सपिण्डीकरणावधि इति । वृषं रुद्रार्थब्राह्मणभोजनं वस्वर्थब्राह्मण
भोजनं च त्यक्त्वा अन्यत् सर्वं सपिण्डीकरणावधि कुर्यात् इत्यर्थः ।

ॐ संमंगुतीयिलुमः— पतियेयुम् पुत्रजैयुम् उटेय
संतर्ग॑, परंतु ता॒जी॒वि॒त्ति॒रुक्तु॒म पोतु॑ इरुन्ता॒ल, अवै॒रुक्तु॒
वंगु॒ष्ठो॒पोत्सर्जै॒नम चेय्य॒प्पत्त॒ वेण्ण॒मु॒म. पा॒ति॒व॒र्त्य॒त्ता॒ल
जी॒वपर्त्तरु॒कैया॒यी॒रन्तवै॒रुक्तु॒ लै॒न्कै॒ल पै॒स्रा॒त्तत्तै॒मे॒
चेय्य॒प्पत्त॒ वेण्ण॒मु॒म. पा॒र्व॒ज्ञे॒ स्रा॒त्तत्तै॒यु॒म, वंगु॒ष्ठो॒पोत्सर्जै॒नत्तै॒यु॒म
चेय्य॒कै॒कौ॒कु॒कु॒ गु॒रै॒व॒ ए॒र्प॒गु॒म. रु॒लै॒त्ति॒ल॒ उ॒ै॒ला॒
'जी॒वपर्त्तरु॒कैकै॒कु॒' ए॒न्न॒ पै॒त्तै॒त्तै॒न 'पुत्रै॒नी॒लै॒ला॒त',
ए॒न्न॒ चे॒रै॒कै॒व॒म. लै॒का॒क्षिः— परंतु ता॒ पै॒त्तै॒कै॒कु॒
चेय्य॒ता॒ल वंगु॒ष्ठो॒पोत्सर्जै॒नत्तै॒त्तै॒ ओ॒रु॒ कौ॒लु॒म चेय्य॒कै॒
कौ॒ता॒तु॑. वंगु॒ष्ठो॒पोत्सर्जै॒नम, रु॒त्तर॑ पै॒रै॒त्तिकै॒का॒क
प्रा॒मै॒है॒ने॑ पै॒ोजै॒नम, वै॒लै॒पै॒रै॒त्तिकै॒का॒क प्रा॒मै॒है॒ने॑
पै॒ोजै॒नम इ॒वै॒कै॒लै॒त तै॒वि॒रै॒त्तु, मै॒रै॒त्तु॑
ए॒लै॒ला॒वै॒रै॒यु॒म लै॒पि॒न्नै॒कै॒रै॒नम मै॒ट्टै॒यु॒म वै॒रै॒यि॒ल
चेय्य॒ वेण्ण॒मु॒म.

அனுமृதிவிஷயे — பிதுரூ஧்விவி஧ிஂ ஸம்யக்குத்வா மாதுஶ்
புதிகः । வृஷமுत்ஸूஜ्य பश्चाद्विषि பित्रा ஸह ஸபிண்஡னम् இதி ।
ப்ரேतत்வவிமோசகவृஷோத்ஸர्गे நாந்஦ிஶ்ராஷ்விஷே஧மாஹ ஶாதாத்ப: —
ஸ்வர்஗காமோ வृஷோத்ஸர்஗ே நாந்஦ிமுखவிஷாநத: । ஶ்ராஷ்வ குர்யாத்திவந்யஸ்து ந
குர்யாத் ப்ரேதமோசக: இதி । விஜாநேஶ்வர: — எகாடஸே஽ஹி ஸம்ப்ராஸே
யஸ்ய நோத்ஸूஜ்யதே வृஷ: । பிஶாசத்வं ஸ்திரं தஸ்ய ஦த்தை: ஶ்ராஷ்வதௌரபி
இதி । ஸ்மृத்யந்தரே — வृஷஹினோ மூதோ யாதி ரௌற்வ தமஸா஽வृத்தம் ।
உத்ஸர்஗மானே ருத்ரஸ்ய லோகं யாத்யந்த மாநவ: இதி ।

அனுமருதி விஷயத்தில்:- பிதாவுக்கு க்ரியையைச்
செய்து, மாதாவுக்கும் செய்து, வருஷபோத்ஸர்ஜனம்
செய்து, பிறகு, பிதாவோடு சேர்த்து ஸாபிண்ட்யத்தைச்
செய்யவும். ப்ரேதத்வ விமோசநத்திற்காகச் செய்யப்படும்
வருஷபோத்ஸர்ஜனத்தில், நாந்தி ச்ராத்த நிழேஷத்தைச்
சொல்லுகிறார். சாதாதுபர்:- ஸ்வர்க காமமாய்
வருஷபோத்ஸர்ஜனம் செய்கிறவன், நாந்தி ச்ராத்தத்தைச்
செய்து செய்ய வேண்டும். ப்ரேதத்வ விமோசநத்திற்காகச்
செய்யும் மற்றவன் நாந்தி ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது.
விக்ஞாநேச்வரர்:- 11-ஆவது நாளில் எவனுக்கு வருஷபம்
விடப்படுகிறது இல்லையோ, அநேகச் ச்ராத்தங்கள்
செய்யப்பட்டாலும், அவனுக்கு பிசாசத் தன்மை
ஸ்திரமாகவே இருக்கும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:-
வருஷபோத்ஸர்ஜனம் செய்யப்படாதவன் இருள் குழ்ந்த
ரெளரவ நரகத்தை அடைகிறுன். வருஷபோத்ஸர்கம்
செய்த உடனேயே ருத்ர லோகத்தை அடைகிறுன்.

बृहस्पतिः — काङ्क्षन्ते पितरः पुत्रान् नरके पातभीरवः ।
गयां यास्यति यः कश्चित् सोऽस्मान् सन्तारयिष्यति । करिष्यति
वृषोत्सर्गमिष्टापूर्तं तथैव च इति । पितृगाथा च — एष्व्या बहवः
पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत् वाऽश्रमेधेन नीलं वा
वृषमुत्सजेत् इति ।

पंकुहृष्टस्पति:- नरकत्तिलं विमुवतिणीन्ऱुम्
पयन्तवर्कलाणि पित्त्रुक्कलं, पुत्रर्कलं (पलर) पिरक्क
वेण्णुम् एन वेण्णुकिण्ऱनर. (पल पुत्रर्कलं
इरुन्तालं) एवगुवतु ओरुवनं कयेक्कुप पोवाणुकिलं
अवनं नम्मेम (नरकत्तिणीन्ऱुम्) काप्पार्हृवाणं.
वंरुषपोत्तर्सर्जनम् चेय्वाणं. याकत्तेतच चेय्वाणं.
पूर्तत्तेतच (कुलम् वेट्टुवतु मुत्तियतु) चेय्वाणं.
पित्त्रुक्कलणिं वाक्यमुमः- पल पुत्रर्कलं पिरक्क
वेण्णुम् एन्ऱु कोरवेण्णुम्. अप्पटि आगुलं
(अवर्कणुलं) ओरुवगुवतु कयेक्कुप पोवाणं.
अस्वमेत याकत्तेतयावतु चेय्वाणं. नीलमाण
वंरुषपत्तेतयावतु वीटुवाणं.

नीलवृषलक्षणमुक्तं स्मृतिरद्द्वे — लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे
पुच्छे च पाण्डरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते इति ।
अत्र वृषालाभे प्रचेताः — विहिते च वृषोत्सर्गेत्वलाभे शक्त्यसम्बवे ।
प्रेतत्वस्य विमोकार्थं रुद्रानेकादशाश्रयेत् इति । बोधायनश्च — तासां
पयसि पायसं श्रपयित्वा एकादशाश्राम्यान् भोजयेत् इति । व्यासोऽपि
— एकादशाभ्यो विप्रेभ्यो दधादेकादशोऽहनि । रुद्रमुद्दिश्य कर्तव्यं
रुद्रप्रीतिकरं हि तत् इति ।

नीलमेमनुम् वंरुषपत्तिणं लक्षणम्
शोल्लप्पट्टुलातु. लम्मरुत्तिरत्तेत्तिलः- तेलुत्तिलं
किवप्पु वर्णमुम्, मुकत्तिलुम्, वालिलुम् वेणुप्पु
नीरम् उल्लातुम्, कुलम्पु, केळम्पु इवेवकलीलं वेणुप्पु
नीरम् उल्लातुमाण वंरुषपम् नील वंरुषपम्
एनप्पटुकिरतु. इवंविषयत्तिलं, वंरुषपम्
किटक्काविष्टिलं, प्ररेत्तुलः- वंरुषपोत्तर्सर्कम्
चेय्यप्पटाविष्टिनुम्, वंरुषपम् किटक्काविष्टिनुम्,
सक्ति इल्लाविष्टिनुम्, प्ररेत्तव विमोक्षनत्तिर्काक,
11-रुत्तरर्कणुक्कुप पोजुनम् चेय्विक्कव्यम्.

போதாயனரும்:- பசுக்களின் பாலில் பாயலான்னத்தைப் பாகம் செய்து 11-ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் போஜனம் செய்விக்கவும். **வயாஸரும்:-** 11-ஆவது நாளில், 11-ப்ராம்ஹணர்களுக்கு, ருத்ரனை உத்தேசித்துக் கொடுக்கவும். அது ருத்ரனுக்கு ப்ரதியைச் செய்வதாய் ஆகும்.

ஶாதாதபஞ் — ஏகாடஶஸு விப்ரேஷு ரூடாநு஦ிஶய மோஜயேத |
ப்ரேதத்வஸ்ய விமோகார்஥ மதுக்ஷீர஘ூதாஶனைரிதி | ஸ்மृத்யந்தரே து —
ப்ரேதத்வஸ்ய விமோகார்஥ ரௌதாநு வி஧ிருபத: | ஬்ராஹ்மாந் மோஜயேடஸ்தை
ஹிரண்யேநைடனேன வா இதி |

சாதாதபஞம்:-	ருத்ரர்களை	உத்தேசித்து
11-ப்ராம்ஹணர்களை	ப்ரேதத்வம் நிவருத்திப்பதற்காக,	
தேன், பால், நெய் இவைகளுடன் கூடிய ஆஹாரங்களுடன்		
புஜிப்பிக்கவும்.	மற்றொரு ஸ்மருதியில்:-	ப்ரேதத்வ
நிவருத்திக்காக	ருத்ரர்களுக்காவது	போஜனம்
செய்விக்கவும்	அல்லது	8-ப்ராம்ஹணர்களை,
ஹிரண்யத்தாலாவது, அன்னத்தாலாவது, புஜிப்பிக்கவும்.		

एकोद्दिष्ट विधानम् ।

அதைகோடிஷ்டம् । தत्र யोजாவல்க்ய: — மூதேऽஹனி து கர்த்து
ப்ரதிஸாஸ் ச வத்ஸரம् । ப்ரதிஸंவத்ஸர் சைவமாத்யமேகாடஶேऽஹனி இதி ।
பैठीனஸிரபி — ஏகாடஶேऽஹி யச்஛ாஞ் தத்ஸாமாந்யமுடாஹுதம् இதி ।
बृहन्मनुः — ஏகாடஶேऽஹி கர்த்யமேகோடிஷ்ட ஸ்தா ஦ிஜை: இதி ।

ஏகோத்திஷ்ட விதானம்.

இனி ஏகோத்திஷ்டம் சொல்லப்படுகிறது. அதில்,
யாஜ்ஞவல்க்யர்:- ஒரு வர்ஷம் வரையில் ஒவ்வொரு
மாஸத்திலும் இறந்த தினத்தில் ச்ராத்தம் செய்யப்பட
வேண்டும். ஒவ்வொரு வர்ஷத்திலும் ம்ருதத்தியில்

स्रात्तमं चेष्यवेण्टुम् । 11- आवतु ना॒ली॑ल आ॒त्य
स्रात्तत्तत्तेत्यु॑म् चेष्यवेण्टुम् । नै॒पैनै॒ली॑यु॑मः-
11- आवतु ना॒ली॑ल चेष्यपैपटुम् स्रात्तमं सा॒ता॒रणं॑म
ए॒नपैपटुकि॒रतु । पै॒रु॒रुन्नं॑मनुः- त्वि॒ज्जर्क॑ल 11- आवतु
ना॒ली॑लेये एको॒त्ति॒ष्ट॒त्तेत्तसं॑चेष्यवेण्टुम् ।

व्याघ्रः - एकादशोऽहि संप्रासे श्राद्धं दद्याद्यथाविधि । कुयदिवात्र
बारादि तिथिभान्यनिरीक्ष्य वै इति । स्मृत्यन्तरे — एकादशोऽहि
यच्छाङ्कुयदिवाविचारयन् इति क्षत्रियादीनामप्याद्यश्राद्ध मेकादशाह
एवेति माधवीयादौ व्यवस्थापितम् । चन्द्रिकयान्तु — आशौचान्ते
ततः सम्यक्षिप्तदानं समापयेत् । ततः श्राद्धं प्रदातव्यं सर्ववर्णेष्वयं
विधिः इति । वसिष्ठसंहितायां च — अथातः सम्प्रवक्ष्यामि श्राद्धं
गार्यमतेन वै । एकादशोऽहि विप्राणां नृपाणां षोडशोऽहनि । वैश्यानां
विंशतिदिने शूद्राणां मासि पूरिते इति ।

वंयाकर्णाः:- 11- आवतु ना॒ली॑ल वि॒तिपैपटि॑ स्रात्तमं
चेष्यवु॑म् । वा॒रम्, ति॒ति, नै॒ष्टरम् इ॒वैवैकै॒लैप॑ पा॒राम॑ल
इ॒न्ऱु अ॒वच्यम् चेष्य वेण्टुम् । मै॒र्ग्गे॒रुरु
सं॒मंग्गुती॒यी॑लः- 11- आवतु ना॒ली॑ल चेष्य वेण्टिय
स्रात्तत्तत्तेत्त लै॒न्तेहै॒प्पता॑मल॑ चेष्यवे वेण्टुम् ।
कृ॒ष्टरी॒यन् मृ॒तवी॒यवर्क्कुम्, आ॒त्य स्रात्तमं 11- आवतु
ना॒ली॑लेये ए॒न्ऱु मा॒तवी॒यम् मृ॒तवी॒य कै॒रन्तंकै॑ली॑ल
नी॒र्ण्णयी॒कपैपट्टु॑लै॒तु । कै॒न्तरी॒कै॒यी॑लो॒वै॒ली॑लः-
आ॒शै॒सत्ति॑न् मृ॒ष्टवी॑ल पि॒न्नै॒ता॒नत्तेत्त वि॒तिपैपटि॑
मृ॒ष्टक्कवु॑म् । पि॒रुकु॑ एको॒त्ति॒ष्ट॒त्तेत्तसं॑चेष्यवेण्टुम् ।
इ॒न्त वि॒ति॑ ए॒ल्ला॑ वै॒र्णंकै॒गुक्कुम् सा॒ता॒रणं॑म आ॒क्षियतु ।
वै॒लिष्ट॑ लै॒म्है॒तै॒यी॒लु॑मः- इ॒नी, का॒रक्यै॒रिन् मै॒तत्तेत्त
अ॒नु॒लै॒री॒त्तु स्रात्तत्तत्तेत्तसं॑चेष्यवेण्टुम् । 11- आवतु
ना॒ली॑ल प्र॒राम॑ लै॒न्नरै॒कै॒गुक्कुम्, 16- आवतु ना॒ली॑ल,
कृ॒ष्टरी॒यरै॒कै॒गुक्कुम्, 20- आवतु ना॒ली॑ल वै॒वच्यरै॒कै॒गुक्कुम्,
मा॒तमं पू॒र्णमा॒क्षिय पि॒रुकु॑ कृ॒त्तरै॒कै॒गुक्कुम् एको॒त्ति॒ष्ट॒त्तमं
वि॒तिक्कपैपटुकि॒रतु ।

அगस்த: — எகாடோऽஹி ஸம்பாஸே ஦ிஜானாமுத்தம் விடு: । ஏகோஹிஷ் பிரகுர்தி ஭ூபதிர்஦்வாத: பரே । ஷோதாஹாத: பரே வைதய: ஶூத்ஸ்திவிநாத்பரே இதி । ஸர்வேஷே வசனேஷு ஬்ராஹ்மணாமேகாதஶதினே ஏகோஹிஷவி஧ானாத: தேஷாமேகாதஶதினே ஏவைகோஹிஷம் । க்ஷத்ரியாடீனாங் து விகலப: ।

அகஸ்த்யர்:- “11-ஆவது நாளில் ப்ராம்ஹனர் களுக்கு ஏகோத்திஷ்டம் ச்லாக்யமாகும். க்ஷத்ரியன் 13-ஆவது நாளில் செய்யவும். 17-ஆவது நாளில் வைசயன் செய்யவும். 31-ஆவது நாளில் சூத்ரன் செய்யவும்.” முன் சொல்லிய வசனங்கள் எல்லாவற்றிலும், ப்ராம்ஹனர் களுக்கு, 11-வது நாளில் ஏகோத்திஷ்டம் விதிக்கப்படுவதால், அவர்களுக்கு 11-ஆவது நாளிலேயே ஏகோத்திஷ்டம். க்ஷத்ரியர் முதலியவற்றே கோ வெனில் விகல்பம்.

அத்ராहிதாஶ்வேரிணேஷோ ஜாதுகர்ணோக்த: — ஊர்வ திபக்ஷாத-
ச்஛ாஞ் மூதோஹந்யேவ கிர்த்தம் । அத்ரஸ்து காரயேஹாஹாஹிதாஶ்வ-
஛ிஜந்மன: இதி । திபக்ஷாத்வார்யத் ப்ரேतகர்ம தத்வாஹ்஦ிவஸாதாரம்ய
அாஹிதாஶ்வ: கார்யம், திபக்ஷாதூர்வ் யத் ஶாஞ் தன்மரண்஦ிவஸ ஏவ
கார்யமித்யर்஥: । அத: ஦ஶாக்ருத்யமேகாஹிஷமூனமாசிக் ச
஦ாஹ்஦ிநாடி குர்யாத் । ஛ிதியமாசிக் ச ஦ாஹ்஦ிநே குர்யாத் । காலாத்ரே
— திபக்ஷாத் பூர்வத: ஸாஶ்வேரிவேத் ஸ்ஸ்காரவாஸரே ஊர்வ மூத்தினேஓநாஶ:—
ஸ்வாப்யேவ மூதாஹத: இதி । பூர்வத: - பூர்வ கர்த்துயம் । ஸ்ஸ்காரவாஸரே -
஦ாஹ்஦ிநாடி மாவேதித்யர்஥: ।

இவ்விஷயத்தில், ஆஹிதாக்னிக்கு விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஜாதுகர்னியினால்:-
“ஆஹிதாக்னியாகிய ப்ராம்ஹனனுக்கு, த்ரிபக்ஷத்திற்குள் செய்யப்படும். ப்ரேத கர்மத்தைத் தலைநதினாம் முதற்

केऽन्नं उ चेय्य वेण्णुम् । तरीपक्षुत्तिन्तु मेलं
चेय्यप्पद्गुम् कर्त्तत्तत्तत्त मरणं तिनम् मुत्तरं केऽन्नं टे
(कणक्किट्टुच) चेय्यवुम्” ऎन्ऱु । आकेयालं, 10-नालं
कर्त्तय, एकोत्तिष्ठत्तम्, ऊनमालीकम् इवेकज्ञात्
तह्वन्तिनम् मुत्तलं केऽन्नं उ चेय्यवुम् । 2-आवतु
मालीकत्तत्तयुम् तह्वन्तिनत्तिलं चेय्यवुम् ।
कालात्तर्सक्त्तत्तिलः- आवृत्ताक्किक्कु, तरीपक्षुत्तिन्तु मुन्न
चेय्यप्पद्गुम् कर्त्तयत्तत्त, तह्वन्तिनम् मुत्तलं केऽन्नं उ
चेय्यवुम् । तरीपक्षुत्तिन्तु मेलं चेय्यप्पद्गुम्
कर्त्तत्तत्त मरणं तिनम् मुत्तलं केऽन्नं उ चेय्यवुम् ।
अनावृत्ताक्किक्कु, एल्लावर्णरेयुम् मरणतिनम् मुत्तलं
केऽन्नं उ चेय्यवुम् ।

व्यासः — सूतकान्ते नरः कुर्यादिकोद्दिष्टद्वयं बुधः । सूतके
पतिते चापि स्वतन्त्रं नातिलङ्घयेत् इति । एकोद्दिष्टद्वयमिति
महैकोद्दिष्टमावृत्ताद्यं च तद्वयम् । सूतकान्ते - एकादशाहे कुर्यात्
मध्ये सूतकान्तरापातेऽपि स्वतन्त्रं महैकोद्दिष्टं नातिलङ्घयेत्, तदैव
कुर्यादित्यर्थः । अत एवाह विष्णुः — आदश्राद्मशुद्धोऽपि
कुर्यादिकादशेऽहनि इति । अत एव च तत्राकरणे पुनः संस्कारमाह
बृहस्पतिः - एकादशाहे यत् श्राद्मेकोद्दिष्टं समाचरेत् । यदि कार्यं न
कुर्वति पुनः संस्कारमहीति इति । एतच्च अस्थिसञ्चयनाभावविषयम् ।
कृते त्वस्थिसञ्चयने पुनः पिण्डोदकमात्रमित्यधस्तात् प्रतिपादितम् ।

व्यासालालः- अनिन्तवग्नेन कर्त्तत्ता आउसेलासत्तुनिं
मुष्टिविलं (11-आवतु नालील) मलेहौ केऽत्तिष्ठत्तम्,
आवृत्तत्तात्तयम् एन्ऱ इरण्णु एकोत्तिष्ठत्तत्तयुम्
चेय्य वेण्णुम् । नुविलं वेऱु आउसेलासम वन्ततालुम्
स्ववत्तन्तरत्तत्त = मलेहौ केऽत्तिष्ठत्तत्तसं चेय्यामालं
इरुक्कक्कुटातु । अप्पेपामुत्तेचेय्य वेण्णुम् एन्पतु
पेपारुलं । आकेयालेये, विष्णुः— “असत्तग्नेयिनुम्,
आत्तयस्रात्तत्तत्त = मलेहौ केऽत्तिष्ठत्तत्त, 11-आवतु

நாளில் செய்ய வேண்டும்" என்கிறார். ஆகையினாலேயே, அன்று செய்யப்படாவிடில், புநஸ்ஸம் ஸ்காரத்தை விதிக்கின்றார் ப்ருஹஸ்பதி:- "11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். செய்யாவிடில் புநஸ்ஸம் ஸ்காரத்தைச் செய்ய வேண்டும்" என்று. இவ்விதம் சொல்லியது, அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்படாத விஷயத்தைப் பற்றியது. அஸ்தி ஸஞ்சயநம் செய்யப்பட்டிருந்தாலோவனில், பிண்டோதகதாநம் மட்டில், என்பது கீழே சொல்லப்பட்டுள்ளது.

आवृत्ताद्यं तु आशौचसन्निपाते रोगदिना आधस्य विघ्ने सति
द्वादशाहादिकालान्तरे कार्यं इति । तथा च व्यासः — एकादशाहे
त्वाधस्य सङ्कटं तु यदा भवेत् । द्वादशाहेऽपि कर्तव्यं
त्रयोविंशदिनेऽपि वा इति । चन्द्रिकायाम् — आशौचनिर्गमात्
कार्यमाद्यमेकादशेऽहनि । त्रयोविंशदिने वाऽपि सप्तविंशदिनेऽपि वा
इति । समृत्यर्थसारे — आद्य श्राद्धस्य विघ्ने तु भार्गववारनन्दा
चतुर्दशीत्रिजन्मानि त्यक्त्वा ऊनमासिकात् पूर्वमनुष्टेयम् इति ।
बृहन्मनुः — एकादशेऽहिं सम्प्राप्ते यदि चन्द्रस्तु रोहिणीम् ।
आवसेदुत्तराख्यां वा कुर्यात् द्वादशेऽहनि इति ।

ஆவ்ருத்தாத்யமோ வெனில், ஆசௌசம் நேர்ந்தாலும், ரோகம் முதலியதால் அதற்கு விக்னம் நேர்ந்தாலும், 12-ஆவது நாள் முதலிய காலாந்தரத்தில் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்விதமே, வ்யாஸர்:- 11-ஆவது நாளில் ஆவ்ருத்தாத்யத்திற்கு விக்னம் நேர்ந்தால், 12-ஆவது நாளில், அல்லது 23-ஆவது நாளில் செய்யப்பட வேண்டும். சந்தர்க்கையில்:- ஆசௌசம் முடிந்த பிறகு, ஆத்யத்தை, 11-ஆவது நாளிலாவது, 23, 27-ஆவது நாளிலாவது செய்யவும். ஸ்மிருத்யர்த்த ஸாரத்தில் :- ஆத்ய ச்ராத்தத்திற்கு விக்னம் நேர்ந்தால்,

वेवलीक्किमुम्मेम, नन्तातिति, सतुर्तचि, तरीज्जन्मम
नक्षत्रंकल्पं इवेवकज्ञा वीट्टु, ऊनमालीकत्तिर्कु मुनं
सेय्य वेण्टुम्. प्रग्रहन्मानुः- 11-आवतु नालील,
सन्तरनं, रोलीज्ञीयिलावतु, उत्तरा एन्नुम् पेयरुल्ल
नक्षत्रित्तिरत्तिलावतु इरुन्तालं (उत्तरम्, उत्तराटम्,
उत्तरट्टाति) 12-आवतु नालील (आवरुत्तात्यत्तेत)
सेय्यवम्.

स्मृत्यन्तरेऽपि — एकादशाहे यदि शुक्रवारो रोहिण्यथाप्यर्यम-
तारका वा । भवेच्च कृत्वोदकपिण्डदानं श्राव्यं प्रकुर्या दपरेद्युरेव इति ।
एवं च एकादशाहे आवृत्ताद्यस्य निषेधे सति द्वादशाहाद्युक्तकाले तत्
कृत्वा ऊनमासिकादीनि पञ्चदशश्राव्यानि कृत्वा सापिण्ड्यं कुर्यात् ।

मन्त्रेणुरु लंमंग्रुतीयिलुमः- 11-आवतु नालील
सक्रवारमावतु, रोलीज्ञीयावतु, पूर्वपलंकुनीयावतु
सेर्नंतालं, उत्कपिण्ठतानंत्तेत्तसं चेय्तु, चरात्तत्तत्तेत
(आवरुत्तात्यत्तेत) मरुनालीलेये चेय्य वेण्टुम्.
अिवलितम् इरुप्पतालं, 11-आवतु नालील
आवरुत्तात्यत्तेत्तिर्कु निवेष्टम् इरुन्तालं, 12-आवतु नालं
मुतविय विल्रित कालत्तिलं अतेत्तसं चेय्तु, ऊनमालीकमं
मुतविय 15-चरात्तत्तवंकज्ञायुम् चेय्तु लापिण्ठं यत्तेत्तसं
चेय्य वेण्टुम्.

पितृमेधसारे — सर्ववर्णनां मृताहादेकादशेऽहि मध्याह
एकोद्दिष्टं कुर्यात्, साग्रेः संस्काराहादेकादशाहे । त्यहतपणे
चतुर्थेऽह्नचेकोद्दिष्टं पञ्चमे सापिण्ड्यं, एकाहतपणे द्वितीयेऽह्नचे-
कोद्दिष्टं तृतीये सापिण्ड्यम्, दशाहाभ्यन्तरे अनेकेषां मरणे
तत्तन्मृताहादेकादशाहे, तिथिमेदेऽपि सञ्चातानुमृतायाः पद्याः
भर्त्रैकादशाह एव सह श्राव्यं कुर्यात् इति । अत्र संवादवचनानि
पूर्वमेवोक्तानि ।

பித்ருமேதஸாரத்தில்:- “எல்லா வர்ணத்தார் களுக்கும், மருதி தினம் முதல் 11-ஆவது நாளில் மத்யாஹ்னத்தில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஆஹிதாக்னிக்கு, ஸம்ஸ்கார தினத்தில் இருந்து, 11-ஆவது நாளில். மூன்று நாட்களில் தர்ப்பணம் செய்யும் விஷயத்தில், 4-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டம், 5-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யம். ஒரு நாளில் தர்ப்பணம் செய்யும் விஷயத்தில், 2-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டம், 3-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யம். 10-நாட்களுள் அநேகர்களின் மரணம் ஆனால் அவரவரின் மருதி தினத்திலிருந்து 11-ஆவது தினத்தில். திதிபேதம் இருந்தாலும், ஸங்காத மரணத்திலும், அனுமரணத்திலும், பத்னிக்குப் பர்த்தாவுடன் சேர்ந்தே 11-ஆவது தினத்தில் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும்.” இவ்விஷயத்தில், அனுஸரித்துள்ள வசநங்கள் முன்பே சொல்லப்பட்டுள்ளன.

स्मृत्यन्तरे — एकादशाहे सम्प्रासे त्रीणि कर्माणि कारयेत् ।
नवश्राद्धं तु पूबाल्ले हैमा वाऽऽमेन वा भवेत् । प्रेतत्वस्य विमोकार्थं
वृषभं विसृजेत्ततः । स्नात्वा मध्याह्वेलायां विप्रानेकादशावरान् ।
अशक्तश्चैकविप्रं वा श्रोत्रियं गुणशालिनम् । आमन्त्र्य विप्रमाहू
दद्यादभ्यञ्जनादिकम् । पादप्रक्षालनं कुर्यात् कुण्डे वा मण्डले शुभे ।
गोत्रं नाम च निर्दिश्य घ्यासनादीनि कल्पयेत् इति ॥

மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:- 11-ஆவது நாள் வந்ததும் 3-கார்யங்களைச் செய்ய வேண்டும். முற்பகவில் நவச்ராத்தத்தை, ஹிரண்யத்தாலாவது, ஆமத்தாலாவது செய்யவும். பிறகு, ப்ரேதத் தன்மை போவதற்கு வருஷபோத்ஸர் ஜனத்தைச் செய்யவும். பிறகு ஸ்நானம் செய்து, மத்யாஹ்ன காலத்தில் 11-ஸங்க்ஷைக்குக் குறையாத ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் போஜனம் செய்விக்கவும். சக்தி இல்லாவிடில் ஒரு ப்ராம்ஹணனுக் காவது செய்விக்கவும். ச்ரோதரியனும், நற்குணங்க

गुणेटयवन्नुमाणं प्रराम्भैरुज्जैनं निमन्तरीत्तु, अमृत्तु
एन्नेजेन्यं मुत्तवियतेकं केकाटुक्कवुम्. कुण्टल्त्तिलावतु
मन्नेटलत्तिलावतु पात प्रकृशाळानम् चेय्यवुम्.
कोत्तरम्, बेयरि इवेवक्तौकं चेऽल्लि आ॒लनम्
मुत्तवियवेवक्तौकं केकाटुक्कवुम्.

देवलः — पूर्वाल्ले दैविकं कार्यमपराह्ने तु पैतृकम्। एकोदिष्टं
तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् इति। अत्र व्यासः —
आद्यमासिकमेकश्चेष्टुड्के ब्राह्मचात् स हीयते। तदेकादशधा भित्वा
विप्रेष्वग्रावथापि वा इति। तदाह सत्यव्रतः — एकादशोऽहि प्रेतार्थं
ब्राह्मणानेकादशामन्त्य मध्याह्ने नानाभक्ष्यान्वरसविन्यासैरा-
शयित्वा विधिवत् पिण्डदानं वासोहिरण्यदास्युपानच्छत्रोद-
कुम्भदक्षिणा गुणवति विप्रे पात्रे दद्याच्छय्यां च तत्र
स्वस्त्ययनादिधर्माः प्रवर्तन्ते इति।

त्रैवलारः- मुर्त्पकलिलं तेवकार्यत्तेतयुम्,
पिन्धपकलिलं पित्तरु कार्यत्तेतयुम्, नुट्पपकलिलं
वक्तेकोत्तिष्ठत्तेतयुम्, प्ररातःकालत्तिलं वर्गुत्ति
क्षरात्तत्तेतयुम् चेय्य वेण्णुम्. इवंविषयत्तिलं,
वयालारः:- आ॒त्य मा॒लिक॒त्तेत ओ॒रुव॒णे प॒ज्ञित्ता॒ल,
अव॒नं प्रराम्भैरुज्जैन॒त्तेत तन्मैयै इ॒मृप्पा॒नं. आ॒केया॒ल,
अ॒तै॒ 11-पा॒कमा॒कप्पि प्रि॒रीत्तु, प्रराम्भैरुज्जैन॒कौं इ॒ट्तिलं
चेय्यवुम् अ॒ल्लतु अ॒क्कन्नि॒यिलं चेय्यवुम्. अ॒तैसं
चेऽल्लुक्किरुर् लै॒त्यव्वरतारः:- 11-आ॒वतु ना॒लीलं
प्रे॒रत्तनुक्का॒क 11-प्रराम्भैरुज्जैन॒कौं अ॒मृत्तु,
मत्या॒लून्त्तिलं पलवि॒तमा॒ना पक्ष्यम् अ॒न्नैम् रसैम्
इ॒वेवक्तौ॒न्नें पो॒ज्जैन॒त्तेतकं केकाटुत्तु, वित्तुप्पपाति
पिण्टत्ता॒नम् चेय्तु, वै॒स्तरम्, लूर्जैन्यम्, वै॒लैक्का॒री,
पा॒तुकै, गु॒टै, उ॒त्कुम्पम्, त॒क्षीैना, प॒टुक्कै
इ॒वेवक्तौ यो॒क्यैनै प्रराम्भैरुज्जैन॒त्तिलं
केकाटुक्कवुम्. अ॒ति॒लं लै॒वै॒लै॒ति वा॒सनम् मुत्तविय
तर्मन्त्कौम् उ॒न्नुम्.

एव च दश ब्राह्मणान् प्रेतत्वविमोचनार्थं गुणवन्तमैकमाद्य
श्रद्धानिमित्तार्थं भोजयित्वा गुणवति तस्मिन् दक्षिणां दद्यात् ।
अशक्तावेकं वा भोजयेत् । ततो चात्रिः - प्रेतार्थं सूतकान्ते तु
ब्राह्मणान् भोजयेद्वा । आदश्राद्धनिमित्ते तु एकमैकादशोऽहनि ।
वस्त्रालङ्कारशङ्खादि पितुर्यद्वाहनादिकम् । गन्धमाल्यैः समभ्यच्च
श्राद्धभोक्त्रे प्रदापयेत् । अशक्तं एकं संभोज्य शक्त्या दद्याच्च
दक्षिणाम् इति ।

இவ்விதம் இருப்பதால், 10-ப்ரராம்ஹணர்களை
ப்ரேதத்வ மோசனத்திற்காகவும், நற்குணங்களுடைய ஒரு
ப்ரராம்ஹணனை நிமித்தத்திற்காகவும் புஜிக்கச் செய்து,
நற்குணமுள்ள அந்த ஒரு ப்ரராம்ஹணன் இடத்தில்
தக்ஷினையைக் கொடுக்கவும். சக்தி யில்லாவிடில் ஒரு
ப்ரராம்ஹணனையாவது புஜிக்கச் செய்யவும். அவ்விதமே,
அத்ரி:- ஆசௌசத்தின் முடிவில் 11-ஆவது தினத்தில்
ப்ரேதனுக்காக 10-ப்ரராம்னர்களுக்கு போஜனம்
செய்விக்கவும். ஆத்ய சராத்தத்திற்காக ஒரு
ப்ரராம்ஹணனையும் புஜிப்பிக்கவும். பிதாவினுடைய
வஸ்தரம், அலங்காரம், படுக்கை, வரஹநம்,
முதலியவைகளை சராத்தத்தில் புஜித்தவனுக்கு, கந்த
புஷ்பங்களால் பூஜித்துக் கொடுக்கவும். சக்தி இல்லாதவன்
ஒரு ப்ரராம்ஹணனைப் புஜிப்பித்து, யதாக்கஞ் தக்ஷினையைக்
கொடுக்கவும்.

एकोद्दिष्टस्वरूपनिरूपणम् ।

एकोद्दिष्टस्वरूपमाह याज्ञवल्क्यः — एकोद्दिष्टं दैवहीन
मेकाघ्यैकपवित्रकम् । आवाहनाग्रौकरणरहितं हृपसव्यवत् ।
उत्तिष्ठतामित्यक्षयस्थाने विप्रविसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेत्
ब्रूयुस्तेऽभिरताःस्मह इति । एक उद्दिष्टो यस्मिन् श्राद्धे
तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम् । दैवहीनम् - विश्वेदैवरहितम्,

एकार्ध्य - एकार्ध्यपात्रम्, एकपवित्रकं - एकदर्भपवित्रं च,
 आवाहने अग्नौकरणे होमेन च समन्वयेण रहितम्, अपसव्यवत्
 - प्राचीनावीतब्रह्मसूत्रवत् । अक्षयोदकस्थाने उत्तिष्ठतामिति
 वदेत् । विप्रविसर्जने अभिरम्यतामिति ब्रूयात् । ते चाभिरताः स्मः
 इति ब्रूयुरित्यर्थः ।

ஏகோத்திஷ்ட ஸ்வரூபம்.

ஏகோத்திஷ்ட ஸ்வருபத்தைச் சொல்லுகிறார், யாக்ஞவஸ்க்யார்:- ஏகோத்திஷ்டம் எனும் கர்மம் சொல்லப்படுகிறது. ஒருவனே உத்தேசயன் ஆகியதால் ஏகோத்திஷ்டம் என்று இக்கர்மத்தின் நாமதேயம். அது விச்வதேவ வரணம் இல்லாதது. அதில் அர்க்யபாத்ரம் ஒன்று. ஒரு தர்ப்பத்தால் செய்யப்பட்ட பவித்ரம். ஆவாஹநம், அக்னெளகரணம் இவைகள் மந்த்ரத்துடனில்லை. ப்ராசிநாவீதத்துடன் கூடியது. அக்ஷய்யோதக ஸ்தானத்தில் உத்திஷ்டதாம் என்று சொல்லவும். ப்ராம்ஹணனை அனுப்பும் பொழுது, ‘அபிரம்யதாம்’ என்று சொல்லவும். ப்ராம்ஹணர்கள் ‘அபிரதா:ஸ்மி:’ என்று சொல்ல வேண்டும் என்று பொருள்.

पराशरः — आवाहनक्रियादैवनियोगरहितं हि तत् । एकोऽर्धस्तत्र दातव्यस्तथैवैकपवित्रकम् । प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु । प्रश्नश्च तत्राभिरतिर्यजमानद्विजन्मनाम् इति । पञ्चतौ — एकमुद्दिश्य यत् श्राद्धमेकोद्दिष्टं हि कीर्त्यते । एकादशेऽहि मध्याहे तत् कर्तव्यं विधाय च । पिण्डमेकं प्रदातव्यं आशौचं चाप्रदानतः । एकादशे न कुर्बाति दानहोमादिकं तपः इति ।

பராசரர்:- அது, ஆவாஹநம், தேவவரணம் இவை இல்லாதது. அர்க்யம் ஒன்றே. பவித்ரம் ஒன்றே. பிண்ட தானத்தைச் செய்ய வேண்டும். ப்ராம்லைணர்கள் புஜித்த பிறகு. யஜமாநன் ப்ராம்லைணர்கள் இவர்களுக்கு

ப்ரச்னமும் உத்தரமும் அபிரதி சப்தத்தால். பத்துதியில்:- ஒருவனை உத்தேசித்துச் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் ஏகோத்திஷ்டம் எனப்படுகிறது. 11-ஆவது நாளில் மத்யாஹ்னத்தில் அதைச் செய்ய வேண்டும். செய்து ஒரு பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். பிண்டப்ரதானம் வரையில் ஆசௌசம் உண்டு. 11-ஆவது நாளில் ஜபஹோமங்கள் முதலியதையும், தபஸ்ஸையும் செய்யக்கூடாது.

स्मृत्यन्तरे — आद्यश्राद्धनिमित्तं तु एकमेकादशोऽहनि ।
प्रेतार्थं सूतकान्ते तु ब्राह्मणान् भोजयेदवा । अशक्त एकं सम्भोज्य
शक्त्या दद्याच्च दक्षिणाम् । हिरण्यं मेदिर्णीं गां च वस्त्राणि विविधानि
च । यद्यदिष्टतमं लोके गन्धाश्च कुसुमानि च । शय्याऽप्युपानहौ छ्रं
यद्भुक्तं मृत्युकालतः । यदिष्टं जीवितस्य स्यात्तद्यात्तस्य यत्ततः ।
तं विसृज्य द्विजं भुक्तं स्नायादनवलोकितः । श्राद्धं कुर्याद्यथाकालं
सपिण्डीकरणं तथा इति ।

மற்றிருந்து ஸ்ம்ருதியில்:- ஆத்ய ச்ராத்தத்திற்காக, 11-ஆவது நாளில் ஒரு ப்ராம்ஹணனை ப்ரேதத்திற்காகவும், ஆசௌச நிவருத்திக்காக, 10-ப்ராம்ஹணர்களையும் புஜிப்பிக்கவும். சக்தி இல்லாதவன் ஒரு ப்ராம்ஹணனைப் புஜிக்கச் செய்து, யதாசக்தி தக்ஷினையைக் கொடுக்கவும். ஸ்வர்ணம், பூமி, பசு, பல வஸ்தரங்கள், இஷ்டமான வஸ்துக்கள், கந்தங்கள், புஷ்பங்கள், படுக்கை, பாதுகை, குடை இவைகளையும், மரண காலத்தில் அவனுல் அநுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துக்களையும், அவன் பிழைத்திருந்த காலத்தில் எது இஷ்டமான வஸ்துவோ அதையும் கவனமாய்க் கொடுக்க வேண்டும். புஜித்த ப்ராம்ஹணனை அனுப்பிய பிறகு அவனைப் பாராமல் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். விலூரித காலத்தில் ஸபிண்ணகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

बोधायनः — अथेकोहिष्टे तु नाग्नौकरणं नाभिश्रवणं न पूर्वं न दैवं न धूपं न दीपं न स्वधानमस्कारौ इति । रत्नावल्याम् — अनुज्ञा द्विगुणा दर्भा जपादि स्वस्तिवाचनम् । पितृशब्दः स सम्बन्धः शर्मशब्दस्तथैव च । पात्रालम्भोपपात्रं च उल्मुकोल्लेखनादिकम् । पितृप्रश्नः सविकरः शैषप्रश्नस्तथैव च । प्रदक्षिणं विसर्गश्च सीमान्तगमनं तथा । अष्टादश पदार्थश्च प्रेतश्राद्धे विसर्जयेत् इति ।

पोतायनारः:- एकोत्तिष्ठत्तिलं अक्णीयिलं लेन्हामम् इुल्लैः अपिचरवणम् इुल्लै, पुर्वम् इुल्लै, तेतवम् इुल्लै, तूपम् इुल्लै, त्रिपम् इुल्लै, स्वताचप्तम् इुल्लै, नमस्कारम् इुल्लै. **रत्नवणीयिलः**:- अनुक्णेन, इरण्टाय मष्टित्त तरप्पन्कलं, ज्ञपम् मुत्तियतु, स्वस्तिवाचनम्, सम्पन्तत्तुटनं कृष्टिय पित्तरु चप्तम्, सर्म चप्तम्, पात्रत्तत्तेतत्त तेतात्तुवतु, उपपात्रम्, उलं मुकम्, किरुवतु मुत्तियतु, पित्तरु प्रस्त्रनम्, विक्रिरम्, चेष्ट प्रस्त्रनम्, प्रतक्षिणाम्, विशर्जनम्, लैमान्तकमनम् एन्नं इन्त 18-विष्यनंकला प्रेरत्तक्षरात्तत्तिलं वर्जीक्क वेण्टुम्.

स्मृत्यर्थसारे — श्रोत्रियं वेदविद्विप्रं तदहरेव नियोजयेत् । तत्रैव इमश्रुकमर्णि स्नानमभ्यज्य कारयेत् । एकोहिष्टे भवेदेक उद्देशयो ब्राह्मणस्तथा । अर्घ्यपात्रं भवेदेकं पाणावेकाहुतिभवेत् । एकः पिण्डो भवेत्तस्मिन् तदहरेव निमन्त्रणम् । दैवं धूपं तथा दीपं स्वधाशब्दं च वर्जयेत् इति । तदहरेव - तस्मन्नेवाहनि, निमन्त्रणं कुर्यात् । प्रेतकार्येषु सर्वत्र सद्य एव निमन्त्रणम् । पितृकार्येषु सर्वेषु पूर्वेषु: स्यान्विमन्त्रणम् इति स्मृतेः । पाणावेकाहुतिरिति पाणिहोम-विधानात् आवाहनाग्नौकरणरहितमित्यग्नौ होमनिषेधः ।

ஸ்மிருதி முக்தாபலம் - ப்ராத்த காண்டம் - பூர்வ பாகம்
 வேதஜ்ஞனுமான ப்ராம்ஹணை அன்றைக்கே வரிக்கவும்.
 அன்றைக்கே வபநத்தையும் அப்யஞ்ஜன ஸ்நானத்தையும்
 செய்விக்கவும். ஏகோத்திஷ்டத்தில் உத்தேச்யன் ஒருவன்,
 ப்ராம்ஹணனும் ஒருவன். அர்க்ய பாத்ரம் ஒன்று.
 பாணியில் (கையில்) ஒரே ஆஹாதி, பிண்டம் ஒன்று.
 அன்றைய தினத்திலேயே ஆமந்த்ரணம். தைவ வரணம்,
 ஊபம், தீபம் ஸ்வதா சப்தம் இவைகளை வர்ஜிக்கவும்''
 என்று அன்றே நிமந்த்ரணம் - அந்தத் தினத்திலேயே
 ப்ராம்ஹணை வரிக்க வேண்டும். 'ப்ரேத கார்யங்கள்
 எல்லாவற்றிலும் அன்றே வரணம். பித்ரு கார்யங்கள்
 எல்லாவற்றிலும் முதல் நாளில் வரிக்க வேண்டும்' என்று
 ஸ்மர்த்தி இருப்பதால். 'பாணியில் ஒரு ஆஹாதி
 விதிக்கப்படுகிறது' என்று விதி இருப்பதால். 'ஆவாஹ
 நாக்கெளாகரணங்களில்லை' என்றதில் அக்னியில் ஹோமம்
 நிவேஷதிக்கப்படுகிறது.

தथாऽஸ்தலாயநகாரிகா — சருமுத்துத்யாஜ்யஸிக்தமஞ்
 மேக்ஷணாருணா । ஹஸ்தவாந஧மேண தூண்ணி ஹுத்வாऽஹுதி ஦ியம् ।
 ப்ரேதார்஥விப்ரஹஸ்தே தூண்ணி ஜுஹாது, பித்ரார்஥விப்ரஹஸ்தே து ஸமந்தகமேவ,
 பிதுயஜாஹுதிஂ பாணை ஜுஹாநமந்தபூர்வகம் இதி வழக்மனுஸ்மரணாது ।
 தறைகோஹிடை பாணை ஹுதமஞ் ந பிராஶ்நியாது, கிந்து லௌகிகாங்கை
 பிரக்ஷிபேது । தथா பாரிஜாதே — ஹஸ்தே ஹுத் து நாஶ்நியாடவா
 முக்த்வாऽநுமாஸிகம் । அங்கை பிரக்ஷேபண் கார்ய ஸபிண்டிப்ரேதகர்மஸு இதி ।

ஆச்சவலாயன காரிகை:- “சுரு வை எடுத்து,
 ஆஜ்யத்துடன் சேர்ந்த அன்னத்தை மேக்ஷணதாருவினால்,
 பாணியில் அவதரந் தர்மத்தால், மந்த்ரம் இல்லாமல்
 இரண்டு ஆஹாதிகளைச் செய்து” என்கிறது. ப்ரேதார்த்த
 ப்ராம்ஹணனின் கையில் மந்த்ரம் இல்லாமல் ஹோமம்
 செய்யவும். பித்ரர்த்த ப்ராம்ஹணனின் கையில்

ମନ୍ତରତ୍ତ୍ଵଟାଙ୍କ ଉଟନେୟେ ଚେଯ୍ୟବୁମ୍.
 ‘ପିତ୍ରୁଯକ୍ରନ୍ଗାହୁ-ତିଷ୍ଯେ ପାଣୀଯିଲି ମନ୍ତରପ୍ରୁର୍ବମାୟ
 ହୋମମ୍ ଚେଯ୍ୟବୁମ୍’ ଏଣ୍଱ରୁ ବୁରୁତ୍ତମାନୁ ସମ୍ଭରୁତି ଉଳ୍ଳାତୁ.
 ଅନ୍ତ ଏକୋତ୍ତିଷ୍ଟତ୍ତ୍ଵିଲ୍ ପାଣୀଯିଲି ହୋମମ୍
 ଚେଯ୍ୟପପଟ୍ଟ ଅନ୍ତତ୍ତ୍ଵପାତ୍ର ପୁଜୀକଳାକାତୁ.
 ଲେଳାକିକାକଣୀଯିଲି ପୋଟ ବେଣ୍ଣୁମ୍. ପାରିଜ୍ଞାତତ୍ତ୍ଵିଲ୍:-
 ପ୍ରତ୍ୟାପତ୍ତିକମ୍, ଅନ୍ତମାଳିକମ୍, ତବିରତ୍ତ ମନ୍ତର
 ଚରାତ୍ତନ୍ତଙ୍କଳିଲି, ପାଣୀଯିଲି ହୋମମ୍ ଚେଯ୍ୟପପଟ୍ଟ
 ଅନ୍ତତ୍ତ୍ଵପାତ୍ର ପୁଜୀକଳାକାତୁ. ଲ୍ପିଣ୍ଣକରଣମ୍, ପ୍ରେତ
 ଚରାତ୍ତନ୍ତଙ୍କଳ ଇଲେବକଳିଲି; ଅନ୍ତ ଅନ୍ତତ୍ତ୍ଵା ଅକ୍ଣିଯିଲି
 ପୋଟବେଣ୍ଣୁମ୍.

अत्र बोधायनः — अथैकोद्दिष्टादित एव प्राचीनावीतं
 कृत्वा दक्षिणाप्रत्यक्षप्रबणे स्थण्डिलं कल्पयित्वाऽद्विरबोक्ष्याग्निं
 प्रतिष्ठाप्य इति । तत्रैव — अथैनं पृच्छति करिष्यामीति कुरुष्वेती-
 तरः प्रत्याह अथाभ्यनुज्ञातो दव्यामुपस्तीर्य सर्वस्मात् सकृत्सकृत्
 समवदायाभिधार्य दक्षिणतो भस्ममिश्रानज्ञारानिरूप्त्वा तेषु जुहुयात्
 प्रेतायामुष्मै यमाय च स्वाहेति तद्वत्महतं च भवति इति ।

ଇତିଲି ପୋତାଯନାର୍:- ‘ଏକୋତ୍ତିଷ୍ଟନ୍ତଙ୍କଳିଲି
 ଆରମ୍ଭପତ୍ତିଲେୟେ ପ୍ରାଚୀନାବୀତମ୍ ଚେଯ୍ୟତୁ କୋଣ୍ଟୁ,
 ତେଣମେରଂ କୁ ତିଷ୍ଯେ ତାମ୍ଭନ୍ତୁଳି ଇଟତ୍ତିଲି
 ଲେଲାବ୍ରତତ୍ତ୍ଵକରି କରିପାତକି କରିବାକାଳି ପ୍ରୋକଷିତତୁ,
 ଅକ୍ଣିଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଟାନ ଚେଯ୍ୟତୁ’ ଏଣ୍଱ରୁର. ଅତିଲେୟେ:-
 ‘ପିନ୍ଧକୁ ପ୍ରାମମହଣେଜେକ କେଟକବୁମ୍ ‘କରିଷ୍ୟାମି’ ଏଣ୍଱ରୁ,
 ‘କୁରୁଷ୍ଵ’ ଏଣ୍଱ରୁ ପ୍ରାମମହଣେଜେନ ପ୍ରତିବଚନମ୍. ପିନ୍ଧକୁ
 ଅନୁକ୍ରନ୍ତ ଚେଯ୍ୟପପଟ୍ଟବଣ ତାରବିଯିଲି ଉପଲ୍ବଦ୍ଧିତତୁ,
 ଲେଲାବ୍ରତରିଣିନ୍଱ରୁମ୍ ଓବିବୋରୁ ମୁଖେ ଏକୁତ୍ତି ବୈତ୍ତତୁ,
 ଅପିକାରମ୍ ଚେଯ୍ୟତୁ, ଅକ୍ଣିଯିନ ତେନ୍ତକେଇତ୍ ତଣିଯାଯି ଓତୁକ୍କି
 ଅବୈକଳିଲି ‘ପ୍ରୋତୋଯାମୁଷ୍ମମେ ଯମାଯଚ ଲୁଵାହା’
 ଏଣ୍଱ରୁ ହୋମମ୍ ଚେଯ୍ୟବୁମ୍. ଅବଲିତମ୍ ଚେଯ୍ୟତୁ ହୋମମ୍

செய்யப்பட்டதாயும், ஹோமம் செய்யப்படாததாயும் ஆகிறது" என்று உள்ளது.

ஸ்மृत்யந்தரே — ஏகாடஹீ மध்யாहே ஏகோடிஷ்ட் கृதं ச யत् । பிரேतஸ்யேவ யமஸ்யாபி ஦ியोः பிரிதிகரं ஭வेत् இதி । ஏகோடிஷ்டப்ரயोगஸ்து-
ஸ்வஸ்வங்கூத்துப்ரகாரா இஷ்வः, ஆபஸ்தம்஬ாதிமிருஞ்சே பிரயாரே து
போதாயனாக்தஸ்து அஶ்ரயணியः । ஸ்வஸ்தோடவிதமானே து பரஸ்துஷே
வர்த்தே । போதாயனமதஂ கृத्वा ஸ்வஸ்துஷலமாக்஭வेत् இதி நியமாத् ।

மற்றிரு ஸ்மிருதியில்:- 11-ஆவது நாளில்,
மத்யாஹ்னத்தில் செய்யப்பட்ட ஏகோத்திஷ்டம் ப்ரேதன்,
யமன் என்ற இருவருக்கும் த்ருப்திகரம் ஆகிறது.
ஏகோத்திஷ்ட ப்ரயோகத்தை அவரவர் க்ரஹ்யத்திற்
சொல்லியபடி அறிந்து கொள்ளவும். ஆபஸ்தம்பர்
முதலியவர்களால் ப்ரயோகம் சொல்லப்படாத
விஷயத்திலோ வெனில், போதாயனர் சொல்லியதை
க்ரஹி க்கவும். 'தனது ஸ்த்ரம் இல்லாவிடில்,
அன்யலுத்ரத்தால் செய்யவும். போதாயன ஸ்த்ரத்தை
அவலம்பித்துச் செத்தால், தனது ஸ்த்ரத்தால் செய்த
பலனை அடைவான்' என்று நியமம் இருப்பதால்.

அது நூதனமாண்டேஷு பாகமாஹ வைகானஸः - ஸுதகப்ரே-
கயோர்ப்பித்வா புராணானி மூந்மயானி ஭ாண்டானி த்யக்த்வா நவானி
பரிணங்க பாச்சியித்வா ஶாஞ்ச் குர்யாத் இதி । அர்஘்யாடிஸ்த்காரே மோஜனே ச
ப்ரேதார்஥ாக்ஷனः ப்ரத்யங்குஷோ நிவேஶனியः । தथா ஗ௌதமः —
஦க்ஷிணாஶ்ரேஷு ஦ம்஭ேஷு ப்ரேதார்஥ ஏக் விப்ர ப்ரத்யங்குஷ நி஧ாய இதி । வைகானஸே
— தில ஦ம்பஸ்துதே விஷ்டே ப்ரத்யங்குஷ மாஸாடயேகோடிஷே இதி ॥

இதில், புதிய பாண்டங்களில் பாகம் செய்ய
வேண்டும் என்றார் வைகாநஸர்:- ஜநநாசெளாச
மரணேசெளசங்களில் வபநம் செய்வித்து, பழைய
மண்பாண்டங்களைப் பரிஹரித்து, புதிய பாண்டங்களை

க்ரஹி தத்து, பாகம் செய்வித்து சராத்தத்தைச் செய்யவும். அர்க்கம் முதலிய உபசாரத்திலும், போஜநத்திலும், ப்ரராம்ஹணனை மேற்கு முகமாய் ஸ்தாபிக்க வேண்டும். அவ்விதம், கெளதமர்ஃ:- ‘தெற்கு நுனியாயுள்ள தர்ப்பங்களில் ப்ரேதனுக்காக ஒரு ப்ராம்ஹணனை மேற்கு முகமாய் அமர்த்தி’ என்றார். வைகாநஸத்தில்:- தினங்களாலும், தர்ப்பங்களாலும் பரப்பப்பட்ட ஆஸந்ததில் மேற்கு முகமாய் அமர்த்தவும். ஏகோத்திஷ்டத்தில்.

सुन्दरराजीयै — प्राञ्जुखौ विश्वेदेवावुदञ्जुखान् प्रागन्तान् पितृन्
 प्रत्यञ्जुखं प्रेतमासादयेत् इति । प्रत्यञ्जुखं निमित्तं निवेश्येति सरण्यादौ
 च दर्शनात् प्रत्यञ्जुखत्वमैव तस्य सिद्धम् । एकोद्दिष्टे तु यन्द्वोक्तुरभोज्यं
 शिष्ट भोजनम् । चन्द्रसूर्योपरागे च शिष्टमन्बं च वर्जयेत् इत्यादिना
 एकोद्दिष्टशिष्टान्ननिषेधात् नात्र शेषाभ्यनुज्ञा कार्या । मनुः —
 असपिण्डक्रियाकर्म द्विजादेः संस्थितस्य तु । अदैवं भोजयेच्छाद्वं
 पिण्डमेकं तु निवेपेत् इति । असपिण्डक्रियाकर्म - सपिण्डीकरणात्
 प्राक् श्राद्धकर्मेति यावत् । तदेकोद्दिष्टविधिना कृत्वा एकपिण्डं च दत्त्वा
 तदप्सु विवर्जयेत् ।

ஸாந்தரராஜீயத்தில்:- விசுவேதேவர்களைக் கிழக்கு முகமாகவும், பித்ருக்களை வடக்கு முகமாய்க் கிழக்கில் முடியும்படியாகவும், ப்ரேதனை மேற்கு முகமாகவும் அமர்த்தவும், 'ப்ரேதனை மேற்கு முகமாய் அமர்த்தி' என்று ஸரணி முதலிய கரந்தங்களில் காணப்படுவதால், ப்ரேதனுக்கு மேற்கு முகமாய் இருப்பது என்பது ஸித்தித்தது. "ஏகோத்திஷ்டத்தில் புஜித்தவனின் மீதியான அன்னம் புஜிப்பதற்கு அர்ஹமல்ல. சந்தரஸமர்ய கரஹனங்களிலும் மீதியள்ள அன்னத்தையும் வர்ஜிக்கவும்" என்பது முதலிய வசநங்களால், ஏகோத்திஷ்ட சிஷ்டான்ன பேரஜநத்திற்கு நிவேஷதம்

இருப்பதால், ஏகோத்திஷ்டத்தில் சிஷ்டமான அன்னத்தைப் புஜிப்பதற்கு அனுக்ஞ செய்யத்தக்கது அல்ல. மனு:- “ப்ரேதனை ப்ராம்ஹணன் முதலியவர்க்கு, ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய வேண்டும். விச்வேதேவ வரணம் இல்லாமல் புஜிப்பிக்கவும். ஒரு பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும்.” மூலத்திலுள்ள, அஸபிண்டக்ரி யாகர்ம் என்பதற்கு, ஸபிண்டகரணத்திற்கு முன் செய்யும் ச்ராத்த கர்மம் என்பது பொருள். அதை ஏகோத்திஷ்ட விதியினால் செய்து, ஒரு பிண்டத்தைக் கொடுத்து, அதை ஜலத்தில் விட வேண்டும்.

पितृमेधसारे — भुक्तशिष्टमनं पिण्डं सर्वाणि
दर्भहोमपात्राणि चाप्सु प्रक्षिप्य स्नात्वा गृहं समेत्य पुण्याहं वाचयेत्
इति । बोधायनः - एकोद्दिष्टान्त एव स्यात् संस्कर्तुः शुद्धता
त्वघात् । पिण्डोदकप्रदानेन पुण्याहोक्त्या विशुद्धच्यति इति । अत्र
ब्राह्मणालाभे लौकिकाश्चिं प्रतिष्ठाप्य दक्षिणामुखः ‘यमाय
सोमश्च सुनुत’ इत्यृचा घृतमिश्रेण पायसेन ग्राससंमिता
द्वात्रिंशदाहुतीः हस्तेन जुहुयात् ।

பித்ருமேத ஸாரத்தில்:- போஜன சிஷ்டமான அன்னம், பிண்டம், தர்ப்பம், ஹோமபாத்ரங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் ஜலத்தில் போட்டு ஸ்நானம் செய்து, வீட்டிற்கு வந்து புண்யாஹுவாசனம் செய்யவும். போதாயனர்:- ஸம்ஸ்காரம் செய்தவனுக்கு ஆசௌசத்தினின்றும் சுத்தி, பிண்டோதகங்களைக் கொடுத்து, ஏகோத்திஷ்டத்தை முடித்த பிறகு தான் ஆகும். பிறகு புண்யாஹுவாசநத்தால் சுத்தஞ்சிருன். இந்த ஏகோத்திஷ்டத்தில் ப்ரராம்ஹணன் கிடைக்காவிடில், வெளிகாக்னியை ப்ரதிஷ்டை செய்து, தெற்கு நோக்கியவனும், 'யமாய்லோமம்-ஸாநுத' என்ற ருக்கினால், நெய்யுடன் கூடிய பாய்லான்னத்தால், கபளா

प्ररमाणमाकिय 32- आहू- अंति कौलोकं कैव्यालं लेहाममं
चेचय्यवुम्.

आवृत्ताघमासिकम्

एवमिदमाद्यं स्वतन्त्रैकोद्दिष्टं ब्राह्मणेऽग्नौ वा कृत्वा पुनरपि
ब्राह्मणे कर्तव्यम् । तथा च स्मृत्यन्तरे — एकादशोऽहि सम्प्राप्ते
विप्राभावे कथं भवेत् । पायसं घृतसंमिश्रं हस्तेन ग्राससंमितम् ।
यमाय सोममित्येव द्वात्रिंशत् जुहुयाच्चरुम् । अधर्युर्वर्गयतो भूत्वा
प्रसव्यं दक्षिणामुखः । श्राद्धसिद्धिमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा
इति । काइयपः — एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्ते विप्राभावे कथं भवेत् ।
आवाह सुसमिद्देऽग्नौ पायसं जुहुयाद्विः । पौरुषेण तु सूक्तेन
त्वावृत्या ग्राससंमितम् । अभ्यर्च्य गन्धवस्त्रादैरुदकुम्भं च
दक्षिणाम् । ततः स्त्रात्वा पुनश्चाद्यं कुर्यात् ब्राह्मणेऽर्बुधः इति ।
परितोऽग्निं गन्धादैरभ्यर्च्य दक्षिणामुदकुम्भश्चाग्निसमीपे निधाय
तानि च ब्राह्मणेभ्यो दद्यादित्यर्थः ।

अुवंरुत्तत्तात्त्य मालिकम्

இவ்விதம், இந்த ஆத்யமான ஸ்வதந்த்ரர
கோத்திஷ்டத்தை ப்ராம்ஹணன் இடத்திலாவது,
அக்னியிலாவது செய்து, மறுபடியும் ப்ராம்ஹணனிடத்தில்
செய்ய வேண்டும், அவ்விதமே, ஒரு ஸ்ம்ருதியில்:-
11-ஆவது நாளில் ப்ராம்ஹணன் கிடைக்காவிடில் என்ன
செய்வது ? நெய்யுடன் கூடிய பாயஸான்னத்தைக்
கையால், கபள ப்ரமாணமாய் 'யமாயலோமம்' என்ற
மந்த்ரத்தால் 32-ஆஹ-அநிகளைச் செய்ய வேண்டும். கர்த்தா
மெளனியாயிருந்து, ப்ராசினைவீதியாய், தெற்கு
நோக்கியவாய் லோமம் செய்யவும். ச்ராத்த லித்தியை
அடைகிறுன். இவ்விஷயத்தில் ஸந்தேஹப்பட
வேண்டாம். காசயபர்:- “ஓகோத்திஷ்டம் ப்ராப்தமாகிய

பொழுது, ப்ராம் ஹனன் இல்லாவிடில் எப்படிச் செய்வது? நன்றாய் ஜ்வலிக்கும் அக்னியில் ஆவாஹனம் செய்து, பாயஸான்ன ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவும். புருஷ ஸமக்தத்தால் ஆவ்ருத்தியால், கபள ப்ரமாண ஆஹாதிகளைச் செய்யவும். கந்தம், வஸ்த்ரம் முதலியவைகளால் பூஜித்து, உதககும்பம் தக்ஷிணை இவைகளைக் கொடுக்கவும். பிறகு ஸ்நானம் செய்து, மறுபடி ஆத்ய ச்ராத்தத்தை, ப்ராம் ஹனர்களைக் கொண்டு செய்யவும்.” அக்னியின் நான்கு பக்கங்களிலும் கந்தம் முதலியவைகளால் பூஜித்து, தக்ஷிணையையும், உதக கும்பத்தையும் அக்னியின் ஸமீபத்தில் வைத்து அவைகளை ப்ராம் ஹனர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது பொருள்.

चन्द्रिकायां तु — एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्ते विप्राभावे कथं
भवेत् । उदीरतामिति मन्त्रैर्जुह्यात् घृतपायसम् । स्वगृहोक्त-
विधानेन सूक्तेन पुरुषस्य वा इति । उदीतारमवर उत्परास
इत्यादीना मष्टानां क्रचां चतुरावृत्या द्वात्रिंशदाहुतयो भवन्ति ।
पुरुषसूक्तस्य षोडशर्चस्य द्विरावृत्या तथा भवन्ति ।
यथास्वकुलाचारमिह मन्त्रव्यवस्था ।

சந்தர்ரிகையிலோவெனில்:- “ஏகோத்திஷ்டம் ப்ராப்தமாய் இருக்கும் பொழுது ப்ராம் ஹனன் இல்லாவிடில் எப்படிச் செய்வது? ‘உதீரதாம்’ என்பது முதலிய மந்த்ரங்களால் நெய் கலந்த பாயஸத்தை தனது க்ருஹ்யத்தில் சொல்லிய விதியால் ஹோமம் செய்யவும் அல்லது புருஷ ஸமக்தத்தால் ஹோமம் செய்யவும்” என்று உள்ளது. ‘உதீரதாம்’ என்பது முதலிய எட்டு ருக்குகளை, நாலு தடவை ஆவ்ருத்தி செய்தால் 32-ஆஹாதிகள் ஆகின்றன. புருஷ ஸமக்தத்தின் 16-ருக்குகளை 2-தடவை ஆவ்ருத்தி செய்தால் 32-ஆஹாதிகள் ஆகின்றன. அவரவர் குலாசாரப்படி மந்த்ர வ்யவஸ்தையை அறியவும்.

तत्र पिण्डदानमुक्तं श्रीधरीये — एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्ते
विप्राभावे हुते सति । पिण्डमेकं प्रदातव्यमाशौचं चाप्रदानतः इति ।
तत्र गौतमः — ब्राह्मणं भोजयेदाद्ये होतव्य मनलेऽपि वा । पुनश्च
भोजयेद्विप्रं द्विरावृत्तिर्भवेदिह इति । व्यासोऽपि — सूतकान्ते नरः
कुर्यादिकोद्दिष्टद्वयं बुधः । ब्राह्मणं भोजयेदाद्ये होतव्यमनलेऽपि वा ।
(पुनश्च भोजयेद्विप्रं द्विरावृत्तिर्भवेदिति) पुनश्च भोजयेद्विप्र
मावृत्तिद्वयसिद्धये इति । कालादर्शोऽपि — आदश्राद्धं द्विजेऽग्नौ वा
कुर्यात् पुनरपि द्विजे इति ।

अतिलं पिण्णटताऩम् चेऽल्लप्पत्तु उल्लातु.
ग्रीत्यार्यत्तिलः- ऋकेऽत्तिष्ठात्म प्रराप्तमाय इरुक्कुम
पोतु, प्रराम्भृणन्न इल्लाविष्टिल, लेहामम् चेय्ताल,
ऋग् पिण्णटत्तत्तेकं केकाटुक्कवुम्. अतु वररयिल
आुचेळाचम् उण्णु. अतिल, केळात्मारः- आत्य स्रात्तत्तिल,
प्रराम्भृणैनाप् पूज्ञिप्पिक्कवुम्. अक्कियिलावतु
लेहामम् चेय्यवुम्. मरुपाति प्रराम्भृणैनाप्
पूज्ञिप्पिक्कवुम्. इतिल इरண्णु तटवै आवरुत्तियाक
वेण्णुम्. व्यासारुमः- अर्निन्तवै आुचेळात्तिल्ल
मुष्टिल इरण्णु ऋकेऽत्तिष्ठात्तत्तेक्कं चेय्यवुम्.
मुतलिल प्रराम्भृणैनाप् पूज्ञिक्कक्कं चेय्यवुम् अल्लतु
अक्कियिल लेहामम् चेय्यवुम्. मरुपाति प्रराम्भृणैनाप्
पूज्ञिक्कक्कं चेय्यवुम्. २-तटवै चेय्वत्तरंकाक.
कालात्मार्चत्तिलुमः- आत्य स्रात्तत्तत्तेत
प्रराम्भृणैनीटत्तिलावतु, अक्कियिलावतु चेय्यवुम्.
मरुपाति प्रराम्भृणैनीटत्तिल चेय्यवुम्.

सापिण्डचात् प्राङ्गासिकानि स्वस्वकाले कृतानि तु । न
पुनस्तानि वै कुर्यादकृतानि पुनश्चरेत् इति गर्गस्मरणात्
कथमाद्यैकोद्दिष्टावृत्तिरिति चेन्न, तद्वचनस्य द्वादशाहृति-
रिक्तकाले कर्तव्यसापिण्डचिष्यत्वात् । ननु, द्वादशाहृ-

சாபிண்஢வே^१ பி தस्य பூर்வமாவித்வேன ஸ ஦ோஷஸ்தदவஸ்஥ இதி சேந, தஸ்ய
ஸர்வா சாபிண்஢வாத् பூர்வமாவித்வே^२ பி அர்வாக் ஸ வந்தஸ்ராத்யஸ்ய
ஸபிண்஢ிகரண் குதம் । ஷோ^३ ஜானாந் ஦்விராவृத்திஂ குர்யாடித்யாஹ ஗ௌதம:
இத்யாவृத்திஸ்மரணாத्, ஏகாடங்கே குதானாந் து மாஸிகானாந் புன: குதி: ।
ஸூதகாந்தே நர: குர்யாடிகோ^४ ஦ிஷ்டத்யாந் ஬ுध: । புனஶ ஭ோஜயே^५ திப்ப
஦்விராவृத்திர்வெ^६ ஦ிஹ । ஸபிண்஢ிகரணாந்தை^७ ஦்வா^८ ஜாஹ யதா ஭வே^९ ।
தடா^{१०} பகு^{११} ஷ்ய ரு^{१२} ஜாஹ ஶா^{१३} ஜாந்யே^{१४} வ து ஷோ^{१५} ஜா இத்யாடிஸ்மரணாடார்஥ிகாத்
கண்஠ோக்தே^{१६} வெலி^{१७} யஸ்தா^{१८} ।

“ஸாபின்ட்யத்திற்கு முன் அந்தந்தக் காலத்தில்
செய்யப்பட்ட மாஸிகங்களை, மறுபடி செய்யக்கூடாது.
செய்யப்படாதவைகளை மறுபடி செய்யவும்”, என்ற
கர்கள்ம்ருதி இருப்பதால், ஆத்யைகோத்திஷ்டத்திற்கு
எப்படி ஆவ்ருத்தி? எனில் அது இல்லை. அந்த வகனம்
12-ஆவது நாளைத் தவிர்த்த காலத்தில் செய்யக் கூடிய
ஸாபின்ட்யத்தைப் பற்றியது. 12-ஆவது தினத்தில்
ஸாபின்ட்யம் ஆனாலும் ஆத்யம் ஸாபின்ட்யத்திற்குப்
பூர்வ பரவியானதால், அந்தத் தோஷம் அதே மாதிரி
உள்ளதே? எனில் அது இல்லை: அது எப்பொழுதும்
ஸாபின்ட்யத்திற்கு முன் வருவதாய் இருந்தாலும்,
“எவனுக்கு ஸம்வத்ஸரத்திற்கு உள்ளாகவே
ஸபின்மகரணம் செய்யப்பட்டதோ அவனுக்கு
16-ச்ராத்தங்களுக்கும் இருமுறை அனுஷ்டானத்தைச்
செய்ய வேண்டும் என்றார் கெளதமர்”, என்று ஆவ்ருத்தியை
விதிக்கும் ஸ்ம்ருதி இருப்பதாலும், “11-ஆவது நாளில்
செய்யப்பட்ட மாஸிகங்களை மறுபடி செய்ய வேண்டும்,
ஆசளசத்தின் முடிவில் 2-ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய
வேண்டும், மறுபடி ப்ரராம்ஹணனைப் புஜி^{१९} பிக்கவும்.
இதில் 2-தடவை அனுஷ்டானம். ஸபின்மகரணத்தை
12-ஆவது நாளில் செய்தால், அப்பொழுது 11-ஆவது
நாளில் 16-ச்ராத்தங்களையும் அபகர்ஷித்துச் செய்யவும்”

एनंपतु मुतविय संमर्गुतिकौं इग्रुप्पत्ता॑ल्, अर्त्तत्तत्ता॑ल
वीत्तिप्पत्तेत वीट कण्टोकंत्तमान अर्त्तमं पलीष्टमं
शुनतु.

यत् — आवृत्तिरन्यमास्यानां द्वादशाहे सपिष्टने । तथा
नावर्तयेदाद्यं मले त्वावृत्तिरिष्टते इति, तस्याप्ययमर्थः -
द्वादशाहसापिष्टचे अन्यमास्यानां ऊनमासिकादि पञ्चदशमासिकानां
पुनः सपिष्टचनन्तरं स्वे स्वे काले यथा आवृत्तिः क्रियते, तथा आद्यं
- एकोद्दिष्टं सपिष्टचनन्तरं नावर्तयेत्, किन्तु मलमासे मृतिश्वेत्
द्वादशाहसापिष्टचानन्तरं शुद्धमासे मृततिथौ तदावर्तयेदिति । तच्चाग्रे
वक्ष्यते ।

आगुलं “12-शुवतु नाली॒लं ला॒पी॒ण्ट्यमं चेय्ता॑ल,
पिरकु मर्त्र माली॒कंकै॒ला शुवृ॒त्ति॒ति॒ चेय्य॒ वेण्टु॒म,
शुत्य॒ माली॒क॒त्त॒त्त॒ शुवृ॒त्त॒ति॒ चेय्य॒क॒ कू॒टा॒तु,
मल॒ माल॒त्त॒त्त॒ल॒॒व॒ल॒॒नी॒ल॒ शुवृ॒त्त॒ति॒ चेय्य॒ वेण्टु॒म”
एनं॒ वसनम॒ उ॒ल॒ते॒ ए॒नी॒ल॒, अ॒त्र॒रु॒कु॒म॒ शुवृ॒त्त॒ति॒म
अ॒र्त्त॒त्त॒म॒ “12-शुवतु नाली॒लं ला॒पी॒ण्ट्यमं चेय्य॒म
पो॒तु, अ॒न्य॒ मा॒ल्य॒न्क॒रुक्कु॒ - ऊन॒मा॒ली॒क॒म॒ मुतविय
15-मा॒ली॒क॒न्क॒रुक्कु॒, मरुप॒टि॒ ला॒पी॒ण्टि॒क॒कु॒प॒ पिरकु
अ॒न्त्त॒न्त्त॒क॒ का॒ल॒त्त॒त्त॒ल॒॒ ए॒प्प॒टि॒ शुवृ॒त्त॒ति॒
चेय्य॒प्प॒टु॒क॒िर॒ते॒, अ॒प्प॒टि॒ शुत्य॒त्त॒त्त॒ =
ए॒को॒त्त॒त्त॒त्त॒त्त॒त्त॒ ला॒पी॒ण्टि॒क॒कु॒प॒ पिरकु शुवृ॒त्त॒ति॒
चेय्य॒क॒ कू॒टा॒तु. आ॒गुलं मल॒ माल॒त्त॒त्त॒ल॒॒ म॒रुति॒ शु॒गुलं
क॒त्त॒ माल॒त्त॒त्त॒ल॒॒ म॒रुति॒ तु॒त्त॒यी॒ल॒ अ॒ते॒ शुवृ॒त्त॒ति॒ चेय्य॒
वेण्टु॒म” एनं॒रु अ॒न्त्त॒ वी॒ष्य॒म॒ म॒ेल॒ श॒सा॒ल॒प्प॒टप॒
पो॒क॒िर॒तु.

यदपि जाबालिवचनम् — श्राद्धं कृत्वा तु तस्यैव पुनः श्राद्धं
न तद्विने इति यच्चान्यत् - नैकः श्राद्धद्यं कुर्यात् समानेऽहनि
कस्यचित् इति, तदेकोद्दिष्टव्यतिरिक्तविषयम्, तस्य एकस्मिन्नद्विने

आवृत्तिविधानात् । द्वादशाहेतरकालसापिण्डचे स्वकाले कृतस्य
जनमासिकादेर्न पुनः करणम् — सापिण्डचात् प्राङ्गासिकानि
स्वस्वकाले कृतानि तु । न पुनस्तानि वै कुर्यादकृतानि पुनश्चरेत् इति
गर्गस्मरणात्, अर्वागब्दाद्यत्र यत्र सपिण्डीकरणं कृतम् । तदूर्ध्व-
मासिकानां तु यथाकालमनुष्ठितिः इति काष्णजिनिस्मरणात्,
वत्सरान्ते तु सापिण्डं यश्चिकीर्षति स द्विजः । मासिकानि
यथाकालं कुर्यादेव यथाविधि । त्रिपक्षाद्येषु काले सापिण्डं
यश्चिकीर्षति । अब्दावशिष्टमासानो मपकर्षस्तदा भवेत् । अपकृष्य
कृतानां च यथाकालं पुनः कृतिः इति स्मृतिरत्नेऽभिधानाच्च ।

ஆனால்:- ‘எவனை உத்தேசித்து ச்ராத்தம் செய்தானே, அவனுக்கு அதே தினத்தில் மறுபடி ச்ராத்தம் செய்யக் கூடாது’ என்ற ஜாபாலி வசனம் உள்ளதே, மற்றும் ஒரு வசனம் ‘‘ஒரு கர்த்தா ஒருவனுக்கு ஒரே நாளில் 2-ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது’ என்று உள்ளதே எனில், அது ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைத் தவிர்த்த ச்ராத்தத்தைப் பற்றியது. ஏகோத்திஷ்டத்திற்கு ஒரே தினத்தில் ஆவ்ருத்தி விதிக்கப்பட்டு இருப்பதால். 12-ஆவது தினத்தைத் தவிர்த்த காலத்தில் ஸாபின்ட்யம் செய்யும் விஷயத்தில் ஆத்யைகோதிஷ்டம் ஒன்றே, இரண்டு இல்லை. தரிப்காாதி காலத்தில் ஸாபின்ட்யம் ஆனால் அதன் காலத்தில் செய்யப்பட்ட ஊனமாளிகம் முதலியதற்குப் புன: கரணம் இல்லை. ‘ஸாபின்ட்யத்திற்கு முன் அந்தந்தக் காலத்தில் செய்யப்பட்ட மாளிகங்களை, மறுபடி செய்ய வேண்டியதில்லை. செய்யப்படாதவைகளை மறுபடி செய்ய வேண்டும்’ என்று கர்க் ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ‘வர்ஷத்திற்குள் எந்தெந்தக் காலத்தில் ஸபின்டகரணம் செய்யப்பட்டாலும் அதற்கு மேல் உள்ள மாளிகங்களுக்கு அதனதன் காலத்தில் மறுபடி அனுஷ்டானம் உண்டு’ என்று கார்ஷண ஜினி ஸ்ம்ருதி யினாலும், ‘வர்ஷாந்தத்தில்

सा पीण्ठं यत्तेत्स चेष्य विरुम्पुक्तिरवन्, मालीकंकैलाकं कालत्तेत्स अतिकर्मिक्कामलं वित्तिपपटि चेष्यवुम्. तरीपक्षात्ति कालंकैलं सा पीण्ठं यत्तेत्स चेष्य विरुम्पुक्तिरवन्, मैत्रियौला मालीकंकैला अपकर्वित्तुस चेष्यवुम्. अपकर्वित्तुस चेष्यत मालीकंकैलकु अन्तन्तकं कालत्तिलं मरुपपटि अनुष्टानमं उन्नु' एन्ऱू सम्ग्रुहि रत्नत्तिलं चोलपपट्टु उौलातु.

यत्तु द्वादशाहे कृतानां तु यथाकालं पुनःकृतिः इति, तस्यार्थः - द्वादशाहे कृतानामूनमासिकादीनां पुनःकृतिरिति ॥ एवच्च द्वादशाहे सापिण्ड्ये आदश्राज्ञादिषोडशमासिकानामप्यावृत्तिः, आदस्य तु एकादशाह एवावृत्तिः, इतरेषां तु एकादशाहे द्वादशाहे वा कृतानामूनमासिकादीनां स्वस्वकाले पुनः करणम्, त्रिपक्षे तु सापिण्ड्ये ऊद्धितीययोः स्वकाले कृतयोर्न पुनः करणम् । तदुत्तरभावीनि तु मासिकान्यपकृष्य कृत्वा सपिण्डीकरणात् परमपि स्वस्वकाले पुनः कुर्यात् । एवं त्रिमासादौ सापिण्ड्येऽपि तत्पूर्वं कृतानां नावृतिः, तदुत्तरभाविनामेव पुनःकरणम् । एवं संवत्सरान्ते सपिण्डीकरणे आदश्राज्ञादीनां षोडशानामपि वत्सरान्ते सपिण्डी-करणे आदश्राज्ञादीनां षोडशानामपि मासिकानां कृतानां न पुनः कृतिः ।

'12-आवतु नरौलीलं चेष्यपपट्टवैवकैलकुपि कालपपटि मरुपपटि पुनःकरणमं' एन्ऱू वसनमं उौलातेएनीलं अतरंकु इववित्तमं अर्तत्तमं '12-आवतु नालीलं चेष्यपपट्ट ऊनामालीकमं मुतलीयवैवकैलकुपि पुनःकरणमं' एन्ऱू, इववित्तमं इरुपपतालं, 12-आवतु नालीलं सा पीण्ठं यमं चेष्यमं वीष्यत्तिलं आत्यं चरात्तमं मुतलीय 16-मालीकंकैलकुपि आवरुत्ति, आत्यत्तिलं को वैवनीलं 11-आवतु नालीलेये ताळं

ஆவ்ருத்தி. மற்ற மாஸிகங்களுக்கோ வெனில் 11-ஆவது நாளிலோ, 12-ஆவது நாளிலோ செய்யப்பட்ட ஊனமாஸிகம் முதலியவைகளுக்கு அதனதன் காலத்தில் புந:கரணம். தரிபகுத்தில் ஸாபின்ட்யம் செய்யும் விஷயத்திலோ வெனில், ஊனமாஸிகம், த்விதீய மாஸிகம் இவைகள் ஸ்வகாலத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தால் புந:கரணம் இல்லை. அதற்கு மேல் உள்ள மாஸிகங்களை அபகர்ஷித்துச் செய்து ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகும் அதனதன் காலத்தில் மறுபடி செய்யவும். இவ்விதம் 3-ஆவது மாதம் முதலிய காலத்தில் ஸாபின்ட்யம் செய்தாலும், அதற்கு முன் செய்யப்பட்டவைகளுக்கு ஆவ்ருத்தி இல்லை. அதற்கு மேற்பட்டவைகளுக்கே புந:கரணம், இவ்விதம் வர்ஷத்தின் முடிவில் ஸபின்மகரணம் செய்தாலும் ஆத்ய ச்ராத்தம் முதலிய 16-மாஸிகங்களுக்கும் ஸ்வகாலத்தில் செய்யப்பட்டவை களுக்குப் புந:கரணம் இல்லை.

எதदேவாभिप்ரேत்ய ஗ாலவः — திப்காடிஷு காலேषு ஸாபிண்஡ஞ் யஶிகிரீதி । ஶிஷாநா மாஸிகாநாஶ யथாகாலं புனः கியா இதி । ஗ோமிலः — யस्य ஸஂவத்ஸராத்வாஞ்சிஹிதா து ஸபிண்டதா । வி஧ிவத்தானி குரீத புனः ஶாஞ்சனி ஸோடஶ இதி । அஜ்ஜிராஶ — யஸ்ய ஸஂவத்ஸராத்வாஞ்சு ஸபிண்டிகரண் கृதம् । மாஸிக் ஸோடகும்சம் ச ஦ேயং தஸ்யாபி வத்ஸரம் இதி ।

இவ்விதம் அபிப்ராயத்துடனேயே, காலவார்:- தரிபகும் முதலியகாலங்களில் எவன் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய விரும்புகிறானே அவன் ஸாபின்ட்யத்திற்குப் பிறகு, மீதி உள்ள மாஸிகங்களை அதனதன் காலத்தில் செய்ய வேண்டும், என்றார். கோபிலர்:- எவனுக்கு, வர்ஷத்திற்குள் ஸாபின்ட்யம் செய்யப்பட்டதோ, அவனுக்கு மறுபடி அந்த 16-ச்ராத்தங்களையும் செய்ய வேண்டும். அங்கிரஸ்ஸ-ம்:- எவனுக்கு வர்ஷத்திற்குள்

सपीन्नंकरणम् चेय्यप्पट्टतेऽत्रावनुकूलम्, वर्ष्णम्
मृष्टयम् वररयिल् मालीकम् लोतकुम्पम् इवेवकौशं
चेय्य वेण्णुम्.

विज्ञानेश्वरीये - श्राद्धानि षोडशाकृत्वा न तु कुर्यात् सपिण्डताम्। श्राद्धानि षोडशापाद्य विदधीत सपिण्डनम्। प्रेतसंस्कारकार्याणि यानि श्राद्धानि षोडश। यथाकाले च कार्याणि नान्यथा मुच्यते ततः इति। स्मृत्यन्तरेऽपि — यदा संवत्सरादवर्क्षापिण्डचं कर्तुमिष्यते। आवर्तनं षोडशानां तदा कर्तव्यमेव हि इति। सञ्चहे — स्वकाले तानि कुर्वति सपिण्डीकरणादधः। सापिण्डचेऽबदादधस्तानि कुर्यात् काले स्वके पुनः इति। पैठीनसिरपि — अर्वाक्षिपिण्डीकरणात् कुर्याच्छ्राद्धानि षोडश इति।

वीक्ष्णानेश्वरीयत्तीलः— 16-स्रात्तंत्रंकौशं चेय्यामलं सापीन्नंत्यत्तेत्तच चेय्यकं कूटातु। अवेवकौशं चेय्यते सापीन्नंत्यत्तेत्तच चेय्यवुम्। प्रेरेतनुकूलं सम्बल्कार कार्यान्कालं, 16-स्रात्तंत्रंकौशं इवेवकौशं कालप्पटि चेय्य वेण्णुम्। चेय्यप्पटावीष्टलं प्रेरेत पावत्तिविरुद्धुम् विटुपटुवतिल्लै। मर्त्तिरुद्धुरु सम्भूतीयिल्लूम्:- एप्पेपामुद्देऽत्र वर्ष्णत्तिरुकूलं सपीन्नंकरणत्तेत्तच चेय्य विरुम्पिल्लूल (चेय्यत पिऱकु) 16-मालीकन्कालुकूलम् आव्वरुत्तियेष्ट चेय्य वेण्णुम्। संक्षरण्हत्तीलः— सपीन्नंकरणत्तिरुकूलम् त्रुनं अतनातनं कालत्तिलं मालीकन्कौशं चेय्यवुम्। वर्ष्णत्तिरुकूलं सापीन्नंत्यम् आलुलं, पिऱकु अवेवकौशं अतनातनं कालत्तिलं मरुप्पटि चेय्यवुम्। षेषान्नलीयुम्:- सपीन्नंकरणत्तिरुकूलं मुनं 16-स्रात्तंत्रंकौशयुम् चेय्यवुम्।

पोडशश्चाद्धानि

षोडशश्राद्धान्याह विज्ञानेश्वरः - एकादशे त्रिपक्षे च षण्मासे
मासिकाब्दिके । षोडशैतानि श्राद्धानि संस्मृतानि मनीषिभिः इति ।
एकादशाहे विहितमादश्राद्धम्, एतच्चाद्योनमासिक-
स्याप्युपलक्षणम्, षण्मासे - ऊनषष्मासे विहितमूनषाण्मासिकम्,
मासिकम् - प्रतिमासं मृताहे विहितम् । आब्दिकशब्द
ऊनाब्दिकपरः । तथा जातुकर्णिः - द्वादश प्रतिमास्यानि
ह्याद्यषाण्मासिके तथा । त्रैपक्षिकाब्दिके चेति श्राद्धान्येतानि षोडश
इति । आद्यषाण्मासिकाब्दिकशब्दा ऊनमासिकोनषाण्मासिको-
नाब्दिकपराः । एकादशाहिकेनाद्येन सह द्वादशप्रतिमास्यानि ।

16 ச்ராத்துங்கள்.

16-ச்ராத்தங்களைச் சொல்லுகிறார், விகஞாநேச்வரர்:-
 11-ஆவது நாளிலும், த்ரிபக்ஷத்திலும், 6-ஆவது
 மாஸத்திலும், ஒவ்வொரு மாஸத்திலும்,
 வர்ஷாந்தத்திலும், ச்ராத்தங்கள் வித்வான்களால்
 விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பதினாறு. 11-ஆவது நாளில்
 விதிக்கப்பட்டது ஆத்ய ச்ராத்தம். இது ஆத்யோந
 மாஸிகத்திற்கும் உபலக்ஷணம். 6-ஆவது மாஸத்தில் =
 ஊநஷாண் மாஸத்தில் விதிக்கப்பட்டது ஊநஷாண்
 மாஸிகம். மாஸிகம் = ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் ம்ருதி
 திதியில் விதிக்கப்பட்டது. ஆப்திகம் = ஊநாப்திகம்
 என்பதாம். அவ்விதம், ஜாதுகர்ணீ:- ப்ரதிமாஸம்
 செய்யப்படுவது 12, ஆத்யம், ஷாண்மாஸிகம்,
 தரைபக்ஷிகம், ஆப்திகம் என்ற இவை 16-ச்ராத்தங்கள்.
 மூலத்திலுள்ள, ஆத்ய, ஷாண்மாஸிக, ஆப்திக, என்ற
 பதங்கள், முறையே, ஊநமாஸிகம், ஊநஷாண்மாஸிகம்,
 ஊநாப்திகம் என்ற இவைகளைச் சொல்லுகின்றன.
 11-ஆவது நாளில் செய்யப்படும் ஆத்யத்துடன்
 12-ப்ரதிமாஸ்யங்கள்.

गालवश्च — ऊनषाण्मासिकं षष्ठे मास्यूने ह्यूनमासिकम् । त्रैपक्षिकं त्रिपक्षे स्यादूनाब्दं द्वादशो तथा इति । कालादर्शे — एकादशेऽहि मास्यूने आद्य षष्ठे तथाऽन्तिमे । प्रतिमासं मृतेऽह्यब्दं स्युक्षिपक्षे च षोडश इति । एकादशेऽहि - मरणादेकादशेऽहनि, अब्दशब्दसमभिव्याहारात् अन्तिमशब्देन संवत्सरान्तिमो मास उच्यते । आद्ये मास्यूने, षष्ठे मास्यूने, संवत्सरान्तिमे मासि द्वादशो मास्यूने । अब्दमिति, कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इति द्वितीया, संवत्सरपूर्तिपर्यन्तम्, प्रतिमासम् - मासे मासे, मृतेहि - मरण दिने, त्रिपक्षे च - मरणदिनाचृतीये पक्षे च, षोडशमासिकाख्यानि श्राद्धानि स्युः । एतेषु षोडशसु कालेषु षोडशमासिकानि कार्याणीत्यर्थः ।

कालवरुम्:- ऊनमाय्य इरुक्कुम् बेपामुतु, ऊनमालीकम्, मुतल्ल मातम् ऊनमाय्य इरुक्कुम् बेपामुतु. त्तरपक्षिकम् ऎन्पतु 3-अ॒वतु पक्षित्तिल्. ऊनाप्तम् ऎन्पतु 12-अ॒वतु मातत्तिल्. कालात्तर्सक्तिल्:- 11-अ॒वतु नालीलुम्, मुतल्ल मातम् ऊनमाय्यूला बोतुम्, ऊनमाण 6-अ॒वतु मातत्तिलुम्, ऊनमाण 12-अ॒वतु मातत्तिलुम्, ओव्वेवारु मातत्तिलुम् मंग्रुत तित्तिलिलुम्, त्तरीपक्षित्तिलुम् आक 16-स्रात्तत्तंकूल. मुलेत्तिल उल्ला 11-अ॒वतु नालील ऎन्पतहर्कु मरணत्तिल इरुन्तु 11-अ॒वतु नालील ऎन्पतु बेपारुल. अन्तिमे ऎन्पतहर्कु वर्षत्तिलूल. कटैचि मातत्तिल ऎन्ऱु बेपारुल. अप्त सप्तत्तत्तुटून चेर्त्तत्तुच चेकाल्लि इरुप्पत्ताल. मुतल्ल मातम् ऊनमाय्यिरुक्कुम् बेपामुतुम्, 6-अ॒वतु मातम् ऊनमाय्य इरुक्कुम् बेपामुतुम्, 12-अ॒वतु मातम् ऊनमाय्य इरुक्कुम् बेपामुतुम् ऎन्ऱुयिऱ्ऱु. 'अप्तम्' ऎन्पतहर्कु वर्षम् मुष्टियुम् वरेयिल ऎन्पतु बेपारुल. प्रति मालम् = ओव्वेवारु मातत्तिलुम्, मंग्रुत तिनत्तिल मरणत्तिल.

த்ரிபக்ஷத்தில் = மரணத்தினின்றும் 3-ஆவது பக்ஷத்திலும், 16-மாளிகங்கள் என்ற ச்ராத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். இந்தப் பதினாறு காலங்களில் 16-மாளிகங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது பொருள்.

स्मृत्यन्तरे — एकादशे भवेदाद्यं मास्यनै ह्यूनमासिकम् ।
त्रैपक्षिकं त्रिपक्षे स्यादूनषाणमासिकं तथा । प्रतिमासं मृताहेषु ऊनाबदं
चेति षोडश । द्वादशाहे यदा कुर्यात् सपिण्डीकरणं सुतः । मध्याहे
चैव सवर्णिणि कुर्यात् श्राद्धानि षोडश । सपिण्डीकरणात् पूर्वं मासिकेषु
कृतेषु च । अपकृष्ट्यैकोद्दिष्टेन पिण्डमेकं विधीयते इति । एकमिति
प्रतिमासमेकमित्यर्थः ।

மற்றெரு ஸ்மிருதியில்:- 11-ஆவது நாளில் ஆத்யம். முதல் மாதம் ஊநமாய் இருக்கும் பொழுது ஊநமாளிகம். த்ரிபக்ஷத்தில் த்ரைபக்ஷிகம். ஊநஷாண்மாளிகமும் அப்படியே. ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் ம்ருத திதியில், ஊநாப்தம், என்று 16-மாளிகங்கள், 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மகரணம் செய்தால், மத்யாஹ்னத்தில் 16-மாளிகங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும். ஸபின்மகரணத்திற்கு முன் அபகர்ஷித்து ஏகோத்திஷ்டமாய்ச் செய்யப்பட்ட மாளிகங்களில் ஒரு பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். மூலத்தில் உள்ள ‘ஏகம்’ என்பதற்கு ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒரு பிண்டம் என்பது பொருள்.

तथा च स्मृत्यन्तरे — मासिकानां तु सापिण्ड्यात् पूर्वं तु
युगपत् कृतौ । प्रत्येकं पिण्डदानं स्यादग्नौ प्रेताहुतिः सकृत् इति ।
पञ्चदशावदानं कृत्वा एकां प्रेताहुतिं कुर्यात् ।

மற்றெரு ஸ்மிருதியில்:- ‘மாளிகங்களை,
ஸாபின்டயத்திற்கு முன் ஒரு நாளில் சேர்த்துச்
செய்வதானால், பிண்டதானம் தனித்தனி. அக்னியில்

प्रेरोत्तराहृष्टि ऋरो तटवै'. 15-तटवै अवतानम्
चेष्टु ऋरो प्रेरोत्तराहृष्टियस्त्रेष्यं वेण्ठुम्.

ैठीनसिः — षाण्मासिकाब्दिके श्राद्धे स्यातां पूर्वेद्युरेव ते । मासिकानि मृताहे स्युर्दिवसे द्वादशोऽपि वा । त्रिपक्षादौ तु सापिण्डये मासिकानि मृतोऽहनि इति । त्रिपक्षादौ सापिण्डये तत्पूर्व मृततिथौ तदुत्तरमासिकान्यपकृष्य कृत्वा सापिण्डयं कुर्यात्, न त्वेकादशाहे द्वादशाहे वा । द्वादशाहे सापिण्डये तस्मिन्बेव दिने मध्याहे पञ्चदशश्राद्धानि कृत्वाऽनन्तरं सपिण्डीकरणं कुर्यात् । वत्सरान्ते सापिण्डये. तत्तन्मासमृतमिथौ तत्तन्मासिकानि कुर्यात्, ऊनमासिकादीनि च मृततिथैः पूर्वं यथोक्तकाले कुर्यादित्यर्थः । द्वादशे इत्येकादशदिनस्याप्युपलक्षणम्, 'नवश्राद्धं च तत्रैव षोडशश्राद्धमेव च । न कृतं चेत् परे कुर्यात् सपिण्डीकरणाहनि इति स्मरणात् । एकादशदिने षोडशश्राद्धाकरणे द्वादशदिने कुर्यादित्यर्थः ।

पैपान्नलीः— 'षाण्मासिकाम्, उन्नाप्तिकम् इवेकज्ञाने मुतल नालीलं चेष्यवुम्. मालीकन्कज्ञाने मंगुत त्रितीयिलं चेष्यवुम् अल्लतु 12-अवतु नालीलं चेष्यवुम्. तर्पिक्षाति कालत्तिलं सापिण्णंत्यमानुलं मालीकन्कज्ञाने मंगुत त्रितीयिलं चेष्यवुम्': 'तर्पिक्षम् मुतलिय कालत्तिलं सापिण्णंत्यम् चेष्यताल, अतर्कु मुनं मंगुत त्रितीयिलं अतर्कु मेलं उल्ला मालीकन्कज्ञाने अपकर्षित्तुस्त्रेष्यं चेष्टु, सापिण्णंत्यत्तेतस्त्रेष्यं चेष्य वेण्ठुम्, 11-अवतु नालीलावतु, 12-अवतु नालीलावतु चेष्यक्षटातु. 12-अवतु नालीलं सापिण्णंत्यम् चेष्यवत्तानुलं, अन्नरेमत्याहृष्टिल 15-(मालीक) क्षरात्ततव्यकज्ञानेस्त्रेष्यु, पिरकु सपिण्णंत्यकरणत्तेतस्त्रेष्यं चेष्यवुम्. वर्षषत्तिनं मृष्टिविल सापिण्णंत्यम् चेष्यवत्तानुलं अन्तन्तन्त मालत्तिनं मंगुत त्रितीयिलं अन्तन्तन्त मालीकन्कज्ञानेस्त्रेष्यं चेष्यवुम्. उन्नमालीकम्

முதலியவைகளையும் ம்ருத திதிக்கு முன் வில்லிதமான காலத்தில் செய்யவும்' என்பது பொருள். 12-ஆவது நாளில் என்றது 11-ஆவது நாளுக்கும் உபலக்ஷணம். 'நவச்ராத்தமும், ஷோடச ச்ராத்தமும் அன்றைக்கே செய்யப்பட வேண்டும், அன்று செய்யப்படாவிடில் மறுநாளில் ஸபின்மகரண தினத்தில் செய்யவும்' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். 11-ஆவது தினத்தில் ஷோடச ச்ராத்தம் செய்யாவிடில், 12-ஆவது தினத்தில் செய்யவும் என்பது பொருள்.

एकोद्दिष्टं नवश्राद्धं श्राद्धान्यपि च षोडश । एकस्मिन् दिवसे कुर्यादिकोद्दिष्टं तु निष्कलम् इति । द्वादशाहसपिण्डीकरणे एकोद्दिष्टादीनि एकादशाहे कुर्यात्, अन्यथा एकोद्दिष्टन्तु निष्कलमिति । तथा प्रचेताः — षोडशादीनि सर्वाणि कुर्यादिकादशोऽहनि । सपिण्डीकरणं चापि कुर्याद्वा द्वादशोऽहनि इति । गौतमोऽपि — देशकालादिवैषम्यान्मृत्युरोगादिशङ्कया । एकादशोऽहि कार्याणि ह्यपकृष्यापि षोडश इति । गालबोऽपि — एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । एकोद्दिष्टं षोडशं च भतुरीकादशोऽहनि । द्वादशाहे तु सम्प्राप्ते पिण्डमेकं तयोः क्षिपेत् इति ।

41. 'ஏகோத்திஷ்டம், நவச்ராத்தம், ஷோடச ச்ராத்தம் இவைகளை ஒரே தினத்தில் செய்தால், ஏகோத்திஷ்டம் நிஷ்பலமே ஆகும்' என்பதற்கு, 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மகரணம் செய்யும் பக்ஷத்தில் ஏகோத்திஷ்டம் முதலியவைகளை 11-ஆவது தினத்தில் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிடில் ஏகோத்திஷ்டம் நிஷ்பலம் என்பது பொருள். அவ்விதம், ப்ரசேதஸ்:- ஷோடசம் முதலிய எல்லாவற்றையும் 11-ஆவது நாளில் செய்யலாம். 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மகரணத்தையும் செய்யலாம். கெளாதமரும்:- தேசகாலங்கள் அனுகூலம் இல்லாததாலும்,

मरणम् रेराकम् मुतविय सन्तेहैत्तत्तालुम्, 16-स्रात्तंतंकौलयम् अपकारंशीत्तु 11-आवतु नालील चेय्यवुम्. कालवरुमः- मरीत्तत तम्पत्तिकौरे शित्तयिल तत्त्वरीक्कप्पट्टाल, अवर्कारुक्कु एकोत्तिष्ठत्तमुम् वेष्टाट्चमुम् पर्त्तताविळ 11-आवतु नालील चेय्यप्पट्वेण्टुम्. 12-आवतु नालील इरुवरुक्कुम् छौरे (सेर्त्तेते) लपिण्णमकरणम् चेय्यप्पट्वेण्टुम्.

स्मृतिरक्ते — एकादशेऽहि कुर्वणः पूर्वाले सर्वमाचरेत्। अपराह्ने तु सापिण्डचं कुर्यादित्याह शाकलः। अन्यस्मिंस्तु दिने कुर्वन् पूर्वपूर्वदिने चरेत्। अथवा यदि तत्रापि सर्वं चैकदिने भवेत् इति। अन्यस्मन्निति द्वादशाहादौ सापिण्डचं कुर्वन् तत्पूर्वदिने षोडशश्राद्धं कुर्यादित्यर्थः। एकादशे कृतानान्तु मासिकानां पुनः कृतिः। सपिण्डीकरणश्राद्धं द्वादशाहे यदा भवेत्। तदाऽपकृष्य रुद्राहे श्राद्धान्येव तु षोडश इत्यादिबहुस्मृतिसंमतत्वात् शिष्टाचाराच्च द्वादशाहे सपिण्डीकरणे एकादशाहे द्वादशेऽहनि वा षोडशश्राद्धकरणं युज्यते।

संमंगुतीरत्तनात्तीलः- 11-आवतु नालील (लापिण्णट्यम्) चेय्यवैल मुर्पकविल एल्लावर्नरैयम् चेय्य वेण्टुम्. पिर्पकविल लापिण्णट्यत्ततेष्च चेय्य वेण्टुम् एन्ऱ्लूर चाकलर. मर्त्र नालील चेय्ताल अततर्न्कु मुन्तिय तिनत्तील चेय्यवुम् अल्लतु अन्त लापिण्णट्य तिनत्तीलेलेय एल्लावर्नरैयम् छुरु तिनत्तील चेय्यवुम्. मुलत्तील उल्ला 'अन्यस्मिन्न' एन्पत्तर्न्कु, 12-आवतु नालील मुतविय कालत्तील लापिण्णट्यत्ततेष्च चेय्यवैल, अतर्न्कु मुन्त तिनत्तील वेष्टाट्च स्रात्तंतंकौलास चेय्यवुम् एन्पत्तु बेपारुल. '11-आवतु नालील चेय्यप्पट्ट मालिकन्कौल मरुपाट्च चेय्यवुम्' '12-आवतु नालील लपिण्णमकरणम् चेय्वत्तागुल, 11-आवतु नालील 16-स्रात्तंतंकौलयम्

அபகர்வித்துச் செய்யவும், என்பது முதலிய வெகு ஸ்ம்ருதிகளுக்கு ஸம்மதமாய் இருப்பதாலும், சிஷ்டாசாரம் இருப்பதாலும், 12-ஆவது நாளில் ஸபின்மைகரணம் செய்யும் பகுத்தில், 11-ஆவது நாளிலாவது, 12-ஆவது நாளிலாவது வேஷாடச ச்ராத்தங்களைச் செய்வது உபபண்ணம் ஆகிறது.

यत्तु सञ्चाहवचनम् — एकोदिष्टस्य दिवसे सपिण्डीकरणं विना । श्राद्धं कुर्यात् पितृक्रोधात् क्षयमाप्नोति सन्ततिः इति अत्र साङ्गं सपिण्डीकरणं गृह्णते । षोडशश्राद्धं सपिण्डीकरणं नवश्राद्धं च विना एकोदिष्टदिवसे कर्तव्यं यत् श्राद्धान्तरमन्तरितं स्वदेयश्राद्धं च तत्र न कुर्यात् इत्यर्थः । एतच्च एकोदिष्टदिने सपिण्डीकरण माहिताग्निविषयम्, तदग्रे वक्ष्यते ।

ஆனால்:- “11-ஆவது நாளில் ஸபின்மைகரணம் தவிர்த்து மற்ற ச்ராத்தத்தைச் செய்தால், பித்ருக்களின் கோபத்தால் குலம் நசிக்கும்” என்று ஸங்க்ரஹவசநம் உள்ளதே ? எனில், இந்த வசநத்தில் அங்கங்களுடன் கூடிய ஸபின்மைகரணம் சொல்லப்படுகிறது. வேஷாடச ச்ராத்தம், ஸபின்மைகரணம், நவச்ராத்தம் இவைகளைத் தவிர்த்து, ஏகோத்திஷ்ட தினத்தில் செய்ய வேண்டியதாய் ப்ரராப்தமான ப்ரத்யாப்திக ச்ராத்தத்தையாவது, ஆசௌக மத்யத்தில் அந்தரிதமான ச்ராத்தத்தையாவது அன்று செய்யக் கூடாது என்பது பொருள். இவ்விதம் ஏகோத்திஷ்ட தினத்தில் ஸபின்மைகரணம் செய்யலாம் என்பது ஆஹிதாக்னியைப் பற்றியது. அது மேலே சொல்லப்படப் போகிறது.

यत्तु जाबालिवचनम् — श्राद्धं कृत्वा तु तस्यैव पुनः श्राद्धं न तद्विने इति, यदपि दक्षवचनम् - नैकः श्राद्धद्वयं कुर्यात् समानेऽहनि कस्यचित् इति, तदेकोदिष्ट श्राद्धषोडशश्राद्धञ्चतिरिक्तविषयम्, तयोस्तत्र विधानात् । उद्देश्यैक्येऽपि नवश्राद्धैकोदिष्ट

श्राद्धसमुच्चयवदेकोदिष्टद्युवच्च न दोषः । तदेवमेकादशाहे द्वादशाहे वा मासिकानि सर्वाण्यपकृष्य कृत्वा द्वादशाहे सापिण्ड्यं कुर्यात्, सापिण्ड्योत्तरकालभावीनि स्वस्वकाले पुनश्च कुर्यात् ।

ஆனால், ஜூபாலி:- “ஓருவளை உத்தேசித்து ச்ராத்தம் செய்த பிறகு அதே தினத்தில் அவனை உத்தேசித்து மறுபடி ச்ராத்தம் கூடாது” என்று சொல்லியதும், “ஓருவனுக்கு ச்ராத்தம் செய்த பிறகு, அதே தினத்தில் அவனுக்கே மறுபடி ச்ராத்தம் கூடாது” என்ற தக்ஷவசநமும் உள்ளதே எனில், அது ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம் ஷோடசச்ராத்தம் இவைகளைத் தவிர்த்த ச்ராத்தத்தைப் பற்றியது. அவைகளை அன்றே விதித்து இருப்பதால், உத்தேச்யன் ஓருவனுயினும், நவச்ராத்தம் ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம் இவைகளைச் சேர்த்துச் செய்வது போலும், ஏகோத்திஷ்டம் இரண்டைச் சேர்த்துச் செய்வது போலும் குற்றமாகாது. ஆகையால் இவ்விதம் இருப்பதால், 11-ஆவது நாளிலாவது, 12-ஆவது நாளிலாவது மாலிகங்கள் எல்லாவற்றையும் அபகர்ஷித்துச் செய்து, 12-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். ஸாபிண்ட்யத்திற்கு மேல் காலத்தில் வரும் மாலிகங்களை அதனதன் காலத்தில் செய்யவும்.

आशौचाद्यन्तरितमासिकादिविषयः

आशौचाद्यन्तरितं मासिकमुत्तरमासिकाह एव तन्त्रतः
कुर्यात्, न पृथक् पाकहोमादिः, पिण्डदानं तु पृथगेव । तथा
कालादर्शो — आपदाद्यकृतं यत् कुर्यादूर्ध्वमृताहतः । न पृथक्
पाकहोमादिः पिण्डदानं पृथक् पृथक् इति । आदिशब्देना-
शौचोपसङ्घः, आपदादिना अकृतमन्तरितं यन्मासिकं, तत्
ऊर्ध्वमृताहतः - उत्तरमासमृतदिने कुर्यादित्यर्थः । उत्तरमास-
मृततिथौ विधानात् अन्तरितं मासिकमूनमासिकदिने न कार्यम्,
ऊनमतिक्रम्य मृततिथावेव कार्यम् ।

**ஆசௌசம் முதலியதால் நின்ற மாலிகம்
முதலியதைப் பற்றியது.**

ஆசௌசம் முதலியதால் அந்தரிதமான மாலிகத்தை அடுத்த மாலிக தினத்திலேயே, தந்தரமாய் (சேர்த்து)ச் செய்ய வேண்டும். தனியாய் பாகம், ஹோமம் முதலியது இல்லை. பிண்டதானம் மட்டில் தனியே. அவ்விதம், காலாதர்சத்தில்:- ‘ஆபத்து முதலியதால் செய்யப் படாததை அடுத்த திதியில் செய்யவும். யாகம் ஹோமம் முதலியது தனியாய் இல்லை. பிண்டதானம் மட்டில் தனித்தனியே’. மூலத்தில் உள்ள ஆதி சப்தத்தால் ஆசௌசம் க்ரஹிக்கப்படுகிறது. ஆபத்து முதலியதால் செய்யப்படாததும் அந்தரிதமுமான மாலிகம் எதுவோ அதை, ஊர்த்வ ம்ருதாஹத: - அடுத்த மாஸத்திய ம்ருத திதியில் செய்யவும் என்பது பொருள். அடுத்த மாஸத்தின் ம்ருத திதியில் விதித்து இருப்பதால், அந்தரிதமான மாலிகத்தை ஊனமாலிக தினத்தில் செய்யக்கூடாது. ஊனமாலிக தினத்தைத் தாண்டி ம்ருததிதியிலேயே செய்ய வேண்டும்.

ऋश्यशूङ्गोऽपि — ஏகोदிஷே तु सम्प्रासे यदि विघः प्रजायते ।
मासेऽन्यस्मिन्स्तथौ तस्यां कुर्यादन्तरितं च तत् इति ।
कालादर्शटीकायामिदं व्याख्यातम् — ஏகோदிஷபदमुभयविध-
मासिकोपलक्षणम्, அन्तरितं மாஸிக் தடுத்தமாஸிக் சோத்தமृதாहै
कुर्यात् इति । एतच्चाचश्राज्ञव्यतिरिक्तविषयम् । आघश्राज्ञ-
स्यान्तराये तु अकृतसञ्चयस्य दहनादिदशदिनपर्यन्तप्रेतकार्याणि
पुनरप्येकाहेन कर्तव्यानि, कृतसञ्चयस्य तु दहनसञ्चयव्यतिरिक्त
नवश्राज्ञादि पुनः कर्तव्यमिति पूर्वमेवोक्तम् ।

ருச்யச்ருங்கரும்:- ஏகோத்திஷ்டம் ப்ராப்தமா
யிருக்க, அதற்கு விக்னம் நேரிட்டால், அடுத்த மாஸத்தில்
ம்ருத திதியில் அந்தரிதத்தையும் சேர்த்துச் செய்யவும்.

कालात्मकाणेकयिल्सः- इतरं कु व्याक्यानम्
सेय्यप्पट्टु उल्लातु - 'ऐकोत्तिष्ठपतम् इरண्टु
वितमाऩ मालीकत्तेतयुम् चेाल्लु किरतु. अन्तरीतमान
मालीकत्तेतयुम् अतरं कु अुत्त मालीकत्तेतयुम्, अुत्त
मंगुत्तित्तियिल् सेय्य वेण्टुम्', एन्ऱु. इतुवम्
आत्यस्रात्तत्तेतत् तवीर्त्तत्तेतप् पर्न्रियतु. आत्य
स्रात्तत्तित्तिरं कु विक्कनम् वन्ताल्, लग्नुस्यनम्
सेय्यप्पटाविट्टिल् तहनम् मुतल् 10-नाळ वरे उल्ला
प्रेरेत कार्यन्कज्ञामरुपदि ओरु नाळिल् सेय्य वेण्टुम्.
लग्नुस्यनम् सेय्यप्पट्टिरुन्ताल्, तहनम् लग्नुस्यनम्
तवीर्त्ततु, नवस्रात्तम् मुतवीयते मरुपदि सेय्य
वेण्टुम् एन्पतु मुन्पे चेाल्लप्पट्टुल्लातु.

कण्वः — नवश्राद्धं मासिकं च यद्यदन्तरितं भवेत् ।
तत्तदुत्तरसातन्यादनुष्टेयं प्रचक्षते इति । माधवीये चन्द्रिकायां च
विशेषोऽभिहितः — अन्तरितं मासिकमुत्तरमासतिथौ सातन्येण
कर्तव्यम् इत्येतत् सूतकव्यतिरिक्तनिमित्तान्तरेण विघ्ने समुत्पन्ने
सपिण्डीकरणात् पूर्वं प्रतिमासं क्षयाहे विहैकोद्दिष्टमासिक-
श्राद्धविषयम्, आशौचनिमित्तविघ्ने तु एकोद्दिष्ट मासिकश्राद्धमपि
सूतकानन्तरमेव, तान्येव तु पुनः कुर्यात् इत्यादिविहितोनमासिक
श्राद्धं च सूतकेनान्तरितं सूतकानन्तरमेव, सूतकव्यति-
रिक्तनिमित्तान्तरे विघ्ने सति उत्तरमासमृततिथौ कर्तव्यम् ।

कण्ववारः- नवस्रात्तम्, मालीकम् इवेकलील्,
एतेततु अन्तरीतमाय आक्षयत्तेवा, अततेव अुत्तत्तुल्लात्त
सेर्त्ततु लमानतन्तरमाय अनुष्टिक्क वेण्टुम्
एन्किन्नरनर (अर्निन्तवर). मातवीयत्तीलुम्,
सन्तरीकेयिलुम् विचेष्म चेाल्लप्पट्टु उल्लातुः-
“अन्तरीतमाऩ मालीकत्तेत उत्तर माल तित्तियिल् लमान
तन्तरमायस्च सेय्यवुम्” एन्नरतु, आसेलासम् तवीर वेवृ
कारणत्ताल विक्कनम् एन्पट्टाल, लपिण्णहकरणत्तिरं कु

முன்பு மாஸந் தோறும் ம்ருததிதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஏகோத்திஷ்ட மாஸிகத்தைப் பற்றியது. ஆசௌச நிமித்த விக்னத்திலோ வெனில், ஏகோத்திஷ்ட மாஸிக ச்ராத்தத்தையும் ஆசௌசம் முடிந்தவுடனேயே செய்ய வேண்டும். 'அவைகளையே மறுபடி செய்யவும்' என்பது முதலிய வசநங்களால் விதிக்கப்பட்ட ஊனமாஸிக ச்ராத்தமும் ஆசௌசத்தால் அந்தரிதமானால் ஆசௌசம் முடிந்த உடனேயே செய்யப்பட வேண்டும். ஆசௌசம் அல்லாத காரணத்தால் விக்னம் நேர்ந்தால் அடுத்த மாஸத்திய ம்ருத திதியில் செய்யப்பட வேண்டும்' என்று.

யतு ஸ்மृத்யन்தரம् — தத்தூஷேத் பிரதுஷேத கேந்சித் ஸूதகாடிநா । ஸूதகாநந்தர் குர்யாத் புனஸ்தத்தூஷேவ வா இதி, அது ஶாஷ்வை ஸूதகேந நஷ்ட ஸதி ஸूதகாநந்தர் குர்யாதிதி பக்ஷः । புனஸ்தத்தூஷேவ வேதி பக்ஷஸ்து ஆதிஶாஷ்வாத் நிமித்தாந்தரெண ஦ுஷ்டமாஸிகஶாஷ்வவிஷயः । ததா ஷத்திர்வந்மதே — மாஸிகாஷை து ஸ்பங்஗ாதே ஹன்தரா மூதஸ்தகை । வத்தித் துஷ்வை தத்கால் ஦ர்மை வாடபி விசக்ஷணாः இதி । எததுக்தம் ஭வதி, ஆஶௌசஸமநந்தரகாலோ முருஷ்காலः ஸனிக்குஷ்டத்வாத் ஶ்ரேஷ்டः, ஦ர்மகாலஸ்து முருஷ்கால ப்ரத்யாஸ்த்யமாவாத் ததை ஜघந்ய இதி । ஦ர்மஶ்ரஹண் ஶுக்லகுஷணைகா- ஦ஶயோருபலக்ஷணம् ।

ஆனால், மற்றொரு ஸ்ம்ருதி:- 'அந்தத் தினம், ஆசௌசம் முதலிய எக்காரணத்தாலாவது துஷ்டமானால், ஆசௌசம் முடிந்தவுடன் செய்யவும். அல்லது அடுத்த ம்ருத திதியில் செய்யவும்' என்கிற தேவெனில், இதில், ச்ராத்த தினம் ஆசௌசத்தால் நஷ்டம் ஆனால் ஆசௌசம் முடிந்தவுடன் செய்யவும், என்று ஒரு பகும். 'புனஸ்ததஹூரேவவா' என்ற பகுமோ வெனில், 'ஆதி' சப்தத்தால் ஆசௌச வ்யதிரிக்த காரணத்தால் துஷ்டமான மாஸிக ச்ராத்தத்தைப் பற்றியதாகிறது. அவ்விதம்

ஷட்டரிசன்மதுத்தில்:- மாஸிகம் அல்லது ஆப்திகம் ப்ராப்தமாய் இருக்க, ஆசௌசம் ப்ராப்தம் ஆனால், ஆசௌசத்தின் முடிவில் சராத்தத்திற்குக் காலம் அல்லது அமையில் என்கின்றனர் அறிந்தவர்கள். இதனால் இவ்விதம் சொல்லியதாக ஆகிறது. ‘ஆசௌசத்திற்கு அடுத்து உள்ள காலம் முக்ய காலம், ஸமீபத்தில் இருப்பதால் சிறந்தது. தர்ச்காலமோவெனில், முக்ய காலத்திற்கு ஸாமீப்யம் இல்லாததால் அதைவிடத் தாழ்ந்தது’ என்று. தர்சம் என்றது சுக்ல, க்ருஷ்ண ஏகாதசிகளுக்கும் உபலக்ஷணம்.

अत एव मरीचिः — श्राद्धविष्णे समुत्पन्ने ह्यविज्ञाते
 मृतेऽहनि । एकादश्यां तु कर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः इति ।
 देवस्वामिनाऽप्येवं विषयव्यवस्था कृता — एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्ते
 यदि विष्णः प्रजायते इत्यादिवचनं सूतकाशौचव्यतिरिक्त-
 निमित्तान्तरतस्तदहर्विधाते, सूतकाशौचविधाते तु सूतकानन्तरं
 कुर्यात्, वदन्ति शुद्धौ तत्काल इत्याद्यवगन्तव्यम् इति । अन्ये तु —
 उत्तरमासमृततिथौ कर्तव्यताप्रतिपादकवचनमेकोद्दिष्टमासिक-
 विषयम्, सूतकानन्तरदिने दर्शादौ कर्तव्यताप्रतिपादकवचनं
 सपिण्डीकरणानन्तरभाव्यनुमासिकविषयमित्याहुः । यथोचितमिह
 द्रष्टव्यम् ।

மர்சி:- ‘சராத்தத்திற்கு விக்னம் ஏற்பட்டாலும், சராத்த தினம் அறியப்படாவிட்டனும், சராத்தத்தை ஏகாதசியில் செய்யவும். க்ருஷ்ண பகஷத்தின் ஏகாதசியில் செய்வது சலாக்யமாகும்’ என்றார். தேவஸ்வாமி என்பவராலும் இவ்விதம் விஷய நிரணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது:- ‘ஏகோத்திஷ்டேது ஸம்ப்ராப்தே யதிவிக்ன: ப்ரஜாயதே’ என்பது முதலிய வசனம், ஜனன மரண ஆசௌசங்களைத் தவிர்த்த காரணத்துறை அன்று விக்னம் ஏற்பட்ட விஷயத்தில். ஜநந மரண ஆசௌச

விக்னத்திலோவெனில் ஆசௌசத்தின் முடிவில் செய்யவும். 'வதந்தி சுத்தெள தத்காலம்' என்பது முதலியதைக் கவனிக்கவும்' என்று. மற்றவரோவெனில்:- 'உத்தரமாஸ ம்ருத திதியில் செய்ய வேண்டும் என்பதைச் சொல்லும் வசனம் ஏகோத்திஷ்ட மாஸிகத்தைப் பற்றியது. ஆசௌசத்திற்கு மறுநாளிலும் தர்சம் முதலியதிலும் செய்யும்படி சொல்லும் வசனம், ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு செய்யப்படும் அனுமாஸிகத்தைப் பற்றியது' என்கின்றனர். இவ்விஷயத்தில் உசிதமாகியதை க்ரஹிக்கவும்.

ஆஶौசாத்திரிதோனமாசிகவி஧ி:

ஜனமாசிகாந்யதிகாந்தானி, மாசிகாடே து ஸம்பாஸே இதி பட்டிரிங்கநமதவசனாநுஸாரேண பரமாஸே ஦ர்ஶாடை கார்யாணிதி கேचி஦ாஹு: | அபரே து — தைப்பிக்கோனைஷாப்மாஸ்யே ஜநாப்பிக்கமதாசரேத் | எதேஷாமேவ காலே து ந புன: கரண் ஭வேத் | ஜனானா நாபகர்ஷ: ஸ்யாத் புனரப்பகர்ஷே | உத்கர்ஷஶாபி ந ஭வேத் ப்ரமாடாந்தரிதஸ்ய து இத்யாடிவசனஜாதமுடாஹரந்த: ஜனானா ஸ்வஸ்வகாலே அகுதானாமுத்கர்ஷே நாஸ்த, கிஞ்சு லோப ஏவேத்யாஹு: | ஜனாந்யூஷு குர்வீதி இதி வசனமபி வ்யாகுர்வதே, ஦ிவிதிவைஷு காலேஷு ஜனானி குர்வது அந்தரிதமூன- மூன்தரே யோஜயேடிதி நார்஥ இதி |

ஆசௌசாதிகள் குறுக்கிடுகிற ஊநமாஸிகத்தின் விதி.

அதிக்ராந்தங்களான (ஸ்வகாலத்தில் செய்யப்படாத) ஊநமாஸிகங்களை, 'மாஸிகாப்தேது ஸம்ப்ராப்தே' என்ற வசநத்தை அனுஸரித்து, அடுத்த மாஸத்தில் தர்சம் முதலிய காலத்தில் செய்ய வேண்டும்' என்கின்றனர் சிலர். மற்றவரோவெனில், 'த்ரைபக்ஷிகம், ஊநமாஸிகம், ஷாண்மாஸிகம், ஊநாப்திகம் இவைகளை அதனாதன் காலத்தில் செய்யவும். இவைகளுக்கு புந:கரணம் இல்லை.

‘अनन्दं करुक्कु अपकरं षमं इल्लै. एन्पतु मुतविय
वसन्दं कौशिं शोल्लु किन्नरवरायं अतनतनं कालत्तिलं
चेययप्पटात् अनन्मालीकन्करुक्कु उत्करं षमं इल्लै
(किसन्नरतेत्तचेयवतु एन्पतु इल्लै). आगेले लोपमे
ताणं एन्किन्नरनार. ‘अनान्ध्य नेष्टुकुर्वीत’ एन्न
वसन्तत्तिरुक्कुमं व्याक्यानमं चेयकिन्नरनारः - ‘इरण्णु
अल्लतु औन्नरु तिन्नन्कौला लु कुरेन्त कालन्कौली लु
अनन्दं कौशिं चेयय वेण्णुमं एन्पतु बेपारुल. इतन्नरि,
अन्तरीतमाण अनन्तत्तेत मर्त ग्रेरु अनन्तत्तिलं चेर्तत्तुक्षं
चेययवुमं एन्नरु अर्तत्तमं इल्लै’ एन्नरु.

अनमासिककालः

ज्ञानार्द्दनां कालमाह गालवः — अनष्टामासिकं पष्ठे मासार्थं
तूनमासिकम्। त्रैपक्षिकं त्रिपक्षे स्यादूनाब्दं द्वादशे तथा इति। स एव
— त्रिभिर्वा दिवसैरूने त्वेकेन द्वितयेन वा। आद्यादिषु च मासेषु
कुर्यादूनानि वै द्विजः इति। गौतमश्च — एकद्वित्रिदिनैरूने त्रिभागेनोन
एव वा। श्राद्धान्पूनाब्दिकादीनि कुर्यादित्याह गौतमः इति।

अनन्मालीक कालमं.

अनन्मालीकन्कौलीं कालत्तेत्तचेयलु किरुर्,
कालवारः- अनव्शाण्णं मालीकत्तेत 6-अुवतु मालत्तिलुमं,
अनन्मालीकत्तेत मालत्तिलीं पातियिलुमं, त्तरेपक्षीकत्तेत
3-अुवतु पक्षीत्तिलुमं, अनाप्तिकत्तेत 12-अुवतु
मालत्तिलुमं चेयय वेण्णुमं. कालवरोः- औन्नरु
अल्लतु 2, 1-तिन्नत्तालु कुरेन्त मुतलं मातमं मुतविय
कालन्कौली अनन्मालीकन्कौशिं चेययवुमं. केळात्तमरुमः-
एन्नरु अल्लतु 2, 3-तिन्नत्तालु, अल्लतु औन्नरीलेलारु
पाकत्तत्तालु कुरेन्त कालत्तिलं, अनाप्तिकमं मुतविय
स्त्रात्तत्तन्कौशिं चेययवुमं, एन्नरुर् केळात्तमर.

व्यासः — द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासि चाबिदके
इति । गोभिलश्च — मरणाद्वादशोऽहि स्यान्मास्यूनैबोनमासिकम्
इति । काण्जिनिः — ऊनान्यूनेषु मासेषु विषमेषु दिनेषु च ।
त्रैपक्षिकं त्रिपक्षे स्यान्मृताहेष्वितराणि तु इति । भविष्यत्पुराणे —
षष्ठे षाण्मासिकं कार्य द्वादशे मासि चाबिदकम् । त्रैपक्षिकं भवेद्वृत्ते
त्रिपक्षे विषमे दिने इति । वृत्ते - प्रवृत्त इत्यत्यर्थः ।

வ்யாஸர்:- 12-ஆவது நாளிலும், 3-ஆவது
பக்ஷத்திலும், 6-ஆவது மாஸத்திலும், வர்ஷத்தின்
முடிவிலும், ஊநங்களைச் செய்யவும். கோபிலரும்:-
மரணத்தினின்று 12-ஆவது நாளில் அல்லது மாதம்
குறைந்துள்ள காலத்திலாவது ஊநமாளிகம்.
கார்ஷ்ணாஜுநி:- ஊநங்களை மாஸங்கள் ஊநமாயிருக்கும்
போது, ஒற்றைப்படையான நரட்களிலும்,
த்ரைபக்ஷிகத்தை 3-ஆவது பக்ஷத்திலும், மற்ற மாளிகங்களை
ம்ருத திதியிலும் செய்ய வேண்டும். பவிஷ்யத்
பூராணத்தில்:- 6-ஆவது மரஸத்தில் ஷரங்மாளிகத்தைச்
செய்யவும். 12-ஆவது மரஸத்தில் ஊநராப்திகத்தையும்,
த்ரைபக்ஷிகத்தை 3-ஆவது பக்ஷம் ஆரம்பித்த உடன்
ஒற்றைப் படையான தினத்திலும் செய்யவும்.

पितृमेधसारे — प्रथमषष्ठद्वादशमासेषु द्वित्रिदिनैरूनेषून-
मासिकानि कुर्यात्, त्रिभागशेषेष्वित्येके, द्वादशाहे वाऽर्धमासे
बोनमासिकमित्यपरे इति । कालादर्शे — त्रिभिर्द्विभ्यामुतैकेन
मास्यूने हूनमासिकम् । ऊषाणमासमूनाबद मन्त्रैव समाचरेत् ।
त्रिभागशेषे मासे तु कुर्यादिति हि केचन । अमावास्यादिनियतं
माससंवत्सरादृते इति हारीतस्मरणात् ॥ मासम् - मासिकम्,
संवत्सरम् - मृताहे प्रत्याबिदकम् ।

पीठ்ருமेत्रूलारத்தில்:- 1-ஆவது, 6-ஆவது; 12-ஆவது
மரஸங்கள், 2 அல்லது 3-தினங்களால் குறைந்திருக்கும்

पेपामुतु, ऊनमालीकंकजौक्ष चेय्यवुम्. मुन्नरीलं ओरु पा कमं मैत्रियूं ला समयत्ति लं, ऎन्ऱु चिलर्. 12-आवतु त्रिनंत्ति लं, अॅल्लतु पातु मालत्ति लं ऊनमालीकमं ऎन्ऱु मर्हवर चेसाल्लु किन्ऱनर्. कालात्तुर्चत्ति लं:- 3 अॅल्लतु 2, 1 त्रिनंत्ता लं गुरैरन्त्तु ला मुत्तु मालत्ति लं ऊनमालीकमं. ऊनश्वाण्मालम्, ऊनाप्तिकमं इवेकगुमं अप्पटिये. अन्ननंत्ति लु लेये चेय्य वेण्टुम्. मुन्नरीलं ओरु पा कमं मैत्रियूं ला मालत्ति लं चेय्यवुम् ऎन्ऱु चिलर्. त्तरैपक्षीकत्तत्तै, 3-आवतु पक्षमं आरम्पित्त उटनं, ओरैरैप्पटेयानि त्रिनंत्ति लं चेय्यवुम्. ऊनमालीकत्तत्तै 28-आवतु नालीलं चेय्यवुम्. 'अन्नेनेनव' = अन्ननंत्ति लु लेये मालीकंकजौक्ष चेय्यवुम्. आमत्ति लु लेये मालीकंकजौक्ष चेय्यवुम्. अॅमत्ति लु लेये मालीकंकजौक्ष चेय्यवुम्. 'सरात्तत्ति लिरु वीक्कनमं नेर्नंत्ता लं, प्रराम्भैरण्करैं आमसरात्तत्तत्तैक्कं चेय्यलामं, मालीकमं, प्ररत्याप्तिकमं तविर्त्तु' ऎन्ऱु लोरीत लंम्गुति उं ला तु.

पञ्चतौ — ससविंशदिनादूर्ध्वं त्रियहस्सूमासिकम् ।
चत्वारिंशदिनादूर्ध्वं पञ्चाहस्सु त्रिपक्षिकम् । तथा दशसु षाण्मासं
ससत्यतिशतात् परम् । उर्ध्वं पञ्चदशाहस्सु चत्वारिंशच्छतत्रयात् ।
ऊनाबिदं प्रकुर्वीत तिथा वाबिदकमाचरेत् इति ।

पत्तत्तीयिलः:- 27-आवतु नागुक्कु मेल 3-नाट्कलीलं
ऊनमालीकत्तत्तैयुम्, 40-त्रिनंकगुक्कु मेल,
5-त्रिनंकलीलं त्तरैपक्षीकत्तत्तैयुम्, 170-त्रिनंकगुक्कु
मेल 10-त्रिनंकलीलं ऊनश्वाण्मालीकत्तत्तैयुम्
340-त्रिनंकगुक्कु मेल 15-त्रिनंकलीलं
ऊनाप्तिकत्तत्तैयुम्, त्रितीयिलं आप्तिकत्तत्तैयुम् चेय्यवुम्.

ऊनमासिकवर्ज्यकालः

अत्र वर्ज्यमाह गार्यः — नन्दायां भार्गवदिने चतुर्दश्यां
त्रिपुष्करे । ऊनश्राव्यं न कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात् इति ॥ मरीचिः

— டிபுஷ்கரேஷு நந்஦ாஸு ஸினிவால்யா ஭ृగோர்஦்஧ை | சதுர்஦்ஶயா ச
னோனானி கृதிகாயா திபுஷ்கரே இதி | திபுஷ்கர நாம (‘யदा
भद्रतिथीनां स्यात् पापवारेण संयुतिः | खण्डक्षितीशयोगश्वेत् स
त्रियोगख्लिपुष्करः) द्वितीयासप्तमीद्वादशीनां भद्रतिथीनां
कृதिकापुनर्वसूतरफलगुनीविशाखोत्तराषाढ़ा
नक्षत्राणां भानुभौमश्वैश्वरवाराणां ச த्रयाणां மேலனे திபுஷ்கரम् |
द्वयोर्मेलने द्विपुष्करम् । भद्रा त्रिपदनक्षत्रं भानुभौमार्किवासराः ।
त्रिपुஷ்கரா இதி ரूயातास्तत्र தூந் ந காரயेत् இதி ஸ்மரणात् ।

ஊநமாளிகத்தில் தவிர்க்கக் கூடிய காலம்.

இவைகளில் தவிர்க்கக் கூடியதைச் சொல்லுகிறார்
கார்க்யர்:- நந்தா திதி, வெள்ளிக் கிழமை, சதுர்த்தி,
த்ரிபுஷ்கரம் இவைகளில் ஊநமாளிக ச்ராத்தத்தைச்
செய்யக்கூடாது. செய்தால் புத்ரனுக்கும் தனத்திற்கும்
கஷயம் உண்டாகும். மர்சி:- த்விபுஷ்கரங்கள், நந்தாதிதிகள்,
அமாவாஸ்யை, வெள்ளிக்கிழமை, சதுர்த்தி,
க்ருத்திகாநக்ஷத்ரம், த்ரிபுஷ்கரம் இவைகளில்
ஊநமாளிகங்களைச் செய்யக்கூடாது. த்ரிபுஷ்கரம் என்பது,
த்விதீயா, ஸப்தமீ, த்வாதசி என்ற பத்ர திதிகள், க்ருத்திகா,
புனர்வஸ், உத்தரபல்குநி, விசாகா, உத்தராஷாடா,
பூர்வபாத்ரபதா என்ற நக்ஷத்ரங்கள், ஞாயிறு, செவ்வாய்,
சனி என்ற வாரங்கள் என்ற இவைகளுள், மூன்றுக்குச்
சேர்க்கை இருந்தால் த்ரிபுஷ்கரம். இரண்டிற்குச் சேர்க்கை
இருந்தால் த்விபுஷ்கரம். ‘பத்ராதிதி, த்ரிபத நக்ஷத்ரம்,
பானு - பெளம - சனி - வாரங்கள் இவைகளுள் மூன்று
சேர்ந்தால் த்ரிபுஷ்கரங்கள் எனப்படுகின்றன. அவைகளில்
ஊநமாளிகத்தைச் செய்யக் கூடாது’ என்று ஸ்மருதி
இருப்பதால்.

காலாదரை — திபுஷ்கரே ச நந்஦ாஸு ஦ர்சீ ஭ார்வவாஸரே ।
சதுர்஦்ஶயா ந குரீத் ஹூநானி தீணி வஹிமே இதி । வஹிமம் -

कृत्तिकानक्षत्रम्, प्रतिपत् षष्ठ्यैकादश्यो नन्दाः । स्मृत्यन्तरे —
आग्रेयमैन्द्रं सार्पं च तिसः पूर्वांश्च नैरकृतम् । यद्येषूनत्रयं कुर्यात्
ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति इति ।

कालात्मार्चक्त्वीलः- तरीपुष्करत्तिलुम्, नन्दतेकलीलुम्,
तर्चक्त्वीलुम्, सक्त्रवारत्तिलुम्, सत्यर्तचियिलुम्,
कंगुत्तिकैकयिलुम् अ॒उ॒न्मा॒ल॒न्य॒कै॒ल॒य॒म् चेय्यकं
कृटात् । अ॒ल॒त्तिल॒उ॒ल॒व॒ह॒न्ति॒प॒म् कंगुत्तिका॒ नक्षुत्तरम्.
नन्दतेकलं प्ररथमा॒, षष्ठ्यैकादश्या॒, एकात्तचै॒न्द॒रु ति॒त्तिकलं. मर्णिरुरु
लंमरुत्तीयिलः- कंगुत्तिका॒, षष्ठ्यैकादश्या॒, आ॒स्ल॒ेल॒ष्टा॒,
पूर्ववपलंकुण्ण॑, पूर्ववा॒ष्टा॒, पूर्ववप्प्र॒रोष्टपत्ता॒, अ॒ल॒म्
॒न्द॒रु इ॒न्त॒ नक्षुत्तरं॒कै॒ल॒, ३-॒उ॒न्मा॒ल॒न्य॒कै॒ल॒च
चेय्यतालं षष्ठ्यैकादश्या॒ पुत्रानुक्तु॒ विनाशम् उ॒न्न॒टा॒तु॒म्.

वत्सरान्तसापिण्ड्ये अत्यब्दसापिण्ड्ये च मासिकनिर्णयः ।

वत्सरान्ते सापिण्ड्ये उपाधिवशात् प्राग्कृतान्यूनमासिका-
दीनि सर्वाणि मासिकानि द्वादशमासिकाहै वा ऊनाब्दिकाहै वा
आब्दिकात् पूर्वदिने सपिण्डीकरणाहै वा कुर्यात् । एवं पित्रोः
पद्म्यादिव्यतिरिक्तानां च सञ्चातमरणे एकोद्दिष्टान्तकृत्यव्यतिरेकेण
मासिकसापिण्ड्यादिनिषेधात् वत्सरान्ते सापिण्ड्यविधानाच्च
आब्दिकात् पूर्व सापिण्ड्याहै मासिकानि कुर्यात् ।
अत्यब्दसापिण्ड्ये कृतान्यकृतानि च मासिकादीनि कृष्णैकादश्यां
मृताहै सपिण्डीकरणाहै वा कुर्यात्, श्राद्धानि षोडशापाद्य विदधीत
सपिण्डताम् इति लोकाक्षिवचनात्, कृतेषु मासिकेष्वेषु
सपिण्डीकरणं विना । संबत्सरे व्यतीते तु पुनस्तानि समाचरेत् इति
शङ्खस्मरणाच्च ।

வர்ஷத்தின் முடிவிலாவது, வர்ஷம் முடிந்த பிறகாவது ஸாபின்ட்யம் செய்தால் மாலிகங்களின் நிர்ணயம்.

வர்ஷத்தின் முடிவில் ஸாபின்ட்யம் செய்யும் விஷயத்தில், ஏதாவது தொந்தரையினால், முன்பு செய்யப்படாத ஊநமாலிகம் முதலிய எல்லா மாலிகங்களையும், 12-ஆவது மாலிக தினத்திலாவது, ஊநாப்திக மாலிக தினத்திலாவது, ஆப்திக தினத்திற்கு முந்திய தினமாகிய ஸபின்மைகரண தினத்திலாவது செய்ய வேண்டும். இவ்விதம், மாதா பிதாக்களுக்கும், பத்னீ முதலியவர்களைத் (7-பேர்கள்) தவிர்த்தவர்களுக்கும் ஸங்காதமரண விஷயத்தில், ஏகோத்திஷ்டம் முடியும் வரையுள்ள க்ருத்யம் தவிர்த்து, மாலிகம், ஸாபின்ட்யம் முதலியவைக்கு நிஷேஷதம் இருப்பதாலும், வர்ஷ முடிவில் ஸாபின்ட்யம் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும், ஆப்திகத்திற்கு முன் ஸாபின்ட்ய தினத்தில் மாலிகங்களைச் செய்ய வேண்டும். வர்ஷத்திற்குப் பிறகு ஸாபின்ட்யம் செய்யும் விஷயத்தில், செய்யப்பட்டும், செய்யப்படாமலும் உள்ள மாலிகம் முதலிவைகளை, க்ருஷ்ணபகுஷ் ஏகாதசியிலாவது, தர்சத்திலாவது, ம்ருத திதியிலாவது, ஸபின்மைகரண தினத்திலாவது செய்யவும். '16-ச்ராத்தங்களைச் செய்து ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும்' என்று லோகாக்ஷி வசநம் இருப்பதாலும், 'இந்த மாலிகங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸபின்மைகரணம் செய்யப்படாமல் வர்ஷம் அதிக்ராந்தம் ஆனால் மறுபடி அவைகளைச் செய்யவும்' என்று சங்க ஸ்மருதி இருப்பதாலும் இப்படி.

மாசிகாநா் ஸபிண்டிகரணஜ்ஞாத் ஸ்வகாலே ஸபிண்டி-கரணகர்ணே காலாந்தரே தத்கர்ணே கृதைப்யஜ்ஞभौதைமர்ஸிகை: ஸஹ ஸபிண்டங் குர்யாத்। தथா ச காத்யாயன: — ப்ர஧ானஸ்யாக்ரியாயா் து ஸாஜ் தத் கியதே புன:। தத்தையாக்ரியாயா் து நாவூத்திரைவ் தத்கியா

इति । ननु — तर्हि प्रधानभूतसापिण्ड्यमात्रानुष्ठानेन कृतं मासिकानुष्ठानभिति चेन्मेवम्, यस्यैतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडश । पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशैरपि इति तदकरणे प्रत्यवायस्मरणात् ।

मालीकंकलाम् लपिण्णमकरणत्तिन्निरुक्तुं अनुकम्भाक्षयताल्, लपिण्णमकरणत्तेतत्तेच चेय्यामल्ल वेवृ कालत्तिल्ल अतेतत्तेच चेय्यवत्तागुल्ल, मुन्न चेय्यप्पट्टिरुन्तालुम्, अनुकंकलाक्षय मालीकंकलगुटान्न लापिण्णट्यत्तेतत्तेच चेय्य वेण्णुम्. अव्वितमेऽ, कात्यायनारः— ‘प्रताणमान कर्मत्तेतत्तेच चेय्याविष्टिल्, अतेऽ मरुपटि अनुकंकलगुटान्न कृष्टियताक्षवे चेय्यवुम्. अतां अनुकत्तेतत्तेच चेय्याविष्टिलो वेण्णील्, अतरुक्तु (प्रताणत्तिन्निरुक्तु) आवरुत्तिल्ल, अतेऽ (अनुकत्तेतत्तेच) चेय्यवुम् वेण्णट्यतु इल्लै’ एन्ऱुर्. अप्पेपामुतु, प्रताणम् आक्षय लापिण्णट्यत्तेतत्तेमट्टिल् चेय्यवत्ताल्ल मालीक अनुष्टाणमुम् चेय्यप्पट्टताकिरुते ? एन्णील्, इव्वितम् शोल्लक्षुटातु. (एन्णील्) ‘एवनुक्तु इन्त 16- प्परेत चरात्तंकणम् केाटुक्कप्पटवे इल्लैयो अवनुक्तुपि पिचाचत्तं तन्मेम लिरमाक्षवे इरुक्कुम्, नूற्य चरात्तंकणम् केाटुक्कप्पट्टालुम्, एन्ऱु मालीकंकलैच चेय्यात् विष्यत्तिल् तेऽव्वम् शोल्लप्पट्टु इरुप्पत्ताल्.

कालं विदधाति गर्जः — कृष्णपक्षे तु पञ्चम्यामष्टम्यां दर्श एव वा । एकादश्यां तु कर्तव्यं स्वकालाकरणे सति इति । वत्सरान्त-सापिण्ड्ये अत्यब्दसापिण्ड्ये च मासिकानामावृत्तिनास्ति, किन्तु सपिण्डीकरणात् पूर्वं सकृदेव तानि कुर्यात्, यस्य संवत्सरादर्वाक् सपिण्डीकरणं इत्यादिभिर्वत्सरात् प्रागेव सपिण्डीकरणे तदूर्ध-

மாசிகானா புன: கரணவி஧ானாத् । விஜானேஶ்ரேண து
வத்ஸராட்வாக்ஸாபிண்ட்சேட்பி மாசிகானா புன: கரண் நாஜிகூதம் ।

காலத்தை விதிக்கின்றூர் கார்கார்: - 'க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் பஞ்சமியிலாவது, அஷ்டமியிலாவது, தர்சத்திலாவது, ஏகாதசியிலாவது செய்யவும், ஸ்வகாலத்தில் செய்யாவிட்டில்' என்று. வத்ஸராந்த ஸாபிண்ட்யத்திலும், வத்ஸரத்திற்குப் பிறகு ஸாபிண்ட்யத்திலும், மாளிகங்களுக்கு ஆவ்ருத்தி இல்லை. ஆனால், ஸபிண்டகரணத்திற்கு முன் ஒரு முறையே அவைகளைச் செய்யவும். 'யஸ்ய ஸம்வத்ஸராதர்வாக் ஸபிண்டகரணம்' என்பது முதலிய வசநங்களால், வர்ஷத்திற்கு முன்பே ஸபிண்டகரணம் செய்யப்பட்டால், அதற்கு மேல் உள்ள மாளிகங்களை மறுபடி செய்யும்படி விதி இருப்பதால். விஜ்ஞானேச்வரராலோவனில் வர்ஷத்திற்கு முன் ஸாபிண்ட்யம் செய்த விஷயத்திலும், மாளிகங்களை மறுபடி செய்வது என்பது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

தथா ஹி — யदा பிராக்ஸंவத்ஸராத் ஸபிண்டிகரணம், ததா ஷோடஶ ஶாஞ்சனி கூத்வா ஸபிண்டிகரண் கார்யமிதி வா, ஸபிண்டிகரண் கூத்வா ஸ்வகாலேஷு வா தானி கர்த்துநீதி ஸஂஶயः, உமயதா வசந஦ர்ஶனாத் ஶாஞ்சனி ஷோடஶாகூத்வா ந து குர்யாத் ஸபிண்டதாம் । ஶாஞ்சனி ஷோடஶாபாத்ய வி஦்஧ீத ஸபிண்டதாம் இதி, ததா — யஸ்ய ஸंவத்ஸராட்வாக்ஸபிண்டிகரண் ஭வேத் । மாசிக் ஸோடகும்஭ம் சே ஦ேய் தஸ்யாபி வத்ஸரம் இதி । தன ஸபிண்டிகரண் கூத்வா ஸ்வகாலே ஏவ தானி கர்த்துநீதி பிரதமகல்பः, அப்ராஸ்காலத்வேன பிராக்நாதிகாராத் । யதேபி வசந், ஷோடஶ ஶாஞ்சனி கூத்வை ஸபிண்டிகரண் ஸंவத்ஸராத் பிராபி கர்த்துநீதி ஸோடயமாப்தகல்பः இதி ।

அவ்விதமே, 'நப்பொழுது வர்ஷத்திற்குள் ஸபிண்டகரணம் செய்யப்படுகிறதோ, அப்பொழுது,

16-ச்ராத்தங்களைச் செய்து ஸபின்மகரணத்தைச் செய்யவேண்டுமா அல்லது ஸபின்மகரணத்தைச் செய்து, அதனதன் காலங்களில் அவைகளைச் செய்ய வேண்டுமா என்று ஸம்சயம். இரண்டு விதமாயும் வசநங்கள் காணப்படுவதால். '16-ச்ராத்தங்களைச் செய்யாமல் ஸாபின்டயத்தைச் செய்யக் கூடாது. அவைகளைச் செய்து ஸர்பின்டயத்தைச் செய்யவும்' என்றும், அவ்விதம், 'எவனுக்கு வர்ஷத்திற்கு முன் ஸபின்மகரணம் செய்யப்பட்டதோ, அவனுக்கும் வர்ஷம் முடியும் வரையில் மாலிகமும், ஸேரதகும்பழும் செய்யப்பட வேண்டும்' என்றும். அவ்விஷயத்தில், ஸபின்மகரணத்தைச் செய்து ஸ்வகாலத்திலேயே அவைகளைச் செய்ய வேண்டும் என்பது முக்ய கல்பம். காலம் ப்ராப்தம் ஆகாததால் முன் செய்வதற்கு அதிகாரம் இல்லாததால். 'ஃஷாடச ச்ராத்தங்களைச் செய்தே வர்ஷத்திற்கு முன்பிலும் ஸபின்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும்' என்ற வசநம் ஆபத்கல்பத்தைப் பற்றியது' என்றார்.

एतच्च विज्ञानेश्वरोक्तं यदा संवत्सरादर्वाक्षसापिण्डयं कर्तुमिष्यते । आवर्तनं षोडशानां तदा कर्तव्यमेव हि इत्यादि पूर्वोक्त बहुस्मृतिविरोधात् शिष्टाचारविरोधाच्चोपेक्ष्यम् ।

இவ்விதம் விழ்ஞானச்வரர் சொல்லியது, 'யதாஸம்வஸ்ரா+கர்தவ்யமேவஹி' என்பது முதலிய முன் சொல்லப்பட்ட வசனங்களுக்கு விருத்தமாய் இருப்பதாலும், சிஷ்டாசார விரோதம் இருப்பதாலும் ஆதரிப்பதற் கர்றுமல்ல.

शुभागमे मासिकापकर्षणम्

सपिण्डीकरणात् पूर्व कृतान्यपि मासिकानि शुभागमे तत्पूर्वमेव तदुत्तरभावीनि पुनरप्यपकृष्य कुर्यात्, न स्वकालै पुनः

குர்யாத் । யदாह ஶாட்யாயனி: — ஸபிண்டிகரணாத்வர்஗பக்குஸ்ய
கृதாந்யபி । புனரப்பக்குஸ்யந்தே வृஷ்சுத்ரனிஷே஧னாத் । ஜந்மத்ரயே
நாபகர்ஷே ந நந்஦ாஸு ஭ृ஗ோர்஦்஧ீ । ந ஭ானுமௌம்஦ிவஸே ந ஦ோஷோऽஸ்த
மृதேऽஹனி இதி । மृதேऽஹனி ஜந்மத்ரயாதாவப்பகர்ஷே ஦ோஷோ
நாஸ்தீத்யர்஥: । ஸ எவ — ப்ரேதஶாஜானி ஶிஷ்டானி ஸபிண்டிகரண
ததா । அபக்குஸ்யாபி குர்வீத கர்த்தா நாந்஦ீமுखே ஦்விஜ: இதி ।

ஸப கார்யம் வந்தால் மாஸிகங்களின் அபகர்ஷம்

ஸபிண்மகரணத்திற்கு முன் செய்யப்பட்ட மாஸிகங்களையும், ஸப கார்யம் வந்தால், அதற்கு முன்பே, ஸபகார்யத்திற்கு மேல் வரக்கூடியவைகளை மறுபடி அபகர்ஷித்துச் செய்யவேண்டும். அதனதன் காலத்தில் மறுபடி செய்யக்கூடாது. அதைச் சொல்லுகிறார், சாட்யாயனி:- “ஸபிண்மகரணத்திற்கு முன் அபகர்ஷித்துச் செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் மாஸிகங்கள் வ்ருத்திக்கு முன் மறுபடி அபகர்ஷிக்கப்பட வேண்டும். வ்ருத்திக்கு மேல் நிஷேஷத்திக்கப்பட்டு இருந்தால். ஜனமாநுஜன்ம த்ரிஜன்மங்களிலும், நந்தைகளிலும், ப்ருகுவாரத்திலும், பானுவாரத்திலும், பெளமவாரத்திலும் அபகர்ஷிக்கக் கூடாது. ம்ருத திதியில் தோஷம் இல்லை.” ம்ருத திதியில் ஜன்மத்ரயம் முதலியது நேர்ந்தாலும் அபகர்ஷித்தில் தோஷம் இல்லை, என்பது பொருள். சாட்யாயனியே:- மீதியுள்ள ப்ரேத ச்ராத்தங்களையும், ஸபிண்மகரணத்தையும், நாந்தீ ச்ராத்தம் ஸமீபித்து இருந்தால், கர்த்தா அபகர்ஷித்துச் செய்ய வேண்டும்.

காலாதரே — வृஷை தாந்யபக்குஸ்யாபி குர்யத்திமுதிவாஸரே இதி । வृஷை: ஶுभம், தஸ்மிந்துபஸ்திதே ஆகாமிமாஸிகாந்யாகுஸ்ய வृஷை: பூர்வ மரணத்தினே குர்யாத்யர்஥: । காத்யாயன: — நிர்வர்த்த வृஷ்டிதன்ம் து மாஸிகானி ந தந்தியேத் । அயாதயாம் மரண் ந ஭வேத்

पुनरस्य तु इति । अयातयाम् - नवम् । तदेवम् -
 प्रेतसंस्कारकार्याणि यानि श्राद्धानि षोडश । यथाकाले तु कार्याणि
 नान्यथा मुच्यते ततः इत्यादिवचनानि द्वादशाहादौ
 सापिण्डचार्थमपूर्णमासिकानां स्वस्वकाले पुनः करणपराणि,
 त्रिपक्षादौ सापिण्डये उत्सवार्थमप-कृष्टानां मासिकानां न पुनः
 करणम्, उत्सवार्थान्येव सापिण्डचार्थानि च भवन्तीति वचनादा
 वृत्तिर्बाध्यते, सपिण्डीकरणात् परन्तु शुभागमे सापिण्डचार्थमप-
 कृष्टानां शुभार्थं पुनरप्यपकर्षः न स्वकाले पुनः करणमिति ज्ञेयम् ।

காலாதூர்ச்திலில்:- “வ்ருத்தியில், அவைகளை அபகர்ஷித்தே ம்ருத திதியில் செய்யவும்.” வ்ருத்தி என்பதற்கு சுபம் என்பது பொருள். சுபகார்யம் ஸமீபித்து இருந்தால் வரப்போகும் மாஸிகங்களை அபகர்ஷித்து, சுபத்திற்கு முன் ம்ருத திதியில் செய்யவும் என்பது பொருள். காத்யாயனர்:- சுபகார்யத்தைச் செய்த பிறகு மாஸிகங்களை செய்யக் கூடாது. அவ்விதம் இருந்தால் கர்த்தாவுக்கு மறுபடி புதிதாகிய பந்து மரணம் நேராமல் இருக்கும். இவ்விதம் இருப்பதால் ‘ப்ரேதனின் ஸம்ஸ்கார கர்மங்களும், ஷோடச ச்ராத்தங்களும் அந்தந்தக் காலங்களில் செய்யப்பட வேண்டும். இல்லாவிடில் ப்ரேதன் ப்ரேதத்வத்தினின்றும் விடுபடுவது இல்லை’ என்பது முதலிய வசநங்கள், 12-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்ட்யத்திற்காக அபகர்ஷிக்கப்பட்ட மாஸிகங்களை அதனதன் காலத்தில் மறுபடி செய்ய வேண்டும் என்பதில் தாத்பர்யம் உள்ளவைகள். தரிபகழம் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்ட்யம் செய்வதானால், அதற்கு முன் சுபகார்யத்திற்காக அபகர்ஷிக்கப்பட்ட மாஸிகங்களுக்குப் புநை:கரணம் என்பது இல்லை. ‘உத்ஸவத்திற்காக அபகர்ஷிக்கப்பட்டவைகளே ஸாபிண்ட்யத்திற்காகவும் ஆகின்றன’ என்ற வசனத்தால் ஆவ்ருத்தி பாதிக்கப்

படுகிறது. ஸபின்மகரணத்திற் குப் பிறகு சுபாகமமாகில், ஸாபின்டயத்திற்காக அபக்ருஷ்டங்களான மாஸிகங்களுக்குச் சுபத்திற்காக மறுபடி அபகர்ஷம் உண்டு. அவைகளை ஸ்வகாலத்தில் மறுபடி செய்ய வேண்டியது இல்லை என்று அறியவும்.

மாதாபிதூவிஷயே து ஶுभாगமே அபகுப்ய புன: குதாந்யபி மாஸிகானி புன: ஸ்வகாலே திராவृத்யா புற: குர்யாத் । தथா சு விஶாदரீ — ஶுभகர்ம ந குர்வித் மாஸிகாந்யஸமாப்ய து । ஸமாப்ய சு புன: குர்யாத் பித்ரோ: ஸ்வத்ஸர் தத: । மூத்ஸ்ய தூஸயே குர்யாத் திருவிராவृத்திமேதத: । திருவிராவृத்தி஦ோஷோத்ர நாஸ்த மாஸிகர்மணி இதி । அத் மாதாபிதூவிஷயே, நிர்வாத் வழிதன்ம் து மாஸிகானி ந தன்யயேத் இதி நிஷே஧ோ நாஸ்தீத்யர்஥: ।

மாதா பித்ரு விஷயத்திலோ எனில், சுபகார்யத்தில் அபகர்ஷித்து மறுபடி செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் அந்த மாஸிகங்களை அதனதன் காலத்தில், மூன்றாவது தடவையாய்ப் புத்ரன் செய்ய வேண்டும். அவ்விதமே, விச்வாதர்சத்தில்:- மாஸிகங்களை முடிக்காமல் சுபகார்மத்தைச் செய்யக் கூடாது. முடிந்த பிறகும் வர்ஷம் முடியும் வரையில் மாதா பிதாக்களுக்கு மறுபடி செய்ய வேண்டும். இறந்தவனுக்கு த்ருப்திக்காக 2-3 தடவைகளாகவும் செய்ய வேண்டியது. மாதா பித்ரு விஷயத்தில் 2-3 தடவை செய்வதால் தோஷம் என்பது இல்லை. ‘சுபகார்யத்தைச் செய்த பிறகு மாஸிகங்களைச் செய்யக் கூடாது என்ற நிலேஷதம், மாதா பித்ரு விஷயத்தில் இல்லை என்பது பொருள்.

ஶிவஸ்வாமிமதேதபி — ந மாஸிகஶாத்துவி஧ி: புன: ஸ்யாநாந்஦மிழுகானந்தரமுக்தகாலே । ஸமாப்ய பித்ரோஶ புனஶ குர்யாத் ஸ்வத்ஸர் மாஸிகர்ம காலே । பிரஸேத்வஶயே மாஸிக் கர்ம சேஷ் குர்யாத் பூர்வோஷனே ஶோभனாது । பஶாத் பித்ரோவ ஶோஷனி குர்யாந்மாஸி-

श्राद्धान्याब्दपूर्वेन चान्यः इति ॥ पारिजातेऽपि - मासिकान्य-
समाप्यैव नान्दीश्राद्धं न कारयेत् । समाप्य च पुनः काले
पित्रोमासिकमाचरेत् सति ।

— शिवसंबाध्यमत्तत्त्विलुमः:- ना न्ति चरात्तथम् चेय्यत
पिऱ्कु मालिक चरात्तथं कंकाली अवैवकणीन् कालत्तिलं
चेय्यकं कूटातु. माता प्रित्तरु विष्यत्तिलं, ना न्ति
चरात्तथं तत्त्वम् पिऱ्कु, वर्षम् मृष्टियुम् वरेरयिलं
अन्तन्तकं कालत्तिलं मालिकंकालीचं चेय्य वेण्णुम्.
आवश्यकमाण शोपनकर्मम् प्रराप्तम् आगुलं, अतर्कु
मुन्न, पिऱ्कु चेय्य वेण्णदियमालिक कर्मत्तथयुम् चेय्य
वेण्णुम्. पिऱ्कु, माता प्रिताकंकाली मैतीयुलं
मालिकंकाली वर्षम् मृष्टियुम् वरेरयिलं पुत्रान् चेय्य
वेण्णुम्. अन्यान् चेय्यकं कूटातु. पारिज्ञातत्त्विलुमः-
मालिकंकाली मृष्टिक्कामलं ना न्ति चरात्तथं तत्त्वसं
कूटातु. मृष्टित्त पिऱ्कुम् माता प्रिताकंकालीकु, कालप्पति
मालिकंकाली मरुपति चेय्य वेण्णुम्.

स्मृत्यन्तरे — शुभागमेऽपकृष्टानां न पुनः कृतिरिष्यते ।
द्विस्त्रिवृत्तिदोषस्तु मातापित्रोर्न विघ्ने इति । अन्यत्रापि —
व्रतसीमन्तचौलेषु विवाहे च द्वितीयके । अलभ्ययोगयज्ञेषु प्राप्तेषु
यदि मध्यतः । अपकृष्य तदा कुर्यान्मासिकानि मृतेऽहनि ।
मासिकानि पुनः कुर्यात् पित्रोरैव विचक्षणः इति । तथा - अपकृष्य
यदा कुर्यान्मासिकानि शुभागमे । तदा मृतेऽहिं कर्तव्यं शुभात्
पूर्वदिनेऽपि वा इति ।

मर्णेणुरु संमंगुतीयिलः- सपकार्य विष्यत्तिलं
अपकर्षीकंकप्पट्ट मालिकंकालीकुप बुनःकरणम्
एन्पतु इल्लै. माता प्रित्तरु विष्यत्तिलं, 2-३ तटवैव
आवंगुत्ति चेय्वत्तिलं तेऽवृष्टम् इल्लै. ओरु
संमंगुतीयिलुमः- वरतम्, लैमन्तम्, चेलाम्, 2-आवतु
विवाहम्, अलप्ययोकंकाली, याकम् इवैवकाली

வர்ஷத்திற்குள் ப்ரராப்தங்கள் ஆனால், அப்பொழுது மாலிகங்களை அபகர்ஷித்து, ம்ருத திதியில் செய்ய வேண்டும். அறிந்தவன் மாதா பிதாக்களின் மாலிகங்களையே மறுபடியும் செய்ய வேண்டும். அவ்விதம்:- “சுபகார்யத்தில் மாலிகங்களை அபகர்ஷித்துச் செய்வதானால் ம்ருத திதியில் அபகர்ஷித்துச் செய்ய வேண்டும் அல்லது சுபகார்யத்திற்கு முந்திய தினத்தில் செய்யவும்” என்று உள்ளது.

பியாக்பாரிஜாதே து — ஊனாந் நாபகர்ஷ: ஸ்யாத் புனரப்பக்ஷே | உத்கர்ஷஶாபி ந ஭வேத் ப்ரமாடாந்தரிதஸ்ய து | மாஸிகாந்யவஶிஷ்டானி மாதாபித்ரோ: பரஸ்ய ச | வ௃ஷ்பூர்வினே குர்யத் திதியில் அபகர்ஷித்துச் செய்ய வேண்டும் அல்லது சுபகார்யத்திற்கு முந்திய தினத்தில் செய்யவும்” என்று உள்ளது.

ப்ரயோகபாரிஜாதத்திலோவனில்:- மறுபடி மாலிகங்களை அபகர்ஷிக்கும் போது; ஊநமாலிகங்களுக்கு அபகார்ஷம் கூடாது. கவனம் இன்மையால் அந்தரிதமான ஊநமாலிகத்திற்கு உத்கர்ஷமும் கூடாது. மாதா பிதாக்களுடையவும், மற்றவர்களுடையவும் மீதி உள்ள மாலிகங்களை நாந்திக்கு முதல் நாளில் செய்யவும். மாதா பிதாக்களின் மாலிகங்களுக்கு அதனதன் காலப்படி புந:கரணம் உண்டு. ஹோமாத்ரியில்:- ஜாதகர்மம், நாமகரணம், அன்னப்ராசனம், பராம்யகளின் ப்ரதம ரஜோதரசனம் இவைகளில் மாலிகத்தை அபகர்ஷிக்கக் கூடாது. இதுவும் ஜஞாதி விஷயத்தில் ‘கர்ப்பாதாநம் முதல் அன்னப்ராசனம், வரையில் உள்ள கார்யங்கள் நேர்ந்தால் அவைகளை யதர்காலம் செய்ய வேண்டும். ஜஞாதிகளுக்கு ப்ரேத கார்யங்களைச் செய்பவன் ஆயினும் அவைகளைச் செய்யவேண்டும்’ என்று ஸ்மர்து இருப்பதால்.

गर्भादिव्यतिरिक्तविषये तु चतुर्विंशतिमते — भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा । सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यादभ्युदयं ततः इति । मातापितृमातामहवर्गणां तु अभ्युदयोद्देश्यत्वे प्रेतकार्यं पूर्वमेव कर्तव्यम्, पित्रादीनां प्रमीतानां त्रयाणां तु सपिण्डनम् । कृत्वा तु मङ्गलं कुर्यान्नेतरेषां कथञ्चन इति स्मृतेः ॥

कर्पंप्रातानम् मुतवियतेतत् तविर्त्तत
विष्यत्तिलोबेवनील, सत्यार्विमित्तिमत्तिलः- प्राता
अल्लतु प्रात्तर्गु पुत्रं, लपिण्टनं, चिष्यनं,
இவர்களுள் யாராயினும், ஸபிண்டகரணத்தைச் செய்து
பிறகு நாந்தி ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். மாதா, பிதா,
மாதாமஹன் என்ற இவர்களின் வர்க்கங்களுக்கு நாந்தி
ச்ராத்தத்தில் உத்தேச்யத்வம் வருமாகிலோவெனில், ப்ரேத
கார்யத்தை முன்பே செய்ய வேண்டும். ‘பிதா முதவிய
மூவர்கள் இறந்திருந்தால் அவர்களுக்கு ஸாபிண்ட்யத்தைச்
செய்து, பிறகு சுபகார்யத்தைச் செய்ய வேண்டும்.
மற்றவர்கள் விஷயத்தில் இந்த நியமம் இல்லை’ என்று
ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

एवच्च जातकर्मादिव्यतिरिक्तपुंसवनाद्यावश्यक शुभागमे
मुख्यकर्तुर्मासिकापकर्षः, स्वकाले नास्ति पुनः करणम् ।
मातापित्रोस्तु पुनः करणमिति निर्णयः । शुभागममन्तरेण
मासिकापकर्षे दोषमाह शाटचायनिः — अन्तरैषै यो वृद्धिं
प्रेतश्राद्धानि कर्षति । स श्राद्धी नरके घोरे पितृभिः सह मज्जति इति ।

இவ்விதம் இருப்பதால், ஜாதகர்மம் முதவியதைத்
தவிர்த்த, பும்பவநம் முதவிய ஆவச்யகமான சுபகார்யம்
வந்தால், முக்ய கர்த்தா மாஸிகங்களை அபகர்ஷிக்க
வேண்டும். ஸ்வகாலத்தில் மறுபடி செய்ய வேண்டியது
இல்லை. மாதா பிதாக்களின் மாஸிகங்களையோ வெனில்
மறுபடி செய்ய வேண்டும் என்பது நிர்ணயம்.

சுபகார்யத்தைத் தவிர்த்து, மற்றக் காலத்தில் மாஸிகாபகர்ஷம் செய்யும் விஷயத்தில் தோஷத்தைச் சொல்லுகிறார். சாட்யாயனி:- நாந்தீ ச்ராத்தத்தைத் தவிர்த்து, (மற்றக் காலத்தில்) எவன் மாஸிகங்களை அபகர்ஷிக்கின்றானே, அந்த ச்ராத்தகர்த்தா, கோரமாக நரகத்தில் பித்ருக்களுடன் முழுகுவான்.

அனேன மாஸிகாப்தஸ்வரோ: கருரீகஸ்யैவ ஶுभாगமமந்தரேণ
மாஸிகாபகர்ஷே பித்யவாயவி஧ானாத् அபகृष்ணாபி குர்வித கர்தா
நாந்஦ிமுखே ஦ிவிஜः இதி நாந்஦ிஶ்ராஜே து ஸம்ப்ராஸே மாஸிகாந்யகृதானி
து । ஶுभக்தைவாபகृஷ்ண குர்யநிர்வாய இதி ஸ்஥ிதிஃ இதி, மாஸிகானி
யथாகால் குர்வண்ணஸ்ய யதாவி஧ி । யदा வृஷ்டிஸ்தா ஭ூயः
ஶிஷ்டமப்யபகृஷ்டதே இதி ச கருரீவாभ்யுदயே மாஸிகாபகர்ஷவி஧ானாத्
நிர்வர்த்த வृஷ்டிதந்தீ து மாஸிகானி ந தந்தியேத் இதி
வृஷ்டிதந்தமாஸிகயோரேககர்த்துக்த்வஸ்மரணாஞ்ச ய ஏவ மாஸிககர்தா ஸ
ஏவாப்தஸ்வகர்தா சேத் ததா மாஸிகாபகர்ஷः ந து ஭்ராதா: புஞ்சவநாடி
ஶுபாகமே மாஸிகாபகர்ஷः ॥

இதனால் மாஸிகத்தையும் உத்ஸவத்தையும்
செய்பவனான ஒருவனுக்கே சுபகார்யம் இன்றி
மாஸிகாபகர்ஷம் செய்வதில் ப்ரத்யவாயம் விதிக்கப்பட்டு
இருப்பதாலும், 'கர்த்தாவாகிய த்விஜன் நாந்தீ ச்ராத்த
காலத்தில் அபகர்ஷித்தாவது செய்ய வேண்டும்' என்றும்,
'நாந்தீ ச்ராத்ததம் ப்ராப்தம் ஆனால் செய்யப்படாத
மாஸிகங்களை, சுபகார்யத்தைச் செய்பவனே அபகர்ஷித்துச்
செய்ய வேண்டும், மற்றவன் செய்யக் கூடாது என்பது
நிர்ணயம்' என்றும், 'மாஸிகங்களை அந்தந்தக் காலத்தில்
விதிப்படி செய்பவனுக்கு நாந்தீ ச்ராத்தம் எப்பொழுது
ப்ராப்தம் ஆகிறதோ அப்பொழுது, மீதியுள்ள மாஸிகமும்
அபகர்ஷிக்கப்பட வேண்டும்' என்றும், கர்த்தாவின்
சுபத்திலேயே மாஸிகாபகர்ஷம் விதிக்கப்பட்டு

இருப்பதாலும்; 'நாந்தீ ச்ராத்தத்தைச் செய்து பிறகு மாஸிகங்களைச் செய்யக் கூடாது' என்று, நாந்தீ ச்ராத்தம் மாஸிகம் இவைகளுக்குக் கார்த்தா ஒருவன் என்று ஸ்மருதி இருப்பதாலும்; எவன் மாஸிக கார்த்தாவேர அவனே சுபகாரய கார்த்தாவாகில், அப்பெரமுது மாஸிகங்களுக்கு அபகர்ஷித்தைச் செய்யலரம். கார்த்தாவின் ப்ராதா முதலியவற்குப் பும்லவனம் முதலிய சுபகாரயம் வந்தால் மாஸிகாபகர்ஷித்தைச் செய்யக் கூடாது.

यत्त्विदं वचनम् — नान्दीमुखे देवतात्वं येषां पितृणस्य तु ।
मासिकान्यपृष्ठैव कृत्वा तेषां शुभं भवेत् इति, अत्र बहुवचनं
द्वादशविधपुत्राभिप्रायम् । येषामौरसादीनां सस्कर्तृणां पितृणस्य
नान्दीश्राद्धे देवतात्वम्, तेषां शुभागमे मासिकापकर्ष इत्यर्थः । तथा
पितृमैधसारे — तच्चैतदेके भ्राताद्युत्सवैऽप्यपृष्ठै कुर्वते, तत्र तथा
कुयात् मासिककर्तुरीवोत्सवे मासिकापकर्षवचनात् समानकर्तृ-
कत्वस्मरणात् कर्तुरीवाभ्युदये मासिकापकर्षः इति ।

ஆனால் - “எவர்களின் பித்ரு கணத்திற்கு நாந்தீ ச்ராத்தத்தில் தேவதாத்வம் (உத்தேச்யத்வம்) வருகிறதோ, அவர்களின் சுபகாரயத்தை மாஸிகங்களை அபகர்ஷித்துச் செய்து பிறகே சுப காரயத்தைச் செய்ய வேண்டும்” என்ற வசனம் உள்ளதே ? எனில், இந்த வசனத்திலுள்ள பஹ்வசனம் 12-விதமரய் உள்ள புதர்களைச் சொல்வதில் அபிப்ராயம் உள்ளது. “எந்த ஓளரஸன் முதலாகிய 12-வித புதர்களான ஸம்ஸ்கர்த்தாக்களின் பித்ரு கணத்திற்கு நாந்தீ முகத்தில் தேவதாத்வமோ (உத்தேச்யத்வமோ) அவர்களுக்குச் சுபகாரயம் வந்தால் மாஸிகங்களை அபகர்ஷிக்க வேண்டும்” என்பது பொருள். அவ்விதமே, பித்ருமேத ஸாரத்தில்:- ‘இந்த மாஸிகத்தைச் சிலர், ப்ராதா முதலியவரின் உத்ஸவத்திலும் அபகர்ஷித்துச் செய்கின்றனர். அதை அவ்விதம் செய்யக் கூடாது. மாஸிகத்தைச் செய்பவனுக்கே உத்ஸவம் ஆனால் அதில்

மாலிகாபகர்ஷம் சொல்லப்பட்டு இருப்பதாலும், இரண்டுக்கும் கர்த்தா ஒருவனே என்று சொல்லப்பட்டு இருப்பதாலும், கர்த்தாவின் சுபகார்யத்திலேயே மாலிகாபகர்ஷம்' என்று உள்ளது.

மாசிகானாங் பார்ணைகோஹிஷ வி஧ானவ்யவस்஥ா |

மாசிகானி ஸபிண்டிகரணாத் ப்ராගேகோஹிஷ வி஧ானேன குர்யதி, ஸபிண்டிகரணாத் பரமனுமாசிகானி யோ யथா ப்ரத்யாபிக்காநாஞ் கரோதி பார்ணமேகோஹிஷ் வா ஸ ததா குர்யதி। யதா஽ஹ பைठீநஸிஃ: — ஸபிண்டிகரணாதாவாக் குர்வந் ஶாநானி ஷோட்சா | ஏகோஹிஷவி஧ானேன குர்யதி ஸவர்ணி தானி து॥ ஸபிண்டிகரணாதூஷ்வ் யதா குர்யாத்தா புனः: | ப்ரத்யங்க் யோ யதா குர்யதி ததா குர்யத்திஸ தாந்யபி இதி | ஸமூதிரத்தேஹிபி — யஸ்ய ஸஂவத்ஸராதாவாக் ஸபிண்டிகரண் குதம் | ப்ரதிமாஸ் ததா தஸ்ய ப்ரதிஸஂவத்ஸர் யதா இதி

மாலிகாங்களுக்கு, பார்வணத்வம்,
ஏகோத்திஷ்டத்வம் இவைகளின் நிரணயம்.

மாலிகங்களை ஸபிண்டைகரணத்திற்கு முன் ஏகோத்திஷ்ட விதாநத்தால் செய்யவும். ஸபிண்டைகரணத்திற்குப் பிறகு அனுமாலிகங்களை, எவன் எப்படி ப்ரத்யாப்திக ச்ராத்தத்தைச் செய்வானே, பார்வணமாகவோ ஏகோத்திஷ்டமாகவோ, அவன் அப்படிச் செய்யவேண்டும். சொல்லுகிறார் - பைஷநஸிஃ: - ஸபிண்டைகரணத்திற்கு முன் 16-ச்ராத்தங்களையும் செய்பவன் ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய் அவை எல்லாவற்றையும் செய்யவேண்டும். ஸபிண்டைகரணத்திற்குப் பிறகு எப்பொழுது செய்கின்றானே அப்பொழுது, எவன் ப்ரத்யாப்திகத்தை எப்படிச் செய்வானே அவன் அப்படியே மாலிகங்களையும் செய்யவேண்டும். ஸம்ருதிரத்தனத்திலும்:- எவனுக்கு வர்ஷத்திற்கு முன்பே ஸபிண்டைகரணம் செய்யப்பட்டதோ, அவனுக்கு

प्ररथ्याप्तिकं स्रात्तमं नप्पत्तेयो अप्पत्तेय मालनं
तेऽरुमं मालीकमुमं चेय्यप्पत् वेण्णुम्.

प्रत्याब्दिके पार्वणविधिः

प्रत्याब्दिके पार्वणविधानमाह जगदग्निः — आपाद्य सहपिण्डत्वमौरसो विधिवत् सुतः । कुर्वीत दर्शवत् श्राद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि इति । शातातपोऽपि — सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यात् पार्वणवत् सदा । प्रतिसंवत्सरं विद्वान् छागलेयोदितो विधिः इति । त्रिपूरुषोद्देशेन क्रियमार्ण पार्वणम्, एकमुद्दिश्य यत् श्राद्धमेकोद्दिष्टं प्रकीर्तितम् । त्रीनुद्दिश्य तु यत्तद्धि पार्वणं मुनयो विदुः इति स्मरणात् । जातुकर्णिः — अत ऊर्ध्वं न कर्तव्यमेकोद्दिष्टं कदाचन । सपिण्डीकरणान्तं च तत्प्रोक्तमिति मुद्रलः । प्रेतत्वाचैव मुत्तीर्णः प्राप्तः पितृगणं तु सः । च्यवते पितॄलोकात् पृथक् पिण्डेन योजितः । सपिण्डीकरणादूर्ध्वं पृथक्त्वं नोपपद्यते । पृथक्त्वे तु कृते पश्चात् पुनः कार्या सपिण्डता इति । स एव — पितुः पितृगणस्थस्य कुर्यात् पार्वणवत् सुतः । प्रत्यब्दं प्रतिमासं च विधिझ्ञेयः सनातनः इति । पितृगणस्थस्य - सपिण्डीकृतस्येत्यर्थः ।

प्ररथ्याप्तिकत्तिलं पार्वणा वित्ती.

प्ररथ्याप्तिकत्तिलं पार्वणा वित्तीयसं
सेवालं लुकिरुर्, ज्ञमत्तकनीः— ओरालेपुत्तरान् माता
पिताक्कणुक्कु वित्तिप्पत्ति सापीन्नट्यत्तेतासं चेय्यतु, मंगुत
तिनत्तिलं तर्स स्रात्तत्तेताप्प पोलं स्रात्तमं चेय्य
वेण्णुम्. सातातुपारुमः— “लपीन्नमकरणमं चेय्यतु
पिऱ्कु, ओव्वेवारु वर्षभृत्तिलुमं तर्सत्तिलं पोलं
स्रात्तत्तेताअर्निन्तवलं चेय्य वेण्णुम्, ऎन्ऱ वित्ती
साकलेयरालं सेवालंप्पत्तु उल्लातु.” ३-पुरुषरक्की
उत्तेत्तित्तुसं चेय्यप्पत्तुवतु पार्वणम्. ‘ओरुवैले
उत्तेत्तित्तुसं चेय्यप्पत्तुवतु एकोत्तिष्ठतम्. ३-पोरक्की

உத்தேசித்துச் செய்யப்படுவது பார்வணம் என்று முனிகள் சொல்லுகின்றனர்' என்று கண்வ ஸ்மருதி உள்ளது. ஜாதுகர்ணி:- இதற்குப் பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தை ஒரு காலும் செய்யக் கூடாது. ஸபின்மைகரணம் முடியும் வரையில் தான் அது சொல்லப்பட்டு உள்ளது என்று முத்கலர் சொல்லுகிறார். இவ்விதம் ப்ரேதத் தன்மையினிலிருந்தும் வெளிவந்தவனும், பித்ருக்களின் கூட்டத்தை அடைந்தவனுமாகிய அவன், தனிப் பிண்டத்துடன் சேர்க்கப்பட்டால், பித்ர லோகத்தினின்றும் நழுவி விடுவான். ஸபின்மைகரணத்திற்குப் பிறகு தனியாய் இருத்தல் யுக்தமாவது இல்லை. தனிமையாய் ச்ராத்தம் செய்யப்பட்டால் மறுபடி ஸபின்டயம் செய்யப்பட வேண்டும். ஜாதுகர்ணியே:- பித்ருக்களின் கூட்டத்தில் உள்ள ஸபின்மைகரணம் செய்யப்பட்ட பிதாவுக்கு, புத்ரன் பார்வணத்தைப் போல் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும், ப்ரதிவர்ஷமும், ப்ரதிமாஸமும். இது வெகு நாளாய் உள்ள விதி.

காண்ஜிநிரபி — அத ஊர்வந கர்த்யமேகோடிஷ்ட கடாசன | ஸபிண்டிகரணாந்த் ச பிரேதஸ்யैதदமஜலம् இதி | யம: — ய: ஸபிண்டிகृதं ப்ரேतं பृथக् பிண்஡ே யோஜயेत् | வி஧ி஘ஸ்தே ஭வதி பிதृஹ சோபஜாயதே இதி | மா஧வியே — பிரான் யது யதைஷா ஸபிண்டிகரணாத् பரம् | தத्र பார்ணவச்சாஷமேகோடிஷ்ட த்யजேதூஷ: இதி |

கார்ஷ்ணாஜநியும்:- இதற்குப் பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தை ஒரு காலும் செய்யக் கூடாது. ப்ரேதனுக்கு இந்த அமங்களமான கார்யம் ஸபின்மைகரணம் வரையில் தான். யுமன்:- எவன் ஸபின்மைக்ருதனுன ம்ருதனை தனிப் பிண்டத்துடன் சேர்க்கிறானே அவன், விதியைக் கெடுத்தவன் ஆகிறான். பித்ருக்னாகவும் ஆகிறான். மாதவீயத்தில்:-

लपिण्माकरणत्तिन्निर्भुक्तुप् पिऱ्कु इवर्कण्कुक्तु
 (मुनिशोल्लप्पपट्टवर्क्कु) नन्तेतन्तक्क कालत्तिल्लं
 चरात्तम्भ वरुक्किर्तेऽ अन्तन्तक्क कालत्तिल्लं
 पार्ववन्माक्केवे चरात्तत्तत्तत्तेत्तक्क चेय्यवुम्.
 एकोत्तिष्ठत्तत्तेत्तक्क चेय्यक्कूटातु, अरीन्तवन्न.

मनुरपि — असपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु ।
 अदैवं भोजयेत् श्राद्धं पिण्डमेकं च निविष्ट । सहपिण्डक्रियायां तु
 कृतायामस्य धर्मतः । अनयैवावृता कार्यं पिण्डनिर्बापिणं सुतैः इति ।
 असपिण्डक्रियाकर्म - सपिण्डीकरणात् प्राक् श्राद्धकर्म, अदैवं -
 एकोद्दिष्टविधानेनेति यावत् । सहपिण्डक्रियायां - सहपिण्डीकरणे
 कृते, अनयैवावृता - उक्तेन मासिकश्राद्धप्रकारेण, पार्वणविधाने-
 नेत्यर्थः ।

मनुवुमः - लपिण्माकरणत्तिन्निर्भुक्तु मुनिनुल्ला चरात्तक
 कर्मत्तत्तेत्त इरन्त प्रराम्भेणनुक्तु, तेव वरणमं
 इल्लामल्ल ओरु पिण्ठात्तत्तुटन् (एकोत्तिष्ठत्त
 वित्तान्माय) चेय्य वेण्णुम्. लपिण्माकरणमं
 चेय्यप्पपट्ट पिऱ्कोबेवनील्ल, इवनुक्तु साल्लत्तरप्पटि,
 इन्त प्रकारत्तत्ताल्ल (चोल्लिय मालीक प्रकारत्तत्ताल्ल
 अतावतु पार्ववन्न वित्तान्तत्ताल्ल) चरात्तत्तत्तेत्तक्क चेय्य
 वेण्णुम्.

स्मृतिरत्तेऽपि — एकोद्दिष्टं तु कर्तव्यं प्रतिमासं सृतेऽहनि ।
 सपिण्डीकरणादूर्ध्वं मातापित्रोस्तु पार्वणम् । यत्र यत्र प्रदातव्यं
 सपिण्डीकरणात् परम् । तत्र पार्वणवत् श्राद्धं कार्यमभ्युदयादते ।
 एवमादीनि अन्यान्यापि वज्रान्नानि अनुमासिकेष्वाण्डिकेषु
 प्रत्याण्डिकेषु च पार्वण प्रतिपादकादि सन्ति ।

लंमंगुतीरत्तनत्तिन्निलुमः - ओव्वेवारु मासेत्तिलुम
 मंगुत तित्तिल्ल एकोत्तिष्ठत्तमाय चरात्तत्तत्तेत्तक्क
 चेय्यवुम्. लपिण्माकरणत्तिन्निर्भुक्तुप् पिऱ्कु

மாதாபிதாக்களுக்குப் பார்வண ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். ஸபின்மைகரணத்திற்குப் பிறகு எந்தெந்தக் காலத்தில் செய்ய வேண்டுமோ அப்பொழுதெல்லாம் பார்வணமாய் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும், வருத்தி ச்ராத்தம் தவிர்த்து. இது முதலாகிய வேறு வசனங்களும், அனுமாலிகங்கள், ஆப்திகங்கள், ப்ரத்யாப்திகங்கள் இவைகளில் பார்வணத்தைச் சொல்வதாகியதாய் உள்ளன.

யாஜங்காப்ரதிஷ்ட
வி஧ானமாह — முதேஹனி து கர்த்து பிரதிமாஸ் து வத்ஸரம் ।
ப்ரதிஸஂவத்ஸர சைவமாதமேகாடஸேஹனி இதி । ஏகோஹிஷப஦
பூர்வமாதிஹாநுவர்த்தே ॥ தथா ச-விஜானேஶ்வரேண வ்யால்யாதம் —
முதேஹனி பிரதிமாஸ் யாவத்ஸரமேகோஹிஷ் கார்யம் ।
ஸபிண்டிகரணாடூர்வ ப்ரதிஸஂவத்ஸரமேவமேகோஹிஷ் கார்யம் । ஆய் -
ஸவீகோஹிஷப்ரகृதிமூதமேகோஹிஷமேகாடஸேஹனி கார்யம் இதி ।
ஸம்த்யந்தரமபி தேநோடாஹுதம் — வர்ஷ வர்ஷ து கர்த்து மாதாபித்ரோஸ்து
ஸத்கியா । அடைங் மோஜயேஷ்டாஷ்வ பிண்டமேக் ச நிர்வீபேத் இதி । யமோஹபி
— ஸபிண்டிகரணாடூர்வ ப்ரதிஸஂவத்ஸர சுதை: । மாதாபித்ரோ:
புத்தகார்யமேகோஹிஷ் முதேஹனி இதி ।

யாஜ்ஞவல்க்யரோவெனில்:- மாலிக ஆப்திக ப்ரத்யாப்திகங்களில் ஏகோத்திஷ்ட விதியைச் சொல்லுகிறார்:- “ஓரு வர்ஷம் வரையில் மாதம் தோறும் ம்ருத திதியில் ச்ராத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். ப்ரதி வர்ஷமும் ம்ருத திதியில் செய்யப்பட வேண்டும். 11-ஆவது நாளிலும் ஆத்யம் செய்யப்பட வேண்டும்” என்று. ‘ஏகோத்திஷ்டம்’ என்ற பதம் முன்னிருந்து அனுவர்த்திக்கின்றது. அவ்விதமே விஜ்ஞாநேச்வாரால் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டுள்ளது:- ம்ருத திதியில் மாதந்தோறும் வர்ஷம் முடியும் வரையில் ஏகோத்திஷ்டம் செய்யப்பட வேண்டும். ஸபின்மைகரணத்திற்கு மேல்,

प्रथि वर्षमुम् इवंवीतम् ऋकेऽत्तिष्ठतम् चेय्यप्पत् वेण्णुम्. आत्यम् = ऋकेऽत्तिष्ठत्तिन्ऱ्कु प्रकरुतियाण ऋकेऽत्तिष्ठतम्, 11-आवतु नालील् चेय्यप्पत् वेण्णुम्. तेववरणमिल्लामल् स्रात्तम् चेय्य वेण्णुम्. ऊरु पिण्णत्तत्तेत्क केाउक्क वेण्णुम् ऎन्ऱु. यमनुम् :- लपिण्णकरणत्तिन्ऱ्कुप् पिऱकु प्रथि वर्षमुम्, पुत्ररक्कल् माता प्रिताक्कज्ञक्कु मंगुत त्रिनत्तिल् ऋकेऽत्तिष्ठत्तत्तेत्तनीयायंक्ष चेय्य वेण्णुम्.

व्यासस्तु पार्वणं प्रतिषेधति — एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते तु यः । अकृतं तद्विजानीयाऽन्नवेच्च पितृधातुकः इति । एवमेकोद्दिष्टविधिपरवचनानि बहूनि सन्ति । इत्येवं वचनविप्रतिपत्तौ मतान्तरनिरासपूर्वकं व्यवस्थापितं विज्ञानेश्वरेण — तथा हि — दाक्षिणात्या व्यवस्थामाहुः, औरसक्षेत्रजाभ्यां मातापित्रोः क्षयाहे पार्वणमेव कर्तव्यम् दत्तादिभिरेकोद्दिष्टमिति जातुकर्णिवचनात् प्रत्यब्दं पार्वणैव विधिना क्षेत्रजौरसो । कुर्याताभितरे कुर्युरिकोद्दिष्टं सुता दश इति, तदसत् । नद्यत्र क्षयाहवचनमस्ति, अपि तु प्रत्यब्दमिति, सन्ति च क्षयाहव्यतिरिक्तानि प्रत्यब्दं श्राद्धानि अक्षयतृतीया माघी वैशाखी प्रमृतिषु, अतो न क्षयाहविषयपार्वणैकोद्दिष्टव्यवस्थापनायालम् । तथा च एकोद्दिष्टं हि कर्तव्य मौरसेन मृतेऽहनि । सपिण्डीकरणादूर्ध्वं मातापित्रोर्न पार्वणम् इति पैठीनसिना औरसेनापि एकोद्दिष्टमेव कर्तव्यमुत्युक्तम् ।

व्यासरो वेणील् :- पार्वणत्तेत्त
न्तिष्ठतिक्किण्णरुर् :- 'एवन्नं ऋकेऽत्तिष्ठत्तेत्त वीट्टु वीट्टु, पार्वणत्तेत्तक्ष चेय्किण्णरुत्तेत्त, अवग्नेल् अतु चेय्यप्पत्तात्तेत्तन्ऱु (पयन्नर्न तेत्तन्ऱु) अन्नियवुम्. अवन्नं पीत्तरुव्वत्तेय चेय्तव्वाक्कवुम् आकिरुन्' ऎन्ऱु. इवंवीतम् ऋकेऽत्तिष्ठ वीत्तियिल् तात्पर्यमुला

வசநங்கள் அநேகங்கள் உள்ளன. இவ்விதம் வசனங்களுக்கு விரோத மிருக்கையில், ஒரு மதத்தைத் தள்ளுவதை முன்னிட்டு, வ்யவஸ்தையைச் செய்துள்ளார். விஜ்ஞாநோக்சுரர் :- அவ்விதமே, தகவின தேசத்திலுள்ளவர்கள் இவ்விதம் வ்யவஸ்தையைச் சொல்லுகின்றனர். “ஓளரஸ் கேஷ்ட்ரஜ் புத்ரர்களால் மாதா பிதாக்களின் மருத திதியில் பார்வணமே செய்யப்பட வேண்டும். தத்தபுதரன் முதலியவர்களால் ஏகோத்திஷ்டம் செய்யப்பட வேண்டும்” என்று ஜாதுகர்ணி வசநத்தால், ‘ப்ரதி வர்ஷமும் பார்வண விதியினாலேயே கேஷ்ட்ரஜ் ஓளரஸபுத்ரர்கள் செய்ய வேண்டும், மற்றப் பத்து வித புத்ரர்கள் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய வேண்டும்’ என்று. அது ஸரியல்ல. இந்த வசநத்தில் ‘கஷ்யாஹ்’ வசநமில்லை. ஆனால் ‘ப்ரத்யப்தம்’ என்ற பதம் இருக்கிறது. கஷ்யாஹத்தைத் தவிர்த்தவைகளாய், ப்ரதி வர்ஷம் செய்ய வேண்டிய ச்ராத்தங்கள், அக்ஷயத்ருதீயா, மாகபூர்ணிமா, வைசாகபூர்ணிமா முதலிய காலங்களில் இருக்கின்றன. ஆகையால் மருத தின ச்ராத்த விஷயத்தில் பார்வணை கோத்திஷ்ட வ்யவஸ்தையைச் செய்வதற்கு அது சக்தமல்ல. அவ்விதமே ‘ஓளரஸபுத்ரன் மாதா பிதாக்களின் மருத திதியில் ஸபின்மைகரணத்திற்குப் பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும். பார்வணத்தைச் செய்யக் கூடாது’ என்று, பைழநஸியினால், ஓளரஸனாலும், ஏகோத்திஷ்டமே செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டு உள்ளது.

उदीच्या: पुनरेवं व्यवस्थापयन्ति — अमावास्यायां भाद्रपदकृष्णपक्षे मृताहे पार्वणम्, अन्यत्र मृताहे एकोद्दिष्टमेव, अमायां वा क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा पुनः । पार्वणं तत्र कर्तव्यं नैकोद्दिष्टं कदाचन इति स्मरणात् इति । एतदपि नाद्रियन्ते वृद्धाः । अनिश्चितमूलेनानेन वचनेन निश्चितमूलानां बहूनां वचनानां क्षयाहमात्रपार्वणविषयाणां वचनानां अत्रामावास्याप्रेतपक्षमृताह-

विषयत्वेनातिसंकोचस्य अयुक्त्वात् सामान्यवचनानर्थक्षयाच्च । अतोऽत्र पाक्षिकैकोद्दिष्ट निवृत्तिफलतया अमायां वा क्षयो यस्य इति नियमविधानं युक्तम् । नचैकोद्दिष्टवचनानां मातृपितृक्षयाह विषयत्वे नातिसंकोचस्य पार्वण वचनानां च तदन्यक्षयाह विषयत्वेन व्यवस्था युक्ता, उभयत्रापि मातापितृसुतग्रहणस्य विघ्नान्त्वात्, मातापित्रोः पृथक्कार्य मेकोद्दिष्टं मृतेऽहनि इति कुर्वीत दर्शवच्छाङ्गं मातापित्रोः क्षयेऽहनि इति ।

वटकक्तुयर्कलो वेणीव वरुमारु व्यवस्तैतयेष चेाल्लुकिन्नरनरः- 'अमावास्येय यिलुम्, पात्तरपत कंरुष्णे पक्षुत्तिलुम् वरुम् मंरुताहृत्तिल् पार्वणम्, मर्न्न मंरुताहृत्तिल् एकोत्तिष्टमे'. 'अमेयिलो, प्प्रेत पक्षुत्तिलो ऎवनुक्कु मरणम् लम्पिवित्ततेऽ अवनुक्कुप् पार्वणम् मंरुत तित्तियिल् चेय्यप्पत वेण्णुम्, ओरु कालुम् एकोत्तिष्टत्तैतेष चेय्यक् कृटातु' ऎन्ऱु लम्रुति इरुप्पताल् ऎन्ऱु. इतेयुम् बेपरियोर्कलं आतरीप्पतु इल्लै. मूल निच्चयम् इल्लात इन्त वसन्तत्ताल, मूल निच्चयम् उल्लातुम् कृयाहृ मात्तरत्तिल् पार्वणत्तैतेष चेाल्लुवतुमाण वेकु वसन्तकरुक्कु, इव्विटत्तिल् अमावास्या प्प्रेत पक्षु मंरुताहृ विष्यत्वत्तैतेष चेाल्ली अतिक लन्केऽकाशम् चेय्वतु ऎन्पतु युक्तम् अल्लातत्तालुम्, लामाण्य वसन्तकरुक्कु आनर्तत्तक्यम् वरुवतालुम्. आकेयाल् इव्विटत्तिल्, पाक्षीकमाण एकोत्तिष्टत्तिन् निव्वरुत्तियेप पलमाय उत्तेयताल् 'अमायाम्वाक्षयोयास्य' ऎन्ऱु नियमविताणम् युक्तम् आकुम्. एकोत्तिष्ट वसन्तकरुक्कु, माता पीत्तरु कृयाहृ विष्यत्वत्तिलुल अतिक लन्केऽकाशम् ऎन्पतुम्, पार्वण वसन्तकरुक्कु मर्न्न कृयाहृ विष्यत्वत्ताल् व्यवस्तैतेयुम् युक्तम् अल्ल. इरण्णिलुम् माता पीत्तरु लातसप्ततन्कलं कर्त्तव्यिक्कप्पत्तु इरुप्पताल्, 'माता

பித்ரோः ப்ருதக் கார்யமேகோத்திஷ்டம் ம்ருதேஹநி, என்றும்; 'குரவீததர்சவத் சராத்தம் மரதா' பித்ரோ: கஷயேஹநி, என்றும்.

यदपि कैश्चिदुच्यते । मातापित्रोः क्षयाहे सोग्निः पार्वणं
कुर्यात्, निरग्निरेकोद्दिष्टम्, वर्षे वर्षे सुतः कुर्यात् पार्वणं योऽग्निमान्
द्विजः । पित्रोनग्निमान् धीर एकोद्दिष्टं मृतेऽहनि इति सुमन्तु-
स्मरणात् इति, तदपि सत्प्रतिपक्षत्वादुपेक्षणीयम्, बहूग्रयस्तु ये
विप्रा ये चैकाग्रय एव वा । तेषां सपिण्डनादूर्ध्वमेकोद्दिष्टं न पार्वणम्
इति स्मरणात् ।

மற்றும் சிலர்:- 'மாதா பிதாக்களின் ம்ருத தினத்தில் அக்னி உள்ளவன் பார்வணத்தைச் செய்ய வேண்டும், அக்னி இல்லாதவன் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய வேண்டும், 'அக்னி உள்ள புத்ரன் ப்ரதி வர்ஷமும் பார்வணத்தைச் செய்ய வேண்டும். அங்க்னிகளுன் புத்ரன் ம்ருத தினத்தில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும்' என்று ஸமந்து ஸ்மர்த்தி இருப்பதால்' என்றும் சொல்வதும் உபேக்ஷிக்கத்தக்கது, ஸத்ப்ரதிபக்ஷம் ஆனதால். 'அநேக அக்னியை உடையவர்கள் எவர்களோ, (ஆஹிதாக்னிகள்) ஒரு அக்னிகளை உடையவர்கள் எவர்களோ அவர்களுக்கு ஸபிண்டனத்திற்குப் பிறகு ஏகோத்திஷ்டமே, பார்வணம் இல்லை' என்று ஸ்மர்த்தி இருப்பதால்.

तत्रैवं निर्णयः । सञ्चासिनां क्षयाहे पार्वणमेव सुतेन
कर्तव्यम्, तत्र वक्ष्यते, अमावास्याक्षयाहे प्रेतपक्षक्षयाहे च
पार्वणमेव, अमायां वा क्षयो यस्य इत्यादिवचनस्य उक्तरीत्या
नियमपरत्वात् । अन्यत्र क्षयाहे पार्वणैकोद्दिष्टयोः ब्रीहियववत्
बृहद्रथन्तरवद्विकल्प एव, तत्र वंशसमयाचारव्यवस्थायां न
विकल्पः, अव्यवस्थायां सत्यामैच्छिको विकल्पः इत्यर्य
विज्ञानेश्वரोक्तप्रकारः ।

अवं विषयत्तिल् नीर्णयम् इवं वितमः-
 “सन्यासीकर्णीन् मंगुत तितियिल् पार्वणमेऽपि पुत्राणुल्
 चेय्यप्पत वेण्णुम्. अतु चेाल्लप्पतप् पोकिर्तु.
 अमावास्यायायिल् वरुम् मंगुत तितियिलुम्, महाऊर्य
 पक्षुत्तिल् वरुम् मंगुत तितियिलुम् पार्वणमेऽपि.
 ‘अमायाम्वाक्ष्येयायस्य’ एन्पतु मुतविय
 वचनत्तिर्तु मुन्न चेाल्लविय प्रकारम् नियमत्तिल्
 तात्पर्यम् आक्षयताल्. मन्त्रकं कालत्तिल् वरुम् मंगुत
 तितियिल्, पार्वण एकोत्तिष्ठन्कर्णुक्कु, वर्गेह्यवन्न
 कर्णुक्कुप् पोलवुम्, प्रगुह्यतर्तन्तरन्कर्णुक्कुप्
 पोलवुम् विकल्पप्पमेऽपि. अतिल् वम्च समयाकारत्ताल्
 (मुन्नेवर्कर्णीन् आकारत्ताल्) व्यवस्थात
 एत्पट्टिरुन्ताल् विकल्पप्पमेऽपि इल्लै. व्यवस्थात
 इल्लाविष्टिल् ज्ञस्चिक विकल्पप्पम्” एन्ऱु.
 इन्त प्रकारम् विज्ञुनोनेचवरराल् चेाल्लप्पत्तु
 उल्लातु.

अन्यैस्तु व्यवस्थापितम् - एकोद्दिष्ट वचनानि
 बौधायनविषयाणि, वर्षे वर्षे तु कर्त्त्या मातापित्रोस्तु सत्क्रिया ।
 अदैवं भोजयेत् श्राद्धं पिण्डमेकं च निर्विपैत् इति बौधायनस्मरणात्,
 पार्वण वचनानि तदितरविषयाणि इति । सामान्येन प्रवृत्ताना
 मुभयविधवचनाना मेवं व्यवस्थाकल्पने प्रमाणं नेत्युक्तमपरैः । तत्र
 शिष्टाचारबाहुल्यात् अनुमासिकाबिद्कप्रत्याबिद्केषु पित्रोः
 पार्वणमेव, सपिण्डीकरणात् प्राक्तनेषु एकोद्दिष्टमेवेति निर्णयः ।

मन्त्रवरोद्देवनीलः- इवं वितम् व्यवस्थात चेय्तु
 उल्लासारः- (अतावतु) - “एकोत्तिष्ठन्कर्णीन् वचनान्कर्णीन्
 एल्लाम् पोतायन्द्यविषयन्कर्णीन्; प्रति वर्गमुम्माता
 पिताकर्णुक्कु लत्कर्णीय (स्त्रादात्तम्) चेय्यप्पत
 वेण्णुम्. तेव वरणम् इल्लामल् स्त्रादात्तत्तेत्तक्कं
 चेय्यवुम्. इरु पिण्डात्तत्तेत्तक्कं केाउक्कवुम्” एन्ऱु.
 पोतायन् स्मर्तु इरुप्पताल्. पार्वण वचनान्कर्णीन्

எல்லாம் போதாயனீய வ்யதிரிக்தர்களைப் பற்றியது’’ என்று. (எல்லோருக்கும்) பொதுவாய் ப்ரவ்ருத்தித்துள்ள இரண்டு வித வசனங்களுக்கும் இவ்விதம் வ்யவஸ்தை கல்பிப்பதில் ப்ரமாணம் இல்லை என்று மற்றவர்களால் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. அவ்விஷயத்தில், சிஷ்டாசாரம் பஹாளமாய் இருப்பதால், அனுமாளிகம் ஆப்திகம் ப்ரத்யாப்திகம் இவைகளில், மாதாபிதாக்களுக்குப் பார்வணமே, ஸபின்மைகரணத்திற்கு முன் செய்யப்படும் ச்ராத்தங்களில் ஏகோத்திஷ்டமே என்பது நிர்ணயமாம்.

அத எவ ஸுமந்து: — கதவு பார்வண ராஜநைகோதிஷ்ட கथஞ் சு பு ஹந்து வாக்யானி முனி஗ிதானி சக்ஷதே || அல்ப்தராணி ராஜேந்து ஏகோதிஷ்ட ப்ரசக்ஷதே இதி | அந் -பார்வணபக்ஷ ஸு ஹநி வாக்யானி - ஬ஹுதராணி, ப்ரசக்ஷதே ஧ர்மஶாஸ்திரா: | அல்ப்தராணி - கதிபய- வாக்யாந்யேவ ஏகோதிஷ்ட ப்ரசக்ஷதே இத்யர்஥: | தைநைகோதிஷ்ட பரித்யஜ்ய பார்வணபக்ஷ எவ பரி஗்ராஹ இத்யாஹ ஸ எவ | தஸ்மா஛்சனஸாம஥்யாது ஸபிண்டிகரணாது பரம் | மாஸிகாஷ்டிகநஷ்டாதி குர்யாது பார்வண஧ர்மத: இதி |

ஸ்மந்து:— ‘ஓ அரசனே ! பார்வணத்தைச் செய்ய வேண்டும், ஏகோத்திஷ்டத்தை எவ்விதத்தாலும் செய்யக் கூடாது. பார்வண பக்ஷத்தில் முனிகள் சொல்லிய வெகு வாக்யங்களைச் சொல்லுகின்றனர், தர்ம சாஸ்தரம் அறிந்தவர்கள். ஏகோத்திஷ்டத்தை ஸ்வல்பமான வாக்யங்களே சொல்லுகின்றன’ என்றார். ஆகையால், ஏகோத்திஷ்ட பக்ஷத்தை விட்டு, பார்வண பக்ஷத்தையே பரிக்ரஹி க்க வேண்டும். என்கிறார், ஸ்மந்துவே:— ‘ஆகையால் வசனங்களின் பலத்தால், ஸபின்ம கரணத்திற்குப் பிறகு, மாளிகம், ஆப்திகம், வ்ருத்தி ச்ராத்தம் முதலியதைப் பார்வண தர்மத்தாலேயே செய்ய வேண்டும்’ என்று.

पितामहादीनां पार्वणविधिः

एवं सपिण्डीकरणात् परं पौत्रादयश्च पार्वणं कुर्यात् । पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रश्च दौहित्रो दुहिता सुषा । दम्पती च क्रमादेते श्राद्धं कुर्यात्पूरुषम् इति स्मरणात् । अपुत्रपितृव्यादीनामपि पार्वणमेव, अपुत्रस्य पितृव्यस्य भ्रातुश्चैवाग्रजन्मनः । मातामहस्य तत्पद्व्याः श्राद्धं पितृवदाचरेत् इति स्मरणात् ।

पितामहैः ग्रुहान्ति ग्रुहान्ति ग्रुहान्ति ग्रुहान्ति ग्रुहान्ति

இவ்விதம், ஸபின்டைகரணத்திற்குப் பிறகு, பெள்தறன் முதலியவர்களும் பார்வணத்தையே செய்ய வேண்டும். ‘புத்ரன், பெள்தறன், ப்ரபெள்தறன், தெள்ளித்ரன், பெண், நாட்டுப்பெண், தம்பதிகள் இவர்கள் பரர்வண் சராத்தத்தை 3-புருஷர்களை உத்தேசித்துச் செய்ய வேண்டும்’ என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். புத்ரன் இல்லாத பித்ருவயன் முதலியவர்க்கும் பார்வணமே - ‘புத்ரன் இல்லாத பித்ருவயனுக்கும், ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவுக்கும், மாதா மஹனுக்கும், மாதா மஹிக்கும், சராத்தத்தை, பிதாவுக்குப் பேரல் செய்யவும்’ (பார்வணமாய்) என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

तथा चन्द्रिकायाम् — पितृमात्रग्रजादीनां पार्वणेन पुनः क्रिया इति । पार्वणविधानेन मासिकानां पुनःकरणमित्यर्थः । स्मृत्यन्तरे च — पद्मग्रजपितृव्याणां पितृवत् कल्प इष्यते । खीश्चाद्वृष्ट्याद्वर्ता पत्नीमातृपितामहीः । पितृव्याग्रजयोः तत्तत्पितृपितामहौ इति ।

அவ்விதம், சந்தர்களையில்:- பிதா, மாதா, ஜ்யேஷ்ட ப்ராதா முதலியவர்களுக்கு, பார்வண விதாநமாய் மாஸிகங்கள் மறுபடி செய்ய வேண்டும். மற்றொர் ஸ்ம்ருதியிலும்:- ‘பத்ரீ, ஜ்யேஷ்டப்ராதா, பித்ருவயன்,

இவர்களுக்குப் பிதாவுக்குப் போல் ச்ராத்த ப்ரகாரம் சொல்லப்படுகிறது. பத்னியின் ச்ராத்தத்தில் பர்த்தா, பத்னீ மாத்ரு பிதாமஹிகளை வரிக்கவும். பித்ருவ்யன், ஜயேஷ்ட ப்ராதா இவர்களின் ச்ராத்தத்தில், அவரவர்களையும், அவரவர்களின் பிதா, பிதாமஹன் இருவர்களையும் சேர்த்து மூன்று பேர்களை வரிக்கவும்' என்று உள்ளது.

भगिन्यादीनं सापिण्डचातपरमेकोद्दिष्टविधानेन मासिकादि ।

उक्तव्यतिरिक्तानामेकोद्दिष्टमाह कात्यायनः —

सम्बन्ध- ஬ாந்஧வாடிநாமேகோடிஷ்ட து ஸ்ரீநா இதி ॥ ஗ர்வீஷபி — அபுதா யே மृதா: கேचித् ஖ியோ வா புருஷாஸ்தथா । தேஷாமபி ச ஦ேய் ஸ்யாடேகோடிஷ்ட ந பார்ணம் இதி ॥ ஖ிய: - ஭கிந்யாதய: , புருஷா: - கனிஷ்டாநாதய: । தथா ச ஸுமந்து: — ஸபிண்டிகரணாடூர்வ் யத் யத் பிர்தீயதே । ஭ாத்ரே ஭கிந்யை புத்ராய ஸ்வாமினே மாதுலாய ச । மிதிய குருவே ஶாஞ் மேகோடிஷ்ட ந பார்ணம் இதி । ஶாதாதப: — அனாதாமாய் ந ஜ்யேஷ்ட ஭ாதா ஸஜ்ஜிர்நிர்஗தே । க்ரதே ஸபிண்டநாத்ஸ்ய நைவ பார்ணமாச்சரேத் இதி ।

பகினீ முதலியவர்க்கு, ஸாபிண்ணட்யத்திற்குப் பிறகு ஏகோத்திஷ்ட விதானமாய் மாலிகம் முதலியவை.

முன் சொல்லியவர்களைத் தவிர்த்த மற்றவர்களுக்கு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் சொல்லுகிறோர், காத்யாயனர்:- ஸம்பந்தி, பந்துக்கள் முதலியவருக்கு எப்பொழுதும் ஏகோத்திஷ்டமே செய்யப்பட வேண்டும். கார்கரும்:- புத்ரன் இல்லாதவராய் இறந்த ஸ்த்ரீகள் புருஷர்கள் எவராயினும் அவர்களுக்கும் ஏகோத்திஷ்டமே செய்யப்பட வேண்டும், பார்வணம் கூடாது. ஸ்த்ரீகள் = பகினீ முதலியவர்கள். புருஷர்கள் = கனிஷ்ட ப்ராதா முதலியவர்கள். அவ்விதமே, ஸமந்து: - ஸபிண்மகரணத்திற்குப் பிறகு எந்தெந்தக் காலத்தில் ச்ராத்தம் செய்யப்பட்டாலும், ப்ராதா, பகினீ, புத்ரன்,

स्वामी, मातुलन्, मित्रन्, कुरु एन्ऱ इवर्कण्कु
एकोत्तिष्ठमाय्च चेय्यप्पते वेण्टुम्.
पार्वण्माय्कं कृटातु. शात्रातपरः- मुतलं कर्पपत्तिलं
पिनक्का॒त (लीमन्तज्जन्लला॒त) प्राता ज्येष्ठेष्टनं एन्ऱु
लातुक्कला॒लं चोललप्पतुवतु इलैल. अवनुक्कु
लपिण्टनामं तवीर्त्तु मर्नकं कालत्तिलं पार्वण्तत्तेत्तु
चेय्यकं कृटातु.

बृद्धगार्यः — मातुः सहोदरो यश मातुः सहभवा च या ।
तयोश्च नैव कुर्वीत पार्वणं पिण्डनाद्दते इति । पिण्डनात्
सपिण्डनात् । कालादर्शे — गुरोरज्येष्ठभ्रातुश्च मित्रस्य स्वामिनः
स्वसुः । पुत्रस्य मातुलस्यापि नैव कुर्वीत पार्वणमिति । पराशरः —
पितुर्गतस्य देवत्वमौरसस्य त्रिपूरूषम् । सर्वत्रानेककगोत्राणा-
मेकस्यैव मृतेऽहनि इति । विज्ञानेश्वरेणेदं व्याख्यातम् - देवत्वं
गतस्य - सपिण्डीकृतस्य पितुः सर्वत्र औरसेन पार्वणं कार्यम्,
अनेकगोत्राणां - भिन्नगोत्राणां मातुलादीनां मृतेऽहनि यत् श्राव्यं,
तत् एकस्यैव - एकोद्दिष्टमेव इति ।

वंगुत्त कार्क्कयरः- माताविनं लेहोत्तरनं,
एव तेऽ, माताविनं लेहोत्तरी एव लो
अव्विरुवरुक्कुमं लपिण्टनामं तवीर पार्वण्म
स्त्रात्तत्तत्तेत्तु चेय्यकं कृटातु. कालात्तर्सत्तत्तिलः- कुरु,
ज्येष्ठेष्टनं अल्लात प्राता, मित्रन्, स्वामी, पक्किनी,
पुत्रन्, मातुलन् इवर्कण्कुमं पार्वण्तत्तेत्तु चेय्यकं
कृटातु. प्राशराः- 'पितुर्कतस्य+मरुतेहनि' एन्ऱुर.
इतरं कु विक्कु नेच्वररालं इव्वितमं व्याक्यानमं
चेय्यप्पत्तु उल्लतु- “तेवत्तवमं कतस्य-
लपिण्टकरणमं चेय्यप्पत्त, पितावुक्कु एप्पेपामुतुमं
कुलालं पुत्राणुलं पार्वणमं चेय्यप्पते वेण्टुम्.
अनेक केऽत्तराणाम - पिण्णकेऽत्तररक्कलाण मातुलनं
मुतवियवरुक्कु मरुत तित्तियिलं एन्त चरात्तमेओ अतु
एकस्यैव - एकोत्तिष्ठमेमे” एन्ऱु.

स्मृत्यन्तरमपि — मातुलानुजपुत्राणामेकोद्दिष्टं स्वसुरुरोः ।
मित्रस्य स्वामिनश्चैव बन्धुसंबन्धिनां तथा इति । चन्द्रिकायाम् —
पत्नीभ्रातृसुतादीनां सपिण्डीकरणात् परम् । एकोद्दिष्टविधानेन
मासिकानां पुनः क्रिया इति । अत्र पत्न्या एकोद्दिष्ट विधानात्,
पत्न्यग्रजपितृव्याणां पितृवत् कल्प इष्यते । खीश्राज्ञे वृणुयाऽर्थर्ता
पत्नीभ्रातृपितामहीः । दम्पती च क्रमादेते श्राद्धं कुर्युत्विपूरुषम्
इत्यादिना पार्वणविधानाच्च यथाशिष्टाचारमिह व्यवस्था द्रष्टव्या ।

மற்றெனும் ஸ்ம்ருதியும்:- மாதுலன் கநிஷ்டப்ராதா,
புத்ரன், பகிநீ, குரு, மித்ரன், ஸ்வாமீ, பந்து, ஸம்பந்தீ
இவர்களுக்கு ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம். சந்த்ரிகையில்:-
பத்நீ, ப்ராதா, புத்ரன் முதலியவருக்கு,
ஸ்வின்மைகரணத்திற்குப் பிறகு, ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய்
மாலிகங்களைமறுபடி செய்யவும். இவ்விடத்தில் பத்னிக்கு
ஏகோத்திஷ்டம் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும், பத்னீ,
ஐயேஷ்டன், பித்ருவ்யன் இவர்களுக்குப் பிதாவக்குப்
போல் ச்ராத்த விதி, பத்னியின் ச்ராத்தத்தில் பர்த்தா, பத்னீ
மாதா பிதாமஹீ இவர்களை வரிக்கவும், பர்த்து பார்வையகள்
பரஸ்பரம் பார்வணமாய் ச்ராத்தம் செய்ய வேண்டும்.
என்பது முதலிய வசநங்களால் பார்வணம்
விதிக்கப்படுவதாலும், சிஷ்டாசாரப்படி வ்யவஸ்தையை
அறிய வேண்டும்.

ஸபிண்஡்யாத் பரமேகோद்஦ிஷ்ட ஦ேவவரணனியம்:

स्मृत्यन्तरे — एकोद्दिष्टं यत्र यत्र सपिण्डीकरणात् परम् ।
दैवयुक्तं तु तत् कार्यं दैवहीनं न तद्भवेत् । सपिण्डीकरणादूर्ध्वं
दैवहीनं करोति यः । मातापितृगुरुम्: स्यादात्मघाती च जायते ।
विप्रलुम्पन्ति रक्षांसि श्राद्धमारक्षवर्जितम् । तत्पालनाय विहिता
विशेदेवाः स्वयम्भुवा इति । स्मृत्यन्तरे तु — नवमिश्र पुரाणानीति
त्रिविधान्यேகोद्दिष्टानि, सर्वैकोद्दिष्टेषु दैवं नास्ति इति ।

**लापिण्णांयत्तीर्थकुप्प विनं, एकोत्तीष्ट सरात्तत्तील
तेववरणम्**

ऋगु लंगं रुद्रीयिलः- लपिण्णांकरणत्तीर्थकुप्प पिरकु
एकोत्तीष्ट सरात्तम् लप्पेपामुतु चेय्यप्पपट्टालुम्,
अतु तेव वरणत्तुटन्कृत्यताकवे चेय्यप्पपट
वेण्णुम्. तेववरणम् इन्नरि अतु चेय्यप्पपटकं
कूटातु. लपिण्णांकरणत्तीर्थकुप्प पिरकु तेववरणम्
इल्लामलं लवन्न चेय्किन्नरुणे अवन्न माता, पिता,
कुरु, ताण्ण लन्न इवर्कौलं केऽन्नवन्न आवाण्ण. अन्त
सरात्तत्तत्तत्त राक्ष्मलर्कौलं केऽन्नकौलं नन्न, पालकरं
इल्लातत्तालं. सरात्तत्तत्तत्तकं काप्पपतर्हकु वीच्वेव
तेवर्कौलं प्ररम्भ्ला लंगुष्ठित्तु इरुक्किरुर्.
लंगं रुद्रं यात्त लारात्तीलोवेवनीलः- नवम्, मिच्रम्,
पुराणम् लन्न एकोत्तीष्टान्कौलं लुन्न वितन्कौलाम्.
लल्ला एकोत्तीष्टान्कौलुम् तेव वरणम् इल्लै.

**नवादिस्वरूपमाह प्रजापतिः — नवश्राद्धं दशाहान्तं मिश्रं
संवत्सरादधः। एकादशाहमाराभ्य कार्यं प्रेतस्य तृस्ये। अब्दादुपरि
यत् श्राद्धं तत् पुराणं प्रकीर्तिम् इति। माधवीये तु — एकोद्दिष्टं
त्रिविधं नवं नवमिश्रं पुराणं चेति, अत्र प्रथमाहादेकादशाहान्तं
विषमदिनेषु षट्सु विहितं नवश्राद्धं नवम्, षण्वश्राद्धानामुपरि
कर्तव्यं मासिकं नवमिश्रम्। तथा चाश्लायनः — नवमिश्रं
षडुत्तरम् इति। मासिकानामुपरि कर्तव्यं प्रत्याबिदिकादि पुराणम्।
अत एव हारीतेन प्रायश्चित्तकाण्डे नवश्राद्धमासिकयोः
प्रायश्चित्तमभिधाय उत्तरकालीनं श्राद्धं पुराणशब्देन व्यवहृत्य
प्रायश्चित्तं विहितम् - चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मासिके।
एकाहस्तु पुराणेषु प्रायश्चित्तं विधीयते इति। चन्द्रिकायाम् —
एतेषु सर्वेष्वेकोद्दिष्टेषु आदावन्ते च दैवं नास्ति इति। शिष्टाचारादिह
व्यवस्था।**

நவம் முதலியதுன் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறூர், ப்ரஜாபதி:- 10-நாள் வரையில் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் 'நவம்' எனப்படும். 11-ஆவது நாள் முதல் வர்ஷத்திற்குள் ப்ரேதனின் த்ருப்திக்காகச் செய்யப்படுவது 'மிச்ரம்' எனப்படும். வர்ஷத்திற்கு மேல் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் 'புராணம்' எனப்படும் என்று. மாதவீயத்திலோவெனில்:- ஏகோத்திஷ்டம் மூன்று விதம், நவம் மிச்ரம் புராணம் என்று. அதில், முதல் நாள் முதல் 11-ஆவது நாள் வரையில் ஒற்றப் படையான 6-நாட்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள நவச்ராத்தம் 'நவம்' எனப்படும். 6-நவ ச்ராத்தங்களுக்கு மேல் செய்ய வேண்டிய மாஸிகம் 'நவமிச்ரம்' எனப்படும். அவ்விதம் ஆச்வலாயனர்:- '6-ச்ராத்தங்களுக்கு மேற்பட்டது நவமிச்ரம்' என்றார். மாஸிகங்களுக்கு மேல் செய்ய வேண்டிய ப்ரத்யாப்திகம் முதலியது புராணம். ஆகையாலேயே, ஹார்த்ரால் ப்ராயச்சித்த காண்டத்தில் நவச்ராத்த மாஸிகங்களுக்கு ப்ராயச்சித்தத்தைச் சொல்லி, அதற்கு மேல் உள்ள ச்ராத்தத்தைப் புராணம் என்னும் சப்தத்தால் வ்யவஹரித்து ப்ராயச்சித்தம் விதிக்கப்பட்டது, 'நவச்ராத்தத்தில் சாந்த்ராயணமும், மாஸிகத்தில் ப்ராஜாபத்யமும், புராண ச்ராத்தங்களில் ஒரு நாளும் ப்ராயச்சித்தமாய் விதிக்கப்படுகிறது' என்று. சந்த்ரிகையில்:- "இந்த ஏகோத்திஷ்டங்கள் எல்லாவற்றிலும், ஆதியிலும் அந்தத்திலும் தேவவரணமில்லை." இவ்விஷயத்தில் சிஷ்டாகாரத்தால் வ்யவஸ்தையை அறியவும்.

ஶக்தாதிஹானா் மஹாலயச்சுர்஦்யாமேகோதிஷ்ஶாக்ஷம் ।

அது விஶே: ஸ்மृத்யந்தரே^१மிஹித: — ப்ரேதபக்ஷே சதுர்஦்யா-
மேகோதிஷ்வி஧ானதः । ஦ைவயுக்தं து யத् ஶ்ராஞ்ச பிதூணாமக்ஷயं ஭வேत् இதி ।
ப்ரேதபக்ஷே - மாடிப்பக்ஷே । தறைகோதிஷ்வி஧ானமாह ஸுமந்து: —
ஸமத்வமாகதஸ்யாபி பிது: ஶக்தாதஸ்ய து । ஏகோதிஷ் ஸுதை: கார்ய்
சதுர்஦்யாஂ மஹாலயே இதி । ஸமத்வமாகதஸ்ய - கृதஸ்பிண்டி-

करणस्येत्यर्थः । शख्सेति विषाद्यपमृत्युपलक्षणम् । तदाह मरीचिः — विषशखश्चापदादि तिर्यक् ब्राह्मणघातिनाम् । चतुर्दश्यां क्रिया कार्या अन्येषां तु विगर्हिता इति ।

आयुतम् मुत्तलियवर्ग्रुल् केकाल्लप्पट्टवर्कणुक्कु
मल्लाळाय सतुर्तत्त्वसीयिल् एकोत्तीष्टत सरात्तम्.

इतिल विचेष्ठम् चेकाल्लप्पट्ट उल्लातु ओरु
संमंगुतीयिलः— प्परेत पक्षुत्तिल चतुर्तत्त्वसीयिल,
एकोत्तीष्टत वितानमायत्त तेववरणत्तुत च
सेय्यप्पट्टम् सरात्तम्, पित्तरुक्कणुक्कु अक्षयम्
(अक्षयत्तरुप्तिकरम्) आकुम्. प्परेतपक्षुत्तिल
पात्तरपतक्कुण्णे पक्षुत्तिल. अतिल एकोत्तीष्टत
वित्तियेच चेकाल्लुकिरुर् लामन्त्तुः— लपिण्णमकरणम्
सेय्यप्पट्टवन्न आयिनुम् सल्लत्तरहृत्तगुण (आयुतत्ताल
केकाल्लप्पट्ट) पितावुक्कुप् तुत्तरर्कल, मल्लाळाय
पक्षुत्तिल चतुर्तत्त्वसीयिल एकोत्तीष्टत्तत्तेच चेय्य
वेण्णुम्. ‘सल्लत्तरम्’ एन्पतु वीष्म मुत्तलिय
अपमंगुत्तयक्कलौयम् चेकाल्लुकिरुतु. अतेत्त
चेकाल्लुकिरुर्. मार्चीः— वीष्म, आयुतम्, तुष्टमंगुकन्कल,
तिर्यक्प्राणीकल, प्रराम्भूणन्न इवर्कलौल
केकाल्लप्पट्टवर्कणुक्कुस् चतुर्तत्त्वसीयिल सरात्तम्
सेय्यप्पट वेण्णुम्. मर्त्तवर्कणुक्कु निष्ठित्तम्.

स्मृत्यन्तरे — प्रेतपक्षे चतुर्दश्यामेकोद्दिष्टं विधानतः ।
दैवयुक्तं तु तत् श्राद्धं पितृणामक्षयं भवेत् इति । प्रचेता अपि —
वृक्षारोहणलोहादैविद्युज् जलविषाग्निभिः । नखिदंष्ट्रिविपन्नानामेषां
शस्ता चतुर्दशी ॥ तत् श्राद्धं दैवहीनं चेत् पुत्रदारधनक्षयः इति ।
यस्य पिता पितामहोऽपि शख्सादिना हतः, तेन द्व्योरपि
चतुर्दश्यामेकोद्दिष्टश्राद्धं कर्तव्यम् । तथा च स्मृत्यन्तरे — एकस्मिन्
द्व्योर्वैकोद्दिष्टविधिः इति । अयमर्थः — एकस्मिन्, पितरि

ஶக்தாடிநா ஹதே ஦்யோஶ ஹதயோ:, புநே தயோ: ப்ரத்யேகமேகோடிஷ்டாஞ் கார்யமிதி ।

மற்றேர் ஸ்ம்ருதி யில்:- மஹாளயபக்ஷத்தில், சதுர்தசியில் ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம் விதிப்படி தேவ வரணத்துடன் செய்யப்பட்டால் அது பித்ருக்களுக்கு அக்ஷயமாகும். ப்ரசேதஸ்ஸாம்:- மரத்தில் ஏறுவது, இரும்பு முதலியவை, மின்னல், ஜலம், விஷம், அக்னி, நகமுள்ள ப்ராணி, பற்களுள்ள ப்ராணி இவைகளால் இறந்தவர்களுக்கு, சதுர்தசிசிறந்தது. அதில் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் தேவவரணம் இல்லாததாகில், பிள்ளை, பத்னீ, தனம் இவைகளுக்கு நாசம் உண்டாகும். எவனின் பிதா பிதாமஹன் இருவரும் சஸ்தரம் முதலியதால் கொல்லப்பட்டனரோ அவன், அவ்விருவர்களுக்கும் சதுர்தசியில் ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தம் செய்ய வேண்டும். அவ்விதமே, மற்றொரு ஸ்ம்ருதி யில்:- ‘ஓருவன் விஷயத்திலும், இரண்டு பேர் விஷயத்திலும் ஏகோத்திஷ்ட விதி’ என்று உள்ளது. இதற்கு இது பொருள்:- ‘ஓருவனுகைய பிதா சஸ்தரம் முதலியதால் கொல்லப்பட்டு இறந்தாலும், அவனது பிதாவும் சஸ்தரஹதனுய் இறந்தாலும், புத்ரன் அவ்விருவர்களுக்கும், ஒவ்வொருவர்க்கும் (தனித்தனி) ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தைச் செய்யவேண்டும்’ என்று.

அன்றாபி — முடே ஶக்தாடிநைகஸ்மிந் ஦்யோவர்தி஥ மஹலயे । ஏகோடிஷ்ட வி஧ாதந்ய சதுர்஦்ஶனா் ஸடைவதம் இதி । யஸ்ய பிதுபிதாமஹப்ரபிதாமஹா: தியோऽபி ஶக்தாதா: தேன சதுர்஦்ஶனா் பார்ணைவ வி஧ிநா ஶாஞ் கர்த்யம், ஏகஸ்மிந் ஦்யோவைகோடிஷ்டவி஧ிரிதி விஶேஷோபாடானாத் இதி சந்திகாகாரா-பராக்யோர்மதம் । பிதாடிஷு திஷ்வபி ஶக்தைஷு தியாணாமபி பூதங்கோடிஷ்ட கார்யமிதி ஦ேவஸ்வாமிமதம் । அது தியாணா் ஶக்தைஷு பார்ணாஞ்சஸ்ய ஸாக்ஷாத்தி஧ாயகவசனாமாவாத் ஏகஸ்மிந்

द्वयोर्बेत्यस्योपलक्षणार्थत्वेनाप्युपपत्तेरोकोद्दिष्टत्रयमेव कार्यमिति
देवस्वाभिमतं युक्तमिति माधवीये व्यवस्थापितम् ।

शब्दहतस्य पितुर्महालये चतुर्दश्यामेकोद्दिष्टश्राद्धे कृतेऽपि
दिनान्तरे पितामहादितस्यर्थं पार्वणविधिना महालयश्राद्धं
कर्तव्यम्, एकोद्दिष्टश्राद्धे पितामहादितसैरभावात् । तस्मिंस्तांस्तत्र
विधिना तर्पयेत् पायसेन तु इति पितामहादेरपि
तर्पणीयत्वस्मरणात्, तत्स्ये दिनान्तरे पार्वणश्राद्धं कार्यमेवेति
स्मृतिचन्द्रिकामाधवीयादौ निर्णीतम् । शब्दादिना हतानामपि
मृताहादौ यत् श्राद्धं तत्पार्वणविधानेनैव कर्तव्यम् ।

मर्निरुद्रु संमर्नुतीयिलुमः- ओरुवனं सस्त्ररम्म
मुतवियतालं इरन्तवलग्नयिनुम्, इरुवरुम्
सस्त्ररात्रिकलालं लहर्तरकलायिनुम्, मल्लालय पक्षुत्तिलं,
सत्तुर्तसियिलं एकोत्तिष्ठत्तेतत्त तेव वरणत्तुटनं
चेय्य वेण्णुम्. ऎवनतु प्रित्तरु प्रितामल्ल
प्रप्रितामल्लरकलं लुवरुम् सस्त्ररलहर्तरकलो अवनं
सत्तुर्तसियिलं पार्ववन्न वित्तिष्ठत्तेन्नेये सरात्तत्तमं चेय्य
वेण्णुम्. 'एकस्मिन्न त्वयेयोर्वा' ऎन्नरु विचेष्टित्तु
इरुप्पतालं ऎन्नरु सन्तरीकाकार मतमुम्, अपरारक्क
मतमुम्. प्रितामुतविय लुवर्कल्लुम् सस्त्ररलहर्तरकलं आग्नेलं
लुवर्कल्लुक्कुम् तनीयाय एकोत्तिष्ठत्तमं चेय्य
वेण्णुम् ऎन्पतु तेवस्वामि ऎन्पवरीनं मतम्. इतिलं
लुवर्कल्लुम् सस्त्ररलहर्तरकलं आग्नेलं पार्ववन्न सरात्तत्तमं
एन्पत्तर्त्तु वितायक वसनम् लोक्षात् इल्लाततालं
'एकस्मिन्न त्वयेयोर्वा' एन्नरु वसनम् उपलक्ष्यन्नरत्तत्तमं
एन्पत्तिन्नलुम् उपपन्नमाकुम् आतलालं एकोत्तिष्ठत्तमं
लुन्नेन्नेचेय्यप्पत वेण्णुम् एन्नरु तेवस्वामि मतम्
युक्तमं आनतु एन्नरु मातवैयत्तिलं व्यवस्त्तेत
चेय्यप्पत्तु उल्लातु. सस्त्ररलहर्तन्नेन प्रितावुक्कु
मल्लालय पक्षुत्तिलं सत्तुर्तसियिलं एकोत्तिष्ठत्त सरात्तत्तमं

செய்யப்பட்டாலும், வேறு தினத்தில் பிதாமஹர் முதலியவரின் த்ருப்திக்காகப் பார்வன விதியாய் மஹாளய ச்ராத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். ஏகோத்திஷ்ட ச்ராத்தத்தில் பிதாமஹாதிகளுக்கு த்ருப்தி ஏற்படாததால் 'அந்தப் பகுதித்தில் ச்ராத்தத்தில் பித்ருக்களுக்கு விதிப்படி பாயலான்னத்தால் த்ருப்தி செய்ய வேண்டும்' என்று பிதா மஹாதிகளுக்கும் தர்ப்பணீயத்வம் சொல்லப்பட்டு இருப்பதால், 'அவர்களின் த்ருப்திக்காகப் பார்வன ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும்' என்று ஸ்மருதி சந்தரிகை மாதவீயம் முதலியவைகளில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சல்த்ரம் முதலியவைகளால் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கும் ம்ருத திதி முதலியதில் செய்யப்படும் ச்ராத்தத்தை, பார்வன விதியுடனேயே செய்ய வேண்டும்.

தथா ச गर्गः — चतुर्दश्यां तु यत् श्राद्धं सपिण्डीकरणात् परम् । एकोद्दिष्टविधानेन कुर्यात् श्राद्धं तदौरसः इति । कालादर्शे — न तत् सन्ध्यासिनां कुर्यात् पार्वणं द्वादशोऽहनि इति । तत् - सपिण्डीकरणं न, किं तु पार्वणमित्यर्थः । शातातपः — एकोद्दिष्टं जलं पिण्डमाशौचं प्रेतसंस्क्रियाम् । न कुर्यात् पार्वणादन्यत்தकार्यं शस्त्रघातिनः इति । शस्त्रघातिनो यदाऽपरपक्षश्राद्धं चतुर्दश्यां क्रियते, तत्रैवैकोद्दिष्टविधानं नान्यदेत्यर्थः ।

அவ்விதமே, காங்கரி:- ஸபின்னகரணத்திற்குப் பிறகு சதுர்த்தியில் செய்யப்படும் ச்ராத்தத்தை, புத்ரன் ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய்ச் செய்ய வேண்டும். காலாதுர்சத்தில்:- 12-ஆவது நாளில், ஸன்யாஸிகளுக்கு ஸபின்னகரணத்தைச் செய்யக் கூடாது. ஆனால், பார்வன ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். சாதாதுபரஃ:- ஸன்யாஸிக்கு, ஏகோத்திஷ்டம், ஜலதாநம், பிண்டதாநம், ஆசெளசம், ப்ரேத ஸம்ஸ்காரம் இவைகளைச் செய்யக்கூடாது. பார்வனத்தைத் தவிர்த்த

मर्न गेरुन्नरेयुम् चेय्यकं कूटातु. चल्तरलूतनुकंकु अतेकं चेय्यवेण्टुम्. 'चल्तरलूतनुकंकु महालय पक्षत्तिलं क्षुर्तचियिलं चेय्यप्पटुम् चरात्तत्तिलं ताळं एकोत्तिष्ठ वितानम्, मर्न चरात्तत्तिलं इल्लै' एन्पतु बोगुरुं.

सञ्चासिविषये पार्वणव्यवस्था ।

सञ्चासिनां नवश्राद्धान्येकोद्दिष्टं सपिण्डीकरणं च नास्ति, एकादशोऽहि द्वादशो वा सुतेन पार्वणमेव कर्तव्यम्, क्षयाहे दर्शमहालयादावपि पार्वणं कर्तव्यम् । तथा च प्रचेताः — एकोद्दिष्टं यतेनास्ति त्रिदण्डग्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात् पार्वणं तस्य सर्वदा इति । सुमन्तुरपि — दण्डग्रहणमात्रेण नैव प्रेतो भवेद्यतिः । अतः सुतेन कर्तव्यं पार्वणं तस्य सर्वदा इति । वृद्धवसिष्ठः — यतीनां तु न संसर्गः कर्तव्योऽत्र सुतैस्सदा । त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नोपजायते इति । संसर्गः - पिण्डसंसर्गः सपिण्डीकरणमिति यावत् ।

लेण्याली विषयत्तिलं पार्वणे व्यवस्थात्.

लेण्यालीकरुकंकु नवस्चरात्तमे, एकोत्तिष्ठ त्तम्, लेण्यालीकरणम् एन्नरे इव इल्लै. 11-आवतु नालीलावतु, 12-आवतु नालीलावतु, पुत्रगुलं पार्वणे चरात्तमे चेय्यप्पट वेण्टुम्. मंगुत तिनत्तिलुम्, तर्समं महालयम् मुतलियत्तिलुम्, पार्वणत्तेतये चेय्यवेण्टुम्. अववितमे, प्रसेतुलः- 3-ताण्टनंकौले करल्लित्तु यतियाकियवनुकंकु एकोत्तिष्ठ त्तम् इल्लै. लेण्यालीकरणमुम् इल्लै आतलालं अवनुकंकु एप्पेपामुतुम् पार्वणमे. लामन्तुवुमः- ताण्टत्तेत करल्लित्ततालेये यति प्रेरतगुवतु इल्लै. आकेयालं पुत्रनं एप्पेपामुतुम् अनंत यतिकंकुपं पार्वणत्तेतये चेय्यवेण्टुम्. वरुत्ततवलिष्टारः- यतिकरुकंकु, पुत्ररंकलं लेण्यालीकरणत्तेत चेय्यवेण्टियतु

இல்லை. தரி தண்டங்களை க்ரஹி ததாலேயே ப்ரேதத் தன்மை உண்டாவது இல்லை.

பிரஜாபதி: — ஸபிண்டிகரண் ந ஸ்யாத்தினா் சை ஸர்வா . அஹந்யேகாடஶே ப்ராஸே குர்யாதீஸா் து பார்வணம் இதி । உஶநா — எகோஹிஷ் ந குர்வீத் யதினா் சை ஸர்வா . அஹந்யேகாடஶே தேசா் பார்வண் து வி஧ியதே இதி । யம: — ஸபிண்டிகரண் நைவ குர்யா ஦ேவௌரஸ: ஸுத: । எகோஹிஷ் ந குர்வீத் யதினா் சை ஸர்வா . அஹந்யேகாடஶே ப்ராஸே பார்வணஶ்ராஷ்மாசரெத் இதி । வஸிஷ்டஸ்து — சதுர்வி஧ானா் மிக்ஷுணா் ஜாதிவந்஧ுஸுதாடிமி: । ஢ாடஶேஹனி கர்த்து தேசா் ஶாஞ் து பார்வணமிதி ।

ப்ரஜாபதி:- யதிகஞ்ஞக்கு ஸபிண்மகரணம் எப்பொழுதும் இல்லை. பதினேராவது நாளில் அவர்களுக்குப் பார்வண ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். **உசநாஸ்:-** யதிகஞ்ஞக்கு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யக் கூடாது. 11-ஆவது நாளில் அவர்களுக்குப் பார்வணம் விதிக்கப்படுகிறது. **யமன்:-** யதிகஞ்ஞக்கு, புத்ரன் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், ஸபிண்மகரணத்தையும் செய்யக் கூடாது. 11-ஆவது நாளில் பார்வண ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். வலிஷ்டரோவெனில்: நான்கு ப்ரகாரம் உள்ள யதிகஞ்ஞக்கும், ஜ்ஞாதி பந்து புத்ரன் முதலியவர்களால் 12-ஆவது நாளில் பார்வண ச்ராத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.

புலஸ்த்ய: — குடீசகோ ஬ஹுஶ ஹஸ: பரமஹஸக: । சதுர்வி஧ானா் மிக்ஷுணமேகாட்டித்திருப்பிணநாம் । ஷோகானி நவஶாஞ் ஸபிண்டிகரண் ந ச । ஏகாடஶேஹி ஸப்ப்ராஸே யதி வா ஢ாடஶேஹனி । பார்வண வி஧ானே ஶாஞ் குர்யத்தையூரஸ: இதி । காலாடஶே — ந தத் ஸந்யாஸினா் குர்யாத் பார்வண ஢ாடஶேஹனி இதி । தத் ஸபிண்டிகரண் ந, கிஂ து பார்வணமித்யர்஥: । ஜாதாதப: — எகோஹிஷ் ஜல் பிண்டமாஜீஞ்

प्रेतसंस्क्रियाम् । न कुर्यात् पार्वणादन्यद् ब्रह्मभूताय भिक्षवे इति ।
प्रेतसंस्क्रियां - दहनम् ।

पुलस्त्यरः:- गुणसकन्, पथैरुत्तकन्, ह्रम्सन्, परमह्रम्सन् एन्ऱ एकत्तन्निकूलायुम्, तरीत्तन्निकूलायुम् उल्ला नानंकु वित्तमाण यत्तिकूलकुम्, वेषोटस चरात्ततम्, नवचरात्ततम्, लपिण्णमैकरणम्, इवेवकौलैस चेय्यकं कूटातु. 11-आवतु तिनत्तिलावतु, 12-आवतु तिनत्तिलावतु पार्ववण चरात्ततत्तत्ततप पुत्ररन्स चेय्य वेण्णुम्. कालात्तरास्त्तत्तिलैः:- लेण्णयालीकूलकु लेपिण्णमैकरणत्तत्तत्तच चेय्यकं कूटातु. 12-आवतु नानीलै पार्ववण चरात्ततत्तत्तत्तच चेय्य वेण्णुम्. चात्तात्तपारः:- प्ररम्हपूत्तनेन लेण्णयालीकूलु एकोत्तिष्ट्टतम्, उत्तकूलाणम्, पिण्णत्ताणम्, आचेलासम्, तहूनम् इवेवकौलैस चेय्यकं कूटातु. पार्ववणत्तत्त मट्टिलै चेय्यलाम्.

तथा ब्रह्माण्डपुराणे — त्रयणामाश्रमाणां च
कुर्याद्वाहादिकाः क्रियाः । यतोः किञ्चिन्म कर्तव्यं यज्ञान्येषां करोति
तत् । एकादशे द्वादशे वा पार्वणश्राव्यमाचरेत् । प्रत्यब्दे दार्शिकश्राव्ये
तीर्थे चैव महालये इति । वसुरुद्रादित्यरूपाः पित्रादयः
वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राव्यदेवताः इति याज्ञवल्क्यस्मरणात् ।
अन्नाश्वलायनः — देवपूर्वं तु यत् श्राव्यमक्षयं तत्फलं भवेत् ।
देवपूर्वस्तु पितरो वसुरुद्रादयः स्मृताः इति ।

प्ररम्हूराण्णते पुराणात्तत्तिलैः:- प्ररम्हूरासारै,
कंगुहूस्त्तन्स, वाणप्ररस्त्तन्स एन्ऱु लून्ऱु
आचरमिकूलकुम् तहूनम् मुत्तविय कंगीयैकौलैस चेय्यवुम्.
मर्त्तवर्कूलकुस चेय्यकं कूटातु. अवनुक्कु 11-आवतु
अल्लतु 12-आवतु नानीलै पार्ववण चरात्ततत्तत्तत्तच चेय्यवुम्.
प्ररत्याप्तिक चरात्ततत्तत्तिलैम्, तर्स

ச்ராத்தத்திலும், தீர்த்த ச்ராத்தத்திலும், மஹாளய ச்ராத்தத்திலும் பார்வணத்தைச் செய்யவும். பிதா முதலிய மூவர்களும், வஸூருத்தர ஆதித்ய ஞபர்களாய் உள்ளனர். 'வஸூக்கள் ருத்ரர்கள் ஆதித்யர்கள் ஆகிய பித்ருக்கள் ச்ராத்த தேவதைகள்' என்று யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்மிருதி இருப்பதால். இதில், ஆச்வலாயனர்:- தேவர்களை முன்னிட்டுச் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் எதுவோ அதனின் பலம் அக்ஷயம் ஆகும். பித்ருக்கள் தேவர்களை முந்தியவராய் உள்ளவர்கள். அவர்கள் வஸூருத்தர ஆதித்யர்கள் என்பவர்களாம்.

हरिब्रह्ममहेश्वरात्मकाः पित्रादयः । नन्दिपुराणे महेश्वरः —
विष्णुः पिताऽस्य जगतो दिव्यो यज्ञः स एव च । ब्रह्मा पितामहो
ज्ञेयो ह्यहं च प्रपितामहः । उद्दिश्य विष्णुरैरिष्टः पितरस्तैस्तु
तर्पिताः । ब्रह्मा समिष्टः प्रीणाति पुंसः सर्वान् पितामहान् ।
प्रपितामहानुद्दिश्य त्विष्टोऽहं यैर्महामुने । न यान्ति नरकं घोरं तेषां वै
प्रपितामहाः इति । वराहपुराणे पितृन् प्रति यमः — ब्रह्मा विष्णुश्च
रुद्रश्च भवता (मधि) मादिपूरुषाः । आदित्या वसवो रुद्रा भवतां
मूर्त्यस्त्वमे इति । अत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्थाने केचिदात्मान्तरात्म
परमात्मेति त्रिपूरोद्देशं कुर्वन्ति । तथा च पाद्मे — अन्तरात्मा
भवेद्विष्णुः परमात्मा महेश्वरः । सर्वेषामेव भूतानामात्मा ब्रह्मा
चतुर्मुखः इति ।

ஹரி, ப்ரம்ஹா, மஹேச்வரர் இந்த மூவர்களாய் உள்ளவர்கள் பித்ராதிகள். நந்திபுராணத்தில் மஹேச்வரர்:- இந்த உலகத்திற்கு விஷ்ணு பிதா ஆகிறார், திவ்ய யஜ்ஞமும் அவரே. ப்ரம்ஹா பிதாமஹ ரென்று அறியவும். நான் ப்ரபிதாமஹன் என்று அறியவும். விஷ்ணுவை உத்தேசித்து எவர்கள் பூஜித்தனரோ, அவர்களால் பித்ருக்கள் த்ருப்தி செய்யப்பட்டவர் ஆகின்றனர். ப்ரம்ஹா பூஜிக்கப்பட்டால் அவர் பிதாமஹர்கள் எல்லோரையும் த்ருப்தர்களாகச்

चेयंकिरुर्. ओ मु नें ! प्रपीतामहूर्कौला उत्तेचित्तु, एवर्कौल एन्जैनप्प ब्रजीत्तनरो अवर्कौलिन्स प्रपीतामहूर्कौल पयंकरमान नरकत्तेत अटेवतिलैल. वराहूपुराणत्तिल प्रित्तरुक्कौलक कुरित्तु, यमनः:- प्रमहूरा विष्णु रुत्तरन इवर्कौल उन्कणुक्कु अतितेवर्कौल आकिन्नरनर. आतित्यर्कौल वलाक्कौल रुत्तरकौल एन्ऱ इवर्कौल उन्कौलतु मुर्त्तिकौल आकिन्नरनर. इतिल सिलर, प्रमहूर विष्णु महेश्वर संताणत्तिल, आत्मा, अन्तरात्मा परमात्मा एन्ऱू मून्ऱू पुरुषर्कौल उत्तेचिक्किन्नरनर. पात्तमत्तिलः:- अन्तरात्मा एन्पवर विष्णु, परमात्मा एन्पवर महेश्वरन, आत्मा एन्पवर प्राणीकणुक्कुम आत्मावाक्य सत्तुर्मुक प्रमहूर आकिरुर्.

विश्वदेवविषये शङ्खः — पुरुर(वो ध्रुवश्च) वार्द्धौ चैव पार्वणे सुरसत्तमौ । नैमित्तिके कालकामावेवं सर्वत्र कीर्तयेदिति । नैमित्तिकं - सपिण्डीकरणादि । संस्कार्यगृह्योक्तप्रकारेण प्राचीनावीती पार्वणं कुर्यात् । यत्तु वचनम् — एकादशे द्वादशोऽहि नारायणबलिक्रिया । प्रतिसंवत्सरं चैव मृततिथ्यामिदं भवेत् इति, तच्छष्यकर्तृकविषयम् । पुत्रकर्तृकत्वेऽपि विकल्प इत्यन्ये । मृततिथ्यामिदं भवेत् इति विशेषस्मरणात्, अन्यत्रामावास्यादौ पार्वणमेव ।

विचेवेतेव विष्णयत्तिल सञ्कराः:- पुरुरवर, आर्त्तरवर एन्ऱ इरुवरुम पार्वणत्तिल तेवर्कौल. कालन, कामन एन्ऱ इरुवरुम नेमित्तिक चरात्तत्तिल तेवर्कौल. इवंवितम एल्लावर्नृलुम चेाल्लवुम. नेमित्तिक चरात्तम = लपिण्मैकरणम् मुतवियतु. उत्तेचियनुटेय करुल्लयत्तिल चेाल्लियपटि प्रराशिण वीतियाय्प पार्वणत्तेतच चेय्यवुम. आगुल, '11-आवतु अल्लतु 12-आवतु तिनत्तिल नारायण पलियेच चेय्यवुम. ओवेवारु वर्षुत्तिलुम इतेतच चेय्यवुम.

இது ம்ருத திதியில் செய்யப்பட வேண்டும்' என்ற வசனம் உள்ளதே எனில், அது சிஷ்யன் செய்யும் விஷயத்தைப் பற்றியது. புத்ர கர்த்தருகமாகிய விஷயத்திலும் விகல்பம் என்று சிலர். ம்ருத திதியில் இது செய்யப்பட வேண்டும் என்று விசேஷத்தைச் சொல்லியதால் மற்ற அமாவாஸ்யை முதலியதில் பார்வணமே செய்யப்பட வேண்டும்.

ஸுமந்துஸ்து — குடிசகே து ஦ஜ்ஞாடை பார்ணஶ்ராஷ் மாச்ரேத் । நாராயணபலிங் சைவ பார்ண் து ஬ஹூடகே । ஹ்ஸே மृதே ஸுதः குர்யாத் பார்ண் பிதுயஜ்ஞத् । நாராயணபலிங் சைவ தथா பரமஹஸ்கே இதி । ஸ்மृத்யந்தரே — வृத்தே பிதரி ஸந்யஸ்தே தாதே ச பதிதே ஸதி । யேம்ய ஏவ பிதா ஦ி஘ாஜேம்யோ ஦ி஘ாத் ஸ்வயம் ஸுதः இதி । ஸந்யாஸாத் பூர்வ பிதா யேம்யः பித்ராடி஭்யோ ஦ி஦ாதி தஸ்மிந् மृதே தத்புநோऽபி தேம்ய ஏவ ஦ி஘ாடித்யர்஥ः । ததா பாரிஜாதே — சண்஡ாலாடிஹதே தாதே பதிதே ஸஜ்ஞாஜிதே । வ்யுத் க்ரமாச் மृதே ஦ேயং யேம்ய ஏவ ஦ி஦ாத்யஸௌ இதி । ஸஜ்ஞாஜிதः - ஸந்யாஸி । அஸ்ய ச ப்ரேதத்வாமாவாத் கேஜ்஧ாரணாஹஸ்சயர்஦ி நியமே நாஸ்தி । வத்ஸராந்தே பார்ணமேவேதி நிர்ணயः ।

ஸமந்துவோவெவனில்:- குழசகனின் விஷயத்தில், தர்சம் முதலியதில் பார்வண ச்ராத்தத்தையும், நாராயண பலியையும் செய்யவும். பஹ மதகனின் விஷயத்தில் பார்வணத்தைச் செய்யவும். ஹம் ஸனின் விஷயத்தில், புத்ரன் பித்ர யஜ்ஞ விதியாய்ப் பார்வணத்தையும், நாராயண பலியையும் செய்யவும். பரமஹம் ஸனின் விஷயத்திலும் அவ்விதமே செய்யவும். மற்றொரு ஸ்மிருதியில்:- ஸன்யாஸியான பிதா இறந்தாலும், பதிதனை பிதா இறந்தாலும், புத்ரன், பிதா எவர்களுக்குக் (ச்ராத்தத்தை) கொடுப்பாலே அவர்களுக்குக் கொடுக்கவும். 'ஸன்யாஸத்திற்கு முன் பிதா எந்தப் பிதா முதலியவர்க்குக் கொடுப்பாலே, அவர்களுக்கே

सन्यासी मरीत्त धीरकु अवनतु पुत्रं केकाटुक्क
वेण्णन्तुम् । एन्पतु बेपारुन् । अववीतमेम,
पारीज्ञातत्त्विलः- धीता सन्नटाळान्मुतवियवर्कणाल
केल्लप्पट्टु इरन्तालुम्, पतितान्य इरन्तालुम्,
सन्यासीयाय इरन्तालुम्, व्युत्करममाय इरन्तालुम्,
(तकप्पन्जीवीत्तु इरुक्क पुत्रं सावतु व्युत्करम मरुति)
इरन्तवन्न एवरुक्कुक्केकाटुप्पाणेऽवनुक्केपुत्रं
केकाटुक्क वेण्णन्तुम् । सन्यासीक्कु प्रेरत्तवम
इल्लातताल, पुत्रानुक्कुक्केक्षतारणाम्, प्रमूर्हसर्यम
मुतवियतिल नियमम् इल्लै । वर्षत्तिन्मुष्टिविल
पार्वणाम् मट्टिल एन्पतु निर्णयमाम् ।

सपिण्डीकरणविधिः

अथ सपिण्डीकरणम् । तस्य कालमाहाश्वलायनः — अथ
सपिण्डीकरणं वत्सरे पूर्णे द्वादशाहे वा इति । कात्यायनः - अथ
सपिण्डीकरणं संवत्सरे पूर्णे त्रिपक्षे वा यदहर्वा वृद्धिरापघते इति ।
बोधायनश्च — संवत्सरे सपिण्डीकरणमेकादशे मासि षष्ठे वा चतुर्थे
द्वादशोऽहनि वा इति । खण्डान्तरेऽपि स एवाह — अथ संवत्सरे
पूर्णे सपिण्डीकणं त्रिपक्षे वा तृतीये वा मासि षष्ठे वैकादशे मासि
द्वादशाहे वैकादशाहे वा इति । गृह्यपरिशिष्टेऽपि — अथ संवत्सरे
सपिण्डीकरणम् इति ।

सपिण्डाकरण वित्ती.

इनी सपिण्डाकरणाम् चेल्लप्पट्टुम् । अतर्न्तुक्क
कालत्तेत्तच चेल्ललुकिरुर्आुक्वलायनरः- इनी
सपिण्डाकरणाम्, वर्षम् मुष्टिन्त प्रीरकावतु, 12-आवतु
नालीलावतु, कात्त्यायनरः- इनी सपिण्डाकरणाम्,
वर्षम् मुष्टिन्त प्रीरकु, तरीपक्षत्तिलावतु, एप्पेपामुतु
नान्ति प्रसक्तम् आक्रितेऽपि अप्पेपामुतावतु
(सेय्यप्पट वेण्णन्तुम्.) पोतायनरुमः- वर्षम्
मुष्टिन्ततुम् सपिण्डाकरणाम्, 11 अल्लतु 6 अल्लतु

4-ஆவது மாஸத்தில் அல்லது 12-ஆவது நாளில் செய்யப்படலாம். போதாயனரே மற்றொரு கண்டத்திலும் சொல்லுகிறார்:- வர்ஷம் முடிந்த பிறகு ஸபின்மகரணம், தரிபகுத்திலாவது, 3-ஆவது மாஸத்திலாவது, 6 அல்லது 11-ஆவது மாஸத்திலாவது, 12 அல்லது 11-ஆவது நாளிலாவது செய்யப்பட வேண்டும். க்ருஹ்ய பரிசிஷ்டத்திலும்:- வர்ஷம் முடிந்த பிறகு ஸபின்மகரணம்.

காத்யாயனஸ்மृதை ச — ததः ஸ்வत்ஸரே பூர்ண ஸபிண்டிகரணं ஭வेत् । ஦्वாदஶாहே திரிபக்ஷே வா யदா வா வृத்திராபதேத் இதி । யदா ஸ்வத்ஸராந்தை ச ஸபிண்டிகரணं ததா । பிரேதஸ்ஸ்காரகார்யாணி யானி ஶாஷ்வனி ஷோதனை । யதாகாலே து கார்யாணி நாந்யதா முச்யதே ததः இதி ஹாரிதஸ்மரணாத் தத்தகாலே ஏகோஹிஷ்வி஧ானேன மாஸிகானி கृதா ஸோத்குழம் ஶாஷ்வாந்யநுஷ்டாய ஜனாஜிகாத்பரமாஜிகாத் பூர்ணி஦னே தத் குர்யாத் ।

காத்யாயன ஸ்மர்துதியிலும்:- வர்ஷம் முடிந்த பிறகு ஸபின்மகரணம். 12-ஆவது நாளில் அல்லது தரிபகுத்தில் நாந்தீ ப்ரஸக்தமாகும் போதாவது செய்யப்பட வேண்டும். ஸம்வத்ஸராந்தத்தில் ஸபின்மகரணம் ஆகும் பகுத்தில், “ப்ரேத ஸம்ஸ்கார கார்யங்களையும், 16-ச்ராத்தங்களையும் அதனதன் காலத்தில் செய்ய வேண்டும். செய்யாவியிடல் ப்ரேதத்வ மோக்ஷம் ஆவது இல்லை” என்று ஹார்த ஸ்மர்துதி இருப்பதால் அதனதன் காலத்தில் ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய் மாஸிகங்களைச் செய்து, ஸோதகும்ப ச்ராத்தங்களையும் அனுஷ்டித்து, ஊநாப்திகத்திற்குப் பிறகு ஆப்திகத்தின் முதல் நாளில் ஸபின்மகரணத்தைச் செய்யவும்.

ஸ்வத்ஸராந்தை ஸபிண்டிகரணமநாஹிதாஸ்ரேம்ருத்யம், ஸபிண்டிகரண் குர்யாஜமானஸ்த்வநஸ்மாந் । அநாஹிதாஸ்ரே: பிரேதஸ்ய பூர்ணே஽ங்கே மரத்ரை

इति भविष्यत्पुराण वचनात्, वत्सरान्ते ततः प्रेतः पितृत्वमुपपद्यते
इति बोधायनस्मरणाच्च । संवत्सरे पूर्ण इत्यभिधानात्
द्वित्रादिदिनैरूने न कर्तव्यम्, संवत्सरस्य तदा अपूर्णत्वात् ।

वत्त्वरान्तत्त्विल् सपिण्डाकरणम् चेय्यवतु
अन्नाहृताक्णीक्कु मुक्यम् आक्षयतु । 'अन्नाहृताक्णीयान्
यज्ञमाणान्, अन्नाहृताक्णीयान् प्रेरेतनुक्कु वर्षम्
मुष्टिन्त प्रिरु क्षम् चेय्यवेणुम्.
युक्तिष्ठिर !' एन्ऱु पविष्यत्पुराण वसन्तत्तालुम्,
'वर्षम् मुष्टिन्त प्रिरु प्रेरेतन् पितृत्वत्वत्तेत
अटेक्किरुन्' एन्ऱु पोतायन् स्मर्गुत्तियालुम्,
'सम्वत्सरे पूर्णेण' एन्ऱु चेत्तियालुम्, 2
अल्लतु ३ त्रिनंकान् त्रिनंकान् कालत्तिल् चेय्यक्षम्
कृतात् । अप्पेपामुतु सम्वत्सरम् पूर्णम् आकात्ताल्.

न चात्र वारादिदोषः, सपिण्डीकरणं कुर्यादित्सरान्ते यदा
पुनः । ऊनाब्दिकात् परं कुर्यादाब्दिकात् पूर्ववासरे । वत्सरान्ते यदा
कुर्यात् सपिण्डीकरणं सुतः । तदा तु तिथिवारादीन् कुर्यादिवा-
विचारयन् इति स्मरणात् । आब्दिकात् पूर्ववासरे सपिण्डी-
करणासंभवे आब्दिकदिने कुर्यात् । तदा न पृथगाब्दिकं कुर्यात्,
सापिण्डयं यदि वर्षान्ते मृतमासे मृतेऽहनि । कुर्वीत विधिवत्
पुत्रस्तदेव प्रथमाब्दिकम् इति स्मरणात् ।

इवविषयत्तिल् वाराति त्रोष्मम् एन्पतु इल्लै.
'वर्षान्तत्त्विल्, ऊनाप्तिकत्तिरुक्प प्रिरु,
आप्तिकत्तिरुक्प मुतल् नालील् चेय्यवुम्. पुत्रान्
वर्षान्तत्त्विल् चेय्यवत्तागुल् त्रिति वारम् मुतलीयत्तेत
विचारीक्कामल् चेय्यवेणुम्' एन्ऱु स्मर्गुत्ति
इरुप्पत्ताल्. आप्तिकत्तिरुक्प मुतल् नालील्
सपिण्डाकरणम् चेय्यम् आप्तिकत्तिरुक्प आप्तिकत्तिल्
चेय्यवुम्. अप्पेपामुतु त्रिनायाय आप्तिकम् चेय्य

வேண்டியது இல்லை. 'வர்ஷாந்தத்தில் ம்ருதமாஸத்தில் ம்ருத திதியில் விதிப்படி ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்வானுகில் அதே ப்ரதமாப்திகம்' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

஛ாதஶாஹ ஸபிண்டிகரண் ஷோடஶஶாஷ்பூர்வக் கர்த்யம், தடபி பிரஶஸ்தம், ஸ்வாத்திரப்ரதிமா வை ஛ாதஶராத்ரயः இதி ஶ्रுதே:, ஆனந்த்யாத் குல஧மரணா் புங்ஸா் சைவாயுஷ: க்ஷயாத் । அஸ்஥ிரத்வாஞ்சிரரீரஸ்ய ஛ாதஶாஹ: பிரஶஸ்யதே இதி ஸ்மரணாத் ।

12-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யத்தை, ஷோடஶ ச்ராத்தங்களைச் செய்து பிறகே செய்ய வேண்டும். 12-ஆவது நாளும் சலாக்யம். '12-நாட்கள் ஒரு வர்ஷத்திற்குச் சமம் என்று ச்ருதியாலும், 'குலதர்மங்கள் (ஸுபகார்யங்கள்) அநேகமாய் இருக்குமாதலாலும், மனிதர்களின் ஆயுள் குறைவானதாலும், சரீரம் ஸ்திரம் அல்லாததாலும், 12-ஆவது நாள் சலாக்யம் எனப்படுகிறது' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதாலும்.

ஏகபுந்தஸ்ய ஛ாதஶாஹ ஏவ முற்ய: , க: ஸ்வாத்திர ஜிவிஷ்யதி இதி ஶருதே:, ஏகபுந்தஸ்மாஞ்சைவ குர்வதி ஛ாதஶோஹனி । ஸபிண்டிகரணஶாஷ்வ தயாரேஷ இதி ஸ்஥ிதி: । ஸபிண்டிகரண் பித்ரோ: குயடிகோ ஹிய: ஸுத: । அஸ்஥ிரத்வாஞ்சிரரீரஸ்ய ஛ாதஶாஹ: பிரஶஸ்யதே இத்யாடிஸ்மரணாத் ।

ப்ராதா இல்லாமல் ஒரே புத்ரனுய் இருப்பவன், 12-ஆவது நாளில் செய்வதே முக்யபக்ஷம். 'எவன் ஒரு வர்ஷம் வரையில் ஜீவித்திருப்பான்? என்று ச்ருதி இருப்பதாலும், 'ஏகபுத்ரனுய் இருப்பவனும், ஆலூரிதாக்னியும், 12-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும். அவ்விருவர்க்கும் இதுவே முக்ய காலம் என்று நிர்ணயம். ஏகபுத்ரனுய் இருப்பவன் ஸபிண்டைகரணத்தைச் செய்தால் அவனுக்கு 12-ஆவது நாளே ப்ரசஸ்தம்

एनप्पेटु किऱतु, सर्वम् अस्तु रम आनताल् एनपतु मुतविय संमरुद्धि उल्लान्तु.

न चात्र वारादिदोषः, तथा च सायणीये — श्राद्धं सपिष्ठनं कुर्यात् तिथिवारान्व चिन्तयेत्। वर्षन्ते द्वादशाहे वा सपिष्ठीकरणं यदि इति । मातापितृ व्यतिरिक्तविषये स्मृत्यन्तरम् — द्वादशोऽहनि सम्प्राप्ते यदि शुक्रदिनं भवेत् । मातापितृभ्यामन्यस्य नैव कुर्यात् सपिष्ठनम् इति । अन्यत्रापि — नाङ्गारे च चतुर्दश्यां भूगुवारे गुरोदिनैः । सपिष्ठीकरणं कुर्यात् कुलक्षयकरं भवेत् । शोभूते तत्तु कुर्वीत सापिष्ठचं षोडशोऽथवा । त्रयोविंशदिने वाऽपि त्रिपक्षादावनन्तरे इति ।

இந்த விஷயத்தில் வாராதி தோஷம் இல்லை. அவ்விதமே, ஸாயணீயத்தில்:- ஸாபின்ட்ய ச்ராத்தத்தைச் செய்தால் திதி வாரங்களை ஆலோசிக்கக் கூடாது, வர்ஷ முடிவிலாவது, 12-ஆவது நாளிலாவது ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யும் விஷயத்தில் மாதா பிதாக்களைத் தவிர்த்த மற்றவர் விஷயத்தில், ஓர் ஸம்ருதியில்:- 12-ஆவது நாளில் சுக்ரவாரம் நேர்ந்தால், மாதா பித்ருக்களன்றி மற்றவனுக்கு ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவே கூடாது. மற்றிரு ஸம்ருதியிலும்:- பெளமவாரம், சதுர்தசி, சுக்ரவாரம், குருவாரம் இவைகளில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யக் கூடாது. செய்தால் குலக்ஷயகரம் ஆகும். அதை மறுநாளில் செய்யவும் அல்லது 16-ஆவது நாளில், 23-ஆவது நாளில் அல்லது த்ரிபக்ஷம் முதலிய காலத்திலாவது செய்யவும்.

द्वादशाहसपिष्ठीकरणासम्बवे त्रिपक्षादिषु वारादिकं परीक्ष्य कुर्यात् । तदुक्तं स्मृतिरत्ने — एकादशादित्यदिने वर्षन्ते वाऽपि यश्चरेत् । सलग्ग्रहवारादिबलं न प्रतिशोधयेत् । त्रिपक्षादिषु कालेषु सपिष्ठीकरणं यदि । तत्र प्रशस्तं नक्षत्रं प्रविशोध्य समाचरेत् इति ।

12-ஆவது நாளில் ஸபிண்ணகரணம் செய்ய முடியாவிடில், த்ரிபக்ஷாதி காலங்களில் வாரம் முதலியதைச் சோதித்துச் செய்யவும். அவ்விதம் ஸ்மிருதி ரத்னத்தில்:- 11-ஆவது தினத்திலோ, 12-ஆவது தினத்திலோ, வர்ஷாந்தத்திலோ ஸாபிண்ணட்யத்தைச் செய்கிறவன். லக்னம், க்ரஹங்கள், வாரம் முதலியதைச் சோதிக்கக் கூடாது. த்ரிபக்ஷம் முதலிய காலத்தில் ஸாபிண்ணட்யமானால், ப்ரசஸ்தமான நகஷத்ரத்தைச் சோதித்துச் செய்ய வேண்டும்.

हारीतः — एकादशो द्वादशो वा यदि न स्यात् सपिण्डनम् ।
 उत्तरोत्तरकालेषु यथासम्भवमाचरेत् इति । ते चाञ्जिरसा दर्शिताः
 — द्वादशाहे त्रिपक्षे वा तृतीये मासि पष्ठके । एकादशो वा मास्यब्दे
 वृद्धौ कुर्यात् सपिण्डतामिति । पञ्चतौ च — अथ द्वादशाहे तृतीये
 चतुर्थे पष्ठे वैकादशो वा मासि सपिण्डीकरणम् इति । कालादर्शेऽपि
 — एकादशो द्वादशोऽहि त्रिपक्षे वा त्रिमासके । पष्ठे वैकादशो वाऽब्दे
 संपूर्णे वा शुभागमे ॥ सपिण्डीकरणस्यैते अष्टौ कालाः प्रकीर्तिताः
 इति । अष्टौ काला इत्युपलक्षणम् ।

ஹாரீதாரர்:- 11, 12-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ணட்யம் செய்யப்படாவிடில், மேல் உள்ள காலங்களுள் நேர்ந்த ஒரு காலத்தில் செய்யவும். அக்காலங்களும் அங்கிரஸ்ஸால் சொல்லப்பட்டுள்ளன:- 12-ஆவது நாள், த்ரிபக்ஷம், 3-ஆவது மாஸம், 6-ஆவது மாஸம், 11-ஆவது மாஸம், வர்ஷாந்தம், சுபம் நேர்ந்த ஸமயம் இவைகளுள் ஒன்றில் செய்யவும். பத்தத்தியிலும்:- 12-ஆவது நாள், 3-ஆவது மாஸம், 4-ஆவது மாஸம், 6-ஆவது மாஸம், 11-ஆவது மாஸம் இவைகளுல் ஒன்றில் ஸாபிண்ணட்யம். காலாதாரர்சத்திலும்:- 11-ஆவது நாள், 12-ஆவது நாள், த்ரிபக்ஷம், 3-ஆவது மாஸம், 6, 11-ஆவது மாஸங்கள், வர்ஷாந்தம், சுபகார்யஸமாகமம் என்று எட்டுக்காலங்கள் ஸாபிண்ணட்யத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

एट् उक्तकालं कलं एन्नं रथु मर्ह रक्तं कालं करुक्तु
मुपलक्ष्य ज्ञाम्,

तथा च स्मृतिरत्ने — एकादशो द्वादशोऽहि त्रयोदशदिनेऽपि वा । त्रिपक्षे वा त्रिमासे वा षष्ठे वैकादशोऽपि वा । वत्सरान्तेऽपि वा कुर्यात् त्रयोविंशदिनेऽपि वा । वृद्धिपूर्वदिने वेति दशकालाः सपिण्डने इति । गर्गश्च — अथ वा त्वकृतं यत्तु द्वादशाहे सपिण्डनम् । त्रयोदशदिने कुर्यात् त्रयोविंशदिनेऽथ वा इति । श्रीधरीये — एकादशाहमारम्भ्य यावदाषोडशाहिनात् । सपिण्डीकरणं कुर्यात्तिः सप्तदशोऽहि वा इति । बृहस्पतिः — द्वादशाहादिकालेषु सपिण्डीकरणं न चेत् । तदा प्रशस्तनक्षत्रे त्रिपक्षादिषु कारयेत् इति । व्यासः — प्रमादादकृते तस्मिन् द्वादशैकादशोऽहनि । त्रयोविंशदिने वाऽपि त्रिपक्षाद्युत्तरेषु वा । तत्र प्रशस्तनक्षत्रं परिशोध्य समाचरेत् । त्रिपदक्षिणा विना जन्मभानुभौमशनैश्चरान् । शुक्रवारं तदंशं च विनाऽन्यत्र समाचरेत् इति ।

संम्रुद्धिरत्नत्तिलः— 11, 12, 13- आवतु त्रिनंकलं, तंरीपक्षम्, 3, 6, 11- आवतु मालवंकलं, वर्षत्तिलं मुष्टिव, 23- आवतु त्रिनंकलं, नान्तियिणं मुतलं त्रिनंकलं एन्नं पत्तुकं कालंकलं लापिण्णं यत्तिलं वित्तिकप्पत्तुलाण. कर्करुमः— 12- आवतु नालीलं लापिण्णं यमं चेयप्पत्ताविष्टिलं, 13 अल्लवतु 23- आवतु त्रिनत्तिलं चेयवुम. सर्वत्तायत्तिलः— 11- आवतु नालं मुतलं 16- आवतु नालं वररयिलं लापिण्णं यत्तत्तसं चेयलाम. पिरकु 17- आवतु त्रिनत्तिलुमं चेयलाम. पंगुहूसंपत्तीः— 12- आवतु त्रिनंकलं मुतलीय कालंकलीलं लापिण्णं यमं चेयप्पत्ताविष्टिलं, तंरीपक्षम् मुतलीय कालंकलीलं प्रसलंतमाण नक्षत्रत्तिलं चेयवुम. व्यासरः— 11, 12- आवतु त्रिनंकलीलं चेयप्पत्ताविष्टिलं 23- आवतु

தி நத்தி லாவது, த்ரிபக்ஷம் முதலிய மேல் காலங்களிலாவது, சிறந்த நக்ஷத்ரத்தைச் சோதித்துச் செய்யவும். த்ரிபத நக்ஷத்ரம், ஜன்மநக்ஷத்ரம், பானுவாரம், பெளமவாரம், சனி வாரம், சுக்ரனின் வாரம் அம்சம் இவைகளைத் தவிர்த்து மற்றக் காலத்தில் செய்யவும்.

ஶஸ்தி: — சதுர்஦்ஶயாஂ து யத் பூர்வ ஸபிண்டிகரண் ஸமृதம் । எகோடிஷ்டிவி஧ானேந தத் கார்ய ஶஸ்திவாதினः இதி । யदேतத் ஸபிண்டிகரண், தத் ஶஸ்திவாதஸ்ய எகோடிஷ்ட் சதுர்஦்ஶயாஂ கார்ய, ந ஸபிண்டிகரணமித்யर्थः । ஸமृதிரதே — ஸபிண்டிகரणே திரிண நக்ஷத்ராண்யாஹுர்மநிஷிணः । பிராஜாபத்ய ததா ரௌங் நக்ஷத்ர த்விந்஦ி஦ைவதம் இதி । நக்ஷத்ரஃ: — ஸபிண்டிகரண் யென பிரமாடாடகுத் ததா । அனுராதாந்திராந்தேஷு ரோஹிண்யாஂ வா ஸமாசரேத் இதி । ஗ாலங்கி — ஸபிண்டிகரணஶ்ராந்த முக்தகாலே ந சேத் கூதம் । ரௌங் ஹஸ்தே ச ரோஹிண்யாஂ மைந்தே வா ஸமாசரேத் இதி ।

சங்கார்:- ஸபிண்மகரணம் என்றது எதுவோ, அது சஸ்த்ரஹதனுக்கு, ஏகோத்திஷ்டமாய்ச் சதுர்த்தியில் செய்யப்பட வேண்டும். ஸபிண்மகரணமாய்ச் செய்யப்படக் கூடாது, என்று பொருள் ஸ்மருதிரத்தில்:- ரோஹிணீ, ஆர்த்ரா, ஜ்யேஷ்டா, இந்த மூன்று நக்ஷத்ரங்களும் ச்லாக்யங்கள் என்கின்றனர். விதவான்கள். ருக்யச்ருங்கர்:- எவன் கவனமின்மையால் ஸாபிண்டயத்தைச் செய்யவில்லையோ அவன், அநுராதா, ஆர்த்ரா, ஹஸ்தம், ரோஹிணீ இவைகளுள் ஒன்றில் செய்யவும். **காலவரும்:-** விஹித காலத்தில் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்யாவிடில், ஆர்த்ரா, ஹஸ்தம், ரோஹிணீ, ஜ்யேஷ்டா இந்த நக்ஷத்ரங்களுள் ஒன்றில் செய்யவும்.

वत्सरातिक्रमे सपिण्डीकरणप्रकारः, तत्कालश्च

संवत्सरात्यये तु पुनः षोडशश्राद्धानुष्ठानपूर्वकं कर्तव्यम्, कृतेऽपि षोडशश्राद्धे सपिण्डीकरणं विना । संवत्सरे व्यतीते तु पुनः षोडशमहीति इति स्मरणात् । अत्र कालमाह बृहस्पतिः — अकृते प्राप्तकाले तु श्राद्धकालोऽत्र वक्ष्यते । कन्याकुम्भगते भानौ कृष्णपक्षे विधीयते इति । गर्णश्च - कृष्णपक्षे तु पञ्चम्या मष्टम्यां दर्श एव वा । एकादश्यां तु कर्तव्यं स्वकालाकरणे सति इति ।

वर्षम् मुष्टिन्त पिऱ्कु लपिण्णमकरणात्तीन्न
प्रकारमुम्, कालमुम्

वर्षम् मुष्टिन्त पिऱ्कोवेवनील, मरुपटि वेष्टोत्त
स्त्रात्तन्तकलौच चेय्तु लापिण्णट्यत्तेत्तच चेय्यवुम् ।
'वेष्टोत्तस्त्रात्तन्तकलौम् चेय्यप्पत्तु, लपिण्णमकरणम्
चेय्यप्पत्तामल् वर्षम् मुष्टिन्तु विट्टाल, मरुपटि
वेष्टोत्तस्त्रात्तन्तकलौच चेय्य वेण्णुम्' एन्ऱु ल्लम्गुति
இருப्पत्ताल. இதில் காலத்தைச் சொல்லுகிறார்,
ப்ரஹஸ்பதி:- விழித காலத்தில் செய்யப்படாவிடில்,
स्त्रात्तकालम् இப்பொழுது சொல்லப்படுகிறது. கன्या,
कुम्पम् இन्त राशिकलीलं लार्यन् இருक्कुम् पொழுது
कंगूஷ்ண பக्षुத்தில் விதிக்கப்படுகிறது. கர்கருமः-
लंवकालत்தில் செய்யாவிடில், கंगूஷ்ணபக्षுத்தில்,
पर्णसमि, अञ्चलमि, तर्समि, ऋकात्तसि இவைகளுள் ஒன்றில்
चेय्यवும्.

स्मृतिरत्ने — अमायां च क्षयाहे च प्रेतपक्षे तथैव च । श्राद्धं
सपिण्डनं कुर्यात्तिथिवारौ न शोधयेत् इति । श्रीधरीये —
कन्याकुम्भगते सहस्रिरणे तामिस्रपक्षे भृगोवरक्षोदय
मङ्गनातनययोर्जन्मत्रयं चात्मनः । हित्वा नन्दकर्णी चतुर्दश तिथिं
श्राद्धं विदध्याद्वसुत्वाध्वार्काग्निसमीरमन्त्रिमधमित्राख्येन्दु-
विष्वबंबुषु इति । नृसिंहः — कन्याकुम्भगते सूर्ये कृष्णपक्षे

விஶேஷதः । பञ்சம्याः பரतः ஶ्रேষ்஠ ஆபञ்சம्याः ஸிதே॥பி ச இதि ।
बृहस्पतिः — अन्त्यत्रिभागः शस्तः स्यात् कृष्णपक्षे सपिण्डनम् ।
आद्यभागे च कर्तव्यं सिते पक्षे च सङ्कटे इति । प्रेतस्य
वत्सरादवर्ग्यदा संस्कारमिच्छति । न कालनियमो ह्येयो न मौढ्यं
गुरुशुक्रयोः इति वत्सरादवर्गिव कालदोषाभावविधानात्, अर्थात्
संवत्सरात् परमधिमासमौच्यदोषश्च परिहार्यः ।

ஸ்மிருதிரத்னத்தில்:- அமை அல்லது ம்ருத திதி,
மஹாளய பக்ஷம், இவைகளுள் ஒன்றில்
ஸபின்மகரணத்தைச் செய்யவும். திதி வாராதி
தோஷங்களைக் கவனிக்க வேண்டாம். சீர்தீர்யத்தில்:-
கன்யா கும்ப மாஸங்களில் க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில், சுக்ரனின்
வாரம் நக்ஷத்ரம் உதயம் இவைகளையும், தன்னுடையவும்,
பத்னீ புத்ரர்களுடையவும் ஜன்மானுஜன்ம த்ரிஜன்மங்
களையும், நந்தாதிதி, சதுர்த்தி இவைகளைத் தள்ளி,
அவிட்டம், சித்திரை, ஹஸ்தம், க்ருத்திகை, ஸ்வாதி,
புஷ்யம், மகம், அநுராதா, ம்ருக சீர்ஷம், ச்ரவணம்,
பூர்வாஷாடா இந்த நக்ஷத்ரங்களில் செய்யவும்.
ந்திருவிம்ஹூர்:- கன்யா மாஸம், கும்ப மாஸம் இவைகளில்
க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் பஞ்சமிக்கு மேற்பட்டும், சுக்ல
பக்ஷத்தில் பஞ்சமிக்குக் கீழ்ப்பட்டும் உள்ள காலம்
ச்ரேஷ்டம் ஆகும். ப்ரகாஹஸ்பதி:- க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில்
கடைசியான மூன்றில் ஒரு பாகம் ச்லாக்யம் ஆகும். விழித
காலம் கிடைக்காவிடில், சுக்ல பக்ஷத்திலும் முதலாவ
தாகிய மூன்றில் ஒரு பாகத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச்
செய்யலாம். 'ம்ருதனுக்கு வர்ஷத்திற்குள் ஸம்ஸ்காரம்
செய்ய விரும்பினால் காலநியமம் இல்லை. குரு சுக்ர
மெளட்யமும் இல்லை' என்ற வசனத்தால் வர்ஷத்திற்குள்
செய்யும் விஷயத்திலேயே காலதோஷம் இல்லை என்று
விதிக்கப்படுவதால், வர்ஷத்திற்குப் பிறகு அதிக மாஸம்,
மெளட்யதோஷம் இவைகளைப் பரிஹரிக்க வேண்டும்
என்பது பொருட்படுகிறது.

वर्णभेदेन कालव्यवस्थामाह वृद्धमनुः — द्वादशोऽहनि विप्राणामाशौचान्ते तु भूमृताम् । वैश्यानां च त्रिपक्षादावथवा स्यात् सपिण्डनम् । शूद्राणां द्वादशाहे च कर्ता तत्कालतः शुचिः इति । अथवा स्यादिति विप्रक्षत्रियविशां त्रिपक्षादिषु कालेषु वा सपिण्डनमित्यर्थः । विष्णुश्च — मन्त्रवर्ज हि शूद्राणां द्वादशाहे सपिण्डनम् इति, स तत् सच्छूद्रविषयम् । अत एव प्रजापतिः — शूद्राणां द्वादशोऽहिं स्यादाशौचान्तेऽथ वा भवेत् । कुर्यादाशौचमध्येऽपि सच्छूद्राणां सपिण्डनम् इति ।

वर्णभेदेन लापिण्ट्यकालम्

वर्णभेदेन तत्त्वे अनुसरीत्तु कालव्यवस्थात्तयेच चेशाल्लुकिरुर्, वंगुत्तमनुः:- ‘प्रराम्भेणार्कगुक्कु 12-आवतु नाशीलुम्, क्षुत्तरीयर्कगुक्कु आशेसाचत्तिन्मुष्टिविलुम्, वैवच्यर्कगुक्कु त्तरीपक्षुम् मुत्तवियकालत्तिलुम्, कुत्तरर्कगुक्कु 12-आवतु नाशीलुम् लपिण्टनम् विलुत्तम् आकिरतु. कर्त्तत्ता अक्कालत्तिल्मट्टिल्सृत्तत्तगुकिरुन्. मुलत्तिल्उलं उल्ला ‘अत्तवास्यात्’ ऎन्पत्तर्कु प्रराम्भेणक्षुत्तरीयवैवच्यर्कगुक्कुत्तरीपक्षुम्मुत्तविय कालन्कक्षीलावतु लापिण्ट्यम्, ऎन्पत्तु बेपारुन्. विष्णुवुम्:- ‘कुत्तरर्कगुक्कु 12-आवतु नाशील्मन्त्तरमिल्लामल्लापि लापिण्ट्यम्’ ऎन्किरुर्. इतु लत्तकुत्तररैनप्प पर्नरीयतु. आकेयालेये, प्रज्ञापतीः-कुत्तरर्कगुक्कु 12-आवतु नाशील्ल चेय्यप्पत्तलाम्, अल्लतु आशेसाचत्तिन्मुष्टिविल्ल चेय्यप्पत्तलाम्. लत्तकुत्तरर्कगुक्कु आशेसाचत्तिन्मुष्टिविल्ल नुविलुम् लापिण्ट्यत्तेच चेय्यलाम् ऎन्रुर्.

सच्छूदलक्षणमाह व्याघ्रपादः — संस्कृतायां तु शूद्रायां ब्रह्मबीजसमुद्भवः । स्वकर्मनिरतश्चैव सच्छूदः स प्रकीर्तिः इति ।

ஸங்கூதாயாஂ - ஬ிராஹ்ண வி஧ிவடூநாயாஂ இத்யर்஥ः । அஸ்வர்ண விவாஹஸ்ய கலைனிஷே஧ாதூநாந்தரவிஷய ஶூநாணாஂ ஦ாநாஹே ஸபிண்ணனம் । தथா சாபஸ்தம்஭ः — ஶூநாணாஂ ஹிநஜாதிநாமாஶௌநாந்தே ஸபிண்ணனம் । பகாநென ந கர்த்தவ்யமாமேன ஶாஞ்சமாசரெடு இதி ।

ஸத்குத்ரனின் லக்ஷணாத்தைச் சொல்லுகிறார், வ்யாக்ரபாதர்:- ‘ஸம்ஸ்க்ருதையான குத்ர ஸ்த்ரீயின் இடத்தில் ப்ராம்ஹனானுக்குப் பிறந்தவனும், ஸ்வகர்ம அனுஷ்டானத்தில் நிரதனுமானவன் ஸச்குத்ரன் எனப்படுகிறுன்’ என்று. மூலத்தில் உள்ள ‘ஸம்ஸ்க்ருதாயாம்’ என்ற பதத்திற்கு, ‘ப்ராம்ஹனானுல் விதிப்படி மணக்கப்பட்ட’ என்பது பொருள். அஸவர்ண விவாஹத்திற்குக் கவியில் நிஷேஷதம் இருப்பதால் குத்ரர்களுக்கு 12-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ணட்யம் என்பது மற்ற யுகங்களைப் பற்றியது. அவ்விதமே, ஆபஸ்தம்பார்:- ‘தாழ்ந்த ஜாதியான குத்ரர்களுக்கு, ஆசௌசத்தின் முடிவில் ஸாபிண்ணட்யம். பக்வான்னத்தால் செய்யக் கூடாது. ஆமத்தால் ச்ராத்தக்தைச் செய்ய வேண்டும்’ என்றார்.

காத்யாயனோடபி — ஸர்வேஷாமேக வர்ணாமாஶௌநாந்தே ஸபிண்ணனம் । ந பக்வ ஭ோஜயேந்திப்ராந் ஸच்சூநோடபி கடாநன । ஭ோஜநே த்வந்தாஂ பாப் த்வஸ்யாடபி ப்ரமவேத் ஸதாம் இதி । ஸதாஂ ஶூநாநமோக்தூநாம், அஸ்ய - ஶூநஸ்ய சேत்யர்஥ः । ஏவ் ச ஬ிராஹ்ணாாஂ மஹாநுருபிதூவிஷயே த்ரயோदஶதினே ஸாபிண்ணம், உத்பாத புந் ஸங்கூதய வேதம஧்யாப்ய யः பிதா । குர்யாந்தித்து மூதே தஸ்மிந் ஦ாநாஹே மஹாநுரை இதி ஦ாநாஹ மாஶௌநாநாத् ।

காத்யாயனரும்:- எல்லா வர்ணத்தாருக்கும் ஆசௌசத்தின் முடிவில் ஸாபிண்ணட்யம் விதிக்கப் படுகிறது. ஸச்குத்ரனையினும் ப்ராம்ஹனர்களைப் பக்வான்னத்தை ஒரு காலும் புஜிப்பிக்கலாகாது. புஜிப்பித்தாலோவெனில், புஜித்த ப்ராம்ஹனர்களுக்கும்,

पूजीपंपित्तवनुकंकुमं पापम् एर्पणुम् । इवंवितम् इग्रुप्पत्ताल्, प्रराम्भैर्णर्कर्णं महाकुरु मरणं विषयत्तिल 13-आवतु नालीलं सापिण्णट्यत्तेतत्त्वं चेय्य वेण्णुम् । “एन्तप्पि पिता पुत्रैन् उत्पत्ति चेय्तु, उपन्यानम् चेय्तु, वेतत्तेतत्त्वं कर्पित्तु, पितैप्पेप्पेयुम् कर्पिक्किण्णरुग्गेऽन्त, अन्त महाकुरु एन्नै पिता इरन्ताल् 12-नालं आ॒सैला॒सम्” एन्ऱै 12-नालं आ॒सैला॒सम् वित्तिक्कप्पेत्तुवत्ताल् ।

दर्शपाते एकादशाहे आहिताग्नि कर्तृकसापिण्डचम् ।

यत् — द्वादशाहे वैकादशाहे वा इति बोधायनादिभिरेकादशाहे सपिण्डीकरणमुक्तम्, तत् एकादशाहे दर्शपाते सत्याहिताग्निकर्तृविषयम् । तथा च हारीतः - या तु पूर्वमावास्या मृताहादशमी भवेत् । सपिण्डीकरणं तस्यां कुर्यादेव सुतोऽग्निमान् इति । वृद्धवसिष्ठोऽपि — प्रथमा स्यादमावास्या मृताहादशमेऽहनि । सपिण्डीकरणं तत्र कुर्यादेव सुतोऽग्निमान् इति । मृताहादिति मर्यादायां पञ्चमी, मृताहादूर्ध्वदिनमारम्भेत्यर्थः । या तु पूर्वमावास्या प्रथमा स्यादमावास्या इति विशेषणसामर्थ्यादेकादशदिने प्राथमिकदर्शपाते सपिण्डनम्, न द्वितीयादाविति कैश्चिद्व्याख्यातम् । माधवीयादौ विशेषानभिधानात्, कृषिवाक्ये लाघवानादरात् तदुपेक्ष्यम् ।

तर्चमं वन्त्तालं 11-आवतु नालीलं आ॒उ॒त्ता॒कं॒नी चेय्य वेण्णट्य लापिण्णट्यम् ।

“12-आवतु नालीलावतु, 11-आवतु नालीलावतु” एन्ऱै पोतायनर्मुतलियवर्कर्णालं 11-आवतु नालीलं लपिण्णमकर्णम् वित्तिक्कप्पेत्तत्त्वं एतुवेवा अतु, 11-आवतु नालीलं तर्चमं वन्त्तालं आ॒उ॒त्ता॒कं॒नीयानं कर्त्तत्तावेप्पं पर्नैर्नियतु । अवंवितमेमे, लूर्णीतर्सः- मंगुत तिनत्तिल इग्रुन्तु 10-आवतु नालीलं मुतलिलं एन्त-

அமாவாஸ்யை வந்தாலும் அதில் ஆஹிதாக்னியான புத்ரன் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். வ்ருத்தவளிஷ்டரும்:- “ம்ருத தினத்தில் இருந்து பத்தாவது நாளில் முதல் அமாவாஸ்யை வந்தால் அதில் ஆஹிதாக்னியான புத்ரன் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும்” என்றார். இதில் மூலத்தில் உள்ள ‘ம்ருதாஹாத்’ என்பதில் உள்ள 5-ஆவது விபக்தி மர்யாதார்த்தத்தில். அதாவது ம்ருத தினத்திற்கு மறுநாள் முதற் கொண்டு என்பது பொருள். “யாது பூர்வமமாவாஸ்யா, ப்ரதமாஸ்யா தமாவாஸ்யா என்று விசேஷண பலத்தால், 11-ஆவது தினத்தில் முதலாவது அமாவாஸ்யை வந்தால் ஸபிண்டநம், இரண்டாவது முதலியதாகில் ஸபிண்டநம் இல்லை” என்று சிலர் வ்யாக்யாநம் செய்தனர். மாதவீயம் முதலியதில் விசேஷம் சொல்லாததால், ருஷிவாக்யத்தில் லாகவத்தை ஆதரிப்பதில்லை யாதலால், அந்த வ்யாக்யானம் உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது.

அத ஏவ காணிமினி: — ஸபிண்டிகரண் குர்யத் பூர்வங்காಗிமான் ஸுத: | பரதோ ஦வராத்ராசேத்குஹூஷ்டோபரிதர: இதி | ஦வராத்ராத் பரத: குஹஶ்தே - ஏகாடஶேதஹ்யமாவாஸ்யா சேதித்யர்஥: | இதர: - அனாதி: | ஏவ் ச ஏகாடஶேதஹ்யமாவாஸ்யாగமே மத்யாஹே ஆயமாசிகாடி, அபராஹே ஸபிண்டிகரணம், அபராஹே ஸாயாஹே வா பிண்டபிதுயஜா இதி விவேக: | ஸபிண்டிகரண் விநா பிண்டபிது-யஜாசிஞ்சேரேகாடஶாதின ஏவ ஸபிண்டன் குர்யத் | ததா ச ஸமுத்யந்தரே — ஸபிண்டன் விநா புத்ர: பிதுயஜா ந சாஶ்ரயேத் | ந பார்ண் நாம்யுடயங் குர்வங் லம்பதே ஫லம் இதி | ஗ாலவ: — ஸபிண்டிகரணாத் ப்ரேதே பைதூக் படமாஸ்தே | ஆஹிதாஹி: ஸிநிவால்யா பிதுயஜா: ப்ரவர்த்தே இதி |

கார்ஷ்டாஞ்ஜிநி:- “ஆஹிதாக்னியான புத்ரன் 10-ஆவது நாளுக்கு மேல் அமாவாஸ்யை நேர்ந்தால் = 11-ஆவது நாளில் அமாவாஸ்யை ஆனால் என்பது பொருள்,

सपिण्डिकरणं तत्तद्वचं चेष्यवुम् । अनाहृताकन्नीयाणि
पुत्रं वर्षान्ततत्त्विलं चेष्यवुम्'' ऎन्ऱुर् । इवंवितम्
इरुप्पत्तालं, 11- आवतु नालीलं अमावास्ये वन्त्तालं
मत्याहृत्तत्त्विलं आत्यमालिकम् मुतलियतुम्,
अपराह्नं तत्त्विलं सपिण्डिकरणमुम्, अपराह्नं तत्त्विल
लावतु लायाहृत्तत्त्विलावतु पिण्टपि त्रुयज्जनुमुम्
(चेष्यप्पते वेण्टुम्) ऎन्पतु वीलक्कम्.
सपिण्डिकरणम् चेष्याविष्टिलं पिण्टपि त्रुयज्जनुम्
लीत्तमाकाताकायालं, 11- आवतु तिन्तत्त्विलेये
सपिण्डिकरणं तत्तद्वचं चेष्य वेण्टुम्. आकायालेये,
हारं संमंगुतीयिलः- 'सपिण्टनम् चेष्यामलं पुत्रं पिण्ट
पि त्रु यज्जनुत्तत्तद्वचं चेष्यकं कूटातु । पारवणम्,
अप्युत्तयम् इवेकलायुम् चेष्यकं कूटातु । चेष्यतवन्
अतनं पलैन अटेवतिलैल' ऎन्ऱुलं लतु । कालवारः-
सपिण्डिकरणं तत्तालं, पिता पि त्रुत्वत्तत्त अटेन्त
पिऱकु, तर्सत्तिलं आहृताकन्नी पिण्टपि त्रु यज्जनुत्तत्तद्वचं
चेष्य वेण्टुम्.

जाबालिः — सपिण्डीकरणं कुर्यात् पूर्वं दर्शेऽग्निमान् सुतः ।
परतो दशरात्रस्य पूर्णेऽब्दे तु तथा परः । नासपिण्डयग्निमान् विप्रः
पितृयज्ञं समाचरेत् । पापी स्यादसपिण्डी तु पितृहा चोपजायते
इति । व्यासोऽपि — अतीते दशरात्रे तु पूर्वोऽमा साग्निकस्य तु ।
तत्रैव सह पिण्डत्वं कृत्वा पार्वणमाचरेत् इति । पार्वणं
पिण्डपितृयज्ञम् । एकादशदिने एकाग्निना सपिण्डीकरणं न
कर्तव्यम्, कचिद्विप्रक्षत्रिययोनैकोद्दिष्टस्य वासरे । सपिण्डीकरणं
कार्यमन्येषामिति रोमशः इति स्मरणात् । कचित् - कचिदपि,
अन्येषां - अनाहिताग्नीनामित्यर्थः । आपदि तु न दोषः -
एकादशदिनेऽप्येतान्येकोद्दिष्टानि षोडश । सपिण्डीकरणं चापि
कुर्यादापदि नान्यदा इति स्मरणात् । एवं च अनापदि एकाग्निना
द्वादशाहादिष्वेव सपिण्डीकरणं कार्यम्, आहिताग्निना एकादशदिने

दशागमे सति तत्रैव सपिण्डीकरणं कर्तव्यम्, आपदि तु तत्रासम्बन्धे
द्वादशाहादौ कार्यम्।

ஜாபாலி:- ஆஹிதாக்னியான புத்ரன், 11-ஆவது நாளில் தர்சமானால் அதில் ஸபின்மைகரணத்தைச் செய்யவும். அநாஹிதாக்னி வர்ஷம் பூர்ணமான பிறகு செய்யவும். ஆஹிதாக்னியான ப்ராம்ஹணன் ஸபின்டநம் செய்யாமல் பித்ருயஜ்ஞத்தைச் செய்யக் கூடாது. ஸபின்டநம் செய்யாமல் பித்ருயஜ்ஞத்தைச் செய்யபவன் பாபியாவான், பித்ருஹத்யை செய்தவனுடுமாவான். வ்யாஸரும்:- பத்து நாள் சென்றதும் முதலாகிய அமை ஆஹிதாக்னிக்கு. அதிலேயே ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்து பார்வணத்தைச் செய்யவும். பார்வணம் = பின்டபித்ருயஜ்ஞம். அநாஹிதாக்னி 11-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யக் கூடாது. 'ஏகோத்திஷ்ட தினத்தில் ப்ராம்ஹணனுக்கும் கஷ்டரியனுக்கும் ஸபின்மைகரணத்தை அநாஹிதாக்னிகள் ஒரு காலும் செய்யக் கூடாது என்றார் ரோமசர்' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ஆபத்விஷயத்தில் ஆனால் தோஷம் இல்லை. '11-ஆவது நாளிலும் இந்தப் பதினாறு மாஸிகங்களையும் ஸபின்மைகரணத்தையும் ஆபத் விஷயத்தில் செய்யலாம், ஆபத்காலமானால், மற்றக் காலத்தில் கூடாது' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். இவ்விதம் இருப்பதால் ஆபத்காலம் இல்லாத விஷயத்தில், அநாஹிதாக்னியானவன் 12-ஆவது நாள் முதலிய காலங்களிலேயே ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஆஹிதாக்னியானவன், 10-ஆவது நாளில் தர்சம் வந்தால் அதிலேயே ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஆபத்திலானால் தர்சத்தில் செய்ய முடியாவிடில் 12-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் செய்ய வேண்டும்.

तथा कर्मप्रदीपिकायाम् — अनन्तरममावास्या दशरात्रस्य
या भवेत् । सपिण्डीकरणं तस्यां कुयदिवाग्निमान् सुतः । अभावे

द्वादशाहादौ सपिण्डीकरणं स्मृतम् इति । दर्शनागमे तु साग्रिद्वादशोऽहि सपिण्डीकरणं कुर्यात् । तदुक्तं भविष्यत्पुराणे—यजमानोऽग्निमान् राजन् प्रेतश्चानग्निमान् भवेत् । द्वादशाहे भवेत् कार्यं सपिण्डीकरणं सुतैः इति । गोभिलः — साग्रिकस्तु यदा कर्ता प्रेतश्चानग्निमान् भवेत् । द्वादशाहे तदा कार्यं सपिण्डीकरणं सुतैः इति । पितुरनग्निकत्वेऽपि पुत्रस्याग्निमत्त्वं पितुवैधुयादिनाऽग्न्याधानासंभवे वेदितव्यम्, तच्च यजमान प्रकरणे निरूपितम् । प्रेतश्चाप्यग्निमान् भवेत् इति कैश्चित् पठितम्, तत् माधवीयादिविरोधादुपेक्ष्यम् । तथा हि, कर्तुः साग्रिकत्वे वचनद्वयमिदमुदाहृत्य उभयोः साग्रित्वे वचनान्तरमुदाहृतम्, तच्च वक्ष्यते । कात्यायनः — एकादशाहं निर्वर्त्य पूर्वं दशश्चिथाविधि । प्रकुर्बीताग्निमान् विप्रो मातापित्रोः सपिण्डनम् इति । पैठीनसिः — सपिण्डीकरणं पुत्रः पितुः कुर्बीत योऽग्निमान् । अनग्रेस्तु विजनीयात् एकोद्दिष्टात्परेऽहनि इति । प्रेतस्य साग्रिकत्वे कर्तुरनग्नित्वे तृतीये पक्षे सपिण्डीकरणं कार्यम् । तदाह सुमन्तुः — प्रेतश्चेदाहिताग्निः स्यात् कर्ताऽनग्निर्यदा भवेत् । सपिण्डीकरणं तस्य कुर्यात्पक्षे तृतीयके इति । अत्र विषये द्वादशाहेऽत्रिविहितं भविष्यत्पुरणे — अनग्निस्तु यदा वीर भवेत्कुर्यात्तदा गृही । प्रेतश्चेदग्निमांस्तत्र द्वादशाहे सपिण्डनमिति । उभयोः साग्रिकत्वे द्वादशाहे सपिण्डी कार्या । तदुक्तं विज्ञानेश्वरीये— साग्रिकस्तु यदा कर्ता प्रेतश्चाप्यग्निमान् भवेत् । द्वादशाहे तदा कार्यं सपिण्डीकरणं पितुः इति ।

कार्मप्तर्तीपिकेकायिलः- 11-ஆவது நாளில் தர்சம் வந்தால் அதில் ஆஹிதாக்னியான புத்ரன் ஸபிண்ணகரணத்தை அவச்யம் செய்ய வேண்டும். முடியாவிடில் 12-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் செய்ய

வேண்டும். தர்சம் வராவிடில் ஆஹிதாக்னி 12-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும் அவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது, பவிஷ்யத்புராணத்தில்:- ‘யஜமாநன் ஆஹிதாக்னியாயும், இறந்தவன் அநாஹிதாக்னியாயும் இருந்தால், 12-ஆவது நாளில் புத்ரர்கள் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும்’ என்று. கோபிலர்:- கர்த்தா ஆஹிதாக்னியாயும், இறந்தவன் அநாஹிதாக்னியாயும் இருந்தால், அப்பொழுது 12-ஆவது நாளில் புத்ரர்கள் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். பிதா அநாஹிதாக்னியாய் இருந்தாலும், புத்ரன் ஆஹிதாக்னியாய் இருக்கும் தன்மை, பிதாவுக்கு வைதுர்யம் (பத்னியில்லாத் தன்மை) முதலிய காரணம் இருப்பதால் ஸம்பவிக்கும் விஷயத்தில் என்றியவும். அந்த விஷயம் யஜமாந ப்ரகரணத்தில் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. ‘ப்ரேதச்சாப்யக்னிமான் பவேத்’ என்று சிலர் படித்தனர். அது, மாதவீயாதிக்ரந்த விருத்தமாய் இருப்பதால் உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது. அதாவது, கர்த்தா ஆஹிதாக்னியாய் இருக்கும் விஷயத்தில் இந்த இரண்டு வசநத்தையும் சொல்லி, கர்த்தா ம்ருதன் இருவரும் ஆஹிதாக்னிகளாய் இருக்கும் பக்ஷத்தில் வேறு வசநம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. அது மேலே சொல்லப்படப் போகிறது. காத்யாயனர்:- ஆஹிதாக்னியாகிய ப்ராம்ஹணன் 11-ஆவது நாள் க்ரியையை முடித்து, தர்சத்திற்கு முன் மாதா பிதாக்கஞக்கு ஸாபிண்ட்யத்தை விதிப்படி செய்ய வேண்டும். பைஷநஸி:- ஆஹிதாக்னியான புத்ரன் பிதாவுக்கு 11-ஆவது நாளில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். அநாஹிதாக்னியானவன் ஏகோத்திஷ்டத்திற்கு மறுநாளில் செய்ய வேண்டும். இறந்தவன் ஆஹிதாக்னியாயும், கர்த்தா அநாஹிதாக்னியாயும் ஆனால், 3-ஆவது பக்ஷத்தில் ஸபிண்ணகரணம் செய்யப்பட வேண்டும். அதைச் சொல்லுகிறார், ஸமந்து:- ‘ப்ரேதன் ஆஹிதாக்னியாயும், கர்த்தா அநாஹிதாக்னியாயும் இருந்தால், 3-ஆவது

पक्षुत्तिलं अवनुक्कु लपिण्णमकरणम् चेय्यप्पत्
वेण्णुम्' ऎन्ऱु. इवंविषयत्तिलं 12-आवतु नालीलुम्
वित्तिकप्पत्तुलातु पविष्यत्पुराणत्तिलः- कर्त्तता
अनाह्विताक्कनीयायुम्, पीता आह्विताक्कनीयायुम्
आहुन्तालं अप्पेपामुतु 12-आवतु नालील
लपिण्णन्तत्तेत्तस्च चेय्यवुम्. मरुतन्त, कर्त्तता आहुवरुम्
आह्विताक्कनीकलाकील, 12-आवतु नालील
लोपिण्णट्यत्तेत्तस्च चेय्य वेण्णुम्. अतु
सेवलप्पत्तुलातु. विज्ञानेचवर्यत्तिलः- कर्त्तता
आह्विताक्कनी, मरुतन्तुम् आह्विताक्कनी एन्ऱ पक्षुत्तिलं,
12-आवतु नालील पीतावुक्कु लपिण्णमकरणत्तेत्तस्च
चेय्यवुम्.

उभयोरनग्निकत्वे द्वादशाहादयः काला विकल्प्यन्ते । तदुक्तं
भविष्यत्पुराणे — सपिण्डीकरणं कुर्याद्यजमानस्त्वनग्निमान् ।
अनाहिताग्ने: प्रेतस्य पूर्णेऽब्दे भरतर्षभ । द्वादशेऽहनि षष्ठे वा त्रिपक्षे
वा त्रिमासि वा। एकादशेऽपि वा मासि मङ्गलं स्यादुपस्थितम् इति ।
कालादर्शे — साग्रौ कर्त्युभावाद्यौ प्रेते साग्रावनन्तरः । अनग्नेस्तु
द्वितीयाद्याः सप्तकाला मुनीरिताः इति । कर्त्तरि - पुत्रे, साग्रौ -
आहिताग्नौ सति, एकादशे द्वादशेऽहिति त्रिपक्षे वा त्रिमासके ।
एकादशे द्वादशेऽहिति त्रिपक्षे वा त्रिमासके । षष्ठे वैकादशे वाऽब्दे
सम्पूर्णे वा शुभागमे इत्युक्तेष्वष्टु कालेषु मध्ये आद्यौ - एकादशाहो
द्वादशाहश्चेति द्वौ कालौ स्याताम् । एकादाहे दर्शागमे
सत्येकादशाहः, अन्यथा द्वादशाहः अनग्नौ कर्त्तरि आहिताग्नौ प्रेते
इति अनन्तरः कालत्रिपक्षः, अनाहिताग्नेस्तु द्वितीयाद्याः
द्वादशाहाद्याः सप्त काला इत्यर्थः । सप्त काला इति
पूर्वोक्तत्रयोदशाहादिकालाना मप्युलक्षणम् । साग्रिः कर्ता चेत्
द्वादशाह एव सापिण्डं कुर्यान्नान्यत्र । अनग्रिः कर्ता चेत् साग्रौ प्रेते
त्रिपक्ष द्वादशाहयोरेव, नान्यत्र । अनग्नौ तु प्रेते अनग्रिः कर्ता

஛ாதஶாஹாடிஷூக்தேஷு காலேஷேவ நாந்யநேதி கர்த்துநியமோட்மிப்ரேதः ।
஛ாதஶாஹே யதி குர்யாத் ஸாஸ்திரேவேத்யேவं வி஘ः காலனியமோ நாமிப்ரேதः ।
஛ாதஶாஹாடிகாலேஷு ஸபிண்டிகரணேஷ்வரமே । ஸாத்யனஷித்வவி஘யः
கர்த்துநே நியாமகா இதி ஸ்மரணாத् । ஏவं ஸத்யபி நியமே ஦ைவாத्
஛ாதஶாஹே திரிபக்ஷே வா ஸபிண்டங்கே அகுதே சுதி ந தஸ்ய லோபः, கிஞ்சு
தடுத்ரகாலே கர்த்யம् ।

கர்த்தாவும், பிதாவும் அநாஹிதாக்னிகளாகில்,
12-ஆவது நாள் முதலிய காலங்கள் விகல்பமாய்ச்
சொல்லப்படுகின்றன. அது சொல்லப்பட்டுள்ளது.
பவிஷ்யத்புராணத்தில்:- அநாஹிதாக்னியான கர்த்தா
அநாஹிதாக்னியான பிதாவுக்கு வர்ஷாந்தத்தில்
ஸாபின்னட்டயத்தைச் செய்யவும். அல்லது 12-ஆவது நாளில்,
6-ஆவது மாஸத்தில், 3-ஆவது பக்ஷத்தில் 3-ஆவது
மாஸத்தில், 11-ஆவது மாஸத்தில் சுபகார்யம்
ஸமீபித்துள்ள காலத்திலாவது செய்யவும்.
காலாதர்சத்தில்:- “ஸாக்னெள கர்த்தர்யுபாவாத்யா +
முநீரிதः” என்றுள்ளது. இதன் பொருள்:- ‘கர்த்தரி =
புத்ரஞ்ஜனவன், ஸாக்னெள = ஆஹிதாக்னியாய் இருக்கும்
பக்ஷத்தில், ‘ஏகாதசே த்வாதசேஹ்னி த்ரிபகேஷவா
த்ரிமாஸகே. ஷஷ்டேவைகாதசேவாப்தே ஸம்பூர்ணேவா
சுபாகமே’ என்று முன்பு சொல்லப் பட்டுள்ள எட்டுக்
காலங்களுள், ஆத்யெள முந்தியுள்ள 11-ஆவது நாள்,
12-ஆவது நாள் என்ற 2-காலங்கள் விதிக்கப்படுகின்றன.
11-ஆவது நாளில் தர்சம் நேர்ந்தால் 11-ஆவது நாள்,
இல்லாவிடில் 12-ஆவது நாள் என்று. கர்த்தா
அநாஹிதாக்னியாய் இருந்து, ம்ருதன் ஆஹிதாக்னி ஆகில்,
அநந்தரா:-அடுத்த த்ரிபக்ஷம் காலம். அநக்னேஸ்து =
அநாஹிதாக்னிக்கோ வெனில், த்விதீயாத்யா: = 12-ஆவது
நாள் முதலிய, ஸப்தகாலா: = ஏழு காலங்கள், முநீரிதா: =
ருஷிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளன” என்பது பொருள்.
இவ்விடத்தில், ஏழு காலங்கள் என்றது முன் சொல்லிய

13-ஆவது நாள் முதலிய காலங்களையும் குறிக்கின்றது.

ஆஹிதாக்னி கர்த்தாவானால் 12-ஆவது நாளிலேயே ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். மற்றக் காலத்தில் கூடாது. அநாஹிதாக்னி கர்த்தாவானால் இறந்தவன் ஆஹிதாக்னியானால், த்ரிபக்ஷம், அல்லது 12-ஆவது நாளிலேயே செய்யவும். மற்றக் காலத்தில் கூடாது. அநாஹிதாக்னி இறந்து கர்த்தா அநாஹிதாக்னியாய் இருந்தால், முன் சொல்லப்பட்டுள்ள 12-ஆவது நாள் முதலிய காலங்களில் தான் செய்ய வேண்டும், மற்றக் காலங்களில் கூடாது, என்று கர்த்தாவின் விஷயத்தில் நியமம் அபிப்ராயப்பட்டு உள்ளது. ‘12-ஆவது நாளில் செய்வதானால் ஆஹிதாக்னி தான் செய்யலாம்’ என்பது போன்ற கால நியமம் அபிப்ராய விஷயமல்ல. ‘12-ஆவது நாள் முதலிய காலங்களில், ஆஹிதாக்னி அநாஹிதாக்னி என்ற விதிபேதங்கள் எல்லாம் கர்த்தாவுக்கே நியாமகங்கள்’ என்று ஸம்ருதி இருப்பதால்.

இவ்விதம் நியமம் இருந்தும், தைவ வசத்தால் 12-ஆவது நாளிலோ, த்ரிபகுத்திலோ ஸாபின்ட்யம் செய்யப்படாவிடில் அதற்கு லோபம் என்பது இல்லை. ஆனால், அதற்கு மேல் உள்ள காலத்தில் செய்யப்பட வேண்டும். அது சொல்லப்பட்டுள்ளது.

तदुक्तं कालादर्शे — प्रमादादकृते तस्मिन् त्रिपक्षे द्वादशेऽहि
वा । उत्तरोत्तरकालेषु यथासम्भवमाचरेत् इति । साग्निना
साग्नेनग्नेवा द्वादशाहे सपिण्डीकरणे प्रमादादकृते सति, अनग्निना
साग्नेखिपक्षे तस्मिन्ब्रकृते सति, उत्तरोत्तरकालेषु यत्र सम्भवति तत्र
कुर्यादित्यर्थः । प्रचेताः — एकादशेऽहि कुर्वति साग्निकस्तु
सपिण्डनम् । द्वादशाहादिकालेषु साग्निकोऽनग्निकोऽपि वा इति ।
गोभिलः — द्वादशाहादिकालेषु प्रमादादननुष्ठितम् ।
सपिण्डीकरणं कुर्यात् कालेषूत्तरभाषिषु इति । पितृमेधसारे —
साग्निः कर्ता द्वादशाह एव सापिण्डयं कुर्यात् तद्विना

பிண்பிதூயங்காசிஷ்சே: | புத்ரநஸி: பிதாசேது ஸாஸ்திரிபக்ஷ ஏவ
சாபிண்஡ஞ் குர்யாத், கயோஷ்ர்஦ாஶாஹாடை ப்ரமாடாக்குத் காலோத்ரமாவிஷு
சாபிண்஡ஞ் குர்யாத் இதி | தயோ: - ஆஹிதாஸ்யநாஹிதாஸ்யாரித்யர்஥: |

காலாதர்சத்தில்:- ஆஹிதாக்னியானவன்,
ஆஹிதாக்னி அல்லது அநாஹிதாக்னியான பிதாவுக்கு,
12-ஆவது நாளில் ஸபிண்டகரணத்தைச் செய்ய
முடியாவிடில், அநாஹிதாக்னியானவன் ஆஹிதாக்னியான
பிதாவுக்கு த்ரிபக்ஷத்தில் செய்ய முடியாவிடில், அதற்கு
மேல் மேலுள்ள காலங்களுள் எதில் செய்ய முடியுமோ
அதில் செய்ய வேண்டும் (என்பது பொருள்.)

ப்ரசேதல்ஸ்:- ஆஹிதாக்னியானால், 11-ஆவது நாளில்
ஸாபிண்டயத்தைச் செய்யவும். ஆஹிதாக்னி ஆனாலும்,
அநாஹித அக்னியானாலும் 12-ஆவது நாள் முதலிய
காலங்களில் செய்யலாம்.

கோபிலர்:- 12-ஆவது நாள் முதலிய காலங்களில்
கவனமின்மையால் அனுஷ்டிக்கப்படாத ஸபிண்ட
கரணத்தை மேல் வரும் காலங்களில் அனுஷ்டிக்கவும்.

பித்ருமேதஸாரத்தில்:- ஆஹிதாக்னியான கர்த்தா,
12-ஆவது நாளிலேயே ஸாபிண்டயத்தைச் செய்ய
வேண்டும், செய்யாவிடில் பிண்ட பித்ருயஜ்ஞஞம்
ஸித்திக்காதாகையால். புத்ரன் அநாஹிதாக்னியாழும்
இறந்த பிதா ஆஹிதாக்னியுமாகில், த்ரிபக்ஷத்திலேயே
ஸாபிண்டயத்தைச் செய்யவும். அவ்விருவர்க்கும்
12-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் செய்யப்படாவிடில்,
மேலுள்ள காலங்களில் ஸபிண்டயத்தைச் செய்யவும்.
தயோ: = ஆஹிதாக்னிக்கும், அநாஹிதாக்னிக்கும் என்று
பொருள்.

சாபிண்஡ாகரणே முख்யகர்து: ஶுभாநாதிகார: |

**ஸபிண்டிகரணகர்து: ஶுभாగமே ஸபிண்டிகரண் குத்வை ஶுமகர்ம
கர்த்தும் | தடாஹ ஶாட்சாயனி: — ப்ரேதஶாஜானி ஶிஷானி**

सपिण्डीकरणं तथा । अपकृष्ट्यापि कुर्वीत कर्ता नान्दीमुखे द्विजः ॥
 सपिण्डीकरणश्राद्धमकृत्वा शुभकर्मकृत् । ध्रुवं प्राप्नोति नरकं
 सपिण्डानां मृतौ क्रमात् इति । स्मृत्यन्तरे — सपिण्डीकरणात् पूर्वं
 शोभनं न विधीयते । यदि चेत्तत् कृतं कर्म कर्तनाशाय कल्पते इति ।
 चतुर्विंशतिमतेऽपि — भ्राता वा भ्रातुपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव
 वा । सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यादभ्युदयं ततः इति । गौतमोऽपि —
 अग्रजो वाऽनुजो वाऽपि सपिण्डः सोदकोऽपि वा । सपिण्डीकरणं
 कुर्यात् पुत्रो वा वृद्धच्युपस्थितौ । सपिण्डीकरणं हित्वा
 वृद्धिश्राद्धमुपक्रमेत् । अयातयामं मरणं भवेत्तस्य न संशयः इति ।
 मुख्यकर्तुरेवायं दोषो नेतरेषाम्, कुर्यादेव शुभं मुख्यकर्तुश्च सन्निधौ
 इति स्मरणात् ।

लापिण्णट्यत्तेत्तच चेय्याविष्टिलं मुक्य
 कर्त्तत्तावुक्तुकुचं सपकार्याङ्कलीलं अतीकारयिलैले.

लापिण्णउकरणमं चेय्य वेण्णट्यवल्लुक्कुचं
 सपकार्यमं नेरन्त्तालं लापिण्णउकरणमं चेय्यत पिऱ्को
 अवनं सपकार्यत्तेत्तच चेय्य वेण्णुम्. अतेत्तचं
 चेऊलुकिरुर्, चाट्यायनी:- कर्त्तत्तावाक्य
 प्रराम्भूरणन्, नान्त्तिक्करात्तमं प्रराप्तमाण्णल, मेत्तियून्ना
 प्परेत चरात्तत्तन्कलौयुम्, लापिण्णउकरणत्तेत्तयुम्
 अपकर्वित्तावतु चेय्य वेण्णुम्. लापिण्णटर्कलीनं
 मंगुत्तियिलं कर्मप्पटि लापिण्णउकरणं चरात्तत्तेत्तचं
 चेय्यामलं सपकर्मत्तेत्तचं चेय्यपवनं निच्चयमायं
 नरकत्तेत्त अटेवाण्. औरं लंगुरुत्तियिलः- लापिण्णउ
 करणत्तिरुक्तु मुनं सपकर्ममं वित्तिक्कप्पटवीलैले.
 चेय्यत्ताल, अन्त्तकं कर्ममं कर्त्तत्तावुक्तु नासत्तेत्तचं
 चेय्यवत्तरंकाकुम्.

कत्तुर्विम्चत्तिमत्तत्तिलुमः:- प्ररात्ता, प्ररात्तरुपत्तरणं,
 लापिण्णटन्, चिष्यनं याराकिलुम् लापिण्णउकरणमं
 चेय्यतु, पिऱ्कु नान्त्तियेत्तचं चेय्य वेण्णुम्.

கௌதமரும்:- தமயன், தம்பி, ஸபின்டன், ஸமாநோதகன், புத்ரன் யாராயினும், நாந்தீ ப்ராப்தமானால், ஸபின்டகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஸபின்டகரணத்தைச் செய்யாமல் வ்ருத்தி ச்ராத்தத்தைச் செய்தால், அவனுக்குப் புதிதாகிய பந்து மரணம் நேரிடும். முக்ய கர்த்தாவுக்கே இந்தத் தோஷம், மற்றவர்க்கில்லை. முக்ய கர்த்தா ஸந்திலூதனைகில் சுபகர்மத்தைச் செய்யலாம், என்று ஸ்மருதி இருப்பதால்.

ஸபிண்டாதிகாரினிருப்பணம்।

ஸபிண்டிகரண அधிகாரி நிருபிதः ஸ்மृத்யந்தரே — ஔர்ஸோ ஦த்கோ வாடபி ஸபிண்டிகரண் சரேத் । பரித்யஜயை ஜிவந்த புறு நாந்யஸ்து காரயேத் । அथ ஶிஷ்யங்காரிவந்஧ுமூத்யபுரோஹிதைः । காரயித்வா ஦ஶாஹாந்த ஸபிண்டிகரண் விநா । ஸபிண்டிகரணஶாஞ்புறைः கார்ய ப்ரயத்தः இதி । ப்ரஜாபதி: — ஦ாஹாயேகாதஶாஹாந்த மௌணபுறः ஸமாசரேத் । பித்ரோ: ஸபிண்டிகரண் பிரகுர்யாடைரஸः ஸுதः । ஭்ராதா வா ஭்ராதபுத்ரோ வா ஸபிண்டः ஶிஷ்ய ஏவ வா । ஸபிண்டிகரண் குர்யாத் புறஹீனஸ்ய ஸர்வா । அத்வா ப்ரேதமூதஸ்ய பத்ரி குர்யாடமந்த்ரகம் । க்ரத்விஜா காரயே஘ா ஸபிண்டிகரண் தथா । க்ரத்வி஗ாடிர்யா குர்யாஞ்சோம் ஶாஞ்ச கிரியா க்ரவித் । உபவித்யை குர்வீத கர்து: ஸ்யாடபஸவ்யகம் இதி । ஆடிஶா஬்஦ாது அஸ்ராதாயோ ஗ृஹாந்தே ।

ஸாபின்ட்யத்தில் அதிகாரிகளின் நிருபணம்.

ஸாபின்ட்யத்தில் அதிகாரி சொல்லப்பட்டுள்ளான், ஒரு ஸ்மருதி யில்:- ஒளரஸபுத்ரன் அல்லது தத்தபுத்ரன் ஸபின்டகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். புத்ரன் ஜீவித்திருக்கும் பொழுது அவனைத் தவிர்த்து மற்றவன் செய்யக் கூடாது அல்லது (புத்ரன் ஸமீபத்தில் இல்லாவிடில்) சிஷ்யன், ப்ரம்ஹசாரீ, பந்து, ப்ருத்யன், புரோஹிதன் இவர்களுள் எவனைலாவது, 10-நாள் வரையில்

कंगुत्यत्तेत लपेण्मैकरणम् तवीर्ततुच चेय्वित्तु,
लपिण्मैकरणत्तेत एवंवितत्तिलावतु पुत्ररक्षाल
चेय्विक्कवुम्.

प्राज्ञापत्ति:- तवरनम् मुतल 11-श्ववतु नालं वरयिल,
केळाण धुत्रन्स चेय्यलाम्. माता पिताक्करुक्कु
लपिण्मैकरणत्तेत ओलरलपुत्रन्स चेय्य वेण्टुम्.
धुत्रन्स इल्लातवनुक्कु प्रराता अल्लतु प्ररात्तरुपुत्रन्स,
लपिण्टन्स, चिष्यन्स यारावतु चेय्यलाम् अल्लतु
मन्त्ररम् इल्लामल पत्नी चेय्यलाम् अल्लतु
रुत्तविक्किणुल चेय्विक्कलाम्. रुत्तविक्क मुतलियवन्स
हेहामम्, श्वरात्तम्, कर्मिये इवेवक्कौचं
चेय्ताल्लपवैत्तियाकवे चेय्य वेण्टुम्. कर्त्ततावुक्कु
प्ररात्तिणवैतम्. शुलत्तिलुलाला 'आति' पत्तताल
अल्लेकोत्तरन्स मुतलियवर्कल चेकाल्लप्पटुकिण्ऱनार.

विष्णुः — ज्येष्ठो वाऽप्यनुजो वापि सपिण्डः सोदकोऽपि
वा । यस्तु सन्निहितस्तस्य त्वधिकारः सपिण्डने इति । शङ्खश्च —
अपुत्रायाः पतिदीघात् सपुत्रायान् तु कचित् । पत्युः पिण्डं तथा
भार्या भर्त्तभार्ये परस्परम् इति । लोकाक्षिः — सर्वभावे स्वयं
पद्म्यः स्वभर्तृणामन्त्रकम् । सपिण्डीकरणं कुर्यस्ततः पार्वणमेव च
इति । पार्वणम् - दर्शमहालयादि । सर्वभावे स्वयं पद्म्यः
इत्येतदासुरादिविवाहोढाविषयम्, ब्राह्मादिविवाहोढा तु
पुत्रपौत्रभावे स्वयं कुर्यात् ।

वीर्ष्णुः— ज्येष्ठेष्टन्स, कनीष्टन्स, लपिण्टन्स,
समागेनेतकन्स इवर्करुल एवन्स लम्पत्तिल
इरुक्किण्ऱन्ऱेने अवनुक्कु लपिण्टन्सत्तिल अतिकारम्.

चक्करुम्:- धुत्रनील्लात पत्नीक्कुप्प भति चेय्य
वेण्टुम्. धुत्रन्स उलावगुक्कु ओरु कालुम् चेय्यक्क
कूटातु. अवंवितम् अपुत्रनेन पर्त्ततावुक्कुप्प पार्वय
पिण्टत्तेतक केकाटुक्क वेण्टुम्. पर्त्ततावुम्.

பார்யையும் ஒருவர்க்கொருவர் பிண்டத்தைக் கொடுக்க வேண்டும்.

வோகாக்ஷி:- ஒருவரும் இல்லாவிடில் பத்னிகள் தமது பர்த்தாக்கனுக்குத் தானே மந்த்ரம் இல்லாமல் ஸபின்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். பிறகு தர்சம், மஹாளயம் முதலியதையும் செய்ய வேண்டும். 'ஒருவரும் இல்லாவிடில் பத்னிகள் தாமாகவே செய்யவும்' என்றவிது ஆஸூரவிவாஹம் முதலியதால் மணக்கப்பட்டவர்களைப் பற்றியது. ப்ராம்ஹம் முதலிய விவாஹத்தால் மணக்கப்பட்டவளாயின் புத்ரன் பெளதரன் இல்லாவிடின் தானே செய்யவேண்டும்.

தथா மா஧வீயே — புத்ர: குர்யத் பிது: ஶாஞ் பத்ரி து தத்ஸனி஧ௌ | ஧நஹர்யத் ஦ௌஹித்ஸ்ததோ ஭்ராதாத் தத்ஸுத: இதி | ஶஸ்த்ரோऽபி — பிது: புத்ரே கர்த்தும் பௌத்ரேணாपி ஸபிண்ணனம् | தத்மாவே து பத்ரி ஸ்யாத் பத்யभாவே து ஸோதர: இதி | பத்யभாவே து ஸோதர இத்யங் கிம: பத்யா ஦ாயஹர்த்வே இஷ்வு: | அபுதா ஶயந் ஭ர்து: பாலயந்தி கிரதே ஸ்஥ிதா | பத்யேவ ஦த்யாத்ததிப்பண் குத்ஸமங்க லமேத ச இதி வृத்தமனு- ஸ்மரணாத् | அந்யதா யோ ஦ாயஹர: ஸ ஏவ குர்யத் |

அவ்விதம், மாதவீயத்தில்:- பிதாவுக்கு ஸாபின்ட்யத்தைப் புத்ரன் செய்ய வேண்டும். அவன் ஸமீபத்தில் இல்லாவிடில் பத்நீ செய்ய வேண்டும். பிறகு தனத்தை அடையும் தெளவுறித்ரன், பிறகு ப்ராதா, ப்ராத்ருபுத்ரன் செய்ய வேண்டும். சங்கரும்:- பிதாவுக்குப் புத்ரன் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும். அவனில்லாவிடில் பெளதரன், அவனில்லாவிடில் பத்நீ, அவனில்லாவிடில் ஸலோதரன் செய்யவும். இவ்விதம் உள்ள க்ரமம் பத்நீ அர்த்தத்தை அடையும் விஷயத்தில் என்று அறியவும். 'பாதி வரத்யத்துடன்கூடிய பத்நீ புத்ரன் இல்லாதவளாகில் அவளே பர்த்தாவுக்கு ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். பர்த்தாவின் தநம் முழுவதையும் அவளே

अटेय वेण्णुम्' ऎन्नरु वंगुत्तमनु वचनम्
श्रिरुप्पत्ताल्, अव्वितम् श्रिल्लावीटिल् एवनं तनुत्तते
अटेपवेणु अवेणे चेष्य वेण्णुम्.

अत एवापस्तम्बः — यश्चार्थहरः स पिण्डदायी इति ।
सर्वमेतदधस्तान्निरूपितम् । विवाहाद्यनन्तरम् - विवाहोपनयादूर्ध्वं
वर्ष वर्षार्धमेव वा । न कुर्यात् पिण्डनिर्वापं न कुर्यात् करकाणि च
इति पिण्डनिर्वापनिषेधः सपिण्डीव्यतिरिक्त विषयः, मौज्जीबन्धा
द्विवाहाच्च वर्ष वर्षार्धमेव वा । पिण्डान् सपिण्डा नो दद्युः
सपिण्डीकरणाद्वै इति काण्डाजिनिस्मरणात् । कालादर्शेऽपि —
मौज्जीबन्धा द्वत्सरार्धं वत्सरं पाणिपीडनात् । पिण्डनिर्वाप-
करणविहीनं श्राव्यमाचरेत् । नैमित्तिकमहालय गयाप्रत्याभिद्वाद्वै
इति । नैमित्तिकं - सपिण्डीकरणम् ।

आकेयालेये, आपस्तम्परः- ‘एवं तनुल्लासीयो अवेणि प्रिण्टत्ततेतकं केकाटुक्कवेण्णुम्’
एन्नरुर्. श्रिविष्यम् एल्लाम् क्षेमे चेाल्लप्पत्तु
उल्लासा. विवाहम् मुतवियतेत्तचं चेष्यत प्रिरु
'विवाहम्, उपनयनम् श्रिवेकलौचं चेष्यत प्रिरु, वर्षम्
अल्लतु 6-मातत्तिरुक्तूं प्रिण्टत्ततेत्तचं चेष्यकं कूटातु,
सेवात्तकुम्पन्नकलौयुम् चेष्यकं कूटातु’ एन्नरु निषेद्धम्
सापीप्रिण्टयम् तवीर मर्त्ततेत्तप्पं पर्त्तियतु. ‘उपनयनम्,
विवाहम् श्रिवेकलौचं चेष्यत प्रिरु, ओरु वर्षम् अल्लतु
6-मातम् वरेयील् सपिण्टत्तरकूं प्रिण्टत्तानम् चेष्यकं
कूटातु, सपिण्टमकरणम् तवीरत्ततु’ एन्नरु कार्ष्णेयीनी
संमरुति श्रिरुप्पत्ताल्. कालात्तर्सत्तत्तिलुम्:-
उपनयनत्तिरुक्तुप्पं प्रिरु 6-मातम् वरेयीलुम्,
विवाहत्तिरुक्तुप्पं प्रिरु ओरु वर्षम् वरेयीलुम्
प्रिण्टत्तानम् श्रिल्लामल् चरात्तत्ततेत्तचं चेष्यवम्.
नेमित्तिकम्, (सपिण्टमकरणम्) महालयम्,
कयाचरात्ततम्, प्रत्याप्तिकः चरात्ततम् श्रिवेकलौत्त
तवीरत्ततु.

ஸ்மृத்யந்தரே ச — மஹாலயே ஗யாஶ்ராஷ்வ மாதாபித்ரோமூதேऽஹனி । ஛ாடஶாஹேऽபி குர்வித பிண்டனிவரிபிண் ஸுதः இதி । யது ஸ்மृத்யந்தரம् — அபுत்ரஸ்ய பரேதஸ்ய நैவ குர்யத் ஸபிண்டனம் । ஆஶௌचமுடக் பிண்டமேகோடுடிஷ்டங் ந பார்வணம் இதி, யदபி வசனாந்தரம் — அபுத்ரா யே மृதா: கேचித் புருஷா வா ஖ியோऽபி வா । தேஷா் ஸபிண்டனா- மாவாடேகோஹிஷ்டங் ந பார்வணம் இதி, தத்புத்ராத்பிரங்ஸாபரமிதி காலாடஞ்சமா஧வியாடை ச்யால்யாதம் । தथா ச பூர்வீக்தஶஸ்தாடி வசனாந்யுபபநானி ஭வந்தி । பைதீன்சிரபி — அபுத்ராயா் மृதாயா் து பதிஃ குர்யத் ஸபிண்டனம் இதி । ஸுமந்துரபி — அபுத்ரே ஸ்திரதே கர்த்தா ந ஭வேத் ஶாஷ்வகர்மணி । தத் பத்வபி குர்வித ஸாபிண்டஞ் பார்வண் ததா இதி ।

மற்றெருரு ஸ்ம்ருதியில்:- மஹாளையம், கயாச்சராத்தம், மாதா பிதாக்களின் ப்ரத்யாப்திகம், ஸபின்மைகரணம் இவைகளில் புத்ரன் பிண்டதானத்தைச் செய்யலாம். ஆனால் மற்றெருரு ஸ்ம்ருதியில்:- ‘அபுத்ரனைய் இறந்தவனுக்கு ஸாபின்ட்யம், ஆசெளாசம், உதகதானம், பிண்டதானம், ஏகோத்திஷ்டம், பார்வணம் ஒன்றையும் செய்யக் கூடாது’ என்ற வசனமும், மற்றெருரு வசனம் ‘புத்ரன் இல்லாமல் இறந்தவர்கள் புருஷர்கள் ஆயினும், ஸ்த்ரீகள் ஆயினும் அவர்களுக்கு ஸாபின்ட்யம் இல்லாததால் ஏகோத்திஷ்டமும் இல்லை, பார்வணமும் இல்லை’ என்றும் உள்ளதே எனில், அது புத்ரோத்பாதனத்தை ப்ரஸம்மலை செயவதில் தாத்பர்யம் உள்ளது என்று காலாதர்சம், மாதவீயம் முதலியதில் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. அவ்விதம் சொல்வதாலேயே முன் சொல்லப்பட்ட சங்கர் முதலியவரின் வசனங்கள் பொருத்தம் உள்ளவைகள் ஆகின்றன. பைமநலியும்:- புத்ரன் இல்லாமல் ஸ்த்ரீ இறந்தால் பர்த்தா ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும்

एन्नरुर्. लामन्तुवुमः- अपुत्रगुणे धुरुषेण इरन्तालं
अवनुक्तु परात्तमं चेय्यवेण इल्लावीटिलं अवनतु
पत्नै लापिण्टयत्तेत्युमं परात्तत्तेत्युमं चेय्य
वेण्टुमं एन्नरुर्.

अपुत्रगृहस्थब्रह्मचारिणोः सापिण्डचम्।

तथा चापुत्रस्य गृहस्थस्य ब्रह्मचारिणश्च सापिण्डचमाह
यमः— अष्टमाद्द्वादशा दूर्ध्वं गृहस्थ ब्रह्मचारिणोः । सपिण्डीकरणं
कुर्यात् न प्रागिति यमोदितम् इति । अष्टमादिति अष्टमे वर्षे
ब्राह्मणमुपनयेत् इत्याश्वलायनेनोक्तत्वात् ततः पूर्वं मुपनयना-
भावेन विवाहस्याभाव इत्यभिप्रायेणोक्तम् ॥ गर्भाष्टमेषु
ब्राह्मणमुपनयीत इत्यापस्तम्बादिवचनानुसारेण गर्भषष्टादौ कृतोप-
नयनस्य एकदेशाध्ययनानन्तरं कृतविवाहस्य अष्टमात् प्रागपि
सापिण्डचं कार्यम् । तथा स्मृत्यर्थसारे — वयोऽवस्था-
विशेषमनादत्य सर्वत्र पुरुषाणां स्त्रीणां च विवाहादूर्ध्वं सपिण्डीकरणं
कार्यमेव इति ।

पुत्रं इल्लात् करुण्हस्तनुक्तुम्,
प्रमूर्हसारीक्तुम् लापिण्टयम्.

अवंवीतमें पुत्रं इल्लात् करुण्हस्तनुक्तुम्,
प्रमूर्हसारीक्तुम् लापिण्टयत्तेत्तस्च चेऽल्लुकिरुर्.
यमानः— ‘४-वयतिन्त्रकु मेरूपट्ट करुण्हस्तनुक्तुम्,
१२-वयतिन्त्रकु मेरूपट्ट प्रमूर्हसारीक्तुम्
लपिण्णकरणत्तेत्तस्च चेय्यवुम्. अत्रैकु मुनि कृटातु
एन्नरु यमानेलं चेऽल्लेप्पट्टतु, एन्नरु, ४-आवतु वयतु
एन्नरु चेऽल्लियतु, ‘४-आवतु वर्षषत्तिलं
प्ररामूर्हणनुक्तु उपन्यनमं चेय्यवेण्टुम्, एन्नरु
आस्वलायनर् चेऽल्लियतु इरुप्पत्तालं, अत्रैकु मुनि
उपन्यनमं इल्लात्तालं विवाहम् इल्लै एन्नरु
अपिप्ररायत्तालं चेऽल्लेप्पट्टतु. ‘काप्पत्तिलं

கர்ப்பஸ்பதம் கர்ப்பாஷ்டம் வர்ஷங்களில் ப்ராம்ஹணனுக்கு உபநயநம் செய்யவும்' என்று ஆபஸ்தம்பர் முதலியவர்களின் வசனத்தை அனுஸரித்து, கர்ப்பஸ்பதம் முதலிய காலத்தில் உபநயனம் செய்யப்பட்டவனுக்கு, வேதத்தின் சில பாகத்தை அத்யயநம் செய்த பிறகு, விவாஹமும் ஆகி அவன் இறந்தால் அவனுக்கு 8-வயதிற்கு முன்பும் ஸாபிண்ட்யம் செய்யப்பட வேண்டும். ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தில்:- “வயஸ்ஸின் விசேஷத்தைக் கவனிக்காமல் புருஷர்களுக்கும், ஸ்தர்களுக்கும் விவாஹத்திற்குப் பிறகு ஸபிண்டகரணத்தை அவச்யம் செய்ய வேண்டும்” என்று உள்ளது.

ஸ்மृत்யந்தரே — ஊந்திவித்ஸராத்வார்஗ூடாயா: ஖னந் தத: ।
உத்஥ாப்ய ஸந்஦ஹேதஸ்யா: ஸாபிண்ட்யான்த் ஸமாச்சரேத् ।
஛ாதஶாந்தாத஧ஶோ஧்வீ கந்யகாயா: ஸபிண்டநம் । ஸ்வாம்யமாநாஞ்சி
நாஸ்த்யேவ நாராயணபலிங் சரேத் இதி । ஏவமஸ்பூர்ணாதாதஶ வஷாண்
஬்ரஹ்மாரிணா் நாராயணபலிரேவ கார்ய: । நிஷிஞ்சஸாபிண்ட்யானா்
தத்திவாநாத் ।

மற்றிருகு ஸ்ம்ருதி யில்:- ‘2-வயது பூர்ணம் ஆவதற்குள் விவாஹம் ஆகி இறந்தவளுக்குக் கனனஸம்ஸ்காரம் செய்யவும். பிறகு சவத்தை வெளியில் எடுத்துத் தலைனஸம்ஸ்காரம் செய்து, ஸாபிண்ட்யம் முடியும் வரையில் செய்யவும். 12-வயதிற்கு முன்பு ஆனாலும், பின்பு ஆனாலும் விவாஹம் ஆகாதவளுக்கு ஸாபிண்ட்யம் பதி இல்லாததால் நிச்சயமாகக் கிடையாது. நாராயணபலியைச் செய்யவும்’ என்று உள்ளது. இவ்விதம் 12-வயது பூர்ணமாகாத ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கு நாராயணபலியே செய்யப்பட வேண்டும். ஸாபிண்ட்யம் நிஷேஷதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாராயணபலி விதிக்கப் பட்டு இருப்பதால்.

स्मृतिमुक्ताफले - श्राद्धकाण्डः-पूर्वभागः
पतितादीनां सापिण्डचनिषेधः

तथा च वृद्धवसिष्ठः — सपिण्डीकरणं नैव मृतानां ब्रह्मचारिणाम् । क्लीबानां पतितानां च दुष्कृतीणां तथैव च । नैष्ठिकानां यतीनां च श्राद्धं नारायणार्पणम् । उपकुर्वणिकस्यैव सपिण्डीकरणं विदुः इति । नारायणार्पणं - नारायणबलिः । स्मृत्यन्तरे — अपूर्णद्वादशाब्दानां मृतानां ब्रह्मचारिणाम् । दाहादिषोडशान्तं तु निर्वर्त्यैव यथाविधि । द्वादशोऽहनि सम्प्राप्ते नैव कुर्यात् सपिण्डनम् । नारायणं समुद्दिश्य विप्रानष्टौ तु भोजयेत् । एकोद्दिष्ट विधानेन श्राद्धं वा कारयेद्विजः इति । अस्य प्रत्याब्दिकादिश्राद्धमपि नास्ति, नासपिण्डीकृते प्रेते पितृकार्यं प्रवर्तते इति स्मरणात् ।

पठीकृतं मृतलियवर्कंकु लोपिण्णत्य निषेद्धतम्

वंगुरुत्तवलीष्टिटारः- प्ररम्भल्लासारीकर्ण, नपुम्भर्सर्कर्ण, पठीतर्कर्ण, तुष्टिस्तर्कर्ण, नेनष्टिकर्ण, यतिकर्ण इवर्कर्णिनं मंगुरुत्तियिलं लपिण्णमकरणम् इल्लै. अवर्कर्णुकंकु नारायणपवित्रे वितिककप्पत्रुकिरतु. उपकुर्ववाणिनं एन्ऱ प्ररम्भल्लासारीकंके लपिण्णमकरणत्तते वितिकिण्णरनर. मर्नगुरुनु लंमंगुरुत्तियिलः- '12-वयतु पूर्णम् आकामलं इरन्त प्ररम्भल्लासारीकर्णुकंकुत तत्त्वनम् मृतल षेषाट्च सर्वात्तमं वररयिलं वितिप्पत्रि चेय्तु, 12-आवतु नावीलं लपिण्णमकरणत्तते चेय्यकं कुटातु. नारायणैन उत्तेषित्तु 8-प्रराम्भल्लासारकर्णोपं पूज्ञिप्पिक्कवुम् अल्लतु एकोत्तुष्ट वितियालं सर्वात्तत्तते चेय्यवुम्' एन्ऱु उल्लातु. इवनुकंकु प्रत्याप्तिकमं मृतलिय सर्वात्तमुम् इल्लै. 'लपिण्णमकरणम् आकावीटिलं मंगुरुत्तनुकंकु सर्वात्तमं वितिककप्पत्रुवतु इल्लै' एन्ऱु लंमंगुरुत्ति इरुप्पत्तालं.

व्युत्क्रममृतसापिण्डचित्तिः

अपुत्राया: पद्व्याः पतिः सापिण्डं कुर्यात् । अपुत्राया
मृतायास्तु पतिः कुर्यात् सपिण्डनम् इति स्मृतेः । ननु व्युत्क्रमेण
प्रमीतानां नैव कार्या सपिण्डता इति निषेधात् पद्व्याः कथं भर्ता
सपिण्डीकरणं कार्यमिति चेन्न, तस्य मातापितृभर्तृपत्नीव्यतिरिक्त
विषयत्वात् । तथा च स्कान्दे — अङ्गमेण मृतानां न
सपिण्डीकृतिरिष्यते । यदि माता यदि पिता भर्ता नैष विधिः स्मृतः
इति । यदि माता व्युत्क्रममृता, यदि पिता, यदि भर्ता वा
व्युत्क्रममृतः, तदा एष निषेधो न, किन्तु, विधिः स्मृतः -
सपिण्डीकरणविधिरेव मन्वादिभिः स्मृत इत्यर्थः ।

வித்திரமாய் மரித்தவரின் ஸாபின்டையம்.

புத்ரன் இல்லாத பத்நிக்குப் பர்த்தா
ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். 'புத்ரன் இல்லாமல்
மரித்தவருக்குப் பர்த்தா ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும்'
என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது. 'வ்யத்க்ரமமாய் மரித்தவர்களுக்கு
ஸாபின்ட்யம் கூடாது என்று நிஷேஷதம் இருப்பதால்,
பத்னிக்குப் பர்த்தா எப்படி ஸாபின்ட்யம் செய்யலாம் ?
எனில் அது இல்லை. அந்த நிஷேஷதம் மாதா, பிதா, பர்த்தா,
பத்நி இவர்களைத் தவிர்த்த மற்றவர்களைப் பற்றியதால்.
அவ்விதமே, ஸ்காந்தத்தில்:- அக்ரமமாய்
இறந்தவர்களுக்கு ஸபின்மகரணம் விதிக்கப்படவே
இல்லை. மாதா, பிதா, பர்த்தா இவர்களின் விஷயத்தில்
இந்த விதி இல்லை (அவர்களுக்குச் செய்யலாம்). மாதா
அக்ரமமாய் இறந்தாலும், பிதா அக்ரமமாய் இறந்தாலும்,
பர்த்தா அக்ரமமாய் இறந்தாலும் இந்த நிஷேஷதம் இல்லை.
ஆனால் விதி: ஸ்ம்ருதி: = ஸபின்மகரண விதியே மனு
முதவியவர்களால் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது என்பது
பொருள்.

तथा च मनुः — ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वोषामेव निर्बपेत् । पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः । पितुः स्वनाम सङ्कीर्त्य कीर्तयेत् प्रपितामहम् इति । जीवेच्चापि पितामह इत्यस्यापि पूर्वोषामेव निर्बपेदित्यन्वयः । कथं निर्बपेदित्याह पितुः स्वनाम सङ्कीर्त्येति । एवं च ध्रियमाणे पितरि जीवपितृकर्तृकवृद्धचादि-श्राद्धे पितुः सापिण्डच्चे च, पितुः पितृभ्यः पितुः पितामहेभ्यः पितुः प्रपितामहेभ्यः पितुः पितृपितामह प्रपितामहेभ्य इति वा, पितामहे ध्रियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहस्य पितामहेभ्यः पितामहस्य प्रपितामहेभ्यः पितामहस्य पितृपितामहप्रपितामहेभ्य इति वा कीर्तयेदित्यर्थः ।

मनुः— पिता ज्ञेवित्तु इरुन्ताल मुन्त्तियवर्कणुक्केपिण्टत्तत्तेतकं केऽगुक्कं वेण्णुम्. एवनुक्कुपं पिता इरन्तु पितामஹन् ज्ञेवित्तु इरुक्किण्णुगेनु अवन्पिताविन् नामत्तेतकं चेऽल्ली प्रपिता महनीन् नामत्तेतकं चेऽल्ल वेण्णुम्. 'ज्ञेवेच्चापि पितामहः' एन्पत्रंकुम 'पूर्वेवेष्णामेव नीर्ववेपेत्' एन्पतुटं चेरक्केक उण्णु. एप्पटिकं केऽगुप्पतु एन्णुलं चेऽल्लुकिरुर्, 'पितुः ल्लवनाम लंकिर्तय' एन्ऱु. इववितमं इरुप्पताल, पिता ज्ञेवित्तु इरुक्कुम बेामुतु, ज्ञेव पित्तरुक्कं चेय्यकं कृष्टय नान्ति मुतविय चरात्ततन्कणीलुम, पिताविन् लापिण्टयत्तिलुम, पितुः पित्तरुप्पः पितुः पिता महेप्यः, पितुः प्रपितामहेप्यः एन्णुवतु, पितुः पित्तरुपिता महप्रपितामहेप्यः एन्णुवतु, पितामहन् ज्ञेवित्तु इरुन्ताल, पितामहल्लय पित्तरुप्यः, पितामहल्लय पितामहेप्यः, पितामहल्लय प्रपितामहेप्यः एन्णुवतु, पितामहल्लय पित्तरु पितामहप्रपितामहेप्यः एन्णुवतु चेऽल्ल वेण्णुम एन्पतु बेारुल.

सुमन्तुश्च— त्रयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमश्नुते प्रेत इति धर्मो व्यवस्थितः इति । ब्राह्मेऽपि — मृते पितरि यस्याथ विद्यते च पितामहः । तेन देयाख्यः पिण्डः प्रपितामहपूर्वकाः । तेभ्यश्च पैतृकः पिण्डो नियोक्तव्यश्च पूर्ववत् इति । कात्यायनः — व्युत्क्रमाच्च मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ इति । असौ व्युत्क्रममृतो जीवद्वायां येभ्यो ददाति तेभ्य एव तत्सपिण्डीकरणे व्युत्क्रममृतपितृको ददातीत्यर्थः ।

लामन्तुवुमः— मृन्नू पिण्डानंकगुणैः उन्नूटनं सापिण्डयम् आग्नेयम्, इरन्तवनं पितृत्वत्वत्तेत अण्टकिरुनं उन्नू तर्ममं नीर्णयिक्कप्पट्टु इरुक्किऱतु. प्रराम्भृत्तिलुमः— उवनुउटय पिता मारीत्तिरुक्कुम बेपामुतु पितामलूनं ज्ञेवित्तु इरुक्किऩ्ऱु औ अवनं, प्रपितामलूनं मुतलाक ३-पिण्डानंकगुणैक केाटुक्कवुम. अन्तप्प मिण्डानंकगुणूटनं मुन्पेपोलं पितृ यिण्डात्ततेत्त चेरक्क वेण्णुम. कात्यायनारः— “अक्रममाय इरन्तवनं विषयत्तिल, अवनं ज्ञेवित्तु इरुक्कुम बेपामुतु उवरकगुक्कुक केाटुत्तागेने अवरकगुक्केक इवनं (कर्त्तवा) पिण्डानंकगुणैक केाटुक्क वेण्णुम” अक्रममाय इरन्तवनं ज्ञेवित्तु इरुक्केकयिल उवरकगुक्कुक केाटुप्पागेने अवरकगुक्केक अक्रम मंगुतनीनं लपिण्डाकरणत्तिल अक्रम मंगुतनीनं पुत्राणं केाटुक्क वेण्णुम उन्पत्तु बेपारुन.

यत्तु विष्णुवचनम् — यस्य पिता प्रेतः स्यात् पितृपिण्डं निधाय पितामहात् द्वाभ्यां पराभ्यां दद्यात् इति । तस्यायमर्थः — पितामहे ध्रियमाणे प्रेते च पितरि पितृरेकं पिण्डमेकोद्दिष्टविधानेन निधाय पितृर्यः पितामहः ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च दद्यात्, पितुः पितामहस्त्वात्मनः प्रपितामहः संप्रदानमृतः स्थित एवेति प्रपितामहाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च दद्यात् इति । तथा

विज्ञानेश्वरीये — चतुर्णा निर्बोपेत् पिण्डान् पूर्वं तेषु समापयेत् ।
ततः प्रभृति वै प्रेतः पितृसामान्यमश्नुते इति ।

आगे लेखने के अनुसार आगे लिखा है कि “एवं विज्ञानीं पीठा इरन्तागेन अवनं पीत्कु
पिण्टात्तेत वैवत्तु, पीठामहूनुक्कुप्पि पीरकु
इरुवरुक्कुप्पि पिण्टात्तेतक्के कोटुक्कवुम्” एन्ऱु
विष्णु वचनम् उल्लाते ? एन्लिं, अतरं कु अर्ततम्
इवंवितम् - ‘पीठामहून्ज्ञेवित्तु इरुक्क, पीठा इरन्ताल्,
पीठावुक्कु ओरु पिण्टात्तेत एकोत्तिष्ठत वित्तिप्पाति
वैवत्तु विट्टु, पीठाविन्पि पीठामहून्पि वैगेन अवनुक्कु
मेल्ल उल्ला इरुवरुक्कुम् कोटुक्कवुम्. पीठाविन्पि
पीठामहून्पि तनक्कु प्रपीठामहून्पि उत्तेच्यन्पि
आकेयाल अवन्पि लित्तानुक्कवे उल्लाल एन्ऱु,
प्रपीठामहूनुक्कुम् अवनुक्कु मेल्ल उल्ला इरुवरुक्कुम्
कोटुक्कवुम् वेण्णुम्” एन्ऱु. अवंवितमें,
वीक्कुन्नानेक्वार्येत्तिलः - नाल्लवरुक्कुम् पिण्टात्तेतक्के
कोटुक्कवुम्. मुतल्ल पिण्टात्तेत मर्नरप्पि पिण्टान्कलील
सेरक्कवुम्. अतु मुतल्ल प्रेरेतन्पि पीत्कुक्कण्टन्स
साम्यत्तेत अटेक्किरुन्.

एवं च व्युत्कम्मृतस्य पितुः सपिण्डीकरणं तत्
पितृपितामहपितामहेष्वन्यतमस्य जीवने द्वयोर्बा जीवनेऽपि
प्रेतोद्देशेन जीवव्यतिरिक्तत्रिपुरुषोद्देशेन च पार्वणौकोद्दिष्ट-
समुच्चात्मकं (सपिण्डीकरणं) कर्तव्यम् ॥ तथा च कालादर्शं —
पितुर्मृतस्य सापिण्डचं मृतयोरूर्ध्वयोर्द्वयोः । एकस्मिन् वा
द्वयोर्बोधिनात् पितामहादिषु त्रिषु जीवत्सु न सापिण्डचम्,
पिता यस्य तु वृत्तस्याजीवेचापि पितामहः इति त्रयाणामपि
पिण्डनामेकेनापि सपिण्डनम् इति पूर्वोक्तमन्वादिवचनैद्वयोरेकस्य
वा जीवने सापिण्डचप्रतिपादनात् । वत्सरान्ते प्रेताय तत्पित्रे
तत्पितामहाय तत्प्रपितामहाय च ब्राह्मणान् भोजयेत् त्रिषु पिण्डः

பிவர்த்தே இதி பிதுः பிதாदிநாந் தியாணாந் ஶாஷ்வ பிண்டானஸ்மரணாத் தேஷு
நிஷு ஜிவத்ஸு தத்யோगாஞ்ச | ததா ச ஦க்ஷः — பிதாமஹ் ச ஜிவந்த
மதிக்ரம்ய ததா ஸுதः | அதிக்ரம்ய இயங் வாபி ஸபிண்டிகரண் சரெடு
இதி |

இவ்விதம் இருப்பதால் அக்ரமமாய் இறந்த
பிதாவுக்கு ஸபின்மகரணத்தை, மருதனின் பித்ரு பிதாமஹ
ப்ரபிதாமஹர்களுள், ஒருவரோ, இருவரோ ஜீவிதத்து
இருக்கும் விஷயத்தில், ப்ரேதனை உத்தேசித்தும், பிழைத்து
இருப்பவரைத் தவிர்த்து மூன்று புருஷர்களை உத்தேசித்தும்,
பார்வன ஏகோத்திஷ்ட ஸமுச்சய ரூபமாக
(ஸபின்மகரணம்) செய்யப்பட வேண்டும். அவ்விதமே,
காலாதர்சத்தில்:- மருதனை பிதாவுக்கு ஸாபின்டயத்தை,
மேலாகிய இருவர் இறந்து இருக்கும் பகுத்தில்
செய்யவும். ஒருவன் ஜீவிதத்து இருந்தாலும், இருவர்
ஜீவிதத்து இருந்தாலும் புத்ரன் ஸாபின்டயத்தைச்
செய்யவும். ‘ஒருவன் ஜீவிதத்து இருந்தாலும், இருவர்
ஜீவிதத்து இருந்தாலும்’ என்று சொல்லியதால், பிதாமஹன்
முதலிய மூவரும் ஜீவிதத்து இருக்கும் பகுத்தில்
ஸாபின்டயம் இல்லை. ‘பிதா யஸ்யது + பிதாமஹः’
என்றும், ‘த்ரயாணமயி+ஸபின்டநம்’ என்றும் மூன்
சொல்லிய மன்வாதி வசனங்களால் இருவர் அல்லது
ஒருவன் ஜீவிதத்து இருந்தாலும் ஸாபின்டயம் செய்யலாம்
என்று இருப்பதால் வர்ஷத்தின் முடிவில் ப்ரேதன்,
அவனது பிதா, பிதாமஹன், ப்ரபிதாமஹன் இவர்களின்
பொருட்டு ப்ராம்ஹணர்களைப் புஜிப்பிக்கவும். த்ரிஷா
பின்டः ப்ரவர்த்ததே’ என்று பிதாவின் பிதா முதலிய
மூவர்களுக்கு ச்ராத்தத்தில் பின்டதானம் விதிக்கப்பட்டு
இருப்பதாலும், அவர் மூவரும் ஜீவிதத்திருக்கும் போது
பின்டதானம் ஸம்பவிக்காததாலும், அவ்விதமே, தகூர்:-
பிதாமஹன் ஜீவிதத்து இருந்தால் அவனை அதிக்ரமித்து,
ப்ரபிதாமஹனும் ஜீவிதத்து இருந்தால் அவனையும்
அதிக்ரமித்து ஸபின்மகரணத்தைச் செய்யவும்.

तथा पिण्डपितृयज्ञं प्रकृत्य सुमन्तुः — येष्य एव पिता दद्यात्तेभ्यः कुर्वीति साग्रिकः । पितामहेऽप्येवमेव कुर्याज्जीवति साग्रिकः इति । यत्तु — ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । पूर्वेषु त्रिषु दातव्यं जीवेच्च त्रितयं यदा इति, तत् जीवपितृकश्राद्धविषयमिति व्याख्यातारः । यच्च — जीवमानेऽपि पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । विप्रवद्वाऽपि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत् ॥ उभौ यस्य व्यतीतौ तु जीवेच्च प्रपितामहः । द्वौ पिण्डौ निर्वपेत्तत्र भोजयेत् प्रपितामहम् इति पिण्डद्वयमुक्तम्, तत् जीवपित्रादिवरणविषयम् । तच्च - पूर्वेषामेव निर्वपेत् चतुरो निर्वपेत् पिण्डान् त्रिभिः पिण्डैर्नियोजयेत् इति मन्वादिवचन-विरोधादुपेक्ष्यमित्याहुः ॥

अवृवितम्, पिण्ठ यित्रु यक्षगुत्तेत औरमंपित्तु, सामन्तुः- औहरिताक्षी, (पिता जीवित्तु इरुन्ताल) पिता एवरक्ञुक्कुच चेय्वागेने अवरक्ञुक्कुच (पिण्ठतान्ततेच) चेय्यवुम्. पितामहानुमं जीवित्तु इरुन्तालं पितामहानं एवरक्ञुक्कुच चेय्वागेने अवरक्ञुक्कुच चेय्यवुमं एन्ऱुर. आग्नेल, “पिता जीवित्तु इरुन्तालं अवानुक्कु मुन्तियवर्क्ञुक्केच चेय्यवुम्. शुवर्क्ञुमं जीवित्तु इरुन्तालं, अवरक्ञुक्कु मुन्तिय शुवर्क्ञुक्कुक्केच चेय्यवुमं” एन्ऱ वशनमं उल्लाते ? ऎन्नील अतु जीवपित्रुक्कन्च चेय्युमं चरात्ततत्तेतप्पं पर्न्रियतु एन्ऱ एन्ऱ व्याक्यानकाररक्कन्. तवीर, ‘पिता जीवित्तु इरुन्ताल, पितावुक्कु मुन्तियवर्क्ञुक्केच चेय्यवुमं अल्लतु, प्रराम्भृणैनप्पं पोलवेव, तान्तु पितावेवयुमं चरात्ततत्तिलं पुज्जिप्पिक्कवुम्. एवनतु पिता पितामहानं इरुवरुमं इरन्तु प्ररपितामहानं जीवित्तु इरुक्किन्ऱुगेने अवन्पं प्ररपितामहानप्पं पुज्जिप्पित्तु इरन्तु पिण्ठान्क्कैकं चेय्यवुमं’ एन्ऱ इरन्तु पिण्ठान्क्कैकं चेय्यवुमं

காணப்படுகிறதே ? எனில், அது ஜீவித்து இருக்கும் பிதா முதலியவரை வரிக்கும் விஷயத்தைப் பற்றியது. அதுவும், 'முன்னேருக்கே கொடுக்க வேண்டும்', 'நான்கு பிண்டங்களைக் கொடுக்கவும்' 'மூன்று பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும்' என்பது முதலிய மன்வாதி வசனங்களுடன் விரோதிப்பதால் உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது என்கின்றனர்.

யच — ஸபிதுः பிதृகृत्येषु घृषिकारो न विद्यते । न जीवन्तमतिक्रम्य कञ्चिद्विद्यादिति श्रुतिः इति, तत् पित्र्येष्वां पितृयज्ञे च वृद्धौ मातुर्मृतैऽहनि । विप्रसंपदि तीर्थेषु सोऽपि श्राद्धं समाचरेत् । पितुर्या देवताः प्रोक्ताः ता एवात्रापि देवताः । षडेते जीवतः पितुः इति जीवपितृकस्य श्राद्धविधानात् तद्व्यतिरिक्तदर्शादि श्राद्ध विषयम् । तथा लोकाक्षिः — அமாಶ்ராஞ் ஶ்ராஞ் சாபரபக்ஷிகம் । ந ஜீவபிதृகः குர்யாத் திலैः குழைஶ தர்ணம் இதி ।

ஆனால், 'ஜீவ பித்ருகளுக்கு பித்ரு கார்யங்களில் அதிகாரம் இல்லை. ஜீவித்து இருக்கும் பிதாவை அதிகரமித்து ஒன்றையும் கொடுக்கக் கூடாது என்கிறது வேதம்' என்ற வசனம் உள்ளதே ? எனில், அது, பிதர்யேஷ்டி, பிதருயக்ஞம், நாந்தி, மாதாவின் மருதாஹம், ப்ரராம்ஹன ஸம்பத்து, தீர்த்தங்கள் இவைகளில் ஜீவ பித்ருகளும் ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். பிதாவுக்கு உத்தேச்யர்கள் எவரோ அவரே இவனுக்கும் உத்தேச்யர்கள் என்று ச்ராத்தம் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதால், அவைகளைத் தவிர்த்த தர்ச ச்ராத்தம் முதலியதைப் பற்றியது. அவ்விதம், லோகாக்ஷி:- அமாச்ராத்தம், கயா ச்ராத்தம், மஹாளை ச்ராத்தம், கறுப்பு எள்ளுகளுடன் தர்ப்பனம் இவைகளை ஜீவ பித்ருகள் செய்யக் கூடாது என்றார்.

ततः पितृव्युत्क्रममरणे जीवद्व्यतिरिक्तानां त्रयाणां परं तेषां पिण्डदानं तत्पिण्डैः सह प्रेतपिण्ड संसर्ग इति निर्णयः । ननु —

लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः इति स्मरणात्
प्रपितामहात् परेषां पिण्डभागित्वमनुपपन्नमिति चैन्मैवम्
पित्रादिजीवने तेषामपि पिण्डभाकत्वात् पूर्वपूर्वात्यये
क्रमेणोत्तरोत्तरस्य लेपभाकत्वात् । अन्यथा व्युत्क्रममरणाभावेऽपि
पितुः सपिण्डीकरणे लेपभाजश्चतुर्थस्य पिण्डभाकत्वं न स्यात् ।
ततश्च त्रिभिः पिण्डैश्च संसृजेत् इत्यादि बहुस्मृतिव्याकोप-प्रसङ्गः ।

ஆகையால் பிதாவுக்கு அக்ரம மரண விஷயத்தில், பிழைத்திருக்கும் மூன்று பேர்களுக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்குப் பின்ட தானம் அவர்களின் பின்டங்களுடன் ஸம்யோஜனம் என்பது நிர்ணயமாக். ‘நான்காமவன் முதல் மூவர் லேபபாகிகள், பிதா முதல் மூவர் பின்டபாகிகள்’ என்று ஸ்மருதி இருப்பதால் ப்ரபிதாமஹனுக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்குப் பின்டபாகித்வம் உபபண்ம் ஆகாதே? எனில், இவ்விதம் சொல்லக் கூடாது. பிதா முதலியவர் ஜீவிதது இருந்தால் அவர்களும் பின்டபாகிகள் ஆகையால் முன் முன் உள்ளவனின் மரணம் ஆனால் க்ரமமாய் மேல் மேல் உள்ளவனுக்கு லேபபாகித்வம் ஏற்படுவதால். இல்லாவிடில், அக்ரம மரணம் இல்லாத விஷயத்திலும், பிதாவின் ஸபின்மைகரணத்தில் லேபபாகியான நான்காமவனுக்குப் பின்டபாகித்வம் இல்லை என்றாகும். பிறகு ‘மூன்று பின்டங்களுடன் சேர்க்கவும்’ என்பது முதலிய வெகு ஸ்மருதி விரோதம் நேரிடக்கூடும்.

एवं मातरि मृतायां पितामहादिष्वन्यतमात्यये मातुः सापिण्डव्यं कर्तव्यम् । तथा च ब्रह्मा — मातर्येषि च वृत्तायां विद्यते च पितामही । प्रपितामहीपूर्वं तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः इति । भर्तुव्युत्क्रममरणेऽपि पद्मी सपिण्डनं कुर्यात्, व्युत्क्रमेण मृतानां च सपिण्डीकृतिरिष्यते । यदि माता यदि पिता भर्ता चैष विधिः स्मृतः इति स्मरणात् ।

இவ்விதம், மாதா இறந்து பிதாமஹீ இவர்களுள் ஒவ்வொருத்தி இறந்து இருந்தால் மாதாவின் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். அவ்விதமே, ப்ரம்ஹா:- மாதா இறந்து பிதாமஹீ ஜீவித்து இருந்தால், ப்ரபிதாமஹீ முதல் கொண்டு ஸபிண்ணகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். பர்த்தாவின் அக்ரம மரணத்திலும், பத்னீ ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். 'வ்யுத்க்ரமேண+பர்த்தா சைஷ விதி: ஸம்ருத: ' என்று ஸம்ருதி உள்ளது.

भार्यमिरणेऽपि पतिः कुर्यात् — अपुत्राया मृतायास्तु पतिः
कुर्यात् सपिण्डताम् । शश्रवादिभिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्
इत्यादिस्मरणात् । व्युत्क्रममरणे पुत्रः पत्नी पतिश्च अन्नेन
सापिण्डयं कुर्यात्, तद्व्यतिरिक्तानां व्युत्क्रममरणे सापिण्डयं न
कुर्यात्, आमेन हेमा वा कुर्यात् । तदाह गोभिलः —
अनुकृतकालेष्वपि तु व्युत्क्रमेण मृतावपि । आमेन वाऽपि सापिण्डयं
हेमा याऽपि प्रकल्पयेत् इति । सपिण्डीकरणस्य द्वादशाहादयो
वत्सरान्ताः काला उक्ताः तेषु प्रमादादकृते सपिण्डीकरणे
व्युत्क्रममृतावपि पुत्रव्यतिरिक्तः कर्ता आमेन हेमा वा कुर्यात्
इत्यर्थः ।

பார்யையின் மரணத்திலும் பர்த்தா ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். 'புத்ரன் இல்லாமல் இறந்த பத்னிக்குப் பதி ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். இவர்களுக்கு ச்வச்சு முதலியவர்களுடன் ஸபிண்ணகரணம் செய்யப்பட வேண்டும்' என்பது ஸம்ருதி உள்ளது. அக்ரம மரணத்திலும், புத்ரன், பத்னீ, பதி இவர்கள் அன்னத்தால் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். மற்றவர்களின் அக்ரம மரணத்தில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யக் கூடாது. ஆமத்தினுலாவது ஹிரண்யத்தினுலாவது செய்யவும். அதைச் சொல்லுகிறோர். கோபிலர்:- 'அனுக்தகாலே + ப்ரகல்பபயேத்' என்று. இதன் பொருள் -

ஸபின்மைகரணத்திற்கு 12-ஆவது நாள் முதல் வர்ஷாந்தம் வரையில் உள்ள சில காலங்கள் சொல்லப்பட்டு உள்ளன. அவைகளில் கவனம் இன்மையால் ஸபின்மைகரணம் செய்யப்படாவிட்டனும், அக்ரம மரண விஷயத்திலும், புத்ரன் அல்லாத கர்த்தா ஆமத்தாலாவது ஹிரண்யத்தாலாவது செய்ய வேண்டும் என்பது பொருள்.

ஸ்முத்யந்தரே^७பி — வ்யுத்க்ரமாச் ப்ரமीதானா் நைக் கார்யா ஸபிண்டதா | அத்வா^८மேன கர்த்து ஹேமா வா தடஸம்வே | ஗ுஹாதாஹ்து பகாந் பிண்ட ஦த்தாத்திலைஸ்ஸஹ | பிண்ட ஦த்தா யதாந்யாய் பிண்டஸ்யோஜன் சரேத் இதி || யதாந்யாய் - ஜிவந்தமதிக்ரம்ய | அது ஸபிண்டிகரணமானாத்தாமாடிவி஧ானே^९பி தநாந்தரியக்தயா ஶாஷ்வாந்த் ஸிஞ்சமிதி கேசித் | அந்யேஷு வ்யுத்க்ரமமூதை ஸபிண்டிகரணமானாத்தா- மாடிவி஧ானாத் பூர்வார்த்தாஜ்ஞானா் ஸத்யா் ஶக்தை நாமாடிவியம இத்யாஹு: |

மற்றெனுரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- அக்ரமமாய் இறந்தவர்க்கும் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யக் கூடாது அல்லது ஆமத்தால் செய்யவும். அது முடியாவிடில் ஹிரண்யத்தால் செய்யவும். க்ருஹத்தில் இருந்து பக்வான்னத்தை எடுத்துத் திலத்துடன் பின்டத்தைக் கொடுக்கவும். பிறகு ந்யாயப்படி பின்ட ஸம்யோஜனத்தைச் செய்யவும். யதாந்யாயம் = ஜீவிதது இருப்பவலை அதிகரமித்து. இவ்விஷயத்தில், ஸபின்மைகரணத்திற்கு மட்டில் ஆமம் முதலியதால் விதி இருந்தாலும், அதற்கு நாந்தரீயகம் ஆகியதால் (ஆவச்யகம் ஆகியதால்) ச்ராத்தம் வரையில் உள்ளது வித்தமாகியது என்கின்றனர் சிலர். மற்றவரோ வெனில், அக்ரம ம்ருதியில் ஸபின்மைகரணத்தை மட்டில் ஆமம் முதலியதால் விதித்து இருப்பதால், அதற்கு முந்தியுள்ள ச்ராத்தங்களுக்கு சக்தி இருக்கும் பகுத்தில் ஆமம் முதலிய நியமம் இல்லை என்கின்றனர்.

एवश्च मातापितृव्यतिरिक्तव्युत् क्रममृतौ सापिण्डचे निषेधः
पाक्षिकः, पक्षे आमेन हेमा वा विधानात् । एवं
विहितामश्राद्धाभिप्रायेण — ज्येष्ठो वाऽप्यनुजो वाऽपि कुर्याद्वातुः
सपिण्डनम् । न पुत्रस्य पिता कुर्यान्नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥ यदि
स्नेहेन कुर्यातां सपिण्डीकरणं विना । अन्याभावे पिता माता ज्येष्ठो
वाऽपि सपिण्डनम् । कुर्याज्जीवन्तमाक्रम्य पिण्डभागं नियोजयेत् ।
सर्वभावे पिता वाऽपि कुर्यात् भ्राताऽथवाऽग्रजः इत्यादीनि
व्युत्क्रमसापिण्डचप्रतिपादकानि द्रष्टव्यानि ।

இவ்விதம் இருப்பதால், மாதா பிதாக்களைத் தவிர்த்த
மற்றவர்க்கு அக்ரம ம்ருதியில் ஸாபின்டய நிலேஷதம்
பாகஷிகம், ஒரு பக்ஷத்தில் ஆமத்தாலாவது
ஹிரண்யத்தாலாவது விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இவ்விதம்
விதிக்கப்பட்ட ஆம ச்ராத்த அபிப்ராயத்தால், 'ஜ்யேஷ்டன்
ஆயினும் கனிஷ்டன் ஆயினும், ப்ராதாவுக்கு
ஸாபின்டயத்தைச் செய்யவும்.' 'புத்ரனுக்குப் பிதாவும்,
கனிஷ்டனுக்கு ஜ்யேஷ்டனும் செய்யக் கூடாது.
ஸ்நேஹத்தால் செய்தால் ஸபின்மகரணத்தைத் தவிர்த்து
மற்றதைச் செய்யவும். 'ஒருவரும் இல்லாவிடில் பிதா,
மாதா, ஜ்யேஷ்டன் யாராவது ஸாபின்டயத்தைச்
செய்யவும். ஜீவித்து இருப்பவளை விட்டு மேலே
உள்ளவருடன் பின்டத்தைச் சேர்க்கவும். ஒருவரும்
இல்லாவிடில், பிதா அல்லது ஜ்யேஷ்டப்ராதா செய்யவும்.
இது முதலாகிய அக்ரம ஸாபின்டயத்தைச் சொல்லும்
வசனங்களைப் பார்க்கவும்.

க்ரமஸாபிண்஡னிஸ்ருபணம् ।

अत्र व्युत्क्रममृतानां मातापितृभर्तुपत्रीना मन्नेन सापिण्डचे
कृते, इतरेषामामेन हेमा वा कृतेऽपि तदन्तहितमरणे
तत्सापिण्डचानन्तरमेतेषां पुनरन्नेन सपिण्डीकरणं विदधाति,

काश्यपः — व्युत्क्रमेण प्रमीतानां सपिण्डीकृतिरिष्यते । अन्तहिते मृते पश्चात् पुनः कुर्यात् सपिण्डनम् इति ।

कर्म लोपिण्ट्यत्तीनं निरुपणम्.

இவ்விஷயத்தில், அக்ரமமாய் இறந்த மாதா, பிதா, பர்த்தா, பத்நீ இவர்களுக்கு அன்னத்தால் ஸாபிண்ட்யம் செய்த பிறகும், மற்றவர்க்கு ஆமத்தாலாவது ஹிரண்யத்தாலாவது செய்த பிறகும், நடுவில் இறந்தவனின் மரணம் ஆனால் அவனுடைய ஸாபிண்ட்யத்திற்குப் பிறகு இவர்களுக்கு மறுபடி அன்னத்தால் ஸபிண்டகரணத்தை விதிக்கின்றார் காச்யபர்:- அக்ரமமாய் இறந்தவர்க்கும் ஸபிண்டகரணம் விதிக்கப்படுகிறது. நடுவில் இறந்தவன் இறந்த பிறகு மறுபடி ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும்.

दक्षश — पितामहश्च जीवन्तमतिक्रम्य यदा सुतः । अतिक्रम्य द्वयं वाऽपि सपिण्डीकरणं चरेत् । तयोरापन्नयोः काले पुनः कुर्यात् सपिण्डनम् इति । वसिष्ठश्च — व्युत्क्रमेणापि सापिण्डवं कर्तव्यमूषिसम्मतम् । तत्राप्यूर्धवस्य सापिण्डच्चे कृतेऽस्य पुनराचरेत् । भ्राता वा भ्रातुपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा । अत्र वा प्रेतभूतस्य पत्नी कुर्यादिमन्त्रकम् । क्रत्विजा कारयेद्वा सपिण्डीकरणं पुनः इति । अत्र अमन्त्रकविधानं मन्त्रोच्चरणाशक्तपत्नीविषयमित्यधस्तानिरूपितम् ।

தக்கரும்:- ஜீவிதது இருக்கும் பிதாமஹைனத் தாண்டி ப்ரபிதாமஹைனயும் தாண்டி, புத்ரன் ஸபிண்டகரணம் செய்தால் அவ்விருவரும் இறந்த பிறகு அக்காலத்தில் மறுபடி ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். வளிஷ்டரும்:- அக்ரம ம்ருதியிலும் ஸாபிண்ட்யம் செய்ய வேண்டும் என்பது ருவிகளின் கொள்கை. அவ்விஷயத்திலும் மேலே உள்ளவனுக்கு ஸாபிண்ட்யம் செய்த பிறகு இவனுக்கு மறுபடி ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். ப்ராதா,

ப்ராத்ரு புத்ரன், ஸபின்டன், சிஷ்யன், பத்நீ இவர்களுள் யாராவது செய்ய வேண்டும். பத்நீ அமந்த்ரகமாய்ச் செய்ய வேண்டும் அல்லது ருத் விக்கிணால் செய்விக்கவும். இவ்விடத்தில் 'அமந்த்ரகமாய்' என்ற விதி, மந்த்ரத்தை உச்சரிப்பதில் சக்தியற்ற பத்னியைப் பற்றியது என்பது கீழே சொல்லப்பட்டு உள்ளது.

பதிதை: ஸஹ ஸாபிண்஢்சநிஷே஧ः ।

பதிதை: ஸஹ ஸாபிண்஢்சநிஷே஧மாஹ ஶாதாதபः — க்லீவைந் பதிதைश්வ ஦ுஷ்டமಿ: ஸ்தி஭ிரேவ ச । ஸபிண்஡ிகரண் குர்யா ஦ேகோஹிஷ் ஸமாசரேத் இதி । பதிதமதிக்ரம்ய ததூ஧்வங்கை: ஸாபிண்஢்ச் கृत्वा அனுமாஸிகாடாவைகோஹிஷ் ஸமாசரேதித்யर்஥ः । பாரிஜாதேऽபி — பிதுந் நாம நிர்஦ேஶய் மஹாபாதக்஦ோஷிணः । ஆவாஹநாடிகார்யேஷு கிஞ்சு தத்பரமாவிநாம् । பிதாமஹபுராగாணா் தியாணா் நாம நிர்஦ீஶேத் । பிதாமஹேऽபி ஦ுஷ்ஶ्रேத் ப்ரபிதாமஹபூர்வகா: । நிர்஦ேஷவ்யாக்ஷயோ மத்யா் ஸ்தஸ்மிந்பி வி஦ூஷிதே । ப்ரபிதாமஹ பிதா஘ாக்ஷயோ வாஞ்சா யதாக்ரமம் । ஦ுஷ்ஶ்ரேந்மத்யம: கஶ்சித் தத்திர்யாந் பூர்வப்ஶிமாந் । திநேவ நிர்஦ீஶேந்மத்யாந் கிஂ த்வத்தைத்திர்யைதே । சண்டாலாடிஹதே தாதே பதிதை ஸஜ்ஜவஜிதே । வ்யுத்க்ரமாஞ் மृதே ஦ேய் யேம்ய ஏவ ஦दாத்யஸௌ இதி ।

பதிதூர்களுடன் ஸாபின்ட்யம் கூடாது.

பதிதர்களுடன் ஸாபின்ட்யத்தை நிழேஷ்திக்கின்றார், சாதாதுபர்:- நபும்ஸகர்கள், பதிதர்கள், தோஷம் உள்ள ஸ்தரீகள் இவர்களுடன் ஸாபின்ட்யம் செய்யக் கூடாது. ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய வேண்டும். பதிதனைத் தாண்டி, அவனுக்கு மேல் உள்ளவர்களோடு ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்து அனுமாலிகம் முதலியதில் ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும் என்பது பொருள். பாரிஜாதத்திலும் :- மஹாபாதகத்தால் துஷ்டங்கை கில் ம்ருதனின் பிதாவின் பெயரை நிர்த்தேசிக்கக் கூடாது, ஆவாஹநம் முதலியதில்.

आगेल अवनुक्कु मेल उंसा (मंगुतनीन) पितामहन् मुतविय सुवारीन बेयरे निरंतरेत्रिक्कवुम्. पितामहनुम् पतितानुकिल, प्रपितामहन् मुतविय सुवारीन नामतते करव्वीक्कवुम्. प्रपितामहनुम् तुञ्टनुकिल, प्रपितामहनीन पिता मुतविय सुवारीन नामतते करममाय करव्वीक्कवुम्. इवर्करुन नुवील ओरुवन्न पतितानुकिल, अवैनात तासी मुन्पीन उंसा सुवर्कनाये करव्वीक्कवुम्. आगेल इतिल इतु विचेष्मायस्च चेऽल्लप्पाक्रिरतु, पिता सन्टाळातिकलाल केाल्लप्पट्टालुम्, पतितानुयिनुम्, यतियायिनुम्, अकरममाय इरन्तवानुयिनुम्, इवन्न एवर्कुक केाउप्पानेऽवरुक्के पुत्रनं केाउक्क वेण्णुम्.

स्मृत्यन्तरे च — वृद्धे पितरि सन्ध्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य एव पिता दधात्तेभ्यो दधात् स्वयं सुतः इति । तथा — येभ्यो ददाति पित्रादिस्तेभ्यः पित्रादि जीवने । दधात् तथा यतौ ताते पतिते व्युत्क्रमात् मृते इति । पितृव्यतिरिक्तस्य पतितस्य सपिण्डनं नास्ति, सपिण्डीकरणं नैव मृतानां ब्रह्मचारिणाम् । क्षीबानां पतितानां च दुष्टस्त्रीणां तथैव च । नैष्ठिकानां यतीनां च श्राव्यं नारायणार्पणम् इति वृद्धवसिष्ठ स्मरणात् ।

मन्त्रिग्रुरु लंसंगुतीयिलः— पिता वर्गुत्तानुय यतियाकिणेलुम्, पतितानुणेलुम्, पिता एवर्करुक्कुक केाउप्पानेऽवर्करुक्केपुत्रनं केाउक्क वेण्णुम्. अव्वितम् - 'पिता मुतवियवन्न एवर्करुक्कुक केाउप्पानेऽवर्करुक्केपुत्राज्ञवित्तु इरुक्कुम् बेपामुतु पुत्रनं केाउक्क वेण्णुम्. अव्वितम्, पिता यतियाय इरुन्तालुम्, पतितान्न आकिलुम्, अकरममाय इरन्तालुम्, मुन्न चेऽल्लविय प्रयिये केाउक्क वेण्णुम्. पितावैवत्त तवीर्तत मर्त्रवन्न पतितानुकिल अवनुक्कु लापीन्ट्यम् इल्लै. “इरन्त

ப்ரம்ஹசாரிக்கும், நடும் வகர்கள், பதிதர்கள், தோழிமுள்ள ஸ்த்ரீகள், இவர்களுக்கும் ஸபின்மைகரணம் இல்லை. நெஞ்சிடிக் ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கும், யதிகளுக்கும் இல்லை. இவர்களுக்கு ச்ராத்தம் நாராயணபலி மட்டுமே' என்று வருத்த வலிஷ்ட ஸ்மருதி உள்ளது.

सपिण्डीकरणप्रकारः

सपिण्डीकरणे इतिकर्तव्यतामाह याज्ञवल्क्यः —
 गन्धोदकतिलैर्युक्तं कुर्यात् पात्र चतुष्टयम् । अध्यर्थं पितृपात्रेषु
 प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् । ये समाना इति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाच्चरेदिति ।
 विज्ञानेश्वरेणास्यार्थोऽभिहितः — गन्धोदकतिलैर्युक्तं पात्रचतुष्टयं
 अध्यर्थं - अर्ध्यसिद्धचर्थं पूर्वोक्तविधिना कुर्यात् । तिलैर्युक्तं
 पात्रचतुष्टयमिति वदता पितृवर्गे चत्वारो ब्राह्मणा दर्शिताः -
 वैश्वदेवे द्वौ स्थितावेव । तत्र प्रेतपात्रोदकं किञ्चिदवशेषं त्रेधा
 विभज्य पितृपात्रेषु सेचयेत् ये समाना इति द्वाभ्यां, शेषं -
 विश्वेदेवावाहनादिविसर्जनान्तं पूर्ववत् पार्वणवदाच्चरेत् ।
 प्रेताध्यपात्राव-शिष्टोदकेन प्रेतस्थाने ब्राह्मणहस्ते अर्धं दत्वा शेषं
 एकोद्दिष्टवत् समापयेत् । पितृयेषु त्रिषु पार्वणवदिति ।

ஸபின்மைகரண ப்ரகாரம்.

ஸபின்டகரணத்தில் செய்ய வேண்டியதைச் சொல்லுகிறார். யாஜ்ஞவல்க்யர்:- 'கந்தஜலம், திலம் இவைகளுடன் கூடியதாய் நான்கு பாத்ரங்களைவைக்கவும், அர்க்யத்திற்காகப் பித்ரபாத்ரங்களில் ப்ரேத பாத்ர ஜலத்தைச் சேர்க்கவும். 'யேஸமாநா:' என்ற
 2-மந்த்ரங்களால், மீதியை முன்போல் செய்யவும்' என்றார்.
 இதற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது விஜ்ஞாநேஷ்வரரால்:- கந்தோதக திலங்களுடன் கூடிய நான்கு பாத்ரங்களை, அர்க்யம் வித்திப்பதற்காக, முன் சொல்லிய விதிப்படி வைக்கவும். திலங்களுடன் கூடிய

நான்கு பாத்ரங்களைச் சொல்லியதால், பித்ருவர்க்கத்தில் நான்கு ப்ராம்ஹணர்கள் தெரிவிக்கப்பட்டனர். வைச்வ தேவத்தில் இருவர் இருக்கின்றனரே. அதில், ப்ரேத பாத்ரத்தில் மீதியுள்ள ஸ்வஸ்ப ஜலத்தை மூன்றாய்ப் பிரித்து பித்ரு பாத்ரங்களில் சேர்க்கவும், ‘யேஸமாநா:’ என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால். சேஷம் = மீதியுள்ள விச்வேதேவாவாஹநம் முதல் விஸர்ஜநம் வரையிலுள்ளதை, பூர்வவத் = பார்வண ச்ராத்தத்திற் போல் செய்யவும். பிரேதார்க்கிய பாத்ரத்தில் மீதியுள்ள ஜலத்தால் ப்ரேத ஸ்தான ப்ராம்ஹணனின் கையில் அர்க்யத்தைக் கொடுத்து மீதியை ஏகோத்திஷ்டத்தில் போல் முடிக்கவும். பித்ரர்த்த ப்ராம்ஹணர்கள் மூவர் இடத்திலும் பார்வணத்தில் போல் செய்யவும் என்று.

कात्यायनः — चत्वारि पात्राणि सतिलं गन्धोदकैः
पूरयित्वा त्रिखिः पितृपात्रेष्वासिञ्चति ये समानाः इति द्वाभ्या
मेतेन पिण्डा व्याख्याताः इति । विष्णुः — संवत्सरान्ते प्रेताय
तत्पित्रे तत्पितामहाय च ब्राह्मणान् देवपूर्वं योजयेत् इति । गालवश्च
— सपिण्डीकरणं कुर्यात् ततः प्रेतत्वमुक्तये । विश्वान् देवान्
नियोज्यादौ कालकामुकसंज्ञकान् । प्रेतं पितामहार्दीश्च
मन्त्रैरध्यादिभिः श्रयेत् । अनुसन्धीयते पूर्वः परो विच्छिद्यते ततः
इति । उक्तेषु एतेषु वचनेषु प्रथमतो विश्वेदेववरणं ततः प्रेतवरणम्,
पितामहादिवरणमिति क्रमः प्रतीयते ।

காத்யாயனர்:- நான்கு பாத்ரங்களைத் திலத்துடன் கந்தோதகங்களால் நிரப்பி, மும்முன்று முறை பித்ரபாத்ரங்களில் ‘யேஸமாநா:’ என்பது முதலிய மந்த்ரங்களால் சேர்க்கவும். இதனால் பிண்டங்களும் சொல்லப்பட்டன. விஷ்ணு:- வர்ஷத்தின் முடிவில் ப்ரேதனுக்கும், அவனது பிதாவுக்கும் பிதாமஹனுக்கும் (ப்ரபிதாமஹனுக்கும்) ப்ராம்ஹணர்களை தேவபூர்வமாய் வரிக்கவும். **காலவரும்:-** பிறகு ப்ரேதத்வம்

விடுபடுவதற்காக ஸபின்மைகரணத்தைச் செய்யவும். ஆதியில் காலகாம நாமதேயம் உள்ள விச்வ தேவர்களை வரித்து, ப்ரேதனையும், பிதாமஹாதிகளையும் மந்த்ரங்களுடன் அர்க்யம் முதலியவைகளால் பூஜிக்கவும். பிறகு பிதா அனு ஸந்திக்கப்படுகிறுன், ப்ரபிதாமஹன் விடுபடுகிறுன். சொல்லிய இந்த வசனங்களில், முதலில் விச்வேதேவவரணம், பிறகு ப்ரேத வரணம், பிறகு பிதாமஹாதி வரணம் என்று க்ரமம் தோன்றுகிறது.

க்ரமாந்தர் து ஸ்மृத்யந்தரே^१ மிஹிதம् — ஶாஷ்டியமுபக்ரம் ஸபிண்டிகரண் ஭வेत् । பார்ண தत्र பூர்வ ஸ்யாடேகோஹிஷம஥ாசரேத् । தथா ஸபிண்டிகரணஶாஞ்சே ஦ைவ பூர்வ நியோஜயேத् । பிதூநியோஜயேத் பஶாத் ததः ப்ரேத விநிர்஦ிஶே^२ ஦ிதி । சந்திரகாயாமபி — காமகாலை வைஶ்வை^३ நிர்஦ிஷ்டை து ஸபிண்டனே । பிதாமஹாடிசிர்஦ிஶ்ய பிதுருச்சாரண் ததः இதி ।

மற்றொரு க்ரமம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது, ஒரு ஸ்மிருதியில்:- “இரண்டு ச்ராத்தத்தை ஆரம்பித்து ஸபின்மைகரணம் செய்யப்பட வேண்டும். அவைகளுள் பார்வணம் முதலாவதாகும். பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும்” அவ்விதமே, ஸபின்மைகரண ச்ராத்தத்தில் தேவர்களை முன்பு வரிக்கவும். பிறகு பித்ருக்களை வரிக்கவும். பிறகு ப்ரேதனை வரிக்கவும். சந்திரிகையிலும்:- ஸபின்மைகரணத்தில் விச்வேதேவ ஸ்தானத்தில் காலகாமர்கள் சொல்லப்பட்டு உள்ளனர். பிதாமஹாதிகளை வரித்துப் பிறகு பிதாவை வரிக்கவும்.

஬ூஹ்டிண்ட: — பிதுர்ணமார்ம ஢ாடை ஦ிவசே சரேத் । ப்ரேதமாவவினிமௌக்காரா ப்ரேதஸ்ய வை பிது: । பிதாமஹாடிமி: ஸார்வ ஸாபிண்டஸ்ய ப்ரஸ்திழ்யே । ஸமாநோடகமாவஸ்ய ஸிஜ்சர்வ ச பிது: ஸுத: । ஏஷ பிதாமஹாடிநாந் வி஧ிநா பார்ணேன து । ஸ்வபிது: ப்ரேதமூதஸ்ய த்வேகோஹிஷவி஧ானத: । இத்வ ச பார்ணாத்மைகோஹிஷாத்மோभய ரூபகம् । பிதாமஹாடிசிர்஦ிஶ்ய பிதுருச்சாரண் தத: ।

सम्बन्धगोत्रनामानि वस्वार्दीश्च प्रकीर्तयेत् । दद्यात् कृसरताम्बूलं
गन्धमध्यञ्जनादिकम् ।

प्रगुह्यत्विष्ट्वा:- पिताविनं मरणतिऩम् मुतल् 12-ओवतु नालीलं चेय्यवुम्. प्रेरेतत्व निवृत्तित्वारा, प्रेरेतनुने पितावुक्कुप् पितामहात्तिकाञ्जटं सपिण्णटत्वम् लित्तिप्पत्तर्त्तुम्, समानेनातकत्वम् लित्तिप्पत्तर्त्तुम्, पितावुक्कुप् बुत्तरन्, इन्तप् पितामहात्तिकाञ्जकुप् पार्वणे वित्तियालुम्, प्रेरेतनुने तनुतु पितावुक्कु उकोत्तिष्ट वित्तियालुम्, इववित्तम् पार्वणे उकोत्तिष्ट त्वय रुपमाकस् चेय्यवुम्. पितामहात्तिकौ मुतलीलं चेऽल्ली, पिरुक् पितावेवच चेऽल्लवुम्. सम्पन्तम् कोत्तरम् बेयर् वल्ल मुतलीयवर्कौ ऎन्ऱ ऎल्लावर्त्तरेयुम् चेऽल्ल वेण्णुम्. कंरुलरम् ताम्पूलम् अप्यज्जनुनम् मुतलीयवेययुम् केऽकुक्कवुम्.

ततः स्नातान् समाहूय स्नातस्तानुपवेश्य च । दर्भं विप्रकरे दत्वा वृण्याद् देवपूर्वकम् ॥ सपिण्डीकरणादवर्गजुदर्भैः पितृक्रियाः । परतो द्विगुणैव दैवकर्म सदर्जुभिः । पित्र्ये ह्येकः पवित्रादौ छौ दमौ देवकर्मणि । छौ निमन्त्रयते विप्रौ वैश्वदेवार्थमादितः ॥ कामकालौ वैश्वदेवे देवते सम्प्रकीर्तिं । पितामहादि-सम्बन्धांस्यवरान् श्रोत्रियान् द्विजान् । प्रेतस्थाने त्वेकविप्रं यद्वा पैतामहादिषु । एकं वा प्रेतमेकं वा दैवेऽप्येकं निमन्त्रयेत् । पितामहादीनभ्यर्च्य ततः प्रेतं समर्चयेत् । सपिण्डीकरणशाङ्कं पितृपूर्वमुदीरितम् । प्रेतपूर्वं वदन्त्येकं तदसाम्प्रतमीरितम् ।

पिरुक्, संनामम् चेय्त अवर्कौ अमृत्तु, उट्कार्त्ति, तर्प्पत्ततेत प्रराम्भणर्कौ कैक्यीलं केऽकुत्तु, तेव पूर्वमायं वारीक्कवुम्. सपिण्णमेकरणत्तिर्त्तुम् गुणं रुज्जवाण तर्प्पत्तपञ्कौलं

கார்யத்தைச் செய்யவும். பிறகு இரண்டாக மடிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்களாலேயே செய்யவும். தேவ கர்மத்தை எப்பொழுதும் ருஜீவான் தர்ப்பங்களால் செய்யவும். பித்ரு கர்மத்தில் ஒரு தர்ப்பத்தால் பவித்ரம். தேவ கார்யத்தில் இரண்டு தர்ப்பங்களால் பவித்ரம் முதலில் விச்வே தேவர்களுக்காக இரண்டு ப்ராம்ஹணர்களை வரிக்கவும். காலன் காமன் என்ற இருவர் விச்வே தேவ கார்யத்தில் தேவதைகள் எனச் சொல்லப்பட்டு உள்ளனர். பிதாமஹன் முதலியவர்க்காக மூன்றுக்குக் குறையாதவரான ச்ரோத்ரிய ப்ராம்ஹணர்களை வரிக்கவும். ப்ரேத ஸ்தானத்தில் ஒரு ப்ராம்ஹணனை வரிக்கவும் அல்லது பிதாமஹாதிகளுக்காகவும் ஒரு ப்ராம்ஹணனை வரிக்கவும். ப்ரேதனாருவன், விச்வே தேவருக்காக ஒருவனை வரிக்கவும். பிதாமஹாதிகளை யர்ச்சித்துப் பிறகு ப்ரேதனை யர்ச்சிக்கவும். ஸபின்மூர்கரண ச்ராத்தம் பித்ருக்களை முந்தியடையது எனப்பட்டது. சிலர் ப்ரேதனை முந்தியதாய் உடையது என்கின்றனர். அது யுக்தமல்ல என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

४६
कैश्देवार्चनं कृत्वाऽनन्तरं प्रेतभोजनम् । पार्वणस्य हि तन्त्रस्य मध्ये तन्त्रान्तरं भवेत् । पार्वणौद्दिष्टयोश्च पार्वणं पूर्वभाग्मवेत् । पादान् प्रक्षालयेत् दर्भास्तिलान्योप्यावटत्रये । देवार्थनामुत्तरे तु पित्रथानां तु मध्यमे । दक्षिणे तु निमित्तस्य पादप्रक्षालनक्रमः ।

விச்வேதேவர்களுக்கு அர்ச்சனம் செய்து பிறகு ப்ரேதபோஜனம் செய்ய வேண்டியது ஆகும். பார்வன ப்ரகாரத்தின் நடுவில் ஏகோத்திஷ்ட ப்ரகாரம் வரக்கூடும். (அது கூடாது என்பதாம்). பார்வனம் ஏகோத்திஷ்டம் இரண்டும் சேர்ந்தால் பார்வனம் முந்தியதாக வேண்டும். மூன்று குழிகளில் தர்ப்பங்களையும் திலங்களையும் போட்டு ப்ராம்ஹணர்களின் கால்களை அலம்பவும். தேவார்த்த ப்ராம்ஹணர்களின் கால்களை வடக்குக் குண்டத்திலும்,

பித்ரர்த்த ப்ராம்ஹணர்களின் கால்களை நடுக் குண்டத்திலும், நிமித்த ப்ராம்ஹணரின் கால்களைத் தெற்குக் குண்டத்திலும் அலம்பவும். இது கரமம்.

कुण्डानि निखनेत् श्राद्धे येन केनापि शङ्खुना । आयसेन
खनेद्यस्तु निराशाः पितरो गताः । श्राद्धस्य चैककुण्डं
स्याद्वजपादसुसम्मितम् । सापिण्डचकं त्रिकुण्डं स्याद्वृत्ताकारं तु
दक्षिणे । त्रिकोणं मध्यमं कुण्डमुत्तरं चतुरश्रकम् । आयामस्तस्य
विस्तारस्तदर्थं खननं भवेत् । न्यूनातिरिक्तं यः कुर्यात् स भवेत्
पितृघातुकः । पादादाजानु वाऽऽजङ्घमपि वा चरणद्वयम् । कूर्परान्तं
करौ सम्यक् क्षालयेत् प्रथमं बुधः । आचान्तान् वैश्वदेवार्थान्
प्राङ्गुखानुपवेशयेत् । आसनेषु च कृसेषु ततः पैतामहान्निजान् ।
उदङ्गुखान्निवेश्यैव ततः प्रेतार्थमुत्तमम् । प्रत्युङ्गुखं निवेश्यैनं सर्वं
पित्र्यवदाचरेत् । एकोदिष्टनिषिद्धं तु यद्यदावाहनादिकम् ।
तत्सपिण्डीकृतौ प्रेते सर्वं पित्र्यवदाचरेत् ।

ச்ராத்தத்தில் குண்டங்களை ஏதாவது கட்டையினால் கல்லவும். இரும்பினால் கல்லினால் பித்ருக்கள் ஆசையற்ற வராய்ச் செல்கின்றனர். ச்ராத்தத்தில் ஒரே குண்டமாகும். அது யானையின் காலின் அளவுள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். ஸாபிண்ட்ய ச்ராத்தத்தில் மூன்று குண்டங்களாம். தென் புறத்தில் உள்ளது வர்த்துளமாயும், நடுவில் உள்ளது தரிகோணமாயும், வட புறத்தில் உள்ளது நான்கு மூலை உள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். அகலம், நீளம் எவ்வளவோ அதன் பாதியளவு ஆழம் இருக்க வேண்டும். இதற்குக் குறைவாகவோ அதிகமாகவோ செய்பவன் பித்ருக்களைக் கொன்றவனுவான், பாதம் முதல் முழங்கால், கணுக்கால் வரையில் அல்லது பாதம் மட்டில் அலம்பவும். முதலில் கைகளை மணிக்கட்டுக்கு மேல் வரையில் அலம்பவும். ஆசமனம் செய்து வைச்வதேவ ப்ராம்ஹணர்களைக் கிழக்கு நோக்கியவர்களாய்

ஆஸநங்களில் உட்கார வைக்கவும்: பிறகு பிதா மஹாத்யர்த்தர்கள் ஆனவர்களையும் வடக்கு முகமாய் உட்கார வைக்கவும். பிறகு ப்ரேதார்த்தஞன ப்ராம்ஹணனை மேற்கு முகமாய் உட்கார வைக்கவும். எல்லாவற்றையும் பிதர்ய ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் போல் செய்யவும். ஏகோத்திஷ்ட விதி யில் நிவித்தமான ஆவாஹனம் முதலியதை ஸபின்னகரணத்தில் ப்ரேதனிடத்தில் பிதர்ய ப்ராம்ஹணர்களிடத்தில் போல் செய்யவும்.

दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु त्वर्घ्यपात्रचतुष्यम् ॥ सादयेत् प्रथमं तत्र
पित्र्यं पैतामिहं ततः । प्रपितामहदेवत्यं ततः: प्रेतार्थमुत्तमम् । पात्रेषु
त्रिदलान् कूर्चनिन्तधायि तिलोदकम् । शब्द इत्यादिभिर्मन्त्रैर्निनयेत्
तेषु च क्रमात् । प्रेतशब्दं पितृस्थाने वथालिङ्गं खिया अपि । पित्रघ्यं
पितृहस्तेषु दत्वा प्रेतार्थमन्तिमम् ॥ प्रेतविप्रकरे दत्वा या दिव्या इति
मन्त्रतः । देवपूर्वं तु गन्धाद्यैर्विप्राणां पूजनं भवेत् । प्रेतोद्विष्टे विशेषेण
दधादाच्छादनादिकम् । अग्नौकरणहोमं च यथाशास्त्रं समाचरेत् ।

தெற்கு நுனியாய் உள்ள தர்ப்பங்களில் நான்கு அர்க்கய பாத்ரங்களை வைக்கவும். அவைகளுள் முதலாவது பிதாவுக்கு, பிறகு உள்ளது பிதாமஹனுக்கு, பிறகுள்ளது பிரபிதாமஹருக்கு, பிறகுள்ளது ப்ரேதனுக்கு. பாத்ரங்களில் 3-தர்ப்பங்கள் உள்ள கூர்ச்சங்களை வைத்து, திலோதகத்தை ‘சந்நி:’ என்பது முதலிய மந்த்ரங்களால் க்ரமமாய் அவைகளில் சேர்க்கவும். ப்ரேத பாத்ரத்தில் சேர்க்கையில் பித்ரு சப்தம் இல்லாமல் ப்ரேத சப்தத்தைச் சொல்லவும். ஸ்த்ரீ விஷயத்தில் விங்கத்தை மாற்றவும். பித்ரர்க்யத்தை பித்ரு ப்ராம்ஹணர்களின் கைகளிலும், ப்ரேதார்க்யத்தை ப்ரேத ப்ராம்ஹண ஹஸ்தத்திலும் ‘யாதிவ்யா:’ என்ற மந்த்ரத்தால் கொடுத்து, தேவ பூர்வமாய் ப்ராம்ஹணர்களைப் பூஜிக்க வேண்டும். ப்ரேதார்த்த ப்ராம்ஹணனிடத்தில் விசேஷமாய் வஸ்தர்ம முதலியதைக் கொடுக்கவும். அக்னெளகரண ஹாமத்தையும் சாஸ்த்ரப்படி செய்யவும்.

यथेष्टं भोजयेद्विप्रानन्बं व्यञ्जनसंयुतम् । रक्षोग्रान्
 श्रावयेन्मन्त्रान् वैष्णवान् पैतृकानपि । तृसाः स्थ इति पृष्ठास्ते तृसाः
 स्मो ब्रुवते द्विजाः । अन्बं तु विकिरेत् भूमौ दद्यादाचमनं ततः ।
 होमभोजनशेषाभ्यां पिण्डान् कृत्वा तिलान्वितान् ।
 पितामहादिपिण्डांस्तीन् दद्यात् पितृयज्ञवत् । प्रेताय दक्षिणे दद्यात्
 पिण्डं चोभयतोदकम् । करिष्ये पिण्डसंयोगमिति पृष्ठा तदाज्ञया । ये
 समाना इति द्वाभ्यां पितृपिण्डेषु योजयेत् । पिण्डसंयोजनादूर्ध्वं
 प्रेतत्वस्य निवृत्तिः । मार्जनादिषु कृत्येषु चतुर्थं विनिवर्तयेत् ।
 अभ्यर्थयेत् द्विजांस्तेऽपि प्रतिब्रूयुर्यथोचितम् । अनशेषमनुज्ञाप्य
 नमस्कृत्य निवर्तयेत् इति ।

ऋष्टप्पति प्रराम्भूणर्कौ व्याञ्जनं कर्तुनं
 कृष्टिय अन्नतं तत्तपं पुज्ञिप्पिक्कवुम् । रक्षोग्राकौ नं कौ,
 वैवश्चैव वं कौ, षपतं रुक्कं कौ न मन्त्रं रं कौ कं
 केटकं चेय्यवुम् । 'तं रुप्त्ताः लं' एन्ऱु केटकवुम् ।
 प्रराम्भूणर्कौ 'तं रुप्त्ताः लं' एन्ऱु चेाल्ल
 वेण्टुम् । पूमियिलं अन्नतं तत्त इरैक्कवुम् । पिरकु
 आपोचनं तत्तकं केाटुक्कवुम् । लेहामपोज्ञनं कौ लिल
 मीत्यूं कौ अन्नतं तत्तालं तु लं कर्तुनं चेर्ततुप
 पिण्टनं कौ चेय्तु पितामहाति पिण्टनं कौ मून्नरै
 पितं रुयज्जंक्तिलं पोलं केाटुक्कवुम् । तेन्नं पुरतं तिलं
 प्रेरतनुक्कुपं पिण्टतं तत्त 2 मार्जनं कर्तुनं
 केाटुक्कवुम् । 'पिण्टलमं योकमं करीश्चये' एन्ऱु
 केटु अवर्कौ अनुज्जंगेयिलं 'येलमाना:' एन्ऱु
 2-मन्त्रं रं कौ लिलं चेर्क्कवुम् । पिण्ट
 लमं योज्ञनम् आक्य पिरकु प्रेरतत्वम् निवर्तत्तम्
 आक्यतालं मार्जनम् मुतविय कार्ययं कौ लिलं नान्का म
 अवैन विटु लिट वेण्टुम् । अन्त प्रराम्भूणर्कौ
 प्ररार्तत्तिक्कवुम् । अवर्कर्तुम् उक्तम् आक्यपाति पति ल
 अलीक्क वेण्टुम् । अन्नै चेष्ट पोज्ञनं तत्तिन्त्रं
 अनुज्जंगे ले प्रेरत्त, नमस्करीत्तु अवर्कौ अनुप्पवुम् ।

ஸ்முதிர்தே — இதி ஬ோधாயனः ப்ராஹ ஸபிண்டிகரண் தூவன् । தஸ்யோபஸ்஥ானமாत்ரं து ப்ரெதபூர்வ மஹாமுனிஃ । ஆவாஹநாடை த்வந்திர பிதூபூர்வத்வாச்சாணாமயமர்த்தே வ்யவஸ்஥ிதः । ஏவ் ப்ரெதஸ்ய ஹி த்ரீணி பிதூணா் சைகமேவ வா । இத்யாபஸ்தம்வாக்யं ச ந விரோධிதி வெற்றதே । முஜாநாநாமிமுஞ்சேந புண்யஸூக்தானி கிர்த்யேத் । ததமிதிவாண் நாம ததப்யத்ரோचிவாந் முனிஃ இதி । புண்யஸூக்தானி - புருஷஸூக்தாடினி । பிதூஸூக்தமன்ற வஜ்யேத், நாந்஦ிமுஞ்சே எயா ஶாஞ்சே நித்யஶாஞ்சே ச மாசிகே । ஸபிண்டிகரணஶாஞ்சே ந ஜபேத் பிதூஸூக்தகம் இதி ஸ்மृதிஃ ।

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:- “ஸபிண்மைகரணத்தைச் சொல்லும் போதாயனர் இவ்விதம் சொல்லுகிறார். அதில் உபஸ்தானத்தை மட்டில் ப்ரேதனுக்கு முன்பு சொல்லுகிறார். ஆவாஹநம் முதலிய மற்ற கார்யங்களைப் பித்ருக்களுக்கு முன்பு விதித்தார். ப்ரேதனுக்கு முன்பு செய்ய வேண்டும் என்ற சாஸ்த்ரங்களுக்கு இந்த விஷயம் ஸித்தமாய் உள்ளது. இவ்விதம், ப்ரேதனுக்கு மூன்று, பித்ருக்களுக்கும் அப்படியே, எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்றும் இருக்கலாம், என்ற ஆபஸ்தம்ப வசனம் விரோதம் இல்லாதது என்று காணப்படுகிறது: பஜிக்கும் ப்ரராம்ஹனர்களுக்கு எதிரில் இருந்து புண்ய ஸலாக்தங்களைப் படிக்கவும். அது அபிச்ரவணம் எனப்படுகிறது. அதையும் இதில் முனி விதித்தார்” புண்யஸலாக்தங்கள் = புருஷ ஸலாக்தம் முதலியவை. பித்ருஸலாக்தத்தை இதில் வர்ஜிக்க வேண்டும். “நாந்திமுகம், கயாச்ராத்தம், நித்யச்ராத்தம், மாஸிகம், ஸபிண்மைகரணம் இவைகளில் பித்ருஸலாக்தத்தை ஜபிக்கக் கூடாது என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

யாஜவல்க்ய: — ஛ௌ ஦ைவே பிராக் த்ரயः பித்ய உடங்கைக்மேவ வா இதி । ஸ்முதிஸாரஸமுஞ்சே து — பூர்வ நிமந்தை ஦ைவே ஛ௌ த்ரீந் விப்ராந்

पितृकर्मणि । दैवे पित्र्येऽपि वैकैकं सपिण्डीकरणं विना इति । अतश्च द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा इत्यादौ वैकैकमिति वचनं सापिण्डच्यतिरिक्तपार्वणविषयमापद्विषयं वा ।

याज्ञंगुवलंक्यारः- तेवस्तानत्तिलं इरुवर्किम्हक्कु मुकमाकवुम्, पीत्तरु संतानत्तिलं मुवर्क वटक्कु मुकमाकवुम् इरुक्कं वेण्णुम् अल्लतु ऒवंवेवारु संतानत्तिरंकु ऒवंवेवारुवरावतु इरुक्कं वेण्णुम्. संमंगुतीलारस्मुक्षस्यत्तीलो वेणीलः- मुतलील तेवस्तानत्तिलं इरुवर्कलौ वरीत्ततु, पीत्तरु संतानत्तिलं मुवर्कलौ वरीक्कवुम् अल्लतु तेव पीत्तरु संतानंकलील ऒवंवेवारुवरायावतु वरीक्कवुम्. सपिण्णंकरणम् तवीर्त्ततु. आकेयालं, 'त्तवेळा तेवेवे पीत्तरुकार्येयेत्तर्म नेकेकमुपयत्तरवा' ऎन्पतु मुतलीयवेवकलील ऒवंवेवारुवरायावतु ऎन्ऱ वसनम् लापिण्णंत्यम् तवीर्त्तत मर्त्ततेपं पर्त्रियतु अल्लतु आपत्त कालत्तेतपं पर्त्रियतु.

सायणीये — सपिण्डीकरणेऽवश्यं विष्णुमन्यर्चयेद्विजे । सप्तकं तु तदाख्यातं विना विष्णुं कथं तथा इति । विष्णुवरणाभावे सापिण्डच्यस्य सप्तकत्वख्यातिर्मज्ज्येतेत्यर्थः । तत्रैव — इति वै देवलः प्राह शापिडल्यश्च महामुनिः । यत्किञ्चित् पार्वणश्राद्धं तत्र सर्वत्र वै द्विजे । पूजयेद्विष्णुमित्येवं श्राद्धं सिद्धचति नान्यथा इति । एवं विष्णुपुराणे ।

सायणीयत्तीलः- सपिण्णंकरणत्तीलं वीष्णुन्नुवेव अवस्यम् पूज्जीक्कवुम्. अतु एमु पोर्कलौ उटेटयतु ऎन्ऱ चेऊलप्पपट्टु उॅलातु. वीष्णुन्नु इल्लावीटिलं एप्पटि लप्तकमं ऎन्ऱ आकुम्. वीष्णुन्नु वरणमं इल्लावीटिलं लापिण्णंत्यत्तिरंकु लप्तकमं ऎन्ऱ प्रलित्ति पक्कनम् आकुमं ऎन्पतु बेपारुलं. सायणीयत्तीलोये:- इवंवीतम्

சாண்டில்யர் சொல்லுகிறார், தேவல் மஹாமுனியும் சொல்லுகிறார். பார்வண ச்ராத்தம் எதுவானாலும், அது எல்லாவற்றிலும், விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கவும். இவ்விதம் செய்வதால் ச்ராத்தம் வித்தமாகிறது. மற்றப்படி செய்தால் வித்திக்கிறதில்லை. இவ்விதம் விஷ்ணு புராணத்தில் உள்ளது.

விஷ்ணுவரணமாவே ஦ோषமாக மனு: — ஦ைவாदிந்த ஭வेत் ஶ்ராஷ் பித்ராத்தாந்த ந தத்தவேத् । பித்ராத்தாந்த தர்தான: ஶ்ராஷ்மாப்ளோதி நிஷ்கலம் இதி । சந்திரகாயாம् — ஸ்வ஧ாஶங்கம் ஧ூபாரை நம: ஶங்கம் ப்ரயோஜயேத् । நைவ் ப்ரேதே நம: ஶங்கம் உபதிஷ்டப்஦ம் ஭வேத् । விப்ரபாணாவதாஶாஸை வா ஜுஹ்யாடாஹுதி ஦்ரயம् । நிர்ஸ்தா வக்ரேக்ஜாராந் ப்ரேதஸ்ய ச யமஸ்ய ச ॥ ஸ்வாஹேதி ஜுஹ்யாடநமுக்தவைத்தோனாமனா । ப்ரேதஹஸ்தேऽபி வா ஹுத்வா மோஜயேஞ் யதாக்ரமம் । ஸம்஬ுஷ்டா நிர்஦ிஶேநாம பித்ராடிநாமஸாவிதி । யக்ஷார்மாநிமம் பிண்டமுபதிஷ்டேதி சாந்தத: । பிண்டம் சதுர்஥ ப்ரேதாய ஦்யாக்ஷிணஹஸ்தத: । ப்ரேதபாत்ரஸ்தமுடக் பித்ராத்தேஷ்வதானயேத् । ஸமானே மந்த இத்யாத்மாமृத்யாங் ஦்ராத்மாங் யதாக்ரமம் । ம஧ுநியேண சாடாய ப்ரேதபிண்டம் திரி஧ா கூதம் । ஸஸ்ச்஛ா஧மிதி ஦்ராத்மாங் பிதுபிண்டேஷு யோஜயேத् । யே ஸமானா இதி ஦்ராத்மாங் பிண்டோபஸ்தானமிஷ்யதே । பிண்டஸ்யோஜனாடூ஧்வீ ப்ரேதத்வஸ்ய நிவृத்தித: । மார்ஜனாடிஷு ஸர்வ சதுர்஥ீ விநிவர்த்தே । கேவல: பிதுஶங்கஸ்து பிதுஸாமாந்யவாசக: । பிதாமஹாடிஸம்வந்஧ம் மந்த மந்தாடிஷூஹேத் இதி ।

விஷ்ணுவரணம் இல்லாவிடில் தோஷத்தைச் சொல்லுகிறார், மனு:- ச்ராத்தம் தேவ கார்யத்தை முன்பும் பின்பும் உடையதாய் இருக்க வேண்டும். பித்ரு கார்யத்தை முன்பு உடையதாய்ச் செய்வவன் ச்ராத்த பலத்தை அடைவது இல்லை. சந்த்திரைகையில்:- ஸ்வதா என்ற சப்தம், தூபம், தீபம், நம: என்ற சப்தம் இவைகளைச் சேர்க்கவும்.

प्रेरेतन् इटत्तिलं नमस्च सप्ततत्त्वेत प्रयोगाकिक्क कृतातु.
 'उपतिष्ठ' एन्ऱ पतम् प्रयोगाकिक्कप्पत वेण्णुम्.
 प्रराम्भैण्णनीन् कैयिलावतु अक्णीयिलावतु इरण्णु
 आहौ तीकैन्सच चेय्यवुम्. अक्णीयिलिरुन्तुम्
 अन्काराङ्कैना (त्तेल्कैना) ओतुक्कि प्रेरेतनुक्कुम्
 यम्मुक्कुम् 'स्वाहा' एन्ऱ अन्नतत्त्वेत हेहामम्
 चेय्यवुम्. प्रेरेतनीन् कोत्तिरम् नामम् इवेकैन्सच
 चेाल्ली अल्लतु प्रेरेत प्रराम्भैण्णनीन् कैयिल
 हेहामम् चेय्यवुम्. पिरकु करमप्पदि पूज्ञिप्पिक्कवुम्.
 पित्रात्तिकैना नामतत्त्वेत लम्पुत्तियाय 'यज्ञुरुचरमन्'
 एन्ऱ चेाल्लवुम्. मुष्टिविल्ल प्रेरेतपिण्टतत्त्वेत
 'उपतिष्ठ' एन्ऱ नान्कावताक वलतु कैप पक्कत्तिल
 वैवक्कवुम्. पिरकु, प्रेरेतनीन् अर्क्य पात्तिरत्तिल उल्ला
 ज्ञलतत्त्वेतपि पित्रात्तिकैना अर्क्य पात्तराङ्कैनील
 चेरक्कवुम्, 'लमानेऽनामन्तरः' एन्ऱ इरण्णु
 रुक्कुकौलुम् करमप्पदि. 'मतुवाताः' एन्ऱ लुन्ऱु
 मन्त्रराङ्कौल्ल एटुत्तु प्रेरेत पिण्टतत्त्वेत लुन्ऱु
 पाकमाक्ष चेय्तु 'संक्षेत्वम्' एन्ऱ इरण्णु
 मन्त्रराङ्कौल्ल पित्रात्ति पिण्टनंकैनिल चेरक्कवुम्.
 'येसमानाः' एन्ऱ इरण्णु मन्त्रराङ्कौल्ल पिण्टनंकैना
 उपस्तानम् चेय्यवुम्. पिण्ट लम्पेयोज्ञतत्तिरकु
 मेल्ल, प्रेरेत तन्मेत निवृत्तिप्पताल मार्ज्जनम्
 मुत्तवियतु एल्लावर्न्निलुम्, नान्कामवैन
 निवृत्तिकिण्णुन्. तनीयानि पित्रु सप्तम् पित्रुक्कौल
 एल्लोरायुम् चेाल्लवतेआकुम्. पितामहैन मुत्तविय
 लम्पन्तम् उल्ला मन्त्ररत्तत्वेत मन्त्रराङ्कैनुत्तिकैनील
 ऊब्रिक्कवुम्.

'बोधायनः — मधुत्रयेण सञ्जच्छध्वं समानो मन्त्र इति
 त्रिभिद्वभ्यां वाऽर्घ्यसंसर्गः सञ्जच्छध्वं समानो मन्त्र इति द्वाभ्यां
 पिण्डसंसर्गः इति । आश्वलायनः — समानो मन्त्रः समानीव इति
 द्वाभ्या मर्घ्यसंसर्गो मधुमतीभिः सञ्जच्छध्वं समानो मन्त्र इति

त्रिभिः पिण्डसंसर्गः इति । गौतमः — ये समाना इत्यर्थसंसर्गो ये
सजाता इति पिण्डसंसर्गः इति । वैखानसः — समानो मन्त्रः
समानीव इति द्वाभ्यामर्थसंसर्गः सङ्गच्छध्वं समानो मन्त्र इति
द्वाभ्यां पिण्डसंसर्गः इति ।

போதாயனர்:- மதுவாதா: என்ற மூன்று மந்த்ரங்கள், வங்கச்சத்வம், ஸமாநோமந்த்ர: என்பது முதலாகிய 3 மந்த்ரங்கள் அல்லது 2- மந்த்ரங்கள் இவைகளால் அர்க்ய ஸம்யோஜனம், வங்கச்சத்வம், ஸமாநோமந்த்ர: என்ற 2-மந்த்ரங்களால் பிண்டஸம்யோஜனம். ஆச்வலாயனர்:- ஸமாநோமந்த்ர:, ஸமாநீவ: என்ற 2-மந்த்ரங்களால் அர்க்ய ஸம்ஸர்கம், மதுவாதா: என்ற 3-மந்த்ரங்கள், வங்கச்சத்வம், ஸமாநோமந்த்ர: என்ற மூன்று மந்த்ரங்கள் இவைகளால் பிண்டஸம்ஸர்கம். **கொதுமர்:-** யேஸமாநா: என்பதால் அர்க்ய ஸம்யோகம். யேஸஜாதா: என்பதால் பிண்டஸம்யோகம். **வைகாநஸர்:-** ஸமாநோ மந்த்ர:, ஸமாநீவ: என்ற 2-மந்த்ரங்களால் அர்க்ய ஸம்ஸர்கம், வங்கச்சத்வம், ஸமாநோமந்த்ர: என்ற 2-மந்த்ரங்களால் பிண்டஸம்ஸர்கம்.

शातातपः — निर्विच्चतुरः पिण्डान् श्रद्धया पितृनामतः ।
पिण्डं दत्वा पितृणां तु पश्चात् प्रेतस्य पार्श्वतः । तं च पिण्डं त्रिधा
कृत्वा त्वानुपूर्वात् सत्तमः । निदध्यात्निषु पिण्डेषु ह्येवं संसर्जने
विधिः इति । संसूज्यमानपिण्डाभिप्रायेण चतुरः पिण्डानित्युक्तम्,
यथास्वसूत्रं पिण्डसङ्ख्या द्रष्टव्या । द्वैधं दक्षिणाग्रा
नित्यादिनाऽपस्तम्बेन पितृमातृबर्गयोरुभयोरपि पिण्डान-
विधानात् आपस्तम्बिनः प्रेतपिण्डेन सह सप्त पिण्डान् दद्युः ।

சாதாதுபர்:- பித்ருக்களின் நாமங்களைச் சொல்லி
சிரத்தையுடன் நான்கு பிண்டங்களை வைக்கவும்.
பித்ருக்களுக்குப் பிண்டங்களைக் கொடுத்துப் பிறகு பித்ரு

पिण्ठानंकर्णिणं पक्ककर्त्तिलं प्लरेत पिण्ठात्तत्तेत वेवक्कवम्। अन्तप्पि पिण्ठात्तत्तेत मुन्नरुक्षं चेय्यतु, मुन्नरु पिण्ठानंकर्णिलं वेवक्कवम्, सम्बर्कर्त्तिलं वीति इव्वितमाम्। चेरक्कप्पगुकिणं रु पिण्ठात्तत्तेतयुम् चेरत्तु नान्कु पिण्ठानंकर्णिणं एनप्पट्टतु। अवरवर्स लात्तरप्पटि पिण्ठात्तत्तिणं लन्कंययय अर्नियवुम्। ‘त्वेवतम् तक्षिण्णुक्करान्’ एन्पतु मुत्तवीयताल, आपस्तम्पर्पर्प वित्तरुमात्तरुवर्सक्कंकर्णिणं इरण्णित्रिकुम् पिण्ठात्त तान्तत्तेत वीतित्तु इरुप्पत्ताल, आपस्तम्पर्पर्कर्णिणं प्लरेत पिण्ठात्तत्तु एमु पिण्ठानंकर्णिणं केकाटुक्क वेण्णुम्।

तथा च पितृमेधसारे — हुतशेषमिश्रैरन्वैस्तिलयुक्तैः सप्त पिण्डाननुमरणेऽष्टौ पिण्डाननेकसापिण्डचे तावतो निमित्तपिण्डान् कृत्वा उच्छिष्टसन्निधावग्रेदक्षिणतत्त्वेधा दक्षिणाग्रान् दर्मान् संस्तीर्य दक्षिणामुखस्सव्यज्ञान्वाच्य तेषु मध्यमदर्भेषु मार्जयन्तां मम पितुः पितरः इत्यादिभिः पश्चिमदर्भेषु मार्जयन्तां मम पितुमार्तिर इत्यादिभिर्दक्षिणापवर्गं मार्जयेत्। अत्र पूर्वं मातृमृतौ मार्जयन्तां मम मातर इति मार्जयित्वा मार्जनक्रमेण एतत्ते पितुस्तत इत्यादिभिः षट्पिण्डान् दत्वा ये च त्वामनु याश्च त्वामन्विति प्रतिपिण्डं दर्भमूलेषु लेपं निमृज्य मार्जयतां मम प्रेतः मार्जयतां मम प्रेतेत्यपो दत्वा अमुकगोत्रं अमुकशर्मन् प्रेतैतं पिण्डमुपतिष्ठेति प्रेतपिण्डं प्रदाय अमुकगोत्रे अमुकनाम्भिः प्रेते इति ख्यियाः ब्राह्मणाभ्यनुज्ञातः समानो मन्त्रः समानी व इति द्वाभ्यां प्रेताद्यर्थं पित्र्याद्यर्थपात्रेषु निनीय तृष्णीं प्रेतपिण्डमादाय त्रेधा विभज्य तद्भागत्रयं पित्रादिपिण्डानां पुरस्तानिधाय वैतरणीगोदानं कृत्वाऽनुज्ञासो मधुमतीभिः सङ्गच्छध्वं समानो मन्त्रः समानीव इति चतुर्भिस्तत्पिण्डैः सह त्रयं हस्ताभ्यां युगपत् संसृजेत्। एवं प्रेतपिण्डं पित्रादिपिण्डैः संसृज्य ये समाना ये सजाता इति द्वाभ्यां पिण्डानुपस्थाय संसृष्टेनाध्योदकेन मन्त्रानूहेन पूर्ववन्मार्जयेत् इति।

பித்ருமேத ஸாரத்தில்:- ஹோம சேஷான்னத்துடன் சேர்ந்தும் திலத்துடன் சேர்ந்துமுள்ள அன்னங்களால் ஏழு பிண்டங்களை, அனுமரணத்திலானால் எட்டுப் பிண்டங்களை, பலருக்கு ஸாபிண்டயமானால் அவ்வளவு நிமித்த பிண்டங்களையும் செய்து, உச்சிஷ்ட ஸன்னிதியில் அக்னிக்குத் தென்புறத்தில் தெற்கு நுனியுள்ள தர்ப்பங்களை மூன்று விதமாகப் பரப்பி, தெற்கு நோக்கியவனுய், இடது முழங்காலைக் கவிழ்த்து, அந்தத் தர்ப்பங்களுள்ளடுவிலுள்ள தர்ப்பங்களில் 'மார்ஜயந்தாம் மம பிது: பிதரः' என்பது முதலிய மந்த்ரங்களாலும், மேற்குத் திக்கிலுள்ள தர்ப்பங்களில் 'மார்ஜயந்தாம் மம பிதுர் மாதரः' என்பது முதலிய மந்த்ரங்களாலும் தெற்கில் முடிவாகும்படி மார்ஜனம் செய்யவும். இதில், முன்பு மாதா மரித்து இருந்தால், 'மார்ஜயந்தாம் மம மாதரः' என்று மார்ஜனம் செய்து, மார்ஜனம் செய்த க்ரமப்படி 'ஏதுத் தே பிதுஸ்தத்' என்பது முதலியவைகளால் ஆறு பிண்டங்களை வைத்து, 'யேச த்வாமனு, யாச்ச த்வா மனு' என்பவைகளால் ஒவ்வொரு பிண்டத்திலும் தர்ப்பங்களின் அடியில் வேபத்தைத் (கையிலுள்ளவற்றை) துடைத்து, 'மார்ஜயதாம் மம ப்ரேதः', அல்லது 'மார்ஜயதாம் மம ப்ரேதா' என்று ஐலத்தை விட்டு, '.....கோத்ரசர்மன் ப்ரேத ஏதம் பிண்டம் உபதிஷ்ட' என்று பிண்டத்தைக் கொடுத்து, '.....கோத்ரேநாம்னி ப்ரேதே' என்று ஸ்தரீக்கு. ப்ராம்ஹணர்களால் அனுஜ்ஞை செய்யப்பட்டவனுய் 'ஸமாநோ மந்தரः' 'ஸமாநீவः' என்ற மந்த்ரங்களால் ப்ரேத அர்க்யத்தைப் பித்ராதிகளின் அர்க்ய பாத்ரங்களில் சேர்த்து, மெளனமாய் ப்ரேத பிண்டத்தை எடுத்து, மூன்றுக்கச் செய்து, மூன்று பாகங்களையும் பிதா முதலியவரின் பிண்டங்களின் எதிரில் வைத்து, வைதரணீ கோதாநத்தைச் செய்து, அனுஜ்ஞையைப் பெற்றவனுய் மதுமதி மந்த்ரங்களாலும், ஸங்கச்சத்வம், ஸமாநோ மந்தரः ஸமாநீவः என்ற

4-मन्त्रं त्रन्तं कला लुम् अन्तं तप् प्रिण्टं नं कला लुम् अन्तं तप् प्रिण्टं नं कला लुम्
 प्राकतं तेतयुम् केकला लुम् औरे लमयत् तिलं चेरकं कवुम्.
 इवं वितम् प्रेरत प्रिण्टं तेतप् प्रितरा तु प्रिण्टं नं कला लुम् चेरत् तु,
 'ये लमा ना:' 'ये लज्जा ता:' एन्ऱ
 2-मन्त्रं त्रन्तं कला लुम् प्रिण्टं नं कला लुम् उपलब्धानम् चेयं तु,
 चेरकं कपपट्ट अरक्य ज्ञालतं ता लुम् मन्त्रं त्रन्तं कला लुम् उलवृक्का मलं मुन्न पोलं मार्जनाम् चेयं यवुम्.

अत्र याज्ञवल्क्यः — सर्वमन्त्रमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः ।
 उच्छिष्ठ सन्निधौ पिण्डान् दद्यादै पितृयज्ञवत् इति । सर्वमन्त्रमिति
 पायसापूपफलादीत्यर्थः । बोधायनः — सर्वोपकरणैर्यथोपपादनं
 संपूज्य अक्षयं वाचयित्वैवं स्वधां वाचयित्वा उत्थाप्योपसङ्घृह्य
 प्रसाद्य प्रदक्षिणीकृत्य अनुब्रज्य यथेत्मेत्य दक्षिणेनाग्निं दर्भान्
 संस्तीर्य तेष्वनशेषैः पिण्डान् ददाति नोच्छिष्ठं परिसमूहत्य पिण्डान्
 ददाति इति । आपस्तम्बः — भुक्तवतोऽनुब्रज्य प्रदक्षिणीकृत्य
 द्वैधं दक्षिणाग्रान् दर्भान् संस्तीर्य इत्यादि । आश्वलायनः —
 भुक्तवत्स्वनाचान्तेषु पिण्डान् दद्यादाचान्तेषु इत्येके इति ।
 जमदग्निः — नदी वैतरणीनाम दुर्गन्धरुधिरावहा । कृष्णतोया
 महावेगिन्यस्थिकेशतरज्जिणी ॥ दत्ता गौर्येन सापिण्डये स तां तरति
 नेतरः । अकृते तत्र पच्यन्ते प्रायश्चित्ते तु पापिनः । विभक्तं
 प्रेतपिण्डं तु पितृपिण्डेषु योजयेत् । तृचेन मधुवातेति सङ्गच्छधं
 तृचेन चेति । स्मृत्यर्थसारे — सपिण्डीकरणेष्वेतान् पिण्डानप्स्वेव
 निक्षिपेत् । अन्यथाकरणे तेषां पितृदेवा रुदन्ति हि इति ।

याज्ञवल्क्यार्यः— अन्नाम् नलं लावरं रेयम्
 त्रिलत्तु लुम् चेरत् तु एत् तु, तेत्रं तु नोक्कियवलुम्
 उक्षिष्ट लन्ननीति यिलं प्रिण्टं नं कला लुम् प्रितरु यज्ञं गुत् तिलं
 पोलं केकात् कवुम्. 'लर्वमन्नाम्' एन्ऱत्रं तप् उपलब्धानम्
 प्रायसापूप पलन्कलं मुतलीयवै एन्ऱु पोलुन्.

போதாயனர்:- எல்லா உபகரணங்களாலும் ஸம்பவித்த வரையில் பூஜித்து, அகஷம்யவாசனம், ஸ்வதாவாசனம் இவைகளைச் செய்து, எழுப்பி, நமஸ்கரித்து, ப்ரஸாதநம் செய்து, ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, பின்சென்று, சென்றபடி திரும்பி வந்து, அக்னிக்குத் தென் புறத்தில் தெற்கு நுனியாய்த் தர்ப்பங்களைப் பரப்பி, அவைகளில் பிண்டங்களைக் கொடுக்கவும். உச்சிஷ்டத்தை மெழுகுவதற்கு முன் பிண்டதானம் கூடாது. ஆபஸ்தம்பரஸ்:- புஜித்த ப்ராம்ஹணர்களைத் தொடர்ந்து சென்று ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, பிறகு, 2-ப்ரகாரமாய், தெற்கு நுனியுள்ளதாய், தர்ப்பங்களைப் பரப்பி, என்பது முதலியவை. ஆச்வலாயனர்:- புஜித்த ப்ராம்ஹணர்கள் புஜித்த பிறகு ஆசமனம் செய்வதற்கு முன் பிண்டதானம் செய்யவும். ஆசமனம் செய்தபிறகு எனகின்றனர் சிலர். **ஐமத்கனி:-** வைதரணீ என்னும் நதி துர்நாற்றமுள்ள ரக்தத்துடன் கூடியதாய், கறுத்த தண்ணீருள்ளதாய், மஹாவேகமுள்ளதாய், எலும்பு மயிர் இவைகளுடன் கூடிய அலைகளுடையதாய் உள்ளது. எவ்வளவு ஸாபிண்டயத்தில் பசு கொடுக்கப்பட்டதோ அவன் அந்த நதியைத் தாண்டுவான். மற்றவன் தாண்டுவதுதில்லை. ப்ராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளாவிடில் பாபிகள் அந்த நதியில் துன்புறுகிறார்கள். (மூன்றாய்) பிரிக்கப்பட்ட ப்ரேத பிண்டத்தைப் பித்ரு பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும். மதுவாதா: என்ற மூன்று ருக்குகளாலும், ஸங்கச்சத்வம், முதலிய 3-ருக்குகளாலும். ஸ்மர்த்யர்த்த ஸாரத்தில்:- ஸபிண்மகரணங்களில் இந்தப் பிண்டங்களை ஜலத்திலேயே போடவேண்டும். வேறு விதம் செய்தால் அவர்களின் பித்ரு தேவர்கள் கண்ணீர் விடுகின்றனர்.

அாஶ்லாயநோட்பி — பத்யா் ரஜஸ்வலாயா் ச
வ்யாධிதாயாம஥ாபி வா | பிக்ஷிபேந்மध்யம் பிண்ட் ஜலே ஗வ்யத்வாடனலே |
பதிதாயா் ச வா பத்யா் மூதாயா் ச தथா டிஜ: | ஸபிண்டீகரணே சைவ

मध्ये पिण्डं तथा चरेत् । वृद्धिश्राद्धे सपिण्डचां च
प्रेतश्राद्धेऽनुमासिके । संवत्सरविमोक्षे च न कुर्यात्तिलतर्पणम् ।
नवश्राद्धानि मिश्राणि सपिण्डीकरणं तथा । कृत्वा तु विधिवत्
स्नायान्नैव स्नायान्मृतेऽहनि इति । मिश्राणि - सपिण्डीकरणात्
पूर्वभावीनि षोडशश्राद्धानीति व्याख्यातारः ।

आुच्चवलायनारुमः:- पत्तें रजुस्वलैयाय
इरुन्तालुम्, व्यातियुर्ध्वं इरुन्तालुम्, नदुप्पि
पिण्टत्तेत ज्ञलत्तिलं पोटवुम्. अल्लतु कोवक्कुक्कं
केकाटुक्कवुम्. अल्लतु अक्कियिलं पोटवुम्. पत्तें
पत्तियेयाय इरुन्तालुम्, मरुत्तियेय अटेटन्तं
तिरुन्तालुम्, लपिण्णमकरणत्तिलुम्, नदुप्पिण्टत्तेत
मुन्न चेळव्वियपटि चेय्यवुम्. नान्त्ति चरात्तत्तत्तिलुम्,
लपिण्णमकरणत्तिलुम्, प्रेरेत चरात्तत्तत्तिलुम्,
अनुमालीकत्तिलुम्, लाम्बवत्त्तिलुम्, विमोक्ष
त्तिलुम्, तिलतर्पपणत्तेतच चेय्यकं कूटातु.
नवचरात्तत्तंकलं, मिचरंकलं, लपिण्णमकरणम् इवेक्कैः
चेय्यत पिऱ्कु वित्तिपपटि लन्नाणम् चेय्यवुम्.
प्रत्याप्तिकम् चेय्यत पिऱ्कु लन्नाणम् चेय्यकं कूटातु.
मिचरंकलं लपिण्णमकरणत्तिलुम् चेय्यप्पटुम्
चेष्ठाटच चरात्तत्तंकलं एन्किन्नरन्नर व्याक्याणम्
चेय्यपवर्कलं.

मातृसापिण्डचविधिः

मातुः सपिण्डीकरणमाह शङ्खः — मातुः सपिण्डीकरणं कथं
कार्यं भवेत् सुतैः । पितामह्यादिभिः सार्धं सपिण्डीकरणं स्मृतम्
इति । विज्ञानेश्वरीये — पितामह्यादिभिः सार्धं सपिण्डीकरणं
सुतः । मातुः कुर्वीत पित्राद्यैः पितुः कुर्याद्याविधि इति । मातुः
पितामह्यादिभिः सार्धमिति सम्बन्धः ।

மாத்ருஸாபிண்ட்ய விதி.

மாதாவின் ஸாபிண்ட்யத்தைச் சொல்லுகிறார், சங்கர்:- மாதாவின் ஸாபிண்ட்யத்தைப் புத்ரர்கள் எப்படிச் செய்ய வேண்டும். பிதாமஹீ முதலியவருடன் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்ய வேண்டும். விக்ஞாநேச்வரீயத்தில்:- மாதாவின் ஸாபிண்ட்யத்தைப் பிதாமஹீ முதலியவர்களுடனும், பிதாவின் ஸாபிண்ட்யத்தைப் பிதாமஹாதிகளுடனும் செய்யவும்.

காஸ்யப: — யோஜயேந்மாதுராச்சீ சத்தை தூஷ்யா மாநாடிஷு திஷு । ஏவ் தி஧ா கூட பிண்ட திஷு பிண்டேஷு யோஜயேத் இதி । மாநாடிஷு - பிதாமஹாடிஷு । ப்ரமீதபிதृகஸ்ய விகலபமாஹயமः — ஜீவத்பிதா பிதாமஹா மாது: குர்யாத் ஸபிண்டதாம் । ப்ரமீதபிதृகः பிதா பிதாமஹாத்வா சுத: இதி । லோகாக்ஷிரபி — பிதாமஹாடி஭ிஃ: ஸார்஧ மாதர் து ஸபிண்டயேத் । பிதரி ஧ியமானே து தென வோபரதே ஸதி இதி । அந்வாரோஹணே து ஭ந்வை ஸபிண்டங்வ் நியதம் । ததாஹ ஶாதாதப: — மூதா யாத்நு஗தா நா஥் ஸா தென ஸஹபிண்டதாம் । அஹ்தி ஸ்வர்஗வாஸேதபி யாவாமூதஸ்மஸ்வம் இதி ।

காச்யபர்:- மாதாவின் அர்க்யத்தைப் பிதாமஹ்யாதிகளின் அர்க்யத்தில் இரண்டு ருக்குகளால் சேர்க்கவும். இவ்விதம் 3-பாகங்களாக்கப்பட்ட பிண்டத்தை மூன்று பிண்டங்களில் சேர்க்கவும். பிதா இல்லாதவனுக்கு விகல்பப்பத்தைச் சொல்லுகிறார். யமன்:- ஜீவ பிதாவாய் உள்ளவன் மாதாவுக்கு ஸாபிண்ட்யத்தைப் பிதாமஹியோடு செய்யவும். பிதா இல்லாத புத்ரன் பிதாவோடு அல்லது பிதாமஹியோடு ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். லோகாக்ஷியும்:- பிதா ஜீவித்திருக்கும் போது மாதாவுக்கு ஸாபிண்ட்யத்தைப் பிதாமஹ்யாதிகளுடன் செய்யவும். பிதா இறந்த பிறகு பிதாவுடனுவது,

पीतामूर्ख्यातीकर्णुत्तमवतु चेष्यवुम्. अनुमरणं विषयत्तिलो वेणिलं पर्त्तावृत्तेनेये पिण्ठै सम्योगमं नियतम्. अतेऽच चेषाल्लुकिरुर्, कात्तात्पारः-पर्त्तावेव अनुसरीत्तु अनुमरणमं चेष्यतवै एव लो अवै एव पर्त्तावेऽनु लोपीण्ठै यत्तिर्कु उरीयवला किरुं. प्ररूपायकालमं वरयीलं स्वरक्क वास्तुत्तिर्कु मं उरीयवला किरुं.

यमः - पत्या चैकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं त्रियाः । सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिव्रतैः इति । अत्र एकशब्दः पितामह्यादिविकल्पव्यावृत्त्यर्थः । षट्त्रिंशन्मतेऽपि — मातुः सपिण्डीकरणं पत्या सार्धं विधीयते । यस्मात् पतिव्रतानां तु सैव सञ्चतिरिष्यते इति । शङ्खश्च — अन्वारोहे तु भ्रौब मातुस्सह सपिण्डनम् इति । स्मृतिसारसमुच्चये — परेद्युरनुयाने तु मरणाहक्रमेण तु । दहनादिसपिण्डचन्तं सहकुर्याद्यथाविधि । पिण्डं दत्त्वा स्वधां तस्याः भर्तृपात्रे निनीय तु । मन्त्रेषै तु तत् पात्रं पितृपात्रेषु सेचयेत् । भर्तृपिण्डेन संसृज्य पितृपिण्डैस्तु संसृजेत् इति ।

यमानः:- स्वरक्कु लोपीण्ठै करणमं पर्त्ताऊवनुत्तमेये चेष्यप्पत्त वेणुंतुम्. इरन्तालुमं अवै पर्त्तावृत्तै ज्ञक्यत्तेत मन्त्रम्, आहुति, वरतमं इवेकला अटन्तु लो अल्लवा. रुलत्तिलं उलो 'ऋकेन' एन्नै चप्तमं पीतामूर्ख्यातीकर्णुत्तै लोपीण्ठै विकल्पपम् इलै एन्पत्तर्कामं. षष्ठीरीसन्मतत्तिलुमः:- मातावृक्कुप्पत्तियै लोपीण्ठै वित्तिकप्पत्तु किरतु. एनेनीलं, पतिवरतेतकर्णक्कु अतु वेप्पराच्छारमाय वित्तिकप्पत्तु किरतु. चन्द्रकरुमः:- अनुमरणं विषयत्तिलं मातावृक्कु लोपीण्ठै तत्तप्पत्तियै लोपीण्ठै चेष्य वेणुंतुम्. स्वरक्कु लोपीण्ठै चेष्यत्तिलः:- मरुनालीलं

அனுகமனம் செய்தாலோ வெனில், மரண தினம் முதற் கொண்டே தஹநம் முதல் ஸபிண்ணகரணம் வரையில் சேர்த்தே விதிப்படி செய்யவும். பிண்டத்தைக் கொடுத்து அவளது அர்க்யத்தைப் பர்த்தாவின் அர்க்ய பாத்ரத்தில் சேர்த்து, அந்த அர்க்யத்தை மந்த்ரத்துடன் பித்ரு பாத்ரங்களில் சேர்க்கவும். மாத்ரு பிண்டத்தைப் பித்ரு பிண்டத்துடன் சேர்த்து, அதைப் பித்ரு பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும்.

விஶ்வாதரே — ஸ்ரீபிண்஡ே பதிபிண்஡ே தத்து தா
பித்ராதி஭ிர்மிஶ்ரயேத் இதி । சந்஦ிகாயா் விஶேஷோऽभिहितः — ஦शாष்
஛ாதா விப்ராந்திமந்திய ஛ாதாஸோऽஹனி । ஦்வி஧ாஸ்துதேஷு ஦ர்மேஷு த்வர்யபாत்ர
பித்ரகல்பயேத் । பித்ராதேஶ புரஶ்வை மாதாதேஸ்தத்தந்தரம் ।
பித்ராதேஶமுடக் க்ரமாத் பைதாமஹாதிஷு । யே ஸமாநா இதி ஛ாம்யா்
மந்த்ராம்யா் யோஜயேத் க்ரமாத் । யோஜயேந்மாதுராத்தீ ச த்வர்யம்யா் மாதாதிஷு
த்ரிஷு । ஏவ் த்ரி஧ாகृத் பிண்஡ பிண்஡ேஷு த்ரிஷு யோஜயேத் । பித்ரோ:
ஸஞ்சாதமரणே த்வநுயானவி஧ிஃ ஸ்மृதः இதி । எத்த — ஦ைவ பித்ரயச்ச
தன்த் ஸ்யாந்திமித்த பித்ரபூரூபம் । பிண்஡ ஦த்வா ஸ்வ஧ா் தஸ்யா ஭ர்தூபாதே
நிநீய ச இத்யாதிவசனவிரோධாத் திஷ்டசாராமாவாச
அனாதாரணீயம் ।

விச்வாதர்சத்தில்:- ஸ்த்ரீ பிண்டத்தைப் பதிபிண்டத்துடன் சேர்த்த பிறகு அதைப் பித்ராதீ பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும். சந்த்ரிகையில்: விசேஷம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது:- 10-8 அல்லது 12-ப்ராம்ஹணர்களை வரித்து, 12-ஆவது நாளில், இரண்டு விதமாகப் பரப்பப்பட்ட தரப்பங்களில் அர்க்ய பாத்ரத்தை வைக்கவும். முதலில் பிதா முதலியவர்க்கும், பிறகு மாதா முதலியவர்க்கும். பிதாவின் அர்க்ய பாத்ரத்தில் உள்ள ஜலத்தைப் பிதாமஹாதிகளின் அர்க்ய பாத்ரங்களில் ‘யே

समान्नाः' एन्पतु मुत्तलाक्षिय २-मन्त्रं राङ्कणालं कर्ममायच्च
चेरक्कवुम्. मातावीन् अर्क्यत्तेतयुम् षष्ठि गुंक्कुकणालं
मात्तरात्त्यर्क्याङ्कणीलं चेरक्कवुम्. इव्वितम् लुन्नरुक्कच्च
चेय्यप्पट्ट पिण्टत्तेत लुन्नरु पिण्टन्कणीलुम्
कर्ममाक्कच्च चेरक्कवुम्. माता पिताक्कणीन् लग्नकात
मरणत्तिलुम् अनुकमन वित्तिये चेल्लप्पट्टु
उल्लातु. इव्वितम् चेल्ललियतु, “तेतवमुम् पितर्यमुम्
लुन्नरु. निमित्तम् छव्वेवागुवरुक्कुम् तणी. पिण्टत्तेतक्क
केआउत्तु अवगुट्टय अर्क्यत्तेतप् पर्त्तावीन्
पात्तरत्तिलं चेरत्तु” एन्पतु मुत्तलाक्षिय वसन्नंकणुट्टन्
विरोधिप्पत्तालुम्, चिष्टाचारम् इल्लात्तालुम्
उपेक्षीक्कत्तक्कत्तु आकुम्.

गालवः — एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ ।
एकोद्दिष्टं षोडशं च भृत्याकादशेऽहनि । द्वादशेऽहनि सम्प्रासे
पिण्डमेकं द्वयोः क्षिपेत् । पितृपिण्डेन संयोज्य मातृपिण्डं पुनस्तथा ।
पितामहादि पिण्डेषु विभज्य विनियोजयेत् इति । वसिष्ठस्तु —
अनुयाने तु पतिना सपिण्डीकरणं सह । अन्तधाय तृणं मध्ये
भर्तृशशुरयोरपि इति । यमोऽपि — तृणीं दम्पतिपिण्डार्थं
कुञ्जैरन्तरयन् पितृन् । शशुरस्याग्रतो यस्माच्चित्तः प्रच्छादनक्रिया ।
पुत्रैर्दर्भेण सा कार्या मातुरभ्युदयार्थिभिः इति ।

कालवरः:- मरीत्त तम्पतिकाल, उरु चित्तयिलं
समेल्सकरीक्कप्पट्टालं, एकोत्तिष्टामुम् खेषाटचमुम्
पर्त्तावीन् 11-आवतु तिनत्तिलं, 12-आवतु नालीलं
इरुवरुक्कुम् छव्वेवागु पिण्टत्तेतक्क केआउक्कवुम्.
मात्तरु पिण्टत्तेतप् पित्तरु पिण्टत्तुट्टन् चेरत्तु, अतेत
लुन्नरु पाकमाक्कच्च चेय्यतु पितामहाति पिण्टन्कणुट्टन्
चेरक्कवुम्. वलिष्टरोविवेणीलः- अनुमरण
विषयत्तिलेला वेणील, पत्तियुट्टन् चेरन्तु
सपिण्टलकरणाम्, पर्त्ताच्च चवसरन् इरुवरुक्कुम् नउविलं

த்ருணத்தைப் (தர்ப்பத்தை) போட்டுச் செய்யவும். யமனும்:- தம்பதிகளுக்குப் பிண்டம் கொடுப்பதற்காக மந்த்ரம் இல்லாமல் குசங்களால் பித்ரு பிண்டங்களை மறைக்கவும். மாமனூர் முன்னிலையில் மர்யாதைக்காகச் சிரல்லை மூடிக் கொள்வது வழக்கமானதால், நன்மையை விரும்பும் புத்ரர்கள் தர்ப்பங்களால் மாதாவின் நடுவில் மறைவைச் செய்ய வேண்டும்.

஬ஹுபல்யநுமரणே து — நிமித்தபிண்டமேகைக் கீர்த்தனை
க்ரமாத् இதி ஸ்மரணாத् பிண்டபல்யேகைக் கீர்த்தனை
மன்றாவுத்தா ஸ்ஸுஜேத் து ஬ஹுபல்யீகபக்ஷே து மன்றாவுத்தி: புன: புன: |
விமஜ்ய பிண்ட ஦த்தா நு ஗ார்ய்ஸ்ய வசன் ததா இதி ஸ்மரணாத் |

அநேகம் பத்னிகளின் அனுமரண விஷயத்திலோ வெனில், “நிமித்த பிண்டத்தைத் தனித்தனியாகக் கொடுத்து, அவைகளுடன்க்ரமமாய்ச் சேர்க்க வேண்டும்” என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால், ஒவ்வொரு பத்னிக்கும் ஒவ்வொரு பிண்டத்தைக் கொடுத்து, ஜ்யேஷ்ட க்ரமமாய் விபாகம் செய்து, மந்த்ரத்தை ஆவ்ருத்தி செய்து ஸ்ம்ஸர்க்கம் செய்யவும். “அநேக பத்னிகளுள்ளவன் விஷயத்தில் அடிக்கடி மந்த்ராவ்ருத்தி, பிண்டத்தை விபாகம் செய்து சேர்க்கவும்” என்று கார்க்யான் வாக்யம் என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது. மாதா பிதாக்களுக்குச் சேர்ந்து மரண விஷயத்திலும், மாதாவின் பிண்டத்தைப் பித்ரு பிண்டத்துடன் சேர்த்து, அந்தப் பிண்டத்தை மூன்று பாகமாக்கி, பிதாமஹாதி பிண்டங்கள் மூன்றில் சேர்க்கவும். ‘மாதா பிதாக்களுக்கு ஸங்காத மரணமாகில் அனுகமனவிதி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற விஷயத்தில் தனியாகவே செய்யவும் என்றார் பிதாமஹர்’ என்று ஸ்ம்ருதி.

ஸ்மृத்யர்஥ஸரை — அனுமரணே ஸஹமரணே ச தஸ்யா அர்யபிண்டை
பத்யுராச்சு பிண்டாஸ்யா பூர்வ ஸ்ஸுஜேத் பஞ்சாத்யபிண்டை திரு விமஜ்ய

पित्राद्यर्थ्यपिण्डैः पूर्ववत् संसृजेत् इति । एवच्च पितुः सपिण्डीकरणे प्रेताद्यर्थ्यपिण्डौ त्रिधा विभज्य पित्राद्यर्थ्यपिण्डैः संसृजेत् । (मातुः सपिण्डीकरणे प्रेताद्यर्थ्य पित्राद्यर्थ्यैः संसृज्य प्रेतपिण्डं पितामह्यादि पिण्डैः संसृजेत्) प्रमीतपितृकस्तु पित्रादिपिण्डैः पितामह्यादि-पिण्डैर्वा संसृजेत्, पितामह्यादिपिण्डसंसर्गः शिष्टाचारानुग्रुणः । अनुमरणे सहमरणे च तस्या अद्यर्थ्यपिण्डौ पत्युरर्थ्यपिण्डाभ्यां पूर्वं संसृज्य पश्चादर्थ्य पिण्डौ त्रेधा विभज्य पित्राद्यर्थ्यपिण्डैः पूर्ववत् संसृजेदिति विवेकः ।

संमंगुरुत्यार्त्तसारात्त्विलः- अनुमरणत्तिलुम्, चेरन्तु मरणत्तिलुम्, लंतर्मीयिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञाप पत्तियिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञानं मुतविलं चेरत्तु, पिऱकु अन्त अर्क्य पिण्टनंकज्ञान् मुन्नरुक्प पिऱत्तु, पित्तरात्तिकज्ञिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञानं मुन् पोलं चेरक्कवुम्. इवंवितम् इरुप्पत्तालं, पिताविन् लपिण्टमकरणत्तिलं प्रेरतनिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञान् मुन्नरुक्प पिऱत्तु, पिता मुतवियवरिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञानं चेरक्कवुम्. 'माताविन् लपिण्टमकरणत्तिलं प्रेरत अर्क्यत्तेतप पित्तरात्तिकज्ञिन् अर्क्यनंकज्ञानं चेरत्तु, प्रेरत पिण्टत्तेतप पितामल्याति पिण्टनंकज्ञानं चेरक्कवुम्.' पिता इरन्तवग्ने वेणिलं पित्तराति पिण्टनंकज्ञोटावतु, पितामल्याति पिण्टनंकज्ञोटावतु चेरक्कवुम्. पितामल्याति पिण्टनंकज्ञानं चेरप्पतेचिष्टा सारत्तिन्कु एर्हतु. अनुमरणत्तिलुम् लहरमरणत्तिलुम्, अवलीन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञाप पत्तियिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञानं मुतविलं चेरत्तु, पिऱकु अर्क्य पिण्टनंकज्ञान् मुन्नरुक्प पिऱत्तु, पित्तरात्तिकज्ञिन् अर्क्य पिण्टनंकज्ञानं मुन् पोलं चेरक्कवुम् ऎन्पतु विळक्कम्.

தथா ச— பிதாமஹாடிமி: ஸார்஧ ஸபிண்டிகரண் ஸமृதம் இதி பூர்வக்தஶஸ்தாடிவசனானி தத்திப்பட்டஸ்ஸங்஗ாமிப்ராயாणி ந து ஶாஷ்வெவதாப்ரதிபாடனபராணி, ஶாஷ்வெவதாஸ்து ஸர்வ பிதாடயः, த எவ ஭ோஜனீயா: | தथா விஜானேஶ்வர: — ஸபிண்டிகரணஶாஷ்வ ஦ேவபூர்வ நியோஜயேத் | பிதூநேவாஶயேத்திர புன: ப்ரேத ச நிர்஦ிஶேத் இதி |

அவ்விதமே, ‘பிதாமஹீ முதலியவருடன் ஸபின்மைகரணம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது’ என்று முன் சொல்லப்பட்ட சங்கர் முதலியவரின் வசனங்கள், அந்தந்தப் பின்டங்களுடன் ஸம்ஸர்க்கத்தில் தாத்பர்யத்தை உடையவைகளே, இதன்றி ச்ராத்த தேவதைகளைச் சொல்வதில் தாத்பர்யம் உள்ளவைகள் அல்ல. ச்ராத்த தேவதைகளோ வெனில் பிதா முதலியவர்கள். அவர்களே புஜிப்பிக்கத் தக்கவர்கள். அவ்விதம், விஜ்ஞாநேஷ்வரர்:- ஸபின்மைகரண ச்ராத்தத்தைச் தேவபூர்வமாய் வரிக்கவும். அதில் பிதருக்களையே புஜிப்பிக்கவும். மறுபடி ப்ரேதனை வரிக்கவும்.

ஸ்மृத்யந்தரே ச — மாது: பிதுஶ ஸாபிண்ட்சே பிதாடிநேவ ஭ோஜயேத் | பிதாமஹாடிமி: ஸார்஧ மாது: குர்யாந்மூதேஹனி இதி | அந்யत்ராபி — ஸாபிண்ட்சே ஹுமயநாபி பிதரஶைவ ஦ேவதா: | ஸ்திராமார்ய் து பிதாடை நயேதிப்பட்டஸ்தியாடிஷு இதி | பிதாடிநா ஭ோஜநவி஧ாநாத்தேஷாமேவார்யஸஸ்தாவாத் ஸ்திரமூதை ப்ரேதார்ய் பிதார்ய்யை: ஸஂஸ்தேத், பிதாமஹாடேமோஜிநாமாவேஹி பிண்டாநவி஧ாநாத் ஸ்திரபிண்ட் பிதாமஹாடிபிண்டேஷேவ யோஜயேதித்யர்஥: |

மற்றெரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- மாதா, பிதா இவர்களின் ஸாபின்ட்யத்தில் பிதா முதலியவர்களையே புஜிப்பிக்கவும். மாதாவின் ம்ருதாஹி ச்ராத்தத்தில் பிதாமஹீ முதலியவருடன் சேர்த்துச் செய்யவும். மற்றெரு

संमंगुतीयिलुमः— “सा पिण्टयम् इरण्टिलुम् पित्रात्तिकौलो तेवतेतकौला. संतरीकौलीन् अर्क्यत्तेतप् पित्रात्तिकौलीन् अर्क्यत्तिलं चोरक्कवुम्. पिण्टत्तेता संतरीकौलीन् पिण्टान्कौलीलं चोरक्कवुम्.” पित्रात्तिकौक्कुप् पोज्जनम् वित्तिक्कप्पत्तु इरुप्पत्ताल, अवर्कौक्केके अर्क्यम् इरुप्पत्ताल, संतरी मंगुतीयिलं प्परेत अर्क्यत्तेतप् पित्रात्तयर्क्यन्कौलुन् चोरक्कवेण्टुम्. पितामहै मुत्तवियवर्क्कुप् पोज्जनम् इल्लाविष्टिनुम् पिण्टत्तान् विति इरुप्पत्ताल मात्तरु पिण्टत्तेतप् पितामहैयाति पिण्टान्कौलेये चोरक्कवेण्टुम् एन्पत्तु बेपारुला.

स्मृत्यन्तरे — स्त्रीमृताहे क्षियो भोज्याः पितरः स्त्रीसपिण्डने। पित्रादेव होमः स्यात् पिण्डदानं तु वर्गयोः इति। पितरः - जीवपितृकस्य पितामहादयस्त्रयः। प्रमीतपितृकस्य पित्रादयस्त्रयः श्राव्यदेवताः, तेषामेव भोजनं होमश्च, होममन्त्रेषु च ऊहोऽस्ति, पिण्डदानं तु पित्रादेः पितामहादीनां तिसृणां चेत्यर्थः। रुद्रस्कन्दे च — स्त्रीणां सापिण्डच्चे भर्तुः पित्रादिभ्यः पिण्डं दद्यात्तथैव तेषां स्त्रीभ्यः इति। अतः पितामहादीनां भोजनाभावेऽपि पिण्डदानसञ्चावात् पितामहादिपिण्डैर्मातृपिण्ड-संयोगो युज्यते॥

हारं संमंगुतीयिलः- संतरी मंगुताहृत्तिलं संतरीकौलाप बूज्जीप्पिक्कवुम्. संतरी सा पिण्टयत्तिलं पित्रात्तिकौलाप बूज्जीप्पिक्कवुम्. खेलामम् पिता मुत्तवियवर्क्केके. पिण्टत्तानमें वेणीलं इरण्टु वर्क्कन्कौक्कुम्. मुलत्तिलुलो ‘पितरः’ एन्पत्ताल, ज्ञीवपितावाय उल्लंबवानुक्कुप् पितामहैन् मुत्तविय मुवरुम्, अज्ञीवपित्तरुकौक्कुप् पिता मुत्तविय मुवरुम् चरात्त तेवतेतकौला. अवर्कौक्केके बोज्जनमुम् खेलाममुम्. खेलाम मन्त्ररन्कौलीलं ऊहैम् उण्टु. पिण्टत्तानमें

வெனில் பிதா முதலியவர்க்கும், பிதாமஹீ முதலிய மூவர்க்கும் என்பது பொருள். ருத்ரஸ்கந்தத்திலும்:- “ஸ்தர்களின் ஸாபிண்டயத்தில் பர்த்தாவின் பித்ராதிகளுக்குப் பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். அவ்விதமே அவர்களின் ஸ்தர்களுக்கும் கொடுக்கவும்.” ஆகையால் பிதாமஹீ முதலியவர்க்குப் போஜனம் இல்லாவிட்டும் பிண்டதானம் இருப்பதால், பிதாமஹ் யாதி பிண்டங்களுடன் மாத்ரு பிண்ட ஸம்யோகம் உபயன்னம் ஆகிறது.

தथா ச பிதृமेधसारे — பुंसः ஸ்த्रिया வा ஸாபிண்டचे பித்ராदிநேவ வृண्यात्, புंஸः பிண்஡ं பித்ராदிபிண்஡ैः ஸ்ஸுजेत्, ஸ்த्रियः பிண்஡ं ஶश்ராதிபிண்஡ैரோவானுமृतौ பत्या இதि । அत्र கேचி஦ாஹः — பிதாமஹாதி஭िः ஸார்஧ ஸபிண்டிகரणं ஸ்மृதம् இதி ஶங்காதிவசனானி மாதृஸாபிண்டचே பிதாமஹாதிமோஜனபராणி, ந து பிண்஡ஸ்ஸர்஗- மாநாமிப்ராயாणி, பிதுநேவாஶயேத்த இத்யாदிநி து அனுமृத- விஷயாணி, அனுயானே பித்ராदிபிண்஡ேஷே தத்பிண்஡ஸ்ஸ்யோग-வி஧ானாத् மோஜனம்பி தேஷாஂ தत्र யுஜ்யதே இதி ।

பித்ருமேதஸாரத்தில்:- புரஷனுடைய ஸாபிண்டயத்திலும், ஸ்தர்யினுடைய ஸாபிண்டயத்திலும் பித்ராதிகளையே வரிக்கவும். புரஷனின் பிண்டத்தைப் பித்ராதி பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும். ஸ்தர்யின் பிண்டத்தை அவளது மாமியார் முதலியவரின் பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும். அனுமரண விஷயத்தில் பதிபிண்டத்துடன் சேர்க்கவும். இதில் சிலர் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர்:- ‘‘பிதாமஹ் யாதி பிஸ் ஸார்த்தம் ஸபிண்டகரணம் ஸ்ம்ருதம்’’ என்ற சங்கர் முதலியவரின் வசனங்கள், மாத்ரு ஸாபிண்டயத்தில் பிதாமஹ் யாதி களுக்குப் போஜன விதியில் தாத்பர்யம் உள்ளதை, பிண்ட ஸம்ஸர்க்கத்தை மட்டில் விதிப்பதில் அபிப்ராயம்

உள்ளவை அல்ல. ‘பித்ருநேவாசயேத்தத்ர’ என்பது முதலிய வசனங்களிலோ வெனில் அனுமரணத்தைப் பற்றியவை. அனுமரணத்தில் பித்ராதி பிண்டங்களிலேயே ஸ்த்ரீபிண்ட ஸம்யோகம் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதால் போஜனமும் அவர்களுக்கு யுக்தம் என்கிறது” என்று.

अपरे पुनराहुः — सपिण्डीकरणं पित्रोः पितृयज्ञविधानतः
इति समरणात् पिण्डपितृयज्ञे च पिण्डत्रयविधानात् पिण्डपितृयज्ञे च
पिण्डत्रविधानात् तिलयुक्तेन चानेन पिण्डांस्त्रीनेव पुत्रकः ।
पितृनुदिश्य दर्भेषु कुर्यादुच्छिष्टसन्धिधौ इति विधानात्,
कात्यायनाश्वलायनादिभिश्च पिण्डपितृयज्ञप्रकारेण पार्वण पिण्ड-
विधानात्, तत्र पित्रादीनां भोजने पितामहादीनां पिण्डदानस्या-
नौचित्यात्, पिण्डपितृयज्ञविधानेनानुष्टातृणां मातृसापिण्डये
पितामहादीनामेव भोजनम्, पितामहादि पिण्डैवं मातृपिण्ड-
संसर्गः पितामहादिभिः सार्धं सपिण्डीकरणं स्मृतम् इत्यादीनि च
पिण्डत्रयवतां पितामहादि भोजनपिण्डदानतसंसर्गपराणि ।
पितृनेवाशयेत्तत्र इत्यादीनि तु पिण्डषट्कवतां पित्रादिभोजन-
पराणि । पितामहादिभिः सार्धम् इति वचनात् पितामहादिभिः
सह पिण्डसंसर्गः इति ।

मर்றும் சிலரோ வெனில் இவ்விதம்
சொல்லுகின்றனர்:- “ஸபிண்டகரணம் பித்ரோः
பித்ரुயஜ்ஞவிதாநதः” என்று ஸ்மர்துதி இருப்பதால்,
பிண்ட பித்ரு யஜ்ஞத்தில் மூன்று பிண்டங்கள்
விதிக்கப்பட்டு இருப்பதால் ‘திலयுக்தேந சான்னேன
பிண்டான் த்ரீநேவ புத்ரகः. பித்ருனுத்திச்ய தர்ப்பேஷ-
குர்யாதுச்சிஷ்ட ஸன்னிதெள்’ என்று விதி இருப்பதால்,
காத்யாயனர், ஆச்வலாயனர் முதலியவர்களாலும் பிண்ட
பித்ரு யஜ்ஞ ப்ரகாரமாய்ப் பார்வண பிண்டங்கள்
விதிக்கப்பட்டு இருப்பதால், அதில் பித்ராதிகளுக்குப்

போஜனம் ஆகும் போது பிதாமஹீ முதலியவர்க்குப் பிண்டதானம் என்பது உசிதம் ஆகாததால், பிண்ட பித்ரு யஜ்ஞ விதானமாய் அனுஷ்டிப்பவர்களுக்கு மாத்ரு ஸாபின்ட்யத்தில் பிதாமஹீ முதலியவர்க்கே போஜனம், பிதாமஹீயாதி பிண்டங்களுடனேயே மாத்ரு பிண்ட ஸம்யோகம். ‘பிதாமஹீயாதி பிஸ்ஸார்த்தம் ஸபின்மை கரணம் ஸம்ருதம்’ என்பது முதலிய வசனங்களும், பிதாமஹீ முதலியவர்க்குப் போஜனம் பிண்ட தானம் அவைகளுடன் ஸம்ஸர்க்கம் என்றதில் தாத்பர்யம் உள்ளவை. ‘பித்ருநேவாசயேத் தத்ர’ என்பது முதலிய வசனங்களோ வெனில், 6-பிண்டம் உள்ளவர்கள் பித்ராதிகளைப் புஜிப்பிக்க வேண்டும் என்பதில் தாத்பர்யமுள்ளவைகள். ‘பிதாமஹீயாதி பிஸ்ஸார்த்தம்’ என்ற வசனம் இருப்பதால் பிதாமஹீ முதலியவருடன் பிண்ட ஸம்யோகம்’ என்று.

यथाकुलाचारमिह व्यवस्था । यत्र शास्त्रगतिर्भिन्ना सर्वकर्मसु भारत । उदितेऽनुदिते चैव होमभेदो यथा भवेत् । तस्मात् कुलक्रमायातमाचारं त्वाचरेद्वृद्धः । स गरीयान् महाबाहो सर्वशास्त्रोदितादपि इति सुमन्तुस्मरणात् । पुत्रिकासुतो मातृसप्तिणं मातामहादिभिः सह कुर्यात् । तथा बोधायनः — आदिशेत् प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहम् इति ।

இவ்விஷயத்தில் அவரவர் குலாசாரப்படி வ்யவஸ்தை என்றறியவும். ‘ஓ பாரத ! எக்காரணத்தால் எல்லாக் கார்யங்களிலும் சாஸ்த்ர மார்க்கம் பேதம் உள்ளதாக இருக்கிறதோ, உதயத்திற்குப் பிறகு ஹோமம் என்றும், உதயத்திற்கு முன் ஹோமம் என்றும் எப்படியோ அது போல். அக்காரணத்தால், அறிந்தவன் குலக்ரமமாய் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்த ஆசாரத்தை ஆசரிக்க வேண்டும்.

எல்லா சாஸ்தரங்களாலும் சொல்லப்பட்டதை விட அது பெரியதாகும்' என்று ஸமந்து ஸ்ம்ருதி உள்ளது. புத்ரிகாபுத்ரன் மாத்ரு ஸாபின்ட்யத்தை மாதாமஹாதிகஞ்சன் செய்ய வேண்டும். அவ்விதம், போதாயனர்:- புத்ரிகாபுத்ரன் முதல் பிண்டத்தில் மாதாவைச் சொல்ல வேண்டும். 2-ஆவது பிண்டத்தில் அவளது பிதாவையும், 3-ஆவது பிண்டத்தில் அவளது பிதாமஹனையும் சொல்ல வேண்டும்.

व्याघ्रपादोऽपि — मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वैपेत्
 पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः इति ।
 सुमन्तुरपि — पिता पितामहे योज्यः पूर्णे संवत्सरे सुतैः । माता
 मातामहे योज्या तद्वदित्याह भार्गवः इति । उशना अपि — तैः ।
 मातुर्मातिमहे तद्वदेषा कार्या सपिण्डता इति । व्याघ्रः — पत्या
 सहैकता तावधावत् पुत्रो न जायते । पुत्रिकासुत उत्पन्ने पत्यैकत्वं
 निवर्तते इति ।

வ்யாக்ரபாதரும்:- புத்ரிகாபுத்ரன், முதல் பிண்டத்தை மாதாவுக்கும், 2-ஆவது பிண்டத்தை அவளது பிதாவுக்கும், 3-ஆவது பிண்டத்தை அவளது பிதாமஹனுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். ஸமந்துவும்:- ‘புத்ரர்கள், பிதாவைப் பிதாமஹன் இடத்தில் சேர்க்க வேண்டும், வர்ஷாந்தத்தில் மாதாவை மாதாமஹன் இடத்தில் சேர்க்கவும்’ என்றார் பார்க்கவர். உசனஸ்ஸம்:- வர்ஷாந்தத்தில் புத்ரர்கள் பிதாவுக்குப் பிதாமஹன் இடத்தில் எப்படியோ அப்படி மாதாவுக்கு மாதாமஹன் இடத்தில் ஸாபிண்டயத்தைச் செய்ய வேண்டும். வ்யாக்ரர்:- புத்ரிகைக்குப் பதியுடன் ஏகத்வம் என்பது புத்ரன் பிறக்கும் வரையிலேயே. புத்ரன் பிறந்து விட்டால் பதியுடன் ஜக்யம் நிவருத்திக்கின்றது.

बोधायनः — कोकिलस्य यथा पुत्रा अन्यसम्बन्धजीविनः ।

புष்டஸ்தே ஸ்வகுலं யாந்தி ஸ்புதா புதிகா தथா । மாதுமாது: பிதுநிர்த்யं
தஸ்யாஶ்வை பிது: பிது: । பிதுநிர்த்யம் பிண்டானே த்வயं
வி஧ி: இதி । எத்த ஸ்வா ஬்ராஹ்மா விவாஹேஷு ஦ிஷ்டாம் ।
ஆஸுரா விவாஹேஷு விகல்பமாஹ, ஶாதாதப: — தந்மாதா
ததிப்தாமஹா தச்சாஶ்வா வா ஸபிண்டனம் । ஆஸுரா விவாஹேஷு வர்ணாங்
ஓஷிதாங் மகேத் இதி । ஸ்மृத்யந்தரே — மாது: ஸபிண்டிகரண்
மாதாமஹா வி஭ிமி: ஸ்மृதம் । பிதாமஹா வி஭ிர்த்தி பி ஹாஸுரா யா-
காதாஸுத: இதி ।

போதாயனர்:- எப்படி குயிலின் குஞ்சுகள் பிறவின்
ஸம்பந்தத்தால் ஜீவித்துப் பருத்த பிறகு தனது கூட்டத்தை
அடைகின்றனவோ, அது போல் புத்ரிகையும் புத்ரனுடன்
தன் குலத்தை அடைகிறார்கள். புத்ரிகாபுத்ரன் மாதாவுக்கும்
அவளது பிதாவுக்கும் அவளது பிதாமஹனுக்கும்
பிண்டத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். பிண்ட தானத்தில்
இதுவே விதியாம். இதெல்லாம் ப்ராம்ஹாதி
விவாஹங்களில் என்று அறியவும். ஆஸுராதி
விவாஹங்களில் விகல்பப்பத்தைச் சொல்லுகிறார்.
சாதாதபர்:- ஆஸுராதி விவாஹங்களில் எல்லா
வர்ணத்தாருக்கும் ஸத்ரீகளின் ஸாபிண்டயத்தை அவளது
மாதாவுடன் அல்லது அவளது பிதாமஹியுடன், அல்லது
அவளது மாமியாருடன் செய்ய வேண்டும். மற்றும் குரு
ஸ்மிருதியில்:- ஆஸுராதி விவாஹத்தால் வந்தவளது
புத்ரன், மாதாவின் ஸபிண்டமகரணத்தை மாதாமஹி
முதலியவர்களுடன் செய்ய வேண்டும் அல்லது பிதாமஹி
முதலியவர்களுடன் செய்யவும்.

கிளானேஶ்வர: - மாது: ஸபிண்டிகரண் பித்ரைகேன திமிஶ வா ।
ஆஸுரா யாகாதபுதி: பிதாமஹா வி஭ிஸ்து வா இதி ।
பித்ரைகேனேத்யநுமுதிவிஷயம், தச்சோக்தப்ரகார் ஦ிஷ்டாம் । சந்திகாயாம்

— पितामहादिभिर्धर्म्यं विवाहोद्दिव्याः सुतः । पितृपक्षैर्मर्तृ-
पक्षैरासुराद्यागतासुतः । विवाहपुत्रभेदेन तद्वोत्रं च व्यवस्थितम्
इति । पितृमेधसारे तु — आसुरादिविवाहेऽपि पितामहादिभिरेव
वचनादाचाराद्विकल्प स्मरणाच्च इति ।

वीज्ञानेश्वराः:- मा॒था॒म॒ह॒नु॒ट॑ ना॒व॒क॑कु॒
सा॒पि॒न्ट॒य॑म॒ च॒य॒ता॒ल॑, मा॒था॒म॒ह॒ च॒रा॒त्त॒म॒ पि॒त्त॒रु॑
च॒रा॒त्त॒म॒ प॒रो॒ल॑ नि॒त्य॒मा॒क॒वे॑ आ॒कु॒म॑. पि॒ता॒व॒ट॑ ने॒,॒
पि॒ता॒म॒ह॒न्नि॒य॒ट॑ ने॒ मा॒था॒व॒क॑कु॒ सा॒पि॒न्ट॒य॑म॒ आ॒ने॒ल॑
मा॒था॒म॒ह॒ च॒रा॒त्त॒म॒ नि॒त्य॒मा॒ल॒ल॑. च॒य॒ता॒ल॑ न॒न॒म॒म॒ उ॒न्नु॑,
च॒य॒या॒वी॒ष्ट॑ ते॒ो॒ष्ट॑ इ॒ल॒ल॑. य॒म॒नु॒म॑:- आ॒स॒रा॒ति॑
वि॒वा॒ह॒त्ता॒ल॑ व॒न्त॒व॒ली॑ पु॒त्र॒न॑ मा॒था॒वी॒न॑
सा॒पि॒न्ट॒य॑त्त॒त॒प॑ पि॒ता॒ ओ॒रु॒व॒ग्नेऽता॒वतु॑ औ॒न्न॒रु॑
पे॒रक॒नु॒ट॑ व॒तु॑ पि॒ता॒म॒ह॑ म॒ुत॒व॒य॒व॒र्क॒नु॒ट॑ व॒तु॑
च॒य॒य॒वु॑म॑. 'पि॒ता॒व॒ो॑ ए॒न॒र॒तु॑
अ॒नु॒मा॒रा॒न्त॒त॒त॒प॑ पर्न॒र्य॒य॑तु॑. अ॒तु॑ म॒ुन॑ च॒सा॒ल॑ ब्ल॒प॒ट्ट॒प॒ष्ट॑
ए॒न्न॒रु॑ अ॒रि॒य॒वु॑म॑. स॒न्त॒री॒क॒य॑ल॑:- त॒र्म॒य॑ वि॒वा॒ह॒त्ता॒ल॑
म॒ज॒क॒क॒प॒प॒ट्ट॒व॒ली॑ पु॒त्र॒न॑ मा॒थ॒रु॑ सा॒पि॒न्ट॒य॑त्त॒त॒
पि॒ता॒म॒ह॑ म॒ुत॒व॒य॒व॒र्क॒लो॑ च॒य॒य॒वु॑म॑. आ॒स॒रा॒ति॑
वि॒वा॒ह॒त्ता॒ल॑ म॒ज॒क॒क॒प॒प॒ट्ट॒व॒ली॑ पु॒त्र॒न॑ पि॒ता॒
म॒ुत॒व॒य॒व॒री॑ प॒क॒श॒त्त॒ति॒न॒रु॒ट॑ व॒तु॑ मा॒था॒वी॒न॑ प॒क॒श॒त्त॒त॒स॑
से॒र्वन्त॒व॒र्क॒नु॒ट॑ व॒तु॑ च॒य॒य॒वु॑म॑. वि॒वा॒ह॑ पे॒तत्ता॒ल॑म॑
पु॒त्र॑ पे॒तत्ता॒ल॑म॑ अ॒व॒न्न॑ क॒ो॒त्र॒र॒म॑ व॒य॒व॒स॒ल॑त॒
च॒य॒य॒प॒प॒ट्ट॑ उ॒न्न॑त॒. पि॒त्त॒रु॒म॒त॑ ल॒ो॒र॒त्त॒ल॑ वे॒नी॒ल॑:-
आ॒स॒रा॒ति॑ वि॒वा॒ह॒त्त॒ति॒ल॑म॑ पि॒ता॒म॒ह॑
म॒ुत॒व॒य॒व॒रु॒ट॑ ने॒य॑ ल॒म॑ ल॒र॒क॑म॑. अ॒व॒वी॒त॒म॑ व॒स॒न॑म॑
இ॒ரு॒प॒प॒ता॒ल॑म॑ आ॒சा॒रम॑ இ॒ரு॒प॒प॒ता॒ल॑म॑ वि॒क॒ल॑प॒म॑
स॒क॒ल॑ ब्ल॒प॒प॒ट्ट॑ இ॒रु॒प॒प॒ता॒ल॑म॑ ए॒न्न॒रु॑ उ॒न्न॑त॒.

पितामहादिपिण्डैव इ मातृपिण्डं शिष्टाः संयोजयन्ति,
किञ्च आपस्तम्बेन दुहितृमतेऽतिरथं शतं देयम् इति
कन्याधिगमार्थद्रव्यदान विधानात् भिक्षणे निमित्तमाचार्यो विवाहः

இதி இவ்யார்ஜனனிமித்தே விவாஹஸ்ய பரி஗णனாது, ஗ௌதமேன சு ஷடித்யேகே இதி பञ்சமவிவாஹஸ்ய சாஸுரஸ்ய ஧ர்மத்வஸ்மரணாது, பிதாமஹாடி- மிர்஧ம்ர்யவிவாஹோட்லியாஸ்ஸுதः இதி வசனாஞ் பிதாமஹாடிபிண்டைவ மாதுபிண்டஸங்யோगः । பிதுபக்ஷைமர்தூ பக்ஷைரா-ஸுரா஘ா஗தாஸுதः இதி விகல்ப ஸ்மரணே॥பி வைகலிபக்஧மீஷா-சாரஸ்யை வ்யவஸ்஥ாபகத்வாத் பிதுபக்ஷை: பிதாமஹாடிமிரைவ பிண்டஸங்யோग இத்யாஹு: ।

பிதாமஹ்யாதி பின்டங்களுடனேயே மாத்ரு பின்டத்தைச் சிஷ்டர்கள் சேர்க்கிறார்கள், இன்னும் ஆபஸ்தம்பரால், 'பெண்ணின் பிதாவுக்கு ஒரு ரதத்துடன் 100-பக்களைக் கொடுக்க வேண்டும்' என்று, கன்யையைப் பெறுவதற்காக த்ரவ்யதானம் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும், 'யாசிப்பதற்குக் காரணம் ஆசார்யன் விவாஹம்' என்று த்ரவ்யாரஜன நிமித்தங்களில் விவாஹமும் சேர்க்கப்பட்டு இருப்பதாலும், கெளதமராலும் 'ஆறு விவாஹங்களும் தர்மயங்கள் என்று சிலர்' என்று ஐந்தாவது விவாஹமான ஆஸார விவாஹமும் தர்மயம் என்று சொல்லப்பட்டு இருப்பதாலும் 'தர்மய விவாஹத்தால் விவாஹிக்கப்பட்டவளின் புத்ரன் பிதாமஹ் முதலியவர்களுடன் சேர்க்க வேண்டும்' என்ற வசனத்தாலும், பிதாமஹ் முதலியவரின் பின்டங்களுடனேயே மாத்ரு பின்டஸம்யோகம் செய்யப்பட வேண்டும். ஆஸாராதி விவாஹோடா புத்ரன் பிதாமஹ்யாதிகளுடனுவது, மாத்ரு பக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடனுவது சேர்க்கலாம் என்று விகல்ப ஸ்மருதி இருந்தாலும், விகல்பப்பராப்தமான தர்மங்களில் ஆசாரத்தாலேயே வ்யவஸ்தையே என்றிருப்பதால், பித்ரு பக்ஷத்திய பிதாமஹ் முதலியவருடனேயே பின்டஸம்யோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்றனர் (அறிந்தவர்கள்).

मातुः सापिण्डचे गोत्रनियममाह मार्कण्डेयः — ब्राह्मादिषु
विवाहेषु या चोढा कन्यका भवेत् । भर्तृगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः
पिण्डोदकक्रियाः ॥ आसुरादिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मवित् इति ।
ब्राह्मादिविवाहाभिप्रायेणाह शातातपः — स्वगोत्राद्वयते नारी
विवाहात् सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः
पिण्डोदकक्रियाः इति । बृहस्पतिरपि — पाणिग्रहणका मन्त्राः
पितृगोत्रापहारकाः । भर्तृगोत्रेण नारीणां देयं पिण्डोदकं तथा इति ।
मनुरपि — पितृगोत्रं कुमारीणा मूढानां भर्तृगोत्रतः इति ।

माताविन्स लापिण्ठयत्तिलं कोत्तरं नियमम्.

माताविन्स लापिण्ठयत्तिलं कोत्तरं नियमत्तेतच
सेवाल्लुकिरुर्मार्ककण्ठेयरः— प्रराम्भैवं मुतविय
विवाहैवन्कलीलं मणककप्पत्तवैवैवेलो अवगुक्कुप
पिण्ठेटोतक कर्मियकैलापं पर्त्तताविन्स कोत्तरत्तालं
सेय्य वेण्टुम्. आसारम् मुतविय विवाहैवन्कलीलं
मणककप्पत्तवैवगुक्कुपं पिण्ठेटोतक कर्मियकैला, पित्तरु
कोत्तरत्तालं सेय्यवुम्. प्रराम्भैवं मुतविय
विवाहैत्तिन्स अपिप्रायत्तालं सेवाल्लुकिरुर्शातातुपरः—
संतर्मयानवैवै, विवाहैत्तालं सप्तपत्तियानवृट्टन्स पित्तरु
कोत्तरत्तिलं त्रिरुन्तु विलकुकिरुलं. (आकेयालं)
अवगुक्कुपं पिण्ठेटोतक कर्मियकैलापं पर्त्तताविन्स
कोत्तरत्तालं सेय्य वेण्टुम्. प्ररुह्यस्पतीयुम्—
पाणीकरहैवन्त्तेतच शेर्न्त मन्त्ररव्वकैलं पित्तरु
कोत्तरत्तेपं पोक्कुकिण्ऱवैवकैलं आकुम्. (आकेयालं)
संतर्मकैवृक्कु, पर्त्तरु कोत्तरत्तालं पिण्ठेटोतकन्कैलाकं
केकाढुक्क वेण्टुम्. मनुवुम्— विवाहैमाकात
कुमारीकैवृक्कुपं पित्तरु कोत्तरत्तालुम्, विवाहैम
आकियवर्कैवृक्कुपं पर्त्तताविन्स कोत्तरत्तालुम्

செய்யப்பட வேண்டும்.

आसुरादिविवाहभिप्रायेण विज्ञानेश्वरीये — पितृगोत्रं
समुत्सृज्य न कुर्याद्वृत्तगोत्रतः । जन्मन्यपि विपत्तौ च नारीणां पैतृकं
कुलम् इति । लोकाक्षिः — मातामहस्य गोत्रेण मातुः
पिण्डोदकक्रियाम् । कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः इति ।

ஆஸுராதி விவாஹ அபிப்ராயத்தால்
சொல்லப்பட்டு உள்ளது விஜ்ஞாநேச்வரீயத்தில்:- பித்ரு
கோத்ரத்தை விட்டு, பர்த்தாவின் கோத்ரத்தால் செய்யக்
கூடாது. ஐநந்த்திலும், மரணத்திலும் ஸ்த்ரீகளுக்குப் பித்ரு
கோத்ரமே ஆகும். லோகாக்ஷி:- மாதாவுக்குப் பின்டோதக
க்ரியையை, மாதாமஹனின் கோத்ரத்தால் புத்ரிகாபுத்ரன்
செய்ய வேண்டும் என்றார் ப்ரஜாபதி.

कालादर्शेऽपि — विवाहपुत्रभेदेन तद्वोत्रं च व्यवस्थितम्
इति । ब्राह्मादिविवाहभेदेन औरसपुत्रिकापुत्रभेदेन च, तद्वोत्रं -
ख्रीगोत्रम्, इति व्यवस्थितम् । ब्राह्मादि विवाह चतुष्योदायाः
ख्याः भर्तृगोत्रेण औधृदैहिकं कार्यं, आसुरादिविवाह-
चतुष्योदायाः ख्याः पितृगोत्रेण । औरसपुत्रो भर्तृगोत्रेण,
புத்ரிகாபுத்ரோ மாதாமஹாக்ரேண குர்யாदித்யर्थः ।

காலாதார்சத்திலும்:- “விவாஹபேதம், புத்ரபேதம்
இவைகளைக் கொண்டு ஸ்த்ரீகளின் கோத்ரம் வ்யவஸ்தை
செய்யப்பட்டு உள்ளது.” ப்ராம்ஹாதி விவாஹ
பேதத்தாலும், ஒளரஸன், புத்ரிகாபுத்ரன் என்ற
பேதத்தாலும் ஸ்த்ரீயின் கோத்ரம் வ்யவஸ்தை
செய்யப்பட்டு உள்ளது. ப்ராம்ஹம் முதலிய நான்கு
விவாஹங்களால் மணக்கப்பட்ட ஸ்த்ரீக்குப் பர்த்ரு
கோத்ரத்தால் ப்ரேத க்ரியை செய்யப்பட வேண்டும்.
ஆஸுரம் முதலிய நான்கு விவாஹங்களால்
மணக்கப்பட்டவளுக்குப் பிதாவின் கோத்ரத்தால் செய்ய

वेण्णनुम्. ओरारस्य पुत्रं परं तर्गु कोत्तरत्ता ल चेय्य
वेण्णनुम्. पुत्रीका पुत्रं मातामहू कोत्तरत्ता ल चेय्य
वेण्णनुम् नन्पतु बेपारुन्.

एतच्च — अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुम्हं कन्यामलङ्घताम् ।
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति इति वसिष्ठोक्तप्रकारेण
दाने मातामहगोत्रत्वं, अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुम्हं कन्यां भवानपि ।
पुत्रार्थी चेदिहोत्पन्नः स नौ पुत्रो भवेदिति इति कात्यायनोक्त-
प्रकारेणोढाया मातुर्मातामहगोत्रेण पितृगोत्रेण वा कुर्यात् । एवं
पुत्रिकापुत्रस्य मातामहसम्बन्धे तद्वोत्रत्वम्, उभयसम्बन्धे
गोत्रविकल्पश्च सिद्धः ।

इतुवुम्, ‘पराता इल्लात इन्तप बेण्णैने
उनक्कुक केकाटुक्किरेण, इवलं इत्तिलं पिऱक्कुम्
पुत्रं ऎव तेऽनु अवनं ऎनक्कुप तुरनुक वेण्णनुम्’
एन्ऱु वलिष्टरं चेालंलियपटि ताळमं चेय्यतु इरुक्कुम्
विषयत्तिलं मातामहू कोत्तरम्. ‘पुत्रं इल्लात नाऩं
उनक्कुप बेण्णैनक केकाटुक्किरेण. नैयुम् पुत्रैन
विरुम्पियवग्नुकिलं इवलीटम् पिऱन्त पिळैन नम्
इरुवरुक्कुम् पुत्रं वेण्णनुम्’ एन्ऱु कात्यायनरं
चेालंलियपटि मणक्कपपट्टवलान मातावुक्कु
मातामहू कोत्तरत्ता लावतु पित्तरु कोत्तरत्ता लावतु
चेय्यवुम्. इवितम् पुत्रीका पुत्रं नुक्कु मातामहू
सम्पन्तमाकिलं मातामहू कोत्तरत्तवम्. इरुवरुत्तेय
सम्पन्तमुमाकिलं कोत्तरत्तिलं विकल्पपम नन्पतु
लीत्तित्तु उलालतु.

तथा कालादर्शे — कुर्यान्मातामहश्राद्धं नियमात्
पुत्रिकासुतः । उभयोरपि सम्बन्धे कुर्यात् स उभयोरपि इति ।
वृद्धहारीतश्च — उभयोरपि सम्बन्धे यस्मादुभयगोत्रता इति ।
दत्तस्य प्रतिग्रहीतृगोत्रमेव, गोत्रान्तरप्रविष्टानां दायमाशौचमेव च ।

ஜாதித்வं ச நிவர்த்த தத்துலே ஸ்வமிஷ்யதே இதி ஸ்மரணாத् । யது
ऐதிநஸிவச்சனம् - அथ ஦த்தகுற்றிமபுத்ரிகாபுத்ரக்ஷேந்திஃ
பரி஗்ரஹேணார்ணே ஜாதா வ்யாமுஸ்யாயணகா ஭வந்தி இதி, தத்
உபநயநானந்தர் ஗ோந்தரே யோ ஦த்தஸ்தாஷ்யமித்ய஧ஸ்தாத्
நிருபிதம् ।

காலாதார்ச்சத்தில்:- புத்ரிகா புத்ரன் மாதாமஹ
ச்ராத்தத்தை அவச்யம் செய்ய வேண்டும். அவன்
இருவருக்கும் ஸம்பந்தப்பட்டவனுகில் இருவருக்கும்
ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். வ்ருத்தஹாரீதரும்:-
புத்ரிகாபுத்ரன், மாதாமஹன், பிதா இருவருக்கும்
ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். இருவருக்கும் ஸம்பந்தம்
இருப்பதால் அவனுக்கு இரண்டு கோத்ரம் உள்ளது.
தத்தனுக்குப் பெற்றுக் கொண்டவனின் கோத்ரம் மட்டில்.
“வேறு கோத்ரத்தை அடைந்தவர்களுக்கு ஜநக குலத்தில்
தாயமும், ஆசௌசமும், ஜ்ஞாதித்வமும் நிவ்ருத்திக்
கின்றன. இவை எல்லாம் பெற்றுக் கொண்டவனின்
குலத்தில் விதிக்கப்படுகின்றன” என்று ஸ்மிருதி
இருப்பதால், ஆனால் “தத்தன், க்ருத்ரிமன், புத்ரிகாபுத்ரன்,
கேஷத்ரஜன் இவர்கள் ருஷி விலுத் பரிக்ரஹத்தால்
உண்டாகியவர்கள். இவர்கள் த்வ்யாமுஷ்யாயணர்களாய்
(இருவருக்கும் ஸம்பந்தப்பட்டவர்களாய்) ஆகின்றனர்”
என்று பைஷநலி வசநம் உள்ளதே ? எனில், அது
உபநயநத்திற்குப் பிறகு வேறு கோத்ரத்தில் எவன்
கொடுக்கப்பட்டவனே அவனைப் பற்றியது, என்பது கீழே
சொல்லப்பட்டு உள்ளது.

஧ாராபூர்வ ஦த்தாயா விவாஹாத் பூர்வ மூதாயா ஭ர்த்துரோநே
வா கியா கார்யா, ஦த்தாநந்தா யா கந்யா ஸ்ங்கார்யா ஭ர்த்துரோந்தः இதி
‘ஸ்வ ஗ோந்த ஭்ரயதே நாரி விவாஹாத் ஸஸமே படே இத்யும் யதா
ஸ்மரணாத् । அநேகமர்த்துக்காயா ஆயம்஭ர்த்துரோநே கர்த்யம் । ததாஹ

ऋद्यशूङ्गः — स्त्रीणामाद्यस्य वै भर्तुर्यद्वोत्रं तेन निर्बपेत् । यदि त्वक्षतयोनिस्स्यात् पतिमन्यं समाप्तिता । तद्वोत्रेण तदा देयं पिण्डं श्राद्धं तथोदकम् इति ।

जलपूर्वमायं ताणमं चेय्यप्पट्टु विवाहृत्तिऱ्कु मुन्स मरीत्तवणुक्कुप्प पर्त्तरु कोत्तरत्तालावतु पित्तरु कोत्तरत्तालावतु कंरीयययेच चेय्यवुम् । 'ताणमं चेय्यप्पट्टु विवाहृमाकात कन्ययकेयेप्प पर्त्तरु कोत्तरत्तालं सम्स्करीक्कवुम्' एन्ऱुम्, विवाहृम् आक्य पत्तन्ते लप्तपत्तिक्कुप्प पिऱकु पित्तरु कोत्तरत्तिनिन्ऱुम् विलक्किरुन् एन्ऱुम् इरण्णुम् प्रकारमायं सम्ग्रुति उल्लातु । अनेक पर्त्तताक्ककौ उट्टयवणुक्कु मुत्तलं पर्त्तताविन्स कोत्तरत्तालं चेय्य वेण्णुम् । अतेचं चेऽल्लुक्किरुर्, रुच्यस्करुन्सकारः । अनेक पर्त्तताक्ककौ उट्टयं संतरीकणुक्कु मुत्तलं वणुन् । पर्त्तताविन्स कोत्तरत्तालं चेय्यवुम् । रज्जोत्तरसन्तिऱ्कु मुन्स अन्यणुन् पत्तियेय अटेन्तवणाकिलं अवणुक्कु २-आवतु पत्तियिन्स कोत्तरत्तालं पिण्णटम्, चरात्तम्, उत्तकम् इवेवकौक्केकाटुक्कवुम् ।

स्मृत्यन्तरे — गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काश्यपं गोत्रमिष्यते । यस्मादाह श्रुतिस्सर्वाः प्रजाः काश्यपसम्भवाः । पित्रादीनां नाम यदा पुत्रैर्न ज्ञायते तदा । पृथिवीष्ट् पिता वाच्यस्तत्पिता चान्तरिक्षसत् । अभिधानापरिज्ञाने दिविष्ट् प्रपितामहः इति । राजविशोः पुरोहितगोत्रेण कार्यम् । तथा च कात्यायनः — पुरोहितस्य गोत्रेण कार्या राजविशोः क्रियाः । दद्यात् पिण्डोदके श्राद्धं तूष्णीं शूद्रस्य नामतः इति । तच्च नाम शूद्रस्य दासान्तमित्याह बोधायनः — शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । पोषान्तं चैव वैश्यस्य दासान्तं शूद्रजन्मनः इति । स्वसूत्रेणैव सपिण्डीकरणं कार्यम् — अलब्धात्मीयसूत्रस्य श्राद्धान्तं

பரஸूநத: । குர्यात् ஸபிண்டிகரण் ஸவஸूநேஷ நாந்த: இதி
भरद्वाजस्मरणात् । अपुत्रायाः पद्म्याः सापिण्डे भर्ता स्वपित्रादीन्
भोजयित्वा स्वमात्रादि पिण्डैः सह तत्पिण्डं संयोजयेत् । स्त्रीमृताहे
खियो भोज्याः पितरः स्त्रीसपिण्डने । पित्रादेरेव होमः स्यात्
पिण्डदानं तु वर्गयोः । अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्यात्
सपिण्डताम् । शश्रवादिमिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत् ।
पद्म्याः कुर्यादपुत्रायाः पतिमत्रादिमिः सह इत्यादिस्मरणात् ।

மற்றிருக்கும் ஸ்மிருதியில்:- கோத்ரம் அறியப்படாவிடல்
காச்யப கோத்ரம் விதிக்கப்படுகிறது. எக்காரணத்தாலோ
வேதம், ப்ரஜைகள் எல்லோரையும் காச்யபர் இடமிருந்து
உண்டானவைகளாகச் சொல்கின்றனர். பிதா முதலியவரின்
பெயர் எப்பொழுது அறியப்படவில்லையோ, அப்பொழுது
பிதாவை ‘ப்ருதிவீஷத்’ என்றும், பிதாமஹனை
‘அந்தரிஷ்ணத்’ என்றும், ப்ரபிதாமஹனை ‘திவிஷத்’
என்றும் சொல்லவும். குத்ரிய வைச்யர்களுக்குப்
புரோஹித கோத்ரத்தால் செய்யவும். அவ்விதமே,
காத்யாயனர்:- குத்ரிய வைச்யர்களுக்கு, புரோஹித
கோத்ரத்தால் க்ரியைகளைச் செய்யவும். பின்டோதக
ச்ராத்தங்களையும் கொடுக்கவும். சூத்ரனுக்கு மந்த்ரம்
இல்லாமல் பெயரை மட்டில் சொல்லிக் கொடுக்கவும்.
அந்தப் பெயரும் சூத்ரனுக்கு ‘தாஸ்’ என்பதை முடிவில்
உடையதாய் உள்ளது என்றார். போதாயனர்:-
ப்ராம்ஹணனுக்குப் பெயர் ‘சர்ம’ என்பதை
முடிவிலுடையது, குத்ரியனுக்கு ‘வர்ம’ என்பதையும்,
வைச்யனுக்கு ‘போஷ’ என்பதையும், சூத்ரனுக்கு ‘தாஸ்’
என்பதையும் முடிவில் உள்ளதாய் இருக்க வேண்டும்.
தனது ஸ்ராத்ரத்தாலேயே ஸபிண்டைகரணம் செய்யப்பட
வேண்டும். ‘தனது ஸ்ராத்ரம் கிடைக்காதவனுக்கு
ஏகோத்திஷ்டம் முடியும் வரையில் அன்யஸ்ரத்ரத்தால்
செய்யலாம். ஸபிண்டைகரணத்தைத் தனது

लूत्तरत्ता लेये चेय्यवुम्. अन्य लूत्तरत्ता लू
चेय्यकं कूटातु' ऎन्ऱु प्रत्वाज्ञ लम्गुति इरुप्पत्ता लू.
पुत्ररन्ति इल्लात पत्नीयिन्स लापिण्ट्यत्तिलू पर्त्ता
तन्तु प्रिता मुत्तव्यवरैप बूज्हिप्पित्तु, तन्तु माता
मुत्तव्यवरिन्स पिण्टन्करूटनू पार्या पिण्टत्तत्तस
चोर्क्कवुम्. 'पत्नीयिन्स चरात्तत्तत्तिलू लत्तरीकौलूप
बूज्हिप्पिक्कवुम्. पार्ययिन्स लापिण्ट्यत्तिलू
पित्तरुक्कौलूप बूज्हिप्पिक्कवुम्. प्रिता मुत्तव्यवर्करूक्को
हेहामम्. पिण्टत्ता लैमो वेणीलू इरुवर्करूक्कुम्.
पुत्ररन्ति इल्लात पार्यय मरीत्ता लू अवरुक्कुप पत्ति
लापिण्ट्यत्तत्तस चेय्यवुम्. अवरुक्कु मामियार
मुत्तव्यवरुटनैये पिण्टलैम्येज्ञनम् चेय्यप्पत्त
वेण्टुम्. 'पुत्ररन्ति इल्लात पत्नीक्कुप पत्ति माता
मुत्तव्यवरुटनू लापिण्ट्यत्तत्तस चेय्यवुम् एन्पत्तु
मुत्तव्य लम्गुति इरुप्पत्ता लू.

पत्नीमृताहश्च तु पत्नीमातृपितामहीः भोजयेत् —
स्त्रीश्च वृण्याद्वर्ता पत्नीमातृपितामहीः । पितृव्याग्रजयोः श्राव्ये
तत्तत्पितृपितामही इति स्मरणात् । स्मृतिरप्ते तु — अभर्तुर्योषितः
पिण्डं भर्तृपिण्डे नियोजयेत् । यदि जीवति भर्ता तु शश्वर्दिषु
नियोजयेत् । पत्यौ जीवति संसर्गः स्त्रीपिण्डेषु स्त्रिया भवेत् । मृते
भर्तीरि पत्यौ च सर्वत्रेति विनिर्णयः । अनपत्या यदा नारी
पतिपिण्डेन योजयेत् । यदा पुत्रवती नारी पितामध्यादिभिः सह
इति ।

पत्नीयिन्स मंगुत्ता लू चरात्तत्तत्तिलौ वेणीलू पत्नी,
माता, प्रिता मलौ इवर्कौलूप बूज्हिप्पिक्कवुम्. "पत्नीयिन्स
चरात्तत्तत्तिलू पर्त्तर, पत्नी, मात्तरु, प्रिता मलौ कौलू
वरीक्कवुम्. पित्तरुव्यन्न, ज्ञयेष्टनू इवर्कौलू
चरात्तत्तत्तिलू अवरवर्कौलूयुम् अवरवर्कौलून्स पित्तरु
प्रिता मलौर्कौलूयुम् वरीक्कवुम्" एन्ऱु लम्गुति

இருப்பதால். ஸ்மிருதி ரத்னத்திலோ வெனில்:- பர்த்தா இல்லாத ஸ்தரீயின் பிண்டத்தைப் பர்த்தாவின் பிண்டத்தில் சேர்க்கவும். பர்த்தா ஜீவித்து இருந்தால் மாமியார் முதலியவரின் பிண்டங்களில் சேர்க்கவும். பர்த்தா ஜீவித்து இருக்கும் போது ஸ்தரீயின் பிண்டத்தை ஸ்தரீகளின் பிண்டங்களில் சேர்க்கவும். பர்த்தா இறந்த பிறகு பதி பிண்டத்தில் சேர்க்கவும். புத்ரன் இல்லாதவளாகில் பதி பிண்டத்துடன் சேர்க்கவும். புத்ரன் உள்ளவளாகில் பிதாமஹ்யாதி பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும்.

ஸ்த்ரீहட்பி — மृतप्रियायाश्च தथैव लोके पठन्ति सन्तः पतिपिण्डयोगम् । जीवत्प्रियायाश्च तथैव पिण्डं शश्रवादिपिण्डैः सह संसृजेद्धि इति । पित्रोः सपिण्डीकरणं ज्येष्ठैनैव कार्यम् — सर्वैरनुमतिं कृत्वा ज्येष्ठैनैव तु यत् कृतम् । द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैव कृतं भवेत् । सपिण्डीकरणं पित्रोर्न कार्यमखिलैः सुतैः । एकेनापि कृते सम्यक्पुत्रत्वगुणसम्भवात् । ज्येष्ठपुत्रस्य सम्भावे कनिष्ठः कुरुते क्रियाम् । प्रेतत्वान्व विमुच्येत पितृत्वं च न गच्छति । ज्येष्ठपुत्रे तु दूरस्थे कनिष्ठस्तु यथोदितम् । कुर्यात् पित्रोस्तु संस्कारं सपिण्डीकरणं न तु । यनीयसा कृतं कर्म प्रेतशब्दं विहाय तु । तदग्रजेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं पुनः । नवश्राद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश । एकैनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि इत्यादिवचनान्यत्रावगन्तव्यानि । एतच्चाधस्तात् प्रतिपादितम् ।

ஸங்க்ரஹத்திலும்:- பர்த்தா இல்லாதவளின் பிண்டத்தைப் பதி பிண்டத்துடன் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்றனர் ஸாதுக்கள். பதி ஜீவித்து இருந்தால் அவளின் பிண்டத்தை மாமியார் முதலியவர்களின் பிண்டங்களுடன் சேர்க்கவும். மாதா பிதாக்களின் ஸபிண்மகரணத்தை ஜீயேஷ்டனே செய்ய வேண்டும். ‘எல்லோருடைய அனுமதியினால் பிரிக்கப்படாத தனத்தைக் கொண்டு

ज्ञेयेष्टं गुणेये चेष्यप्पट्टतु एतु वेवा अतु
 एलं लोरारालुमो चेष्यप्पट्टतु आकुम्. माता
 पीताक्कवीन्स लपिण्णमकरणत्तेतप्प चुत्रर्कर्कलं एलं लोरारुम्
 चेष्यकं कूटातु. ज्ञेयेष्टं गुणेये लोये
 चेष्यप्पट्टालं एलं लोरारुम् चेष्यततायं आकुम्
 आतलालं, ज्ञेयेष्टं चुत्रनं इरुक्कुम् बेपामुतु कनीष्टं
 चुत्रनं करीयययेचं चेष्यतालं, पीता प्रेरेतत्
 तन्मेयिनीन्ऱुम् विटुपटुवतु इल्लै.
 पीत्तरुत्वत्तेतयुम् अटेवतु इल्लै. ज्ञेयेष्टं चुत्रनं
 तार तेचत्तिलं इरुन्तालं, कनीष्टं चुत्रनं वित्तिप्पटि
 सम्लकारत्तेतचं चेष्यवुम्. लपिण्णमकरणत्तेतचं
 चेष्यकं कूटातु. कनीष्टं लपिण्णमकरणत्तेतचं चेष्यतु
 इरुन्तालं, ज्ञेयेष्टं, प्रेरेत चप्तत्तेतचं चेलंलामलं,
 मरुपटि लपिण्णमकरणत्तेतचं चेष्य वेण्णुम्. नव
 चरात्तमं, लपिण्णमकरणमं, घोटाच चरात्तमं इवेकौं
 गुणेये चेष्य वेण्णुम्, प्राताक्कर्कलं विपक्तर्कर्कलायं
 इरुन्तालुम्'' एन्पतु मुतविय वसनंकौं
 इवं विषयत्तिलं अरीयवुम्. इतेतप्प पर्न्त्रियतु मुन्पेपे
 चेलंलप्पट्टुन्ळातु.

ज्येष्ठस्यापद्मीकत्वे कनिष्ठ एव सपिण्डनं कुर्यात् तस्यैव
 साग्रिकत्वात्। तथा पैठीनसिः — सपिण्डीकरणं पुत्रः पितुः
 कुर्वीत योऽग्रिमान्। अनग्रेस्तु क्रिया नान्या द्योकोद्दिष्टादते क्वचित्
 इति। स्मृत्यन्तरे च — यद्यग्निर्दूरगो विप्रः सापिण्ड्ये समुपस्थिते।
 भ्रातृभिः कारयेत् श्राद्धं साग्रिकैर्विधिवत्ततः। औपासनाग्नौ दूरस्थे
 समीपे भ्रातरि स्थिते। यद्यग्नौ जुहुयाद्वाऽपि पाणौ वा स हि पातकी।
 ज्येष्ठपुत्रोऽग्रिमान् स्यात् कनिष्ठस्त्वग्रिमान् यदि। कनिष्ठ एव
 कुर्वीत सपिण्डीकरणं पितुः इति।

ज्ञेयेष्टं नं पार्यये इल्लैतवगुणेये किलं,
 कनीष्टं गुणेये लपापिण्णं यत्तेतचं चेष्य वेण्णुम्.

அவனே அக்னி உள்ளவனைய் இருப்பதால். அவ்விதமே, பைஷநாலி:- அக்னி உள்ள புத்ரன் எவ்வே அவனே பிதாவின் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும். அனக்னிகனுக்கு ஏகோத்திஷ்டம் தவிர்த்த மற்ற க்ரியை விதிக்கப்படவில்லை. மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும்:- 'அக்னி தூரதேசத்தில் இருந்தால் ஸாபின்ட்யம் செய்ய ப்ரரஸ்க்தியானால், ப்ராம் ஹணன், அக்னிமான்களான ப்ராதாக்களால் ஸபின்மைகரணத்தை விதிப்படி செய்விக்கவும். ஒளபாஸனாக்னி தூரத்திலிருக்கும் பொழுது, ப்ராதா ஸமீபத்தில் இருந்தால், ஜ்யேஷ்டன் அக்னியிலாவது பாணியிலாவது ஹோமத்தைச் செய்தால் அவன் பாபியாய் ஆகிறான். ஜ்யேஷ்ட புத்ரன் அனக்னிகனைய் இருந்து, கனிஷ்டன் ஸாக்னிகனைய் இருந்தால், பிதாவின் ஸாபின்ட்யத்தைக் கனிஷ்டனே செய்ய வேண்டும்' என்று உள்ளது.

உத்ராஹாநந்தர் புன: ஸபிண்டிகரண் கர்த்துவம् ।

ஜ்யாயஸ்யநஶாவந்யஸ்து ஸாபிரி: பித்ரோ: ஸபிண்டனம् । குர்யாத்திக்த்வா ப்ரேதஶ஬்஦ ஸத்யநாவங்ரஜ: புன: இதி । புன: ஸபிண்டிகரண்- பிரகாரஶ்சநிர்க்காயாமமிஹித: - யாரியசா குதே ஶ்ராஷ்வ ப்ரேதஶ஬்஦ விஹாய் ச । தஜாங்ரஜேந கர்த்துவ ஸபிண்டிகரண் புன: । ஸபிண்டிகரண் நாம புன: பார்ணவங்ரவேத । அஷ்வ ஸம்யோஜன குர்யாத்து பிண்டஸம்யோஜன தथா । ப்ரேதத்வாத்து விநிர்முக்த: புனஸ்தேந ந நிர்஦ிஶேத । ப்ரேதஶ஬்஦ விநா ஸ்வ கார்யமித்யாஹ ஗ௌதம: இதி ।

விவாஹமர்க்கிய பிறகு ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். 'ஜ்யேஷ்டன் அனக்னிகனையிருக்கையில், கனிஷ்டன் ஸாக்னிகனைகில் அவன் மாதாபிதாக்கஞ்சுக்கு ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும் ஜ்யேஷ்டன் ஸாக்னிகனைய் ஆனால் மறுபடி ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும்' என்று உள்ளது.

புனஸ் ஸபின்மகரணத்தின் ப்ரகாரம் சொல்லப் பட்டுள்ளது சந்தரிகையில்:- 'கனிஷ்டன் ஸபின்மகரணத்தைச் செய்து இருந்தால்; அதை ஜ்யேஷ்டன் மறுபடி செய்ய வேண்டும். ப்ரேத சப்தத்தைச் சொல்லாமல். அந்த ஸபின்மகரணம் பார்வண ச்ராத்த தர்மத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும். அர்க்க்ய ஸம்யோஜநம் செய்யவும். பிண்ட ஸம்யோஜநம் செய்யவும். ப்ரேத பாவத்தினின்றும் விடுபட்டு இருப்பதால், மறுபடி அந்தச் சப்தத்தால் நிர்தேசிக்கக் கூடாது. ப்ரேத சப்தத்தைத் தவிர்த்து மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்றார் கௌதமர்' என்று

हेमाद्रौ — सपिण्डीकरणं नाम पुनः पार्वणधर्मवत् ।
पितृशब्देन कर्तव्यं प्रेतशब्दं विहाय च । अर्ध्यसंयोजनं नास्ति
पिण्डसंयोजनं तथा । एकादशोऽहि कर्तव्यं सपिण्डीकरणं पुनः ।
द्वादशाहे न कर्तव्यमिति शातातपोऽब्रवीत् । यः सपिण्डीकृतं प्रेतं
पुनः पिण्डेन योजयेत् । विधिघ्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते
इति । एव श्वार्थ्यपिण्डसंयोग तदभावयोर्विकल्पः । अत्र केचिदाहुः ।
— पुनः पिण्डसंयोगनिषेधश्रवणात्, सपिण्डीकरणे वृते पृथक्त्वं
नोपपद्यते । पृथक्त्वे तु कृते पश्चात् पुनः पित्रोस्सपिण्डता
इत्येकोद्दिष्टनिषेधस्मरणाच्च पुनः पार्वणधर्मवत् इति पुनः पार्वण
धर्ममात्रस्मरणाच्च, पुनः सपिण्डीकरणं पार्वणविधानेन कर्तव्यम्
इति । पुनस्सपिण्डीकरणे ततः पूर्वं न मासिकानि पुनः कर्तव्यानि,
सपिण्डीकरणमात्रस्य पुनः करणविधानात्, सपिण्डीकरणादूर्ध्वं
नैकोद्दिष्टं समाचरेत् इत्येकोद्दिष्टस्त्रूपमासिक निषेधस्मरणाच्च ।

ஹோமாத்ரியில்:- “புனஸ் ஸபின்ஷகரணம் என்பது பார்வன தர்மங்களை உடையது. ப்ரேத சப்தத்தை விட்டு, பித்ரு சப்தத்தால் செய்யவும். அர்க்ய ஸம்யோஜனம் இல்லை. பின்ட ஸம்யோஜனமும் இல்லை. 11-ஆவது

நாளில் செய்ய வேண்டும். 12-ஆவது நாளில் செய்யக் கூடாது என்றார் சாதாதபர். ஸபின்ஷகரணம் செய்யப்பட்டுள்ள ப்ரேதனை மறுபடி பிண்டத்துடன் சேர்ப்பவன் விதியை அதிக்ரமித்தவனுகிறுன், பித்ருஹத்தை செய்தவனுயும் ஆகிறுன்” என்று உள்ளது. இவ்விதம் இருப்பதால் அர்க்ய பிண்ட ஸம்யோகத்தைச் செய்வதற்கும், செய்யாமல் இருப்பதற்கும் (ஸம) விகல்பம். இவ்விஷயத்தில் கிளர் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர்:- “மறுபடி பிண்ட ஸம்யோகத்திற்கு நிஷேஷதம் கேட்கப்படுவதால், ‘ஸபின்ஷகரணம் செய்தபிறகு, தனிமை என்பது உயயன்னமாகாது. தனியாய்ப் பிரித்து ஏகோத்திஷ்டம் செய்தால் மறுபடி மாதா பிதாக்களுக்கு ஸபின்ஷகரணம் செய்யவும்’ என்று ஏகோத்திஷ்டத்தை நிஷேஷதிக்கும் ஸ்மருதி இருப்பதாலும், மறுபடி ஸாபின்ட்யத்தைப் பார்வண தர்மமாய்ச் செய்யவும், என்று பார்வண தர்மத்தை மட்டில் விதிப்பதாலும், புனஸ் ஸபின்ஷகரணத்தைப் பார்வண தர்மமாய் செய்ய வேண்டும்” என்று இந்த புனஸ் ஸபின்ஷகரணத்தில் அதற்கு முன் உள்ள மாஸிகங்களைச் செய்யக் கூடாது. ஸபின்ஷகரணத்தை மட்டில் மறுபடி செய்யும்படி விதி இருப்பதாலும், ‘ஸபின்ஷகரணத்திற்குப் பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யக் கூடாது’ என்று ஏகோத்திஷ்ட ரூபமான மாஸிகத்தை நிஷேஷதிக்கும் ஸ்மருதி இருப்பதாலும்.

ஸபிண்டிகரணாதாவதினிர்ணயः

அथ ஸபிண்டிகரணாதாவதினிர்ணயः । தत्र யாஜவல்க்யः — கर्म ஸ்மार्त विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही इति । ஶ्रीधரியே — ஦्वादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे मासि चाबिदके । ஸபிண்டிகரण் குர्यात् பித்ரௌपாஸனே ஸுதः இतி । வिष्णुः — ஸபிண்டிகரण் பித்ரोः குர्यादौபாஸனே ஸுதः । அभாவே லौகிகே ஹஸ்தி ஸर்வ ஸंபாदயேது஧ः இதி ।

लौकिकाग्नाविति विधुरादिविषयम् । तथा च स्मृत्यन्तरे — औपासनाग्नौ कर्तव्यं मातापित्रोगुरोरपि । अन्येषां लौकिकाग्नौ तु विधुरस्य च लौकिके । बदुश्चेत् (लौकिकाग्नौ च) समिदग्नौ वा कुर्यात् पित्रोः सपिण्डनम् इति । अन्यत्रापि — कुर्यादौपासने श्राव्यं मातापित्रोर्थाविथि । अन्येषां लौकिके तद्वत् ब्रह्मचार्यप्यनग्निकः इति ।

सपिण्डाकरणम् मुत्तलियतीलं अक्षियिणं नीर्णयम्.

இனி ஸபிண்டாகரணைது ச்ராத்தங்களில் அக்னி நிர்ணயம் சொல்லப்படுகிறது. அதில், யாஜ்ஞவல்க்யர்:-க்ருஹஸ்தன் ப்ரதி தனம் ஸ்மார்த்த கர்மத்தை விவாஹாக்னியில் செய்யவும். ஸ்ரீதீயத்தில்:- புத்ரன் மாதாபிதாக்கஞ்சுக்கு ஸபிண்டாகரணத்தை, 12-ஆவது நாள், த்ரிபக்ஞம், 6-ஆவது மாஸம், வர்ஷத்தின் முடிவு இவைகளுள் ஒரு காலத்தில் ஒளபாஸனைக்னியில் செய்யவும். விஷ்ணு:- 'மாதா பிதாக்கஞ்சுக்கு ஸபிண்டாகரணத்தைப் புத்ரன் ஒளபாஸனைக்னியில் செய்யவும். இல்லாவிடில், அறிந்தவன் லெளகிகாக்னியில் எல்லாவற்றையும் செய்யவும்.' லெளகிகாக்னியில் என்றது, விதுரன் முதலியவர்களைப் பற்றியது. அவ்விதமே, மற்றெலூரு ஸ்ம்ருதியில்:- மாதா, பிதா, குரு இவர்களுக்கு ஒளபாஸனைக்னியில் செய்யவும். மற்றவர்க்கு லெளகிகாக்னியில் செய்யவும். விதுரன் லெளகிகாக்னியில் செய்யவும். ப்ரம்ஹசாரி (லெளகிகாக்னியில்) 'ஸமிதாதானைக்னியிலாவது மாதா பிதாக்கஞ்சுக்கு ஸபிண்டானத்தைச் செய்யவும்' மற்றெலூரு ஸ்ம்ருதியில்:- மாதா, பிதாக்கஞ்சுக்கு ச்ராத்தத்தை விதிப்படி ஒளபாஸனைக்னியில் செய்ய வேண்டும். மற்றவர்க்கு லெளகிகாக்னியில் செய்யவும். ப்ரம்ஹசாரியும், விதுரனும் லெளகிகாக்னியில் செய்யவும்.

தथா — ஸபிண்டிகரண் குர்யாடியாவௌபாஸனே ஦ிஜிஃ । மாதாபித்ரோருரோஶைவமிதரேஷாஂ து லௌகிகே । இதி । அखண்டாदर்ஶே — பித்ரோ: ஸபிண்டிகரண் குர்யாடியாவௌபாஸனே சுதः । இதரேஷாஂ ஸபிண்டாநாஂ லௌகிகாங்ரா விதி ஸ்஥ிதி: இதி । ஸாயணீயே — ஸபிண்டிகரண் குர்யாத் பித்ரோரௌபாஸனாநலே । தथா மாதாமஹஸ்யாபி மாதாமஹாஶ்ர நிர்ணய: । தथா ஸிமந்தஜாதஸ்ய ஜ்யேஷ்ஸ்யாபி ஸபிண்டனம् । ஔபாஸனாங்ரை கர்த்துவம் ஜநகஸ்ய ஸமோ ஹி ஸ: । பிதாமஹஸ்ய தத்பத்ரா: கார்யமௌபாஸனாநலே இதி ।

அவ்விதம் — ‘ப்ராம்ஹணன் மாதா பிதாக்கஞ்சுக்கும், குருவுக்கும் ஒளபாஸனாக்னியில் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்யவும். மற்றவர்க்கு லெளகிகாக்னியில் செய்யவும். அகண்டாதார்சத்தில்:- புத்ரன் மாதா பிதாக்கஞ்சுக்கு ஸபிண்மகரணத்தை ஒளபாஸநத்தில் செய்யவும். மற்ற ஸபிண்டர்கஞ்சுக்கு லெளகிகாக்னியில் செய்யவும். இது நிர்ணயம். ஸாயணீயத்தில்:- மாதா பிதாக்கஞ்சுக்கும், மாதாமஹாநுக்கும், மாதாமஹாநுக்கும் ஒளபாஸனாக்னியில் ஸபிண்மகரணத்தைச் செய்யவும். ஸீமந்தஜானை ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவுக்கும் ஒளபாஸநத்தில் செய்யவும். அவன் பிதாவுக்கு ஸமனல்லவோ ? பிதாமஹாநுக்கும் பிதாமஹாநுக்கும் ஒளபாஸநத்தில் செய்யவும்.

ஸ்மृத்யந்தரே — மாது: பித்ரோமதிலாடேர்மரணே து ஸ்வவஹினா । ஸபிண்டாஂ மாஸிகார்஦்வை தத்தஸ்தூநே காரயேத் । அபுத்ரஸ்ய பிதுஷ்யஸ்ய ஜ்யேஷ்ஸ்யாப்யஸுதஸ்ய ச । ஸபிண்டிகரண் குர்யாத் ஸ்வஸ்யௌபா ஸனவஹினா இதி । அந்யத்ராபி — மாது: பித்ரோமதிலாடீந் ஦ௌஹித்ர: ஸ்வீயவஹினா । தथா மஹாலயார்஦்வை குர்யாத் பார்வணத: ஶுசி: இதி । ததேவ மாதாபித்ரோமதிமஹமாதாமஹாமதிலஸ்யாபுத்ரஸ்ய ஜ்யேஷ்஭ாது:

पितृव्यस्याचार्यस्य च स्वौपासने सापिण्ड्यादि पार्वणश्राद्धं
कुर्यादिति स्थितम् ॥

மற்றேரு ஸ்ம்ருதியில்:— மாதாமஹன், மாதாமஹி,
மாதுலன் முதலியவர் இவர்களின் மரணத்தில்
ஒளபாஸனுக்னியில் ஸாபிண்ட்யம் மாஸிகம்
முதலியவைகளை அவரவரின் ஸ-அத்ரப்படி செய்யவும்.
புத்ரன் இல்லாத பித்ருவ்யன், அபுத்ரனுன் ஜ்யேஷ்டன்
இவர்களுக்கும் ஸபிண்லகரணத்தைத் தனது
ஒளபாஸாநக்நியில் செய்ய வேண்டும். மற்றேர்
ஸ்ம்ருதியிலும்:— மாதாமஹன் மாதாமஹி இவர்களுக்கு
மாஸிகம் மஹாஸயம் முதலியவைகளைத் தெளவுறித்ரன்
தனது ஒளபாஸனுக்னியில் பார்வணவிதியாய்ச்சுத்தனுய்ச்
செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் இருப்பதால், மாதா, பிதா,
மாதாமஹன், மாதாமஹி, மாதுலன், அபுத்ரனுன்
ஜ்யேஷ்டப்ராதா, பித்ருவ்யன், ஆசார்யன் இவர்களுக்கு,
தனது ஒளபாஸனத்தில் ஸாபிண்ட்யம் முதலிய பார்வண
ச்சராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பது ஸித்தித்தது.

यत् कैश्चिदुक्तम् — पित्रोर्मातामहयोश्च श्राद्ध-मौपासने,
तदितरेषां श्रोत्रियागारादाहते लौकिकाश्रौ कर्तव्यम्, इति,
पूर्वोक्तस्मृत्यनभिज्ञानविलिपितत्वा दुपेक्ष्यम् । अश्रौकरणं
द्विविधम्, कात्यायनाश्वलायनाद्युक्तं पितृयज्ञधर्मकमेकम्,
आपस्तम्बाद्युक्तं तद्रहित मन्यत्, तत् स्वरूपं चाग्रे वक्ष्यते ।
उभयविधमश्रौकरणमपि अनाहिताश्रेरौपासनवतः आहिताश्रे-
रप्यधीधानेनौपासनवत् औपासन एव, सर्वाधानेनौपासन-
वत्त्वासम्भवे आपस्तम्बोक्ताश्रौकरणहोमस्य लोपः । न तु
वैतानिकाश्रावनुष्ठानम्, श्रौतं वैतानिकाश्रिषु इत्यभिधानात् । न च
लौकिकाश्रौ । देवतादेविकाश्रेरपि प्रतिनिध्यभावात् । अत एव
सर्वाधानेनौपासनाभावविषये धूर्तस्वामिना भाष्यकारेणोक्तम् -

ஆகையில் ஹமாத் கர்த்ய இந்திய ஆகவனியார்஥ா: தஸ்யாபி
பிர்஧ானத்தாடிதி ।

ஆனால் சிலர் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர் — “மாதா, பிதா, மாதாமஹன், மாதாமஹீ இவர்களுக்கு சராத்தம் ஒளபாஸநாக்னியிலும், மற்றவர்களுக்கு சரோத்ரிய க்ருஹத்தினின்றும் எடுத்து வரப்பட்ட வெளகிகாக்னியிலும் செய்யப்பட வேண்டும்” என்று: அது, முன் சொல்லப்பட்ட ஸ்மிருதிகளை அறியாமையால் சொல்லப்பட்டதாகியதால் உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது. அக்னெளகரணம் (ஹோமம்) என்பது 2-ப்ரகாரம் உள்ளது. காத்யாயனர், ஆச்வலாயனர் முதலியவர்களால் சொல்லப்பட்டு, பித்ருயஜ்ஞ ப்ரகாரத்தை உடையது ஒன்று. ஆபஸ்தம்பர் முதலியவர்களால் சொல்லப்பட்டு, பித்ருயஜ்ஞ தர்மம் இல்லாதது மற்றது. அவைகளின் ஸ்வரூபம் மேலே சொல்லப்படும். இரண்டு விதமான அக்னெளகரணமும், ஒளபாஸனமும் உடையவனை அநாஹிதாக்னிக்கும், அர்த்தாதானத்தால், ஒளபாஸநம் உடையவனை ஆஹிதாக்னிக்கும் ஒளபாஸநாக்னி யிலேயே விஹிதம். ஸர்வாதாநத்தால் ஒளபாஸநம் இல்லாதவனைகில் ஆபஸ்தம்பரால் சொல்லப்பட்ட அக்னெளகரண ஹோமத்திற்கு லோபம். ச்ரெளதாக்னியில் ஹோமம் என்பது இல்லை, ச்ருத்யுக்தமாகிய ஹோமத்தை ச்ரெளதாக்னியில் செய்ய வேண்டும், என்று சொல்லி இருப்பதால். வெளகிகாக்னியிலும் செய்யக் கூடாது. தேவதை முதலியதற்குப் போல் அக்னிக்கு ப்ரதிநிதி என்பது இல்லையாதலால். ஆகையாலேயே ஸர்வாதானத்தால் ஒளபாஸநமில்லாத விஷயத்தில் தூர்த்த ஸ்வாமி என்ற பாஷ்யகாரரால் சொல்லப்பட்டுள்ள — “சராத்தத்தை ஹோமத்திற்கு மேல் செய்யவும். ப்ராம்ஹணர்கள் ஆஹவநீயஸ்தானீயர்கள். அதுவும் ப்ரதானம் ஆகியதால்” என்று.

तस्यापि होमादूर्ध्वं क्रियमाणस्य अन्बाशनलक्षणस्य
श्राद्धस्यापीत्यर्थः । पितृयज्ञाधर्मकाग्नौकरणस्य तु सर्वाधाने-
नौपासनाभावेऽपि न निवृत्तिः कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ कुर्वति प्रत्यहं
गृही इत्यादिनोपदिष्टौपासनाश्यभावेऽपि पितृयज्ञवदित्यतिदेशतः
प्राप्तदक्षिणाग्नेः संभवात् दक्षिणाग्नावनुष्ठानम् ।

இதிலுள்ள ‘தஸ्यापि’ என்பதற்கு, ஹோமத்திற்கு மேல் செய்யப்படும் அன்ன போஜன ரூபமான ச்ராத்தத்திற்கும், என்பது பொருள். பித்ருயஜ்ஞங்குதர்மகமான அக்னெனா கரணத்திற் கோ வெனில், ஸர்வாதாநத்தால் ஒளபாஸநம் இல்லாவிட்டனும் : நிவருத்தி இல்லை. ‘க்ருஹஸ்தன் ஸ்மார்த்த கர்மத்தை ப்ரதி தினமும் விவாஹாக்னியில் செய்யவும்’ என்பது முதலியதால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஒளபாஸநாக்னி இல்லாவிட்டனும், ‘பித்ருயஜ்ஞவத்’ என்ற அதி தேசத்தால் கிடைத்த தக்ஷிணைக்னி ஸம்பவிப்பதால் தக்ஷிணைக்னியில் (அக்னெனாகரணத்திற்கு) அனுஷ்டானம்.

अनेनैवाभिप्रायेण मार्कण्डेयेनोक्तम् — आहिताग्निस्तु जुहुयाद्वक्षिणाग्नौ समाहितः इति । आपस्तम्बोक्ताग्नौकरणे तु पिण्डपितृयज्ञवदित्यतिदेशाभावान दक्षिणाग्निप्राप्तिरिति सर्वाधाने धूर्तस्वाम्युक्ताग्नौकरणाभावो युक्तः । पूर्वोक्ताभिप्रायेण वायुपुराणेऽप्युक्तम्— आहृत्य दक्षिणाग्निं तु होमार्थं वै प्रयत्नतः । अश्यर्थं लौकिकं वाऽपि जुहुयात् कर्मसिद्धये इति । अस्यायमर्थः— अग्नौकरणहोमार्थं गृह्णाश्यभावे दक्षिणाग्निं लौकिकाग्निं वाऽहृत्य होमकर्मसिद्धये जुहुयात् इति । अत्र दक्षिणाग्निपक्षस्य प्रवासादिना असंभवे लौकिकाग्नि पक्षः, तस्यातिदेशोपदेशरूप प्रमाणद्वयावगत दक्षिणाश्यबाधकत्वेन अगत्याऽश्रयणीयत्वात् । अत एव प्रयत्नतो दक्षिणाग्निमाहृत्येत्युक्तम् । दक्षिणाश्यसन्निधाने पाणौ वा होमः कर्तव्यः ।

இந்த அபிப்ராயத்தினுலேயே சொல்லப்பட்டுள்ளது மார்க்கண்டேயரால்:— ‘ஆஹிதாக்னியோ வெனில் கவனமுடையவனும், தக்ஷிணைக்னியில் ஹோமம் செய்யவும்’ என்று, ஆபஸ்தம்பர் சொல்லிய அக்னெனாகரணத்திலோ வெனில் ‘பிண்டபித்ருயஜ்ஞவத்’ என்ற அதிதேசம் இல்லாததால், தக்ஷிணைக்னி ப்ராப்தி இல்லை என்பதால் ஸர்வாதாந பக்ஷத்தில் தூர்த்த ஸ்வாமியினால் சொல்லப்பட்ட அக்னெனா கரணைபாவம் யுக்தம் ஆகிறது. முன் சொல்லிய அபிப்ராயத்துடன் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. வாய்புராணத்திலும்:— ‘ஆஹ்ருத்ய+ஸித்தயே’ என்று, இதன் பொருள் இவ்விதம்:— “அக்னெனாகரண ஹோமத்திற்காக க்ருஹ்யாக்னி இல்லாவிடில், தக்ஷிணைக்னியையாவது வெளகிகாக்னியையாவது எடுத்து ஹோமகார்யம் லித்திப்பதற்காக ஹோமம் செய்ய வேண்டும்” என்று. இவ்விஷயத்தில், தக்ஷிணைக்னி பக்ஷம் தூரதேசகமங்கிளால் ஸம்பவிக்காவிடில், வெளகிகாக்னி பக்ஷத்தை க்ரஹிக்க வேண்டும். வெளகிகாக்னி பக்ஷமானது, அதிதேசம் உபதேசம் என்ற இரண்டு ப்ரமாணங்களாலும் அறியப்பட்ட தக்ஷிணைக்னியைப் பாதிக்காது. ஆகையால், அதைக் கதி இல்லாததால் ஆச்சரியிக்க வேண்டி இருக்கிறது, ஆகையால் தான் ப்ரயத்னத்துடன் ‘தக்ஷிணைக்னி மாஹ்ருத்ய’ என்று சொல்லப்பட்டது. தக்ஷிணைக்னி இல்லாவிடில் பாணியிலாவது ஹோமத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

தथा ஹி ஸ்மृத்யந்தரம् — ஹஸ்தஸ்தீகரண் குர்யாத் அஸ்தீ வா ஸாதிகோ ஦்ரிஜः இதி । ஸாதிகः ஸ்வாதிநாஹிதாஸ்தி: ஦க்ஷிணாஸ்தியஸ்நி஧ானே ஹஸ்தே லௌகிகாஸ்தீ வா அஸ்தீகரண் குர்யாதித்யர्थः । அத்ராपி ப்ரவாஸாதிநா ஦க்ஷிணாஸ்தியஸ்ம்஭வே லௌகிகாஸ்தாதிபக்ஷீ பூர்வீக்தந்யாயாதவங்ந்தாயை । லௌகிகாஸ்தேஸ்து தாட்சா விஶோஷாநவங்மாத्

पाणिना सह समविकल्प एव। यद्यपि न्यायतोऽग्रेः प्रतिनिध्य भावः, तथाऽपि न प्रतिनिधिन्यायेनात्र दक्षिणाश्रयादेशपादानम्। किन्तु गृह्याश्रयभावेन तत्साध्यकर्मणोऽननुष्ठाने प्राप्ते वचनेनागृह्याश्रयादावपि गृह्याग्रिसाध्यं कर्म विधीयते इति न कश्चिद्दोषः।

ॐ शं मं गुरुतीः— लोकं नीकनान् प्रराम्भैर्णान् पाणीयीलं अकं नेन ऊ करण्तत्तेष्वं चेष्ययवुम् अल्लतु अकं नीयीलं चेष्ययवुम्. ऐलत्तिलं उल्ला 'लोकं नीकः' एन्ऱ बृहत्तिर्कु लर्वा तान्त्तालं आहृताकं नी आक्यिवव्य एन्ऱु बेपारुन्. अवन् तक्षिण्णेकं नी शम्पत्तिलं इल्लावीष्टिलं पाणीयीलावतु, लेलोकीकाकं नीयीलावतु अकं नेन ऊ करण्तत्तेष्वं चेष्य वेण्णुम् एन्पतु बेपारुन्. इवं विषयत्तिलुम् प्रवासम् मुत्तवियतालं तक्षिण्णेकं नी शम्पवीक्कावीष्टिलं, लेलोकीकाकं नी मुत्तविय इरण्णु पक्षुं नक्कलं मुन् चेसाल्लिय न्यायत्तालं अर्नियत्त तकुन्तत्वे. लेलोकीकाकं नीको वेणीलं अवं वित्त विचेष्म् अर्नियप्पत्तात्तालं पाणीयुटन् शम विकल्पमेऽप्पत्तियम् अकं नीक्कु प्रतिनिति इल्लै एन्पतु उण्णु. आनेलुम्, प्रतिनिति न्यायत्तेष्वं केवाण्णु इन्कुत्त तक्षिण्णेकं नीये कर्त्तव्यिक्कवे इल्लै. आनेलं औलोपासनाकं नी इल्लात्तालं करुल्लयाकं नी लोत्तयमान कर्मत्तिर्कु अनेलुष्टानम् प्रराप्ततमायिरुक्क, वसन्तत्तालं करुल्लयाकं नी अल्लात्तिलुम् करुल्लयाकं नी लोत्तयमान कर्मम् वित्तिक्कप्पत्तु किन्तु एन्पत्तालं तेऽविष्म औन्ऱुम् इल्लै.

तथा नारदीये— अश्रयभावे तु विप्रस्य पाणौ होमो विधीयते। यथाचारं प्रकुर्वीत पाणावश्वौ तु वा द्विजः इति। यत्तु स्मृत्यन्तरम्— हस्तेऽग्नौकरणं कुर्यात् सर्वधानी न लौकिके। अर्धधानी तु गृह्याश्वौ जुहुयात् पितृयज्ञवत् इति। अत्र न लौकिक इति

விபூராடிவிஷயம் । தथா ச ஸ்மृத்யந்தர் — ஸாப்ரியாவனபிஸ்து
஦ிஜபாணாவதாப்ஸு வா । குரைடயௌ கியாங் நித்யே லௌகிகேநேதி
நிஶ்சிதம் இதி ।

நாரதீயத்தில்:- ‘அக்னி இல்லாவிடில்
ப்ராம்ஹணனின் பாணியில் ஹோமம் விதிக்கப்படுகிறது.
பாணியிலாவது, அக்னியிலாவது ஆசாரப்படி செய்யவும்,
என்றுள்ளது. ஆனால் “ஸர்வாதானியானவன் பாணியில்
ஹோமத்தைச் செய்யவும், லெளகிகாக்னியில் செய்யக்
கூடாது. அர்த்தாதானியோ வெனில், கருஉற்யாக்னியில்
பித்ருயஜ்ஞ தர்மமாய்ச் செய்யவும்” என்ற ஒர் ஸ்மருதி
வசனம் உள்ளதே ? எனில், இதில் லெளகிகாக்னியில்
கூடாது என்று விதுரன் முதலியவரைப் பற்றியது ஆகும்.
அவ்விதமே மற்றொரு ஸ்மருதி யில்:— ‘ஸாக்நி +
லெளகிகேநேதி நிச்சிதம், என்று உள்ளது. இதன் பொருள்
இவ்விதம்:— “ஆஹிதாக்னியானவன், ஒளபாஸனூக்னியிலாவது,
தக்ஷிஞூக்னியிலாவது, லெளகிகாக்னியிலாவது,
முன் சொல்லிய வ்வயவஸ்தைப்படி அக்னெனள்
கரணத்தைச் செய்யவும். பார்யை இல்லாததாலோ,
விவாஹம் ஆவதற்கு முன் ஒளபாஸனூக்னியை
ஸ்வீகரிக்காததாலோ, எவன் அக்னி இல்லாதவங்கே
அவங்கே வெனில் ப்ராம்ஹணனின் பாணியிலாவது,
ஐலத்திலாவது, அக்னெனள் கரணத்தைச் செய்ய வேண்டும்:
ஒரு காலும் லெளகிகாக்னியில் செய்யக் கூடாது” என்று.

**யது மனுநோக்தம் — அத்யமாவே து விப்ரஸ்ய
பாணாகேவோபபாடயேத் இதி, தத் ஬்ரஹ்மாரிவிஷயம் । ததாஹ
ஜாதுகர்ணி:— அத்யமாவே து விப்ரஸ்ய பாணை ஦யாத்து ஦க்ஷிணே ।
அத்யமாவ: ஸ்மृதஸ்தாவத்யாக்஭ார்யாந விந்஦தி இதி । அந்யேஷாங் லௌகிகே
தத்து ஬்ரஹ்மார்ய்யனபிஸ்திக: இதி வசன் ஸபிண்டிகரணவிஷயம்,
தத்பூர்முக்த, ஆபஸ்தம்஬ாடி விஷய வா । ததா ச வக்ஷ்யதே ।**

आगेलं, मनु “अकंनि इल्लावीटिलं प्रराम्भैज्ञनीं प्राज्ञीयिलेये हेहोमत्तेतच्च चेय्यवुम्” एनंकिरुरो ? एनीलं, अतु प्ररम्भैज्ञशारीयेयप पर्न्नियतु. अतेतच्च शोल्लुकिरुर, ज्ञातुर्क्षणीः— ‘अकंनि इल्लावीटिलं प्रराम्भैज्ञनीं वलतु केयीलं हेहोमत्तेतच्च चेय्यवुम्. अकंनि इल्लैल एनंपतु पार्येयये अटेयात वररयीलं एनंरु शोल्लप्पट्टु उंलातु’ एनंरु ‘मर्त्रवर्कं लेलाकिकाक्षनीयीलं चेय्य वेण्णुम्. प्ररम्भैज्ञशारीयुम् अकंनि इल्लातवेने’ एनंरु वचनम् शपींश्चकरज्ञतेतप्प पर्न्नियतु. अतु मुन्प शोल्लप्पट्टु उंलातु. आपस्तम्पैयाति वीष्यमं एनंरुवतु आकलाम्. अव्वितमं मेले शोल्लप्पटप्प पोकिरन्तु.

वृद्धमनुः — कुर्यादनुपनीतोऽपि श्राद्धमेको हि यस्सुतः । पितृयज्ञाहुतिं पाणौ जुहुयान्मन्त्रपूर्वकम् । इति । विघ्मानेऽप्यग्नौ कामादिषु चतुर्षु श्राद्धेषु पाणाबेव होमः । तदाह गृह्यकारः — अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्युमासि मास्यथ पार्वणम् । काम्यमभ्युदयेऽष्टम्या मेकोद्विष्टमधाष्टमम् । चतुष्वर्षद्येषु साग्रीनां वहौ होमो विधीयते । पित्र्यब्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुष्वर्षपि इति । अष्टकाश्राद्ध दिनादुत्तरदिने क्रियमाणं श्राद्धमन्वष्टक्यम्, पूर्वदिने सप्तम्यां क्रियमाणं श्राद्धं पूर्वेद्युरितिपदेनोक्तम्, मासिमासीत्यनेन मासिश्राद्धमुक्तम् । पार्वणं त्रिपुरुषोदेशेन क्रियमाणममावास्यादि-श्राद्धम्, काम्यं - फलकामनया क्रियमाणम्, अभ्युदय इत्यनेनाभ्यु-दयिकमुक्तम्, अष्टम्यामिति पदेनाष्टकाख्यं श्राद्धमुक्तम्, एकमुद्दिश्य क्रियमाणमेकोद्विष्टम्, एतेषामष्टविधानां श्राद्धानामाद्येषु चतुर्षु साग्रीकानां बहूग्निकानामेकाग्रीनां च पूर्वोक्तव्यवस्थयाऽग्नौ होमो विधीयते, उत्तरेषु चतुर्षु होमः पित्र्यब्राह्मणहस्ते स्यादित्यर्थः । आद्येषु चतुष्वर्षपि प्रवासादिना औपासनासन्धिधाने द्विजपाणावप्सु वा कर्तव्यम् ।

வ்ருத்தமனு:— உபநயநம் ஆகாதவனுயினும் ச்ராத்தத்தைச் செய்பவன் ஏகபுத்ரனுகில் அவன், பித்ருயஜ்ஞாஹாதியை மந்த்ரத்துடன் பாணியில் ஹோமம் செய்யவும். அக்னி இருந்தாலும், காம்யம் முதலிய நான்கு ச்ராத்தங்களில் பாணியிலேயே ஹோமம். அதைச் சொல்லுகிறீர், க்ருஹ்யகாரர்:— ‘அன்வஷ்டக்யம்ச + சதுர்ஷ்வபி’ என்று. இதன் பொருள்— ‘அஷ்டகா ச்ராத்தத்திற்கு மறு தினத்தில் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் அன்வஷ்டக்யம் எனப்படும். முதல் நாளில் ஸப்தமியில் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் பூர்வேத்யு: என்ற பத்தால் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. மாலி மாலி என்ற பத்தால் மாலி ச்ராத்தம் சொல்லப்பட்டது. பார்வணம் - 3-புருஷர்களை உத்தேசித்துச் செய்யப்படும். அமாவாஸ்யா ச்ராத்தம் முதலியது. காம்யம் - பலனை உத்தேசித்துச் செய்யப்படும் ச்ராத்தம். அப்யுதய சப்தத்தால் நாந்தி ச்ராத்தம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. அஷ்டம்யாம் என்பதால் அஷ்டகை என்ற ச்ராத்தம் சொல்லப்பட்டது. ஒருவனை உத்தேசித்துச் செய்யப்படும் ச்ராத்தம் ஏகோத்திஷ்டம். இவ்விதமாகிய இந்த எட்டு ச்ராத்தங்களுள் முன்புள்ள நான்கு ச்ராத்தங்களிலும், ஸாக்னிகர்களுக்கும், அநேகாக்னி உடையவர்க்கும், ஏகாக்னிகர்களுக்கும், முன் சொல்லிய வ்யவஸ்தைப்படி அக்னியில் ஹோமம் விதிக்கப்படுகிறது. மற்ற நான்கு ச்ராத்தங்களிலும் ஹோமத்தைப் பித்ரு ஸ்தாநத்தில் உள்ள ப்ராம்ஹணனின் கையில் செய்ய வேண்டும்’’ என்பதாம். முதலாகிய நான்கு ச்ராத்தங்களிலும், ப்ரவாஸம் முதலிய காரணத்தால் ஒளபாஸனம் ஸமீத்தில் இல்லாவிடில், பாணியிலாவது, ஜலத்திலாவது செய்யவும்.

ததாஹ விஷ்ணுधமீத்ரே மாகீண்டேய: — அநாஹிதாஹிஶௌ-
பாஸநேதய ஭ாவே டிஜோதப்ஸு வா இதி | ஔபாஸன: - ஗ூஹாஹி: |
விஜானேஶ்ரீயே — ஆஹிதாஹிஸ்து ஜுதுயாக்ஷிணேதயௌ ஸமாஹித: |

अनाहिताग्निरौपासनेऽश्यभावे द्विजेऽप्सु वा इति । अप्सवग्रौकरणं जलसमीपे श्राद्धकरणे वेदितव्यम् । तदाह कात्यायनः — विष्णुधर्मोत्तरे चाप्सु मार्कण्डेयेन यः स्मृतः । स यदाऽपां समीपे स्यात् श्राद्धे ज्ञेयो विधिस्तदा इति । यदा तु पाणिहोमपक्षः, तदैकस्यैव विप्रस्य पाणौ होमो न तु सर्वविप्राणामित्याह कात्यायनः । पित्र्ये यः पङ्किमूर्धन्यस्तस्य पाणावनग्निकः । हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तूष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत् इति । मनुः - अश्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् । पर्युक्ष्य दर्भनास्तीर्य यतो ह्यग्निसमो द्विजः इति । अग्निसमत्वात् पित्र्यब्राह्मणं पर्युक्ष्य परिस्तीर्य जुहुयादित्यर्थः ।

अतेऽच चेऽल्लुकिरुर्, मार्कंकण्टेयर्, वीष्णुन्नु तर्मोत्तरत्तिलः—अनाहिताकंनीयुम्, औलपासनत्तिल, अकंनी इल्लावीटिल प्रराम्भृणनीटत्तिलावतु, ज्ञलत्तिलावतु चेय्यवुम्. औलपासनम् एन्पतु कंग्रुह्याकंनी एन्ऱु. वीज्ञानेऽनेचवर्यत्तिलः— आहिताकंनीयानवन् तक्षिणेकंनीयिल हेहामम् चेय्यवुम्. अग्नेहिताकंनी औलपासनत्तिल अकंनी इल्लावीटिल प्रराम्भृणनीटत्तिलावतु, ज्ञलत्तिलावतु हेहामम्. ज्ञलत्तिल हेहामम् एन्ऱतु ज्ञल समीपत्तिलं सरात्तम् चेय्युम् वीष्यत्तिल एन्ऱु अर्नियवुम्. अतेऽच चेऽल्लुकिरुर्, कात्यायनरः— पित्रं गृह्णन्तत्तिल एन्त प्रराम्भृणन् मुतल्लवेणु अवनतु कैयिल, अकंनी इल्लातवन् मन्त्रत्तरत्तुटन् हेहामम् चेय्तु, मर्त्र प्रराम्भृणनरकलीनं पोज्जनं पात्रं रन्कलील मन्त्ररम् इल्लामल अन्नतत्तवेवक्कवुम्.

मनुः - अश्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् । पर्युक्ष्य दर्भनास्तीर्य यतो ह्यग्निसमो द्विजः इति । अग्निसमत्वात् पित्र्यब्राह्मणं पर्युक्ष्य परिस्तीर्य जुहुयादित्यर्थः । यत्तु यमेनोक्तम्

— ஦ைவவிப்ரகரேநநிஃ: கृत्वाऽग्नौकरणं ஦्विजः இति, தत्र விகல்பேந
வ்யவस்஥ா ஦ிஷ்டவா ।

மனு:— “அக்னி இல்லாவிடில் ப்ராம் ஹணனின்
கையிலேயே ஹோமம் செய்யவும்.—ப்ராம் ஹணன்
அக்னிக்கு ஸமஞ்சியதால், அவனைச் சுற்றிப் பரிவேஶனம்
செய்து தர்ப்பங்களால் பரிஸ்தரணம் செய்து, ஹோமம்
செய்யவும்.” அக்னிக்குச் சமஞ்சனதால் பித்ரு
ஸ்தானத்திலுள்ள ப்ராம் ஹணனைப் பரிவேஶனம் செய்து,
பரிஸ்தரணமும் செய்து ஹோமம் செய்யவும் என்பது
பொருள். ஆனால், “அக்னி இல்லாத ப்ராம் ஹணன்
தேவஸ்தானத்திலுள்ள ப்ராம் ஹணனின் கையில் ஹோமம்
செய்து” என்று யமஞ்சல் சொல்லப்பட்டு உள்ளதே? எனில்
அவ்விஷயத்தில் விகல்பத்தால் வ்யவஸ்தை
அறியத்தக்கது.

अत्र अपत्नीकर्तृकपाणिहोमे विशेषमाह कात्यायनः—
अपत्नीको यदा विप्रः श्राद्धं कुर्वीत पार्वणम् । पित्र्यविप्रैरनुज्ञातो
विश्वदेवेषु हृयते इति । बायुपुराणे च ।— अभायो दैविके कुर्याच्छेषं
पित्र्ये निवेदयेत् । न हि स्मृताः शेषभाजो विश्वदेवाः पुराणैः इति ।
विश्वदेवकरे होमपक्षे हुतशेषं पित्रर्थभोजनपात्रेष्वेव निक्षिपे-
दित्यर्थः । स्मृत्यन्तरे च — दैवविप्रकरेभार्याः कृत्वाऽग्नौकरणं
द्विजः । शेषयेत् पितृविप्रेभ्यः पिण्डार्थे शेषयेत्तदा । अग्नौकरणशेषं तु
न दद्या द्वैश्वदैविके इति ।

இவ்விஷயத்தில் பத்னி இல்லாதவள் செய்யும் பாணி
ஹோமத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,
காத்யாயனர்:— பத்னி இல்லாத ப்ராம் ஹணன் பார்வண
ச்ராத்தம் செய்தால், பித்ரு ஸ்தானீய ப்ராம் ஹணர்களின்
அனுஜ்ஞாயைப் பெற்றவனுய் விச்வதேவஸ்தானீய
ப்ராம் ஹணர்கள் இடத்தில் ஹோமம் செய்யவும். வாயு

पुराणात्तीव्यम्:— पारंये इल्लातवन् तेव प्रराम्भैरणान् इटत्तिल् खेऋामत्तेतच्च चेयतु, मैत्रियेप्प्रराम्भैरणान् इटत्तिल् वैवक्कवुम्. विच्वतेवरकौं प्रित्तु चेष्टपाकिकौं एन्ऱु पुराणम् अर्निन्तवर्कौलं केऽल्लप्पत्वील्लै. विच्वतेव प्रराम्भैरणार्कौलिं कैक्यिल् खेऋामम् चेयत्ताल् खेऋाम चेष्टत्तेत, प्रित्तु लंताऩीय प्रराम्भैरणानीन् पोजौन पात्तरत्तिल् वैवक्कवुम् एन्पतु पेपारुौ. मृद्गेहुरु स्मंगुरुत्तीयिल्लूम्:— पारंये इल्लात प्रराम्भैरणान् तेव प्रराम्भैरणानीन् कैक्यिल् खेऋामत्तेतच्च चेयतु, प्रित्तु लंताऩीय प्रराम्भैरणानुक्काक मैत्रि वैवक्कवुम्. प्रिण्टत्तिन्निर्कौकवुम् मैत्रियै वैवक्कवुम्. खेऋाम चेष्टत्तेत विच्वतेव प्रराम्भैरणान् इटत्तिल् केऽकुक्कक्कौटा॒तु.

यमः — अग्नौकरणवत्तत्र होमो दैवकरे भवेत् । पर्युक्ष्य दर्मनास्तीर्य यतो ह्यग्निसमो हि सः इति । यदा दैवविप्रकरे होमस्तदा महालयादौ पितृमातामहश्राद्धार्थं वैश्वदेवविप्रभेदेऽपि स्कृदेवानुष्टेयः, यदा पित्र्यब्राह्मणकरे होमस्तदा मातामहब्राह्मण करेऽपि पृथग्नुष्टेयः, वैश्वदेवे यदैकस्मिन् भवेयुद्धर्यादयो द्विजाः । तदैकपाणौ होतव्यं स्याद्विधिर्विहितस्तथा । मातामहस्य भेदेन कुर्यादिति विनिर्णयः इति स्मरणात् । पाणौ यत्कर्तव्यं तदाह शौनकः — अनग्निश्चेदाद्यं गृहीत्वा भवत्स्वेवाग्नौकरणमिति पूर्वं तथाऽस्तु इति । अयमर्थः — आद्यं - घृतासूतमन्बं गृहीत्वा भवत्स्वेवाग्नौकरणहोमं करिष्ये इति पूर्वं पृष्ठा, तथाऽस्त्विति तैरनुज्ञातो जुहुयादिति । पाणितले हुतस्यान्वस्य विनियोगमाह गृह्यपरिशिष्टकारः — यच्च पाणिले दत्तं यच्चान्यदुपकलिपतम् । एकीभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यते । अन्वं पाणितले दत्तं पूर्वमशनन्त्यबुद्धयः । पितरस्तेन तृप्यन्ति शेषान्वं न लभन्ति ते इति ।

யமன்:— அதில் அக்னள கரணத்தில் போல் ஹோமத்தை, தைவு/ப்ராம்ஹணனின் கையில் செய்ய வேண்டும். பரிஷேசன் பரிஸ்தரணங்களைச் செய்து செய்யவும். ப்ராம்ஹணன் அக்னிக்குச் சமம் ஆனதால். தைவு ப்ராம்ஹணனின் கையில் ஹோமம் செய்தால் அப்பொழுது, மஹாளயம் முதலியதில் பிதா மாதாமஹன் இவர்களுக்காக விச்வதேவ ப்ராம்ஹணர்கள் தனியாய் இருந்தாலும், ஹோமத்தை ஒரு தடவை மட்டில் செய்யவும். பித்ர்ய ப்ராம்ஹணனின் கையில் ஹோமம் செய்யும் பகஷத்தில், மாதாமஹ ப்ராம்ஹணனின் கையிலும் தனியாக ஹோமம் செய்யப்பட வேண்டும்.

“விச்வதேவ ஸ்தானத்தில் இருவருக்கு மேல் ப்ராம்ஹணர்கள் இருந்தால், அப்பொழுது ஒருவனின் கையில் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். அவ்விதம் விதி இருப்பதால். மாதாமஹனுக்குத் தனியாய்ச் செய்ய வேண்டும் என்பது ஸித்தாந்தம்” என்று ஸ்மருதி இருப்பதால். பாணி ஹோமத்தில் செய்ய வேண்டியதைச் சொல்லுகிறார். செளனகார்:— ‘அனக்னிச்சே+ததாஸ்து’ என்று. இதன் பொருள்:— “அக்னி இல்லாதவன், ஆத்யம் = நெய்யால் நனைந்த அன்னத்தை க்ரஹித்து, பவத்ஸவேவ அக்னளகரண ஹோமம் கரிஷ்யே” என்று முன்பு கேட்டு, ‘ததாஸ்து’ என்று அவர்களால் அனுஜ்ஞா செய்யப்பட்டவனேய் ஹோமம் செய்ய வேண்டும்” என்று. கையில் ஹோமம் செய்யப்பட்ட அன்னத்திற்கு விநியோகத்தைச் சொல்லுகிறார், க்ரஹந்யபரிசிச்டகாரர் :— கையில் கொடுக்கப்பட்டது எதுவோ, போஜன பாத்ரத்தில் வைக்கப்பட்டது எதுவோ, அவ்விரண்டையும் ஒன்றுக்கிப் புஜிக்க வேண்டும். தனியாகச் செய்யக் கூடாது. கையில் கொடுக்கப்பட்ட அன்னத்தைப் புத்தி இல்லாதவர்கள் முன்பே புஜித்து விட்டால், பித்ருக்கள் அதினாலேயே த்ருப்தர்களாகின்றனர். பிறகு கொடுக்கப்படுவதை அவர்கள் அடைவதில்லை.

यत्तु शौनकवचनम् — तेषु तद्भुक्तवत्स्वचमन्यदन्वश्च
भोजयेत् इति, पात्रस्थापितं पाणिहृतं पूर्वं भुक्तवत्सु ब्राह्मणेष्विति
तस्यार्थः । कालादर्शेऽपि — दैवार्थपाणौ जुहुयादभार्योऽन्यो
यथार्हतः । पाणौ हुतं यदन्वं तत् पृथग्नाशनाति कुञ्चित् इति ।
अनेनैवाभिप्रायेण कात्यायनः — हस्ते हुतं यदश्नीयात् ब्राह्मणो
ज्ञानदुर्बलः । नष्टं भवति तत् श्राद्धमिति शातातपोऽब्रवीत् इति ।

आगुल, 'अवर्कलं अन्त अन्नतत्तेतपं पूजीत्त पिऱकु,
वेऱ्यु अन्ननत्तेतयुमं पूजीप्पिक्कवुमं' ऎन्ऱ्यु चेळानक
वसनमं उल्लातेऽ ? ऎन्नील, अतनं पेआरुलं इव्वितमः—
पोज्जन पात्तरत्तिलं वैक्कप्पट्ट, पाणीयिलं खेंगाममं
चेय्यप्पट्ट अन्नतत्तेत मुन्पु प्रराम्भैज्जारकलं पूजीत्त
पिऱकु' ऎन्पत्तामं. कालात्तर्चत्तिलुमः— पारंये
इल्लातवनं तेवत्तारंत्त प्रराम्भैज्जानीनं कैयिलं
खेंगामत्तेत्तेचेय्यवुमं. मर्नवनं वित्तिप्पटि चेय्यवुमं.
पाणीयिलं खेंगाममं चेय्यप्पट्ट अन्नमेतुवेवा
अतेत्त तनीयायं ओरु कालुमं पूजीक्कक्क कूटात्तु.
इव्वितमान अपि प्ररायत्तुटेनेये चेल्लुक्किरुरं,
कात्त्यायनारः— 'पाणीयिलं खेंगाममं चेय्यप्पट्ट
अन्नतत्तेत अरीयात् प्रराम्भैज्जानं पूजीत्तालं, अन्त
स्त्रात्तमं नष्टमं आकिन्नतु' ऎन्ऱ्युरं सातातपरं.

पारिजाते तु — हस्ते हुतं तु नाशनीयादबद्दं
मुक्त्वाऽनुमासिकम् । अग्नौ प्रक्षेपणं कार्यं सपिण्डीप्रेतकर्मसु इति ।
तदेवमनाहिताग्नैरौपासनवत् आहिताग्नेरधानेनौपासनवत
औपासन एव सपिण्डीकरणादिं श्राद्धं कर्तव्यम् । सर्वधाने-
नौपासनासम्बवे आपस्तम्बोक्ताग्नौकरणस्य लोपः, पितृज्ञाधर्म-
काग्नौकरणस्य न निवृत्तिः, किन्तु तस्य दक्षिणाग्नावनुष्ठानम्,
दक्षिणाग्न्यसन्निधाने लौकिकाग्नौ वा जले वा होमः कर्तव्यः ।

பாரிஜாதத்திலோ வெனில்:— ப்ரத்யாப்திகம், அனுமாவிகம் இவைகளைத் தவிர்த்த ச்ராத்தத்தில் பாணியில் ஹோமம் செய்யப்பட்டதைப் புஜிக்கக்கூடாது. ஸபின்மகரணம் ப்ரேதச்ராத்தம் இவைகளில் புஜிக்காமல் அக்னியில் போட வேண்டும். ஆகையால் இவ்விதம் இருப்பதால், அநாஹிதாக்னியாய் ஒளபாஸனமும் உள்ளவனும், அர்த்தாதாநத்தால் ஒளபாஸனம் உள்ள ஆஹிதாக்னியும் ஒளபாஸனக்னியிலேயே ஸபின்மகரணம் முதலிய ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஸர்வாதானத்தால் ஒளபாஸனம் இல்லாவிடில், ஆபஸ்தம்பர்சொல்லிய அக்னெளளகரணத்திற்கு லோபமே தான். பித்ருயஜ்ஞ தர்மகமான அக்னெளளகரணத்திற்கு லோபம் இல்லை. ஆனால், அதற்குத் தக்ஷிணைக்னியில் அனுஷ்டானம். தக்ஷிணைக்னி ஸன்னிதி இல்லாவிடில் வெளகிகாக்னியிலாவது, பாணியிலாவது ஜலத்திலாவது ஹோமம் செய்யப்பட வேண்டும்.

एवमनाहिताग्निरप्यौसनासनिधाने पितृज्ञधर्मकमग्नौ करणं
लौकिकाग्नौ द्विजेऽप्सु वा कुर्यात् । दायात् प्रागृहीताग्निर्ब्रह्मचारी
विधुरश्च पाणौ कुर्यात् न लौकिकाग्नौ काम्यादिचतुष्टयेऽपि पाणावेव
होमः । आपस्तम्बोक्तमग्नौकरणमनाहिताग्निः दूरस्थाग्निश्चेत्
लौकिकाग्नौ कुर्यात्, ब्रह्मचारी विधुरश्च लौकिकाग्नौ कुर्यात् ।
औपासनाग्नौ दूरस्थे केचिदिच्छन्ति सत्तमाः । पाणावेव तु
होतव्यमिति नैतत् समझसम् । प्राचीनावीतिना होमः कार्योऽग्नौ
द्विजसत्तमाः । तच्छेषं विप्रपात्रेषु विकिरेत् संस्मरन् हरिम् । अभार्यो
दूरभार्यश्च ब्रह्मचारी च पैतृके । अग्नौकरण मेतेषां वहावेवोचितं
भवेत् इति स्मरणात् ।

இவ்விதம் அநாஹிதாக்னியும், ஒளபாஸனம் ஸமீபத்தில் இல்லாவிடில் பித்ருயஜ்ஞதர்மகமான அக்னெளளகரணத்தை வெளகிகாக்னியிலாவது,

प्रराम्भैरण्णन् इटत्तिलावतु, ज्ञलत्तिलावतु चेय्यवुम्.
 विपाकमावत्तर्कु मुनि अक्णी परीक्रौहम् चेय्यातवनुम्,
 प्ररम्भैर्चारीयुम्, वितुरनुम्, पाणीयिल् खेनामम्
 चेय्यवुम्, लेणकिकाक्णीयिल् चेय्यकं कूटातु. काम्यम्
 मुत्तविय नान्कु चरात्तनंकलीलुम् पाणीयिलेये
 खेनामम्. आपस्तम्पर्च चेलविय अक्णेणा करणत्तत्त,
 अनाहृक्णीयानवन्, तुरात्तिलुल्ला अक्णीये
 उटेयवनुकिल् लेणकिकाक्णीयिल् चेय्य वेण्टुम्.
 प्ररम्भैर्चारीयुम्, वितुरनुम् लेणकिकाक्णीयिल् चेय्य
 वेण्टुम्. “ऽनपास्तुक्णी तुरात्तिलुल्ला इरुन्त्ताल्,
 पाणीयिलेये खेनामम् चेय्य वेण्टुम् एन्ऱु चिल
 सातुक्कल् विरुम्पुकिन्नरन्. इतु लम्जुलमिल्लै. ॐ !
 प्रराम्भैर्णेत्तमर्कलो ! प्राचिण वैत्याय अक्णीयिल्
 खेनामम् चेय्य वेण्टुम्. खेनाम चेष्ठत्तत्त
 प्रराम्भैरण्णरकलीन् पोज्जन पात्तरनंकलील् वैवक्क
 वेण्टुम्. वीष्णुवैव स्मरिप्पवनुय, पार्यय
 इल्लातवन्, तुरात्तिलुल्ला पार्ययय उटेयवन्,
 प्ररम्भैर्चारी, इवर्कल् चरात्तत्तिल् अक्णेणा करणत्तत्त
 अक्णीयिलेये चेय्यवतु उचितम् आकुम् एन्ऱु स्मरुति.

अग्निमुखा वै देवाः पाणिमुखाः पितरः’ इत्यविशेषेण श्रवणा-
 दापस्तम्बोक्तमग्नौकरणमपि विधुरादयः कुर्याः पाणावित्यपरे । तच्च
 पित्र्यब्राह्मणकरे वैश्वदैविकब्राह्मणकरे वा विकल्पेन भवति ।
 अभार्यकर्तृकं तु वैश्वदैविकब्राह्मणकर एव कर्तव्यमिति
 माधवीयस्मृतिचन्द्रिकाद्यकृतार्थनिष्कर्षः । सर्वधानेन औपासना-
 सम्बवे आपस्तम्बोक्ताग्नौकरणस्यापि न निवृत्तिः, किन्तु
 लौकिकाग्रावनुष्ठानमिति मतान्तरम् । अन्यत् सर्वमत्रापि समानम् ।

‘तेवर्कल् अक्णीये मुकमाक उटेयवर्कल्.
 पित्र्यरुक्कल् पाणीये मुकमाक उटेयवर्कल्’ एन्ऱु
 सामान्यमायस्च चेलविलप्पटु इरुप्पत्तालं
 आपस्तम्पर्च चेलविय अक्णेणा करणत्तत्तयुम्, वितुरन्न

முதலியவர்கள் பாணியில் செய்ய வேண்டும் என்று சிலர் சொல்லுகின்றனர். அந்த அக்னெள கரணமும் பித்ரு ஸ்தானீய ப்ராம்ஹணனின் கையிலாவது, விச்வேதேவ ஸ்தானீய ப்ராம்ஹணன் கையிலாவது செய்யப்படலாம். பார்யை இல்லாதவன் செய்யும் அக்னெள கரணமோ வெனில் விச்வே தேவஸ்தானீய ப்ராம்ஹணனின் கையிலேயே செய்யப்பட வேண்டும் என்பது, மாதவீயம், ஸ்ம்ருதி சந்தர்த்திகை முதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள அர்த்தத்தின் நிர்ணயம் ஆகும். ஸர்வாதானத்தால் ஒளபாஸனம் இல்லாவிட்டனும், ஆபஸ்தம்பர் சொல்லிய அக்னெள கரணத்திற்கு நிவருத்தி இல்லை, ஆனால் லெளகிகாக்னியில் அனுஷ்டானம் உண்டு என்பது மற்றெரு மதம். மற்றது எல்லாம் இதிலும் ஸமாநம்.

பத்யா ரஜஸ்வலாயா் ஸத்யௌபாஸனே தாமநாட்யா் ஸாபிண்டி கரணஶாக்கு குர்யாத். க்ரதுமத்ஸ்வபி ஦ாரேஷு வி஦ேஶஸ்஥ோத்ப்யநியிக: அனேநைவாஜிக் குர்யாத்தோ வாட்டமேன ந கசித் இதி ஸ்மரபாத். ப்ரத்யாஜிகே பத்யை மத்யமபிண்டானவி஧ானே தாமநாட்யா் ஶாக்கு குர்யாத். கிமுத ஸாபிண்டே பத்யை பிண்டானமாவானிஷே஧மாவாச்.

பத்னீ ரஜஸ்வலையாய் இருந்தால் ஒளபாஸநாக்னி இருக்கும் பக்ஷத்தில் அவளைக் கூகவனிக்காமல் ஸபிண்ணகரண ச்ரார்த்தத்தைச் செய்யவும். பத்னீ ரஜஸ்வலையாய் இருந்தாலும், விதேசத்தில் இருப்பவனும் அக்னி இல்லாதவனும், அன்னத்தினை வேலேயே ப்ரத்யாப்திகத்தைச் செய்யவும், ஹிரண்யத்தாலாவது ஆமத்தாலாவது ஒரு காலும் செய்யக் கூடாது, என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ப்ரத்யாப்திகத்தில் பத்னீக்கு நடுப் பிண்டத்தைக் கொடுக்கும்படி விதி இருந்தாலும் அவளை உபேக்ஷித்து ச்ராத்தத்தைச் செய்யலாம். ஸாபிண்டயத்தைப் பற்றிச் சொல்வது ஏன்?

सेवापीण्ठं यत्क्षिलं पठन्नीकं कुप्पं पीण्ठं त्थानाम् इल्लै, नीषेष्ठिकं कप्पटवील्लै.

अग्निविच्छेदे तु — द्वयोः साधारणो वहिस्सहसंस्कार-संस्कृतः । विशेषध्य कायं विविधैस्तु कृच्छ्रद्वयप्रदानं कुरुते यथार्थम् । अतः परस्तात्सह भार्या च यतासुरागूकरणं वदेत्सः इत्यादिवचनैः सन्धाने पत्नीसापेक्षत्वावगमात् कालान्तरेऽग्निं सन्धायौपासनाग्रौ सापिण्डं कुर्यात्, तस्य कालान्तरे सावकाशत्वात् । सावकाशन्तु यत्कर्यं न तत् कुर्याद्विदूषिते इति स्मरणात् ।

अक्षिणी वीक्षिण्णनमाक्षिय वीष्यत्तिलो वेवनीलं, 'वीवाहै लम्संकारत्तालं लम्संक्करीकं कप्पट अक्षिणी, इरुवरुक्कुम लम्मानम् आक्षियतु', 'पल वीतं कलाण कंरुक्करंग्कलालं तेकत्तेतासं कृत्तमाय्च चेयंतु, वीतिप्पटि तरव्यतानम् चेयंतु, पिऱकु प्रराण्यामम् चेयंतु, पारं येयुटनं कंरुलूलस्तनं लवंकलपत्तेतासं चेयंयवम्' ऎन्पतु मुत्तलीय वसनंकलालं लन्तान वीष्यत्तिलं पठन्नीयिणं अपेक्षेषु वेण्णुम् एन्पतु अरियप्पटुवत्तालं, कालान्तरत्तिलं, अक्षिणी लन्तानम् चेयंतु केाण्णु ओलपालनाक्षिणीयिलं लपिण्णल करण्णत्तेतासं चेयंयवम् । अतु कालान्तरत्तिलं लावकाशमाय्च इरुप्पत्तालं, 'लावकाशमाण कार्यम् एतु वेवा अतेतत् तेषांस्मि उल्ला कालत्तिलं चेयंयकं कृटातु' एन्ऱु लम्मरुक्ति इरुप्पत्तालं ।

तथा च गृह्यपरिशिष्टे — ऋतुमत्स्वपि दारेषु धार्याग्निस्तु भवेद्यदि । सपिण्डीकरणश्राद्धं कुयदिवाविचारयन् इति । स्मृत्यन्तरे — सपिण्डीकरणे प्राप्ते भार्या यदि रजस्वला । सपिण्डीकरणं न स्यादग्रावनुगते सति इति । अन्यत्रापि — श्राद्ध कर्तुर्यदा भार्या ह्याशौचान्ते रजस्वला । श्राद्धशेषं प्रकुर्वीत वर्जयित्वा सपिण्डनम्

இதி । ஶோகங்கௌடபி — ஶாஷ்வேஹனி ஸ்பாஸே யஸ்ய ஭ார்யா ரஜஸ்வலா । ஶாஷ்மன ந கர்த்து கர்த்து பञ்சமேஹனி இதி । ஶாஷ்மன ஸபிண்டிகரணம் ।

க்ருஹ்யபரிசிஷ்டத்தில்:— “பார்யை ரஜஸ்வலையாயினும், தார்யாக்னியாய் இருப்பவனுகில், ஸபின்மகரண ச்ராத்தத்தை ஸந்தேஹிக்காமல் செய்யவும். மற்றினுரு ஸ்மிருதியில்:— ஸபின்மகரணம் ப்ராப்தமாய் இருக்கும் பொழுது, பார்யை ரஜஸ்வலையாய் இருந்தால் அக்னி விச்சின்னமாய் இருக்கும் பக்ஷத்தில் ஸபின்மகரணத்தைச் செய்யக் கூடாது. வேறு ஒரு ஸ்மிருதியிலும்:— ச்ரார்த்த கர்த்தாவின் பார்யை ஆசௌசத்தின் முடிவில் ரஜஸ்வலையாய் இருந்தால் பாக்கியுள்ள ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும், ஸாபின்டயத்தைத் தவிர்த்து. ச்லோக கெளதமரும்:— ச்ராத்த தினம் ப்ராப்தமாய் இருக்கும் பொழுது எவனது பார்யை ரஜஸ்வலையாய் இருக்கின்றாரோ அவன் அன்று ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது. ஐந்தாவது நாளில் செய்ய வேண்டும். இதில் ச்ராத்தம் என்பது ஸபின்மகரணமாம்.

மூத்பத்தியான ரஜஸ்வலாயாமபி பञ்சமனிமே ஭ர்துஸபிண்டிகரணமுக்க ஸ்மृத்யந்தரே— ஸபிண்டிகரண ப்ராஸே ப்ரேதபத்தி ரஜஸ்வலா । ஸபிண்டிகரண ந ஸ்யாத் பञ்சமேஹனி காரயேத் இதி । எத்புறம்ரீரே ப்ரேத பத்திகர்த்துக்ஸபிண்டிகரணவிஷயமித்யேகே, புத்ராக்ரத்துக்விஷயம-பீத்யந்யே । ஶிஷ்டாசாரா஦்யவஸ்஥ா ॥ தறை— மூதே ஭ர்தீர யா நாரி ஹாஶைசாந்தே ரஜஸ்வலா । ஶாஷ்வேஷ் பிரகுந்தீ ஸ்வாத்வா ஸூர்ய் விஸர்ஜயேத் இதி ।

இறந்தவனது பத்நீ ரஜஸ்வலையாயினும், ஐந்தாவது தினத்தில் அவளது பர்த்தாவின் ஸபின்மகரணம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. ஒரு ஸ்மிருதியில்:—

‘सपिण्णमैकरणम् प्रराप्तमाय इरुक्क परेतनिन् पत्त्नै
रजूस्लवैलयाय इरुन्ता॒ल, सपिण्णमैकरणैत्तेत्तै॒चै॒यै॒क
कूटातु॑. जून्ता॒वतु॑ तिनै॒त्ति॒ल॑ चै॒यै॒वै॒न्नै॒म॑’ ऎन्ऱै
उै॒लै॒तु॑. इ॒तु॑ पृ॒त्रै॒न॑ इ॒लै॒ला॒त॑ पृ॒त्तै॒ता॑ इ॒रन्तु॑ पृ॒त्न॑
चै॒यै॒म॑ सपिण्णमैकरणैत्तेत्तै॒प॑ पृ॒त्तै॒री॒यतु॑, ऎ॒नै॒कै॒न्नै॒न॑र
चै॒लै॑. पृ॒त्रै॒न॑ मृ॒तै॒वै॒यै॒वै॒रै॒कै॑ चै॒यै॒म॑ सपिण्णमै
करणैत्तेत्तै॒प॑ पृ॒त्तै॒री॒यतु॑ ऎ॒न्ऱै॑ चै॒लै॑. इ॒वै॒वै॒श्वै॒यै॒त्ति॒ल॑
चै॒ष्टौ॒का॒रै॒त्तै॒॒ल॑ वै॒यै॒वै॒त्तै॒य॑ अ॒री॒यै॒व॑.
मृ॒त्तै॒रु॒रु॒स्ल॑मृ॒त्तै॒य॒लै॒य॑:— पृ॒त्तै॒ता॑ इ॒रन्तु॑
आ॒चै॒लै॒का॒न्तै॒त्तै॒ल॑ ऎ॒न्तै॑ सै॒त्तै॒रु॒रु॒स्ल॑यै॒य॑ अ॒वै॒ल॑
सै॒न्नै॒न॑म॑ चै॒यै॒त॑ पृ॒त्तै॒री॒कु॑ मृ॒तै॒कै॒ल॑ सै॒त्तै॒रत्तै॒ति॒न॑
वै॒लै॒रु॒रु॒नै॒त्तै॒चै॒यै॒व॑, पृ॒रेत॑ कै॒री॒यै॒यै॒न॑ मै॒तै॒यै॒चै॒
चै॒यै॒व॑.

यत्तु नारदवचनम् — नष्टाग्निदूरभार्यश्च पार्वणे समुपस्थिते ।
अग्निं सन्धाय विधिवत् श्राव्यं कृत्वा विसर्जयेत् इति । यच्च
त्रिकाण्डीवचनम् — यस्य भार्या विदूरस्था पतिता व्याधिताऽपि
वा । अनिच्छुः प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया । श्राव्यहनि तु
सम्प्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला । अग्निं सन्धाय विधिवत् श्राव्यं कृत्वा
विसर्जयेत् इति तन्निरवकाशमृताह श्राव्यविषयम्, पुष्पवत्स्वपि
दारेषु विदेशस्थोऽप्यनग्निकः । अब्बेनैवाभिदं कुर्याद्वैम्ना वाऽमेन
न कवित् । मृताहं समतिक्रम्य चण्डालः कोटिजन्मसु इति
लोकाक्ष्यादिस्मरणात् ।

‘युनै॒ल॑ नौरै॒ वै॒सै॒न॑:— ‘नै॒ष्टौ॒कै॒नै॒य॑,
तूर्तेऽत्तै॒त्तै॒ल॑ उै॒लै॒पा॒रै॒यै॒यै॒उै॒तै॒यै॒वै॒न्न॑,
सै॒रा॒त्तै॒म॑ सै॒मै॒पि॒त्तै॒ इ॒रु॒न्तै॒॒ल॑, अ॒कै॒नै॒यै॒ वै॒ति॒पै॒ट॑
सै॒न्नै॒न॑म॑ चै॒यै॒त्तै॒ इ॒रु॒पै॒त्तै॒ चै॒यै॒त्तै॒ पृ॒त्तै॒री॒कु॑
वै॒टै॒ट॑ वै॒टै॒व॑.’ तृ॒री॒का॒न्न॑ वै॒सै॒न॑:— ए॒वै॒नै॒तु॑ पा॒रै॒यै॒
तूर्तेऽत्तै॒त्तै॒ल॑ इ॒रु॒पै॒वै॒ल॑ अ॒लै॒लै॒तु॑ पै॒तै॒तै॒यै॒य॑,
वै॒या॒ति॒यै॒लै॒वै॒ल॑, इ॒सै॒सै॒यै॒लै॒ल॑

ப்ரதிகூலையோ அவனுக்குப் ப்ரதிநிதியை வைத்துக் கொண்டு க்ரியையைச் செய்யவும். ச்ராத்த தினம் ப்ராப்தமாய் இருக்க எவனது பார்யை ரஜஸ்வலையோ அவன் அக்னியை விதிப்படி ஸந்தானம் செய்து கொண்டு, ச்ராத்தம் செய்து, பிறகு அக்னியை விட்டு விடவும்' என்று உள்ளதே எனில், அது அவகாசம் இல்லாத ம்ருதாஹ ச்ராத்தத்தைப் பற்றியது. 'பார்யை ரஜஸ்வலையாய் இருந்தாலும், அன்ய தேசத்தில் இருப்பவனையினும், அக்னி இல்லாதவனையினும், அன்னத்தினு லேயே ப்ரத்யாப்தி கத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஹிரண்யத்தாலாவது ஆமத்தாலாவது செய்யக் கூடாது' என்றும், 'ம்ருதாஹ ச்ராத்தத்தை அதிகரமித்தால் கோடி ஐஞ்மங்களில் சண்டாளனுவான்' என்றும், லோகாக்ஷி முதலியவரின் ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

அமஶாஞ் பிருவீதி யஸ்ய ஭ார்யா ரஜஸ்வலா | அபத்ரீக: பிராஸி ச யஸ்ய ஭ார்யா ரஜஸ்வலா | ஸிஞ்சாநேன ந கர்த்யமாம் தஸ்ய வி஧ியதே இதி காத்யாயநாதிவசனந் ஸபிண்டிகரணாதிவ்யதிரிக்த- விஷயம், ஸபிண்டிகரணஶாஞ் அநேநை ஸமாச்சரேத் || நைவாமேன ந ஹேஸ்தா வா மாதாபித்ராவிர்ஜீஷத: இதி ஸ்மரணாத் |

எவனது பார்யை ரஜஸ்வலையோ அவன் ஆமச் ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்றும், பத்னி இல்லாதவனும், தேசாந்தரத்தில் இருப்பவனும், ரஜஸ்வலாபதி யும் பக்வான்னத்தால் செய்யக் கூடாது, ஆமச்ராத்தம் அவனுக்கு விதிக்கப்படுகிறது' என்றும் காத்யாயனர் முதலியவரின் வசனம், ஸபின்மகரணம் முதலியதைத் தவிர்த்த ச்ராத்தத்தைப் பற்றியது. 'ஸபின்மகரண ச்ராத்தத்தை அன்னத்தாலேயே செய்ய வேண்டும். ஆமத்தாலாவது, ஹிரண்யத்தாலாவது செய்யக் கூடாது. மாதா பிதாக்களின் விஷயத்தில் இது ஆவச்யகம்' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

यस्य द्वादशाह एव । सपिण्डीकरणं विहितम्, सपिण्डीकरणं पित्रोः कुयदिको हि यः सुतः । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते 'एकपुत्रोऽग्निमांशैव कुर्वति द्वादशोऽहनि' इत्यादिना, तस्य यस्य भार्या विदूरस्था इति न्याया दग्धिसन्धानं पूर्वं कर्तव्यम् । एवं संवत्सरान्तसापिण्डचे पद्मां रजस्वलायां पद्म्याः प्रतिनिधाय श्राद्धीयेऽहनि सम्प्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला । अग्निं सन्धाय विधिवत् श्राद्धं कृत्वा विसर्जयेत् इति न्यायात् तस्य निरबकाशत्वेनाग्निं सन्धाय सापिण्डचं कुर्यात्, तत्र सापिण्डचाकरणे पुनष्ठोऽशप्रसक्तेः, कुर्यान्निरबकाशान्तु नित्यं नैमित्तिकं तथा इति शङ्खस्मरणाच्च । तदेवं पद्मां रजस्वलायामौपासने विद्यमाने तामनादत्य द्वादशाहादौ सपिण्डीकरणं कुर्यात् ।

எவனுக்கு 12-ஆவது நாளிலேயே ஸபின்டகரணம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளதோ 'ஏகபுத்ரனும் இருப்பவன் மாதா பிதாக்களுக்கு ஸபின்டகரணத்தைச் செய்பவனுகில் அவன் 12-ஆவது நாளில் செய்வது ச்லாக்யம் எனப்படுகிறது, சரீரம் ஸ்திரம் இல்லாததால்', 'ஏகபுத்ரனும் இருப்பவனும், அக்னியை உடையவனும் (ஆஹிதாக்னி) 12-ஆவது நாளில் செய்ய வேண்டும்' என்பது முதலாகிய வசனங்களால், அவனும், 'யஸ்ய பார்யா விதூரஸ்தா' என்ற ந்யாயத்தால், அக்னி ஸந்தானத்தைச் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் வர்ஷாந்தரத்தில் ஸாபின்ட்யம் செய்யும் பொழுது, பத்னி ரஜஸ்வலையாய் இருந்தால், பத்னிக்கு ப்ரதி நிதியைச் செய்து கொண்டு, 'ச்ராத்தத் தினம் ப்ராப்தமாய் இருக்கும் பொழுது எவனது பார்யை ரஜஸ்வலையோ அவன் விதிப்படி அக்னி ஸந்தானம் செய்து, ச்ராத்தம் செய்து, அக்னியை விட வேண்டும்' என்று உள்ள ந்யாயத்தால்

அந்த ச்ராத்தம் அவகாசம் இல்லாததால், அக்னி ஸந்தானம் செய்து ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்ய வேண்டும். அன்று ஸாபிண்ட்யம் செய்யாவிடில், மறுபடி 16-ச்ராத்தங்களைச் செய்ய வேண்டுவது என்பது ப்ரஸக்தம் ஆகும் ஆகும் ஆதலாலும், 'அவகாசம் இல்லாததாகிய நித்யம் நெயித்திகம் இவைகளைச் செய்யவும்' என்று சங்க ஸ்ம்ருதி இருப்பதாலும். ஆகையால் இவ்விதம் பத்னி ரஜஸ்வலையாயினும், ஒளபாஸனம் இருந்தால் பத்னியை ப்ரதிக்ஷிக்காமல், 12-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் ஸபிண்டகரணத்தைச் செய்யவும்.

அग्निविच्छेदे तु एकोद्दिष्टान्तं स्वकाले कृत्वा पञ्चमदिनादाब्रुक्तकाले अग्निं सन्धाय सापिण्डचं कुर्यात् । एकपुत्रोऽग्निमांश्च कुशादिना पद्म्याः प्रतिनिधिं कृत्वाऽग्निं सन्धाय द्वादशाहे सापिण्डचं कृत्वा तमग्निं विसृजेत् । वत्सरान्त-सापिण्डमग्निसन्धानं पूर्वकं कालान्तराभावाद्जस्वलायामपि पद्म्यां कुर्यात् । मासिकाब्दिकादिकं च अग्निं सन्धाय स्वकाले कृत्वा तमग्निं विसृजेत् । प्रेतपद्म्यां रजस्वलायां सापिण्डचं पञ्चमदिने कुर्यात् । அபुत्रे भर्तीर प्रते यदि பத்ரி குர्यात् தदैव பञ்சमேऽहி ॥ அन्यश्चेत् கुर्यात् ப्रेतपद्म्यां ரஜஸ்வलायामपि ஸ்வகाले குர्यात् இत्यपरे ॥

26. அக்னி விச்சின்னமாய் இருந்தாலோ வெனில் ஏகோத்திஷ்டம் வரையில் ஸ்வகாலத்தில் செய்து, ஐந்தாவது நாள் முதலிய விழித காலத்தில் அக்னி ஸந்தானம் செய்து ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்யவும். ஏகபுத்ரனும், அக்னி உடையவனும், குசம் முதலியதால் ப்ரதுநிதியைச் செய்து, அக்னி ஸந்தானம் செய்து கொண்டு, த்வாதசாஹத்தில் ஸாபிண்ட்யத்தைச் செய்து, அந்த அக்னியை விட வேண்டும். வர்ஷாந்த ஸாபிண்ட்யத்தை அக்னி ஸந்தானத்தை முன்னிட்டு, பத்னி ரஜஸ்வலையாய் இருந்தாலும் காலாந்தரம் இல்லாததால் செய்யவும்.

मासिकम् आप्तिकम् मृतवीयतेयुम् अक्णी
सन्तानत्तुटां संवकालत्तिल् चेष्टु अन्त अक्णीय
विटवुम्. प्रेरतन्तु पत्तिं रजुसंवलयाय इरुन्तालुम्
सापिण्णट्यत्तेतर-आवतु नालील् चेष्यवुम्. अपत्तराणे
पर्त्तता इरन्तु पत्तिं चेष्यवत्ताणे अप्पिपामुतु ताणे
ज्ञन्तावतु नालील् चेष्य वेण्टुम्. अन्याणे
कर्त्तता वाकिल्, प्रेरतनीं पत्तिं रजुसंवलयाय
इरुन्तालुम् संवकालत्तिल् चेष्यलाम् एन्ऱु लिलर्.

अयमत्र निष्कर्षः — अनाहिताग्रिद्वादशाहे तृतीयपक्षे वा
तृतीयमासे षष्ठे वैकादशे मासि वत्सरान्ते वा पुंसवनाद्यावश्यक-
शुभागमे वा सपिण्डीकरणं कुर्यात् । द्वादशाहप्रभृति षट्सु दिनेषु
सप्तदशदिनपर्यन्ते त्रयोविंशदिने वा कुर्यात्, आहिताग्रिश्चेत् कर्ता
आहिताग्रेरनाहिताग्रेवा मृतस्य सापिण्डयं द्वादशाह एव कुर्यात् ।
एकादशदिने दर्शापाते सत्येकादशदिने सापिण्डयं कृत्वा
पिण्डपितृयज्ञं च कुर्यात् । अनग्रिः कर्ता साग्रेः प्रेतस्य त्रिपक्षे
द्वादशाहे वा कुर्यात् । महागुरुपितृमरणे त्रयोदशदिने कुर्यात् ।

त्रिविष्यत्तिल्, इति निर्णयम्:—
अनाहतीताक्णीयाणवन्, 12-आवतु नालं अल्लतु 3-आवतु
पक्षम्, 3-आवतु मासम्, आरुवतु मासम्, 11-आवतु
मासम्, वर्षान्तम्, पुंसवनम् मृतवीय आवश्यक
सपकार्यम् इवेकलीलावतु सपिण्णकरणत्तेतत्स
चेष्यवुम्. 12-आवतु नालं मृतल 6-नाट्काणुल 17-आवतु
नालं वरेयिल उल्ला तिनकलीलावतु, 23-आवतु
नालीलावतु चेष्यवुम्. आहतीताक्णी कर्त्तता वाणे, मंगुतनं
आहतीताक्णी आयिनुम् अनुहतीताक्णी आयिनुम्
अवनुक्कु सापिण्णट्यत्तेत 12-आवतु नालीलेये
चेष्यवुम्. 11-आवतु नालील तर्सम् वन्ताल, 11-आवतु
नालील सापिण्णट्यत्तेतस चेष्टु पिण्ट पित्तरु
यज्ञगुत्तेतयुम् चेष्यवुम्. अनुहतीताक्णीयाण कर्त्तता,

ஆஹி தாக்னியான ப்ரேதனுக்கு, த்ரிபக்ஷத்திலாவது 12-ஆவது நாளிலாவது செய்யவும். மஹா குருவாகிய பிதாவின் மரணத்தில் 13-ஆவது நாளில் செய்யவும்.

साप्तिरनश्रि द्वादशाहादौ प्रमादादकृतं सापिण्डचमुत्तर-
भाविषु कालेषु कुर्यात् । द्वादशाहसापिण्डचे वत्सरान्तसापिण्डचे च
न वारादिदोषः । तत्रापि द्वादशाहसापिण्डचे पितृव्यतिरिक्तानां
शुक्रदिनमेकं वर्ज्यम् । वत्सरात्यये तु पुनः षोडशश्राद्धपूर्वकं
कन्याकुम्भयोरन्यतरमासस्य कृष्णपक्षे पञ्चम्यामष्टम्यामेकादशयां
दर्शे वा कर्तव्यम् । पितामहादिषु त्रिषु जीवत्सु न सापिण्डचम् ।
अन्यतमात्यये पुत्रः कुर्यात् ।

ஆஹி தாக்னியாயினும், அநாஹி தாக்னி யாயினும், 12-ஆவது நாள் முதலியதில் கவனம் இன்மையால் செய்யப்படாத ஸாபின்ட்யத்தை மேல் உள்ள காலங்களில் செய்யவும். 12-ஆவது நாளில் செய்யப்படும் ஸாபின்ட்யத்திலும், வர்ஷாந்த ஸாபின்ட்யத்திலும் வாராதி தோஷம் இல்லை. அதிலும், தவாதசாஹ ஸாபின்ட்ய விஷயத்தில், மாதா பிதாக்களைத் தவிர்த்து மற்றவர் விஷயத்தில், சுக்ர வாரம் ஒன்றை வர்ஜிக்க வேண்டும். வர்ஷம் முடிந்த பிறகானால் மறுபடி ஷோடச ச்ராத்தங்களைச் செய்து கண்யாமாஸம், கும்பமாஸம் இவைகளில் ஒன்றின் க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் பஞ்சமீ, அஷ்டமீ, த்வாதசீ, தர்சம் இவைகளுள் ஒரு திதியில் செய்யவும். பிதாமஹன் முதல் 3-பேர்கள் ஜீவித்து இருந்தால் ஸாபின்ட்யம் இல்லை. இவர்களுள் ஒருவன் இல்லாவிடில் புத்ரன் செய்யலாம்.

एवं मातुः पितुर्भर्तुः पद्म्याश्र व्युत्क्रममरणे सापिण्डचं कुर्यात् ।
नान्येषां व्युत्क्रममरणे सापिण्डचं कुर्यात् । आमेन हेमा वा कुर्यात् ।
व्युत्क्रममृतानां मातापितृमृतं पद्मीनामन्नेन सापिण्डचे

इतरेषामामेन हेमा वा कृतेऽपि तदन्तहितमरणे
तत्सपिण्डनानन्तरमेतेषां पुनरब्बेन सपिण्डीकरणं कर्तव्यम् । पुंसः
ख्लिया वा सापिण्डचे पित्रादीनामेव वरणम् । वैश्वदेवार्थे द्वौ,
पितृपितामह प्रपितामहार्थे त्रीन्, निमित्तार्थे एकं, विष्वर्थे
एकमनेन क्रमेण वृण्यात् । वैश्वदेवार्थे पित्राद्यर्थे च अशक्त एकैकं वा
वृण्यात् । पुंसः पिण्डं पित्रादिपिण्डैः सह संसृजेत् । ख्लियाः पिण्डं
श्वश्रवादिपिण्डैः सह संसृजेत् । अनपत्यायाः पतिपिण्डेनेत्येके ।

இவ்விதம், மாதா, பிதா, பர்த்தா, பத்நீ, இவர்களின் அக்ரம மரணத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யலாம். மற்றவர்களின் அக்ரம மரணத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யக் கூடாது. ஆமத்தாலாவது, ஹிரண்யத்தாலாவது செய்யலாம். அக்ரம ம்ருதர்களான மாதா, பிதா, பர்த்தா, பத்நீ இவர்களுக்கு அன்னத்தாலும், மற்றவர்க்கு ஹிரண்யத்தாலாவது ஆமத்தாலாவது ஸாபின்ட்யம் செய்யப்பட்டு இருந்தாலும், நடுவில் இருந்தவனின் மரணமான பிறகு, அவனுக்கு ஸாபின்ட்யம் செய்தவுடன், இவர்களுக்கு மறுபடி அன்னத்தால் ஸாபின்ட்யம் செய்யப்பட வேண்டும். புருஷனுடைய ஸாபின்ட்யத்திலும், ஸ்த்ரீயின் ஸாபின்ட்யத்திலும் பிதா முதலியவர்க்கே வரணம். விச்வே தேவர்கள் ஸ்தானத்தில் இருவரையும், பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹர்கள் ஸ்தானத்தில் மூவர்களையும், நிமித்த ஸ்தானத்தில் ஒருவனையும், விஷ்ணு ஸ்தானத்தில் ஒருவனையும் இந்த க்ரமமாய் வரிக்கவும். சக்தி இல்லாதவன் விச்வே தேவஸ்தானத்திலும் பிதா முதலியவரின் ஸ்தானத்திலும் ஒவ்வொரு வரையாவது வரிக்கவும். புருஷனின் பின்டத்தைப் பித்ராதி பின்டங்களுடன் சேர்க்கவும். ஸ்த்ரீயின் பின்டத்தை அவளது மாமியார் முதலியவரின் பின்டங்களுடன் சேர்க்கவும். புத்ரன் இல்லாதவளின் பின்டத்தைப் பதியின் பின்டத்துடன் சேர்க்கவும் என்று சிலர்.

அனுமृதை ஸஹமृதை ச பதிப்பிண்஡ேன ஸंஸுஜ்ய புனஸ்தத் பித்ராடிபிண்டை: ஸஹ ஸ்ஸுஜேத் । பிண்஡ந்தியவதாமாஶ்வலாயநாடி- ஸ்தானநுஸாரிணா ஸ்தியா: ஸாபிண்஡ா ஶஶ்வாடீனாமேவ வரணம், தத்பிண்டைவ ஸ்ஸர்஗: । ஸமாநபிண்஡யோగானா கற்றைக்யே தத்திர: குர்யாத் । நிமித்தவரண் பூத்துர்யாத் । மரணக்ரமாபரிஜ்ஞானே து ஜ்யைஷ்சக்ரமேண பிண்஡ஸ்ஸர்஗ குர்யாத் । பித்ரோ: பத்ரி புத்ர பௌத்ர ஭்ராது தத்புத்ர ஸ்துஷா ஸ்த்ரஸூணா ச ஸ்தாதமரணே பித்ரோத்ராதை ஸபிண்டிகரணம், பத்ராடீனா திரிப்க்ஷே, பித்ரோமூதாடை பத்ராடிவ்யதிரிக்தாமந்யேஷா மரணே பிதுவத்ஸராந்தே தேஷா ஸபிண்டிகரணம், ஸமாநாஒக ஦ௌஹித்ராடி- திராத்ராஶௌசக்ரதூக்ஸ்காரே தொத்ராதை ஸபிண்டிகரணம் ।

அனுமரணத்திலும் சேர்ந்த மரணத்திலும் பதி பிண்டத்துடன் சேர்த்து, மறுபடி அதைப் பித்ராதி பிண்டங்களுடன் சேர்க்க வேண்டும். மூன்று பிண்டம் உடையவர்களான ஆச்சவலாயானதி ஸத்ரானு ஸாரிகளுக்கு ஸ்த்ரீ ஸாபிண்டயத்தில் அவளது மாமியார் முதலியவர்க்கே வரணம். அவர்களின் பிண்டத்துடனேயே ஸம்ஸர்க்கம். ஸமாநமான பிண்ட ஸம்ஸர்க்கம் உள்ள பலர்களுக்கு ஒரு கர்த்தாவாகில் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டும். நிமித்த வரணத்தைத் தனியாய்ச் செய்யவும். மரண க்ரமம் தெரியப்படாவிடில் ஜ்யேஷ்ட க்ரமமாய் பிண்ட ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவும். மாதா பிதாக்களுக்கும், பத்னீ, புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ராதா, அவனது புத்ரன், நாட்டுப் பெண், பகிநீ, இவர்களுக்கும் ஸங்காத மரணமானால், மாதா பிதாக்களுக்கு 12-ஆவது நாளில் ஸபிண்ணகரணம். பத்னீ முதலியவர்களுக்கு த்ரிபக்ஷத்தில். மாதா பிதாக்கள் இறந்த வர்ஷத்தில் பத்னீ முதலிய 7-பேர்களைத் தவிர்த்த மற்றவரின் மரணமானால், மாதா பித்ருவத்ஸராந்தத்தில் அவர்களுக்கு ஸபிண்ணகரணம். ஸமாநோதகன், தெளவுரித்ரன் முதலிய

तंरीरात्तराचेळाचिकां कर्त्तत्तावाक उंगां लम्सकार
विषयत्तिल 12- आवतु नालीलं लपिण्णांकरणम्.

पक्षिण्याशौचिकर्तृकदाहे तु चतुर्थदिने एकोद्दिष्टं पञ्चमदिने
सापिण्डचं च कुर्यात्, बन्धुकतृके तु चतुर्थेऽहि सपिण्डनं कुर्यात्।
दुर्मृतयोः पित्रोः पुनः संस्कारे पञ्चमदिने सापिण्डचं कुर्यात्, 'ये
मृताः पापमार्गेण तेषां संवत्सरात्परम् । नारायणबलिं कृत्वा
कुर्यात्तत्रौधर्वदैहिकम् । अब्दान्ते वाऽथ षण्मासे पुनः कृत्वा तु
संस्कृतिम् । त्रिरात्रमशुचिर्भूत्वा श्राव्यं कृत्वा चतुर्दिने । सापिण्डचं
पञ्चमदिने मातापित्रोः समाचरेत् इति स्मरणात् ।
मातापितृव्यतिरिक्तदुर्मृतपुनदाहे तृतीयदिने सपिण्डनं कुर्यात् ।
केवलपुनः संस्कारविषये अकृतक्रिययोर्मातापित्रोद्धर्दशेऽहि
सपिण्डनम्, भ्रातुः पुनः संस्कारेषण्मासमध्ये द्वादशेऽहि
सपिण्डनम्, षण्मासात् परं वत्सरात् पूर्वं पञ्चमदिने सपिण्डनं
कुर्यात् ।

पक्षिण्णाशौचिकर्त्तरुकमाण लम्सकारत्ति
लाग्नेल 4- आवतु नालीलं एकोत्तिष्ठत्तत्तेतयम्, 5- आवतु
नालीलं लापिण्णट्यत्तेतयम् चेय्यवुम्. पन्तु
कर्त्तरुकमाण लम्सकारत्तिलाग्नेल, 4- आवतु नालीलं
लापिण्णट्यत्तेतक्षेचेय्यवुम्. तुर्मरणम् अटेन्त्तमाता
पिताक्कलीं पुनल्लम्सकारत्तिल 5- आवतु तिणत्तिलं
लापिण्णट्यत्तेतक्षेचेय्यवुम्. "एवर्कलं केट्टवयियाय
मरणम् अटेन्त्तवर्कलो अवर्कलुक्कु वर्षत्तिन्ऱ्कुप
प्रिऱ्कु नारायणे पलियेयस् चेय्तु प्रेरेत कंरियेयेयस्
चेय्यवुम्. वर्षत्तिन्ऱ्कु मुष्टिलावतु 6- आवतु
मालेत्तिलावतु पुनल्लम्सकारम् चेय्तु लुन्ऱ्कु नालं
आचेळाचियाय इरुन्तु, 4- आवतु नालीलं
एकोत्तिष्ठत्तत्तेतक्षेचेय्तु, 5- आवतु नालीलं माता
पिताक्कलुक्कु लापिण्णट्यत्तेतक्षेचेय्यवुम्" ऎन्ऱ्कु

ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். மாதா பிதாக்களைத் தவிர்த்த நூர்ம்ருதர்களின் புனஸ் ஸம்ஸ்காரத்தில் 3-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும். ஸாதாரணமான புனஸ் ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில் க்ரியை செய்யப்படாத மாதா பிதாக்களுக்கு 12-ஆவது நாளில் ஸபின்டனம். ப்ராதாவக்குப் புனஸ் ஸம்ஸ்காரத்தில் 6-மாஸத்திற்குள் 12-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யம், ஆறு மாஸத்திற்குப் பிறகு வர்ஷத்திற்குள் ஆனால் 5-ஆவது தினத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும்.

ततः परं तृतीयदिने सापिण्डनं कुर्यात् । अन्येषां पुनः संस्कारे
यस्य यावदाशौचं तस्य तदाशौचानन्तरदिने एकोदिष्टं तदुत्तरदिने
सापिण्डयं च कुर्यात् । मातापित्रोर्मतिमहमातामह्योर्मतुलस्य
अपुत्रस्य ज्येष्ठभ्रातुः पितृव्यस्य आचार्यस्य च स्वौपासने सापिण्डयं
कुर्यात् । आहिताग्निरप्यधीधानेनौपासनवानौपासने कुर्यात् ।
सर्वाधानेन तदसम्भवे, आपस्तम्बोक्ताग्नौकरणहोमस्य लोपः,
लौकिकाग्नाविति मतान्तरम् । पितृज्ञधर्मकस्य तु दक्षिणाग्नौ,
तदसम्भवे लौकिकाग्नौ पाणौ जले वा होमः । रजस्वलायां पद्म्या
मौपासने विद्यमाने सापिण्डयं तदैव कुर्यात्, औपासनविच्छेदे
कालान्तरे कुर्यात्, वत्सरान्तसापिण्डयं तु तत्काल एव कुर्यात् ।
इति सपिण्डीकरण निर्णयः ।

அதற்கு மேல் 3-ஆவது தினத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும். மற்றவர்க்குப் புனஸ் ஸம்ஸ்காரம் செய்தால் எவனுக்கு எவ்வளவு ஆசெளசமோ அவனுக்கு அந்த ஆசெளசம் முடிந்த மறுதினத்தில் ஏகோத்திஷ்டத்தையும், அதற்கு மறுநாளில் ஸாபின்ட்யத்தையும் செய்யவும். மாதா, பிதா, மாதாமஹன், மாதாமஹி, மாதுலன், அபுத்ரனை ஜ்யேஷ்ட ப்ராதா, பித்ருவ்யன், ஆசார்யன் இவர்களுக்குத் தனது ஒளபாஸனத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச்

செய்யவும். ஆஹிதாக்னியும் அர்த்தா தானத்தால் ஒளபாஸனவானுகில் ஒளபாஸனத்தில் செய்யவும். ஸர்வாதானத்தால் ஒளபாஸனம் இல்லாவிடில் ஆபஸ்தம்பர் சொல்லிய அக்னென்கரணத்திற்கு ஹோபம். வெளக்கொக்னியில் செய்ய வேண்டும் என்று மற்றொரு மதம். பித்ருயஜ்ஞ தர்மகமான ஹோமத்திற்கானுல் தகவினைக்னியில், அது ஸம்பவிக்காவிடில் வெளக்கொக்னியில் அல்லது பாணியிலாவது ஜலத்திலாவது ஹோமம். பத்னி ரஜஸ்வலையாய் இருந்தால் ஒளபாஸநம் இருந்தால் ஸாபிண்ட்யத்தை அப்பொழுதே செய்யவும். ஒளபாஸனம் விச்சின்னமாய் இருந்தால் காலாந்தரத்தில் செய்யவும், வர்ஷாந்த ஸாபிண்ட்யத்தையானுல் அக்காலத்திலேயே செய்யவும். ஸபிண்மகரண நிர்ணயம் முற்றிற்று.

सोदकुम्भश्राद्धविधि:

अथ सोदकुम्भश्राद्धम् । तत्र गौतमः — अदैवं पार्वणश्राद्धं
 सोदकुम्भमधर्मकम् । कुर्यात् प्रत्याबिद्कश्राद्धात् सङ्कल्पविधिनाऽ
 न्वहम् इति । अदैवम् - विश्वेदेवविष्णुरहितम्, पार्वणम् -
 त्रिपुरुषात्मकम्, सोदकुम्भं - उदकुम्भसहितम्, अधर्मकम् -
 दन्तधावन ताम्बूलादि वर्जनापुनर्भौजनादिरूपकर्तृ भोक्तृधर्मर-
 हितम् । सङ्कल्पविधिना - आवाहनाग्रौकरणे स्वधानिनयनं तथा ।
 विकिरं पिण्डदानं च सङ्कल्पे पञ्च वर्जयेत् इत्युक्तप्रकारेण आबिद्क
 श्राद्धात् पूर्वं प्रत्यहं कुर्यादित्यर्थः ।

ஸோதகும்ப ச்ராத்த விதி.

இனி ஸோதகும்ப ச்ராத்தம் சொல்லப்படும். அதில், கெளதுமர்:- ‘அதைவம் பார்வண ச்ராத்தம் + விதிநாந்வஹம்’ என்றார். இதன் பொருள்:- “அதைவம் - விச்வேதேவ விஷ்ணுவரணம் இல்லாதும்,

பார்வண ச்ராத்தம் = மூன்று புருஷர்களை உத்தே சித்ததாயும், ஜோதகும்பம் = உதகும்பத்துடன் கூடியதும், அதர்மகம் = தந்ததாவனம், தாம்பூலாதி வர்ஜனம், மறுபடி போஜனம் செய்யாமல் இருப்பது முதலிய கர்த்ரு போக்த்ரு தர்மங்களில்லாததும் ஆகிய ச்ராத்தத்தை, ஸங்கல்பவிதிநா = ஆவாஹனம் அக்னென கரணம், ஸ்வதாநிநயநம், விகிரம், பிண்டதானம், இவைகளை ஸங்கல்பத்தில் வர்ஜிக்க வேண்டும் என்றுள்ள விதிப்படி, ஆப்திக ச்ராத்தத்திற்கு முன் வரையில், ப்ரதி தினமும் செய்ய வேண்டும்” என்பதாம்.

எத்த அவ்கிஸ்வத்ஸராத் ஸபிண்டிகரண, தத: பர் பார்ணவி஧ானேன கர்த்யம் । தத: பூர்மேகோடிஷ்வி஧ானேன கார்யம் । வத்ஸராந்தஸபிண்டசே து ஏகோடிஷ் வி஧ானேநை கார்யம், குதே ஸபிண்டிகரண பார்ண து வி஧ியதே । ஸபிண்டிகரணாடவாగிகோடிஷ் வி஧ியதே இதி ஸாமாந்யேன, ஸோக்ரம்ச கர்த்ய நவஶாத்தானி ஷாத்தா । ஏகோடிஷ் வி஧ானேன ஸபிண்டிகரணாட஧: இதி விதோஷதஶ ஸ்மரணாத் ।

இதுவும் வர்ஷத்திற்குள் ஸபிண்மகரணம் செய்யாத விஷயத்தில். ஸபிண்மகரணத்திற்கு முன் ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய்ச் செய்ய வேண்டும். வத்ஸராந்த ஸாபிண்ட்யத்திலானால் ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய்ச் செய்ய வேண்டும். ஸபிண்மகரணம் செய்த பிறகு பார்வணம் விதிக்கப்படுகிறது. ஸபிண்மகரணத்திற்கு முன்பு ஏகோத்திஷ்டம் விதிக்கப்படுகிறது என்று ஸாமான்யமாயும், ‘ஜோதகும்பம், நவச்ராத்தம், ஜோடச ச்ராத்தம் இவைகளை ஸபிண்மகரணத்திற்கு முன்பு ஏகோத்திஷ்ட விதாநமாய்ச் செய்ய வேண்டும், என்று விசேஷமாயும் ஸம்ருதி இருப்பதால்.

எத்தா஦ஶாதிநமார்஭ கார்யம் । தடுக்த ஶ்ரீ஧ரீயே — தா஦ஶாஹப்ரமூத்யஸ்ய தூஸயே சாந்ஸ்யுதம் । தா஦ஶாஹ: கும்ச ஜலபூர்ண து

वत्सरम् इति । कारिकारन्ते तु — आद्याहाद्यादशाहाद्या
तत्पूर्वाहादथापि वा । विप्रायान्बं सोदकुम्भं दद्यादन्वहमाब्दिकात्
इति । मृतिदिवसमेकादशाहं द्वादशाहं वाऽरम्भेत्यर्थः । मार्कण्डेयः
— यस्य संवत्सरादर्वाक् सपिण्डीकरणं कृतम् । मासिकं सोदकुम्भं
च देयं तस्यापि वत्सरम् इति । स्मृत्यन्तरे — आब्दमम्बुधटं दद्या
दन्वमाज्येन संयुतम् । संवत्सरे प्रवृद्धेऽपि प्रतिमासं च मासिकम्
इति ।

இதை 12-ஆவது நாள் முதல் கொண்டு செய்ய வேண்டும், அது சொல்லப்பட்டு உள்ளது, பஞ்சாயத்தில்:- 12 ஆவது நாள் முதற் கொண்டு, இவனது த்ருப்திக்காக, அன்னத்துடன் கூடியதும், ஜல பூரணமுமான கும்பத்தை ஒரு வர்ஷம் வரையில் ப்ரதி தினமும் கொடுக்க வேண்டும். காரிகா ரத்னத்திலோ வெனில்:- முதல் நாள் முதல் கொண்டாவது, 12-ஆவது நாள் முதல் கொண்டாவது, 11-ஆவது நாள் முதல் கொண்டாவது, ஆப்திகம் வரையில் ப்ரதி தினம் ப்ராம்ஹணனுக்கு உதககும்பத்துடன் அன்னத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். மார்கண்டேயர்:- எவனுக்கு வர்ஷத்திற்குள் ஸபின்மகரணம் செய்யப்பட்டதோ அவனுக்கும் வர்ஷம் முடியும் வரையில் மாஸிகம் ஸோதகும்பம் இவைகளைச் செய்ய வேண்டும். ஓர் ஸ்ம்ருதியில்:- வர்ஷம் முடியும் வரையில் ஜல கும்பத்தையும் நெய்யுடன் கூடிய அன்னத்தையும், ப்ரதி மாஸம் மாஸிகத்தையும், வர்ஷம் அதிக மாஸ வசத்தால் வருத்தியை உடையதாய் ஆனாலும் கொடுக்க வேண்டும்.

காலாदர்ச்சேऽपि — द्वादशाहत्रिपक्षादौ कृतं यस्य सपिण्डनम् ।
कुर्वीत पार्वणश्राद्धं सोदकुम्भमदैवतम् । सङ्कल्पेनास्य निर्धर्म प्रत्यहं
त्वाब्दिकावधि इति । व्यासः — अतिथिं भोजयेद्विद्वान् सोदकुम्भे
विशेषतः । अभ्यागतं भोजयित्वा नियतं तु न भोजयेत् । नियतं

भोजयेद्यस्तु लोभान्मोहाद्विमूढधीः । त्रयस्ते नरकं यान्ति कर्ता
भोक्ता तथा पिता इति ।

காலாதார்சத்திலும்:- 12-ஆவது நாள், 3-ஆவது பகலும் முதலிய காலத்தில் எவனுக்கு ஸாபின்ட்யம் செய்யப்பட்டதோ அவனுக்கு, பார்வண விதியாய்த் தேவ வரணம் இல்லாமல் ஸங்கல்ப விதியாய், சராத்த தர்மங்களில் இல்லாததாய் ஆப்திகம் வரையில் ப்ரதி தினமும் செய்ய வேண்டும். வ்யாஸர்:- அறிந்தவன், லோதகும்பத்தில் அதிதியை அவச்யம் புஜிப்பிக்கவும். அப்யாகதனையும் புஜிப்பிக்கவும். நியதனையே புஜிப்பிக்கக் கூடாது. எந்த மூடன் லோபத்தாலோ மோஹத்தாலோ நியதனையே புஜிப்பிக்கின்றானே, அந்தக் கர்த்தா, போக்தா, பிதா மூவரும் நரகத்தை அடைகின்றனர்.

याज्ञवल्क्यः — अर्वाक्सपिण्डीकरणं यस्य संबत्सराद्वेत् ।
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात् संबत्सरं द्विजः इति । अत्र विज्ञानेश्वरः
— संबत्सरादर्वाग्यस्य सपिण्डीकरणं कृतं तस्य कृतेऽपि तस्मिन्
प्रतिदिवसं प्रतिमासं वा यावत्संबत्सरं शक्त्यनुसारेणान्मुद-
कुम्भसहितं ब्राह्मणाय दद्यात् इति ।

யாஜ்ஞவல்க்யர்:- எவனுக்கு வர்ஷம் முடிவதற்குள் ஸபின்மைகரணம் செய்யப்பட்டதோ அவனுக்கும், வர்ஷம் முடியும் வரையில் உதகும்பத்துடன் கூடிய அன்னத்தை ப்ராம்ஹணன் கொடுக்க வேண்டும். இவ்விடத்தில், விஜ்ஞாநேஞ்சவரர்:- வர்ஷம் முடிவதற்குள் எவனுக்கு ஸபின்மைகரணம் செய்யப்பட்டதோ அவனுக்கு ஸபின்மைகரணம் செய்யப்பட்டு இருந்தாலும், ஒவ்வொரு நாளிலும் அல்லது ஒவ்வொரு மாஸத்திலும், வர்ஷம் முடியும் வரையில் சக்தியை அனுஸரித்து அன்னத்தை உதகும்பத்துடன் கூடியதாய் ப்ராம்ஹணனின் பொருட்டுக் கொடுக்க வேண்டும்.

पितृमेधसारे तु — न द्वादशाहादौ सापिण्डये सोदकुम्भ-
श्राद्धान्याहत्य दधात् विध्यभावात् प्रत्यहमाबदं तद्विधिवैयथ्यपित्तेः
मासिकवद्विरुष्टाने प्रमाणाभावाच । प्रागबदात्कृतान्यबद्सापिण्डये
न पुनः कुर्यादकृतानि कृत्वा सापिण्डयं कुर्यात्, शक्तिविषये
द्वादशाहप्रभृत्यासंवत्सरात् प्रत्यहमेकं त्रिपुरुषोदेशेनादैवमधर्मकं
सदक्षिणं सङ्कल्पविधिना सोदकुम्भ श्राद्धं दधात्, प्रतिमासं दर्शादौ
वा मासिकाहान्यदिने वा अतीतसोदकुम्भश्राद्धान्याहत्य दधात्,
प्राक्सपिण्डीकरणादेकोदिष्टवत्, न सांवत्सरिकाहे तानि दधात्
कालातीतत्वात् अकाले चेत् कृतं कर्म कालं प्राप्य पुनः क्रिया ।
कालातीतं तु यत् कुर्यादकृतं तद्विनिर्दिशेत् इति कात्यायनः इति ।

पितृग्रुमेत्र लोरत्तिलः षेष 12- आवतु नाओं मुतविय
कालत्तिलं लोपिण्णट्यम् चेय्वत्ताञ्जलं, लोताकुम्प
स्रात्तन्त्रिकौशं चेरत्तत्तुकं केऽकुक्ककं कृतात्. अव्वितम्
विति इल्लातत्तालुम्, प्रति तिनम् वर्षम् मुष्टियम्
वरयीलं चेय्य वेण्णुम् एन्ऱ वितिक्कु वेवयर्त्तयम्
वरकं कृतुम् आकेयालुम्, मालीकत्तत्तेप पोलं इरण्णु
मुरेह चेय्वत्तिलं प्रमाणम् इल्लातत्तालुम्, वर्षम्
मुष्टिवत्तर्त्तु मुनि चेय्यपपट्टवेकौशं अप्तान्त
लोपिण्णट्यत्तिलं मरुपाति चेय्यकं कृतात्.
चेय्यपपट्टातवेकौशं चेय्तु लोपिण्णट्यत्तेत्तेसं
चेय्यवुम्. सक्तियौं विषयत्तिलं, 12- आवतु नाओं
मुत्रं केाण्णु, वर्षम् मुष्टियम् वरयीलं प्रति तिनम्,
मुन्ऱु पुरुषर्कौशं उत्तेत्तेत्तु, विष्वेवत्तेव वरणम्
इल्लातत्तुम्, स्रात्तत्त तर्मन्तकौशं इल्लातत्तुम्,
तक्षीज्ञेयुट्टनं कृष्टियत्तुमानं ओरु लोताकुम्प
स्रात्तत्तत्तेत्त लवंकल्प वितियालं केऽक्कक वेण्णुम्.
ओव्वेवारु मालसत्तिलुम् तर्मन्तम् मुतविय तितियिलावतु,
मालीक तिनत्तिर्त्तु मुत्रं नालीलावतु, कृतन्त
लोताकुम्प स्रात्तत्तन्तकौशं चेरत्तत्तुकं केऽक्कक वेण्णुम्.

ஸ்மிருதி முக்தாபலம் - ஸ்ராத்த காண்டம் / பூர்வ பாகம்
 ஸபின்மைகரணத்திற்கு முன் செய்யப்படுவதை
 ஏகோத்திஷ்ட விதியாய்ச் செய்ய வேண்டும். ஆப்திக
 தினத்தில் அவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்கக் கூடாது. காலம்
 அதீதமானதால், 'ஸ்வகாலத்திற்கு முன் கார்யத்தைச்
 செய்தால், ஸ்வகாலம் வந்தவுடன் அந்தக் கர்மத்தை
 மறுபடி செய்ய வேண்டும். உரிய காலத்திற்குப் பிறகு
 எதைச் செய்வானே அதைச் செய்யப்படாதது என்று
 சொல்ல வேண்டும் என்றார் காத்யாயனர்.

'ந ஸாங்வத்ஸரிகாஹ' இதி, ப்ரேதலோகே து வஸதிரீணா் வர்ஷ
 பிரகிர்த்தா | க්ஷுத்ரணே பிரத்யஹ் தஸ்ய ஭வேतா் ஭ூగுநந்஦ன' இதி ஸ்மரණாத्
 வஷாந்தே ப்ரேதலோகவாஸ் க්ஷுத்ரணே ச விஹாய ஸ்வகர்ம்஫லம் ப்ராஸஸ்ய
 ஸாங்வத்ஸரிகாஹஸ்ய இதியிஸங்வத்ஸராதித்வாத் தத் க්ஷுத்ரணாஶாந்த்யर்஥
 ஸோத்ரும்஭ஶாஞ்ச் நிஷ்பியோஜனமித்யர்஥ः |

நஸாம்-வத்ஸரிகாஹே = இறந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு
 வர்ஷம் முடியும் வரையில் ப்ரேதலோகத்தில் வாஸம்
 சொல்லப்பட்டு உள்ளது. ப்ரேதனுக்கு ப்ரதி தினமும் பசி
 தாஹுங்கள் உண்டாகின்றன, ஒ பார்க்கவ !' என்ற
 ஸ்ம்ருதியால், வர்ஷத்தின் முடிவில் ப்ரேத லோக
 வாஸத்தையும் பசி தாஹுங்களையும் விட்டு, தனது கர்ம
 பலத்தை அடைந்தவனுக்கு, ஆப்திக தினம் 2-ஆவது
 வர்ஷத்தின் ஆதியானதால் அன்று பசி தாஹு
 நிவர்த்திக்காக ஸோதகும்ப ச்ராத்தம் ப்ரயோஜனம்
 அற்றது என்று பொருள்.

நு, ஸபிண்஡ிகரணாத் ப்ரேதே பैதூக் பதமாஸிதே | சதுரோ
 நிவபீத் பிண்஡ாந்பூர் தேஷு ஸமாபயேத் | ததः ப்ரமூதி வै ப்ரேதः
 பிதृஸாமாந்யமஶ்நுதே இத்யாதி஭ி: கृதे ஸபிண்஡ங்கே
 பிதृத்வப்ராஸ்யவगமாத் தாதஶாஹாடை ஸபிண்஡ங்கே க஥் ப்ரேதலோகவாஸः,
 பிரத்யஹ் தஸ்ய க஥் க්ஷுத்ரணே ச ஭வேதாமிதி சேத் ஸத்யம், தஸ்ய,

प्रेतलोकवासाभावेऽपि प्रथमाब्दिकदिनपूर्वदिन पर्यन्तं
क्षुत्तष्णाऽविनामूतप्रेतभावस्य आत्मन्यहं ब्राह्मण इत्यादिभाववत्
विद्यमानत्वात्।

‘लपिण्मारणत्तालं, प्रेरेतनं पीत्तरु लोकत्तेत
अटेन्त्तिरुक्क’, ‘नाऩ्कु पिण्टन्कैलैकं केकाकुक्क
वेण्टुम्, मुतलं पिण्टत्तेत मर्हपि पिण्टन्कौलं
चेरक्कवुम्. अतु मुतलं प्रेरेतनं पीत्तरुत्तवत्तेत
अटेकिरुन्’, एन्पतु मुतलीय वक्षन्कौला॒लं
ला॒पिण्ट्यम् चेय्यप्पट्ट उटनं पीत्तरुत्तवम्
अटेयप्पट्टिरुठु एन्पतु तेत्रीवत्तालं, 12-आवतु नाओं
मुतलीय कालत्तिलं ला॒पिण्ट्यम् चेय्यप्पट्टा॒लं, पिऱ्कु
प्रेरेत लोक वा॒लम् ए॒प्पटि ए॒र्हप्पटुम् ? अवनुक्कु प्ररुति
तिन्मं पशि ता॒हृन्कौलं ए॒प्पटि उन्टा॒कुम् ? एन्नी॒लं,
उन्मेये. अवनुक्कु प्रेरेत लोकत्तिलं वा॒लम्
छिल्ला॒वी॒टिन्नुम्, आ॒प्तिकौलिन्त्तिन्नुम् ए॒प्पटि उन्टा॒कुम् ?
पशि ता॒हृन्कौलुटनं कौ॒टिय प्रेरेत पा॒वम् तनं छिट्टत्तिलं
‘नाओं प्रराम्मृण्णन्न’ एन्पतु मुतलीय पा॒वम् पो॒लं
छिरुक्कुम्.

अत एव स्मृत्यन्तरे — श्राद्धानि क्रमशो लक्ष्या
सपिण्डीकरणे कृते । प्रेतभावाद्विनिर्मुक्तः स्वकर्मफलभाग्भवेत् इति
। ततश्च कृतेऽपि सपिण्डीकरणे प्रेतभावयुक्तस्य क्षुत्तष्णा-
शान्त्यर्थमनुष्टेयम्, यस्य संवत्सरादर्वाक् सपिण्डीकरणं कृतम् ।
मासिकं सोदकुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्
इत्यादिपूर्वोक्तवचनबलाच्च सोदकुम्भश्राद्धं प्रत्यहमाब्दिकदिन-
पूर्वदिनावधि कार्यमिति सिद्धम् ।

आ॒केयालं ओरु लं॒म्ग्रुत्तियिलः— ‘कर्ममायं
क्षरात्तंत्तन्कैलापि बे॒र्हरु, लपि॒ण्मारणाम् आ॒किय पिऱ्कु
प्रेरेतत्त तन्मेयीनी॒न्ऱुम्, विटुपट्टवत्तेय, तन्तु कर्म
पलत्तेत अटेन्त्तवत्तेय आ॒किरुन्’ एन्ऱु उ॒ल्लातु.

ஆகையால் ஸ்பிண்மகரணம் செய்யப்பட்டாலும், ப்ரேத பாவம் உடையவனுக்குப் பசி தாஹங்களின் நிவருத்திக்காக அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டும். 'எவனுக்கு வர்ஷத்திற்கு முன் ஸ்பிண்மகரணம் செய்யப்பட்டதோ அவனுக்கும், மாலிகம், ஸோதகும்பம் இவைகளை வர்ஷம் முடியும் வரையில் கொடுக்க வேண்டும்' என்பது முதலியதாய் முன் சொல்லப்பட்ட வசனங்களின் பலத்தாலும், ஸோதகும்ப ச்ராத்தம் ப்ரதி தினம் ஆப்திகத்தின் முதல் நாள் வரையிலும் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது ஸித்தித்தது.

अत्र सोदकुम्भश्राद्धे यद्यदन्तरितं तत्तदुत्तरदिनं
सोदकुम्भश्राद्धेन सह नवश्राद्धमासिकान्तरायन्यायेन समानतन्तः
कार्यम् । अस्यावश्यकर्तव्यत्वात् । तन्मध्ये तत्कर्तरि मृतेऽपि
पौत्रादिनाऽप्यबशिष्टं सोदकुम्भश्राद्धमबशिष्टं मासिकं चानुष्टेयम्,
प्रेतसंस्कारकार्याणि यानि श्राज्ञानि षोडश । यथाकाले तु कार्याणि
नान्यथा मुच्यते ततः इति स्मरणात् ।

இந்த ஸோதகும்ப ச்ராத்தங்களில் எதெந்த அந்தரிதமாய் ஆகியதோ (செய்யப்படாததோ) அதை அந்தந்தத் தினத்தின் ஸோதகும்ப ச்ராத்தத்துடன், நவ ச்ராத்த மாலிகங்களின் அந்தராய (விக்னம்) ந்யாயத்தால் ஸமாந தந்த்ரத்தால் செய்ய வேண்டும். இது அவச்யம் செய்யப்பட வேண்டியதாகியதால், நடுவில் கர்த்தா இறந்தாலும், பெளத்ரன் முதலியவன், மீதியுள்ள ஸோத கும்ப ச்ராத்தத்தையும், மீதியுள்ள மாலிகத்தையும் செய்ய வேண்டும். 'ப்ரேதனின் ஸம்ஸ்கார கார்யங்கள் எவையோ, 16-ச்ராத்தங்கள் எவையோ அவைகளை அந்தந்தக் காலத்தில் செய்ய வேண்டும். செய்யாவிடில் ப்ரேத பாவத்தினின்றும் விடுபடுவதில்லை' என்று ஸ்மருதி இருப்பதால்.

पितृमेधसारकृत् — एकोत्तरवृद्धिश्राद्धोदकदानैर्दीह-

जनितक्षुत्तृष्णानिवृत्तिः पिण्डैराकारावासिरेकोद्दिष्टेन पिशाचत्व-
निवृत्तिः सोदकुम्भश्राद्धैः प्रेतलोकवासजनितक्षुत्तृष्णाशान्तिः
वृषोत्सर्गनवश्राद्धैः प्रेतत्वनिवृत्तिः सपिण्डीकरणात् पितृत्वप्राप्तिः ।
क्षुत्तृष्णाजनितात्यन्त दुःखानुभवावस्था प्रेतत्वम् । वस्वादिश्राद्ध
देवतासम्बन्धः पितृत्वप्राप्तिः । अतस्तन्निवृत्तये तत्प्राप्तये च
यथाकालमविलम्बेन प्रेतकार्यं कार्यम्, अन्यथा महान् दोषः । नास्य
किञ्चित् कर्मण्यधिकारः इति ।

पितृरुमेत शारकारारः— ‘ऐकोत्तर वर्गुत्ति
स्त्रात्ततन्कलौ, उत्तकताणम् इवेवकलालौ, तहूनत्ततालौ
उन्नटाककप्पट्ट पसि ताहूनकलौकु निवर्गुत्ति
उन्नटाकिरतु. पिण्णटन्कलालौ सर्वरम् एर्पटुकिरतु.
ऐकोत्तिष्ठत्ततालौ पिचासत् तन्मेमयिनं निवर्गुत्ति
उन्नटाकिरतु. लेषात्तकुम्प स्त्रात्ततन्कलालौ प्रेरत लेषाक
वासत्ततालौ एर्पट्ट पसि ताहूनकलौनिनं निवर्गुत्ति
उन्नटाकिरतु. लेपिण्णमकरणत्ततालौ पितृरुत्तवमं
प्रराप्तमाकिरतु. पसि ताहूनकलालौ एर्पटुम अतिक
तुक्कानुपवास्तेत ‘प्रेरत्तवमं’ एनप्पटुकिरतु. वला-
मुत्तविय स्त्रात्तत तेवता लम्पन्तमं पितृरु पाव प्रराप्ति
एनप्पटुकिरतु. आकेयालौ अवैव निवर्गुत्तिप्पत्तरुमं,
अतेत अटेवतर्नकुमं कालमं तवरुमलौ चिक्करमायं प्रेरत
कार्यत्तेतक्स चेय्य वेणुन्तुम. चेय्याविष्टलौ मिकुन्त
तेऽष्टमं उन्नु. कर्त्ततावुक्कु मर्त्र ओरु कर्मत्तिलुमं
अतिकारमं इल्लै’ एन्ऱुरा.

शतकेऽपि — मुख्यकर्तुरघं तावद्यावत् प्रतत्वमोचनम् ।
पुत्राणामप्यघं तावन्मुख्यकर्त्यर्थस्थिते इति । प्रेतत्व मोचनं -
सपिण्डीकरणम् । अत्र मुख्यकर्तुर्दशाहात् परमघविधानं सूतिकाया
इव कर्मनिर्वत्तमात्राभिप्रायम्, अकृत्वा प्रेतकार्याणि
नित्यनैभित्तिकान्यपि । न कुर्यात्तावदाशौचं यावत् प्रेतत्वमोक्षणम्

இதி ஸ்மரணாத् ।

சதகத்திலும்:— ‘முக்ய கர்த்தாவுக்கு ப்ரேதத்வம் விடுபடும் வரையில் ஆசௌசம். முக்ய கர்த்தா இருந்தாலும் புத்ரர்களுக்கும் அது வரையில் ஆசௌசம்.’ ப்ரேதத்வமோசனம் = ஸபின்மைகரணம். இவ்விடத்தில் முக்ய கர்த்தாவுக்கு 10-நாட்களுக்குப் பிறகு ஆசௌசம் என்றது, ஸ-அதிகைக்குப் போல் கர்மாநர்ஹத்வம் மட்டில் என்ற அபிப்ராயத்துடன் சொல்லியது. ‘ப்ரேத கார்யங்களைச் செய்யாவிடில், நித்ய நைமித்திக கர்மங்களையும் செய்யக் கூடாது. ப்ரேத த்வம் விலகும் வரையில் ஆசௌசம் ஆனதால் என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

முख்யகர்த்துவதிரிக்தஜாதிநாஂ ஦ಶாஹாத் பரं கர்மாந்தீதா
நாஸ்த । புதை: பித்ரோஸ்து ஸ்ங்கார: ப்ரமாद஦கृதோ யதி । ஜாதிநாஂ
஦ஶாஹாத் ஸ்யாத்ததூ஧்வ் ஸூதக் ந ஹி । நித்யகர்மாணி குர்வித
ஸ்மृத்யக்தானி ததை ச இதி ஸ்மரணாத் । ஸங்கை — அகृதே ப்ரேதகார்யே து
ந குர்யாடாத்மன: ஶுभம् । குர்யாடை ஶும் கர்ம முख்யகர்த்துஶ ஸநி஧ை
இதி ।

முக்ய கர்த்தாவைத் தவிர்த்த ஜ்ஞாதிகளுக்கு 10-நாட்களுக்குப் பிறகு கர்மாநர்ஹத்வம் என்பது இல்லை. ‘புத்ரர்கள் மாதா பிதாக்களுக்கு ஸம்ஸ்காரத்தைக் கவனம் இன்மையால் செய்யாவிடில், ஜ்ஞாதிகளுக்குப் பத்து நாள் மட்டில் ஆசௌசம். அதற்கு மேல் ஆசௌசம் இல்லை. நித்யகர்மாக்களையும், ஸ்மார்த்த கர்மாக்களையும் செய்யலாம்’ என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது. ஸங்கரஹத்தில்:- ப்ரேத கார்யம் செய்யப்படாவிடில், தனது சுபகார்யத்தைச் செய்யக் கூடாது. முக்ய கர்த்தா ஸன்னிலிதனை கில் சுபகர்மத்தைச் செய்யலாம்.

யदा புत्रாய்஭ாவे ஭்ராதோ: கரोதி தदा சதுர்விஶ்திமதே—
஭்ராதா வா ஭்ராதூபுத்ரோ ஸபிண்ட: ஶிஷ்ய ஏவ வா । ஸபிண்டிகரண் கூத்வா

कुर्यादिभ्युदयं ततः इति । अत्रापवादः स्मृत्यन्तरेऽभिहितः — गर्भादिप्राशनान्तानि प्राप्तकालं न लक्ष्येत् । ज्ञातीनां प्रेतकार्याणि कुर्वन्नपि च कारयेत् इति । पुंसवन-सीमन्तोन्नयनजातकर्मनाम-करणान्प्राशनानि ज्ञातिसापिण्डचात् पूर्वमपि कर्ता कुर्यादित्यर्थः ।

पुत्ररन्त मुतलीयवन्नं समीपत्तिलं इल्लावीष्टिलं प्रराता मुतलीयवन्नं चेयत्तालं अवविष्यत्तिलं. चतुर्विम्चति मत्तत्तिलः— प्रराता, प्ररात्तरुपुत्ररन्त, सपीन्नंतनं, चिष्यन्नं यारायिन्नुम् सपीन्नंकरणत्तेत्तच चेयत्तु पिऱ्कु सपकार्यत्तेत्तच चेय्य वेण्णुम्. इवविष्यत्तिलं अपवातम् चेाल्लपपट्टु उल्लातु, ओर्लंम्रुत्तियिलः— पुम्लवन्नम् मुतलं अन्नं प्रराचनम् वरायु मुल्लावेकलौ स्वकालत्तिलं अतिक्रमिक्ककं कूटातु. ज्ञातुकिङ्गुक्कु प्रेरत कार्यंकलौच चेय्पवन्नं आयिन्नुम् अवेकलौच चेय्य वेण्णुम्, ऎन्नरु. पुम्लवन्नम्, लैम्नंतेऽन्नयन्नम्, ज्ञातकर्मम्, नामकरणम्, अन्नं प्रराचनम् इवेकलौ ज्ञातुकिङ्गुलौ लापीन्नंत्यत्तिरुम् मुन्पुम् कर्त्तता चेय्यलाम्, ऎन्पतु पेपारुलौ.

मातापितृमातामहमातामहीनां सापिण्डचं कृत्वै गर्भादिप्राशनान्तानि कार्याणि, पित्रादीनां त्रयाणां तु प्रमीतानां सपिण्डनम् । कृत्वा तु मङ्गलं कुर्यात् नेतरेषां कथञ्चन इति स्मरणात् । मङ्गलं - पुंसवनाद्यावश्यकं शुभं कर्म । तथा च शङ्खः — सावकाशं तु यत् कार्यं न कुर्यान्मासि दूषिते । कुर्यान्विरवकाशं तु नित्यं नैमित्तिकं तथा इति । अत्रिश — मासप्रोक्तेषु कार्येषु मूढत्वं गुरुशुक्रयोः । अधिमासादिदोषाश्च न स्युः कालविधेर्बलात् इति ।

माता, पिता, मातामहैर्ण, मातामहैर्ण इवर्कुरुक्करकिलं लापीन्नंत्यत्तेत्तच चेय्त पिऱ्केपुम्लवन्नम् मुतलं अन्नं प्रराचनम् वराउल्लावेकलौच

செய்ய வேண்டும். “பிதா முதலிய மூவர்கள் இறந்தால் அவர்களுக்கு ஸாபின்ட்யம் செய்த பிறகே மங்களத்தைச் செய்ய வேண்டும். மற்றவர் விஷயத்தில் எவ்விதத்திலும் இந்த நியமம் இல்லை” என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். மங்களம் = பும்ஸவனம் முதலிய சுப கார்யம். அவ்விதமே, சங்கரர்:— அவகாசம் உள்ள கார்யம் எது வோ அதைத் தோஷம் உள்ள மாஸத்தில் செய்யக் கூடாது. அவகாசம் இல்லாத நித்யம் நைமித்திகம் இவைகளை மட்டில் செய்யலாம். அத்ரியும்:— மாஸத்தைக் கணக்கிட்டு விதிக்கப்பட்ட கார்யங்களின் விஷயத்தில், குரு சுக்ர மெள்ட்யம், அதிக மாஸம் முதலியவை இவைகளின் தோஷங்கள் இல்லை. காலத்தைக் குறிப்பிட்ட விதியின் பலத்தால்.

ऋश्यशूङ्गः — ஜாதகர्म ச ஜாதேष्टि யथாகாலं ஸமாசரेत्
இதி । ஋துஶாந்திஶ காலாந்தராभாவாத् கர்த்து, ஜாதகே நாமகரणே
தथாந்ப்ராஹாநே�பி ச । ஆயதீர்த்தீ ஦ியிதாநாம் ச மாஸிக் நாபகர்ஷீயேத்
இதி மாஸிகாபகர்ஷனிஷே஧ேந தத்திராநாதாது ।

ஞக்யச்சுங்கர்:— ஜாதகர்ம, ஜாதேஷ்டி இவைகளை,
காலத்தை அதிகரமிக்காமல் செய்ய வேண்டும். ருது
சாந்தியும் வேறு காலம் இல்லாததால் செய்யப்பட
வேண்டியது. “ஜாதகர்மம், நாமகரணம் அன்னப்ராசனம்
பத்னியின், ப்ரதமார்த்தவம் இவைகளில் மாஸிகத்தை
அபகர்ஷிக்கக் கூடாது” என்று மாஸிகாபகர்ஷ
நிலேஷத்தால் ருது சாந்தியை விதித்து இருப்பதால்.

யो யदீच்஛ேத்திஜந்மத்வமஷ்மா஬்஦ं ந லக்ஷ்யேத் । அதிகாந்தே
ஸாவித்யா: கால ஋து தைவித்யக் ரக்ஷச்சர்ய சரேத் இத்யாடிஸ்மரணாத் ।
புஞ்சவநாடிவித் ஸபிண்டிகரணாந்தர் பித்ரோம்தா஬்஦ே மாஸிகாபகர்ஷ-
பூர்வக் புத்ராடிநாம் யத்யப்புநயன் கர்த்தும், தத்தாபி தமஸோ வா ஏष
தம: பிரவிஶாதி யமவித்யாநுபநயதே யஶாவித்யாந் இதி ஹி ஬்ராஹ்ம ।

तस्मिन्बिजनविद्यासमुदेतं समाहितं संस्कर्तार्मीप्सेत् इति स्मरणादन्यकर्तृकत्वसंभवात् कारयितव्यम् । मृतपितृकस्याष्टमे अष्टवर्षे ब्राह्मणमुपनयीत इति श्रुतिबलात् श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे श्रुतेर्बलीयस्त्वादुपनयनं कर्तव्यमेव । तथा च यदनन्यकर्तृक-मनवकाशं पुंसवनादिकं तत् सपिण्डीकरणमासिकापकर्षपूर्वकं प्रथमादेऽपि कर्तव्यम् । यत्तु कालान्तरे कर्तुं शक्यं स्नानविवाहादि तत्तत्र न कर्तव्यम् । अनवकाशं यदन्यसाध्यं तत्र तत् अन्येन कारयितव्यम् ।

எவன் ப்ராம்ஹண்யத்தை இச்சிக்கின்றுளே அவன் 8-ஆவது வர்ஷத்தை அதிக்ரமிக்கக் கூடாது, என்றால், ‘உபநயன் காலம் அதிக்ராந்தமானால் 2-மாஸம் முழுவதும் ப்ரம்ஹசர்ய வரதத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்’ என்பது முதலிய ஸ்ம்ருதிகள் இருப்பதால், பும்ஸவநாதிகளைப் போல், ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு மாதா பிதாக்களின் மருதி வர்ஷத்தில் மாஸிகாபகர்ஷத்தைச் செய்து புத்ரன் முதலியவர்க்கு உபநயனத்தையும் செய்ய வேண்டியது தான். ஆயினும் “தமஸோவா + மீப்ஸேத்” (ஆபஸ்தம்ப தர்ம ஸமத்ரம்) என்று இருப்பதால் பிறனும் செய்யலாம் என்பது ஸம்பவிப்பதால் பிறஞ்சல் செய்விக்க வேண்டும்.

பிதா மரித்துள்ளவனுக்கு ‘எட்டு வயதுள்ள ப்ராம்ஹணனுக்கு உபநயனம் செய்ய வேண்டும்’, என்ற ச்ருதி பலத்தால்; ச்ருதி ஸ்ம்ருதிகளுக்குப் பரஸ்பரம் விரோதம் ஆனால் ச்ருதி பலிஷ்டம் ஆனதால், உபநயனம் செய்யப்பட வேண்டியதே. அவ்விதம் ஆகியதால், பிறன் செய்யக் கூடாததும் அவகாசமில்லாததுமாகிய பும்ஸவனம் முதலியது எதுவோ, அதை ஸபின்மகரணம் மாஸிகம் இவைகளை அபகர்ஷித்துச் செய்து, முதல் வர்ஷத்திலும் செய்ய வேண்டும். காலாந்தரத்தில் செய்யத் தகுதியுள்ள ஸநானம் விவாஹம் முதலியது எதுவோ அதை

அந்த வர்ஷத்தில் செய்யக் கூடாது. அவகாசம் இல்லாததும் அன்யறீல் செய்யக் கூடியதும் எதுவோ அதை அன்யறீல் செய்விக்க வேண்டும்.

எதदொமிப்ரேत்ய ஦ேவலः — ப்ரமीதௌ பிதரௌ யस्य
देवस्तस्याशुचिर्भवेत् । न दैवं नापि पित्र्यं च यावत् पूर्णो न वत्सरः ।
स्नानं चैव महादानं स्वाध्यायशाग्रिपूजनम् । प्रथमेऽब्दे न कर्तव्यं
महागुरुनिपातने इति । दैवं - देवतास्थापनादि, पित्र्यं - அந்யேषां
सापிண्डच्यम् । பित्रोमृताब्दे சாந்யேषां வத்ஸராந்தே ஸபிண்டனம् இதி ।
स्मरणात् । एवश्च, पितृमृताब्दे ज्ञातिसंस्कारे कृते सति अकृत्वापि
ज्ञातिसापिण्डच्यमावश्यकं शुभकर्म कर्तव्यम् । स्नानम् -
समावर्तनम्, மஹாநம் - கனகாಶாதி பிரஸிஞ்சம் । ஸ்வாධ்யாயः -
उपनयनम्, தदर्थत்வாடுபனயनस्य, உபनयनं விசார்஥स्य ஶ्रுतितः
संस्कारः இत्यापस्तम्बस्मृतेः உपाकर्मत्यन्ये । அग्रिपूஜனम् -
அய்யா஧ானாடி ।

இந்த அபிப்ராயத்தாலேயே தேவெளர்:— எவனது
மாதா பிதாக்கள் இறந்தனரோ அவனது தேஹம் அசுத்தம்
ஆகிறது. அந்த வர்ஷம் முடிவதற்குள் அவன் தைவம்,
பிதர்யம் இவைகளைச் செய்யக் கூடாது. ஸ்நானம்,
மஹாதானம், ஸ்வாத்யாயம், அக்னி பூஜை இவைகளை,
மஹாகுரு ம்ருதி அடைந்தால் முதல் வர்ஷத்தில் செய்யக்
கூடாது. தைவம் = தேவதா ஸ்தாபனம் முதலியது. பிதர்யம்
= அன்யர்கனுக்கு ஸாபின்ட்யம். “மாதா பிதாக்களின்
ம்ருதி வர்ஷத்தில், அன்யர்கனுக்கு ஸாபின்ட்யம் ஆனால்
அதை வர்ஷாந்தத்தில் செய்யவும்” என்று ஸ்மர்துதி
இருப்பதால். இவ்விதம் இருப்பதால் மாதா பிதாக்களின்
ம்ருதி வர்ஷத்தில் ஜ்ஞாதிக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்தால்,
ஜ்ஞாதிக்கு ஸாபின்ட்யம் செய்யப்படாவிட்டனும்,
ஆவச்யகமான சுபகர்மத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஸ்நானம்

= ஸமாவர்த்தனம். மஹாதானம் = பொன், குதிரை முதலியது ப்ரஸித்தம். ஸ்வாத்யாயம் = உபநயனம். உபநயனம் அத்யயனத்திற்காக ஆதலால். 'உபநயநம் + ஸம்ஸ்காரः' என்றார் ஆபஸ்தம்பர். உபாகர்மம் என்று சிலர் சொல்லுகின்றனர். அக்னி பூஜனம் = அக்னியாதானம் முதலியது.

ததஶ — வத்ஸராந்தே தத: ப்ரேत: பிதृத்வமுபபதே இதி ஬ோധாயனஸ்மரණாத् ப்ரேதலோகே து வசதிரீணாங் வர்ஷ பிரகிரித்தா இதி விஜானேஶ்வரேணோக்தவாத् ஸபிண்டிகரணாடூர்஧்வ ப்ரேதத்வஸ்யானிவृத்திஃ । தாவஞ்சஸ்ம ந ஧ார்ய் ஸ்யாத்யாவடவ்வோ ந பூர்யே இதி லோகாக்ஷிணா ப்ரேதத்வானிவृத்தினிவந்஧ன ஭ஸ்ம஧ாரணனிவே஧ஸ்யோக்தவாஞ் அஞ்சுசித்வேந மாதாபித்ரோஞ்சாநாஹாடௌ கூதே॥பி, ஸபிண்டிகரணே பிரதமாஷி஦கபர்யந்த் புஞ்சவனாயநவகாஶகம்வ்யதிரிக்த சூங்கர்ம ந கர்த்துமித்யாஹு: ।

அவ்விதம் இருப்பதால், 'வர்ஷம் முடிந்த பிறகு ப்ரேதன் பித்ருவத்தை அடைகிறோன்' என்று போதாயன வசனத்தாலும், 'ம்ருதர்களுக்கு ஒரு வர்ஷம் முடியும் வரையில் ப்ரேத லோகத்தில் வாஸம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது' என்று விழ்ஞானேஞ்வர வசனத்தாலும், 'ஸபிண்ணகரணத்திற்குப் பிறகும் ப்ரேதத்வம் நிவ்ருத்திக்காததால் வர்ஷம் பூர்ணமாகும் வரையில் விழுதியைத் தரிக்கக் கூடாது' என்று லோகாக்ஷியினை ப்ரேதத்வம் நிவ்ருத்திக்காததைப் பற்றிப் பஸ்மதாரண நிஷேதம் சொல்லப்பட்டு இருப்பதாலும், அசுத்தனைகியதால், மாதா பிதாக்களுக்கு 12-ஆவது நாள் முதலாகிய காலத்தில் ஸபிண்ணகரணம் செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் முதல் ஆப்திகம் வரையில், பும்ஸவனம் முதலிய அநவகாச கார்யங்களைத் தவிர்த்த சுபகார்யத்தைச் செய்யக் கூடாது என்கின்றனர்.

அன்யே த்வாஹ: — ஆனந்தாத் குலधர்மணி புங்ஸாஂ சைவாயுष: க்ஷயாத்। அஸ்஥ிரத்வாச்஛ரீரஸ்ய ஦்ராதஶாஹ: ப்ரஶஸ்யதே இதி வ்யாଘ்ரபாட-, வச்சநென குலधர்மணிமானந்தாதித்யநென ஦்ராதஶாஹஸாபிண்ட்யானந்தர் கர்மநுஷ்டானப்ரதிபாடநாத் ப்ரேதமாவானிவृத்தாவபி, ப்ரேதஶ்ராஞ்சனி ஶிஷ்டானி ஸபிண்டிகரண் தथா । அபகृப்யாபி குர்வித கர்த்தா நாந்஦ிமுखே ட்ரிஜ:, இதி நாந்஦ிமுखமாற உபஸ்஥ிதே மாசிகாபக்ர்வி஧ானாத் நிஷே஧ாமாவாச் ப்ரமीதௌ பிதரௌ யஸ்ய ஦ேஹஸ்தஸ்யாஶுசிர்வீத் இதி ஶ்லோக஦்ವயேநாக்தகர்மங்யதிரிக்தானி ஸர்வணி ஶுபகர்மாணி விவாஹ- ஦ீந்யபி கர்த்தவ்யானி இதி । ஶிஷ்டாசாராதிஹ வ்யவஸ்஥ா ।

மற்றும் சிலரோவெனில் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர் - “குல தர்மங்கள் எல்லையன்றி இருக்குமாதலாலும், புருஷர்களின் ஆயுஞும் குறைந்ததாதலாலும், சரீமும் ஸ்திரமல்லாததாலும், 12-ஆவது நாள் சலாக்யமாகிறது’ என்று வ்யாக்ரபாத வசனத்தால் குல தர்மங்கள் வெகுவாகியதால் என்பதினால் 12-ஆவது நாளில் ஸாபின்டயத்திற்குப் பிறகு கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கலாம் என்று சொல்லியதால், ப்ரேத பாவ நிவ்ருத்தி இல்லாவிடினும், ‘மீதியள்ள ப்ரேத ச்ராத்தங்கள் ஸபின்ஷகரணம் இவைகளை அபகர்ஷித்தாவது நாந்தி முகத்தில் செய்யலாம், என்று. நாந்தி என்பது வந்தால் மாலிகாபகர்ஷம் செய்ய விதி இருப்பதாலும், நிஷேதம் இல்லாததாலும், ‘பிதரெள ப்ரமீதெள யஸ்ய’ என்ற இரண்டு ச்லோகங்களால் சொல்லப்பட்ட கர்மங்கள் தவிர்த்த சுபகர்மங்கள் எல்லாம் விவாஹம் முதலியவைகளும் செய்யத் தகுந்தவையே” என்று. இவ்விஷயத்தில் சிஷ்டாசாரத்தால் வ்யவஸ்தையை அறியவும்.

पित्रोर्मरणोब्दे दशार्दिश्राष्ट्रनिषेधः ।

पित्रोर्मृताब्दे दर्शादिश्राद्धनिषेध उक्तः पट्टिंशन्मते—
सपिण्डीकरणादूर्ध्वं वर्षं वर्षार्धमेव वा । न कुर्यात् पार्वणश्राद्धमष्टका
न विहन्यते इति । अष्टकाव्यतिरिक्त-दर्शमहालयमन्वादिश्राद्धं न
कार्यमित्यर्थः । तथा च स्मृत्यन्तरे — अमाश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं
चापरपक्षिकम् । प्रथमेऽब्दे न कुर्वाति केशानां वपनं तथा इति ।
(प्रमीतपितृकः कुर्यान्नि कुर्यादाब्दिकावधि इति पाठान्तरम् ॥)
आश्वलायनस्तु — यन्मास्येवाब्दिकं श्राद्धं यस्य पित्रोभवेदिह ।
प्राक्षिप्णददानात्तन्मासि पार्वणं न समाचरेत् इति । यस्मिन् मासे
प्रथमाब्दिकम्, तत्राब्दिकात् पूर्वं पार्वणं दर्शादिश्राद्धं न
कुर्यादित्यर्थः ।

**மாதா பிதாக்கவின் ம்ருதி வர்ஷத்தில் தூங்காது
ச்ராத்தங்களுக்கு நிவேதம்.**

மாதா பிதாக்களின் மரண வர்ஷத்தில் தர்சாதி ச்ராத்த நிஷேஷதம் சொல்லப்பட்டு உள்ளது. ஷட்டிமசன் மதுத்தில்:- “ஸபின்டகரணத்திற்குப் பிறகு ஒரு வர்ஷம் அல்லது 6-மாதம் வரையில் பார்வண ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது. அஷ்டகைக்கு நிஷேஷதம் இல்லை” என்று. ‘அஷ்டகையைத் தவிர்த்த தர்சம், மஹாளையம், மன்வாதி, இந்த ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாது என்பது பொருள். அவ்விதமே, ஓர் ஸ்ம்ருதியில்:- அமாச்ராத்தம், கயாச்ராத்தம், மஹாளை ச்ராத்தம், வபனம் இவைகளை முதல் வர்ஷத்தில் செய்யக் கூடாது. (பிதா இல்லாதவன் செய்ய வேண்டும். அவனும் ஆப்திகம் வரையில் செய்யக் கூடாது என்றும் ஒரு பாடம்). ஆச்வலாயனரோ வெனில்:- “எவனது மாதா பிதாக்களுக்கு எந்த மாஸத்தில் ஆப்திக ச்ராத்தமோ அந்தப் பிண்ட தானத்திற்கு முன்பு, அவன் அந்த மாஸத்தில் பார்வணத்தை அனுஷ்டிக்கக்

கூடாது” என்றார். “எந்த மாஸத்தில் ப்ரதமாப்திகமோ, அதில் ஆப்திகத்திற்கு முன்பு பார்வண்ததை = தர்சம் முதலிய ச்ராத்தத்தைச் செய்யக்கூடாது” என்பது பொருள்.

ஸ்மृत்யந்தரே — ஸபிண்டிகரணாடூர்வ ஷமாஸாந்தரேஓபி ச । ந குர்யாத் பார்வஶாஞ்சமஷ்கா ந விஹந்யதே இதி ॥ பார்வண் - ஦ர்ஶாதி । அன் கேவி஦ாஹ: — எதானி வசனானி ஭ோஜநபர்யந்தஶாஞ்ச- நிஷே஧பராणி । ஸங்வத்ஸராத் ஷமாஸாஞ்ச அவர்஗பி திலோடகமாற் கர்த்யம், ஸபிண்டிகரணாடூர்வ மாஸக்ஞமணாடிஷு । புதிஸ்திலோடக் காந்தாத் க்ஷேதிபிண்டாந்தாத்தாத்தாத்தாத் இதி திலோடகமாறவி஧ானாத் இதி । அந்யே து ஸபிண்டிகரணாடூர்வமிதி வத்ஸராந்தஸாபிண்டாபரம் । திலோடகமிதி ஶாஞ்சஸ்யாப்யுபலக்ஷணம், தென் வத்ஸராத் பர் ஦ர்ஶஶாதி குர்யாத் இதி வ்யாசக்ஷதே ।

மற்றிருந்து ஸ்மிருதியில்:— ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு 6—மாஸத்திற்குள் பார்வண ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது. அஷ்டங்கை நிழேஷ்திக்கப்படுவது இல்லை. பார்வணச்ராத்தம் = தர்சாதி ச்ராத்தம். இவ்விஷயத்தில் சிலர் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர் — இந்த வசனங்கள் போஜனம் வரையில் உள்ள ச்ராத்தத்தை நிழேஷ்திப்பதில் தாத்பர்யம் உள்ளதை. ஒரு வர்ஷத்திற்கோ 6—மாஸத்திற்கோ முன்பும் திலோதகதானம் மட்டில் செய்யப்பட வேண்டும். ‘ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு, மாஸ ஸங்க்ரமணம் முதலியவற்றின் புத்ரன் திலோதக தானத்தைச் செய்யலாம், கேஷத்ர பிண்ட தானத்தையும் செய்யலாம்’ என்று திலோதக தானத்திற்கு மட்டில் விதி இருப்பதால், என்று. மற்றவரோ வெனில், ‘ஸபின்மகரணத்திற்குப் பிறகு’ என்றது வர்ஷாந்த ஸர்சின்ட்யத்தைப் பற்றியது, திலோதகம் என்றது ச்ராத்தத்திற்கும் உபலக்ஷணம். ஆகையால் வர்ஷத்திற்குப் பிறகு தர்சாதி ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும், என்று வ்யாக்யானம் செய்கின்றனர்.

शतकव्याख्यातारस्तु दर्शादिश्राद्धं सपिण्डीकरणात् प्राक् नास्त्येव, नासपिण्डीकृते प्रेते पितृकार्यं प्रवर्तते । सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यात् पित्र्यं शुभानि च इति स्मृतेः इति । एतदपि सपिण्डीकरणात् परं दर्शादिश्राद्धविधानं वत्सरान्त-सापिण्डचाभिप्रायम्, अन्यथा सपिण्डीकरणादूर्ध्वं वर्षं वर्षार्धमेव वा इति पूर्वोक्तं वचनविरोधः स्यात् इत्याहुः । सपिण्डीकरणात् प्रेते पैतृकं पदमास्थिते । आहिताग्रेः सिनीवाल्यां पितृयज्ञः प्रवर्तते इति स्मरणादाहिताग्रेरेकादशदिनादि सापिण्डचानन्तरं दर्शादि श्राद्धे न विवादः । अन्येषां शिष्टाचारानुसारेण व्यवस्था द्रष्टव्या ।

कथकव्याक्याणक्काररो वेणीलः- 'तर्समं मुतलियं चरात्तमं लपिण्णांकरणत्तिन्ऱुं कु मुनं निंक्षयमायं इल्लै. 'लपिण्णांकरणमं चेय्वत्तरं कु मुन्पु पित्तरुकार्यमं वरुवतु इल्लै. 'लपिण्णांकरणमं चेय्तु पिऱुकु पित्तरुकार्यत्तेतयुमं कुपकार्यन्कलौयुमं चेय्य वेण्णुमं' ऎन्ऱु लम्मरुति इरुप्पतालं ऎन्ऱुर. इवंवितमं लपिण्णांकरणत्तिन्ऱुं कुप्पि पिऱुकु तर्साति चरात्त वित्तियुमं वर्षान्त लापिण्णट्यत्तिलं अपिप्रायमं उल्लतु. अवंवितमं इल्लै येणील, 'लपिण्णांकरणत्तिन्ऱुं कुप्पि पिऱुकु ऒरु वर्षमं मुष्टियुमं वरेरयिलेला 6-मालमं मुष्टियुमं वरेरयिलेला' ऎन्ऱु मुनं चेऽल्लिय वचनत्तिन्ऱुं कु विरोतमं नेरीुमं, ऎन्किण्णरनर. 'लपिण्णां करणत्तिन्ऱुं कुप्पि पिऱुकु, प्परेतनं पित्तरुपावत्तेत अटेन्तिरुक्कुमं पोतु, आउरीताक्कनि तर्सत्तिलं पिण्णट पित्तरु यज्ज्ञुत्तेतक्सं चेय्यवुमं' ऎन्ऱु लम्मरुति इरुप्पतालं, आउरीताक्कनि 11-आवतु तिऩमं मुतलिय कालत्तिलं लापिण्णट्यमं चेय्त पिऱुकु तर्साति चरात्तमं चेय्युमं विष्यत्तिलं विवातमं इल्लै. मर्न्नवर्ष विष्यत्तिलं चिष्टाचारत्तालं व्यवस्तेतयेकं कण्णु केालावुमं.

एकस्मिन्दिने एककतौकोदेश्यकश्राद्धयनिषेधः ।

एकः कर्ता एकस्मिन् दिने श्राद्धद्वयमेकोदेश्यं न कुर्यात्, नैमित्तिकश्राद्धयोः सन्निपाते तु तद्वद्यमेकदिने कुर्यात् । तदाह दक्षः – नैकः श्राद्धद्वयं कुर्यात् समानेऽहनि कस्यचित् । न यज्ञं न बलिं नैव देवर्षिपितृतर्पणम् इति । जाबालिः — श्राद्धं कृत्वा तु तस्यैव पुनः श्राद्धं न तद्विने । नैमित्तिकं तु कर्तव्यं निमित्तानुक्रमोदयम् इति । क्रतुरपि — श्राद्धं कृत्वा पुनः श्राद्धं न कुयदिकवासरे । यदि नैमित्तिकं न स्यादेकोदेश्यं भवेद्यदि इति ।

ஓரு தினத்தில் ஓரு கர்த்தா ஓருவருக்காக இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாது.

ஓரு கர்த்தா, ஓரு தினத்தில் ஓரு வரை உத்தேசித்துள்ள இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாது. நெமித்திக ச்ராத்தங்கள் இரண்டு சேர்ந்தாலோ வெனில் அவ்விரண்டையும் ஓரு தினத்தில் செய்யலாம். அதைச் சொல்லுகிறார். தானா:- ஓருவன் ஒரே தினத்தில் ஓருவர்க்கே இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாது. யஜ்ஞும், பலி, தேவர்ஷி பித்ரு தர்ப்பணம் இவைகளையும் செய்யக் கூடாது. ஜோபாலி:- ச்ராத்தம் செய்த பிறகு, அதே தினத்தில், அவனுக்கே மறுபடி ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது. ஆனால் நெமித்திக ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். நிமித்தத்தின் க்ரமத்தை அனுஸரித்துச் செய்யவும். கரதுவும்:- ஒரே தினத்தில், ச்ராத்தம் செய்து மறுபடி ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது. அது நெமித்திகம் இல்லாததாகில், ஓருவரையே உத்தேசித்து உள்ளதானால்.

एकदेवत्यं श्राद्धद्वयं नैकदिने कुर्यादित्यस्य निषेधस्य विषयो दर्शितः पितृमेधसारे — नैकः श्राद्धद्वयमेकोदेश्यमेकवासरे कुयद्विवैक्यात् । तद्यथा — नित्येन दार्शिकस्य, सोदकुम्भेन मासिकस्य दार्शिकेन मन्वादियुगादिग्रहण (सङ्कान्ति) श्राद्धानां

सन्निपाते प्रसङ्गात् पूर्वसिद्धेरुत्तरदार्शिकादिश्राद्धमेव कुर्याद-
नियतस्य बलीयस्त्वात् इति ।

ऋग्वराये उत्तेष्यर्कलायुटेय इरण्णु
स्रात्तन्कला ओरो तिनत्तिलं चेय्यकं कूटातु एन्न इन्त
निषेषत्तिन्ऱु विष्यम् चेल्लप्पट्टु उल्लातु,
पित्तरुमेत्तलारत्तिलः:- ऋग्वन् ऋग्व तिनत्तिलं
एकोत्तेष्यमाण २-स्रात्तन्कलास्चेय्यकं कूटातु. अतु
एवं वितम् एनीलं, नित्य स्रात्तत्तत्तुतन् तर्स
स्रात्तत्तिन्ऱुम्, लेलातु गुम्पत्तुतन् मालिकत्तिन्ऱुम्,
तर्स स्रात्तत्तिन्ऱुम् मन्वातु, युकाति, करवृण
(संकरान्ति) स्रात्तन्कलाकुम् चेस्कके एर्पप्पट्टालं,
प्ररसंकत्तालं पुर्वम् लित्तिप्पत्तालं पिण्डप
चेल्लप्पट्टतर्सस्रात्तम् मुत्तलियत्तेये अनुष्ठिक
वेवण्णुम्. अनियतम् पलिष्टम् आक्यत्तालं” एन्न रु
उल्लातु.

एकमप्याशयेनित्यं पित्रर्थं पाश्यज्ञिके इत्युक्तेन
नित्यश्राद्धेन सह ‘न निर्विपति यः श्राद्धं प्रमीतपितृको द्विजः ।
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्तीयते द्विजः’ इत्युक्तदर्शश्राद्धस्य
सन्निपाते - समेलने, तथा सोदकुम्भश्राद्धेन सह मासिकस्य
सन्निपाते, दर्शश्राद्धेन मन्वादियुग्ग्रहण (सङ्कान्ति) श्राद्धानां
सन्निपाते सति उत्तरदर्शादिश्राद्धेन अनियतेन नियतनित्य-
श्राद्धादिसिद्धेन नियतनित्यश्राद्धादि पृथग्नुष्टेयम् । प्रत्यहं
क्रियमाणनित्यश्राद्धापेक्षया दर्शश्राद्धमनियतम्, एवं सोदकुम्भात्
प्रत्यहं विहितात् मासि मासि मृताहे विहितं मासिकमनियतम्, एवं
दर्शश्राद्धं प्रतिमासं नियतम्, मन्वादिकं तु कचिन्मासि
सम्भवादनियतम्, तस्य बलीयस्त्वात्तदेवानुष्टेयमित्यर्थः ।
(दर्शसङ्कान्तिश्राद्धयोः सन्निपाते तु द्वयोस्तुल्यबलत्वाः
देवताभेदाभावाच्च दर्शश्राद्धं सङ्कान्तिश्राद्धं वा अन्यतरदनुष्टेयम्) ॥

'பஞ்சமஹா யக்ஞத்தில் உள்ள பித்ரயஜ்ஞத்தில் ப்ரதி தினம் ஒரு ப்ராம்ஹணையாவது புஜிப்பிக்கவும்' என்று சொல்லப்பட்டு உள்ள நித்ய ச்ராத்தத்துடன், 'அஜீவபித்ருகளுன் எந்த ப்ராம்ஹணன் ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் தரசத்தில் ச்ராத்தம் செய்வது இல்லையோ அவன் ப்ராயச்சித்தியாய் ஆகிறுன்' என்று சொல்லப்பட்டுள்ள தரச ச்ராத்தம் சேர்ந்தால், அவ்விதம் ஸோதகும்ப ச்ராத்தத்துடன் மாஸிகம் சேர்ந்தால், தரச ச்ராத்தத்துடன் மன்வாதி யுகாதி க்ரஹன (ஸங்க்ராந்தி) ச்ராத்தங்கள் சேர்ந்தால் மேலுள்ள அநியதமான தர்சாதி ச்ராத்தத்தால், நியதமான நித்ய ச்ராத்தாதிகள் வித்திப்பதால், நியதமான நித்ய ச்ராத்தம் முதலியவை தனியாய் அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியது இல்லை. ப்ரதி தினம் அனுஷ்டிக்கப்படும் நித்ய ச்ராத்தத்தை அபேக்ஷித்து தரச ச்ராத்தம் அநியதம். இவ்விதம் ப்ரதி தினம் விஹிதமான ஸோத கும்பத்தை விட, ப்ரதி மாஸம் ம்ருதி தினத்தில் விதிக்கப்பட்டு உள்ள மாஸிகம் அநியதம். இவ்விதம் தரச ச்ராத்தம் ப்ரதி மாஸம் நியதம். மன்வாதிகமோ வெனில் ஏதாவதொரு மாஸத்தில் ஸம்பவிப்பதால் அநியதம். அது பலிஷ்டம் ஆனதால் அதே அனுஷ்டிக்கத் தகுந்தது என்பது பொருள். (தரச ச்ராத்தமும் ஸங்க்ராந்தி ச்ராத்தமும் சேர்ந்தால் இரண்டுக்கும் பலம் ஸமானம் ஆகியதாலும், தேவதா பேதம் இல்லாததாலும் ஏதாவது ஒன்றை அனுஷ்டிக்கவும்). (குண்டலாந்தர்கதமான இந்தப் பாகம் சில கோசங்களில் இல்லாததால் ப்ரக்ஷிப்தம் என்றே தோன்றுகிறது. துல்யபலத்வமும் இல்லை. தர்சம் நித்யம், ஸங்க்ரமணம் நைமித்திகம் என்று விபாகம் மேலே சொல்லப்படப் போகிறது).

காலாத்ரீபி — நித்யாஶிகியோ: ஸௌகும-
மாசிகயாரபி | ஦ார்சிகஸ்ய யு஗ாதேஷ ஦ார்சிகாலஸ்யயோगயோ: |

दाश्चिकस्य च मन्वादेः सम्पाते श्राद्धकर्मणः । प्रसङ्गादितरस्यापि सिद्धेरुत्तरमाचरेत् इति । अलभ्ययोगशब्देन चन्द्रसूर्यग्रहणा-धर्मोदयादीनामुपसङ्गहः, ग्रहणाधर्मोदययोरमावास्या-कालीनत्वात् दाश्चिकन सम्पातः ।

कालात्मार्चस्तुतीलुमः— नित्यत्थिरं कुम् तर्स
स्त्रात्तथिरं कुम्, लेषात् कुम्पत्थिरं कुम् मालीकत्थिरं कुम्,
तर्सत्थिरं कुम् युक्तातिकं कुम्, तार्सिकत्थिरं कुम्
अलप्ययोकत्थिरं कुम् तार्सिकत्थिरं कुम् मन्वातिकं कुम्
सेषक्केयाग्नेल्, प्ररसन्कत्तत्ताल् मर्त्तेरुरु स्त्रात्तमुम्
लित्तिप्पत्ताल्, इरट्टेटकलील् 2-आवत्ताकसं
सेषल्लियत्ते अनुष्ठिक्कं वेण्णुम्. (मुक्तमायं उन्नेन
अनुष्ठिप्पत्ताल् मर्त्तेरुन्नरुम् लित्तिप्पत्तु
प्ररसन्कमाम्.) अलप्ययोक सप्तत्तत्ताल्, सन्तरं लार्य
कर्हण्णम् अर्त्तेत्तोत्तयम् मुत्तवियवेकली कर्हलीक्कवम्.
कर्हण्णम् अर्त्तेत्तोत्तयम् अमावास्ययील
सम्पवीप्पत्ताल् तर्स स्त्रात्तत्तत्तुट्टन् अवेकल्लुक्कुसं
सेषक्केक.

तत्रैव— नैकः श्राद्धद्वयं कुर्यादिकस्यै वैकवासरे । नैमित्तिकं
त्वनेकेषां निमित्तानां च सङ्करे । नैमित्तिकानि तुल्यत्वात्
देवतैक्येऽपि कृत्स्नशः इति । एकः कर्ता एकदिने एकमेव
पित्रादिकमुद्दिश्य श्राद्धद्वयं न कुर्यात् नैमित्तिकश्राद्धद्वयं तु कुर्यात्,
अनेकेषां निमित्तानां च सन्निपाते सति बहूनि नैमित्तिकानि
श्राद्धानि देवतैक्येपि कृत्स्नानि कुर्यात्, निमित्तानां
तुल्यत्वादित्यर्थः । तदाह कात्यायनः — द्वे बहूनि निमित्तानि
जायेरनेकवासरे । नैमित्तिकानि कार्याणि निमित्तोत्पत्त्यनुक्रमात्
इति ।

कालात्मार्चस्तुतीलेयेः— “‘ऋवेण ऋगु तिनत्तिलं
ऋगुवनुक्केइरण्णुक्केस्त्रात्तत्तनुक्कलीक्कसं चेष्यकं कृतात्

நெமித்திகம் ஆனால் இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யலாம். அநேக நிமித்தங்கள் சேர்ந்தால் அநேக ச்ராத்தங்களையும் செய்யலாம்.' ஒரு கர்த்தா ஒரு தினத்தில் ஒரே பிதா முதலியவரை உத்தேசித்து இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாது. நெமித்திகங்கள் ஆனால் இரண்டு ச்ராத்தங்களையும் செய்யலாம். அநேக நிமித்தங்கள் சேர்ந்தால் அநேக நெமித்திக ச்ராத்தங்களைத் தேவதைகள் ஒன்றூய் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் செய்யலாம். நிமித்தங்கள் ஸமானம் ஆகியதால் என்பது பொருள். அதைச் சொல்லுகிறார், காத்யாயனர்:- ஒரு தினத்தில் இரண்டு நிமித்தங்கள், அல்லது அநேகம் நிமித்தங்கள் உண்டானால் அந்த நெமித்திக ச்ராத்தங்கள் எல்லாவற்றையும், நிமித்தங்களின் உற்பத்தி க்ரமத்தை அனுஸரித்துச் செய்யவும்.

தேவதாமேடே ஏகரிம்ந் ஦ினே ஶ்ராஞ்சநூஷானம् ।

நைக: ஶ்ராஞ்சய் குயடிகஸ்யै வैகவாஸரே இत्युदேश्यैक्ये
ஶ்ராஞ்சயனिषेधात् தேவதாமேடே ஶ்ராஞ்சய் குர्यात् । பितृमेधसரே
தदுदாஹதம् — தघதா - நித்யார்சிகாभ्यां ஸோகும்஭மா-
காங்காநாா் ஸ்யोगे, ஆங்கிகேந ஸ்ங்காந்திமா-
சிக்ஸோகும்஭ாநா் ஸ்யोगे, ஸோகும்஭ா-
தி பூர்வமநுஷ்டேயமநியத்த்வாத் ததோ ஦ர்ஶா-
தி இதி ।

தேவதா பேதம் இருந்தால் இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யலாம்.

'ஒருவன் ஒரு தினத்தில் ஒருவனுக்கே இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யக் கூடாது' என்று உத்தேச்யன் ஒன்றூயிருந்தால் 2-ச்ராத்தங்களுக்கு நிஷேதம் இருப்பதால், தேவதா பேதம் இருந்தால், இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யலாம். அது சொல்லப்பட்டு உள்ளது, பித்ருமேதஸாரத்தில்- 'அது எப்படியெனில் - நித்ய ச்ராத்தம், தர்ச ச்ராத்தம் இவைகளுடன் ஸோதகும்பம்,

मालीकम्, आप्तिकम् इवेवकं चेर्न्त्ताल्, आप्तिकत्तुटन्
लेन्करमणम्, मालीकम् लेवात्कुम्पम् इवेवकं
चेर्न्त्ताल्, लेवात्कुम्पम् मुतवियते मुन्पु अनुष्ठिकं
वेण्णुम्. अनियतमाक्षयताल्, पिऱकु तर्सम् मुतवियते
अनुष्ठिकं वेण्णुम्, एन्ऱु.

नित्यश्राद्धेन दर्शश्राद्धेन च सोदकुम्भश्राद्धं मासिकं मातुः
पितुर्वा क्षयाहश्राद्धं च यदा संयुक्तं तदा श्राद्धद्ययं कुर्यादेव । तत्र
अनियतनिमित्तं सोदकुम्भमासिकाब्दिकादि पूर्वं कृत्वा
नित्यदर्शश्राद्धे कुर्यात्, एवं मातुः पितुर्वा क्षयाहश्राद्धेन
संक्रान्त्यादिनैमित्तिकश्राद्धसन्निपाते श्राद्धद्ययं कुर्यात्, तत्र
सङ्क्रान्त्यादीनि अनियतनिमित्तानि पूर्वं कृत्वा आब्दिकं
कुर्यादित्यर्थः । एवं च देवतामेदे सति नित्ययोनैमित्तिकयोर्वा
सन्निपाते श्राद्धद्यमवश्यं कर्तव्यम्, तत्र च अनियत निमित्तं पूर्वं
कर्तव्यम् ।

नित्यं चरात्तत्तुटनुम्, तर्सं चरात्तत्तुटनुम्,
लेवात्कुम्पम्, मालीकम्, माता अल्लतु पिताविन
मंगुताहू चरात्तम् एप्पेपामुतु चेरुकिन्नरेतो
अप्पेपामुतु इरण्णु चरात्तन्कलौचं चेय्य वेण्णुम्.
अव्विष्यत्तिलं अनियत निमित्तमाण लेवात्कुम्पम्,
मालीकम्, आप्तिकम् मुतवियते मुन्पु चेय्तु, पिऱकु
नित्यं तर्सं चरात्तन्कलौचं चेय्यवुम्. इव्वितम् माता
अल्लतु पिताविन मंगुताहू चरात्तत्तुटन्,
लेन्करान्त्याति नेनमित्तिकं चरात्तम् चेर्न्त्ताल् इरण्णु
चरात्तन्कलौचं चेय्यवुम्. अवेवकगुणं लेन्करमणम्
मुतविय अनियत निमित्तन्कलौ मुतविलं चेय्तु, पिऱकु
आप्तिकत्तेतसं चेय्यवुम्. इव्वितम् इरुप्पताल्,
तेवता पोतम् इरुक्कुम् पेपामुतु, इरण्णु
नित्यन्कगुक्को, नित्यं नेनमित्तिकन्कगुक्को चेरक्केक

இருக்கும் பகுத்தில் இரண்டு ச்ராத்தங்களை அவச்யம் செய்யவும். அவைகளுள் அநியத நிமித்தமாய் உள்ளதை முன்பு செய்யவும்.

தथா ச காலார்ச்கார: — நித்யஸ்ய ஸோடகும்஭ஸ்ய நித்யமாஸிகயோரபி । ஦ர்ஶஸ்ய ஸோடகும்஭ஸ்ய ஦ர்ஶமாஸிகயோரபி । நித்யஸ்ய சாபி஦கஸ்யாபி ஦ார்சிகாபி஦கயோரபி । யு஗ா஧ாபி஦கயோஶாபி மந்வா஧ாபி஦கயோரபி । ப்ரத்யாபி஦கஸ்ய சாலம்யயோగேஷு விஹிதஸ்ய து । ஸம்பாதே ஦ேவதாமேதாத् ஶாஷ்யும் ஸமாச்சரேத् । நிமித்தானியதிஶாத் பூர்வநுஷ்டானகாரணம் இதி । ஏஷு ஢ஞ்சேஷு யஸ்ய ஶாஷ்ய நிமித்தமனியதं தத் பூர்வமநுஷ்டேயம், அனியதனிமித்தஸ்ய ஬லீயஸ்த்வாத् । தேன ஸோடகும்஭மாஸிகாபி஦கானி பூர்வ கூத்வா நித்யஶாஷ்஦ாஶிகி குர்யாத் । ஦ார்சிகாபி஦கயோ: ஸஞ்சிபாதே ஆபி஦ிக் க்ஷயாஹஶாஷ் பூர்வ கூத்வா ஦ர்ஶஶாஷ் குர்யாத், எதேஷு ஢ஞ்சேஷு பஶ்வா஧ாகுத் தத் பூர்வமநுஷ்டேயமித்யுகுத் ஭வதி ।

காலாதூர்ச்காரர்: — “நித்யத்திற்கும் ஸோதகும்பத் திற்கும், நித்யத்திற்கும் மாஸிகத்திற்கும், தர்சத்திற்கும் ஸோதகும்பத்திற்கும், தர்சத்திற்கும் மாஸிகத்திற்கும், நித்யத்திற்கும் ஆப்திகத்திற்கும், தர்சத்திற்கும் ஆப்திகத்திற்கும், யுகாதிக்கும் ஆப்திகத்திற்கும், மன்வாதிக்கும் ஆப்திகத்திற்கும், ப்ரத்யாபதிகத்திற்கும் அலப்யயோக விலுவித ச்ராத்தத்திற்கும் சேர்க்கையானால் தேவதாபேதம் இருப்பதால் இரண்டு ச்ராத்தங்களைச் செய்யவும். நிமித்தம் நியதம் இல்லாதிருப்பது முதலில் அனுஷ்டிப்பதற்குக் காரணமாகும்” என்றார். இந்த இரட்டைகளில் எந்த ச்ராத்தத்திற்கு நிமித்தம் நியதமல்லவோ அதை முன்பு அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அநியத நிமித்தம் பலிஷ்டமானதால். அதனால் ஸோதகும்பம் மாஸிகம் ஆப்திகம் இவைகளை முன்பு

चेयंतु, पिऱ्कु नित्यं चरात्तह तर्स चरात्तहं कौशिलं चेयंय वेण्णुम्. तर्समुम् आप्तिकमुम् चोर्नतालं प्ररत्याप्तिक चरात्तहत्तेत मुन्पु चेयंतु पिऱ्कु तर्स चरात्तहत्तेताचं चेयंयवुम्. इन्त हिरट्टेकौशिलं प्रिण्पु चोल्लप्पट्टतु एतुवेवा अतेत मुन्पु चेयंय वेण्णुम् एन्ऱु चोल्लीयताय आकिन्नरतु.

तथा स्मृत्यन्तरे — दर्शं क्षयाह आपने श्राद्धं तत्र कथं भवेत्। क्षयाहं तु विनिर्वर्त्य दर्शश्राद्धं समाचरेत् इति । आश्वलायनस्तु — यन्मास्येवाबिदं श्राद्धं यस्य पित्रोभवेदिह । प्राक् पिण्डदानात्तन्मासि पार्वणं न समाचरेत् इति । पिण्डदानात् - आबिदंश्राद्धीयपिण्डदानात् प्राक्, पार्वणं - दर्शादिश्राद्धं न समाचरेदित्यर्थः ।

छूरं संमंगुठीयिलः- तर्सत्तिलं मंगुठाहू चरात्तहम् वन्त्तहालं चरात्तहत्तेत एप्पटि चेयंवतु ? एनीलं, मंगुठाहू चरात्तहत्तेताचं चेयंतु पिऱ्कु तर्स चरात्तहत्तेताचं चेयंयवुम्. आक्षवलायनरो वेणीलः- एवनुउटेय पितावकंकु एन्त मालत्तिलं प्ररत्याप्तिक चरात्तहम् वरुकिर्तेऽ, अवन्त अन्त मालत्तिलं प्रिण्टतानत्तिर्तंकु = आप्तिक चरात्तहीय प्रिण्टतानत्तिर्तंकु मुन्पु, पार्वणत्तेत = तर्साति चरात्तहत्तेताचं चेयंयकं कूटातु.

मातापितृश्राद्धद्वयसन्निपाते विधिः

मातापितृश्राद्धद्वयसन्निपाते पितृश्राद्धं पूर्वं कुर्यात् । मातापित्रोमृताहैक्यं कालेनापि भवेद्यदि । पितृश्राद्धं पुरा कृत्वा कुर्यान्मातुरनन्तरम् इति स्मरणात् ॥ तथा च कालादर्शं — पित्रोस्तु पितृपूर्विं सर्वत्र श्राद्धकर्मणि इति । सर्वत्र-सपिण्डीकरणान्ते तदुत्तरभाविनि प्रत्याबिद्कादौ च । काषण्डजिनिः — पित्रोः श्राद्धे समं प्राप्ते नवे पर्युषितेऽपि वा । पितृपूर्वं सदा

कुर्यादन्यत्रासत्ति-योगतः इति । अन्यत्र - मातापितृव्यतिरिक्त-श्राद्धे ।

மாதா பிதா ச்ராத்துங்கள் இரண்டும் சேர்ந்துால் விதி.

மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தங்கள் இரண்டும் சேர்ந்தால் பிதாவின் ச்ராத்தத்தை முன்பு செய்யவும். 'மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தங்கள் ஒரே நாளில் வந்தால் பிதாவின் ச்ராத்தத்தை முன்பு செய்து பிறகு மாதாவின் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும்' என்று ஸ்ம்ருதி உள்ளது. அவ்விதமே, காலாதர்சத்தில்:— மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தம் எல்லாவற்றிலும் பித்ரு ச்ராத்தம் முன்பு செய்யப்பட வேண்டும். ஸர்வத்ர = ஸபிண்மைகரணம் வரையில் உள்ளதிலும், அதற்கு மேல் வரக்கூடிய ப்ரத்யாப்திகம் முதலியதிலும். கார்ஷணைஜனி:— மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தங்கள் ஒரு தினத்தில் வந்தால் நவங்கள் ஆனாலும் அந்தரிதங்கள் ஆனாலும், பிதாவின் ச்ராத்தத்தையே எப்பொழுதும் முன்பு செய்ய வேண்டும். மாதா பித்ரு வயதிரிக்க ச்ராத்த விஷயத்தில் ஸம்பந்த ஸாமீப்யத்தைக் கவனித்து அதன் க்ரமமாய்ச் செய்ய வேண்டும்.

स्मृत्यन्तरे — मातापित्रोर्मृताहैक्ये पाकादीन् सह कारयेत् ।
 कुर्यादग्रे पितुः श्राद्धं पश्चान्मातुर्यथा विधि इति । सायणीये —
 श्राद्धद्वये च युगपत् प्राप्ते पित्रोर्मृतोऽहनि । एकपाकेन तत् कुर्यादिति
 स्मृतिकृतो विदुः इति । हेमाद्रौ — मातापित्रोरेकदिने श्राद्धं च
 प्रकृतं भवेत् । एकपाकेन तत् कुर्याद्ब्रह्मणादि पृथक् पृथक् ।
 नान्नादित्रेषदोषोऽत्र कालैक्यान्तु पृथग्विधौ । रौहिणान्ते पितुः
 कृत्वा वैरिञ्चे मातुररभेत् ॥ इति ॥

ஓர் ஸ்ம்ருதியில்:— மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தந்கள் ஒரு தினத்தில் சேர்ந்தால், பாகம் முதலியவைகளைச் சேர்த்துச் செய்யவும். முன்பு பிதாவின் ச்ராத்தத்தைச்

चेय्यवुम्. पिऱ्हु माता वुक्कु वित्तिप्पटि चेय्यवुम्. सायणीयत्तिलः— माता पिता कक्षीन् मंगुता हृत्तिल 2-स्रात्तंत्रंकगुम् चेस्नंत्तालं अवविरण्टु मंस्रात्तंत्रंकगीयुम् ओरो पाकत्तालं चेय्य वेण्टुम् एन्ऱु लंमंगुतीकाररक्कलं चेसाल्लुकिन्ऱनर. हेमात्तरीयिलः— माता पिता कक्षीन् स्रात्तंत्रंकग्गलं ओरो तिनत्तिलं प्रराप्तंत्रंकग्गलं आग्नेल अवेवकग्गलं ओरो पाकत्तालं चेय्यवुम्. वरणामं मुतलियतेत्तंत्रंतनीत्तनीयाय्च चेय्यवुम्. ओरो कालत्तिलं तनीत्तनीयाय्च चेय्युम् विष्यत्तिलं अन्नात्तिकगुक्कुस्च चेष्टेत्तोषम् एन्पतु इल्लै. रेणूलृणा मुहुर्मार्त्तत्तत्तिलं (18-नाम्मिकेकक्कुलं.) मुष्टिविलं पित्तरु स्रात्तंत्रत्तेत्तस्च चेय्यतु, वेवरीन्त्तस्च मुहुर्मार्त्तत्तिलं मात्तरु स्रात्तंत्रत्तेत्त आरम्पिक्कवुम्.

आश्वलायनोऽत्र विशेषमाह — एकत्रै दिने श्राद्धद्वयं प्रासं यदा तदा । चरेदेव पुरा वर्षात् पित्रोरेकस्तु तत्सुतः ॥ तावत् पूर्व मृतस्यादौ कृत्वा स्तात्वा यथाविधि । पश्चात् पश्चान्मृतस्यैव पृथक् पाकैः समाचरेत् इति । एकस्यां तिथौ सञ्चातानुमरणसम्बन्धव्यतिरिक्तं पित्रोः श्राद्धद्वयं यदा प्रासं तदा बहुषु विभक्तेष्वपि पुत्रेषु सत्सु एको ज्येष्ठ एव पुरा वर्षात् नवश्राद्धाद्यूनाबिदकपर्यन्तं मरणक्रमेण कुर्यादित्यर्थः । एवं च वर्षात् पूर्वं कर्तव्यं श्राद्धं पृथक्पाकेन पितृपूर्वकं वा मरणक्रमेण वा कुर्यात् आबिदकादीनि सहपाकेन पितृपूर्वकमेव कुर्यादिति स्थितम् । मासिकाबिदकयोर्युग्मपत् प्राप्तौ तु मातुः पितुर्वा आबिदकं प्रथमं कर्तव्यम्, मासिकं तु पृथक् पाकेन पश्चात् कार्यम्, एकाहे मासिकाबदौ चेत् पूर्वं प्रत्याबिदकं भवेत् । पश्चात् मासिकं कार्यं पृथक् पाकपरिक्रिया इति स्मरणात् ।

இவ்விஷ्यत्तिल் விசேஷத்தைச் चेसाल्लுகிருர், ஆக்வலாயனா:— ‘ஏகத்ரைவ+ஸமாசரேத்’ என்று. இதன்

பொருள் — “ஓரு திதியில் ஸங்காதமரணம், அனுமரணம் இவைகளைத் தவிர்த்து, மாதா பிதாக்களின் ச்ராத்தங்கள் இரண்டும் எப்பொழுது சேர்ந்து வருகிறதோ அப்பொழுது, அநேக புத்ரர்கள் இருந்தால் அவர்கள் விபக்தர்கள் ஆயினும், அவர்களுள் ஜ்யேஷ்டன், வர்ஷத்திற்கு உட்பட்ட நவச்ராத்தம் முதல் ஊநாப்திகம் வரையில் உள்ளதை மரண க்ரமமாய்ச் செய்யவும். முதலில் செய்து ஸ்நானம் செய்து பிறகு, பின்பு இறந்தவனுக்குத் தனிப் பாகத்தால் செய்ய வேண்டும்” என்பது. இவ்விதம் இருப்பதால் வர்ஷத்திற்கு முன்பு செய்ய வேண்டிய ச்ராத்தத்தை தனிப் பாகத்தால் பித்ருச்ராத்த பூர்வமாகவாவது மரணக்ரமமாகவாவது செய்யவும். ஆப்திகம் முதலியவைகளை ஒரே பாகத்தால் பித்ரு பூர்வமாகவே செய்ய வேண்டும் என்பது நிலைத்தது. மாலிகமும் ஆப்திகமும் ஒரே தினத்தில் வந்தால், மாதாவின் உடையதாயினும், பிதாவின் உடையதாயினும் ஆப்திகத்தை முதலில் செய்யவும். “ஒரே தினத்தில் மாலிகாப்திகங்கள் நேர்ந்தால் முன்பு ப்ரத்யாப்திகத்தைச் செய்யவும். பிறகு மாலிகத்தைச் செய்யவும், பாகத்தைத் தனியாய்ச் செய்யவும்.” என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்,

அனேகஶ்ராஞ்சஸ்நிபாதே வி஧ி: |

பித்ரோஜ்ஞத்தியாदேஶ ஶாஞ்சத்ரயஸ்நிபாதே ஆஶலாயனः—
நைக்திராதிவஸே ஶாஞ்சத்ரயं ஜாத்வபி வி஦்யதே । ஏகः குர்யத்தி஥ா ப்ராஸே அந்யோ
भ्राताऽपरं चरेत् । भ्रातर्यविद्यमाने तु तत् परेऽहि समाचरेत् ।
பஞ்சாடாகதயோஸ்தாவத்பித்ரोः பூர்வேऽஹி ஶஸ்யதே । எவ் விமு॒ய கர्त्तव्यं
सम्प्रासे धीमता सदा । அந்யதா ஶாஞ்சஹந்தா ஸ்யாத् ஶாஞ்சஸங்கரகृத்தவேत्
இதி । ஏககர्त்துக் ஶாஞ்ச தியமேகஸ்மிந् ஦ிவஸே ந வி஦்யதே, ஏகோ ஭்ராதா
பித்ரोः ப்ராஸே ஶாஞ்சே குர்யதි, அந்யோ ஭்ராதா ஜாதிஶாஞ்ச சரேத்,
அவி஦்யமானே து ஭்ராதரி மரணக்ரமாத् பஞ்சாத் ப்ராஸ் பித்ரோः ஶாஞ்சத்ரயं

पूर्वदिवसे मृततिथौ कुर्यात् पूर्वमृतस्यापि ज्ञात्यादेः श्राद्धं
मृततिथेः परदिवसे कुर्यादित्यर्थः । अर्थात् पित्रोरन्यतर श्राद्धस्य
ज्ञात्यादिश्राद्धस्य च सन्निपाते श्राद्धद्वयं पितृपूर्वकं तस्यां तिथौ
कार्यमित्युक्तं भवति ।

अनेकम् चरात्तन्त्रंकालं चेरन्त्तालं वित्ति.

माता पिताकक्कलीनं चरात्तन्त्रंकालं 2, ज्ञानाति
मृतवियवरीनं चरात्तन्त्रम् 1, इवंवितम् 3-चरात्तन्त्रंकालं
चेरन्त्तालं, अुच्चवलायणारः— 'ऋगेनालील 3-चरात्तन्त्रंकालं
सेयवतु ओरु कालुम् इल्लै. अवंवितम् नेरन्त्तालं, ओरु
प्रराता 2-चरात्तन्त्रंकालास चेय्यवुम्. मर्न ग्रेरु प्रराता
मर्न ग्रेरु चरात्तन्त्रंतेष्व चेय्यवुम्. प्रराता इल्लाविष्टिलं
अतेष्व मरुनालील चेय्यवुम्, माता पिताकक्कलीनं चरात्तन्त्रम्
पिंपाक्षियतायिनुम् मृतलं नालीलं चेय्यवुम्.
लन्दनिपातम् वन्ते बेपामृतु बुत्तियुलावलं लप्पेपामृतुम्
नन्तु आलेषित्तुस चेय्य वेवन्तुम्. इल्लाविष्टिलं
चरात्तन्त्रंतेष्व केटुत्तवल्लवाणि. चरात्तन्त्रंकालकु
लंकरत्तंतेष्व चेय्तवल्लवाणि' ऎन्नरुर. ओरु कर्त्ता ओरु
नालील लुन्नरु चरात्तन्त्रंकालास चेय्वतु ऎन्पतु इल्लै.
ओरु प्रराता, माता पिताकक्कलीनं चरात्तन्त्रंकालास चेय्यवुम्,
मर्न ग्रेरु प्रराता ज्ञानाति यिनं चरात्तन्त्रंतेष्व चेय्यवुम्,
प्रराता इल्लाविष्टिलं, मरणे कर्मत्तालं पिंपु चेय्य
वेवन्दियतायिनुम् माता पित्तरु चरात्तन्त्रंकालं
इरण्णटयुम् मृतलं नालीलं मंरुत तित्तियिलं चेय्यवुम्.
मुन्पु इरन्तवल्लयिनुम् ज्ञानाति मृतवियवरीनं
चरात्तन्त्रंतेष्व मंरुत तित्तियिनं मरुनालीलं चेय्य वेवन्तुम्
एन्पतु बिपारुलं. इवंवितम् इरुप्पयतेष्व केकाण्णु,
माता पिताकक्कलास ओरुवरीलं चरात्तमुम्, ज्ञानाति
मृतवियवरीनं चरात्तन्त्रम् आकु इरण्णु चरात्तन्त्रंकालं
चेरन्त्तालं इरण्णु चरात्तन्त्रंकालायुम् माता अल्लतु
पिताविनं चरात्तन्त्रंतेष्व मुन्पुम्, मर्न तेष्पि पिंपुम् अन्तत

திதி யிலேயே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியதாய் ஆகிறது.

ஶாஷ்வதுடியஸ்நிபாதே ஸ்மृத்யந்தரே — ஆபி஦ிக் பிரथம் குர்யாந்மாசிக் து ததः பரம् । ஦ர்ஶஶாஷ்வ தூதிய ஸ்யாஞ்சுதூர்஥ஸ்து மஹாலயः இதி । மஹாலயே காருணிகவரணஸ்ய ஸ்த்வாஶ்ரமஹாலயயோர்வதாமேடாது பூதக்ரணம் ।

நான்கு ச்ராத்தங்கள் சேர்ந்தால் ஓர் ஸ்மிருதியில்:— ப்ரத்யாப்திகத்தை முன்பும், பிறகு மாலிகத்தையும், மூன்றாவதாகத் தர்ச் ச்ராத்தத்தையும், நான்காவதாக மஹாளயத்தையும் செய்யவும் என்று உள்ளது. மஹாளயத்தில் காருணிக வரணம் இருப்பதால் தர்ச் மஹாளயங்களுக்கு தேவதா பேதம் இருப்பதால் அவைகளைத் தனியாய்ச் செய்ய வேண்டும்.

அனுமரணாபி஦ிகவிஷயே மூரு:— யா ஸமாரோஹண குர்யாஞ்சித்யா பதிவ்ரதா । தா மூதேஹனி ஸம்பாஸே பூதக் பிண்டே நியோஜயேத் இதி । பூதக் பிண்டனியோஜனம் - பூதக் ஶாஷ்வக்ரணம் । தथா ச ஸ்மृத்யந்தரே — ஏகவித்யா ஸமாஸ்தீ ஦ம்பதி நி஧ந்தீ ஗தீ । பூதக் ஶாஷ்வ தயோ: குர்யாடோடன ச பூதக் பூதக் இதி । லோகாக்ஷிஸ்து — மூதேஹனி ஸமாஸேன பிண்டனிவர்பண் பூதக் । நவஶாஷ்வ து ஦ம்பத்யோரந்வாரோஹண ஏவ து இதி । மூதேஹனி பிண்டனிவர்பண் - மூதாஹஶாஷ்வ, ஸமாஸேன - பாகைக்யேன பூதக்குர்யாஞ்சித்யா: । மாதுமிரை வித்யாமந்வாரோஹண குதே பாகைக்யேன பிரதம் பிதுஸ்தநந்தர் ஸாக்ஷாந்மாது: , ததோ ஜ்யேஷ்டாடிக்ரமேண ஸபநீஸாதூணா பூதக் குர்யாத் ॥

அனுமரணைப்திக விஷயத்தில், ப்ரகுது:— எந்தப் பதிவ்ரதை பர்த்தாவின் சிதையில் ஏறி அனுமரணம் செய்தாளோ அவளுக்கு மஞ்சுதி தினத்தில் தனியாய்ப் பிண்டத்தைக் கொடுக்கவும். ப்ரகுதக் பிண்டே நியோஜு யேத்

= तनीयायं चरात्तत्त्वेत्तच चेय्य वेण्णुम्. अव्वितमें, औरु लंगुरुतीयिलः— औरु सितीयिल एव, तम्पतिकर्मात्ताल अवर्करुक्कु चरात्तत्त्वेत्तच तनीयायं चेय्यवुम्. अन्नमुम् तनीत्तनी. लोकाक्षीयो वेणीलः— तम्पतिकरुक्कु मंगुताहृ चरात्तत्त्वेत्त लमास्तत्ताल औरे पाकत्ताल तनीत्तनी चेय्यवुम्. अन्वारोहण विष्यत्तिलं नवचरात्तत्त्वेत्तच चेरत्तुच चेय्य वेण्णुम्. अनेक माताक्कर्मां औरे सितेयिल अन्वारोहणम् चेय्तु इरुन्ताल अवर्करुक्कु औरे पाकत्तिलं मुन्पु प्रितावुक्कुम्, प्रिरु लोक्षात् मातावुक्कुम्, प्रिरु ज्ञेयेष्टाति करममायं लपत्तन्नै माताक्करुक्कुम् तनीयायं चेय्य वेण्णुम्.

तदाह भूगः — एककाले गतासूनां बहुनामधवा द्वयोः । तन्नेण श्रपणं कृत्वा कुर्यात् श्राद्धं पृथक् पृथक् । पूर्वकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः परम् । तृतीयस्य ततः कुर्यात् सन्निपातेष्यं क्रमः इति । माधवीये व्याख्यातमेतत् — पूर्वकस्य - मुख्यस्य पितुः, द्वितीयस्य ततो जघन्यायाः साक्षान्मातुः, तृतीयस्य - ततो जघन्यायाः सप्तनीमातुः इति ।

अतेतच चेऽलुकिरुर्, प्रकुः— औरे कालत्तिल इरन्त लग्नुक्कें, इरुवरुक्कें औरे पाकत्तेत्तच चेय्यवुम्. चरात्तत्त्वेत्तच तनीत्तनीयायं चेय्यवुम्. मुन्पु इरन्तवल्लुक्कु मुतलिल चेय्यवुम्. इरन्टामवल्लुक्कुप्प प्रिरु चेय्यवुम्. मुन्ऱु मवल्लुक्कुप्प प्रिरु चेय्यवुम्. लन्निपातन्कर्मील इतु मुरेयाकुम्. मातवीयत्तिल इतर्कु व्याक्यानम् इव्वितम् चेय्यप्पट्टु उल्लतु — “पुर्वकस्य = मुक्यगुणं प्रितावुक्कु, तवीत्येस्य = प्रितावुक्कुत्तत्त लोक्षात् मातावुक्कु, तरुत्येस्य = अवरुक्ककुत्तत्त लपत्तन्नै मातावुक्कु” ऎन्ऱु.

ஏவं ச — நैகत्र दिवसे श्राद्धत्रयं जात्वपि विद्यते इति
निषेधः मातापितृव्यतिरिक्तश्राद्धसंपातविषयः । दम्पत्योः सह
संस्कारो मृतावनुमृतावपि । उदकादिसपिण्डवन्तं प्रेतकार्याणि
यान्यपि । कुर्यात् समानतन्त्रेण सांबत्सरिकमेव च इति
सञ्चातमरणानुमरणविषये सांबत्सरिकस्य समानतन्त्रत्व-
स्मरणमापद्विषयम्, एकचित्यां समारुद्ध मृतयोरेकबहिषि । पित्रोः
पिण्डान् पृथगदद्यात् पिण्डं वाऽपत्सु तत्सुतः इत्यग्निस्मरणात् ।
पिण्डमित्येकोदिष्टाभिप्रायम्, अनापदि तु पृथगेन कार्यम्, अन्यथा
- पृथक् श्राद्धं तयोः कुर्यात् इति पूर्वोक्तसमृतिविरोधः स्यात् ।

இவ்விதம் இருப்பதால் 'ஒரு நாளில் மூன்று ச்ராத்தம்
என்பது இல்லை' என்று மாதா பிதாக்களைத் தவிர்த்த
மற்றவரின் ச்ராத்தங்களின் சேர்க்கையைப் பற்றியது.
'தம்பதிகளைச் சேர்த்து ஸம்ஸ்காரத்தை ஸங்காத
ம்ருதியிலும், அனும்ருதியிலும் செய்ய வேண்டும்.
உக்கானம் முதல் ஸபின்மகரணம் வரையில் உள்ள ப்ரேத
கார்யங்களையும் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டும்.
ஸாம் வத்ஸரிக ச்ராத்தத்தையும் சேர்த்துச் செய்ய
வேண்டும்' என்று ஸங்காத மரண விஷயத்திலும்,
அனுமரண விஷயத்திலும் ஸாம் வத்ஸரிக ச்ராத்தத்தைச்
சேர்த்து செய்யச் சொல்லியது ஆபத்விஷயம் ஆகும். 'ஒரு
சிதையில் அன்வாரோஹனத்தால் இறந்த மாதா
பிதாக்களுக்கு ஒரே தர்ப்பத்தில் பிண்டங்களைத்
தனித்தனியாய்க் கொடுக்க வேண்டும். ஆபத்தில்
பிண்டத்தையும் சேர்த்துச் செய்யவும். மூலத்தில் உள்ள
பிண்டம் என்பதற்கு ஏகோத்திஷ்டம் என்று பொருள்.
ஆபத்தில்லாத விஷயத்திலோ வெனில் தனியாகவே
செய்ய வேண்டும். இல்லாவிடில் 'அவர்களுக்குத் தனியே
ச்ராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும்' என்று முன் சொல்லிய
ஸ்மருதிக்கு விரோதம் வரக்கூடும்.

एवं च पित्रोः सञ्चात्मरणेऽनुमरणे च सपिण्डीकरणान्तं सह कुर्यात् तदुत्तरभाविश्राद्धं सर्वं पाकैक्षेन पृथक् कुर्यादिति निर्णयः ।

अवृवितम् इरुप्पत्तालं माता पिताक्कलीनं लंगकात् मरणत्तिलुम्, अनुमरणत्तिलुम्, लपिण्णमकरणम् मृद्युम् वररयिलं चेर्त्ततुच चेय्यवुम्. अतर्तु मेंपट्टं चरात्तन्कलं लंगलावर्त्तरेयुम् ओरो पाकत्तालं तनीये चेय्यवुम् लंपतु लित्तान्तम्.

सपिण्डानां श्राद्धसन्निपाते विधिः ।

सपिण्डानां सहमरणे श्राद्धसम्पाते क्रद्यशृङ्खः — भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । सम्बन्धासत्तिमालोच्य तत्क्रमात् श्राद्धमाचरेत् इति । मरणक्रमपरिज्ञाने तु तत्क्रमादेव कुर्यात् पद्मीभात्तसुतादीनां सपिण्डानां यदि क्रमात् । सञ्चात्मरणं तत्र तत्क्रमात् श्राद्धमाचरेत् इति स्मरणात् । क्रद्यशृङ्खश्च — कृत्वा पूर्वं मृतस्यादौ छ्रितीयस्य ततः परम् । पुनस्तृतीयस्य तथा सन्निपाते त्वयं क्रमः इति ।

लपिण्णटर्कलीनं चरात्तन्कलं चेर्न्त्तालं वित्ती.

लपिण्णटर्कलीनं लंगकात् मरणत्तिलं चरात्तन्कलं चेर्न्त्त विष्यत्तिलं, रुच्यस्त्रुंकर्कः— लपिण्णटर्कलुक्कु लंगकात् मरणम् एन्पट्टु चरात्तन्कलं ओन्ऱु चेर्न्त्तालं लम्पवन्त् लरामीप्यत्तेत आलोकित्तु, अन्त करममाय चरात्तत्तेतस चेय्यवुम्. मरण करमम् तेरीन्त्तालो वेवलीलं अन्त करमत्तालेये चरात्तत्तेतस चेय्यवुम्, 'पत्नी, प्रराता, पुत्रन् मुत्तलान् लपिण्णटर्कलुक्कु करममाय लंगकात् मरणम् एन्पट्टालं अवृविष्यत्तिलं मरण करमत्तेत अनुलित्ततु चरात्तत्तेतस चेय्यवुम्' लंरु लम्गुक्ति इरुप्पत्तालं, रुच्यस्त्रुंकरुमः— मुत्तलीलं इरन्तवल्लुक्कु मुन्पु चेय्तु पिऱ्कु इरण्णटावत्ताय

இறந்தவனுக்குச் செய்து, பிறகு மூன்றுமவனுக்குச் செய்யவும். ச்ராத்த ஸன்னிபாதத்தில் இது க்ரமமாகும்.

पार्वणैकोद्दिष्टयोः सन्निपाते जाबालिः — यद्येकत्र भवेतां वै
एकोद्दिष्टं च पार्वणम् । पार्वणं त्वभिनिर्वर्त्य एकोद्दिष्टं समाचरेत्
इति । भ्रात्रे भगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातुलाय च । मित्राय गुरवे
श्राद्धमेकोद्दिष्टं न पार्वणम् इत्यादिभिर्विहितस्यैकोद्दिष्टस्य पुत्रः
पौत्रः प्रपौत्रश्च दौहित्रो दुहिता सुषा ! दम्पती च क्रमादेते श्राद्धं
कुर्यात्तिपूरुषम् इत्यादिभिर्विहितस्य पार्वणस्य च सन्निपाते पार्वणं
कृत्वा तत एकोद्दिष्टं कुर्यादित्यर्थः ।

பார்வணமும் ஏகோத்திஷ்டமும் சேரும் விஷயத்தில், ஜாபாலி:— ‘ஒரு நாளில் பார்வணமும் ஏகோத்திஷ்டமும் சேரும் விஷயத்தில், பார்வணத்தைச் செய்து முடித்து, ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும்’ என்றார். ‘ப்ராதா, பகினீ, புத்ரன், ஸ்வாமி, மாதுலன், மித்ரன், குரு இவர்களுக்கு ஏகோத்திஷ்டமாய் ச்ராத்தத்தைச் செய்யவும். பார்வணமாய்ச் செய்யக் கூடாது’ என்பது முதலிய வசனங்களால் விழிதமான ஏகோத்திஷ்டத்திற்கு, ‘புத்ரன், பெளத்ரன், ப்ரபெளத்ரன், தெளஹித்ரன், பெண், நாட்டுப் பெண், தம்பதிகள் என்ற இவர்கள் 3-புருஷர்களை உத்தேசித்த பார்வண ச்ராத்தத்தை செய்ய வேண்டும்’ என்பது முதலிய வசனங்களால் விழிதமான பார்வண ச்ராத்தத்திற்கும் சேர்க்கை ஏற்பட்டால் பார்வணத்தை முன்பு செய்து, பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பது பொருள்.

आद्यैकोद्दिष्टदिवसे कर्ता स्वदेयश्राद्धमागतमन्तरितं च न
कुर्यात्, एकोद्दिष्टस्य दिवसे सपिण्डीकरणं विना । श्राद्धं कुर्यात्
पितृक्रोधात् क्षयमाप्नोति सन्ततिः इति स्मरणात् । एकादशदिने
एकोद्दिष्टव्यतिरिक्तश्राद्धान्तरं यदि कुर्यात् तदा दोषः,

**विषयविशेषैकादशाहविहितं सपिण्डीकरणं तत्पूर्वभावि च
षोडशश्राव्यमेकोद्दिष्टदिवसे कुर्यादित्यर्थः ।**

ஆத்ய ஏகோத்திஷ்டத்தின் தினத்தில் கர்த்தா, தான் செய்ய வேண்டிய ச்ராத்தம் அன்று ப்ராப்தம் ஆனாலும், ஆசௌசத்தில் அந்தரிதம் ஆலைலும் அதைச் செய்யக் கூடாது. ‘ஏகோத்திஷ்ட தினத்தில் ஸபின்ஷகரணத்தைத் தவிர்த்து, மற்ற ச்ராத்தத்தைச் செய்தால், பித்ருக்களின் க்ரோதத்தால் குலம் கூடியத்தை அடையும்’ என்று ஸம்ருதி இருப்பதால். 11-ஆவது தினத்தில் ஏகோத்திஷ்டத்தைத் தவிர்த்த வேறு ச்ராத்தத்தைச் செய்தால் அப்பொழுது தோஷம் உண்டு. ஆனால் விஷய பேதத்தால் 11-ஆவது நாளில் விதிக்கப்பட்ட ஸபின்ஷகரணத்தையும், அதற்கு முன்பு உள்ள ஓஷாடச ச்ராத்தத்தையும் ஏகோத்திஷ்ட தினத்தில் செய்யலாம் என்பது பொருள்.

अत्र केचिदाहुः — एकोद्दिष्टान्तं एव स्यात् संस्कर्तुः शुद्धता
त्वधात् इति संस्कर्तुरिकोद्दिष्टानन्तरं शुद्धिस्मरणात् कार्ये प्रत्याबिद्के
श्राद्धे त्वन्तरा मृतसूतके । आशौचानन्तरं कार्यमिति
वासिष्ठभाषितम् इत्याशौचानन्तरमेव तत्करणविधानात् एकोद्दिष्टं
कृत्वा तस्मिन्नेव दिने कुर्यात् इति । तदसाधु, एकोद्दिष्टस्य दिवसे
सपिण्डीकरणं विना इत्यनेन पूर्वोक्तेन एकोद्दिष्टदिनमात्रे
श्राद्धान्तरनिषेधप्रतीतेः ।

இவ்விஷயத்தில் சிலர் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர்:— ‘ஏகோத்திஷ்டம் முடிந்தவுடன் ஸம்ஸ்கர்த்தாவுக்கு ஆசௌசத்தினின்றும் சுத்தி ஏற்படும்’ என்று, ஏகோத்திஷ்டத்திற்குப் பிறகு சுத்தி விதிக்கப்பட்டு இருப்பதால், ‘ப்ரத்யாப்திகம் செய்ய வேண்டி இருக்க நடுவில் மரண ஜநநாசளசம் நேர்ந்தால் அதை ஆசௌசத்திற்குப் பிறகு செய்ய வேண்டும்’ என்று

வளிஷ்டர் சொன்னார் என்று ஆசௌசம் முடிந்த உடனேயே ச்ராத்தத்தைச் செய்யும்படி விதி இருப்பதால், ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்து, அதே தினத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று. அது ஸாது அல்ல. 'ஏகோத்திஷ்டஸ்யதிவலே ஸபின்ஷகரணம் விநா' என்று முன் சொல்லிய இந்த வசனத்தால், ஏகோத்திஷ்ட தினம் முழுவதிலும் மற்ற ச்ராத்தம் கூடாது என்பது தோன்றுவதால்.

யतு — எகாடஶேऽஹி ஸம்பாஸே ஹேகோஹிஷே ச பார்ணே । கृत्वा तु
பार्वणश्राद्धमेकोहिष्टं समाचरेत् इति । தदपि — ஏகோஹிஷாந்த ஏவ
स्यात् इत्युक्तानेक स्मृतिविरोधात् शिष्टाचाराभावाच्च उपेक्ष्यम् ।

ஆனால் - “11-ஆவது நாளில் ஏகோத்திஷ்டமும் பார்வணமும் நேர்ந்தால், பார்வணத்தைச் செய்து, பிறகு ஏகோத்திஷ்டத்தைச் செய்யவும்” என்ற வசனம் உள்ளதே எனில், அதுவும், ‘ஏகோத்திஷ்டாந்த ஏவ ஸ்யாத்’ என்று சொல்லப்பட்ட அநேக ஸ்ம்ருதிகளுக்கு விருத்தமாய் இருப்பதாலும், சிஷ்டாசாரம் இல்லாததாலும், உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது ஆகும்.

அத ஏவ பிதுமேघஸரகृத् — ஦ாக்ஸ்து ஸ்வदேயே ஶ்ராத்மந்தரிதं ஦ாதஶாஹ ஏவ குர்ச்சைகாதஶாஹே । தत्र ஶுद்஧சமாவானிஷே஧ாச் இதி । தேவைத்தால்யாதம् — அந்தரிதமாகாத் ச ஸ்வதேயே ஶ்ராத் ஦ாதஶாஹ ஏவ குர்யாத் । ஸபிண்டிகரணந்து ஸாவகாஶத்வாத् த்ரயோதஶாஹாவை குர்யாத் இதி । யது — ஦ாக்ஶேऽஹனி ஸம்பாஸே பார்ணே ச ஸபிண்ணனே । பார்ண ப்ரथம் கृत्वा பश्चात् குर्यात् ஸபிண்ணனम् । இதி, எதदேவं வ्यாசக்ஷதே — பார்ண ப்ரಥம் - பூர்வினே கृத्वा, பஶ्चாத् — த்ரயோதஶாஹினே ஸபிண்ணன் குர்யாத் இதி ।

பித்ருமேதஸாரகாரரார்:- ‘தாலுகன், தான் செய்ய வேண்டியதும், ஆசௌசத்தில் அந்தரிதமாயும் உள்ள

ச்ராத்தத்தை 12-ஆவது நாளிலேயே செய்ய வேண்டும். 11-ஆவது நாளில் செய்யக் கூடாது. அன்று சுத்தி இல்லாததாலும், நிஷேதம் இருப்பதாலும்' என்றார். அவராலேயே இது வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. "அந்தரிகமாகவோ, அன்றைய தினத்தில் ப்ராப்தமாகவோ உள்ள தன்னால் செய்யப்பட வேண்டிய ச்ராத்தத்தை 12-ஆவது நாளிலேயே செய்ய வேண்டும். ஸபின்மைகரணத்தையோ வெனில் ஸாவகாசம் ஆகியதால், 13-ஆவது நாள் முதலிய காலத்தில் செய்ய வேண்டும்" என்று. ஆனால், '12-ஆவது நாளில் பார்வணமும் ஸபின்டனமும் சேர்ந்தால், பார்வணத்தை முன்பு செய்து, பிறகு ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும்' என்று வசனம் உள்ளதே ? எனில், இதற்கு இவ்விதம் வ்யாக்யானம் செய்கின்றனர். 'பார்வணம் ப்ரதமம் = பார்வணத்தை முதல் நாளில் செய்து, பச்சாத் = 13-ஆவது தினத்தில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்யவும்' என்று.

அந்யே த்வாஹ: — ஢ாடஶாஹ ஸபிண்டன் கृत्वा த்ரயोदஶேऽஹி அந்தரிதம் ஢ாடஶாஹபாஸ் ச ப்ரத்யாங்கிக்கு கர்த்தியம्, நாஸபிண்டிகுதே ப்ரேதே பிதூகார்ய் ப்ரவர்த்தே | ஸபிண்டிகரண் கृத்வா குர்ய்து பித்ரிய சூதானி ச இதி ஸ்மரணாத् | ஸ்முத்யந்தரே — அகृத்வா ப்ரேதகார்யாணி நித்யநைமித்திகாந்யபி | ந குர்ய்த்தாவதாஶௌசீஂ யாவத் ப்ரேதல்மோக்ஷணம् இதி |

‘மற்றவரோ வெனில் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர் — '12-ஆவது நாளில் ஸாபின்ட்யத்தைச் செய்து, 13-ஆவது நாளில், அந்தரிதமாகவாவது, அன்றே ப்ராப்தமாகவாவது உள்ள ப்ரத்யாப்திகத்தைச் செய்ய வேண்டும். 'ப்ரேதனுக்கு ஸாபின்ட்யம் ஆகாத வரையில் பித்ருகார்யத்தைக் செய்யக் கூடாது. ஸபின்மைகரணத்தைச் செய்த பிறகு பித்ரு கார்யத்தையும், சுபகார்யங்களையும் செய்ய வேண்டும்' என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்' என்று. மற்று ஸ்ம்ருதியில்:—

ப்ரேத கார்யங்களைச் செய்யாவிடில் நித்யகர்மங்களையும், நெமித்திக கர்மங்களையும் செய்யக் கூடாது. ப்ரேதத் தன்மை போகும் வரையில் ஆசௌசம் இருப்பதால்.

तथा — ग्रहणे तु द्वितीयेऽहि रजोदृष्टौ तु पञ्चमे । त्रयोदशेऽहि मृतके जन्मन्येकादशेऽहनि इति । ग्रहणे तु द्वितीयेऽहि रजोदृष्टौ तु पञ्चमे इत्यननयोर्बिषयोऽग्रे वक्ष्यते । मृतके - मरणाशौचे, अन्तरितं त्रयोदशेऽहि कुर्यात्, जननाशौचे त्वेकादशे कुर्यादित्यर्थः । न च वाच्यम्, त्रयोदशेऽहि मृतके इत्येतन्महागुरुपितृसंस्कर्त्-विषयम्, उत्पाद्य पुत्रं संस्कृत्य वेदमध्याप्य यः पिता । कुर्याद्वृत्तिं च नष्टेऽस्मिन् द्वादशाहं महागुरौ इति वचनेन तत्र द्वादशाहमाशौचस्मरणात् इति । पूर्वपिरपर्यालोचनया मृतके च त्रयोदशे इत्यंशस्याप्यन्तरितश्राद्धमात्रविषयत्वप्रतीतेः महा गुरुविषये त्रयोदशेऽहि सापिण्डचे इत्युक्तन्यायेन चतुर्दशादिन एव अन्तरितश्राद्धकरणस्य युक्तत्वाच्च । एवं च द्वादशाहसपिण्डीकरण-विषयेऽन्तरितं श्राद्धमेकोद्दिष्टदिने सपिण्डीकरणदिने वा प्राप्तं च त्रयोदशेऽहि कर्तव्यम् ।

அவ்விதமே:- க்ரஹணத்திலானால் 2-ஆவது நாளிலும், ரஜோதர்சம் ஆனால் 5-ஆவது நாளிலும், மரண ஆசௌசம் ஆனால் 13-ஆவது நாளிலும், ஜநந ஆசௌசம் ஆனால் 11-ஆவது நாளிலும், (செய்ய வேண்டும்.) ‘க்ரஹணைதுத்விதியேற்னி ரஜோத்ருஷ்டெளதுபஞ்சமே’ என்ற இவ்விரண்டிற்கும் விஷயம் மேலே சொல்லப்படுகிறது. ம்ருதகே = மரண ஆசௌசத்தில் அந்தரிதமான ச்ராத்தத்தை 13-ஆவது நாளில் செய்யவும். ஜநந ஆசௌசத்தில் அந்தரிதமான ச்ராத்தத்தை 11-ஆவது நாளில் செய்யவும் என்பது பொருள். ‘த்ரயோதசேஷனிம்ருதகே’ என்றது, மஹா குருவான பிதாவை ஸம்ஸ்கரித்தவனைப் பற்றியது, ‘புத்ரனைப் பெற்று,

उपनयनम् चेयत्, वेवत्तंतेकं कर्त्रपीत्तु, वंगुत्तियेयम् कर्त्रपीत्त पिता एव गेऽ, महा कुरुवाक्य अवनं मरीत्तालं 12-नारौ आ चेसाचम्' एन्ऱु स्मंगुति इगुप्पतालं' एन्ऱु मं चेसालं लक्ष्मटा तु. मुन्पुम् पिन्पुम् उल्लवेकलौ आ लेलोचित्तालं 'मंगुत्त केच त्रयेऽत्तेश' एन्ऱु पाकमुम् अन्तरीत चरात्तत्तेतये पर्नरीयतु एन्ऱु तेऽन्ऱु वतालं. महा कुरु विष्यम् एन्ऱु पक्षुत्तिलं, 13-आ वतु नालीलं लापिण्णं यम् चेयत्तालं, चेसालं लिय / न्यायत्तालं 14-आ वतु नालीले ये अन्तरीत चरात्तत्तेतास् चेयत् तु युक्तम् आकुम् आत्तलालुम्, 'इवं वितम् इगुप्पतालं, 12 वतु नालीलं लपिण्णं लकरणम् चेयं यम् विष्यत्तिलं अन्तरीतमानं चरात्तम् अल्लतु एकोत्तिष्ठति तिनत्तिलो, लपिण्णं लकरणं तिनत्तिलो प्रराप्तमानं चरात्तम् एतु वायिनुम् अतेत 13-आ वतु नालीलं चेयं यवम्.

एतदेवाभिप्रेत्य स्मृत्यन्तरम् — आशौचं द्वादशाहान्तं न कुर्यादिवतार्चनम्। न कुर्यात् पितृकार्याणि दानं होमं जपं तथा इति । त्रिपक्षादौ सपिण्डीकरणविषये तु अन्तरितं श्राद्धं द्वादशाहे कार्यम् । द्वादशाहादिषु सपिण्डीकरणं पर्यन्तदिनेषु च प्राप्तं पित्रोः प्रत्याबिदकं यथातिथ्येव कर्तव्यम् । ननु, अकृत्वा प्रेतकार्याणि नित्यनैमित्तिकान्यपि । न कुर्यात्तावदाशौचं यावत् प्रेतत्वमोक्षणम् । इति सपिण्डीकरणपर्यन्तं कर्माधिकारित्वस्मरणात् कथं तत्र पितृश्राद्धमिति चेन, तस्य पितृश्राद्धव्यतिरिक्तकर्मनिषेधपरत्वात् ।

इवं वितम् अपि प्ररायत्तु तेन ये, औरं लंगं गुति:— 'आ चेसाचम् 12-नारौ वरयिलं उल्लवतु. अतु वरयिलं तेवारं स्त्रानम्, पितृं कारं यन्कलं, तानम्, लेहामम्, ज्ञपम् इवेकलौ चेयं यक्षमटा तु. 3-आ वतु पक्षम् मुतविय कालत्तिलं लपिण्णं लकरणम् चेयं यम् विष्यत्तिलो वेलीलं, अन्तरीतमानं चरात्तत्तेत

12-ஆவது நாளில் செய்ய வேண்டும். 12-ஆவது நாள் முதல் ஸபின்மைகரண தினம் வரையில் உள்ள தினங்களில் ப்ராப்தமான மாதா பிதாக்களின் ப்ரத்யாப்திகத்தை அந்தத் திதியிலேயே செய்ய வேண்டும். ப்ரேத கார்யங்களைச் செய்யாமல், நித்ய நெமித்திக் கர்மங்களைச் செய்யக் கூடாது, ப்ரேதத்வம் போகும் வரையில் ஆசௌசம் உண்டு, என்று ஸபின்மைகரணம் வரையில் கார்யங்களில் அதிகாரம் இல்லை என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால் எப்படி ஆசௌசத்தில் ச்ராத்தம்? எனில் அது இல்லை. அந்த வசனம் பிதரு ச்ராத்தத்தைத் தவிர்த்த கர்மங்களின் நிவேஷத்தில் தாத்பர்யம் உள்ளதாகியதால்.

तथा च स्मृत्यन्तरे — नासपिण्डीकृतेः पित्रोरन्येषां
श्राद्धमाचरेत् । नित्यं नैमित्तिकं काम्यमिष्टापूर्तादिकञ्च न ।
मासिकान्याबिदकं पित्रोरशुद्धोऽप्यौरसः सुतः । कुयदिव तिथि
प्राप्तमिति शातातपोऽब्रवीत् ॥ आसपिण्डीकृतेरित्यभिविधावा-
कारः, पित्रोः सपिण्डीकरणपर्यन्तमन्येषां प्रत्याबिदकं न कुर्यात्,
मातापित्रोरन्यतरस्य प्रत्याबिदकमन्यतरसापिण्डचात् पूर्व
कुर्यादित्यर्थः । एवं च, पितृसपिण्डनानन्तरमन्येषां प्रत्याबिदक
श्राद्धं कर्तव्यमित्युक्तं भवति ।

ஓர் ஸ்ம்ருதி:— ‘மாதா பிதாக்களின் ஸபின்மைகரணம் முடியும் வரையில் மற்றவர்களுக்கு ச்ராத்தத்தைச் செய்யக் கூடாது. நித்யம், நெமித்திகம், காம்யம், இஷ்டம், பூர்த்தம் முதலியதையும் செய்யக் கூடாது. ஒளரல் புத்ரன் அசுத்தனையினும், மாதா பிதாக்களின் மாலிகங்களையும், ஆப்திகத்தையும், அந்தந்தத் திதியில் செய்யவே வேண்டும் என்றுர் சாதாதபர்’ என்று உள்ளது. இதில் மூலத்தில் உள்ள ‘ஆஸபின்மைக்ருதே:’ என்பதில் உள்ள ‘ஆ’ காரம் அபி விதியில். மாதா பிதாக்களின் ஸபின்மைகரணம் முடியும் வரையில், மற்றவர்க்கு ப்ரத்யாப்திகத்தைச் செய்யக்

கூடாது. மாதா பிதாக்களுள் ஒருவரின் ப்ரத்யாப்திகத்தை மற்றொருவரின் ஸாபின்ட்யத்திற்கு முன்பு செய்யவும் என்பது பொருள். இவ்விதம் இருப்பதால், மாதா பித்ரு ஸாபின்ட்யத்திற்குப் பிறகு மற்றவர்க்கு ப்ரத்யாப்திக சராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியதாய் ஆகின்றது.

यत्तु देवलवचनम् — पितरौ प्रमीतौ यस्य
देहस्तस्याशुचिर्भवेत् । न दैवं नापि पित्र्यं च यावत् पूर्णे न वत्सरः
इति तत्र पित्र्यशब्देनान्येषां सापिण्ड्यमुच्यते, पित्रोर्मृताब्दे
चान्येषां वत्सरान्ते सपिण्डनम् इति स्मरणात् ।
एतच्चाधस्तान्निरूपितम् । यत्र देवतैक्यं तत्र काम्यानुष्ठानान्नित्यं च
श्राद्धं प्रसङ्गात् सिध्यति, काम्यतन्वेण नित्यस्य तन्वं श्राद्धस्य
सिद्धच्चति । स्यादेकत्वं तु निर्देशादेवतैक्यं भवेद्यदि इति स्मरणात् ।
(उभयोद्देशेन सकृदनुष्ठानं तन्त्रम् । अन्योद्देशेन अन्यदीयस्यापि
सहानुष्ठानं प्रसङ्गः । तन्यते - बहूनामुपकारो येन सकृत् प्रवर्तितैन
तदिदं तन्त्रम्, तद्यथा — बहूनां ब्राह्मणानां मध्ये कृतः प्रदीपः
तेषामुपकरोति । नत्वनुलेपेन भोजनादिवत् प्रतिपुरुषमावृत्तिलक्षण-
मावापमपेक्षते ।) तथा च कालादर्शे— देवतैक्ये तु काम्यानुष्ठानात्
नित्यं च सिध्यति इति ।

ஆனால், தேவலரின் வசனம்:— ‘எவனது மாதா பிதாக்கள் இறந்தனரோ, அவனது தேஹும் அசுத்தம் ஆகியுள்ளது. ஆகையால் தைவ கார்யம், பிதர்ய கார்யம் இவைகளை அவன் செய்யக் கூடாது, வர்ஷம் முடியும் வரையில்’ என்று உள்ளதே? எனில், அந்த வசனத்தில் உள்ள ‘பிதர்ய’ சப்தத்தால் மற்றவர்களின் ஸாபிண்ட்யம் சொல்லப்படுகிறது, ‘மாதா பிதாக்களின் ம்ருதி வர்ஷத்தில், அன்யர்களின் ஸாபிண்ட்யத்தை வர்ஷாந்தத்தில் செய்யவும்’ என்று ஸ்மருதி இருப்பதால்.

இதைப் பற்றிக் கீழேயே சொல்லப்பட்டு உள்ளது. எந்த இடத்தில் தேவதைகள் (உத்தேசயர்கள்) ஒன்றுய் இருக்கின்றனரோ அந்த இடத்தில், காம்ய ச்ராத்தத்தை அனுஷ்டிப்பதால், நித்யமான ச்ராத்தமும் ப்ரஸங்கத்தால் வித்திக்கின்றது. 'காம்ய ச்ராத்தம் செய்வதாலேயே நித்ய ச்ராத்தானுஷ்டானமும் வித்திக்கின்றது. தேவதைகள் (உத்தேசயர்கள்) ஒருவரே யாகில் ஒன்றே போதும், அவ்விதம் சாஸ்தரம் இருப்பதால்' என்று ஸ்மருதி இருப்பதால். அவ்விதமே, காலாதார்சத்தில்:— 'தேவதைகள் (உத்தேசயர்கள்) ஒருவரே யாகில், காம்யத்தின் அனுஷ்டானத்தால் நித்யமும் வித்திக்கின்றது' என்று உள்ளது.

இதி ஸ்மृதி முக்தாபலே

ஶாஞ்சகாண்டஸ்ய பூர்வமாக: ஸமாஸ:

ச்ராத்த காண்டத்துக்கின்
பூர்வபாகம் முற்றிற்று.

Lasertypeset & Printed at :
V.K.N. ENTERPRISES
Mylapore, Chennai-4, Ph: 9840217036